

प्रकाशक : चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी

मुद्रक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी

संस्करण : प्रथम, वि० संवत् १०११

मूल्य

© The Chowkhamba Vidya Bhawan,
Chowk, Varanasi-1

(INDIA)

1962

Phone 3076

THE
VIDYABHAWAN RASHTRABHASHA GRANTHAMALA 46

VEDIC INDEX
OF
NAMES AND SUBJECTS

BY

ARTHUR ANTHONY MACDONELL, M A, PH D.

BODEN PROFESSOR OF SANSKRIT IN THE UNIVERSITY OF OXFORD,
FELLOW OF BALLIOL COLLEGE; FELLOW OF THE BRITISH ACADEMY

AND

ARTHUR BERRIEDALE KEITH, M. A, D. C L

FORMERLY SCHOLAR OF BALLIOL COLLEGE AND BODEN SANSKRIT
SCHOLAR; SOMETIME ACTING DEPUTY PROFESSOR OF
SANSKRIT IN THE UNIVERSITY OF OXFORD

HINDI TRANSLATION

By

RAM KUMAR RAI, M A L B

DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY,
BANARAS HINDU UNIVERSITY.

VOL. II.

VARANASI

THE CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN

1962.

संकेत-सारणी

- अ० फा० American Journal of Philology.
- आ० गे० Allgemeine Geschichte der Philosophie
- अ० स० Avesta, Pehlvi and Ancient Persian Studies in Honour of the late Shamsululema Dastur Peshotanji Behramji Sanjana (Strassburg und Leipzig, 1904),
- अ० फि० American Journal of Philosophy.
- आ० जे० Altarisches Jus Gentium.
- आ० स्ना० Altindisches Zauber-ritual.
- आ० रे० Archiv fur Religionswissenschaft.
- आ० रे० गे० Altdeutsches Reichs und Gerichtsverfassung
- आ० सि० Altarisches Jus Civile
- इ० आ० Indische Alterthumskunde
- इ० फौ० Indogermanische Forschungen
- उ० पु० Op. cit (उद्धृत पुस्तक)
- उ० स्था० loc. cit (उद्धृत स्थान)
- ऊ० ऋ० Uber Methode bei Interpretation des Rigveda
- ऊ० ज्यो० Uber den kedakalender namens Jyotism (1862)
- ऊ० फौ० Uber die neusten Arbeiten auf dem Gebiete der Rgveda forschung
- ऊ० बौ० Uber das rituelle Sutra des Baudhayana
- ए० ओ० Actes do onzieme congress International des Orientalistes
- ए० चा० Etudes sur l'astronomie Indienne et l'astronomie Chinoise
- ए० नि० Erlauterungen Zum Nirukta
- ए० रि० Episches im vedischen Ritual
- ए० वे० Etude sur la geographie du Veda
- औ० क० Ostiranische Kultur और वाद et. seq.
- गे० आ० Geschichte des Altertums
- गे० लि० Geschichte der indischen Litteratur
- गो० Gottingische Gelehrte Anzeigen
- ज० अ० ओ० सो० Journal of the American Oriental Society
- ज० ए० सो० Journal of the Royal Asiatic Society
- टु० क० Tubinger kath Handschriften

- द्रा० ए० Transactions of the
 Berlin Academy
 द्रा० सा० Transactions of the
 Connecticut Academy of
 Arts and Sciences
 द्रा० सो० Transactions of the
 Cambridge Philological
 Society
 डा० इ० Das Würfelspiel im
 alten Indien
 डा० चौ० Das altindische Neu
 und Vollmondsapfer
 डा० हो० Das altindische Hoch-
 zeitsrituell
 ही० इ० Die Literature des alten
 Indien
 ही० इन्ह० Die Gottesurtheile der
 Inder (1866)
 ही० ऋ० Die Apokryphen des
 Rgveda
 ही० गे० Die königliche Gewalt
 nach den altindischen
 Rechtsbüchern
 ही० गे० व० Die Nachrichten des
 Rig und Atharvaveda über
 Geographie, Geschichte
 und Verfassung des alten
 Indien,
 ही० गो० Die Arischen Götter-
 gestalten
 ही० ग्ली० Die Social Gliederung
 ही० न० Die vedischen Nachri-
 chten von den Naxatra,
 1861
 ही० वे० Die altindischer Todten
 und Bestattungsgebrauche
 डी० व० Die Indogermanischen
 Verwandtschaftsnamen
 ड० वे० De la Valla Poussin, Le
 Vedisme
 डी० वो० De ceremonia apud
 Indos quæ Jātakarma
 Vocatur
 डी० ह० Die Iubinger kath-
 Handschriften
 डी हे० Die Herabkunft des
 Feuers und des Gottertranks
 डी० हो० Die Hochzeits-gebrauche
 der Esten, Berlin, 1888
 तु० की० Cf. (तुलना कीजिये)
 स्त्री० Zeitschrift
 स्त्री० इ० Zeitschrift ur Ethno-
 logie
 स्त्री गे० Zeitschrift der Deuts-
 chen Morgenlandischen
 Gessellschaft
 स्त्री स्प्रे० Zeitschrift für verg-
 leichende Sprachforschung
 स्त्रु० वे० Zur Litteratur und
 Geschichte des Weda
 स्त्रवे० Zwei Handschriften der
 K. K. Hofbibliothek in
 wien mit Frgmenten des
 kathak
 न० गो० Nachrichten der könig-
 lichen Gessellschaft der
 Wissenschaften zu Göttin-
 gen 1909
 प्रो० अ० Proceedings of the
 Berlin Academy
 प्रो० सो० Proceedings of the
 American Oriental Society

- | | |
|---|--|
| फे० Festus apud Panlum
Dinconum | ल० इ० Les castes dans l' Inde
(1896) |
| फे० बो० Festgruss an Boehlingk | ल० रो० Les institutions uridi-
ques des Romains. |
| फे० रौ० Festgruss an Roth | ले० Les livres VIII et IX de l'
Atharvaveda |
| फे० वे० Festschrift an Weber
(Gurupuja Kaumudi)
Leipzig, 1896 | व० गे० Verhandlungen der drei-
unddreissigsten Versamm-
lung deutscher Philologen
und schulmanner in Gera |
| फै० प्रि० Famille et Propriete'
Primitives. | व० स्था० s v. (वर्णक्रम स्थान पर) |
| बी० Beitrage | वि० ज० Vienna Oriental
Journal |
| बी० कु० Beitrage zur indischen
Kulturgeschichte | वे० Vedachrestomathie |
| मि० मि० Mystorium und Mimus | सा० ऋ० Sieg · Die Sagenstoffe
des Rigveda |
| मि० ऋ० Mystorium und Mimus
im Rigveda | सी० ली० Siebenzig Lieder |
| रि० चा० Recherches sur l'ancien-
ne astronomie Chinoise | से० ओ० Sedillot . Mate'riaux
pour servir a' l' histoire
comparee des Sciences
Mathe'matiques par les
Grees et les Orientaun
(Paris 1845-1849) |
| रि० वे० Recherches sur l'his-
toire de la liturgie Vedique | से० बु० ई० Sacred Books of the
East |
| रि० हि० Recherches sur quel-
ques Problems d' Histoire | हि० सं० L'histoire de la Samhita |
| रे० रि० Revue de l' Histoire des
Religions | |
| रो० फौ० Romisches Forschun-
gen | |
| रो० स्टा० Romisches Staatsrecht | |

वैदिक इण्डेक्स

(वैदिक नामों और विषयों की व्याख्यात्मक अनुसूची)



पुरुष]

(०)

[पुरुष

पुरुष, अथवा पूरुष, ऋग्वेद^१ और बाद^२ में 'मनुष्य' के लिये प्रयुक्त एक जातिवाचक शब्द है। मनुष्य, अथर्ववेद^३ के अनुसार पाँच भागों से, अथवा ऐतरेय ब्राह्मण^४ के अनुसार छह भागों से, या सोलह^५, या बीस^६, या इक्कीस^७, या चौबीस^८, या पच्चीस^९, भागों से मिलकर बना है। यह सभी न्यूनाधिक काव्यनिक गणनायें ही हैं। मनुष्य, पशुओं में प्रथम^{१०}, किन्तु अनिवार्यतः एक पशु ही है (देखिये पशु)। कात्यायन श्रौत सूत्र^{११} में मनुष्य की ऊँचाई चार

^१ ७ १०४, १५, १० ९७, ४ ५ ८, १६५, ३।

^२ अथर्ववेद ३ २१, १; ५ २१, ४, ८ २, २५, ७, २, १० ३, ५१; ४, २५, १३ ४, ४२, इत्यादि, तैत्तिरीय संहिता २ १, १, ५, २, २, ८, ५ २, ५, १, इत्यादि।

^३ १० ३ १०, पञ्चविंश ब्राह्मण १४ ५, २६, ऐतरेय ब्राह्मण २ १४, ६ २९।

^४ २ ३९।

^५ शाङ्खायन श्रौत सूत्र १६ ४, १६।

^६ पञ्चविंश ब्राह्मण २३ १४, ५।

^७ तैत्तिरीय संहिता ५ १, ८, १; शतपथ ब्राह्मण १३. ५, १, ६, ऐतरेय ब्राह्मण १. १८, ऐतरेय आरण्यक १ २, ४, इत्यादि।

^८ शतपथ ब्राह्मण ६. २, १, २३।

^९ शाङ्खायन श्रौत सूत्र १६ १२, १०; शाङ्खायन आरण्यक १ १, ऐतरेय आरण्यक १. २, ४।

^{१०} शतपथ ब्राह्मण ६ २, १, १८; ७. ५, २, १७। वह पशुओं का स्वामी है, काठक संहिता २० १०।

‘अरत्ति’ बतार्ई गई है । प्रत्येक ‘अरत्ति’ दो ‘पदों’ के, और प्रत्येक ‘पद’ ञारह ‘अङ्गुलियों’ के बराबर होता है । स्वयं ‘पुरुष’ शब्द भी पहले^{१२} के ग्रन्थों में लम्बाई के एक नाप के रूप में प्रयुक्त हुआ है ।

‘पुरुष’ शब्द मनुष्य की जीवन-अवधि अथवा एक पीढ़ी के लिये^{१३}, नेत्र की ‘पुतलियों’ के लिये^{१४}, और व्याकरण-साहित्य में क्रिया के ‘पुरुष’ के लिये^{१५}, भी व्यवहृत हुआ है ।

^{११} १६ ८, २१. २५ ।

^{१२} शतपथ ब्राह्मण १ २, ५, १४; १३.
८, १, १९; तैत्तिरीय संहिता ५ २,
५, १ ।

^{१३} तैत्तिरीय संहिता २. १, ५, ५, ५ ४,
१०, ४, शतपथ ब्राह्मण १. ८, ३, ६;

‘द्वि-पुरुष’ (दो पीढियों), ऐतरेय
ब्राह्मण ८. ७; इत्यादि ।

^{१४} शतपथ ब्राह्मण १०. ५, २, ७ ८, १२.
९, १, १२; बृहदारण्यक उपनिषद् २.
३, ९ ।

^{१५} निरुक्त ७ १. २ ।

पुरुष-मृग (पुरुष-रूपी वन्य पशु) यजुर्वेद^१ में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में आता है । तिसमर^२ का यह विचार कि इससे ‘वनमानुष’ का अर्थ है, बहुत कुछ लम्भव प्रतीत होता है । आपके विचार से, अथर्ववेद^३ के दो स्थलों पर अकेले ‘पुरुष’ शब्द से भी ‘वनमानुष’ और उसके चीत्कार (मायु) का आशय है; किन्तु इस आशय की आवश्यकता नहीं, और ब्लूमफोर्ड^४ ने भी इसे स्वीकार नहीं किया है । त्रिहृत्ने^५ इसका ‘मनुष्य का चीत्कार’ अनुवाद संतोपजनक नहीं मानते क्योंकि आपके विचार में ‘मायु’ शब्द को मनुष्य द्वारा उत्पन्न किसी प्रकार की ध्वनि के लिये व्यवहृत करना उपयुक्त नहीं है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ५ ५, १५, १; मैत्रा-
यणी संहिता ३. १४, १६; वाजसनेयि
संहिता २४. ३५ ।

^२ आस्टिन्टिशे लेवेन, ८५ ।

^३ ६ ३८, ४, १९ ३९, ४ ।

^४ अथर्ववेद के सूक्त, ११७ ।

^५ अथर्ववेद का अनुवाद, ३०९ ।

पुरुष हस्तिन् (हाथवाला मनुष्य) यजुर्वेद^१ में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में आता है । इससे ‘वनमानुष’ का ही तात्पर्य होना चाहिये ।

^१ वाजसनेयि संहिता २४ २९; मैत्रायणी संहिता ३. १४, ८ ।

पुरुषेन्ति एक ऐसा नाम है जो ऋग्वेद^१ में दो स्थलों पर आता है, जहाँ प्रथम पर यह अश्विनों के एक आश्रित का द्योतक है, और द्वितीय पर एक

^१ १ ११२, ९३; ९. ५८, ३ ।

ऐसे दाता का जिसने किसी वैदिक गायक को उपहार प्रदान किये थे । दोनों ही दशाओं में यह नाम ध्वसन्ति अथवा ध्वस्त्र के साथ संयुक्त है । इन तीनों नामों का जिस प्रकार उल्लेख है, उससे यही अनुमान होता है कि यह सभी 'पुरुष' के द्योतक हैं, किन्तु व्याकरण के अनुसार इन शब्दों के रूप से स्त्रियों का भी अनुमान किया जा सकता है । यदि पञ्चविंश ब्राह्मण^२ के प्रमाण को निर्णायक माना जाय तो इनसे स्त्रियों का ही अर्थ होगा क्योंकि यहाँ इनमें से प्रथम दो नाम 'ध्वस्त्रे पुरुषन्ती' (अर्थात् 'ध्वस्त्रा' और 'पुरुषन्ति') के रूप में आते हैं जो कि केवल स्त्रीलिङ्ग हैं, यद्यपि यहाँ और अन्यत्र भी सायण^३ इन नामों की पुल्लिङ्ग के रूप में ही व्याख्या करते हैं । तरन्त और पुरुमीळ्ह भी देखिये ।

^२ १३. ७, १२ । रौथ का विचार है कि स्त्रीलिङ्ग रूप 'ध्वस्त्रे' यहाँ अष्ट है और ऋग्वेद में मिलनेवाले उस द्विवाचक रूप 'ध्वस्त्रयोः' पर आधारित है जो स्त्रीलिङ्ग भी हो सकता है और पुल्लिङ्ग भी ।

^३ ऋग्वेद ९. ५८, ३, और १. ११२, २३ पर उद्धृत शाठ्यायनक भी ।
तु० की० वेवर : ए० रि० २७,
नोट १; सीग : सा० ऋ० ६२, ६३;
औलडेनवर्ग : त्सी० गे० ४२, २३२,
नोट १ ।

पुरु-हन्मन्, ऋग्वेद^१ के एक सूक्त में किसी ऐसे ऋषि का नाम है जो ऋग्वेद अनुक्रमणी के अनुसार आङ्गिरस था किन्तु पञ्चविंश ब्राह्मण^२ के अनुसार एक वैखानस ।

^१ ८ ७०, २ ।

^२ १४ ९, २९ । तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १०७ ।

पुरु-रवस्, ऋग्वेद^१ के एक ऐसे सूक्त में किसी नायक का नाम है जिसमें इसके तथा 'उर्वशी' नामक एक अप्सरस् के बीच विचित्र वार्तालाप का विवरण निहित है । शतपथ ब्राह्मण^२ में भी इसका उल्लेख है, जहाँ ऋग्वेदिक वार्तालाप के अनेक मन्त्रों को एक क्रमवद्ध कथा की पृष्ठभूमि में व्यवस्थित कर दिया गया है । बाद के साहित्य में इसे एक राजा माना गया है ।^३ ऋग्वेद^४ के एक अन्य स्थल पर भी इसी के नाम से तात्पर्य है । विशुद्धतः और सरल

^१ १० ९५ ।

^२ ११. ५, १, १ । तु० की० ३. ४, १,
२२; काठक संहिता ८ १०, निरुक्त
१० ४६ ।

^३ देखिये गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन, १.
२८३ और वाद ।

^४ १ ३१, ४ ।

अर्थों में यह सर्वथा पौराणिक व्यक्तित्व था अथवा प्राचीन राजा, इसे निश्चित रूप से कह सकना असम्भव है। इसकी 'ऐल्टृ'^५ उपाधि ('इडा' नामक एक यज्ञीय देवी, का वंशज) निश्चित रूप से प्रथम विकल्प के ही पक्ष में है।

^५ शतपथ ब्राह्मण ११ ५, १, १।
तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन
१, १९६; मैक्स मूलर : चिप्स, ४^२,
१०९ और वाद; कुन : डी० हे० ८५

और वाद, रोथ . ए० नि० १५३;
मैकडीनेल : वैदिक माइथोलोजी, १०६,
१३५; औल्डेनवर्ग : से० बु० ई० ४६,
२८, ३२३।

पुरूरु, ऋग्वेद^१ में लुडविग^२ के अनुसार एक आत्रेय कवि का नाम है। किन्तु इस शब्द का एक मात्र उपलब्ध रूप 'पुरूरुणा' केवल क्रिया-विशेषण ही प्रतीत होता है, जिसका अर्थ 'दूर-दूर तक' है।

^१ ५ ७०, १।
^२ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १२६। तु०
की० औल्डेनवर्ग : त्सी० गे० ४२,

२१५, नोट १; ऋग्वेद-नोटेन, १,
३६०।

पुरू-वसु (सम्पत्तिशाली) लुडविग^३ के अनुसार ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर किसी आत्रेय कवि का नाम है। किन्तु यह विचार अत्यन्त सन्दिग्ध है।

^१ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १२६।
^२ ५ ३६, ३। तु० की० औल्डेनवर्ग .

त्सी० गे० ४२, २१५, नोट १, ऋग्वेद-
नोटेन, १, ३३३।

पुरो-डाश, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में यज्ञीय 'चपाती' या 'रोटी' का नाम है।

^१ ३ २८, २; ४१, ३, ५२, २, ४. २४,
५, ६ २३, ७, ८ ३१, २, इत्यादि।
^२ अथर्ववेद ९. ६, १२; १० ९, २५, १२,
८, ३५; १८ ४, २; तैत्तिरीय संहिता

२ ३, २, ८, ७ १, ९, १, वाजसनेयि
संहिता १९ ८५; २८ २३, इत्यादि।
तु० की० रिसमर : आल्टिन्डिशे
लेवेन २७०।

पुरो-घा, पुरोहित के पद का द्योतक है। अथर्ववेद^१ जैसे प्राचीन समय, तथा अक्सर वाद^२ में भी, इसके उल्लेख से ऐसा व्यक्त होता है कि यह सर्वथा मान्य और प्रचलित पद था।

^१ ५ २४, १।
^२ तैत्तिरीय संहिता २ १, २, ९, ७ ४,
१, १, तैत्तिरीय ब्राह्मण २ ७, १, २,
पञ्चविंश ब्राह्मण १३ ३, १२, ९, २७,

१५ ४, ७, ऐतरेय ब्राह्मण ७ ३१;
८ २४ २७, शतपथ ब्राह्मण ४ १,
४, ५।

पुरो-ऽनुवाक्या, यज्ञभाग ग्रहण करने के हेतु किसी भी देवता को आमन्त्रित करने के लिये प्रयुक्त सम्बोधन को व्यक्त करनेवाला पारिभाषिक शब्द है। इसके ठीक वाद याज्या आता है जो वास्तविक आहुति के समय होता था।^१ इस प्रकार के सम्बोधन, औल्डेनवर्ग^२ के अनुसार, ऋग्वेद में अज्ञात तो नहीं परन्तु दुर्लभ अवश्य हैं। वाद में यह प्रचलित हो गये थे, और स्वयं यह शब्द भी वाद की संहिताओं^३ और ब्राह्मणों^४ में आता है।

^१ औल्डेनवर्ग : रिजीजन देस वेद ३८७, ३८८।

^२ त्मी० गे० ४०, ०४३ और वाद, जो वर्णन : रि० वे० १३ और वाद के विरुद्ध हैं।

^३ तैत्तिरीय संहिता १ ६, १०, ४; २.

२, ९, २; वाजसनेयि संहिता २०. १०, इत्यादि।

^४ ऐतरेय ब्राह्मण १. ४, १७, २. १३, २६; तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ३, १, ३, शतपथ ब्राह्मण २. ५, २, २१, इत्यादि।

पुरो-रुच्, कुछ उन निविद् मन्त्रों का पारिभाषिक वर्णन है जिनका 'आज्या' में, स्तुति-सूक्त अथवा उसके किसी अंश के पूर्व, प्रातःकालीन आहुति के समय उच्चारण किया जाता था। यह वाद की संहिताओं और ब्राह्मणों^१ में मिलता है।

^१ तैत्तिरीय संहिता ६ ५, १०, १३, ७. २, ७, ४, ऐतरेय ब्राह्मण २ ३९; ३. ९, ४ ५; कौषीतकि ब्राह्मण १४. १. ४. ५, शतपथ ब्राह्मण ४ १, ३, १५;

२, १, ८; ५ ४, ४, २० इत्यादि। तु० की० हिलेब्रान्ट : रिन्नुअल लिटरेचर १०२।

पुरो-वात (पुरवा हवा) का वाद की संहिताओं और ब्राह्मणों^१ में उल्लेख है। गेल्डनर^२ का विचार है कि इससे केवल वर्षा के पूर्व चलनेवाली वायु मात्र से तात्पर्य है।

^१ तैत्तिरीय संहिता १ ६, ११, ३; २ ४, ७, १; ४ ३, ३, १; ४, ६, १; मैत्रायणी संहिता ३. १, ५, शतपथ

ब्राह्मण १. ५, २, १८; छान्दोग्य उपनिषद् २ ३, १, इत्यादि।^२ वेदिशे स्टुडियन ३, १२०, नोट २।

पुरो-हित ('सम्मुख रक्खा हुआ', 'नियुक्त') ऋग्वेद^१ और वाद^२ में

^१ १ १, १; ४४, १०. १०; ० ०४, ९, ३ ०, ८; ३, २; ५ ११, २; ६ ७०, ४, इत्यादि।

९ २३, ११. ८१, ३१. २०, ऐतरेय ब्राह्मण ८ २४, इत्यादि; निरुक्त २. १२; ७. १५।

^२ अथर्ववेद ८. ५, ५; वाजसनेयि संहिता

पौरोहित्य-कर्म करनेवाले लोगों का नाम है। पुरोहित के पद को 'पुरोहित'^३ और पुरोधा कहा गया है। यह स्पष्ट है कि पुरोहितों का प्रमुख कार्य किसी राजा, अथवा, सम्भवतः सम्भ्रान्त व्यक्ति का 'पारिवारिक पौरोहित्य' करना होता था। इनकी सर्वथा विशिष्ट स्थिति इस तथ्य द्वारा व्यक्त होती है कि वैदिक साहित्य में सदैव केवल एक ही पुरोहित का उल्लेख है।^४ ऋग्वेद में पुरोहितों के उदाहरण यह हैं : तृत्सु परिवार के भरत राजा सुदास् की सेवा में नियुक्त विश्वामित्र^५ अथवा वसिष्ठ^६; कुरुश्रवण के पुरोहित^७; और शन्तनु के पुरोहित देवापि।^८ पुरोहित सभी धार्मिक विषयों में राजा का 'द्वितीय आत्मैव' होता था। संस्कार^९ में ऐसा विधान है कि राजा को अपना पुरोहित अवश्व रखना चाहिये, अन्यथा देवगण उसकी आहुतियों को स्वीकार नहीं करेंगे। अपनी प्रार्थनाओं से पुरोहित-गण युद्ध में राजा की सुरक्षा और विजय निश्चित करते हैं;^{१०}

^३ ऋग्वेद ७. ६०, १२; ८३, ४।

^४ गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन, २, १४४, का विचार है कि अनेक पुरोहित भी सम्भव थे। इसके लिये आप ऋग्वेद १० ५७, १, पर सायण का उद्धरण देते हैं जिन्होंने शाठ्यायनक से 'गौपायनों' और राजा 'असमाति' की एक कथा का उल्लेख किया है; साथ ही पुरोहितों के रूप में वसिष्ठ और विश्वामित्र के उदाहरणों की तुलना भी करते हैं जो सम्भवतः एक समय में ही सुदास् के पुरोहित थे। किन्तु इन दोनों (वसिष्ठ और विश्वामित्र) का सामयिक होना अत्यन्त असम्भाव्य हैं, मुख्यतः उस समय तो और भी, जब हम हॉपकिन्स (ज० अ० ओ० सो० १५, २६० और वाद) का यह बहुत सम्भव विचार ग्रहण कर लें, कि विश्वामित्र उस समय दस राजाओं (ऋग्वेद ७ १८) के साथ थे जब उन लोगों ने सुदास् पर असफल आक्रमण किया था। दूसरी कथा में, जैसा कि औरडेनवर्ग . रिलीजन देस वेद ३७५,

नोट ३, में विचार व्यक्त करते हैं, एक स्पष्टतः काल्पनिक व्यक्तित्व है, जब कि सभी अन्य स्थलों पर, जिनमें किसी पुरोहित की चर्चा है, केवल एकवचन का ही प्रयोग हुआ है, और यत यज्ञ के समय केवल एक ही ब्रह्मन् कर्म-काण्डी होता था, अतः पुरोहित ही ब्रह्मन् के रूप में भी कार्य करता था।

^५ ३ ३३ ५३। तु० की० ७ १८।

^६ ऋग्वेद ७. १८ ८३।

^७ ऋग्वेद १० ३३। देखिये गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन २, १५०, १८४।

^८ ऋग्वेद १०. ९८।

^९ ऐतरेय ब्राह्मण ८. २४।

^{१०} देखिये अथर्ववेद ३ १९। ऋग्वेद ७. १८, १३ जिसके आधार पर गेल्डनर (उ० पु० २, १३५, नोट ३) ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पुरोहित सभा में प्रार्थना करता था, जब कि राजा युद्ध-भूमि में युद्ध करता था। देखिये आश्वलायन गृह्य सूत्र ३ १२ १९ २०। तु० की० पूरु, नोट २।

कृषि के लिये वर्षा कराते है;⁹¹ यह लोग वह ज्वलन्त अग्नि होते हैं जो राज्य की रक्षा करते हैं।⁹² सकट के समय दिवोदास को भरद्वाज ने बचाया था,⁹³ और राजा अ्यरुण त्रैधात्व ऐन्द्राक उस समय अपने पुरोहित की निर्भर्त्सना करते हैं जब उनके रथ के नीचे दबकर एक ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो गई थी।⁹⁴ राजा और पुरोहित का घनिष्ठ सम्बन्ध उस कुत्स औरव के दृष्टान्त से व्यक्त होता है जिसने अपने पुरोहित, उपगु सौश्रवस का इसलिये बध कर दिया था कि उसने इन्द्र की सेवा की थी क्योंकि इन्द्र के साथ स्वयं कुत्स का वैर था।⁹⁵ जनमेजय तथा कश्यपों के बीच, विश्वन्तर तथा श्यापर्णा के बीच;⁹⁶ और असमाति तथा गौपायनों के बीच⁹⁷ के विवाद राजाओं और उनके लिये कार्य करनेवाले पुरोहितों के परस्पर सवर्ष के अन्य उदाहरण हैं। कुछ दशाओं में एक ही पुरोहित एकाधिक राजाओं की भी सेवा करता था। उदाहरण के लिये देवभाग श्रौतर्ष एक साथ ही कुरुओं और शृञ्ज्यों, दोनों का पुरोहित था,⁹⁸ और जल जातूकर्ण्य भी काशि, विदेह, और कोसल के राजाओं का पुरोहित था।⁹⁹

इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि पुरोहितों का पद एक ही परिवार में वंशानुगत होता था, यद्यपि, सम्भवतः स्थिति थी ऐसी ही।¹⁰⁰ जो कुछ भी हो, राजा कुरुश्रवण और उसके पुत्र उपमश्रवस्¹⁰¹ के साथ उनके पुरोहित के सम्बन्ध द्वारा यह स्पष्ट होता है कि एक राजा अपने पिता के पुरोहित को ही नियुक्त किये रह सकता था।

⁹¹ ऋग्वेद १०. ९८।

⁹² ऐतरेय ब्राह्मण ८. २४ २५।

⁹³ पञ्चविंश ब्राह्मण १५ ३, ७।

⁹⁴ वहाँ १३. ३, १२। देखिये सीगः सा० ऋ० ६४ और वाद।

⁹⁵ वहाँ १४ ६, ८।

⁹⁶ ऐतरेय ब्राह्मण ७ २७. ३५।

⁹⁷ देखिये ऋग्वेद १० ५७, १, पर मायण द्वारा उद्धृत शाठ्यायनक, और तु० की० जैमिनीय ब्राह्मण ३ १६७ (ज० अ० ओ० सो० १८, ४१)।

⁹⁸ शतपथ ब्राह्मण २ ४, ४, ५। ऋग्वेद १ ८१, ३, पर सायण के अनुसार

राहूगणगोतम पुरोहित था, किन्तु यह एक त्रुटि के अनिर्दिष्ट और कुछ नहीं। देखिये गेल्डनरः वेदिशे स्टूडियन ३, १५२; वेबरः इन्डिशे स्टूडियन ३, ९, नोट।

⁹⁹ शाह्यायन श्रौत सूत्र १६. २९, ५।

¹⁰⁰ देखिये औड्डनेवर्गः रिलीजन टेस वेद, ३७५, जो राजा और पुरोहित के सम्बन्ध की स्थायी प्रकृति की ऐतरेय ब्राह्मण ८ २७, के सत्कार द्वारा व्यक्त पति और पत्नी के सम्बन्ध के साथ तुलना करते हैं।

¹⁰¹ देखिये ऋग्वेद १० ३३, और नोट ७।

स्मिर^{२२} का विचार है कि राजा स्वयं भी अपने लिये पौरोहित्य-कर्म कर सकता था, जैसा कि उस राजा 'विश्वन्तर' के उदाहरण से स्पष्ट है जिमने 'श्यापणों' की सहायता के बिना ही यज्ञ किया था,^{२३} और यह भी कि पुरोहितों का ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं था, जैसा कि देवापि और शन्तनु^{२४} के उदाहरण से व्यक्त होता है। किन्तु इन दोनों में से कोई भी विचार उपयुक्त नहीं प्रतीत होता। इसका कहीं भी उल्लेख नहीं कि विश्वन्तर ने बिना पुरोहित के ही यज्ञ किया था, जब कि देवापि को निरुक्त^{२५} के पूर्व राजा स्वीकार ही नहीं किया गया है, और ऐसा मानने के लिये भी कोई आधार नहीं कि निरुक्त में व्यक्त यास्क का यह विचार ठीक ही है।

गेहडनर^{२६} के अनुसार पुरोहित आरम्भ से ही यज्ञ-संस्कार के समय सामान्यतया अधीक्षक की भाँति ब्रह्मन् पुरोहित के रूप में ही कार्य करता था। अपने इस विचार की पुष्टि में आप इन तथ्यों का उद्धरण देते हैं कि वसिष्ठ का एक पुरोहित^{२७} और एक ब्रह्मन्^{२८} दोनों ही रूपों में उल्लेख हैं : शुनःशोप के यज्ञ में इसने ब्रह्मन्^{२९} के रूप में कार्य किया था, किन्तु सुदास् का पुरोहित था,^{३०} बृहस्पति को देवों का पुरोहित^{३१} और ब्रह्मन्^{३२} दोनों कहा गया है; वसिष्ठ-नाग, जो पुरोहित हैं, यज्ञ के समय ब्रह्मन् के रूप में भी कार्य करते

^{२२} आल्दिन्दिशे लेवेन १९५, १९६।

^{२३} ऐतरेय ब्राह्मण ७ २७, मूडर : सस्कृत टेक्स्ट्स, ५, ४३६, ४४०।

^{२४} ऋग्वेद १० ९८।

^{२५} २ १०।

^{२६} उ० पु० २, १४४; ३, १५५। तु० की० पिशल - गो० १८९४, ४२०; डिलेब्रान्ट : गिन्नुअल-लिटरैचर, १३। ऋग्वेद १. ९४, ६, यह सिद्ध नहीं करता कि पुरोहित एक 'ऋत्विज' था, इससे केवल इतना ही व्यक्त होता है कि वह अपनी इच्छानुसार ऐसा बन सकता था।

^{२७} ऋग्वेद १० १५०, ५।

^{२८} ऋग्वेद ७. ३३, ११। किन्तु इसका ब्रह्मन् से कुछ अधिक अर्थ मानने की आवश्यकता नहीं।

^{२९} ऐतरेय ब्राह्मण ७ १६, १. शाङ्खायन श्रौत सूत्र १५ २१, ४।

^{३०} शाङ्खायन श्रौत सूत्र १६ ११ १४।

^{३१} ऋग्वेद २ २४, ९; ऐतरेय ब्राह्मण ३. १७, २, तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ७, १, २, शतपथ ब्राह्मण ५ ३, १, २; शाङ्खायन श्रौत सूत्र, १४ २३, १।

^{३२} ऋग्वेद १० १४१, ३; कौषीतकि ब्राह्मण ६ १३; शतपथ ब्राह्मण १. ७, ४, २१, शाङ्खायन श्रौत सूत्र ४ ६, ९।

हैं।^{३३} इन प्रकार यह स्पष्ट है कि ब्रह्मन् अक्सर पुरोहित होता था; और उस समय इसका ऐसा हो जाना सर्वथा स्वाभाविक भी था जब एक बार ब्रह्मन् का स्थान, जैसा कि बाद के संस्कार में निश्चित रूप से है, यज्ञ के समय सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पद बन गया।^{३४} किन्तु यह कह सकना कदाचित् ही सम्भव है कि पहले के संस्कार में भी ब्रह्मन् का ऐसा ही स्थान था। औल्डेन-बर्ग^{३५} अपने इस विचार में ठीक ही प्रतीत होते हैं कि ऋत्विजों के साथ महान् यज्ञ-संस्कार में किसी प्रकार का भाग लेने के अवसर पर पुरोहित मूलतः 'होतृ' के रूप में ही कार्य करता था। इसीलिये, देवापि स्पष्ट रूप से एक 'होतृ' था;^{३६} अग्नि भी एक साथ ही पुरोहित^{३७} और होतृ^{३८} दोनों ही हैं; और आप्री सूक्तों में वर्णित दो 'दिव्य होतृयो' को भी 'दो पुरोहित' ही कहा गया है।^{३९} इसमें सन्देह नहीं कि बाद में, जब पौरोहित्य-कर्म के अन्तर्गत केवल गायन ही नहीं रह गया, तो अपनी अभिचारीय योग्यताओं के कारण पुरोहित वह ब्रह्मन् बन गया जो यज्ञ-सम्बन्धी ऋटियों के परिमार्जन के लिये भी अभिचार का प्रयोग करता था।^{४०}

इस बात में कदाचित् ही सन्देह है कि पौरोहित्य के मौलिक विकास में पुरोहितों ने पर्याप्त योगदान दिया था। ऐतिहासिक समय में पुरोहित राज-सत्ता की वास्तविक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था, और यह सहज ही

^{३३} तैत्तिरीय संहिता ३. ५, २, १। यह स्थिति काठक संहिता ३७. १७ (किन्तु तु० की० २७. ४ : 'ब्रह्म-पुरोहित क्षत्रम्' का जब तक 'क्षत्र, ब्रह्म से हीन है' अर्थ न माना जाय), पञ्चविंश ब्राह्मण १५. ५, २४ के सामानान्तर स्थलों पर नहीं है, और तु० की० गोपथ ब्राह्मण २. १, १३, भी। अथर्वन् साहित्य (ब्लूमफील्ड अथर्ववेद के सूक्त, lx, lxi) के अनुसार इस वेद के अनुयायियों को ब्रह्मन् के रूप में कार्य करना चाहिये और अथर्वन् के अभिचाराय मन्त्रों की वास्तव में ऐतरेय ब्राह्मण ८. २४-२८ द्वारा व्यक्त पुरोहित के अभिचारों के साथ घनिष्ठ समानता है। तु० की० मैकडोनेल :

संस्कृत लिटरेचर, १९३, १९५।

^{३४} देखिये ब्लूमफील्ड : उ० पु० lviii, lxii, lxv, lxviii और वाद।

^{३५} रिलीजन देस वेद, ३८०, ३८१।

^{३६} ऋग्वेद १०. ९८; और तु० की० पञ्चविंश ब्राह्मण १४. ६, ८, आश्वलायन गृह्य सूत्र १. १२, ७।

^{३७} ऋग्वेद १. १, १; ३. ३, २, ११, १, ५. ११, २। ८. २७, १, १०. १, ६, में इसे पुरोहित कहा और होतृ पुरोहितों के विशिष्ट कार्यों को सम्पन्न करनेवाला बताया गया है।

^{३८} ऋग्वेद १. १, १; ३. ३, २; ११, १; ५. ११, २ इत्यादि।

^{३९} ऋग्वेद १०. ६६, १३; ७०, ७।

^{४०} तु० की० ऐतरेय ब्राह्मण ७. २६।

स्वीकार किया जा सकता है कि सभी सार्वजनिक विषयों, जैसे न्याय-व्यवस्था और राजा के प्रशासकीय कार्यों पर उसका अत्यधिक प्रभाव था। किन्तु रीथ^{४१} और त्सिमर^{४२} का यह विचार कि पुरोहित उस स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है जिसने जाति-व्यवस्था को जन्म दिया था, किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है। ऋग्वेद तक में पुरोहित वर्ग का अस्तित्व मिलता है (देखिये वर्ण)।

^{४१} त्सु० वे० ११७ और वाद ।
^{४२} आल्टिन्टिशे लेवेन १५५। तु० की०
त्सिमर आल्टिन्टिशे लेवेन, १६८,
१६९; १९५ और वाद, मैक्स मूलर :
एन्सेन्ट सस्कृत लिटरेचर ४८५, वेवर .
इन्डिशे स्टूडियन, १०, ३१-३५;

१३८, हॉग : ब्रह्म उन्ट टी ब्रह्मनेन, ९
और वाद, गेल्डनर . वेदिशे स्टूडियन
२, १४४, औल्डेनवर्ग ' रिलीजन
देस वेद ३७४-३८३, ब्लूमफील्ड :
अयर्वेद के सूक्त, lxx, और वाद ।

पुलस्ति^१ अथवा पुलस्तिनू^२ यजुर्वेद संहिताओं में 'कपर्दिनू' (वेणीयुक्त केशवाले) के विपरीत 'सादे ढग से केश रखनेवालों' का द्योतक है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ४ ५, ९, १, वाज-
सनेयि संहिता १६. ४३ ।

^२ काठक संहिता १७ १५। तु० की०
त्सिमर आल्टिन्टिशे लेवेन २६५ ।

पुलिन्द, शुनःशेष की कथा के सन्दर्भ में, कुछ जाति-वहिष्कृत लोगों का नाम है जिनका ऐतरेय ब्राह्मण^३ में तो अन्ध्रों के साथ उल्लेख है, किन्तु शाङ्खायन श्रौत सूत्र^२ में नहीं। अशोक के समय में पुलिन्दगण पुनः अन्ध्रों के साथ सम्बद्ध हैं।^३

^१ ७ १८ ।

^२ १५ २६ ।

^३ विन्सेन्ट स्मिथ : त्सी० ने० ५६, ६५२ ।

पुलीकय—देखिये पुरीकय ।

पुलीका, मैत्रायणी संहिता (३. १४, ५) एक प्रकार के पक्षी का द्योतक है। वाजसनेयि संहिता (२४. २४) में यह नाम 'कुलीका' के रूप में आता है ।

पुलुष प्राचीन-योग्य ('प्राचीनयोग' का वंशज), जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ४०, २) के एक वंश में दृति ऐन्द्रोति शौनक के शिष्य, किसी गुरु का नाम है। इसने पौलुषि सत्ययज्ञ को शिषित किया था ।

पुष्कर, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में नील-कमल का नाम है। अथर्ववेद^३ में इसकी मधुर गन्ध का उल्लेख है। कमल स्त्रीलों में उगता था और इसी कारण स्त्रीलों को 'पुष्करिणी' कहा गया है।^४ यह पुष्प बहुत पहले से ही व्यक्तिगत अलंकरण के लिये व्यवहृत होता था, ऐसा अश्विनो की 'पुष्कर-स्रज्' उपाधि से स्पष्ट है।^५

सम्भवतः आकार में कमल-पुष्प के समान होने के कारण, कदाचित् ऋग्वेद^६ में भी और ऐतरेय ब्राह्मण^७ में तो निश्चित रूप से ही, दर्वी-पात्र को 'पुष्कर' कहा गया है। इसके अतिरिक्त निरुक्त^८ के अनुसार 'पुष्कर' का अर्थ 'जल' है, जो आशय वास्तविक रूप से शतपथ ब्राह्मण^९ में मिलता है।

^१ ऋ. १६, १३; ७. ३३, ११ को इसी प्रकार ग्रहण किया जा सकता है, यद्यपि रौथ. सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०, ३, और गेल्डनरः ऋग्वेद, ग्लॉसर, ११२, इन स्थानों पर यज्ञीय दर्वी-पात्र का ही आशय मानना उपयुक्त समझते हैं।

^२ अथर्ववेद ११ ३, ८; १२ १, २४, तैत्तिरीय संहिता ५ १, ४, १, २, ६, ५, ६, ४, २, वाजसनेयि संहिता ११ २९, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ २, १, ४, शतपथ ब्राह्मण ४. ५, १, १६, मैत्रायणी संहिता ३ १, ५।

^३ अथर्ववेद १२ १, २४।

^४ ऋग्वेद ५. ७८, ७; १०. १०७, १०;

अथर्ववेद ४ ३४, ५, ५ १६, १७; बृहदारण्यक उपनिषद् ४. ३, ११, इत्यादि।

^५ ऋग्वेद १०. १८४, २, अथर्ववेद ३. २२, ४; शतपथ ब्राह्मण ४ १, ५, १६, इत्यादि।

^६ ऋग्वेद ८ ७२, ११. जहाँ आशय सदिग्ध है और दर्वी-पात्र विशेषतः उपयुक्त नहीं। नोट १ भी देखिये।

^७ ७. ५।

^८ ५ १४।

^९ ऋ. ४, २, २।

तु० की० तिसरः आल्टिन्डिशे लेवेन, ७१।

पुष्कर-साद (कमल पर आसीन), यजुर्वेद संहिताओं^१ में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में आनेवाले किसी पशु का नाम है। यह 'सर्प'^२ तो कदाचित् नहीं, किन्तु या तो जैसा कि रौथ^३ का विचार है, एक 'पत्नी', अथवा सम्भवतः तैत्तिरीय संहिता^३ के भाष्यकार के अनुसार 'मधुमक्खी' हो सकता है।

^१ तैत्तिरीय संहिता ५ ५, १४, १, मैत्रायणी संहिता ३ १४, १२; वाजसनेयि संहिता २४ ३१।

^२ तिसरः आल्टिन्डिशे लेवेन ९५, यही मानते हैं।

^३ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०।

पुष्टि-गु, एक ऋषि का नाम है जिसका ऋग्वेद^१ के वालखिल्य सूक्त में उल्लेख है ।

^१ ८ ५१, १ । तु० की० लुडविग • ऋग्वेद का अनुवाद, ३, ९४०, १४१

पुष्प, अथर्ववेद^१ और षाद^२ में सामान्य रूप से 'फूल' का द्योतक है ।

^१ ८ ७, १२ । तु० की० १० ८, ३४ ।

रीय संहिता ५ ४, ४, २, छान्दोग्य

^२ वाजसनेयि संहिता २२ २८ ; पञ्चविंश

उपनिषद् ३ १, २, बृहदारण्यक

ब्राह्मण ८ ४, १ ; १५ ३, २३, तैत्ति-

उपनिषद् ६ ४, १, इत्यादि ।

पुष्य, अथर्ववेद (१९. ७, २) में उस नक्षत्र का नाम है जिसे अन्यत्र तिष्य कहा गया है ।

तु० की० वेवर : नक्षत्र २, ३७१ । 'तिष्य' पर देखिये ज० ए० सो० १९११, ५१४ ५१८, ७९४ ८००, भी ।

पूत-क्रता, ऋग्वेद^१ के वालखिल्य सूक्त में एक स्त्री, कदाचित् पूतक्रतु की पत्नी का नाम है; किन्तु यह संदिग्ध है, क्योंकि इस शब्द का अधिक नियमित रूप 'पूतक्रतायी'^२ होगा, जिसे ही शेफ्टेलोवित्स^३ ने इस सूक्त में पढ़ा है ।

^१ ८ ६४, ४ ।

^३ डी० ऋ० ४१, ४० ।

^२ पाणिनि ४-१, ३६ ।

पूत-क्रतु (स्पष्ट अन्तर्दृष्टिवाला) ऋग्वेद^१ में उस दाता का नाम है जो प्रत्यक्षतः अश्वमेध का पुत्र है ।

^१ ८ ६८, १७ । तु० की० लुडविगः ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६३ । शेफ्टेलो-वित्स. टी० ऋ० ४१, ऋग्वेद ८ ५६, २ में 'पूतक्रतु' के स्थान पर

'पूतक्रतु' पढ़ते हैं, किन्तु यह अस-म्भाव्य है । देखिये औरडेनवर्गः गो० १९०७, २३७, २३८; वेवर : ए० रि० ३९, नोट ४ ।

पूति-रज्जु, अथर्ववेद^१ में रौध^२ के अनुसार किसी अज्ञात प्रकार के पौधे का नाम है । कौशिक सूत्र^३ इसे एक 'दुर्गन्धयुक्त रस्सी' मानता है, किन्तु लुडविग^४ का विचार है कि इसका 'सर्प' अर्थ है ।

^१ ८ ८, २ ।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० ।

^३ १६ १० ।

^४ ऋग्वेद का अनुवाद ३, ५२७ । तु० की० हित्ने : ऋग्वेद का अनुवाद ५०३ ; ब्रुसफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त ५८३ ।

पूतीक एक ऐसे पौधे का नाम है जिसका अक्सर सोम-पौधे के स्थानापन्न के रूप में उल्लेख^१ मिलता है। पर्ण-वल्क (*Butea frondosa*) की छाल के एक-विकल्प के रूप में इसका 'दधि' बनाने के एक माध्यम के रूप में तैत्तिरीय संहिता^२ में भी उल्लेख है। इसे सामान्यतया (*Guilandina Bonduc*) के साथ समीकृत किया गया है, किन्तु हिलेब्रान्ट^३ इसे (*Basella Cordifolia*) मानते हैं।

^१ काठक संहिता ३४. ३ ('पूतिक', जैसा कि सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० पर उद्धृत किया गया है); शतपथ ब्राह्मण १४. १, २, १२। तु० की० ४ ५, १०, ४, पञ्चविंश ब्राह्मण ८.

४, १ ; ९ ५, ३ इत्यादि।

^२ २. ५, ३, ५।

^३ वेदिशे माइथोलोजी १, २४, नोट ३। तु० की० रौधः त्सी० गे० ३५, ६८९ ; तिसमरः आल्टिन्डिशे लेवेन ६३, २७६

पूतु-द्रु, अथर्ववेद^१ और यजुर्वेद संहिताओं^२ में 'देव-दारु' का ही दूसरा नाम है। इसका अधिक बड़ा रूप, 'पूत-दारु', कौशिक सूत्र^३ में मिलता है।

^१ ८. २, २८।

^२ तैत्तिरीय संहिता ६ २, ८, ४ (६, में फल का अर्थ है), मैत्रायणी संहिता। ३ ८, ५।

^३ ८. ९५, ५८, १५।

तु० की० तिसमर आल्टिन्डिशे-लेवेन, ५९।

पूरू, ऋग्वेद में एक जाति के लोगों और उनके राजा का नाम है। एक ही स्थल^१ पर इनका, अनुओं, द्रुह्युओं, तुर्वशों, और यदुओं के साथ उल्लेख है। सुदास् की विजय से सम्बद्ध सूक्त में यह लोग तस्सुओं के शत्रु के रूप में भी आते हैं।^२ एक अन्य सूक्त^३ में भरतों की अग्नि के पूरुओं पर विजयी होने की प्रशस्ति है, जिससे सम्भवतः उक्त निर्णायक पराजय का ही सन्दर्भ

^१ १ १०८, ८।

^२ ७ १८, ३। तु० की० तुर्वश। प्रत्यक्षत जैसा कि हॉपकिन्स . ज० अ० ओ० मो०, १५, ०६३, नोट, और गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन २, १३५, का विचार ए कि इत्त मन्त्र में 'जेष्म पूरू विदथे नृत्राचम्' शब्दों से 'पूरू' राजा, और वल पुरोहित विश्वामित्र से तात्पर्य है जिसने यद्यपि असफल रूप से ही,

सुदास् की पराजय के लिये प्रार्थना की थी। 'विदथे मृध्रवाचम्' शब्दों को हॉपकिन्स सामान्य रूप से 'सभा में मिथ्या भाषी' अर्थ में ही ग्रहण करते हैं, किन्तु गेल्डनर के अनुसार इसका अर्थ यह है कि 'जब राजा युद्ध-भूमि में युद्ध करता था, उसी समय पुरोहित भी 'सभा' में प्रार्थना करता था'।

^३ ऋग्वेद ७ ८, ४।

है। दूमरी ओर अनेक स्थलों^४ पर आदिवासियों पर पूरुओं की विजय का सन्दर्भ मिलता है।

पूरुओं के महान् राजा, पुरुकुत्स और उनका त्रसदस्यु नामक वह पुत्र था जिसका नाम स्वयं ही आदिवासी शत्रुओं पर विजयी होने का संकेत करता है। इनके अतिरिक्त एक वाद के राजा का नाम तृक्षि त्रासदस्यव था।

ऋग्वेद में पूरुओं का स्पष्ट^५ रूप से सरस्वती के तट पर बसे होने के रूप में उल्लेख है। तिस्र^६ का विचार है कि इस स्थल पर सिन्धु से ही तात्पर्य है। किन्तु लुडविग^७ और हिलेघ्रान्ट^८ अपेक्षाकृत अधिक सम्भावना के साथ यह विचार व्यक्त करते हैं कि इससे कुरुक्षेत्र स्थित पूर्वी सरस्वती का तात्पर्य है। यह दृष्टिकोण वैदिक परम्परा में पूरुओं के सहसा लुप्त हो जाने के तथ्य के भी बहुत कुछ अनुकूल है। इनके इस प्रकार लुप्त हो जाने के सम्बन्ध में औल्डेनवर्ग^९ का ऐसा अनुमान है कि वाद में यह लोग भी उसी प्रकार महान् कुरु जाति के एक अंग बन गये, जिस प्रकार तुर्वश और क्रिवि लोग भी पञ्चालों में विलीन हो जाने के कारण वैदिक परम्परा से लुप्त हो गये थे। ऋग्वेद^{१०} में कुरुश्रवण का 'त्रासदस्यव' पैतृक नाम यह व्यक्त करता है कुरुओं और पूरुओं के राज-परिवार परस्पर विवाह सम्बन्ध द्वारा एक दूसरे के साथ सम्बद्ध थे।

इस बात को स्वीकार करते हुये कि वाद के समय में पूरु-गण सरस्वती के आस-पास पूर्वी देश में रहते थे, हिलेघ्रान्ट^{११} ऐसा विचार व्यक्त करते हैं कि पहले के समय में यह लोग दिवोदास के साथ सिन्धु नदी के पश्चिम में ही बसे थे। किन्तु दिवोदास को सुदूर पश्चिम में बसा मानने के सिद्धान्त के पतन के साथ-साथ इस सिद्धान्त का भी पतन हो जाता है। फिर भी, इसे इस तथ्य द्वारा पुष्ट भी माना जा सकता है कि सिकन्दर को एक (ΙΙωπος)—

^४ १ ५९, ६; १३१, ४, १७४, २; ४ २१, १०; ३८, १, ६ २०, १०, ७ ५, ३, १९, ३। तु० की० नोट १३।

^५ ७ ९६, २। सम्भवतः ऋग्वेद ८. ६४, १० ११, में इनका शर्यणावन्त के तट पर रहनेवालों के रूप में भी उल्लेख है।

^६ आल्टिन्डिशे लेवेन १२४।

^७ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १७५।

^८ वेदिशे माइथोलोजी, १, ५०, ११५, ३, ३७४।

^९ बुद्ध, ४०४। तु० की० लुडविग ३, २०५।

^{१०} १० ३३, ४।

^{११} उ० पु० १ ११४ और वाद।

अर्थात् एक 'पौरव' राजा उस ह्यदस्पीस^{१२} नामक स्थान के निकट मिला था जो सरस्वती और पश्चिमी प्रदेश के लगभग बीच में स्थित था। किन्तु यह मान लेना भी अत्यन्त सरल है कि या तो 'ह्यदस्पीस' पुरुओं का प्राचीन गृह था जहाँ जाति के अन्य लोगों के और पूर्वी देशों में चले जाने के बाद भी कुछ लोग शेष रह गये थे, अथवा बाद का 'पौरव' पूर्व से पश्चिम पर एक सफल आक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है।

ऋग्वेद^{१३} के अनेक अन्य स्थलों पर पुरुओं से एक जाति के लोगों का ही आशय प्रतीत होता है। निरुक्त^{१४} इससे सामान्य रूप से एक 'मनुष्य' का आशय मानता है, किन्तु किसी भी स्थल पर वास्तव में न तो इसकी आवश्यकता है, और न यह सम्भव ही है। फिर भी, परम्परा इतनी लुप्त हो गई है कि शतपथ ब्राह्मण^{१५} ऋग्वेद^{१६} में पुरु की एक 'असुर रक्षस्' के रूप में व्याख्या करता है; और केवल महाकाव्य में ही 'ययाति' और 'शर्मिष्ठा' के पुत्र के रूप में पुरु का पुनः उल्लेख मिलता है।^{१७}

^{१२} अरियन : इन्डिका, ८ ४, ९ १; १९ ३, इत्यादि। देखिये हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथोलोजी १, १३३, १३३।

^{१३} ऋग्वेद १ ३६, १, में आशय को सुधारते हुये 'पुरुणाम्' के स्थान पर 'पूरुणाम्' पढ़ा जा सकता है। १ ६३, ७, में पुरु राजा, पुरुकुत्स, और सुदास् का सन्दर्भ है किन्तु इनका सम्बन्ध क्या है यह अनिश्चित है (देखिये पुरुकुत्स)। १ १३०, ७, पुरु राजा और 'दिवोदास अतिथिग्व' दोनों का ही, प्रत्यक्षतः आदिवासी

शत्रुओं पर विजयी होने के रूप में उल्लेख है। देखिये १ १२९, ५, ४ ३९, २; ५ १७, १, ६ ४६, ८, १० ४, १, ४८, ५, आदि भी।

^{१४} ७ २३, नैषण्डक २. ३।

^{१५} ६. ८, १, १४।

^{१६} ७ ८४।

^{१७} पाजिटर : ज० ए० सो० १९१०, २६, इत्यादि। तु० की० हिलेब्रान्ट : ३० पु० १, ११० और बाद; मैक्समूलर : से० तु० ई० ३२, ३९८।

पुरुष से अनेक स्थलों^१ पर, अग्नेजी शब्द 'मैन' की भाँति, 'आश्रित' या 'निम्न कोटि का व्यक्ति' आशय है।

^१ ऋग्वेद ६ ३९, ५ (तु० की० फिर भी विशल : वेदिशे स्टूडियन १, ४३), १०. ९७, ४, अथर्ववेद ४ ९, ७, १०

१, १७; शतपथ ब्राह्मण ६ ३, १, २२, इत्यादि। तु० की० ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त ३८३।

पूर्ण-मास वाद की संहिताओं^१ में अक्सर ही आता है और पूर्णमासी तथा उम दिन के उत्सव का द्योतक है। तु० की० मास ।

^१ तैत्तिरीय संहिता १. ६, ७, २, २ २, २४, ३ ५, ७, १३; शतपथ ब्राह्मण १०, २; ५, ४, १, ३ ४, ४, १, ७ १^२ २, ४, ८ इत्यादि ।
४, ८, १, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ २, १,

पूर्त^१ अथवा पूर्ति^२ ऋग्वेद तथा वाद में आता है और पुरोहित को उसकी सेवा के लिये दिये गये पुरस्कार का द्योतक है ।

^१ ऋग्वेद ६ १६, १८, ८ ४६, २१, ^२ ऋग्वेद ६ १३, ६, १० १०७, ३; अथर्ववेद ६ १२३, ५, ९ ५, १३; तैत्तिरीय संहिता १ २, ३, २; २ ४, ६, ३१; वाजसनेयि संहिता १८ ६४, ७, १, इत्यादि ।
ऐतरेय ब्राह्मण ७ २१ २४, इत्यादि ।

पूर्-पति (दुर्ग का अधिपति) ऋग्वेद^१ में केवल एक बार आता है जहाँ इसकी व्याख्या कुछ संदिग्ध है। यह शब्द, ग्रामणी के ही समान, किसी नियमित पद^२ का द्योतक हो सकता है : इस दशा में पूर् एक स्थायी वस्ती का द्योतक होगा। फिर भी इस व्याहृति का अर्थ उस समय 'पुर' का प्रधान मात्र हो सकता है जब किसी आक्रमण के विरुद्ध वास्तविक रूप से पुरों में आश्रय लिया जाता था। शब्द की दुर्लभता इस द्वितीय आशय के ही अनुकूल प्रतीत होती है।

^१ १७३, १०।

^२ तु० की० ऋग्वेद १ १७३, १० पर
मायण का भाष्य, मूडर : सस्कृत

टेक्स्ट्स ५, ४५६।

तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का
अनुवाद ३, २०४।

पूर्व-पक्ष, मास के पूर्वार्द्ध का द्योतक है। देखिये मास ।

पूर्व-त्रयस (जीवन का प्रथम भाग) ब्राह्मणों^१ में 'युवावस्था' का द्योतक है।

^१ पञ्चविंश ब्राह्मण १९. ४, ३, शतपथ
ब्राह्मण १२ २, ३, ४, ९, १, ८,
'पूर्व-वयमिन्', तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ८,
१३, ३। तु० की० ऐतरेय आरण्यक
५, ३ ३ जहाँ 'वत्स' और 'तृतीय'

का 'युवावस्था' और 'वृद्धावस्था' के
लिये, उस 'प्रौढावस्था' के विपरीत,
प्रयोग हुआ है जिसमें ही आरण्यक
के सिद्धान्तों का ज्ञान प्रदान करना
चाहिये।

पूर्व-वह, तैत्तिरीय ब्राह्मण^१ और अन्यत्र,^२ अश्व के लिये व्यवहृत शब्द है। हममे या तो सबसे आगे 'नायक' के रूप में सन्नद्ध अश्व का तात्पर्य हो सकता है, अथवा जैसा कि तैत्तिरीय ब्राह्मण के भाष्यकार ने समझा है, केवल 'प्रथम वार (रथ) खींचनेवाला', मात्र।

^१ १. १, ५, ६।

^२ शतपथ ब्राह्मण २ १, ४, १७, काठक
संहिता १३ ३।

तु० की० सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश,
व० स्था०।

पूर्वाह्न (दिवस का पूर्व भाग), ऋग्वेद^१ और उसके बाद^२ से एक साधारण समय-वाचक शब्द है। तु० की० अहन्।

^१ १० ३४, ११।

^२ ऐतरेय ब्राह्मण ७ २०; शतपथ ब्राह्मण
१ ६, ३, १२; ३ ४, ४, २,

छान्दोग्य उपनिषद् ५. ११, ७;
निरुक्त ८ ९, इत्यादि।

पूल्य, अथवा पूल्प का, अथर्ववेद^१ में 'कूटा हुआ या संकुचित अन्न' अर्थ प्रतीत होता है (तु० की० लाजा)।

^१ १४. २, ६३। तु० की० विहट्ने : अथर्ववेद का अनुवाद, ७६१।

पृक्ष (शब्दार्थ, सम्भवतः द्रुतगामी) ऋग्वेद^१ के एक अस्पष्ट से सूक्त में किसी व्यक्ति का व्यक्तिवाचक नाम है।

^१ २ १३, ८। तु० की० पिशल : वेदिशे स्टूडियन, १, ९७।

पृक्ष-याम, एक बार ऋग्वेद^१ में बहुवचन रूप में आता है। रौथ^२ इससे 'द्रुतगामी अश्वों के साथ विचरण करनेवाला' आशय मानते हुये ऐसा विचार व्यक्त करते हैं यह व्यक्तिवाचक नाम हो सकता है। पिशल^३ का विचार है कि यह शब्द पृजों की उपाधि है और इसका अर्थ 'महान् यज्ञकर्ता' है।

^१ १ १२२, ७।

^२ सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था०।

^३ वेदिशे स्टूडियन, १, ९७, ९८।

पृड देखिये मृड।

पृत्^१ और पृतना,^२ ऋग्वेद और बाद में, शस्त्रों अथवा रथ के दौड़ की

^१ केवल अधिकरण रूप में, ऋग्वेद २
२७, १५; २६, १, ३ ४९, ३; ६
२०, १, इत्यादि, 'पृत्सुपु', १
१२९, ४।

^२ ऋग्वेद १ ८५, ८, ९१, २१; ११९, १०,

<५२, ७, २ ४०, ५, ३ २४, १, ६
४१, ५, १० २९, ८, वाजसनेयि
सहिता ११ ७६; कौपीतिकि ब्राह्मण
१५ ३, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. १, १, ६;
२, ६, इत्यादि।

२ वै० इ० द्वि०

‘प्रतिस्पर्धा’ का द्योतक है। कुछ स्थलों^३ पर ‘पृतना’ से सेना का भी वास्तविक आशय है, और महाकाव्य पद्धति^४ में यह निश्चित रूप से मनुष्यों, हाथियों, रथों और अश्वों के समूह का द्योतक है। ‘पृतनाज्य’^५ से केवल ‘युद्ध’ का ही आशय है।

^३ ऋग्वेद ७. २०, ३, ८ ३६, १, ३७, २, अथर्ववेद ६ ९७, १, ८ ५, ८, निरुक्त ९. २४; तैत्तिरीय ब्राह्मण ० ४, ७, ५, में सम्भवतः कर्त्तव्य रूप में भा।

^४ महाभारत १ २९१।

^५ ऋग्वेद ३ ८, १०; ३७, ७, ७ ९९, ४, ८ १२, २५, ९ १०२, ९; तैत्तिरीय संहिता ३ ४, ४, १।

पृथ, अर्थात् हाथ की ‘हथेली’ का, उसके फैलाव के आशय में तैत्तिरीय, ब्राह्मण^१ में लम्बाई के एक नाप के रूप में प्रयोग हुआ है।

^१ १. ६, ४, २ ३; तु० की० कात्यायन श्रौत सूत्र ६. १, २८; आपस्तम्ब श्रौत सूत्र २. २, ७, ८ ५, १०

पृथवान्, ऋग्वेद^१ में एक मनुष्य का नाम है, जिसे सम्भवतः दुःशीम भी कहा गया है; किन्तु यह अनिश्चित है। तु० की० पृथि

^१ १०. ९३, १४। तु० की० रिमर : आस्टिन्डिगे लेवेन, ४३३।

पृथि,^१ पृथी,^२ अथवा पृथु,^३ एक अर्ध-पौराणिक व्यक्ति का नाम है, जिसका ऋग्वेद और बाद में एक ऋषि और विशेषतः कृषि के आविष्कर्ता,^४ और मनुष्यों तथा पशुओं^५ दोनों के ही संसारों के अधिपति के रूप में उल्लेख है। अनेक स्थलों^६ पर यह ‘वैन्य’ (‘वेन’ का वंशज) उपाधि धारण करता है,

^१ ऋग्वेद १ ११२, १५, एक द्रष्टा के रूप में; एक वैन्य ‘के रूप में’ तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ७ ७, ४, और सम्भवतः २ ७, ५, १ (पृथये)।

^२ ‘वैन्य’ के रूप में ऋग्वेद ८. ९, १०, अथर्ववेद ८ १०, २४, पञ्चविंश ब्राह्मण १३ ५, १९, ‘पृथि’ अथवा ‘पृथी’ के रूप में, तैत्तिरीय ब्राह्मण २ ७, ५, १, ‘वैन्य’ के रूप में शतपथ ब्राह्मण ५ ३, ५, ४, काठक संहिता ३७ ४ (इन्दिशे स्टूटियन ३, ४६३)। ऋग्वेद १० १४८, ५, में ‘पृथी’ के

साथ ‘वैन्य’ के उल्लेख से इसके पैतृक नाम (= वैन्य) का अर्थ हो सकता है : तु० की० तुडय, नोट १।

^३ जैमिनीय ब्राह्मण १. १८६ (ज० अ० ओ० सो० १९, १२५), जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण १. १०, ९, ३४, ६; ४५, १।

^४ अथर्ववेद, उ० स्था०।

^५ पञ्चविंश ब्राह्मण, उ० स्था०। तु० की० तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ७, ५, १।

^६ देखिये नोट १-३।

और इसे कदाचित्त एक वास्तविक मनुष्य की अपेक्षा सांस्कृतिक-नायक ही मानना चाहिये । अन्य विवरणों^७ के अनुसार यह प्रतिष्ठापित राजाओं में प्रथम था । तु० की० पार्थिव

^७ शतपथ ब्राह्मण, उ० स्था० । काठक संहिता उ० स्था०; तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ७, ७, ४ ।

तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६६, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, २२१, २२२; हॉपकिन्स : ट्रा० सा०, १५, ५०, नोट २, तिसमर :

आल्टिन्डिशे लेवेन, १३४ । एग्लिङ्ग : से० वु० ई० २६, ८१, इस नाम को 'पृथिन् वैन्य' के रूप में प्रस्तुत करते हैं; किन्तु इसके यत्र-तत्र मिलनेवाले अ-सरल रूप, 'पृथि' अथवा 'पृथी' मूल के ही अनुकूल हैं ।

पृथिवी, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में, 'चौड़ी' होने के रूप में 'पृथ्वी' का द्योतक है । इसका एक देवी^३ के रूप में अक्सर अकेले ही अथवा 'धावा-पृथिवी'^४ के रूप में दिव् (आकाश) के साथ मूर्तीकरण किया गया है । अक्सर तीन पृथिवियों का भी उल्लेख है,^५ जिनमें से वह संसार जिस पर हम लोग वास करते हैं, उच्चतम है ।^६ ऐतरेय ब्राह्मण^७ के अनुसार पृथिवी के चारों ओर समुद्र है । निरुक्त^८ तीन पृथिवियों में से एक को उन तीनों संसारों में से प्रत्येक के अन्तर्गत रखता है जिनमें विश्व को विभाजित किया गया है (देखिये दिव्) । शतपथ ब्राह्मण^९ में पृथिवी को 'जीवों में प्रथम-जन्मा' कहा गया है । इसकी सम्पत्ति (वित्त) का भी सन्दर्भ है,^{१०} और इसीलिये शाङ्खायन आरण्यक^{११}

^१ ऋग्वेद ७. ७, २. ५; ९९, ३; ५ ८५, १. ५, ८ ८९, ५, इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद १२. १, १ और वाद; वाजसनेयि संहिता ११. ५३, इत्यादि ।

^३ ऋग्वेद ४. ३, ५; ५१, ११, ५ ४९, ५, ८४, १ और वाद, ६. ५०, १३ १४; ७. ३४, २३, इत्यादि, वाजसनेयि संहिता १२. १०३, इत्यादि ।

^४ ऋग्वेद ४ ५६, १, ७. ५३, १, इत्यादि । देखिये मैकडौनेल वैदिक माइथोलोजी पृ० २०, २१, १२३, १२६ ।

^५ ऋग्वेद १ ३४, ८, ४ ५३, ५, ७

१०४, ११; अथर्ववेद ४. २०, २; वाजसनेयि संहिता ५. ९, इत्यादि ।

^६ अथर्ववेद ६. २१, १; १९. २७, ३; ३०, ४; ५३, ५; शतपथ ब्राह्मण ३. ५, १, ३१; ५ १, ५, २१ ।

^७ ८. २० । संहिताओं में यह विचार नहीं मिलता, मैकडौनेल : उ० पु०, पृ० ९ ।

^८ ९ ३१; ११ ३६, १२. ३०, नैषण्टुक, ५ ३. ५ ६ । तु० की० ब्रूस : ज० ए० सो० १९, ३०१ और वाद ।

^९ १४. १, २, २० ।

^{१०} शतपथ-ब्राह्मण ११ ५, ६, ३ ।

^{११} १३ १ ।

के एक चाद के स्थल पर पृथिवी को 'वसु-मती' (सम्पत्ति से परिपूर्ण) कहा गया है । यद्यपि दुर्लभ रूप से ही, तथापि यह शब्द ऋग्वेद^{१२} में भी 'पृथ्वी'^{१३} के रूप में आता है ।

^{१२} ऋ १०, ५, १०. १८७, २ । तु० की० मैकडौनेल . उ० पु० ३४ ।

^{१३} 'पृथु' (चौड़ा) का नियमित ख्रीलिङ्ग विशेषणात्मक रूप ।

पृथु—देखिये पृथि। लुडविग^१ ने ऋग्वेद^२ के एक स्थल पर वृत्सु भरतों के विरोधियों के रूप में पर्शुओं के साथ सम्बन्ध एक जाति के रूप में भी पृथुओं का उल्लेख माना है । किन्तु यह व्याख्या निश्चित रूप से अशुद्ध है ।^३ देखिये पर्शु ।

^१ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १९६, और वाद ।

^२ उ ८३, १ ।

^३ तिसमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, १३५ और

वाद, ४३३, ४३८; गेल्डनर . वेद्विशे स्टूटियन २, १८४, नोट ३, वर्गन . रिलीजन वेद्विके, २, २६२, नोट ।

१. पृथु-श्रवस् (सुप्रसिद्ध) का ऋग्वेद के दो सूक्तों में वश के सन्दर्भ में उल्लेख है । द्वितीय स्थल पर 'वश अश्व्य' के प्रति 'पृथुश्रवस् कानीत' की उदारता की प्रशंसा है, और शाङ्खायन श्रौत सूत्र^१ में इस कथा का उल्लेख है ।

^१ ऋ ११६, २१, ८ ४६, २१ । तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३,

१६२ ।

^२ १६ ११, २३ ।

२. पृथु-श्रवस् दौरे-श्रवस ('दूरेश्रवस्' का वशज) पञ्चविंश ब्राह्मण^१ में वर्णित सप्तोत्सव के समय कार्य करनेवाले एक 'उद्गातृ' पुरोहित का नाम है ।

^१ २५ १५, ३ । तु० की० वेमर : इन्डिशे स्टूडियन १, ३५ ।

पृदाकु, अथर्ववेद^१ में एक 'सर्प' का नाम है । यजुर्वेद संहिताओं^२ में अश्वमेध के वलि प्राणियों की तालिका में, तथा अन्यत्र^३ भी, उसका उल्लेख है । अथर्ववेद^४ के अनुसार इसका चर्म विशेष रूप से मूत्रवान होता था । •

^१ ऋ २७, १, ३ २७, ३, ६ ३८, १; उ ५६, ६; १० ४, ११, और वाद; १३. ३, ५७ ।

^२ वाजमनेधि संहिता ६ १२, शाङ्खायन आरण्यक १२ २७ ।

^३ १ २७, १ ।

^४ तैत्तिरीय संहिता ५. ५, १०, १, मैत्रायणी संहिता ३ १४, १४, वाजसनेयि संहिता २४ ३३ ।

तु० की० तिसमर . आल्टिन्डिशे लेवेन, ९४ ।

पृदाकु-सानु (सर्प की त्वचा वाला) को लुडविग^१ और ग्रिफिथ^२ ने ऋग्वेद^३ के एक सूक्त में किसी यज्ञ के प्रतिस्थापक के नाम के रूप में ग्रहण किया है ।

^१ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६१ ।

^२ ऋग्वेद के सूक्त २, १४१ ।

^३ ८ १७, १५ ।

पृश्न को ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर लुडविग^२ ने ऐसे स्थान का द्योतक माना है जहाँ युद्ध होता था ।

^१ ९. ९७, ५४ ।

^२ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६४ ।

१. पृश्नि-गु एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसका ऋग्वेद (१. ११२, ७) के एक सूक्त में पुरुकुत्स और शुचान्त के साथ अश्विनों के आश्रित के रूप में उल्लेख है । सम्भवतः यह शब्द केवल पुरुकुत्स की एक उपाधि मात्र है ।

तु० की गेल्डनर ऋग्वेद, ग्लॉसर ११४

२. पृश्नि-गु (बहुवचन) को ऋग्वेद^१ के एक स्थान पर गेल्डनर^२ ने एक जाति के लोगों के नाम का द्योतक माना है । किन्तु यह सम्भव नहीं है ।

^१ ७. १८, १० ।

^२ ऋग्वेद, ग्लॉसर, ११४ ।

पृश्नि-पर्णी (चितकबरी पत्तियोंवाला) एक पौधे का नाम है जिसका अथर्ववेद^१ के एक सूक्त में 'कण्व' नामक (सम्भवतः कण्व परिवार के प्रति आक्रामक धारण का चिह्न है)^२ गर्भपात करा देनेवाले दुष्ट प्राणियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करनेवाले के रूप में उल्लेख है । यह शतपथ ब्राह्मण^३ में भी आता है, जहाँ सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश ने इसे (*Hermionitis cordifolia*) के साथ समीकृत किया है, किन्तु एक बाद की कृति में रौथ^४ ने ऐसा विचार व्यक्त किया है कि यह वही पौधा है जो बाद में 'लक्ष्मणा' के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जिसे बौद्धपन की औपधि माना जाता था । कात्यायन श्रौत सूत्र^५ के भाष्यकार का ऐसा विचार है कि इससे (*Glycine debilis*) का तात्पर्य है ।

^१ २. २५, १ और बाद ।

^२ तु० की० विह्टने के अथर्ववेद के अनुवाद, ६५, में लैनमैन, वर्गन : रिलिजन वेदिके २, ४६५, हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथोलोजी, १, २०७ ।

^३ १३ ८, १. १६ ।

^४ विह्टने द्वारा उद्धृत, उ० स्था० ।

^५ २५ ७, १७ ।

तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १३, १८७, त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, ६९, ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त, ३०२ ।

पृषत, किसी पशु का नाम है जिसका यजुर्वेद 'संहिताओं' में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में उल्लेख है। इससे चितकवरे वारहसिंहे अथवा मृग का अर्थ प्रतीत होता है।^१

^१ तैत्तिरीय संहिता ५. ५, १७, १, मैत्रायणी संहिता ३ १४, ९ २१, वाजसनेयि संहिता २४ २७ ४०।

^२ निरुक्त २ २।

तु० की० रिसमर : आस्टिन्टिगे लेवेन, ८३।

पृषती का, कुछ स्थलों^१ पर स्पष्ट रूप से 'चितकवरी' गाय अर्थ है। फिर भी यह शब्द सामान्यरूप^२ से मरुतों के दल के लिये व्यवहृत हुआ है, किन्तु इसका वास्तविक आशय सन्निदग्ध है। भाष्यकार बहुधा इसकी 'चितकवरे मृग' के रूप में ही व्याख्या करते हैं। किन्तु महीधर^३, जिनका ही रौय^४ ने भी अनुसरण किया है, इसमें 'शवल अश्वियों' का आशय देखना अधिक उपयुक्त समझते हैं। यह सत्य है कि मरुतों को अक्सर 'पृषद्-अश्व' कहा^५ गया है, जिसकी 'पृषतियों को अश्वों के रूप में रखनेवाला'^६ की अपेक्षा अधिक स्वाभाविक रूप से 'शवल अश्वोंवाला' ही व्याख्या की जा सकती है। बाद के

^१ ऋग्वेद ८ ६४, १०. ११, जहाँ 'मृग' का आशय निरर्थक और 'अश्वियों' असम्भाव्य है। नियमित रूप से 'गावों' का ही दान क्रिया जाता था; काठक संहिता १२ २, शतपथ ब्राह्मण ५ ५, २, ९ (देखिये, ण्विलङ्ग से० बु० ई० ४१, १२५), वाजसनेयि संहिता २४ २ (यद्यपि यह निश्चित नहीं है), शाङ्खायन श्रौत सूत्र १५ १४, २३, इत्यादि।

^२ १ ३७, २; ३९, ६, ६४, ८, ८५, ४ ५, २ ३४, ३; ३६, २, ३. २६, ४, ५ ५५, ६; ५८, ६, ६०, २, १ १६२, २१।

^३ वाजसनेयि संहिता २ १६, पर।

^४ सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश. व० स्था०। पहले आप (वही १, १०९१) ऋग्वेद १. ३७, २, इत्यादि पर दी गई सायण की सामान्य व्याख्या को ही मानना

उपयुक्त समझते थे, और उसे ही बेनफे. ओरियण्ट उन्ट ऑक्सिडेन्ट, २, २५०, ने भी स्वीकार किया था।

^५ ऋग्वेद १ ८७, ४, ८९, ७, १८६, ८; २ ३४, ४; ३ २६, ६, ५ ४२, १५, ७ ४०, ३।

^६ ऋग्वेद १ ८७, ४, पर सायण का यही मत है। यह दृष्टिकोण बहुत अयथार्थ है। जहाँ तक 'पृषती' और 'अश्व' की व्याख्या का सम्बन्ध है यह ५ ५५, ६ जैसे स्थलों द्वारा पुष्ट होता है, जहाँ ऐसा कहा गया है कि मरुद्गण भाँ 'पृषतियों' को 'अश्वान्' की भाँति अपने रथों से सज्ज कर रहे हैं, किन्तु यहाँ 'अश्वों (और) चितकवरी (अश्वियाँ) भी हो सकता है। फिर भी देखिये, पिशल : वेदिशे स्टूडियन, १, २२६।

साहित्य में, जिसका अनुसरण करना प्रासमैन्^७ अधिक उपयुक्त समझते हैं, इस शब्द का अर्थ शबल मृगी है। ऑफरेख्त^८ तो रौथ के विचार से ही सहमत हैं, किन्तु मैक्स मूलर^९ परम्परागत व्याख्या को मानने के लिये अधिक प्रवृत्त हैं, जब कि मूडर^{१०} प्रश्न को अनिर्णीत छोड़ देते हैं।

^७ वर्टरबुख, व० स्या।

^८ देखिये, मूडर • संस्कृत टेक्स्टस, ५, १५२

^९ से० बु० ई० ३२, ७०; १८४।

^{१०} उ० पु० ५, १५१, १५२।

तु० की० तिसमर : आस्टिन्डिशे

लेबेन, ८३।

पृषद्-आज्य, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'दधि-मिश्रित घृन' का द्योतक है।

^१ १०, ९०, ८।

^२ तैत्तिरीय संहिता ३. २, ६, २; ६ ३,

९, ६, ११, ४; शतपथ ब्राह्मण २. ५,

२, ४१, ४, २, ३ ८, ४, ८, इत्यादि।

तु० की० एंग्लिङ्ग : से० बु० ई० १२,

४०४, नोट १।

'पृषध्र, ऋग्वेद^१ के वालखिल्य सूक्त में किसी व्यक्ति के नाम के रूप में आता है। इसका शाङ्खायन श्रौत सूत्र^२ में भी प्रस्कण्व के प्रतिपालक के रूप में उल्लेख है और 'पृषध्र मेध्य मातरिश्वन्' (अथवा 'मातरिश्व') कहा गया है, किन्तु एक बार इस सूत्र और ऋग्वेद के मूल पाठ की उक्तियों में विपमता है, क्योंकि वहाँ जिन सूक्तों^३ को 'पृषध्र' के प्रशस्ति-स्वरूप 'प्रस्कण्व' द्वारा रचा हुआ बताया गया है, उनका 'पृषध्र' से कुछ भी सम्बन्ध नहीं, जब कि अनुक्रमणी द्वारा उनमें से एक^४ की रचना का स्वयं 'पृषध्र' को ही श्रेय दिया गया है। दूसरी ओर, ऋग्वेद^१ में 'पृषध्र' के साथ-साथ मेध्य और मातरिश्वन् अलग अलग व्यक्तियों के रूप में आते हैं।

^१ ८ ५२, २।

^२ १६ ११, २५-२७।

^३ ८ ५५ ५६।

^४ ८ ५६।

तु० की० वेवर . ए० रि० ३९।

पृषातक भी, पृषदाज्य की ही भाँति एक मिश्रण का नाम है, जो गृह्यसग्रह^१ के अनुसार दधि, मधु, और आज्य से मिलकर बना होता था। इसका अथर्ववेद^२ के एक वाद के स्थल पर, और सूत्रों^३ में उल्लेख है।

^१ २ ५९।

^२ २० १३४, २।

^३ मानव गृह्य सूत्र २. ३, इत्यादि।

तु० की० ब्लूमफील्ड : त्सी० ने०

३५, ५८०।

पृष्ठ्या^१, अथर्ववेद (६. १०२, २) में किनारे के अश्व (अश्वी) का द्योतक है ।

^१ वीटलिङ्ग-कोश, व० स्था० में यही है । सेन्ट-पीटर्सबर्ग कोश, में 'पृष्ठ्या' पाठ है । फिर भी देखिये, ग्रिल : हुन्डर्ट लीडर,^२ १६९; ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त ५१३ ।

पृष्ठ्य-आमय, अथर्ववेद^१ में पसलियों^२ के पार्श्व में होने वाली पीडा का द्योतक है । यहाँ इसका केवल ज्वर (तक्मन्) के साथ-साथ होने के रूप में उल्लेख है ।

^१ १९ ३४, १०१ तु० की० तिसमर
आल्टिन्डिशे लेवेन, ६५, ३९१ ।

^२ इसने व्युत्पन्न विशेषण रूप 'पृष्ठ्य-

आमयिन्' (पार्श्व में होने वाली वेदना से पांडित) ऋग्वेद १. १०५, १८ में आता है ।

पेत्य, दो वार अथर्ववेद^१ में मिलता है । प्रथम स्थान पर इससे उस 'वाज' का सन्दर्भ है जिसका तिसमर^२ के तर्क के अनुसार 'शक्ति' या 'क्षिप्रता' ही अर्थ हो सकता है, यद्यपि 'पुंसत्व' के अभाव को दूर करने के लिये निर्दिष्ट अभिचार में इसका अर्थ स्वभावतः 'पुरुषोचित शक्ति' ही अधिक उपयुक्त होगा । दूसरे स्थल पर अश्व को पराभूत करने के रूप में 'पेत्य' का उल्लेख है (देखिये उभयादन्त) । ऋग्वेद^३ में भी इस आश्चर्यजनक कृत्य के समानान्तर घटना का उल्लेख मिलता है, जहाँ पेत्य एक सिंहिनी^४ को पराभूत करता है । यजुर्वेद संहिताओं^५ में अश्वमेध के थलि-प्राणियों की तालिका में, तथा अक्सर अन्यत्र^६ भी, इस पशु का उल्लेख है । यह 'मेप' अथवा 'वधिया

^१ ४. ४, ८; ५ १९, २ ।

^२ आल्टिन्डिशे लेवेन २०९, २३० ।

^३ ८. १८, १७ ।

^४ मूलपाठ में 'सिंहम्' है । हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० १५, २६४, इसे पुल्लिङ्ग, और 'शियुम्' पर श्लेष के आधार पर दस राजाओं के युद्ध के समय पराजित किसी राजा अथवा जाति का नाम मानते हैं । किन्तु श्लेष को स्वीकार करते हुए भी, पुल्लिङ्ग 'पेत्य' के पिपरांत 'मिह' की अपेक्षा

स्त्रीलिङ्ग के रूप में 'सिंहो' अपेक्षाकृत अधिक प्रखर प्रतीत होता है ।

^५ तैत्तिरीय संहिता ५ ५, २२, २ । यद्यपि वासजनेथि संहिता के समानान्तर स्थल पर नहीं है, तथापि तैत्तिरीय संहिता के अपने सत्करण में वेवर की टिप्पणी के अनुसार वह काठक में मिलता है ।

^६ तैत्तिरीय संहिता ६ २, ८ ४, वाजसनेथि संहिता २९ ५८ ५९, तैत्तिरीय ब्राह्मण १. २, ५, ३, इत्यादि ।

मेष' प्रतीत होता है, और तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकार ने इस द्वितीय^७ आशय को ही स्वीकार किया है। किन्तु इस अर्थ के पत्र में कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है, जब कि सम्पूर्ण रूप से अथर्ववेद का वह स्थल जहाँ 'वाज' मिलता है, 'मेष' आशय के ही सर्वाधिक अनुकूल है। फिर भी हॉपकिन्स^८ इस शब्द का 'वकरा' अनुवाद करते हैं, यद्यपि किस आधार पर यह स्पष्ट नहीं है। पितृ अथवा पिद्व से भी इसका किसी प्रकार का सम्बन्ध है अथवा नहीं, यह सर्वथा अनिश्चित है।

^७ 'गलित-रेतस्त्रो मेष'।

^८ उ० स्था०; इन्डिया ओल्ड ऐन्ड न्यू, ५८। आपका विचार है कि वकरे की सीध ने सिंह का भेदन कर दिया था। यह कौतूहल-वर्धक ही है कि बिह्टने ने, अथर्ववेद के अनुवाद २५३, में

अथर्ववेद ५ १९, २ पर इसका 'वकरा', किन्तु ४, ४, ८, पर 'मेष' अनुवाद किया है, और ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त, ४३३ में, ५. १९, २ के सम्बन्ध में 'मेष' और 'वकरे' दोनों की चर्चा करते हैं।

पेदु, ऋग्वेद^९ में आश्विनों के एक आश्रित का नाम है। जैसा कि प्रकट होता है, एक निकृष्ट अश्व को बदलने के लिये अश्विनों ने इसे एक पौराणिक अश्व प्रदान किया था। इसीलिये इस अश्व को पैद्व^२ कहा गया है, और यह सम्भवतः सूर्य के अश्व का ही प्रतिनिधित्व करता है।^३

^९ ऋग्वेद १ ११७, ९, ११८, ९, ११९, १०, ७ ७१, ५, १०. ३९, १०।

^२ ऋग्वेद ९. ८८, ४, अथर्ववेद १० ४, ५

और बाद।

^३ मैकडौनेल : वैदिक माइथोलोजी, पृ० ५२, १४९।

पेरुक, ऋग्वेद^९ के एक अस्पष्ट मन्त्र में, कवि के एक प्रतिपालक के नाम के रूप में आता है।

^९ ६ ६३, ९। तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३. १५८।

पेशस्, ऋग्वेद^९ और बाद^२ में एक ऐसे कढ़े हुये परिधान का द्योतक है जिसे नर्तकियाँ पहनती थीं।^३ इस प्रकार के परिधानों के प्रति भारतीयों की अभिरुचि को मेगास्थनीज़^४ और अरियन^५ ने भी देखा है, क्योंकि इन लोगों

^९ २. ३, ६, ४ १६, ७, ७ ३४, ११, ४२, १

^२ वाजसनेयि संहिता १९ ८०. ८९; २०. ४०, ऐतरेय ब्राह्मण ३. १०, इत्यादि।

^३ ऋग्वेद १. ९२, ४. ५।

^४ देखिये स्ट्राबो, पृ० ५०९, जहाँ आप एक 'सिडोन उपन्थेस' (σιδων ενανθης) का उल्लेख करते हैं।

^५ इन्डिका ५, ९।

ने भारतीयोंके 'प्येस कटास्टिकटोम' (*εσθης καταστικτος*) की चर्चा की है। इसी प्रकार एक स्थल^६ पर एक प्रकार के 'वस्त्र' को 'पेशन' कहा गया है जिसकी रीथ^७ एक प्रकार के रोमन वस्त्र (*vestis coloribus intexta*) के साथ तुलना करते हैं। इस प्रकार के वस्त्रों का निर्माण स्त्रियों का नियमित व्यवसाय था, जैसा कि यजुर्वेद^८ में पुरुषमेघ के वलि-प्राणियों की तालिका में मिलनेवाले 'पेशस्-कारी' शब्द द्वारा व्यक्त होता है, यद्यपि तैत्तिरीय ब्राह्मण के भाष्यकार इस शब्द की 'स्वर्ण निर्माण करनेवाले की पत्नी'^९ के रूप में व्याख्या करते हैं। फिर भी, पेशल^{१०} का विचार है कि 'पेशस्' का अर्थ कहीं भी 'रंग' अथवा 'रूप' के अतिरिक्त और कुछ नहीं।

^६ ऋग्वेद १० १, ६।

^७ सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था०।

^८ वाजसनेयि संहिता ३०० ९; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, ५, १।

^९ तु० की० तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ३, ४, ५, में सम्भवतः 'सुवर्ण हिरण्य पेशलम्', जहाँ 'पेशल' से कदाचित् 'कुशलता पूर्वक निर्मित स्वर्ण' अर्थ है। किन्तु यह अर्थ उस 'पेशस्-कारी' यौगिक शब्द

के अनुकूल नहीं है जो 'पेशम् के निर्माता' का ही द्योतक होना चाहिये। साथ ही किसी भी स्थल पर 'पेशस्' से 'पिटे हुये सोने' का आशय नहीं। तु० की० बृहदारण्यक उपनिषद् ४. ४, ५, तिसमरः आस्टिन्डिशे लेवेन, ०६१, आदि भी।

^{१०} वेदिके स्टूडियन २, ११३-१२५।

पेशितृ, यजुर्वेद^१ में पुरुषमेघ के किसी वलि-प्राणी का नाम है। इसका आशय सर्वथा अनिश्चित है। सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश और वेवर^२ ने इस शब्द का 'जो टुकड़ों को काटता है' अथवा 'नक्काशी काटनेवाला' अनुवाद किया है; किन्तु सायण^३ का विचार है कि इससे एक ऐसे व्यक्ति का आशय है जो किसी दबी हुई शत्रुता को पुनः उद्दीप्त कर देता है।

^१ वाजसनेयि संहिता ३०. १२, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, ८, १।

^२ इन्डिशे स्ट्रीफेन १, ७५, नोट ५।

^३ तैत्तिरीय ब्राह्मण, उ० स्था० पर।

पैङ्ग-राज, यजुर्वेद संहिताओं^१ में अश्वमेघ के किसी वलि-प्राणी का नाम है। इससे एक पक्षी का आशय तो निश्चित है, किन्तु किस प्रकार का पक्षी, यह सर्वथा अज्ञात है।

^१ तैत्तिरीय संहिता ५ ५, १३, १, मैत्रायणी संहिता ३ १४, १६, वाजसनेयि संहिता २४ ३४। तु० की० तिसमरः आस्टिन्डिशे लेवेन, ९९।

पैङ्गी-पुत्र ('पिङ्ग' के किसी स्त्री-वंशज का पुत्र), बृहदारण्यक उपनिषद् (६.४, ३०, माध्यंदिन) के अन्तिम वश में, शौनकीपुत्र के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

पैङ्गय, ('पिङ्ग' का वंशज) एक गुरु का नाम है जिसका एक अधिकारी विद्वान् के रूप में कौषीतकि ब्राह्मण^१ में अनेक बार उल्लेख है । यहीं^२ इसके सिद्धान्त को भी 'पैङ्गय' कहा गया है । शतपथ ब्राह्मण^३ में इस गुरु का उल्लेख और मधुक पैङ्गय^४ की भी चर्चा है । निश्चित रूप से यह कह सकना असम्भव है कि अनेक 'पैङ्गय' थे अथवा केवल एक ही । निदान^५ और अनुपद^६ सूत्रों में 'पैङ्गय' के अनुयायियों को 'पैङ्गिन' कहा गया है । अनुपद सूत्र^७ में इसके मूल-ग्रन्थ को 'पैङ्ग' बताया गया है, जबकि आपस्तम्ब श्रौत सूत्र^८ में एक 'पैङ्गायनि ब्राह्मण' का भी उल्लेख है । यह स्पष्ट है कि 'पैङ्गय' कौषीतकियों से सम्बद्ध ऋग्वेदिक परम्परा का एक गुरु था । आत्रेयी शाखा की अनुक्रमणी में 'पैङ्गि', यास्क का पैतृक नाम है ।^९

^१ ८ ९, १६. ९; २६ ३. ४. १४, २८

७ ९, कौषीतकि उपनिषद् २ २ ।

^२ ३ १, १९. ९; २४. ४ । तु० की २५

७, में 'पैङ्गी सपद्' । शाङ्खायन श्रौत

सूत्र ४. २, ११, ११. ११, ५, १४,

९, १५ ३, १, १७ ७, १ ३, १०,

३, ऐतरेय ब्राह्मण ७ ११, आदि में

भी 'पैङ्गय' मिलता है ।

^३ १० २, २, ४, ४, ८ (बृहदारण्यक

उपनिषद् ६. ३, १७) ।

^४ ११. ७, २, ८, १६ ।

^५ ४ ७ ।

^६ १. ८; २ २ ४ १०, ६ ७, ११ ८ ।

^७ २ ४, ३. १२, ४ ५ ।

^८ ५ १५, ८, २९, ४ ।

^९ वेवर . इन्डिशे स्टूडियन १, ७१, नोट;

३, ३९६ ।

तु० की० वेवर इन्डिशे स्टूडियन

१, ४४, ४५, ४०४, और वाद, २,

२९५, इन्डियन लिटरेचर, ४१, ४६,

४७, ५६, ८१, ९०, १३० इत्यादि ।

पैजवन (पिजवन का वंशज)—यह सुदास^१ का पैतृक नाम है । सर्वाधिक सम्भव यही प्रतीत होता है कि 'पैजवन', वंश-क्रम के अन्तर्गत दिवोदास और सुदास के बीच में हुआ था, क्योंकि परम्पराओं के अनुसार इन दोनों राजाओं के पुरोहित भी सर्वथा भिन्न थे, अर्थात् प्रथम के पुरोहित भरद्वाज-गण थे, और द्वितीय के वसिष्ठ और विश्वामित्र ।^२ यह उसी दशा में अधिक

^१ ऋग्वेद ७ १८, २०. २५; निरुक्त २

०४ २५; ऐतरेय ब्राह्मण ७ ३४;

शाङ्खायन श्रौत सूत्र १६. ११, १४ ।

^२ देखिये हिलेब्रान्ट . वेदिओ माइथोलोजी,

१, १०४ और वाद ।

स्वाभाविक होगा जब इन दोनों को समय-अवधि की दृष्टि से पृथक माना जाय, पिता और पुत्र नहीं, जैसा कि सामान्यतया माना जाता है। फिर भी, गेल्डनर^३ दिवोदास और पैजवन को समीकृत करते हैं।

^४ ऋग्वेद, ग्लोसर, ११५।

पैट्ट—देखिये पैट्ट।

पोट्ट, यज्ञ-संस्कार से सम्बद्ध पुरोहितों में से एक (ऋत्विज्) का नाम है। ऋग्वेद^१ तक में परिचित इसका अक्सर वाद के ब्राह्मणों^२ में भी उल्लेख है। किन्तु, जैसा कि औदहेनवर्ग^३ का विचार है, वाद के साहित्य में पोट्ट महत्त्वपूर्ण पुरोहित नहीं वरन् व्यवहारतः केवल एक नाम मात्र रह गया है। 'पू' (पवित्र करना) धातु से इस शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर निर्णय करते हुये, ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में यह 'सोम पवमान' को परिष्कृत करने, और सम्भवतः इसी सोम के प्रति सूक्तों के गायन का कार्य करता था। 'पोत्र'^४, 'पोट्ट' के पद और सोम-पात्र दोनों का ही स्रोतक है।^५

^१ १ ९४, ६, २ ५, २, ४. ९, ३, ७. १६, ५, ९. ६७, २२।

^२ ऐतरेय ब्राह्मण ६. १० और वाद, शतपथ ब्राह्मण ४ ३, ४, २२, ५. ४, ५, २२, १२. १, १, ८, इत्यादि।

^३ रिलीजन देस वेद, ३८३, ३९१, ३९५।

^४ ऋग्वेद २ १, २, और सम्भवतः १ ७६, ४, में, यद्यपि सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश द्वितीय प्रयोग के लिये ही इसका उदाहरण देता है।

^५ ऋग्वेद १. १५, १; २ ३६, ०; ३७, २ ४।

पौश्वलेय, तैत्तिरीय ब्राह्मण (३.८, ४, २) में वेश्या (पुंश्वली) के पुत्र का स्रोतक है।

पौसायन, शतपथ ब्राह्मण (१२.९, ३, १) में दुष्टरीतु का पैट्टक नाम है।

पुञ्जिष्ठ, अथर्ववेद^१, वाजसनेयि संहिता^२ और तैत्तिरीय ब्राह्मण^३ में पुञ्जिष्ठ शब्द का एक रूप और 'मद्युये' का स्रोतक है। यह सम्भवतः कर्मणा-जाति की उपाधि के रूप में एक जाति-नाम ('पुञ्जिष्ठ' का पुत्र) है।

^१ १० ४, ९।

^२ ३०.८

^३ ३ ४, ५, १, जहाँ सायण इसको उस

'कौवर्त' शब्द के साथ वर्गीकृत करते हैं, जो स्वयं भी सम्भवतः एक कर्मणा-जाति का ही नाम है।

पौण्डरीक, पञ्चविंश ब्राह्मण (२२.१८, ७) में क्षेमघृत्वन् का पैट्टक नाम है।

पौत-क्रत (पूतक्रता का वंशज) ऋग्वेद^१ में एक व्यक्ति, प्रत्यक्षः दस्यवै वृक, का मातृनामोद्गत नाम है । शोफ्टेलोवित्स^२, ऋग्वेद की कश्मीर-पाण्डुलिपि के साथ इमको 'पूतक्रतु' पढ़ना उपयुक्त समझते हैं और अपने समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि उसी सूक्त में पूतक्रतु की पत्नी 'पूतक्रतायी' का भी सन्दर्भ होने के कारण 'पूतक्रतु' ही अधिक उपयुक्त है, क्योंकि 'पूतक्रतायी'^३ भी उसी प्रकार स्त्री का द्योतक है जिस प्रकार 'मनावी' के लिये मनायी^४ । किन्तु, जैसा कि औल्डेनबर्ग^५ ने व्यक्त किया है, वंशज के आशय में उक्त साधारण पाठ ही सर्वथा उपयुक्त है ।

^१ ८. ५६, २ ।

^२ डी० ऋ० ४१, ४२ ।

^३ देखिये, पाणिनि, ४. १, ३६ ।

^४ मैत्रायणी संहिता १. ८, ६; पाणिनि ४

१, ३८ । सम्भवतः 'वसावी' भी,

ऋग्वेद १०. ७३, ४ ।

^५ गो० १९०७, २३७ ।

पौतिमाषी-पुत्र ('पूतिमाष' के एक स्त्री-वंशज का पुत्र), काण्व शाखा बृहदारण्यक उपनिषद् (६.५, १) के अन्तिम वंश (गुरुओं की तालिका) में एक गुरु का मातृनामोद्गत नाम है ।

पौति-माष्य ('पूतिमाष' का वंशज) काण्व शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद् (२.६, १; ४.६, १) के प्रथम दो वंशों (गुरुओं की तालिकाओं) में गौपवन के शिष्य, एक गुरु का पैतृक का नाम है ।

पौतिमाष्यायण (पौतिमाष्य का वंशज) उस गुरु का पैतृक नाम है, जिसने, माध्यंदिन शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद् (२.५, २०; ४.५, २६) के प्रथम दो वंशों के अनुसार, कौण्डिन्यायन के साथ, रैभ्य को शिक्षा दी थी ।

पौत्र (पुत्र का पुत्र), अथर्ववेद^१ और उसके बाद^२ से 'पुत्र के पुत्र' के लिये प्रयुक्त नियमित शब्द है । जब यह नप्तृ^३ के साथ प्रयुक्त हुआ है, तो इस वाद के शब्द को 'प्र-पौत्र' का ही द्योतक होना चाहिये ।

^१ ९. ५, ३०, ११ ७, १६, १८ ४३, ९ ।

^२ ऐतरेय ब्राह्मण ७ १०, तैत्तिरीय ब्राह्मण

२ १, ८, ३, इत्यादि ।

^३ लाट्याचन श्रौत सूत्र १ ३, १८, आप-

स्तम्ब श्रौत सूत्र १०. ११, ५, ऐतरेय ब्राह्मण ७ १०, ३ ।

तु० की० डेलब्रुक . डी० व० ४७८ ।

पौर ('पूरु' का वंशज) ऋग्वेद^१ के एक सूक्त में एक व्यक्ति, सम्भवतः

^१ ८ ३, १० ।

एक पूरु राजा, का नाम है जिसकी इन्द्र ने सहायता की थी। सिकन्दर के प्रतिद्वन्दी राजा का यूनानी नाम 'पूरोस' (Πωρος) कदाचित् इसी नाम का प्रतिनिधित्व करता है। औलडेनवर्ग^२ ने एक अन्य स्थल^३ पर भी इसी नाम को देखा है।

^२ ऋग्वेद-नोटेन, १, ३६२, जैसा कि भी है।
 ग्रासमैन : वर्टरबुख, व० स्था० में ^३ ५ ७४, ४।

पौरु-कुत्स^१, पौरु-कुत्सि^२, और पौरु-कुत्स्य^३, तीनों ही पुरुकुत्स के वंशज, त्रसदस्यु के पैतृक नाम हैं।

^१ काठक संहिता २२ ३; पञ्चविंश ब्राह्मण ^३ ऋग्वेद ५ ३३, ८; ८. १९, ३६;
 २५ १६, ३। तैत्तिरीय संहिता ५ ६, ५, ३।
^२ ऋग्वेद ७ १९, ३।

पौरु-शिष्टि ('पुरुशिष्ट' का वंशज) तैत्तिरीय उपनिषद् (१९, १ = तैत्तिरीय आरण्यक ७. ८, १) में तपोनित्य का पैतृक नाम है।

पौर्या-मासी की, जो 'पूर्णिमा की रात्रि' का द्योतक है, अथर्ववेद^१ में पवित्र होने के रूप में प्रशस्ति है, जब कि वाट^२ में इसका बहुधा ही उल्लेख मिलता है। गोभिल^३ ने सूर्य और चन्द्रमा के बीच सर्वाधिक 'विकर्ष' के रूप में इसकी परिभाषा की है। तु० की० मास।

^१ ७. ८०।
^२ तैत्तिरीय संहिता १. ६, ९, १, २ २,
 २, १, ३. ४, ९, ६, ऐतरेय ब्राह्मण
 ७ ११, शतपथ ब्राह्मण १. २, २, ४,
 इत्यादि।

^३ १ ५, ७। गोभिल ने तीन प्रकार के पूर्ण चन्द्रमाओं का विभेद किया है: वह जब 'सन्ध्या' के समय दिन और रात के सन्धिस्थल पर उगता है;

वह जो सूर्यास्त के थोड़ी ही देर बाद उगता है; अथवा वह जो उच्चाकाश में स्थित होता है। प्रथम दो विकल्प प्रत्यक्षतः वही हैं जिनका एक स्थल (ऐतरेय ब्राह्मण ७ ११ = कौषीतकि ब्राह्मण ३. १) पर 'पूर्वा' और 'उत्तरा' के रूप में वर्णन है। देखिये, वेवर - ज्योतिष, ५१; औलडेनवर्ग : से० बु० ई० ३०, २६, नोट।

पौलुषि ('पुलुष' का वंशज), शतपथ ब्राह्मण (१०.६, १, १) और छान्दोग्य उपनिषद् (५ ११, १) में सत्ययज्ञ का पैतृक नाम है। जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (१.३९, १) में इसका 'पौलुषित' रूप मिलता है, जो सम्भवतः केवल एक श्रुति है।

पौलकस, यजुर्वेद^१ में पुरुषमेध के किसी वलि-प्राणी का नाम है। एक घृणित जाति के लोगों के नाम के रूप में, चाण्डाल के साथ-साथ, यह नाम बृहदारण्यक उपनिषद्^२ में भी आता है। मैत्रायणी संहिता^३ में इसका 'पुक्कस' अथवा 'पुक्कक' रूप मिलता है, जो कि स्पष्टतः उस 'पुक्कस' के ही समान है जिससे 'पौलकस' व्युत्पन्न हुआ है, और ऐसा व्यक्त करता है कि इससे एक जाति का ही तात्पर्य है (तु० की० कौलाल, पौञ्जिष्ठ)। स्वीकृत सिद्धान्त^४ के अनुसार 'पुक्कस' एक निषाद् अथवा शूद्र द्वारा क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न पुत्र है, किन्तु यह केवल अनुमान मात्र ही है। 'पौलकस' या तो एक कर्मणा-जाति रही हो सकती है, अथवा, जैसा कि फिक^५ का विश्वास है, एक आदिवासी कबीला जो वन्य-पशुओं को पकड़ कर अपना जीवन-यापन और केवल कभी-कभी ही निम्नकोटि के कार्य करता था।

^१ वाजसनेयि संहिता ३० १७, तैत्तिरीय
ब्राह्मण ३. ४, १४, १।

^२ ४ ३, २२।

^३ १. ६, ११।

^४ तु० की० सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व०

स्था० 'पुक्कस'। तिसमर . आस्ट्रिन्डिशे
लेवेन २१७, 'पौलकस' को एक मिश्रित
जाति के रूप में ग्रहण करते हैं।

^५ डी० ग्ली० २०६। तु० की० एंग्लिङ्ग :
से० बु० ई० ४४, ४६, नोट ६।

पौष्कर-सादि ('पुष्करसादि' का वंशज) एक गुरु का नाम है जिसका शाङ्खायन आरण्यक^१, और साथ ही साथ, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य^२ में भी, उल्लेख मिलता है। आपस्तम्ब के धर्म-सूत्र^३ में, और अन्यत्र भी, एक 'पुष्करसादि' का उल्लेख है।

^१ ७. १७। तु० की० कीथ : ज० ए० सो०
१९०८, ३७१।

^२ १. ५; २ १. २. ५, पाणिनि ८. ४, ४८;
वार्त्तिक ३; कीलहार्न : इन्डियन

ऐन्टिकेरी १६, १०३; पित्राल : वही
३४, २६।

^३ १ ६, १९, ७; १०, २८, १।

पौष्पिण्ड्य, सामविधान ब्राह्मण^१ के अन्त में मिलनेवाले एक वंश (गुरुओं की तालिका) में जैमिनि के शिष्य, एक गुरु का नाम है।

^१ तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, ४ ३७७।

प्युच्छण, शतपथ ब्राह्मण (५.३, १, ११) में मिलता है, जहाँ, सम्भवतः चर्म के बने, धनुस् के आवरण का द्योतक है।

प्रऽउग, प्रत्यक्षतः 'प्र-युग' का ही समानार्थी है, और 'जूये' (पशुओं को गाड़ी से सन्नद्ध करने के लिये प्रयुक्त एक उपकरण) के सामने निकले हुये रथ के उस बेंडे स्तम्भ के अग्रभाग का द्योतक है, जो रथ को 'जूये' के साथ सन्नद्ध करता है । इसका यजुर्वेद संहिताओं^१ और शतपथ ब्राह्मण^२ में उल्लेख है, जहाँ इसे, उक्त स्तम्भ का वह भाग बताया गया है जो कस्तुम्भी अथवा स्तम्भ के आधार के पीछे स्थित होता है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ५. ४, ११, १ २,
काठक संहिता २१. ४ ।
^२ शतपथ ब्राह्मण १ १, २, ९, ३ ५, ३,
४, इत्यादि ।

तु० की० स्मिन्मर : आस्टिन्डिशे
लेवेन, २४८, एरिल्डन से० बु० ई०
१२, १४, नोट १ ।

प्र-कङ्कत, ऋग्वेद^१ में किसी घातक कीटाणु का द्योतक है ।

^१ १. १९१, ७ । तु० की० स्मिन्मर आस्टिन्डिशे लेवेन ९८ ।

प्र करित्, यजुर्वेद^१ में पुरुषमेध के किसी वलि-प्राणी का नाम है । इसका ठीक-ठीक भाष्य अनिश्चित है । तैत्तिरीय ब्राह्मण पर भाष्य करते हुये सायण इसकी 'शत्रुता विकसित करके प्रियजनों के बीच विभेद उत्पन्न करनेवाला' के रूप में व्याख्या करते हैं, किन्तु 'छिड़कनेवाला' भाष्य अधिक सम्भव प्रतीत होता है ।

^१ वाजसनेयि संहिता ३०. १२; तैत्तिरीय
ब्राह्मण ३ ४, ८, १ । तु० की०
एरिल्डन से० बु० ई० ४४, ३१५,

नोट १; वेवर इन्डिशे स्ट्रूफेन, १,
७९, नोट ६ ।

प्र-कश, अथर्ववेद (९.१, २१) में प्रतिष्कश की 'नध्री' का द्योतक प्रतीत होता है ।

प्र-क्रम का शतपथ ब्राह्मण (१०.२, ३, १ और वाद) में दूरी के एक नाप के रूप में उल्लेख है, किन्तु इससे व्यक्त ठीक-ठीक दूरी अज्ञात है ।

प्रक्ष, तैत्तिरीय संहिता^१ में प्लक्ष नामक सुपरिचित वृक्ष के नाम का रूप है जो कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से केवल एक ध्वन्यात्मक परिवर्तन मात्र है । ऑफरेख्त^२ के अनुसार सामवेद^३ के दो स्थलों पर यही शब्द मिलता है, और

^१ ६ ३, १०, २ ।

^२ ऋग्वेद २, xlvii, नोट ।

^३ १ ४४८, २ ४६५ ।

ऐतरेय भारण्यक^४ में भी यही पाठ आता है। फिर भी, औल्हेनवर्ग^५ इस वाद के स्थल तथा म्यामवेद में 'प्रक्ष' पाठ की शुद्धता पर सन्देह व्यक्त करते हैं।

^४ ५ २, २, कीथ की टिप्पणी सहित।

तु० की० तिस्रर : आस्टिन्डिशे

^५ ऋग्वेद-नोटिन, १, ३४४।

लेवेन, ५९।

प्र-घात, यजुर्वेद संहिताओं^१ और शतपथ ब्राह्मण^२ में एक घने-विने कपड़े के उन किनारों के आशय में आता है जिनसे नीवि, अथवा विना-विने धागों की झालर लटकती रहती थी।

^१ तैत्तिरीय संहिता ६ १, १, ३; काठक : ^२ ३ १, २, १८।

महिता २३ १। मैत्रायणी संहिता

तु० की० एग्लिङ्ग . से० बु० ई०

३ ६, २ ३ में यह शब्द नहीं आता।

२६, १०, नोट १।

प्र-चलाका का, तैत्तिरीय संहिता (७ ५, ११, १) और काठक संहिता (अश्वमेध, ५. २) में 'वादल की घटा' अर्थ प्रतीत होता है।

प्रजावन्त् प्राजापत्य ('प्रजापति' का वंशज) ऐतरेय ब्राह्मण (१.२१) के अनुसार ऋग्वेद के एक सूक्त (१०.१८३) का प्रणेता है।

प्र-शापात्, ऋग्वेद (८.१७, १३) में 'पौत्र' का द्योतक है।

प्र-रौजन का, शतपथ ब्राह्मण (१.२, २, १८) में 'धोने के लिये प्रयुक्त जल' को व्यक्त करने के लिये प्रयोग किया गया है।

प्र-ततामह (प्र-पितामह) अथर्ववेद (१८.४, ७५) में मिलता है।

प्र-तर्दन, काठक संहिता^१ में एक ऐसे राजा का नाम है जिसका पुरोहित एक भरद्वाज था। कौपीतकि ब्राह्मण^२ में इसका नैमिष-वन में ऋषियों के यज्ञ के समय पधारने और उनसे यह पूछनेवाले के रूप में उल्लेख है कि यज्ञ की त्रुटियों का किस प्रकार परिमार्जन किया जा सकता है, और उस यज्ञ के समय उपस्थित अलीक्यु वाचस्पत नामक ब्रह्मन् पुरोहित इसके इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहा। कौपीतकि उपनिषद्^३ में ऐसा कथन है कि युद्ध में मृत्यु हो जाने पर 'प्रतर्दन दैवोदासि' इन्द्रलोक चला गया था। यह पैतृक नाम इसे सुदास् के साथ सम्बद्ध करता है। इसके पुरोहित के रूप में एक भरद्वाज का उल्लेख भी इस पैतृक नाम की पुष्टि करता है, क्योंकि भरद्वाज-परिवार के गायकों में दिवोदास विशेष लोकप्रिय था। इसके अतिरिक्त, हमका

^१ ७१. १०।

^३ ३ १।

^२ ७६. ५।

नाम 'वृत्सुओं' (दोनों शब्दों में 'तर्द' धातु है) और 'प्रवृदः' (देखिये प्रवृद्) का स्मरण दिलाता है । किन्तु वैदिक साहित्य में यह काशि का राजा नहीं है ।^४ गेवडनर^५ इसे दिवोदास का पुत्र मानते हैं, किन्तु यह सम्भव नहीं । तु० की० प्रातर्दनि ।

^४ जैसा कि महाकान्य में है, पाजिटर : | ^५ वेदिशे स्टूडियन २, १३८ ।
ज० ए० सो० १९१०, ३८ ।

प्रतिधि देव-तरथ, वंश ब्राह्मण^१ में देवतरस् शावसायन के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

^१ इन्दिशे स्टूडियन ३, ३७३, ३८५, मैक्स मूलर . ऐन्शेन्ट मस्कून लिटरेचर ४४४ ।

प्रति-दीवन्, ऋग्वेद (१० ३८, ६) और अथर्ववेद (७० १०९, ४) में 'पासे के खेल में विपत्ती' का द्योतक है ।

प्रति-दुह से, वाद की संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में. तत्काल दुहे गाय के 'ताजे दुग्ध' का आशय है ।

^१ अथर्ववेद ९ ४, ४, तैत्तिरीय संहिता २ ५, ३, ३, काठक संहिता ३७ ६, इत्यादि । | ^२ पञ्चविंश ब्राह्मण ९ ५, ५, १८ ४, २, शतपथ ब्राह्मण ३. ३, ३, २, तैत्तिरीय ब्राह्मण २ ७, ६, २, इत्यादि

प्रति-धा से ऋग्वेद^१ के एक ऐसे स्थल पर 'पान' या 'घूट' का अर्थ है, जहाँ इन्द्र द्वारा एक 'प्रतिधा' में ही तीस 'सरासि' का जल पी जाने का उल्लेख है ।

^१ ८ ७७, ४, निरुक्त ५ ११ ।

प्रति-धि, ऋग्वेद^१ के सूर्य-सूक्त में उस रथ के किसी भाग का द्योतक है जिस पर बैठकर वधू को घर ले जाया जाता है । इससे ठीक-ठीक क्या अर्थ है यह निश्चित कर सकना असम्भव है । रौथ^२ इससे लकड़ी के उस बड़े टुकड़े का अर्थ मानते हैं जो रथ के स्तम्भ से सज्ज रहता था ।

^१ १० ८५, ८ ।

| ^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० ।

प्रति-पण, अथर्ववेद (३० १५, ४) में मिलता है जहाँ यह व्यावसायिक 'विनिमय' अथवा 'परिवर्तन' का द्योतक है । तु० की० पण ।

प्रति-प्रश्न, शतपथ ब्राह्मण^१ में सन्देहों का निवारण करनेवाले के रूप में प्रजापति के लिये व्यवहृत हुआ है। यह 'मध्यस्थ' के लिये एक पारिभाषिक शब्द हो सकता है (तु० की० मध्यमशी और धर्म)।

^१ १, ४, ५, ११; ४. १, ३, १४, एग्लिङ्क-
से० वु० ई० १२, १३१, और २६,
२६७, में 'प्रतिप्रश्नम्' का निर्णय प्राप्त
करने के लिये (प्रजापति के पास

गया) अनुवाद करते हैं, जो इस बात
को सदिग्ध ही छोड़ देता है कि उसने
किस पथ का अनुसरण किया था।

प्रति-प्रस्थातृ, वाद की संहिताओं और ब्राह्मणों^१ में 'अध्वर्यु' के सहायक एक पुरोहित (ऋत्विज्) का नाम है। ऋग्वेद^२ में इसका उल्लेख नहीं है, किन्तु इस संहिता^३ में एक बार दो 'अध्वर्युओं' का उल्लेख मिलता है। जैसा कि वाद में था, इन दोनों से 'अध्वर्यु' और 'प्रतिप्रस्थातृ' का अर्थ हो सकता है। फिर भी, औल्डेनवर्ग का विचार है कि यहाँ 'अध्वर्यु' और 'अग्नीध्' से तात्पर्य है, और इस अनुमान के लिये कुछ प्रामाणिक आधार^४ भी है।

^१ तैत्तिरीय संहिता ६ ५, ३, ४, ऐतरेय
ब्राह्मण १ २९, ७ १, शतपथ ब्राह्मण
३ ५, २, २, ३, १३, २२, इत्यादि।

^२ औल्डेनवर्ग : रिलीजन देस वेद ३८४,
नोट २।

^३ २ १६, ५।

^४ उ० पु० ३९०, नोट २।

^५ तु० की० ऋग्वेद १० ४१, ३, शाङ्खा-
यन श्रौत सूत्र १ ६, ३, में एक मन्त्र।
तु० की० हिलेब्रान्ट : रिचुअल लिट-
रेचर, ९७।

प्रति-प्राश् देखिये प्राश् ।

प्रतिबोधी-पुत्र, वास्तव में प्रातीबोधी-पुत्र का एक अशुद्ध पाठ है।^१

^१ इन्डिशे स्टूडियन, १, ३९१, कौय . ऐतरेय आरण्यक २४४, ३१०।

प्रति-मित्, गृह के वर्णन के अन्तर्गत अधर्ववेद^१ में मिलता है। इससे किसी प्रकार के स्तम्भक, सम्भवतः उपमितों से एक कोण पर झुकी 'धरनों' का ही आशय होना चाहिये।

^१ ९, ३ १। तु० की० तिसरः आस्टिन्डिशे लेवेन, १५३, वूमफ्रील्ड :
अथर्ववेद के सूक्त ५९६।

प्रति-वेश (पद्मोसी), लाक्षणिक आशय में, ऋग्वेद^१ और उसके वाद^२ से अक्सर मिलता है ।

^१ १० ६६, १३ ।

^२ तैत्तिरीय संहिता २ ६, ९७, वाजसनेयि संहिता ११. ७५; काठक संहिता ३६.

९; शतपथ ब्राह्मण ४ १, ५, २;

तैत्तिरीय उपनिषद् १. ४, ३ ।

प्रति-वेश्य का, शाङ्खायन आरण्यक (१५. १) के अन्त के एक वंश (गुरुओं की तालिका) में वृहद्वि के शिष्य के रूप में उल्लेख है । तु० की० प्रतिवेश्य ।

प्रति-श्रुत्का (प्रतिध्वनि) ऐसा व्यक्त करता है कि यजुर्वेद संहिताओं^१ तथा कौपीतिक उपनिषद् (४. १३) जैसे प्राचीन ग्रन्थों के समय तक में इस घटना का नामकरण कर दिया गया था ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ५ ५, १४, १, मैत्रा-यणी संहिता ३. १४, १३, काठक

संहिता, अश्वमेध, ७ ४; वाजसनेयि संहिता २४ ३०; ३० १९ ।

प्रति-ष्ठा, अथर्ववेद^१ के एक स्थल पर मिलता है, जहाँ तिसमर^२ के विचार से इसका विधान से सम्बद्ध एक पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है । इससे कदाचित किसी 'पवित्र स्थान' का अर्थ हो सकता है, किन्तु रौथ^३ द्वारा प्रदत्त 'गृह' अथवा 'आवास' का आशय सर्वथा पर्याप्त है अथवा नहीं यह बहुत कुछ सदिग्ध ही है । तु० की० ज्ञातृ ।

^१ ६ ३२, ३ = ८ ८, २१ = शाङ्खायन आरण्यक १२ १४ ।

^२ आस्टिन्डिशे लेवेन १८१ ।

^३ सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० ३ ।

इसी प्रकार एक 'प्रतिष्ठा-काम' (स्थायी आवास का आकाक्षी), तैत्तिरीय संहिता २ १, ३, ४, पञ्चविंश ब्राह्मण २३ १८, १, इत्यादि ।

प्रति-सर का, अथर्ववेद^१ और वाद^२ में भी अनेक स्थलों पर, रौथ^३ के अनुसार एक 'कवच' के वाचक के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह एक बन्धन होता था और इसलिये स्वयं पर लौट आता था (प्रति-सृ^४,

^१ ० ११, २, ४. ४०, १, ८ ५, १ ४ ।

^२ शतपथ ब्राह्मण ५ ०, ४, २०, शाङ्खायन आरण्यक १२ ३०, इत्यादि ।

^३ सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था०, जिसका एरिलिङ्ग से० बु० ई० ४१, ५३, नोट २ ने अनुसरण किया है ।

अर्थात् 'लौट जाना') । फिर भी आशय संदिग्ध है; कदाचित् 'आक्रमण करना' ही वास्तव में मूल आशय हो सकता है ।^१ तु० की० पुनःसर

^१ तु० की० वल्सफील्ड : ज० अ० ओ०
सो० १३, cxxxiii, अथर्ववेद के
सूक्त ५७६ ।
तु० की० तिसमर : आल्टिन्डिशे लेवेन,

२६३, लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद
३, ३४५; वेवर : इन्डिशे स्टुडियन,
१३, १६४ ।

प्रति-हर्तृ, सोलह पुरोहितों (ऋत्विज्) की सूची में 'उद्गातृ' के सहायक का नाम है । यह वाद की संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में तो मिलता है, किन्तु ऋग्वेद^३ में नहीं ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ३ ३, २, १ ।
^२ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ८, २, ३; ऐतरेय
ब्राह्मण ७ १; शतपथ ब्राह्मण ४ ३,
४, २२, १२. १, १, ८, पञ्चविंश

ब्राह्मण २५. १५, ३, छान्दोग्य उप-
निषद्, १. १०, ११, ११, ८ ।
^३ तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद,
३, २२७ ।

प्रती-दर्श श्वैक का शतपथ ब्राह्मण^१ में 'दाक्षायण' हवि द्वारा यज्ञ करने वाले के रूप में, और उस सुप्लन् सार्ज्य को शिक्षित करनेवाले के रूप में उल्लेख है, जो इस शिक्षा के वाद से सहदेव सार्ज्य बन गया । एक दूसरे स्थल^२ पर इसे 'प्रतीदर्श ऐभावत्' कहा और सुप्लन् सार्ज्य के साथ पुनः सम्बद्ध किया गया है । एग्लिङ्ग^३ के अनुसार, इसे 'श्वित्तों का एक राजा मानना चाहिये; साथ ही, प्रत्यक्षतः यह 'इभावत्' का भी एक वंशज था । जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण^४ में भी एक 'प्रतीदर्श' का उल्लेख है ।

^१ २ ४, ४, ३ ।
^२ १२ ८, २, ३ ।

^३ से० तु० ई० ४४, २३९, नोट २ ।
^४ ४ ८, ७ ।

प्रतीप प्रातिसत्वन,^१ अथवा प्रातिसुत्वन,^२ किसी व्यक्ति का नाम है जिसका अथर्ववेद^३ के एक सूक्त में उल्लेख है । तिसमर^४, अत्यधिक विद्वत्तापूर्वक, इस तथ्य की तुलना करते हैं कि परिक्षित का अथर्ववेद^५ में एक कुरु राजा के रूप

^१ खिल ५, १५, १; ऐतरेय ब्राह्मण ६
३३, २, में यही है ।

१६१; शाङ्खायन श्रौत सूत्र १२
१८, १ ।

^२ अथर्ववेद २० १२९, २, में यही हैं ।
तु० की० शेफ्टेलोविट्स : डी० ऋ०

^३ आल्टिन्डिशे लेवेन १३१ ।
^४ २० १२७ ।

में उल्लेख है, और महाकाव्य की वंशावली के अनुसार वह 'प्रतिश्रवस्' इसका पौत्र था जिसके नामके साथ 'प्रातिश्रुत्वन्' के ही बहुत सम्भवतः एक प्राकृत रूप 'प्रातिसुत्वन्' की तुलना की जा सकती है, और 'प्रतीप', इसका (परिचित का) प्र-पौत्र था। फिर भी इस समीकरण को किसी भी प्रकार निश्चित नहीं मानना चाहिये, और जहाँ महाकाव्य ने अपनी वंशावली को अथर्ववेद से ग्रहण किया हो सकता है वहीं उसमें एक स्वतंत्र परम्परा भी सुरक्षित हो सकती है। वौटलिङ्क^१ ने 'प्रातिसुत्वन्म्' का 'सुत्वनों के विपरीत दिशा में' अनुवाद किया है, और यह ठीक भी हो सकता है।

^१ डिक्शनरी, व० स्था०।

प्रती-बोध का अथर्ववेद^१ के दो स्थलों पर बोध के साथ, प्रत्यक्षतः एक अत्यन्त पौराणिक ऋषि के नाम के रूप में उल्लेख है।

^१ ५. ३०, १०, ८ १, १३। तु० की० मानव गृह्य सूत्र २ १५, १।

प्रतृद्, ऋग्वेद^१ के एक सूक्त में एक वार बहुवचन रूप में आता है जहाँ यह स्पष्टतः तृत्सु शब्द का ही विभेद है। इसके अतिरिक्त, तृत्सु-राज दिवोदास के एक वंशज, राजा प्रतर्दन का नाम भी 'तृत्सु' और 'प्रतृद्' के समीकरण की पुष्टि करता है।^२

^१ ७. ३३, १४।

^२ देखिये लुडविग. ऋग्वेद का अनुवाद

३, १५९, गेट्डनर : वेदिशे स्टूडियन
२, १३८।

प्र-तोद्, अथर्ववेद^१ और पञ्चविंश ब्राह्मण^२ में एक अत्राह्मण भार्य अथवा आदिवासी प्रात्य के 'अंकुश' का द्योतक है। वाद में इस शब्द का नियमित रूप से 'अंकुश' के आशय में सामान्य प्रयोग मिलता है।

^१ १५. २, १।

^२ १७ १, १४। देखिये शाङ्खायन आरण्यक १०. ८; कात्यायन श्रौत सूत्र २२ ४, १०, लाट्यायन श्रौत सूत्र

८ ६, ७, शाङ्खायन श्रौत सूत्र १४. ७०, ३। 'तोमर' अनुवाद के लिये कोई प्रमाण नहीं है। किन्तु देखिये, वेवर : इन्डियन लिटरेचर, ६७।

प्रत्यक्ष-दर्शन (संज्ञा) से, स्वप्न में दर्शन करने की अपेक्षा अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखना अर्थ है। इस प्रकार के स्वप्न-दर्शनों का ऋग्वेद के आरण्यकों^१ में उल्लेख है।

^१ ऐतरेय आरण्यक ३. २, ४; शाङ्खायन आरण्यक ८ ७।

प्रत्य्-एनस् बृहदारण्यक उपनिषद्^१ में उग्र और सूत-ग्रामणी के साथ-साथ मिलता है और स्पष्ट रूप से पुलिस अधिकारी जैसे किसी व्यक्ति का द्योतक है। जैसा कि मैक्स मूलर ने अपने अनुवाद में ग्रहण किया है, इससे किसी राजा^२ के उच्चाधिकारियों की अपेक्षा उसके कुछ साधारण कर्मचारियों का ही आशय है। काठक संहिता^३ और शाङ्खायन श्रौत सूत्र^४ में, सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश के अनुसार, इम शब्द का अर्थ ऐसा उत्तराधिकारी है जो किसी मृत व्यक्ति का ऋण चुकाने के लिये उत्तरदायी होता है।

^१ ४, ३, ४३ ४४ (माध्यदिन = ४ ३, ३७
३८ काण्व) ।

^२ वौटलिङ्ग का अनुवाद, पृ० ६६, जहाँ
आप 'उग्र' को एक विशेषण के रूप में

ग्रहण करते हैं।

^३ ८ ४ (इन्डिशे स्टूडियन, ३, ४६३) ।

^४ ४ १६, १६. १७ ।

प्र-दर, वाद की संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में भूमि के एक 'गर्त' का द्योतक है।

^१ तैत्तिरीय संहिता ३ ४, ८, ५, ५ २,
४, ३, वाजसनेयि संहिता २५ ७ ।

^२ ऐतरेय ब्राह्मण ६ ३५, १, तैत्तिरीय

ब्राह्मण १ १, १०, ७, शतपथ ब्राह्मण
११ २, ३, ८, १३ ८, ३, १०,
इत्यादि।

प्र-दिष्, अथर्ववेद (१८. २, ४८) में वह तृतीय और उच्चतम आकाश है, जहाँ पितृगण रहते हैं। कौपीतिक ब्राह्मण (२०. १) में यह सात आकाशों में से पाँचवा है।

प्र-दिष् भी, दिष् की ही भाँति सामान्यतया आकाश की एक 'दिशा' का द्योतक है। इस प्रकार के चार^१, पाँच^२, छह^३, और सात^४ दिक्-विन्दुओं की गणना कराई गई है, और अधिक सामान्य रूप 'सभी दिक्-विन्दुओं' का ही उल्लेख है।^५ दूमरी ओर, कुछ स्थलों^६ पर इस शब्द से एक मध्यवर्ती दिशा का ही निश्चित आशय है, जिसे अधिक उपयुक्ततः 'भवान्तर-दिष्' से व्यक्त किया गया है।

^१ ऋग्वेद १ १६४, ४२; ७ ३५, ८,
१० १९, ८; अथर्ववेद १. ११, २,
० १०, ३ ।

^२ ऋग्वेद ९ ८६, २९, अथर्ववेद १ ३०,
४, ३ ४, २; २०, ९ ।

^३ अथर्ववेद ४ ११, १; २०, २, १० ७,

३५ ।

^४ वाजसनेयि संहिता १८ ३२ ।

^५ ऋग्वेद ६ ७५, २; १०. १२१, ४ ।

^६ अथर्ववेद ५ २८, २, ९ २, २१; १९.
२०, २, इत्यादि ।

प्र-धन, ऋग्वेद^१ में, चाहे वास्तविक युद्ध अथवा रथ के दौड़ की 'प्रति-द्वन्दिता' का द्योतक है।

^१ १ १६, २, १५४, ३, १६०, २, १० १०२, ५, इत्यादि।

प्र-धि, रथ के पहिये के किसी भाग, सम्भवतः 'चक्र-धार' का नाम है। ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर अथर्ववेद^२ में नभ्य (नाभि) और 'चक्रधार' (प्रधि) के साथ-साथ उपधि का भी उल्लेख है, जो या तो सम्पूर्ण तीलियों का सामूहिक नाम है, अथवा 'चक्रधार' की उस आन्तरिक परिधि का द्योतक है जिसमें सभी तीलियाँ घुसी होनी हैं। ऋग्वेद^३ के एक गूढ़ सूक्त में एक पहिया, तीन नाभियों, और तीन सौ साठ तीलियों के साथ-साथ चारह प्रधियों का उल्लेख है; यहाँ इम शब्द-विशेष से क्या तात्पर्य है इसका अनुमान निरर्थक ही होगा, यद्यपि यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण रूपसे इस स्थल पर तीन ऋतुओं, चारह मासों, और तीन-सौ-साठ दिनोंवाले वर्ष का प्रतीकात्मक वर्णन किया गया है। अन्यत्र^४ केवल नाभि और 'प्रधि' का ही, अथवा अकेले^५ प्रधि का ही उल्लेख है।

^१ २ ३९, ४।

^२ ६ ७०, ३।

^३ १ १६४, ४८।

^४ तैत्तिरीय संहिता ७ ४, ११, २; ऐतरेय ब्राह्मण ४ १५, बृहदारण्यक उपनिषद् १ ५, २३।

^५ ऋग्वेद ४. ३०, १५, १० १०२, ७, इत्यादि। अथर्ववेद १८ २, १४, में 'प्रधाव् अधि', ऋग्वेद १० १५५, १ के

'प्रधावति' का केवल एक विभेदात्मक पाठ मात्र है।

लेनमैन ने अथर्ववेद ६ ७०, ३ (नोट २) (विहट्टने के अथर्ववेद के अनुवाद xlii) में भी इसी भ्रष्टता को देखा है।

तु० की० विहट्टने . ८० पु० ३३४; रिसमर . आल्टिन्डिशे लेवेन २४८।

प्र-ध्वंसन—देखिये प्राध्वंसन।

प्र-पथा, अथर्ववेद (१२. १५, ४. ५) में, प्रतिपथा द्वारा संतुलित, व्यावसायिक 'विनिमय' अथवा 'परिवर्तन' का द्योतक है।

प्र-पथ, ऋग्वेद^१ और ऐतरेय ब्राह्मण^२ में 'लम्बी यात्रा' का द्योतक है। विलसन^३ ने एक स्थल^४ पर इसमें ऐसे 'विश्राम स्थान' का आशय देखा है जहाँ यात्रियों को भोजन (खादि) भी मिल सकता था। रिसमर^५ ने यह दिखाया है कि ऐसा आशय असम्भव है, और इस स्थल पर मिलनेवाले

^१ १०. १७, ४ ६; ६३, १६।

^२ ७ १५।

^३ ऋग्वेद का अनुवाद २, १५१।

^४ ऋग्वेद १ १६६, ९।

^५ आल्टिन्डिशे लेवेन, २३१।

‘प्रपथेषु’ पाठ का ‘प्रपथेषु’ के बदले एक त्रुटि होना बहुत असम्भव^६ नहीं है । काठक संहिता^७ में इस शब्द का अर्थ ‘चौड़ी सड़क’ है ।

^६ रौथ . सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०; कोश, व० स्था०, रौथ का अनुसरण
त्सी० ने० ४८, १०८, औल्डेनवर्ग : नहीं करते ।
ऋग्वेद-नोटेशन, १, १६६ । त्रोटलिङ्ग : ^७ ३७. १४ (इन्डिशे स्टूडियन, ३, ४६६)

प्र-पथिन्^१, ऋग्वेद^२ के एरु सूक्त में किसी दाता, सम्भवतः एक यादव, का नाम है ।

^१ ‘प्रपथी’ हा इसका मूल, और यह शब्द ‘मूल’ ही अन्यथा एक विशेषण के रूप में मिलता है ।
केवल एकवचन कर्ता रूप में, व्यक्ति-वाचक नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ हो सकता है (तु० की० मैकडौनेल : ^२ ८ १, ३० । तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५९, हॉपकिन्स : वैदिक ग्रामर, ३७७, ३), किन्तु यह सम्भव नहीं है क्योंकि ‘प्रपथिन्’ ज० अ० ओ० सो०, १७, ९० ।

प्र-पा, ऋग्वेद के एकमात्र स्थल^१ पर जहाँ यह आता है, मरुभूमि के ‘जलस्रोत’ का स्रोतक है । अथर्ववेद^२ में इससे केवल ‘पान करना’ अथवा ‘पेय’ का ही आशय है ।

^१ १० ४, १ ।

^२ ३ ३०, ६ । तु० की० तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ १०, १, २ ।

प्र-पितामह, वाद की संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में मिलता है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता १ ८, ५, १; वाज सनेधि संहिता १९ ३६, अथर्ववेद ^२ शतपथ ब्राह्मण २ ४, २, १६, १२ ८, १८ ४, ३५ । १, ७ ।

प्र-पित्वं, ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर समय के वाचक के रूप में मिलता है । एक स्थल^१ पर सन्दर्भ द्वारा आशय स्पष्ट हो गया है : ‘सूर्योदय के समय’ (सूर उदिते), ‘मध्याह्न के समय’ (मध्यंदिने दिव.), और ‘प्रपित्वं, अर्थात् रात्रि की सीमा पर’ (अपिशर्वरे) । एक अन्य स्थल^२ पर ‘दिन ढलने का समय’ अर्थ भी पर्याप्त प्रतीत होता है, जब कि ‘अभिपित्वे अह्नः’^३ (दिन समाप्त होने का समय) भी सन्ध्या का स्रोतक है । गेल्डनर^४ के अनुसार इस शब्द से,

^१ ८ १, २९ ।

^२ ७ ४१, ४ ।

^३ ४. १६, १२ ।

^४ वेदिशे स्टूडियन २, १७४ और वाद ।

किसी दौड़ या युद्ध का 'निर्णायक क्षण' अर्थात् 'दिन की समाप्ति का समय'^१ आशय है। तु० की० ग्रहन् ।

^१ रीय सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०, ने इसे 'प्रातःकाल' के अर्थ में ग्रहण किया है, और रिसमर : आल्टिन्डिशे लेवेन ३६७, भी ऐसा ही मानते हैं। दूसरी ओर, वौटलिङ्क डिक्शनरी, व० स्था०, इसे 'दिन ढलने का समय'

या 'सन्ध्या' अर्थ प्रदान करते हैं। 'व्यूमफील्ड . ज० अ० ओ० सो० १६, २४ और वाद, तथा औल्डेनवर्ग : से० बु० ई० ४६, १८३ और वाद, भी देखिये।

प्र-प्रोथ, पञ्चविंश ब्राह्मण (८. ४, १) में सोम के स्थानापन्न के रूप में प्रयुक्त किसी पौधे का नाम है।

प्र-फर्वी, ऋग्वेद (१०. ८५, २२), अथर्ववेद (५. २२, ७), और यजुर्वेद सहिताओं^२ में 'अष्ट स्त्री' का द्योतक है।

^३ तृत्तीय सहिता ४ २, ५, ६, मंत्रायणी सहिता २ ७, १२; काठक सहिता

१६ १२, वाजसनेयि सहिता १२, ७१।

प्र-तुध् का, ऋग्वेद के एक स्थल (८. २७, १९) पर 'निम्नुचि' (सूर्य के अस्त होने का समय) के समानान्तर अधिकरण रूप में प्रयोग किया गया है, और इसका स्पष्टतः 'सूर्योदय का समय' अर्थ है।

प्र-मगन्द ऋग्वेद^३ में एक राजा का नाम है। यहाँ इसका कीकटों के राजा के रूप में उल्लेख है, और इसे 'नैचाशाख' (नीच जाति का) उपाधि से व्यक्त किया गया है। दूसरी ओर, यास्क^४ ने 'प्रमगन्द' को एक 'कुसीदक-पुत्र' के आशय में ग्रहण किया है, किन्तु यह व्याख्या कदाचित ही सम्भव है। हिलेब्रान्ट^५ का विचार है कि 'नैचाशाख' से प्रमगन्द का नहीं वरन् उस सोम-पौधे का तात्पर्य है जिसे 'नीचाशाख' (जिसकी शाखायें अधोमुखी हों) कहा गया है, और इस स्थल पर दुग्ध-संस्कार या सोम-संस्कार में विश्वास न रखनेवाले 'कीकटों' के विरुद्ध उनकी ऐसी भूमि को विजित करने के उद्देश्य से किये गये आक्रमणों का सन्दर्भ है, जहाँ सोम उगता था और जहाँ गायें भी उपलब्ध थीं। फिर भी, वौटलिङ्क^६ इस मत पर सन्देह व्यक्त करते हैं, जो बहुत सम्भाव्य

^१ ३ ५३, १४।

^२ निरुक्त ६ ३०।

^३ वेदिशे माइथोलोजी १, १४-१६, २,

२४१-२४५।

^४ प्रोसीडिंग्स ऑफ संक्सन एकेडमी, दिसम्बर १२, १८९१।

नहीं है। 'नैचाशाख' से सम्भवतः किसी स्थान के नाम का ही तात्पर्य है।^१ 'प्रमगन्द' नाम अनार्य प्रतीत होता है।

^१ सायण, अपने ऋग्वेद-भाष्य भूमिका, पृ० ४, पर।
तु० की० तिस्रर : आल्टिन्डिशे

लेवेन ३१, लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५३, गेल्डनर : ऋग्वेद, कमेन्टर, ५८।

प्र-मन्दनी, अथर्ववेद^१ में किसी अप्सरस् का नाम है। मूलतः यह शब्द कदाचित किसी मधुर गन्धयुक्त पौधे का द्योतक था, और कौशिक सूत्र^२ में भी 'प्र-मन्द' का यही आशय प्रतीत होता है।

^१ ४ ३७, ३।
^२ ८ १७, २५, ११, ३२, २९, 'निष्प्रमन्द'
३६ १५। तु० की० तिस्रर . आल्टि-

न्डिशे लेवेन ६९, कैलेण्ड . आल्टि-
न्डिशे त्सावररिचुअल, १५, नोट ११।

प्र-मर को ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर लुडविग^२ ने व्यक्तिवाचक नाम के रूप में ग्रहण किया है।

^१ १० २७, २०।

| ^२ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६५।

प्र-मोत, सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश के अनुसार अथर्ववेद^१ में एक प्रकार की व्याधि का नाम है। फिर भी, तिस्रर^२ का विचार है कि इस शब्द को एक विशेषण होना चाहिये जिसका अर्थ 'मूक' है। यद्यपि सन्दिग्धता व्यक्त करते हुये इसी मत को विह्टने^३ और ब्लूमफील्ड^४ ने भी स्वीकार किया है।

^१ ९ ८, ४।

| ^३ अथर्ववेद का अनुवाद ५५०।

^२ आल्टिन्डिशे लेवेन ३७८, नोट।

| ^४ अथर्ववेद के सूक्त ६०१।

प्र-योग, यजुर्वेद संहिताओं^१ में एक द्रष्टा का नाम है।

^१ तैत्तिरीय संहिता ५ १, २०, १, काठक संहिता १९ १० (इन्डिशे स्टूडियन, ३, ४७८)

प्र-योग्य, छान्दोग्य उपनिषद् (८. १२, ३) में गादियों में जोते जानेवाले किसी पशु का द्योतक है।

प्र-लाप भी, इसी आशय के अन्य शब्दों के साथ, अथर्ववेद^१ और ऋग्वेद के ब्राह्मणों^२ में मिलता है। ऐतश-प्रलाप शब्द अथर्ववेद के कुछ स्थलों के नाम के रूप में आता है।^३ स्वयं इस ग्रन्थ में इस शब्द की कोई उपयुक्तता नहीं है।

^१ ११ ८, २५।

^२ ऐतरेय ब्राह्मण ६ ३३, कौषीतिकि ब्राह्मण ३० ५, शाङ्खायनश्रौत सूत्र १२ १७, ६, इत्यादि।

| ^३ देखिये, ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद पृ० ९८, १०१, नोट १२; शेफ्टेलोवित्स : डी० ऋ० १५९ और वाद, मैकडौनेल : बृहद्देवता, २, ३२३।

प्र-वचन का, शतपथ ब्राह्मण^१ और चाद^२ में 'मौखिक शिक्षा' या 'शिक्षा' अर्थ है ।

^१ ११ ५, ७, १ ।

उपनिषद् २ २३, मुण्डक उपनिषद्

^२ तैत्तिरीय उपनिषद् १. १, ३, ९, काठक

३ २, ३, इत्यादि ।

प्र-वत् (ऊँचाई) का, ऋग्वेद^१ में, जहाँ यह अनेक वार^२ आता है, निवत् (घाटी) के साथ विभेद किया गया है । वाद^३ में भी यह शब्द मिलता है ।

^१ ७ ५०, ४ ।

^२ ऋग्वेद २ १३, २, ४ १७, ७, २२,

४, ६ १७, १२, ७ ३२, २७, १०.

१४, १; ५७, १२, ७५, ४ ।

^३ अथर्ववेद १. १३, २, २६, ३, ६ २८,

३; १०. १०, २, १२ १, २, १८.

४, ७ ।

१. प्र-वर, किसी भी यज्ञ के आरम्भ में अग्नि को, अपना कार्य सम्पन्न करने के लिये सम्बोधित निवेदन का द्योतक है । किन्तु यतः उस समय पुरोहितों^१ के पूर्वजों के नामों से ही अग्नि का आवाहन किया जाता था, अतः 'प्रवर' शब्द आहूत पूर्वजों का ही द्योतक है ।^२

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ७ २५ । देखिये वेवर

इन्डिशे स्टूडियन, १०, ७८ ।

^२ तैत्तिरीय संहिता २ ५, १, ९, शतपथ

ब्राह्मण १. ५, १, १ २०, ३. ७, ४,

९; ऐतरेय ब्राह्मण ७ ३१, इत्यादि ।

२. प्र-वर^१, अथवा प्र-वार^२, बृहदारण्यक उपनिषद् में 'आवरण' अथवा 'ऊनी वस्त्र' का द्योतक है ।

^१ बृहदारण्यक उपनिषद् ६ १, १०
(माध्यन्दिन शाखा में) ।

^२ बृहदारण्यक उपनिषद्, उ० स्था० पर
सायण; और काण्व शाखा ६ २, ७

प्र-वर्त की, जो ब्रात्य के वर्णन में अथर्ववेद (१५ २, १ और चाद) में आता है, सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश ने एक 'गोल आभूषण' के रूप में व्याख्या की है । तैत्तिरीय संहिता (२, ४५३, विबलो० इन्डि०) के भाष्यकार के अनुसार इसका अर्थ 'कान की वाली' है ।

प्र-वल्हिका (प्रहेलिका), ऋग्वेद के ब्राह्मणों^१ द्वारा अथर्ववेद^२ के कुछ मन्त्रों को प्रदान किया गया नाम है ।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ६ ३३; कौपीतिक ब्राह्मण
३०. ७ ।

^२ २० १३३, शाङ्खायन श्रौत सूत्र १२

२२, खिल ५ १६ ।

तु० की० व्लूमफोल्ड । अथर्ववेद,

९८-१०० ।

प्र-वात (ऐसा स्थल जहाँ वायु चलती हो) का, ऋग्वेद^१ में एक ऐसे स्थान के रूप में उल्लेख है जहाँ पासे (अद्) के रूप में प्रयुक्त विभीतक फल उगते हैं । तैत्तिरीय संहिता^२ में सड़नेवाले पदार्थों को ऐसे स्थल पर फेंक देने का सन्दर्भ मिलता है ।

^१ १० ३४, १; निरुक्त ९ ८ । गेल्डनर : का सन्दर्भ है ।
 ऋग्वेद, ग्लॉसर ११९, का विचार है ^२ ६ ४, ७, २ ।
 कि यहाँ आँधी में टूट कर गिरे फलों

प्र-चार—देखिये २ प्रवर ।

प्र-वास (परदेश में रहना) का, ऋग्वेद^१ में उल्लेख है । विदेश में रहकर लौटे लोगों के लिये व्यवहृत संस्कारों का सूत्रों^२ में उल्लेख है ।

^१ ८ २९, ८ । गृह्य सूत्र २ १७, इत्यादि ।
^२ आश्वलायन गृह्य सूत्र १ १५; शाङ्खायन

प्र-वाहण जैवलि अथवा जैवल (जीवल का वंशज) एक राजा का नाम है जो उद्दालक का समकालीन था और उपनिषदों^१ में दार्शनिक शास्त्रार्थों में भाग लेनेवाले के रूप में आता है । यह सम्भवतः जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण^२ के 'जैवलि' के समान है ।

^१ बृहदारण्यक उपनिषद् ६ १, १ ७ | ३, १ ।
 (माध्यन्दिन = ६ २, १ ४ काण्व), ^२ १. ३८, ४ ।
 छान्दोग्य उपनिषद् १ ८, १, ५

प्र-शास्, ऐतरेय ब्राह्मण^१ के एक मन्त्र में, सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश के अनुसार 'कुठार' अथवा इसी के सामान काटने^२ के लिये प्रयुक्त किसी यन्त्र का द्योतक है ।

^१ २ ६, ५ । तु० की० निरुक्त ५ ११, पर, दुर्गा ।
^२ 'शस्' (काटना) से ।

प्र-शास्त्र, वैदिक यज्ञ के समय कार्य करनेवाले पुरोहितों में से एक (ऋत्विज्) का नाम है । छोटे यज्ञों में इनका कोई योग नहीं होता था, किन्तु पशु तथा सोम यज्ञों में यह आते हैं और इस प्रथम प्रकार के यज्ञ में एकमात्र यही, तथा द्वितीय में स्तुति-सूक्तों के गायन में होतृ पुरोहित के सहायक के

रूप में प्रमुख होते थे। ऋग्वेद^१, और अक्सर वाद^२ में भी, इनका नाम से ही उल्लेख है। ऋग्वेद^३ में इन्हें उपवक्तृ भी कहा गया है और यह नाम, 'प्रशास्तृ' की ही भाँति, इस तथ्य से निष्कृष्ट हुआ है कि इनके प्रमुख कर्तव्यों में से एक, अन्य पुरोहितों को निर्देशन (प्रैप) देना भी होता था। इनका एक अन्य नाम 'मैत्रावरुण' भी था क्योंकि इनकी प्रमुख स्तुतियाँ मित्र और वरुण को ही सम्बोधित होती थीं; इनका यह सम्बन्ध ऋग्वेद^४ तक में दृष्टिगत होता है। औल्डेनवर्ग^५ के अनुसार आप्री सूक्तों के 'दो दिव्य होतृ' वास्तव में 'होतृ' और 'प्रशास्तृ' के ही दिव्य प्रतिरूप हैं।

^१ १ ९४, ६, २ ५, ४, 'प्रशास्त्र'
(प्रशास्तृ का मोम-पात्र), ३६, ६,
'प्रशास्त्र' (प्रशास्तृ का पद), २ १,
२ = १० ९१, १०।

^२ वाजमनेयि संहिता १० २१, ऐतरेय
ब्राह्मण ५ ३४, शनपथ ब्राह्मण ४ ६,
६, ६, ११ ५, ५, ९, इत्यादि।

^३ ४ ९, ५, ६ ७१, ५, ९ ९५, ५।
लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद, ३,
२२६, के अनुसार 'उपवक्तृ' नाम,

'अद्यावाकृ' का प्राचीनतम समा-
नार्थी है।

^४ २ ३६, ६।

^५ रिलीजन देस वेद, ३९१। लुडविग .
उ० पु० ३, २२७, 'प्रशास्तृ' को
प्रस्तोतृ के साथ समीकृत करते हैं,
किन्तु यह असम्भाव्य है।

तु० की० औल्डेनवर्ग . उ० पु०
३८३, ३९०, ३९१, वेवर : इन्डिशे
स्टूडियन, १०, १४१ और वाद।

प्रश्न, सामान्य रूप से 'जिज्ञासा' अथवा 'त्रिवादग्रस्त प्रश्न' का द्योतक है। तैत्तिरीय संहिता^१ और अन्यत्र^२, 'प्रश्नम् एति' वाक्यपद से 'वह किसी व्यक्ति से एक विवादग्रस्त विषय पर उसका निर्णय पूछता है', आशय है। ऐतरेय ब्राह्मण^३ में 'प्रश्न' का निश्चिन अर्थ 'निर्णय' है। यजुर्वेद^४ में पुरुषमेध के षलि-प्राणियों की तालिका के अन्तर्गत 'प्रश्निन्', 'अभि-प्रश्निन्', और 'प्रश्न-त्रिवाक' को सम्मिलित किया गया है। यहाँ यह अत्यन्त सम्भव है कि इन नामों से किसी सुकदमे के तीन दलों—वादी, प्रतिवादी और मध्यस्थ अथवा न्यायाधीश (मध्यमशी), का ही अर्थ हो।

^१ २ ५, ८, ५, ११, ९।

^२ तैत्तिरीय ब्राह्मण २ १, ६, २, ऐतरेय
ब्राह्मण ३ २८।

^३ ५ १४।

^४ वाजसनेयि संहिता ३० १०; तैत्तिरीय
ब्राह्मण ३ ४, ६, १।

प्रष्टि भी, पृष्ट्या की भाँति, एक 'पार्वस्थ अश्व' का द्योतक है, जिससे यद्यपि^५ सन्नद्ध अश्व के साथ-साथ दौड़नेवाले अश्व का ही अर्थ होना आवश्यक

^५ सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था०।

नहीं, वरन् नायक के रूप में सबसे आगे सन्नद्ध एक तृतीय अश्व का भी आशय हो सकता है। यह तथ्य ऋग्वेद^२ में 'प्रष्टि' द्वारा—यहाँ मरुतों के दल के लिये व्यवहृत—दल (रोहितः) का नायकत्व (वहनि) करने के सन्दर्भ से भी व्यक्त होता है। अथर्ववेद^३ के एक अस्पष्ट स्थल पर 'पञ्च-वाही' (पाँच द्वारा वहन किया जानेवाला) के सन्दर्भ में भी 'प्रष्टियों' का उल्लेख है, किन्तु यहाँ इसका क्या अर्थ है इसका स्पष्ट अनुमान असम्भव है। 'प्रष्टि' का उल्लेख अन्यत्र^४ भी दुर्लभ नहीं है। एक स्थल^५ पर 'धुर्यो' और 'प्रण्व्यौ' का साथ-साथ उल्लेख है; इसमें सम्भवतः रथ खींचनेवाले स्तम्भ से सन्नद्ध दो अश्वों का, और दो अन्य ऐसे अश्वों का आशय है जिनमें से प्रत्येक दोनों किनारों पर किसी प्रकार सन्नद्ध रहते थे। 'प्रष्टि-मन्त्'^६, 'प्रष्टि-वाहन',^७ 'प्रष्टि-वाहिन्',^८ आदि सभी विशेषणों का रथ के लिये प्रयोग किया गया है जिनका अर्थ सन्नद्ध अश्वों के अतिरिक्त 'पार्श्वस्थ अश्व (अथवा अश्वों) द्वारा खींचा जानेवाला' है।
तु० की० रथ ।

^२ १ ३९, ६, ८ २७, ८। १ १००, १७ में 'प्रष्टिभिः' से ऋज्राश्व के साथी अथवा सहायकों का अर्थ प्रतीत होता है (तु० की० लाट्यायन श्रौत सूत्र ३ १२, १४), किन्तु लुडविग का विचार है कि इस शब्द से उन अश्वों का तात्पर्य है जिनसे विजय प्राप्त की गई हो।

^३ १० ८, ८। तु० की० विहट्ने अथर्व-वेद का अनुवाद, ५९७।

^४ ऐतरेय ब्राह्मण ८ २२, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ८, २१, ३, शतपथ ब्राह्मण १३ ३, ३, ९ इत्यादि।

^५ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ५, १२, ५।

^६ ऋग्वेद ६ २७, २४।

^७ शतपथ ब्राह्मण ५ २, ४, ९।

^८ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ३, ६, ४, ७ १, ५, ९, १, पञ्चविंश ब्राह्मण १६ १३, १२ (जहाँ 'प्रष्टि-वाहिन्' और 'प्रष्टि-वाहिन्', दोनों में स्पष्ट भिन्न नहीं है)।

ऋग्वेद, ग्लॉसर, ११९ में गेल्डनर ने अपना यह अनुमान कि 'प्रष्टि' मध्य में सन्नद्ध अश्व का द्योतक है, स्वयं ही वापस ले लिया है, कमेंटर, ९७।

तु० की० तिसमर • आल्टिन्डिशे लेवेन, २५०, मैक्स मूलर • से० बु० ई० ३२, १०२।

प्र-सिति, वाजसनेयि संहिता (२ १९) और तैत्तिरीय ब्राह्मण (३ ७ १३, ४) में किसी दिव्य 'क्षेप्यास्त्र' का द्योतक है, किन्तु ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इसे मनुष्य-गण भी युद्ध में प्रयुक्त करते थे।

प्र-सू, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में यज्ञ के लिये प्रयुक्त घास या ओपधिक वनस्पतियों के नवांकुरों का द्योतक है ।

^१ १ ९५, १०, ३. ५, ८, ७. ९, ३,
३५, ७, ८ ६, २० ।

१. ६, ३, २, शतपथ ब्राह्मण २ ५,
१, १८ ।

^२ काठक संहिता ३६ २, तैत्तिरीय ब्राह्मण

प्र-सृत, शतपथ ब्राह्मण^१ में 'स्थानगत-क्षमता' के वाचक के रूप में मिलता है, जिसका अर्थ 'अञ्जलि'^२ है ।

^१ ४ ५, १०, ७, १३ ४, १, ५, शाङ्खायन
श्रौत सूत्र १६ १, ७ ।

को ग्रहण करने के लिये 'बढी हुई'
अञ्जलि का द्योतक है ।

^२ प्रथमतः यह शब्द किसी समर्पित वस्तु

प्र-स्कण्व, एक ऐसे ऋषि का नाम है जिसे अनुक्रमणी द्वारा ऋग्वेद^१ के कुछ सूक्तों के प्रणयन का श्रेय दिया गया है । ऋग्वेद में इसका अनेक वार^२ उल्लेख है । शाङ्खायन श्रौत सूत्र^३ का यह वक्तव्य कि इसने पृषध्र मेध्य मातरिश्वन् से पारितोषिक प्राप्त किया था, प्रत्यक्षतः एक बहुत बढी भूल^४ है ।

^१ १ ४४-५०, ८. ४९, ९ ९५ ।

^४ वेवर : ए० रि० ३९ ।

^२ १ ४४, ६; ४५, ३, ८. ३, ९, ५१,
२; ५४, ८ । तु० की० निरुक्त ३ १७ ।

तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का
अनुवाद ३, १०४ और वाद ।

^३ १६ ११, २६ ।

प्र-स्तर, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में यज्ञीय भासन के रूप में विड़ी घास का द्योतक है ।

^१ १० १४, ४ ।

^२ अथर्ववेद १६ २, ६, तैत्तिरीय संहिता
१ ७, ७, ४, वाजसनेयि संहिता २

१८, १८. ६३; ऐतरेय ब्राह्मण १.
२६, २ ३; शतपथ ब्राह्मण १. ३, ३,
५, इत्यादि ।

प्र-स्तोक, ऋग्वेद^१ में एक उदार दाता का नाम है, जहाँ लुडविग^२ ने इसे दिवोदास अतिथिग्व और अश्वत्थ अथवा 'अश्वथ' के साथ समीकृत किया है । शाङ्खायन श्रौत सूत्र^३ के अनुसार भरद्वाज ने प्रस्तोक सार्जय ('शृङ्गय' का वशज) से उपहार प्राप्त किये थे :

^१ ६ ४७, २२ ।

^२ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५८ ।

^३ १६ ११, ११ ।

तु० की० वेवर : ए० रि०, ३०,
३१, मैकडौनेल वृहद्देवता २, १९८
और वाद

प्र-स्तोतृ, 'उद्गातृ' पुरोहित के उस सहायक का नाम है जो साम-गान की प्रस्तावना (प्रस्ताव)^१ का गायन करता है। ऋग्वेद में इसका इस नाम से उल्लेख होना एक आकस्मिक घटना-मात्र है क्योंकि केवल एक स्थल^२ पर ही इसका स्पष्ट सन्दर्भ है; किन्तु बाद के साहित्य^३ में यह अत्यन्त प्रचलित हो गया है। लुडविग^४ एक त्रुटिपूर्ण रूप से यह विचार व्यक्त करते हैं कि प्रस्तोतृ का पहले का नाम प्रशास्तृ था।

^१ पञ्चविंश ब्राह्मण १२ १०, ७, ऐतरेय ब्राह्मण ३ २३; शतपथ ब्राह्मण ८ ७, ४, ६, छान्दोग्य उपनिषद् १ १०, ९, २. २, १, इत्यादि।

^२ ८ ८^१, ५ (प्र-स्तोषत्)। देखिये औल्टेनबर्ग . रिलीजन देस वेद ३९३, नोट ३।

^३ तैत्तिरीय संहिता ३ ३, २, १, ६ ६, ३, १, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ८, २, ३, ऐतरेय ब्राह्मण ५. ३४, ७ १; शतपथ ब्राह्मण ४ २, ५, ३, ५ ४, ५, २०; १२. २, १, ६, इत्यादि, छान्दोग्य उपनिषद् १ १०, ८, इत्यादि।

^४ ऋग्वेद का अनुवाद ३, २२७।

प्रसवण—देखिये प्लक्ष।

प्र-हा, ऋग्वेद^१, अथर्ववेद^२, और पञ्चविंश ब्राह्मण^३ में, पासे के खेल में 'विजयी फेंक' का, अथवा सामान्य रूप से किसी भी 'लाभ' या 'सम्प्राप्ति' का द्योतक है।^३

^१ १० ४२, ९।

^२ ४ ३८, ३।

^३ १६ १४, २, २० ११, ४।

तु० की० तिस्र . आस्टिन्डिशे

लेबेन, २४१, और 'प्रहावन्त' (ऋग्वेद ४. २०, ८) जिसका सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० के अनुसार 'लाभ अर्जित करना' अर्थ है।

प्रा-कार, शाङ्खायन श्रौत सूत्र (१६. १८, १४) में दर्शकों के लिये बने ऊँचे मंच को आश्रय प्रदान करनेवाले, दीवार से घिरे, टीले का द्योतक है।

प्रा-काश, अनेक वार ब्राह्मणों^१ में मिलता है, जहाँ यह धातु के किसी आभूषण, अथवा धातु के दर्पण का द्योतक है। गेरडनर^२ के अनुसार मैत्रायणी संहिता^३ में 'प्रावेप' का भी यही आशय है।

^१ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ८, २, ३, पञ्चविंश ब्राह्मण १८ ९, १०, शतपथ ब्राह्मण ५ ४, ५, २२, इत्यादि।

^२ ऋग्वेद, ग्लॉसर, १२०।

^३ ४ ४, ८।

प्रा-गहि, कौषीतकि ब्राह्मण (२६. ४) के लिन्डनर के संस्करण के अनुसार, एक गुरु का नाम है। तु० की० प्रावहि।

४ वै० इ० द्वि०

प्राचीन-तान, तैत्तिरीय संहिता (६. १, १, ४) में कपडे के एक टुकड़े के 'ताने' का द्योतक है। तु० की० प्राचीनातान ।

प्राचीन-योगी-पुत्र ('प्राचीनयोग' के किसी स्त्री-वंशज का पुत्र) माध्यंदिन शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद् (६. ४, ३२) के अन्तिम वंश (गुरुओं की तालिका) में, सांजीवीपुत्र के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

प्राचीन-योग्य ('प्राचीनयोग' का वंशज) बृहदारण्यक उपनिषद्^१ के प्रथम वंश (गुरुओं की तालिका) में, पाराशर्य के शिष्य, एक गुरु का नाम है । छान्दोग्य^२ तथा तैत्तिरीय^३ उपनिषदों में भी एक 'प्राचीनयोग्य' का उल्लेख है, और शतपथ ब्राह्मण^४ तथा जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण में भी यही पैतृक नाम आता है (देखिये पुलुप, सत्ययज्ञ,^५ सोमशुष्म) ।

^१ २ ६, ० (काण्व) ।

^२ ५ १३, १ ।

^३ १ ६, २ ।

^४ (सत्ययज्ञ पौलुपि का) १० ६, ८,

५, (शौचेय का) ११ ५, ३, १

८ (तु० की० गोपथ ब्राह्मण १ ३,

११) । तु० की० वेवर • इन्डिशे स्टूडियन १, ६१, २, २१३, ३, २७४ ।

^५ ३९, १, में 'प्राचीनयोग' कहा गया है, किन्तु यह सम्भवतः केवल पाण्डु-लिपि की एक अशुद्धि है ।

प्राचीन-वंश एक विशेषण है, जो शतपथ ब्राह्मण^१ और यजुर्वेद संहिताओं^२ में 'जिसकी छत को आश्रय देनेवाली धरन पूर्वमुखी हो' आशय का द्योतक है । इससे उस केन्द्रीय धरन का सन्दर्भ है जो किसी कक्ष की पश्चिमी दीवार के मध्य से पूर्वी दीवार के मध्य भाग को सम्बद्ध करती है । यह धरन दोनों ओर स्थित अन्य धरनों से सम्भवतः कुछ ऊँची होती है ।

^१ ३ १, १, ६. ७, ६, १, २३, ४ ६, ८, २० ।

^२ काठक संहिता २२ १३, तैत्तिरीय

संहिता ६ १, १, ३ । तु० की० एग्लिङ्ग • से० बु० ई०, २६, ३, नोट २ ।

प्राचीन-शाल औपमन्यव (उपमन्यु का वंशज) छान्दोग्य उपनिषद्^१ में एक गृहस्थ और 'इश्वरशास्त्रविद्' का नाम है । जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण^२ में 'प्राचीनशालि' एक उद्गातृ पुरोहित के रूप में आता है और 'प्राचीनशालों' का भी इसी उपनिषद्^३ में उल्लेख है ।

^१ ५ ११, १ । देखिये महाशाल ।

^२ ३. ७, २; १०, २ ।

^३ ३ १०, १ ।

प्राचीनातान, जो कि किसी कपड़े के टुकड़े के 'ताने' का द्योतक है, ब्राह्मणों^१ में मिलता है । तु० की० प्राचीनातान ।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ८. १२, ३, १७, २; कौपीतिक उपनिषद् १ ५ (तु० की० कीथ : शाह्यायन आरण्यक २०, नोट २) ।

प्राचीनावीत^१, आर्यों द्वारा दाहिने स्कन्ध के ऊपर से बायें हाथ के नीचे यज्ञोपवीत धारण करने का द्योतक है और इस प्रकार यज्ञोपवीत धारण करनेवालों का नाम 'प्राचीनावातिन्'^२ है । फिर भी, तिलक^३ का विचार है कि इन शब्दों से यज्ञोपवीत नहीं वरन् एक प्रकार का परिधान धारण करने का आशय है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ७, ११, १ ।
^२ तैत्तिरीय ब्राह्मण १, ४, ६, ६, शतपथ ब्राह्मण २ ४, २, २ ९, ६, १, ८, १० ५, १, ६; 'प्राचीनोपवीत' से भी अथर्ववेद ९. १, २४ में यही आशय है ।
^३ ओरायन १४६, तैत्तिरीय आरण्यक २ १, का उद्धरण देते हुये ।

प्राच्य, बहुवचन में 'पूर्व में रहनेवाले' लोगों का द्योतक है । इनका ऐतरेय ब्राह्मण^१ में विभिन्न जाति के लोगों की सूची में उल्लेख है । जैसा कि औल्डेनबर्ग^२ मानते हैं, इनसे बहुत सम्भवतः काशियों, कोसलों, विदेहों, और मगधों का तात्पर्य हो सकता है । शतपथ ब्राह्मण^३ में ऐसा कथन है कि प्राच्य-गण अग्नि का 'शर्व' नाम से आह्वान करते थे, और इसी ग्रन्थ^४ में इनके समाधि बनाने की पद्धति को अमान्यता भी प्रदान की गई है । लाट्यायन श्रौत सूत्र^५ ने पञ्चविंश ब्राह्मण^६ के विपथ की प्राच्यों के रथ (प्राच्य-रथ) के रूप में व्याख्या की है । संहितोपनिषद् ब्राह्मण^७ में 'प्राच्य-पाञ्चालों' का उल्लेख किया गया है ।

^१ ८ १४ ।

^२ बुद्ध ३९३, नोट ।

^३ १. ७, ३, ८ ।

^४ १३ ८, १, ५, २, १ । तु० की० ९ ५, १, ६४ भी । यह स्थल वेबर (इन्डियन लिटरेचर, १३२, १३३) के इस आरम्भिक विचार को असम्मान्य बना देता है कि यह ब्राह्मण प्राच्यों की ही कृति है, और इनके अपने ही

वाद के इस मत की पुष्टि करता है कि, अन्य महान ब्राह्मण ग्रन्थों की ही भाँति, शतपथ ब्राह्मण की रचना भी मध्यदेश में हुई थी (देखिये कुरु, नोट १) ।

^५ ८. ६, ८ ।

^६ १७ १ ।

^७ २; वेबर : इन्डियन लिटरेचर ३४, नोट २५ ।

प्राजापत्य ('प्राजापति' का वंशज) तैत्तिरीय आरण्यक (१०. ७९) में 'आरुणि सुपर्णय' ('सुपर्ण' का वंशज) जैसे एक पौराणिक व्यक्ति का, अथवा ऐतरेय ब्राह्मण (१. २१) में प्राजावन्त् का, केवल पैतृक नाम है ।

प्राण, जो उपयुक्ततः 'श्वास' का द्योतक है, वैदिक साहित्य में एक अत्यन्त विस्तृत और अस्पष्ट आशयवाला शब्द है । ऋग्वेद^१ और उसके बाद से इसका अक्सर उल्लेख है । आरण्यकों और उपनिषदों में तो यह विश्व के एकत्व का सर्व-प्रचलित प्रतीक है ।^२ एक संकुचित आशय में 'प्राण' उन 'प्राण-वायुओं' में से एक है जिनकी संख्या पाँच^३ बताई गई है, यथा—'प्राण', अपान, व्यान, उदान, और समान; किन्तु अक्सर केवल दो: 'प्राण' और 'अपान'^४, अथवा 'प्राण' और 'व्यान'^५, अथवा 'प्राण' और 'उदान'^६ का ही; अथवा तीन : 'प्राण', 'अपान' और 'व्यान'^७, अथवा 'प्राण', 'उदान', और 'व्यान'^८, अथवा 'प्राण', 'उदान' और 'समान'^९ का; अथवा चार : 'प्राण', 'अपान', 'व्यान' और 'समान'^{१०}, अथवा 'प्राण', 'अपान', 'उदान' और 'व्यान'^{११} का, उल्लेख मिलता है । जहाँ इन सभी का उल्लेख है वहाँ इनमें से प्रत्येक प्रकार के 'श्वास' का ठीक-ठीक आशय निश्चित नहीं किया जा सकता है ।^{१२}

एक अपेक्षाकृत विस्तृत आशय में 'प्राण' का इन्द्रियों को^{१३}, अथवा जैसा सायण^{१४} ने माना है 'सर के रन्ध्रों' इत्यादि को व्यक्त करने के लिये प्रयोग

^१ १ ६६, १; १० ५९, ६, ९०, १३, इत्यादि ।

^२ व्यूमनः फिलॉसफी ऑफ उपनिषद्स ८९ और वाद ।

^३ देखिये उदान, नोट १ ।

^४ अथर्ववेद २. २८, ३, ५ ४, ७ (पैप्पलाद), ७ ५३, ४ (७ ५३, ३, में 'अपान', 'प्राण' है), तैत्तिरीय संहिता ३ ४, १, ४, इत्यादि ।

^५ अथर्ववेद ५ ४, ७, ६ ४१, २, इत्यादि ।

^६ देखिये उदान, नोट १ ।

^७ अथर्ववेद १३ २, ४६, मैत्रायणी संहिता ४ ५, ६, ९, वाजसनेयि संहिता २० २३, ऐतरेय ब्राह्मण २ २९, कौषीतकि

ब्राह्मण ६. १०; शाङ्खायन आरण्यक ८ ८, तैत्तिरीय उपनिषद् २ २, इत्यादि ।

^८ देखिये उदान, नोट ० ।

^९ वही ।

^{१०} अथर्ववेद १० २, १३ ।

^{११} बृहदारण्यक उपनिषद् ३ ४, १ ।

^{१२} तु० की० ड्यूसनः फिलॉसफी ऑफ उपनिषद्स, २७३ और वाद ।

^{१३} कोलब्रुक, मिसलेनियस एसेज, १, ३३९, ३५५, सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्वा०, १ ।

^{१४} ऐतरेय आरण्यक १ ३, ७ पर ।

किया गया है। शतपथ ब्राह्मण^{१५} के एक स्थल पर इनकी (रन्ध्रों की) संख्या छह बताई गई है और इनसे सम्भवतः नेत्रों, कर्णों और नासिका-रन्ध्रों का तात्पर्य है। अपेक्षाकृत अधिकतर सर में इनकी संख्या सात बताई गई है और ऐसे स्थलों पर 'मुख' को सम्मिलित कर लिया गया है।^{१६} कभी-कभी इनकी संख्या नौ^{१७}, अर्थात् सात सर में और दो सर के नीचे के भाग में^{१८}, बनाई गई है। शतपथ^{१९} और जैमिनीय^{२०} ब्राह्मणों में दस, काठक उपनिषद्^{२१} में ग्यारह, तथा काठक संहिता^{२२} में तो बारह तक का उल्लेख है जहाँ दोनों स्तनों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। सात के बाद की इनकी संख्याओं के अन्तर्गत किन-किन अंगों को सम्मिलित किया गया है यह निश्चित नहीं।^{२३} मैत्रायणी संहिता^{२४} में दसवाँ 'नाभि' है। जहाँ ग्यारह का उल्लेख है वहाँ 'ब्रह्म-रन्ध्र'^{२५} को भी सम्मिलित किया जा सकता है। अथर्ववेद^{२६} की जैसी वृहदारण्यक उपनिषद्^{२७} ने व्याख्या की है उसके अनुसार सातवें और आठवें क्रमशः 'स्वाद' और 'वाच्' है। किन्तु बहुधा इन दोनों को एक ही इन्द्रिय माना गया है और आठवें तथा नवें को या तो स्तनों^{२८} में अथवा नीचे (उत्सर्गाङ्गो में)^{२९} स्थित किया गया है।

'प्राण' से कभी-कभी, और यहाँ तक कि 'अपान' के विपरीत भी, केवल 'श्वास' मात्र का ही एक सामान्य आशय है।^{३०} किन्तु इसका उपयुक्त आशय

^{१५} १४ १, ३, ३२, ४, १।

^{१६} अथर्ववेद २ १२, ७, ऐतरेय ब्राह्मण १ १७, ३. ३; शतपथ ब्राह्मण ३. १, ३, २१, ६. ४, २, ५. १३. १, ७, २; जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण २ ५, ९, १०, ६, ८, इत्यादि।

^{१७} तैत्तिरीय संहिता ३ ५, १०, २; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. १, ७, ४, शतपथ ब्राह्मण १ ५, २, ५, पञ्चविंश ब्राह्मण २२ १२, ५, ऐतरेय आरण्यक १ ४, १; शाङ्खायन आरण्यक २ २, अथर्ववेद ५ २८, १; १०. ८, ४३ (नवद्वारम्), इत्यादि।

^{१८} जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण २. ५, ९, १०, ६, ८।

^{१९} ११ ६, ३, १७, जहाँ ग्यारहवें को

'आत्मन्' कहा गया है।

^{२०} २ ७७ (ज० अ० ओ० सो० १५, २४०)।

^{२१} ५ १।

^{२२} ३३ ३।

^{२३} तु० की० हथूसन : उ० पु० २६९; कीथ : ऐतरेय आरण्यक १८५, १८७।

^{२४} ४ ६, १, काठक संहिता ९ १६।

^{२५} ऐतरेय उपनिषद् १ ३।

^{२६} १० ८, ९।

^{२७} २ २, ३, ४।

^{२८} काठक संहिता ३३ ३।

^{२९} जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण २ ५, ९, १०; ६, ८।

^{३०} अथर्ववेद ५ ४, ७ (पैप्पलाद)। देखिये ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त, ५५२।

निःसन्देह 'उच्छ्वास' (वायु को बाहर निकालना) ही है, 'श्वास' (वायु को भीतर खींचना) नहीं जैसा कि सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश ने 'अप' (दूर) उपसर्ग के कारण 'अपान' की 'उच्छ्वास' के रूप में व्याख्या करने के उद्देश्य से इसका अर्थ किया है । ऐसा देशीय भाष्यकारों³¹ और अन्य प्रमाणों³² से स्पष्ट व्यक्त होता है । वौटलिङ्ग³³ ने वाद में नवीन दृष्टिकोण को ही स्वीकार कर लिया है ।

³¹ आपस्तम्ब श्रौत सूत्र १२ ८, ८, १४
११, १, पर रुद्रवृत्त; शतपथ ब्राह्मण
१ १, ३, २, और तैत्तिरीय ब्राह्मण
२ ५, ६, ४, पर सायण, छान्दोग्य
उपनिषद् १. ३, २, पर ऋद्धर,
शाङ्खायन श्रौत सूत्र ६ ८, १ २,
इत्यादि, पर आनर्तीय ।

³² शतपथ ब्राह्मण २ २, २, १५, की
कात्यायन श्रौत सूत्र ४ ८, २९ से

तुलना करते हुये, बृहदारण्यक
उपनिषद् ३. २, २, जैमिनीय
उपनिषद् ब्राह्मण १. ६०, ५; २ १,
१६ १९; ऐतरेय आरण्यक ५ १, ४ ।
देखिये कैलेन्ड त्सी० गे० ५५,
२६१-२६५, ५६, ५५६-५५८, और
अपान ।

³³ त्सी० ५५, ५१८ ।

प्राण-भृत्, बृहदारण्यक उपनिषद्¹ और शतपथ ब्राह्मण^२ में एक 'जीवित प्राणी' अथवा 'मनुष्य' का द्योतक है । 'प्राणिन्' का भी यही आशय है ।³

¹ १ ५, २२; ३ १, १२ ।

^२ ११. २, ६, २ ।

³ ऐतरेय ब्राह्मण ७ १३, शतपथ ब्राह्मण

७ ४, २, २; १०. ४, २, २, छान्दोग्य
उपनिषद् २ ११, २, ऐतरेय उपनिषद्
३ ३, ३, निरुक्त ६ ३६ ।

प्रातर्, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में एक समय-वाचक के रूप में 'प्रातःकाल' का द्योतक है । तु० की० अहन् ।

^१ १. १२५, १; २. १८, १; ३ ४१, २;
५२, ८, ४. ३५, ७, ५ ७६, ३,
इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद ४. ११, १२; ६ १२८, २,
७ १०१, १; ११ २, १६, काठक

सहिता ३२. ७, ऐतरेय ब्राह्मण २.
३१; ३ २२. ४४; ४ २०, शतपथ
ब्राह्मण ११ ५, १, १२, छान्दोग्य
उपनिषद् ५ ११, ७, इत्यादि ।

प्रातर्-अनुवाक, ब्राह्मणों^१ में उस स्तुति-सूक्त के रूप में आता है जिससे प्रातःकालीन सोम-त्तर्पण आरम्भ किया जाता था ।

^१ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ५, ९, ७, २ २,
३, ६, ऐतरेय ब्राह्मण २ १५. १७
१८; ४. १९; ५ ३३; शतपथ ब्राह्मण

३ ९, ३, ७, ४ ३, ४, २१, ११ ५,
५, ९; छान्दोग्य उपनिषद् २ २४,
३, ४ १६, २, इत्यादि ।

प्रातर-अह कौहल, वंश ब्राह्मण^१ में, केतु वाज्य के शिष्य, एक गुरु का नाम है। तु० की० कौहल ।

^१ इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७२, मैक्स मूलर • ऐन्ड्रेण्ट सस्कृत लिटरेचर, ४४३ ।

प्रा-तर्दनि (प्रतर्दन का वंशज) ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर किसी राजा का नाम है ।

^१ ६ २७, ८ । तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५७, १५३ ।

प्राति-पीय, शतपथ ब्राह्मण (१२. ९, ३, ३) में बल्लिक का पैतृक नाम है ।

प्राति-वेश्य का, शाङ्खायन आरण्यक (१५. १) के वंश (गुरुओं की तालिका) में प्रतिवेश्य के शिष्य के रूप में उल्लेख है ।

प्राति-सुत्वन—देखिये प्रतीप ।

प्राती-बोधी-पुत्र—('प्रतीबोध' के एक स्त्री-वंशज का पुत्र) ऐतरेय (३. १, ५) और शाङ्खायन (७. १३) आरण्यकों में एक गुरु का नाम है ।

तु० की० कीथ ऐतरेय आरण्यक २४४, ३१० ।

प्रा-तृद (प्रतृद का वंशज) जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ३१, ४) में भाल्ल नामक एक गुरु का, और बृहदारण्यक उपनिषद् (५. १३, २) में एक अन्य गुरु का पैतृक नाम है ।

प्रा-देश^१ ब्राह्मणों^२ में अक्सर ही लम्बाई के एक नाप (वितस्ति)^३ के रूप में आता है ।

^१ 'प्रदेश' से बना हुआ, (यहाँ 'तर्जनी' के नाम के रूप में 'प्रदेश' से सम्भवतः 'लम्बाई व्यक्त करनेवाला' अर्थ है); तु० की० 'प्रदेशिनी', आश्वलायन श्रौत सूत्र १ ७, शाङ्खायन श्रौत सूत्र, १ १० १, २ ९, १४) ।

^२ ऐतरेय ब्राह्मण ८ ५, शतपथ ब्राह्मण ३ ५, ४, ५, छान्दोग्य उपनिषद् ५. १८, १, इत्यादि ।

^३ अर्थात् अगूठे और तर्जनी के बीच के स्थान की दूरी ।

प्रा-ध्वंसन ('प्रध्वंसन' का वंशज) बृहदारण्यक उपनिषद्^१ में उस पौराणिक व्यक्ति मृत्यु का पैतृक नाम है, जिसे वहाँ प्रध्वंसन का शिष्य बताया गया है ।

^१ २ ५, २२; ४ ५, २८, माध्यन्दिन ।

प्रायश्चित्त,^१ अथवा प्रायश्चित्ति^२, प्रायश्चित्त के द्योतक है और यह दोनों ही शब्द वाद की संहिताओं और ब्राह्मणों में अक्सर ही आते हैं। प्रायः प्रत्येक सम्भव सामाजिक अथवा नैतिक सस्कारों के लिये प्रायश्चित्तों का विधान मिलता है। इनकी एक पूर्ण सूची सामविधान ब्राह्मण^३ में दी हुई है।

^१ शतपथ ब्राह्मण १२ ४, १, ६; कौपीतिकि ब्राह्मण ५ ९, ६ १२, इत्यादि।

^२ तैत्तिरीय संहिता २ १, ४, १, ३. १, ३, २, ५ १, ९, ३, ३, १२, १, अथर्ववेद १४ १, ३०, वाजसनेयि संहिता ३९ १०, ऐतरेय ब्राह्मण ३

११. ४६; ५ ०७, ७ २, शतपथ ब्राह्मण १ १, ४, ९, ४ ५, ७, १, ११ ५, ३, ८, इत्यादि।

^३ देखिये कोनो का अनुवाद, पृ० ४३ और वाद।

प्रा-वरैय—('प्रवर' का वंशज) काठक संहिता^१ में गगों का पैतृक नाम है।

^१ १३. १२ (इन्टिशे स्टूडियन, ३ ४७४)।

प्रा-वहि, कौपीतिकि ब्राह्मण (२६. ४) में एक गुरु का नाम है, किन्तु इस ग्रन्थ के लिन्दनर के सस्करण में प्रागाहि पाठ है।

प्रा-वाहण (प्रवाहण का वंशज) तैत्तिरीय संहिता (७ १, १०, २) में ववर नामक एक व्यक्ति का पैतृक नाम है।

प्रा-वृष्, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'वर्षा ऋतु' का नाम है।

^१ ७. १०३, ३ ९।

^२ अथर्ववेद १२ १, ४६; काठक संहिता ३६ २, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ८, ४, २,

शतपथ ब्राह्मण ५ ५, २, ३, ७ २, ४, २६, इत्यादि।

प्रा-वैप—देखिये प्राकाश।

प्राश्, अथर्ववेद^१ में 'वादी' अथवा 'वाद्' का, और 'प्रतिपाश्'^२ प्रतिवादी का द्योतक है।

^१ २ २७, १ ७।

^२ २ २७, १। तु० की० ब्लूमफील्ड : अ० फा० ७, ४७२ और वाद; अथर्ववेद ७३, अथर्ववेद के सूक्त ३०५, ३०६, जो इम सिद्धान्त को सर्वथा

अप्राणित करते हैं कि 'प्राश् का अर्थ 'जीवन का माध्यम' या 'अन्न-सामग्री' है (तु० की० बौटलिङ्क, व० त्ना० 'प्रतिप्राश्')।

प्राश्री-पुत्र ('प्राश्री' का पुत्र) आसुरि-वासिन् का बृहदारण्यक उपनिषद्^१ के अन्तिम वंश (गुरुओं की तालिका) में आसुरायण के शिष्य के रूप में उल्लेख है ।

^१ ६. ४, ३३ (माध्यदिन=६ ५, ३ काण्व)

प्रा-श्रवण—देखिये प्रास्रवण ।

प्रा-सच (पुलिङ्ग) तैत्तिरीय संहिता^१ में तो 'मेघ की घटा' का द्योतक है, जब कि तैत्तिरीय ब्राह्मण^२ में विशेषण शब्द 'प्रासच्यः (आपः) से 'प्रबल चर्षा द्वारा उत्पन्न (जल)' अर्थ है ।

^१ ७. ५, ११, १; भाष्यकार के अनुसार ^२ ३. १२, ७, ४, भाष्यकार के अनुसार 'धनीभूत' । 'धनीभूत' (जल) ।

प्रा-साद, एक महल के आशय में अद्भुत ब्राह्मण^१ जैसे वाद के ग्रन्थ के पहले नहीं आता । तु० की० प्राकार ।

^१ इन्डिशे स्टूडियन १, ४० ।

प्रा-स्रवण, एक स्थानीय नाम प्लक्ष-प्रास्रवण के ही एक खण्ड के रूप में आता है । अवत्सार के लिये व्यवहृत एक पैतृक नाम ('प्रस्रवण' का वंशज) के रूप में यह कौपीतकि ब्राह्मण^१ में भी मिलता है ।

^१ १३, ३ । इसका एक विभेदात्मक पाठ 'प्राश्रवण' भी है ।

प्रियङ्गु, यजुर्वेद संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में एक प्रकार की राई (*Panicum italicum*) का द्योतक है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता २ २, ११, ४, काठक संहिता १०. ११; मैत्रायणी संहिता २. १, ८; वाजसनेयि संहिता १८ १२
^२ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ८, १४, ६, ऐतरेय ब्राह्मण ८. १६; बृहदारण्यक उपनिषद्

६ ३, १२ (माध्यदिन = ६ ३, १३ काण्व), शङ्कर की टिप्पणी सहित ।
तु० की० तिसरः आल्टिन्डिशे लेबेन, २४१ ।

प्रिय-मेघ, ऋग्वेद^१ में एक द्रष्टा का नाम है । इसी ग्रन्थ में इसके परिवार (प्रियमेधों) का बहुधा उल्लेख है ।^२ किसी सूक्त का वास्तव में प्रियमेघ द्वारा रचा गया होना सम्भव नहीं ।^३ प्रियमेघ भी देखिये ।

^१ १. १३९, ९, ८ ५, २५; 'प्रियमेधवत्', ४५, ३, 'प्रियमेध-स्तुत', ८ ६, ४५ ।

८, १८, ६९, ८; ८७, ३, १० ७३, ११ ।

^३ औल्डेनवर्ग : त्सी० ने० ४२, २१७ ।

^२ १. ४५, ४, ८ २, ३७, ३, १६; ४, २०,

प्रिय-रथ, ऋग्वेद^१ में पञ्जों के एक प्रतिपालक का नाम है ।

^१ १२२, ७ । तु० की० लुडविग - ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५० ।

प्रिय-व्रत सोमापि^१ अथवा सौमापि ऐतरेय ब्राह्मण^२ और शाङ्खायन-आरण्यक^३ में एक गुरु का नाम है । इस द्वितीय ग्रन्थ में इसे सोमप का पुत्र कहा गया है । 'प्रियव्रत' नाम शतपथ ब्राह्मण^३ में भी मिलता है जहाँ इस नाम के एक रौहिणायन का एक गुरु के रूप में उल्लेख है ।

^१ ७ ३४ ।

^२ १५ १ ।

^३ १० ३, ५, १४ ।

तु० की० वेवर इन्डिशे स्टूडियन

८, १३६, नोट ।

प्रेङ्ग (झूलना) का, काठक संहिता^१, ऐतरेय आरण्यक^२, पञ्चविंश ब्राह्मण^३ और अन्यत्र^४ मिलनेवाले महाव्रत संस्कार के वर्णन में उल्लेख है । उपलब्ध^५ संकेतों के आधार पर जो कुछ अनुमान सम्भव है उससे यही सिद्ध होता है कि यह 'झूलना' भी आधुनिक झूलने के समान ही रहा होगा । प्लेङ्ग भी देखिये ।

^१ ३४ ५ ।

^२ १ २, ३ ४, ५ १, ३, इत्यादि ।

^३ ८ ५, ७ ।

^४ शाङ्खायन आरण्यक ० १७, इत्यादि ।

^५ शाङ्खायन श्रौत सूत्र, १७ १, ११, ७,

२, इत्यादि ।

प्रेत, शतपथ ब्राह्मण^१ में 'मृत व्यक्ति' के वाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, उस 'प्रेतात्मा' के रूप में नहीं जो केवल वाद में वैदिकोत्तर साहित्य में ही मिलता है ।

^१ १० ५, २, १३, बृहदारण्यक उपनिषद् ८ ११, १, इत्यादि ।

प्रेदि—देखिये प्रोति ।

प्रेप्य (भेजा जानेवाला), दास अथवा निम्न कर्मचारी का द्योतक और ऐतरेय ब्राह्मण^१ में शूद्र के लिये व्यवहृत हुआ है । अथर्ववेद^२ में विशेषण शब्द 'प्रेप्य' मिलता है ।

^१ ७ २९ । कौषीतकि ब्राह्मण १७ १ भी । ^२ ५ २२, १४ ।

प्रिय-मेघ (प्रियमेघ का वंशज) उन पुरोहितों का पैतृक नाम है जिन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण^१ के अनुसार आत्रेय उदमय के लिये यज्ञ किया था । यजुर्वेद

^१ ८. २० ।

संहिताओं^२ में यह ऐसे पुरोहितों के रूप में आते हैं जो 'सर्व (यज्ञीय गायन) जानते थे'। तैत्तिरीय ब्राह्मण^३ में तीन 'प्रैयमेधों' का सन्दर्भ है। गोपथ ब्राह्मण^४ में इन्हें भरद्वाज कहा गया है।

^२ काठक संहिता ६ १ (इन्डिश स्टूडियन, ३, ४७४), मैत्रायणी संहिता १ ८, ७, लेवी : ल डॉक्ट्रिन डू सैक्रीफाइस, १५०।

^३ २. १, ९, १ और बाद।

^४ १. ३, १५। इस नाम को 'प्रैयमेध' और, अशुद्ध रूप से, 'प्रैयमेध' भी लिखा गया है।

प्रेष, संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में बहुधा मिलनेवाला एक सामाजिक प्रार्थना विषयक शब्द है जिसका अर्थ 'निर्देशन' अथवा 'निमन्त्रण' है।

^१ अथर्ववेद ५ २६, ४, ११. ७, १८, १६, ७, २, तैत्तिरीय संहिता ७ ३, ११, २, वाजसनेयि संहिता १९ १९, इत्यादि।

^२ ऐतरेय ब्राह्मण २ १३, ३. ९, ५ ९, इत्यादि, शतपथ ब्राह्मण ४ १, ३, १५; १३ ५, २, २३; कौषीतकि ब्राह्मण २८ १, इत्यादि।

प्रोति कौशाम्बेय कौसुरु-विन्दि (कुसुरुविन्द का वंशज) का शतपथ ब्राह्मण^१ में उद्दालक के शिष्य और समकालीन के रूप में उल्लेख है। दूसरी ओर तैत्तिरीय संहिता^२ में 'कुसुरुविन्द' को उद्दालकि ('उद्दालक' का वंशज) कहा गया है, जिससे ऐसा व्यक्त होता है कि इन पैतृक नामों तथा समकालीनता सम्बन्धी वक्तव्यों को बहुत महत्त्व नहीं देना चाहिये।

^१ १२ २, २, १३। गोपथ ब्राह्मण (१ २, २४) के एक समानान्तर स्थल पर इस नाम का रूप 'प्रेदि कौशाम्बेय कौसुरुविन्द' है।

^२ ७ २, २, १

तु० की० ब्लूमफील्ड . अथर्ववेद, पृ० ११५।

प्रोष्ठ, जो कि सम्भवतः एक प्रकार के 'आसन' का द्योतक है, ऋग्वेद^१ में स्त्रियों के लिये प्रयुक्त 'प्रोष्ठशय' विशेषण रूप में मिलता है, और तैत्तिरीय ब्राह्मण^२ में इसका रूप अयौगिक ही है। प्रथम स्थल पर तल्प और वह्य के साथ इसका विभेद किया गया है, किन्तु इनके अन्तर के वास्तविक आधार को व्यक्त करने के लिये पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।

^१ ७ ५५, ८।

^२ २ ७, १७, १

तु० की० तिसमर . आस्ट्रिन्डिशे लेवेन, १५४।

प्रोष्ठ-पद (पु०),-पदा, (स्त्री०) एक नक्षत्र का नाम है।

प्रोष्ठ-पाद वारक्य का जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ४१, १) के एक वंश (गुरुओं की तालिका) में 'कंस वारकि' के एक शिष्य के रूप में उल्लेख है ।

१. प्लक्ष, लहरदार पत्तियों वाले अंजीर-वृक्ष (Ficus infectoria) का नाम है । यह बड़ा और सुन्दर वृक्ष होता है जिसमें छोटे श्वेत फल लगते हैं । न्यग्रोध और पर्ण के साथ इसका अथर्ववेद^१ और तैत्तिरीय संहिता^२ में उल्लेख है । उक्त वाद की संहिता^३ में व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसके नाम को प्रक्ष के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है । ब्राह्मणों^४ में भी इसका उल्लेख है ।

^१ ५ ५, ५ ।

^२ ७ ४, १२, १ । तु० की० ३. ४, ८, ४,

मैत्रायणी संहिता ३ १०, २ ।

^३ ६, ३, १०, २ ।

^४ ऐतरेय ब्राह्मण ७ ३२, ८ १६, तैत्तिरीय

ब्राह्मण ३ ८, १९, २; शतपथ ब्राह्मण ३. ८. ३, १० १२, इत्यादि ।

तु० की० तिस्रर . आस्टिन्डिशे लेवेन ५८ ।

२. प्लक्ष दय्यापाति ('द्यांपति' अथवा 'द्यांपात' का वंशज) तैत्तिरीय ब्राह्मण (३. १०, ९, ३. ५) में अत्यंहस् आरुणि का एक समकालीन था ।

३. प्लक्ष प्रा-स्रवण एक स्थान का नाम है जहाँ पहुँचने के लिए सरस्वती नदी के अन्तर्धान होने के स्थल से चौआलीस दिनों की यात्रा करनी पड़ती थी । इसका पञ्चविंश ब्राह्मण^१ तथा जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण^२ में उल्लेख है । इस वाद के ग्रन्थ में ऐसा कथन है कि पृथ्वी का मध्य बिन्दु इससे केवल एक वितस्ति (प्रादेश) और उत्तर में स्थित है । ऋग्वेद के सूत्रों^३ में इस स्थान को 'प्लक्ष प्रस्रवण' कहा गया है, और इससे सरस्वती नदी के पुनः प्रकट होने के स्थान की अपेक्षा उसके उद्गम का ही तात्पर्य है ।

^१ २५ १०, १६ ३२; कात्यायन श्रौत

सूत्र २४ ६, ७, लाठ्यायन श्रौत सूत्र

१०. १७, १२ १४ ।

^२ ४ २६, १२ ।

^३ आश्वलायन श्रौत सूत्र १२ ६, १,

शाङ्खायन श्रौत सूत्र १३ २९, २४

तु० की० हॉपकिन्स : ट्रा० सा०

१५, ३१, नोट २ ।

प्लति एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो ऋग्वेद^१ के दो सूक्तों के एक द्रष्टा का पिता है ।

^१ १०. ६३, १७, ६४, १७ । तु० की० लुटविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १३३ ।

१. प्लव (तैरना) ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'नौका' का द्योतक है ।

^१ १. १८२, ५ ।

५ ३, १०, २, ७ ३, ५, २; पञ्चविंश

^२ अथर्ववेद १२ २, ४८, तैत्तिरीय सहिता

ब्राह्मण ११. १०, १७, इत्यादि ।

२. प्लव एक जलीय पक्षी का नाम है । इसका यजुर्वेद सहिताओं^१ में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में उल्लेख है ।

^१ तैत्तिरीय सहिता ५. ५, २०, १, मैत्रायणी सहिता ३ १४, १५, वाजसनेयि सहिता २४ ३४ ।

प्लाक्षि (प्लक्ष का वंशज), तैत्तिरीय आरण्यक^१ और तैत्तिरीय प्रातिशाख्य^२ में वर्णित एक व्यक्ति का नाम है । प्रातिशाख्य^३ में एक 'प्लाक्षायण' अथवा 'प्लाक्ष' के वंशज का उल्लेख है ।

^१ १ ७, २ ।

तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन

^२ १ ५ ९; २ २ ६ ।

१ ३५ ।

^३ १ ९; २ २ ६

प्लात (प्लति का वंशज) ऐतरेय ब्राह्मण (५. २) में गय का पैतृक नाम है ।

प्ला-योगि ('प्लयोग' का वंशज) ऋग्वेद^१ में आसङ्ग का पैतृक नाम नाम है । शाङ्खायन श्रौत सूत्र^२ के अनुसार 'आसङ्ग' एक स्त्री थी किन्तु बाद में 'पुरुष' बन गई । यह कथन, जिसे ऋग्वेद^३ पर अपने भाष्य में सायण ने भी दुहराया है, केवल एक त्रुटि है जो इसी सूक्त^३ से संयुक्त एक अतिरिक्त मन्त्र में निहित उस 'शश्वती नारी' व्याहृति पर आधारित है जिससे केवल 'प्रत्येक स्त्री' के स्थान पर 'उसकी पत्नी शश्वती'^४ अर्थ माना गया है ।

^१ ८, १, ३३ ।

^४ त्रिपिथ : ऋग्वेद के सूक्त, २, १०७ तक

^२ १६ ११, १७ ।

भी ऐसा ही मानते हैं । किन्तु देखिये

^३ ८ १, ३४ । तु० की० हॉपकिन्स

औरडेनवर्ग ऋग्वेद-नोटेन १, ३५४

रिलीजन्स ऑफ इन्डिया १५० ।

प्लाशुक, शसपथ ब्राह्मण (५. ३, ३, २) में व्रीहि (चावल) की एक उपाधि के रूप में 'शीघ्रतापूर्वक अंकुरित होनेवाला' के आशय में आता है ।

प्लीहा-कर्ण, यजुर्वेद संहिताओं^१ में पशुओं की एक उपाधि के रूप में सम्भवतः 'कान पर प्लीहाकार चिह्नवाला' का ही द्योतक है, न कि 'प्लीहन्' नामक कान की एक व्याधि से प्रसित', जिसे वाजसनेयि संहिता^२ के अपने भाष्य में महीधर ने माना है।

^१ मैत्रायणी संहिता ३ १३, ५ (तु० की० २४. २४।
४ २, ९), वाजसनेयि संहिता | ^२ उ० स्था० ।

प्लुषि, ऋग्वेद^१ में किसी अपकारक कीटाणु का नाम है। इसे यजुर्वेद संहिताओं^२ में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में सम्मिलित किया गया है, और बृहदारण्यक उपनिषद्^३ में भी इसका उल्लेख है। सम्भवतः इससे चींटी की ही किसी जाति का तात्पर्य है।

^१ १ १९१, १।

^२ मैत्रायणी संहिता ३ १४, ८; वाजसनेयि संहिता २४-२९।

^३ १ ३, २४

तु० की० तिसरः आल्टिन्डिशे लेवेन, ९८।

प्लेह्व, तैत्तिरीय संहिता (७. ५, ८, ५) और तैत्तिरीय ब्राह्मण (१. २, ६, ६) में प्रेह्व के एक विभेद के रूप में मिलता है।

फ

फण, कौपीतिक उपनिषद्^१ की कुंछ पाण्डुलिपियों में आता है और इसकी एक 'अलङ्कार' के आशय में व्याख्या की गई है। किन्तु यह 'फल-हस्ताः' (अपने हाथ में फल लिये हुये) यौगिक शब्द में शुद्ध शब्द 'फल' का ही एक अशुद्ध पाठ है।

^१ १. ४। तु० की० वेवर · इन्डिशे स्टूडियन, १, ३९८; कीथ : शाह्वायन आरण्यक १९, नोट १।

फर्वर, ऋग्वेद^१ में केवल एक बार आनेवाला ऐसा शब्द है जिसकी निश्चित रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती। इसका अर्थ 'पुष्पित खेत'^२ हो

^१ १० १०६, २।

^२ तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १७, २६०।

हो सकता है । सायण^३ इसकी 'भरने वाले' के रूप में, और आसमैन सम्भवतः बने वाले^४ के रूप में, व्याख्या करते हैं ।

^३ ऋग्वेद १०. १०६, २ पर अपने माध्य में । आप इसी सूक्त (१० १०६, ७) में आने वाले विस्तृत रूप 'पर्फरत्' को 'भरना' अर्थ में एक क्रिया मानते हैं ।
^४ वर्टरबुख, व० स्था० ।

फल, सामान्य रूप से 'फल' और मुख्यतः किसी वृत्त के 'फल' का द्योतक है । यह ऋग्वेद^१ तथा वाद^२ में आता है ।

^१ ३. ४५, ४, १०. १४६, ५ ।
^२ अथर्ववेद ६ १०४, २, तैत्तिरीय संहिता ७ ३, १४, १, वाजसनेयि संहिता १० १३, शतपथ ब्राह्मण १३. ४, ४, ८, बृहदारण्यक उपनिषद् ६. ४, १, इत्यादि, और देखिये फण ।

फलक रथ अथवा गाड़ी के निर्माणार्थ,^१ या सोम दवाने के लिये (अधि-पवणे फलके),^२ अथवा किसी भी अन्य कार्य^३ के लिये प्रयुक्त 'पटों' का द्योतक है ।

^१ पञ्चविंश ब्राह्मण १७ १, १४ ।
(तु० की० इन्डिसे स्टूडियन १, ३३, ४४) ।
^२ ऐतरेय ब्राह्मण ७ ३० ।
^३ शतपथ ब्राह्मण ३ ३, ४, ९, १३ ४, ३, १ ऐतरेय आरण्यक १ २, ३ (झूले का), इत्यादि ।

फलवती, षड्विंश ब्राह्मण^१ में एक पौधे का नाम है जिसे भाष्यकारों ने प्रियङ्गु के साथ समीकृत किया है ।

^१ ५ २ । तु० की० वेनर . ओमिना उन्ट पोर्टेन्टा, ३१५ ।

फल्गु—देखिये नक्षत्र ।

फल्गुनी—देखिये नक्षत्र ।

फाण्ट, को शतपथ ब्राह्मण^१ में मन्थन द्वारा उत्पन्न घृत के प्रथम कण का द्योतक बताया गया है ।

^१ ३ १, ३, ८ । तु० की० एग्लिङ्ग . से० बु० ई० २६, १४, नोट १ ।

फाल (हल का फाल) ऋग्वेद^१ और वाद^२ में आता है । तु० की० लाङ्गल ।

^१ ४ ५७, ८; १० ११७, ७ ।
^२ काठक संहिता १९ १ । तु० की० 'सुफाल', अथर्ववेद ३ १७, ५, मैत्रायणी संहिता २ ७, १२, 'आरण्य' के विपरीत 'फाल कृष्ट' (कुषित भूमि पर उगने वाला), काठक संहिता १२ ७, कौपीतिकि ब्राह्मण २५ १५ ।

व

बक दाल्भ्य ('दल्भ' का वराज) का, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण में आज्ञाकेशिनों के लिये इन्द्र को विवश करनेवाले एक व्यक्ति के नाम (१. ९, २) तथा कुरु-पञ्चाल के रूप में (४. ७, २) उल्लेख है ।

बकुर का, ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर उल्लेख है, जहाँ यह कहा गया है कि अश्विनों ने दस्युओं की ओर अपने 'बकुर' को फूँककर भायों के लिये प्रकाश उत्पन्न किया था । निरुक्त^२ के अनुसार, हममे वज्र^३ का आशय है, किन्तु रॉथ^३ का यह दृष्टिकोण कहीं अधिक सम्भव प्रतीत होता है कि फूँका गया पदार्थ एक वाद्य-यन्त्र था । बाकुर भी देखिये ।

^१ १ ११७, २१ ।

^२ ६ २५ । तु० की० नैषण्डक ४ ३ ।

^३ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०

तु० की० रिमर : आस्ट्रिडिशे

लेवेन २९०, मूरर : संस्कृत टैक्स्ट्, ५ ४६६ ।

बज, अथर्ववेद^१ में किसी व्याधि के दैत्य के विरुद्ध प्रयुक्त एक पौधे का नाम है । इससे एक प्रकार के सरसों के पौधे का आशय हो सकता है ।^२

^१ ८ ६, ३ ६ ७ २४ ।

^२ विद्वान्ने : अथर्ववेद का अनुवाद, ४२४ ।

बदर का, जो कि कर्कण्धु और कुवल की ही भाँति एक प्रकार की बैर का घोटक है, यजुर्वेद सहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में उल्लेख है ।

^१ काठक सहिता १२ १०, मैत्रायणी सहिता ३ ११, २, वाजसनेयि सहिता १९ २२ ९०, २१. ३० ।

ब्राह्मण ५ ५, ४, १०, १० ७, १, ३, २, १, ९, १, ८, इत्यादि, जैमिनीय ब्राह्मण २. १५६, ५ ।

^२ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ८, ५, १, शतपथ

बद्रन्, पञ्चविंश ब्राह्मण^१ के एक स्थल पर 'सेतु' या 'ऊँचे और पत्थर जड़े हुए पथ' का घोटक प्रतीत होता है । इसे साधारण पथ से अधिक दीर्घस्थायी बताया गया है ।

^१ १ १, ४ । तु० की० लाट्यायन श्रौत सूत्र १ १, २३ ।

बन्धन, अथर्ववेद^१ और वाद^२ में 'रस्सी' अथवा अन्य किसी प्रकार के बन्धन का घोटक है ।

^१ अथर्ववेद ३ ६, ७ । (एक नौका, नौका), ६ १४, २ ।

^२ शतपथ ब्राह्मण १३ १, ६, २ (एक

अश्व का), तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ८, ९, ४, आन्देश्य उपनिषद् ६, ८, २; निरुक्त १० ३८, इत्यादि ।

बन्धु अमूर्त रूप से 'सम्बन्ध'^१, तथा मूर्त रूप से 'सम्बन्धी'^२ का द्योतक है, और ऋग्वेद तथा वाद में आता है ।

^१ ऋग्वेद ५ ७३, ४, ७ ७० २, ८ ७३, १२, इत्यादि, अथर्ववेद ५ ११, १० ११, वाजसनेयि संहिता ४ २२, १० ६, इत्यादि ।

^२ ऋग्वेद १ १६५, ३३, ७ ६७, ९,

अथर्ववेद १० १०, २३, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ७, ५, ५, इत्यादि, 'बन्धु-मन्त्र' (सम्बन्धियों वाला) ऋग्वेद ८ २१, ४, तैत्तिरीय संहिता १ ५, १, ४, इत्यादि ।

बन्धु प्रा-वाहण (प्रवाहण का वंशज) किसी व्यक्ति का नाम है, जो तैत्तिरीय संहिता^१ के अनुसार, एक वक्ता बनाना चाहता था और पञ्चरात्र यज्ञ द्वारा साहित्य-विषयक प्रवीणता प्राप्त करने में सफल हो सका था ।

^१ ७ १, १०, २ । तु० की० गेल्डनर . वेदिशे स्टूडियन २, १४८ ।

१. बभ्रु, ऋग्वेद^१ में एक ऐसे ऋषि का नाम है जिसने राजा ऋतुरांचय से उपहार प्राप्त किये थे । एक अन्य स्थल^२ पर भी इसी बभ्रु का आशय हो सकता है जहाँ इसका अश्विनों के एक आश्रित के रूप में उल्लेख है, किन्तु अथर्ववेद^३ में इस शब्द का एक व्यक्तिवाचक नाम होना ही सन्दिग्ध है ।

^१ ५ ३०, ११ १४ ।

^२ ८ २२, १० ।

^३ ४ २९, २ । (सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० द्वारा इसे यहाँ एक व्यक्ति-वाचक नाम माना गया है, लुडविग .

ऋग्वेद का अनुवाद ३, १२६ । किन्तु विहट्ने (अथर्ववेद का अनुवाद १९९) इसे व्यक्तिवाचक नाम नहीं मानते । तु० की० ओल्डेनवर्ग . त्सी० गे० ४२, २१४ ।

२. बभ्रु कौम्य ('कुम्भ' का वंशज), पञ्चविंश ब्राह्मण (१५. ३, १३) में एक सामन् के द्रष्टा का नाम है ।

३. बभ्रु दैवा-वृष का ऐतरेय ब्राह्मण (७. ३४) में पर्वत और नारद के एक शिष्य के रूप में उल्लेख है ।

बम्ब आज-द्विष ('अज-द्विष' का वंशज) का, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (२. ७, २) में एक गुरु के रूप में उल्लेख है । इसका एक विभेदात्मक पाठ 'विम्ब' है ।

बम्बा-विश्ववयसौ, एक समस्त पद के रूप में उन दो ऋषियों का नाम है
५ वै० इ० द्वि०

जिन्होंने यजुर्वेद संहिताओं^१ के अनुसार किसी संस्कार का आविष्कार किया था ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ६ ६, ८, ४, काठक संहिता २९ ७, जहाँ मूल पाठ में इसका 'वम्मा' रूप है, यद्यपि वलिन की पाण्डुलिपि में 'वम्मार्' पाठ भी है । इस नाम को सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश

ने अक्सर 'वम्मा' ही माना है, किन्तु 'वम्' भी सम्भव है और द्वन्द्व समास के कारण 'आ' का समाधान हो जाता है । मैत्रायणी संहिता ४ ७, ३ में 'वम्-व' है ।

बरासी, काठक संहिता^१ तथा पञ्चविंश ब्राह्मण^२ में एक प्रकार के परिधान के आशय में आता है ।

^१ १५ ४ ।

^२ १८ ९, १६ (जहाँ भाष्यकार ने छाल

का बना हुआ होने के रूप में इसकी व्याख्या की है), २१ ३, ४ ।

ब्रह्म, ऋग्वेद के ब्राह्मणों^१ के अनुसार ऋग्वेद के एक सूक्त^२ के प्रणेता का नाम है ।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ६ २५; कौषीतकि ब्राह्मण २५ ८ ।

^२ १० ९६ ।

वर्कु वाष्णी (वृषन् का वंशज), शतपथ ब्राह्मण^१ में एक गुरु का नाम है ।

^१ १ १, १, १०, बृहदारण्यक उपनिषद् ४ १, ८ (माध्यदिन = ४ १, ४ काण्व) ।

वर्हिस्, ऋग्वेद^१ तथा वाद^२ में यज्ञ-स्थल पर विछे उस तृणास्तरण के द्योतक के रूप में बहुधा मिलता है जिस पर आकर आसीन होने के लिये देवों को आहूत किया जाता था ।

^१ १ ६३, ७, १०८, ४, ३ ४, ४, इत्यादि ।

^२ तैत्तिरीय संहिता ६ २, ४, ५; वाजसनेयि संहिता २ १, १८ १, इत्यादि ।

बलाका (सारस) का यजुर्वेद संहिताओं^१ में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में उल्लेख है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ५ ५, २६, १; मैत्रायणी संहिता ३ १४, ३ १४, वाजसनेयि

संहिता २४. २२. २३ । तु० की० तिस्रर . आलिटन्डिशे लेवेन, ९२ ।

बलाय, एक ऐसे अज्ञात पशु का नाम है जिसका यजुर्वेद संहिताओं^१ में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में उल्लेख है ।

^१ वाजसनेयि संहिता २४ ३८, मैत्रायणी संहिता ३. १४, १९ ।

बलास एक व्याधि का नाम है जिसका अनेक वार अथर्ववेद^१ में और षाद^२ में भी अक्सर उल्लेख है। महीधर^३ और सायण^४ इसकी 'यक्ष्मा' के रूप में व्याख्या करते हैं। त्सिमर^५ इनके मत की इस आधार पर पुष्टि करते हैं कि इसका यक्ष्म के एक ऐसे प्रकार के रूप में उल्लेख^६ है जिसमें अस्थियाँ और जोड़ अलग हो जाते हैं (अस्थि-संस, परुः-संस)^७ और यह प्रेम, विरक्ति तथा हृदय-विकार के कारण उत्पन्न होती है।^८ इसके यह लक्षण वाद के हिन्दू चिकित्साशास्त्र^९ के वर्णनों के अनुकूल हैं। 'बलास' का 'तकमन्' के साथ होना भी यक्ष्मा की प्रकृति के एक दैत्य के सिद्धान्त के अनुकूल है।^{१०} फिर भी ग्रॉहमैन^{११} का विचार है कि इससे किसी प्रकार की 'सूजन' (शोथ द्वारा उत्पन्न ज्वर की दशा में) का अर्थ है। बलूमफील्ड^{१२} के मत से इसके निर्धारण की समस्या अभी भी असमाधानित है। लुडविग^{१३} ने इस शब्द का 'शोथ' के आशय में अनुवाद किया है।

इस व्याधि के उपचार के रूप में त्रिककुट^{१४} के अजस, और जङ्गिड^{१५} नामक पौधे का उल्लेख है।

^१ ४. ९, ८, ५ २२, ११, ६ १४, १, १२७, १; ९ ८, ८, १९ ३४, १०।

^२ वाजसनेयि संहिता १२ ९७।

^३ वाजसनेयि संहिता, उ० स्था० पर।

^४ अथर्ववेद १९ ३४, १, पर।

^५ आस्टिन्डिशे लेवेन ३८५-३८७।

^६ अथर्ववेद ९ ८, १०।

^७ अथर्ववेद ६ १४, १।

^८ ९ ८, ८।

^९ वाइज : हिन्दू सिस्टम ऑफ मेडिसिन ३२१, ३२२।

^{१०} अथर्ववेद ४. ९, ८, १९० ३४, १०।

^{११} इन्डिशे स्टूडियन ९, ३९६ और वाद।

^{१२} अथर्ववेद के सूक्त ४५०।

^{१३} ऋग्वेद का अनुवाद ३, ५१०।

^{१४} अथर्ववेद ४ ९, ८।

^{१५} अथर्ववेद १९ ३४, १०।

बलि, अनेक वार ऋग्वेद^१ में और अक्सर वाद^२ में राजा को दिये गये

^१ देवता के प्रति, ऋग्वेद १. ७०, ९, ५. १, १०, ८ १००, ९, एक राजा के प्रति 'बलि-हृत्' समस्त रूप में, ७. ६, ५, १०. १७३, ६।

^२ लाक्षणिक आशय में - अथर्ववेद ६ ११७, १, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ २, ३, २, काठक संहिता २९ ७, तैत्तिरीय उपनिषद् १ ५, ३, इत्यादि, 'बलि हृत्', अथर्ववेद ११ ४, १९, काठक संहिता, ० स्था०, 'बलि-हार, अथर्ववेद

११ १, २०, वास्तविक आशय में : अथर्ववेद ३ ४, ३, तैत्तिरीय ब्राह्मण २ ७, १८, ३, ३ १२, २, ७, शतपथ ब्राह्मण १ ३, २, १५; ५, ३, १८, ६, ३, १७, ११ २, ६, १४; पञ्चविंश ब्राह्मण १५ ७, ४, ऐतरेय ब्राह्मण ७. २९ (तु० की० ७ ३४), 'बलि हृत्' काठक संहिता २९. ९, तैत्तिरीय संहिता १. ६, २, १।

स्तुत्युपहार अथवा देवों को समर्पित हवि के आशय में आता है। त्सिमर^३ का विचार है कि इन दोनों ही दशाओं में उपहार देना ऐच्छिक ही होता था। इससे आप टेसिटस^४ में वर्णित जर्मनों के उदाहरणों की भी तुलना करते हैं जहाँ ऐसा उल्लेख है कि कवीलों के राजा नियमित कर के रूप में नहीं वरन् उपहार के रूप में ही विभिन्न पदार्थों को ग्रहण करते थे। इस दृष्टिकोण के लिये कोई भी आधार नहीं प्रतीत होता। इसमें सन्देह नहीं कि आरम्भ में राजसत्ता के विशेषाधिकार जनता के ऐच्छिक व्यवहारों द्वारा ही विकसित हुये होंगे^५, किन्तु वैदिक लोग भी, जो मुख्यतः विजेता आक्रामक थे, इसी स्थिति में रहे होंगे यह अत्यन्त असम्भाव्य है, और अपने देवों के प्रति वैदिक भारतीयों के दृष्टिकोण की संगति जितनी ऐच्छिक उपहार देने के साथ है उतनी ही कर अथवा वाध्यता के सिद्धान्त के साथ भी। त्सिमर यह स्वीकार करते हैं कि आक्रामक जातियों^६ की दशा में ऋग्वेद तक में कर का ही आशय है। राजन् भी देखिये।

^३ आस्ट्रिन्डिशे लेवेन १६६, १६७।

^४ जर्मनिया, १५।

^५ वाद में, भी, उदारतायें (प्रणया-क्रिया)

ज्ञात थीं। देखिये फ्लीट : ज० ए०
सो० १९०९, ७६०-७६२।

^६ देखिये ऋग्वेद ७ ६, ५, १८, १९।

बल्कस, शतपथ ब्राह्मण^१ में उवलने के क्रम में निकलनेवाले अपवित्र पदार्थ का द्योतक है। इसका ठीक-ठीक आशय या तो 'फेन', 'पपड़ी',^२ अथवा अधिक सम्भवतः 'पुभाल'^३ के रूप में वनस्पति-पदार्थ हो सकता है।

^१ १२ ८, १, १६, ९, १, २।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०।

^३ एग्लिङ्ग से० बु० ई० ४४. २३६,
नोट १।

बल्बज, एक प्रकार की वाम (*Eleusine indica*) का नाम है। इसका अथर्ववेद^१ में उल्लेख है, और यजुर्वेद संहिताओं^२ में इसे पशुओं के मल से उत्पन्न होनेवाला बताया गया है। काठक संहिता^३ में ऐसा कथन है कि यज्ञीय-तृणास्तरण (बहिस्) अथवा ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता था। ऋग्वेद^४ की एक दानस्तुति में इस तृण की वनी टोकरियों तथा अन्य पदार्थों का उल्लेख है।

^१ १४ २, २२ २३।

^२ तैत्तिरीय संहिता २ २, ८, २; काठक
संहिता १० १०, मैत्रायणी संहिता
० २, ५।

^३ ८ ५५, ३।

तु० की० सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश,
व० स्था०, ६९, ७०।

बल्वूथ का ऋग्वेद^१ के एक सूक्त में, तरुन् और पृथुश्रवस् के साथ, गायक को उपहार प्रदान करनेवाले के रूप में उल्लेख है। इसे एक दास कहा गया है, किन्तु रौथ^२ इसके पाठ को इस प्रकार परिवर्तित कर देना चाहते थे जिससे यह अर्थ व्यक्त हो कि गायक ने बल्वूथ द्वारा एक सौ दासों को दान में प्राप्त किया। स्मिस्मर^३ का ऐसा मत कि यह एक आदिवासी माता का पुत्र अथवा स्वयं एक आदिवासी ही रहा हो सकता है, सम्भव प्रतीत होता है।^४ यदि स्थिति ऐसी ही थी, तो यह आर्यों और दासों के बीच मैत्री-भाव के विकास का स्पष्ट प्रमाण है।

^१ ८ ६६, ३२।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० 'दास'।

^३ आल्टिन्डिशे लेवेन, ११७।

^४ वेबर : ए० रि० ३०, त्रिफिथ ऋग्वेद के सूक्त, २, १९६।

१. बलिहक, अथर्ववेद^१ में किसी जाति का नाम है जहाँ ज्वर (तक्मन्) को मूजवन्तों, महावृषों और बलिहकों पर स्थानान्तरित होने का आह्वान किया गया है। बहुत अंशों तक निश्चित रूप से मूजवन्त एक उत्तरी जाति के लोग थे। यद्यपि वल्लफील्ड^२ का मत है कि इस स्थल पर 'विदेशी' ('वहिस्' अर्थात् 'बाहर से') सिद्ध करने की दृष्टि से 'बलिहक' शब्द पर श्लेष है, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि इस नाम का एक उत्तरी जाति से ही चयन किया गया है। किन्तु रौथ^३ और वेबर^४ का यह दृष्टिकोण, जिसे ही कभी स्मिस्मर^५ ने भी स्वीकार किया था, कि इससे एक ईरानी जाति का सन्दर्भ है (तु० की० 'वल्व्') कदापि सम्भव नहीं। स्मिस्मर^६ यह दिखाते हैं कि ईरानी प्रभाव मानने की कोई भी आवश्यकता नहीं। पर्शु भी देखिये।

^१ ५ २२, ५ ७ ९।

^२ अथर्ववेद के सूक्त ४४६।

^३ त्सु० वे० ४१।

^४ इन्डिशे स्टूडियन १, २०५, प्रो० अ० १८९२, १८५-१९५।

^५ आल्टिन्डिशे लेवेन, १३०।

^६ उ० पु० ४३१-४३३।

तु० की० विहट्ने अथर्ववेद का अनुवाद, २६०, हॉपकिन्स : ग्रेट एपिक ऑफ इन्डिया, ३७३।

२. बलिहक प्रातिपीय, शतपथ ब्राह्मण^१ में एक कुरु राजा का नाम है, जहाँ यह दुष्टरीतु पौसायन द्वारा सृज्यों पर अपनी वंशानुगत राजसत्ता प्राप्त करने के विरोधी, किन्तु रेवोत्तरस् पाटव चाक्र स्थपति द्वारा इस सत्ता

^१ १२. ९, ३, ३,

हस्तान्तरण को सम्पन्न कराना रोक सकने में असमर्थ होने वाले के रूप में आता है। इसकी 'प्रातिपीय' उपाधि कुछ कौतूहलवर्धक है : यदि यह इसे प्रतीप (जिसका ही यह महाकाव्य में पुत्र है) के साथ सम्बद्ध करती है तो इसका रूप उल्लेखनीय है, और दिसमर^२ ने वास्तव में इसे ध्वनितानुक्त रूप से ही 'प्रातिपीय' के रूप में परिवर्तित कर दिया है। महाकाव्य और पुराणों^३ में इसे 'वाहीक' के रूप में देवापि और शन्तनु का आता, तथा 'प्रतीप' का पुत्र बना दिया गया है। कालक्रमानुगत निर्णयों को इस^४ पर आधारित करना सर्वथा आमक होगा क्योंकि तथ्य यह है कि 'देवापि' स्वयं 'ऋष्टिषेण' का पुत्र और एक पुरोहित था, जब कि शन्तनु एक ऐसा कुरु राजा जिसकी पैतृकता अज्ञात है, और जो सम्भवतः उस प्रतीप का पुत्र नहीं था जो वैदिक काल में बाद में खानेवाला और उस परिक्षित के भी बाद का व्यक्तित्व है जिसका महाकाव्य में इसे प्रपौत्र बताया गया है। बहुत सम्भवतः 'बृहिक', प्रतीप का वंशज था। उसने 'बृहिक' नाम क्यों धारण किया यह अनिश्चित ही है क्योंकि इसके लिये किसी भी प्रकार का प्रमाण उपलब्ध नहीं।

^२ आस्टिन्डिशे लेबेन, ४३२।

^३ देखिये मूहरः सस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, २७३ और बाद, सीग सा० ऋ०

१३१-१३६।

^४ पाजिटरः ज० ए० सो० १९१०, ५२।

१. वस्त, ऋग्वेद^१ और बाद के साहित्य^२ में 'बकरे' का द्योतक है।

^१ १ १६१, १३। यह स्थल अवोधगम्य है, एक अनुमान के लिये देखिये तिलकः ओरायन, १६६ और बाद; और तु० की० हिलेब्रान्टः वेदिशे माइथोलोजी, ३, १४५, नोट २।

^२ तैत्तिरीय संहिता २: ३, ७, ४, ५ ३, १, ५; ७, १०, १; काठक संहिता

१७. २, वाजसनेयि संहिता १४ ९; तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ३, ७, ७, बृहदारण्यक उपनिषद् १. ४, ९ (माध्यंदिन = १ ४, ४ काण्व), इत्यादि, और तु० की० अथर्ववेद ८ ६, १०, ११ ९, २२।

२. वस्त रामकायन, मैत्रायणी संहिता (४. २, १०) में एक गुरु का नाम है। पैतृक नाम का कहीं-कहीं 'समकायन' पाठ भी मिलता है।

बहु-वचन, शतपथ ब्राह्मण^१ और निरुक्त^२ में व्याकरण के 'बहुवचन' का द्योतक है। इसी प्रकार निरुक्त^३ में 'द्विवत्, बहुवत्' का 'द्विवचन और बहुवचन में' अर्थ है।

^१ १३ ५, १, १८।

^२ ५ २३, ११. १६; १२. ७।

^३ २ २४. २७, ११. १६।

बह्व-ऋच, ऋग्वेद के एक अनुगामी का द्योतक है । यह शब्द ऋग्वेद के ब्राह्मणों^१, शतपथ^२ तथा पञ्चविंश^३ ब्राह्मणों, और ऋग्वेद के आरण्यकों^४ में मिलता है ।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण २ ३६, ५ २, ६ १८,

^३ ५ ६, ६ ।

कौषीतकि ब्राह्मण ६. ११, १६ ९ ।

^४ ऐतरेय आरण्यक ३. २, ३; शाङ्खायन

^२ १० ५, २, २०, ११. ५, १, १० ।

आरण्यक ८ ४ ।

बाकुर, ऋग्वेद (९. १, ८) के एक स्थल पर हति की उपाधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और मिलकर यह दोनों शब्द एक प्रकार के वायु-यन्त्र के द्योतक हैं । तु० की वकुर ।

बाडेयी-पुत्र ('बाडेयी' का पुत्र) का, माध्यन्दिन शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद् (६. ४, ३०) के अन्तिम वंश (गुरुओं की तालिका) में मौषिकी-पुत्र के शिष्य के रूप में उल्लेख है ।

बाण, ऋग्वेद (६. ७५, १७) और वाद (अथर्ववेद ३. २३, २; ६. १०५, २, इत्यादि) में धनुष के 'बाण' का द्योतक है ।

बाणवन्तू भी बाण की ही भाँति, बृहदारण्यक उपनिषद् (३. ८, २) में 'बाण' का द्योतक है । इसका अधिक सामान्य आशय 'तरकस' (शब्दार्थ, 'बाण से युक्त') है, और वाजसनेयि संहिता (१६. १०) तथा शतपथ ब्राह्मण (५. ३, १, ११) में इसका यही आशय है ।

बादरायण, ('बदर' का वंशज), सामविधान ब्राह्मण^१ के अन्त में मिलनेवाले एक वंश (गुरुओं की तालिका) में एक गुरु का नाम है ।

^१ तु० की० वेवर इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७७ । कात्यायन श्रौत सूत्र ४ ३,

१८, में 'बादरि' मिलता है, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, १, ३४ नोट ।

बाध्योग ('बध्योग' का वंशज) माध्यन्दिन शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद् (६. ४, ३३) के अन्तिम वंश (गुरुओं की तालिका) में असित वार्षगण के एक शिष्य, जिह्वावन्तू का पैतृक नाम है ।

बाध्व, ऐतरेय आरण्यक (३. २, ३) में एक गुरु का नाम है । शाङ्खायन आरण्यक (८. ३) में इसका वात्स्य^१ पाठ है ।

^१ देखिये कीथ . ऐतरेय आरण्यक, २४९, नोट १ ।

वाभ्रव (वभ्रु का वंशज), बृहदारण्यक उपनिषद्^१ में वत्सनपात्- का पैतृक नाम है। शुनःशेष^२ की कथा में कापिलियों और 'वाभ्रवों' की, शुनःशेष के गृहीत नाम देवरात वैश्वामित्र के अन्तर्गत, शुनःशेष के ही वंशजों के रूप में, गणना कराई गई है। पञ्चविंश ब्राह्मण^३ में 'वभ्रु' के एक सामन् का उल्लेख है।

^१ ०. ५, २२; ४. ५, २८ (माध्यदिन = शब्द नहीं है।
०. ६, ३, ४. ६, ३ काण्व)।
^३ १५. ३, १०।

^२ ऐतरेय ब्राह्मण ७. १७। शाङ्खायन में यह

वाभ्रव्य (वभ्रु का वंशज) ऐतरेय ब्राह्मण (७. १) में गिरिज का, और जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ४१, १; ४. १७, १) में शङ्ख का पैतृक नाम है।

वार्हत-सामा, अथर्ववेद^१ में 'बृहत्सामन् की पुत्री' के अर्थवाला एक विधिविरुद्ध निर्मित शब्द-रूप है, जहाँ इसका नाम गर्भाधान सरल बनानेवाले एक सूक्त में आता है।

^१ ५. २५. ९। तु० की० ऋट्ने अथर्ववेद का अनुवाद, २६७।

वार्हस्-पत्य ('बृहस्पति' का वंशज) एक शंयु^१ नामक पौराणिक व्यक्ति का पैतृक नाम है।

^१ तैत्तिरीय संहिता २. ६, १०, १, ५. २, ६, ४, शतपथ ब्राह्मण १. ९, १, २४; निरुक्त ४. २६, इत्यादि।

वाल, उपनिषदों^१ में 'वालक' का द्योतक है। बाद की परिभाषा^२ के अनुसार वार्यकाल की सीमा सोलह वर्ष मानी गई है।

^१ छान्दोग्य उपनिषद् ५. १, ११; २४, ५; | ^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, १० स्था०।
काठक उपनिषद् २. ६।

वालन्दन^१ भी, वत्सप्री के पैतृक नाम भालन्दन का ही एक विभेदात्मक पाठ है।

^१ देपिये वेवर • इन्डिशे स्टूडियन ३, ४५९, ४७८।

बालाकि, बालाक्या—देखिये दत्त-बालाकि और काश्यपी-बालाक्या-माठरी-पुत्र।

वालेय ('वलि' का वंशज) बौधायन श्रौत सूत्र (२०. २५) में गन्धर्वायरा का पैतृक नाम है ।

वाष्कल—देखिये वार्कलि ।

वाष्किह ('वष्किह' का वंशज), पञ्चविंश ब्राह्मण^१ में शुनस्कर्ण का पैतृक नाम है । बौधायन श्रौत सूत्र^२ में यह शिवि का वंशज है ।

^१ १७ १०, ६ ।

^२ २१ १७ । देखिये कैलेण्ड • ऊ० बौ० २८ ।

वाहीक, शतपथ ब्राह्मण^१ में, प्राच्यों के विपरीत पश्चिम में बसी पञ्जाब^२ की एक जाति के लोगों के लिये व्यवहृत हुआ है । ऐसा कथन है कि यह लोग अग्नि को 'भव' नाम से सम्बोधित करते थे ।

^१ १ ७, ३, ८ ।

^२ तु० की० महाभारत, ८ २०३० और बाद, जहाँ पञ्जाब और सिन्धु के निकट बसे लोगों के रूप में 'वाहाकों' की परिभाषा की गई है । यह नथ्य शतपथ ब्राह्मण की उस उक्ति के भी

सर्वथा समान है जिसमें सरस्वती के पूर्व की भूमि को मध्य माना गया है ।

तु० की० वेवर . इन्डिशे स्टूडियन, १, १८९, २, ३७, एग्लिङ्ग. से० बु० ई० १२, २०१, नोट २ ।

बाहु (भुजा) तैत्तिरीय संहिता (६. २, ११, १), और अक्सर सूत्रों में भी, लम्बाई के एक नाप के रूप में मिलता है ।

बाहु-वृत्त, ऋग्वेद^१ के अनुसार एक व्यक्ति, प्रत्यक्षतः ऐसे ऋषि का नाम है जिसने युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी ।

^१ ५ ४४, १२ । तु० की० लुहविग • ऋग्वेद का अनुवाद ३, १३८, १३९ । अनुक्रमणी में ऋग्वेद के दो सूक्तों

(५ ७१ और ७२) को इसे ही आरोपित किया गया है ।

विदल-कारी (बाँसों को फाड़नेवाली स्त्रियाँ), यजुर्वेद^१ में पुरुषमेध के चलि-प्राणियों में से एक का नाम है । एग्लिङ्ग^२ ने इस शब्द का 'टोकरी बनानेवाला' अनुवाद किया है ।

^१ वाजसनेयि संहिता ३० ८, 'विदल कार', तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, ५, १ ।

^२ से० बु० ई० ४४, ४१४

बिम्ब, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ५, ६) के एक स्थल पर एक प्रकार के पौधे (*Momordica Monadelphæ*) का द्योतक प्रतीत होता है ।

बिल्व, 'बेल' के वृक्ष (Aigle marmelos) का नाम है । ब्राह्मणों^१ और अथर्ववेद^२ में इसका उल्लेख मिलता है, जहाँ इसके उपयोगी फल का आशय उद्दिष्ट हो सकता है । तैत्तिरीय संहिता^३ के अनुसार यज्ञ-स्तम्भ 'बिल्व' की लकड़ी का बना होता था । शाङ्खायन आरण्यक^४ के एक सूक्त में बिल्व के बने कत्रच (हरा-मणि बैल्व)^५ के गुणों की प्रशंसा है ।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण २. १; शतपथ ब्राह्मण १३ ४, ४, ८, इत्यादि । तु० की० मैत्रायणी संहिता ३ ९, ३ ।
^२ ०० १३६, १३ ।
^३ ० १, ८, १ २ । तु० की० शतपथ ब्राह्मण १. ३, ४, २० (परिधयः),

ऐतरेय ब्राह्मण, उ० स्था० ।
^४ १२. २० और बाद ।
^५ आधुनिक समय में इस वृक्ष का नाम 'बेल' है और इसकी पत्तियों का शिवोपासना में व्यवहार किया जाता है ।

बिस, कमल-नाल का द्योतक है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अथर्ववेद^१ जैसे प्राचीन समय तक में यह एक सुखाद्य के रूप में व्यवहृत होता था । ऐतरेय ब्राह्मण^२ और ऐतरेय आरण्यक^३ में भी इसका उल्लेख है ।

^१ ४ ३४, ५ ।

^२ ५ ३० ।

^३ ३ २, ४, शाङ्खायन आरण्यक ११. ४ ।

तु० की० रिसमर आस्टिन्डिसे लेबेन, ७० ।

बीज, 'बीये' का ही द्योतक है । ऋग्वेद^१ तथा ऋग्वेद^२ में बीज बोने (वृप्) की क्रिया का अनेक स्थलों पर सन्दर्भ मिलता है । एक लाक्षणिक आशय में यह शब्द उपनिषदों में ऐसे प्राणी-वर्गों के लिये व्यवहृत हुआ है जिनकी संख्या छान्दोग्य उपनिषद्^३ में तीन और ऐतरेय उपनिषद्^४ में चार बताई गई है । उक्त प्रथम सूची में 'अण्ड-ज' (अण्डे से उत्पन्न), 'जीव-ज' (जीवित उत्पन्न) और 'उद्भिज्-ज' (अंकुरों से उत्पन्न) का उल्लेख है, जब कि द्वितीय में इनके अतिरिक्त 'स्वेद-ज' (स्वेद से उत्पन्न)—अर्थात् 'उष्मार्द्रता से उत्पन्न'—भी सम्मिलित कर लिया गया है जिस व्याहृति से मक्खियों और कीटों इत्यादि का आशय है । तु० की० कृषि ।

^१ १० ९४, १३; १०१, ३ । तु० की० लाक्षणिक आशय में, १०. ८५, ३७ ।
^५ ५३, १३ में 'धान्य बीज' का 'अण उत्पन्न करनेवाला बीज' अर्थ है ।

^२ अथर्ववेद १० ६, ३३, शतपथ ब्राह्मण ७ २, २, ४, इत्यादि ।

^३ ६ ३, १ ।

^४ ३.३ । देखिये कीध. ऐतरेय आरण्यक २३५ ।

बुद्धिल आश्वतराश्वि अथवा आश्वतर आश्वि, का ब्राह्मण साहित्य में एक गुरु के रूप में अनेक बार उल्लेख है। छान्दोग्य^१ और बृहदारण्यक^२ उपनिषदों के अनुसार यह विदेह के जनक का, और शतपथ ब्राह्मण^३ के अनुसार कैकय के राजा अश्वपति का समकालीन था। ऐतरेय ब्राह्मण^४ में भी इसका उल्लेख है।

^१ ५ ११, १, १६, १ ;

^२ ५ १५, ११ (माध्यदिन = ५ १४, ८ काण्व) ।

^३ १० ६, १, १। तु० की० ४ ६, १, ९।

^४ ६ ३०।

बुध सौमयन (सोम का वंशज) एक गुरु का नाम है जिसका पञ्चविंश ब्राह्मण^१ के एक मन्त्र में उल्लेख है।

^१ २४ १८, ६। तु० की० हॉपकिन्स . ट्रा० सा० १५, ५५, नोट २।

बुन्द से ऋग्वेद^१ के कुछ स्थलों पर 'बाण' का आशय है।

^१ ८ ४५, ४, ७७, ६ ११। तु० की० निरुक्त ६ ३२।

वृबु का ऋग्वेद^१ के एक सूक्त में उल्लेख है जहाँ इसका एक अत्यन्त उदार दाता, तथा परिणियों के प्रधान के रूप में वर्णन किया गया है। शाङ्खायन श्रौत सूत्र^२ के अनुसार भरद्वाज ने वृबु तच्चन् और प्रस्तोक साज्य से उपहार प्राप्त किये थे। मानव धर्मशास्त्र^३ में भी इसी तथ्य का सकेत है जहाँ 'तच्चन्' को एक वर्णनात्मक गुण, 'एक वदई', माना गया है। प्रत्यक्षतः वृबु एक पणि था, यद्यपि ऋग्वेद^१ के शब्दों को इस अर्थ में भी ग्रहण किया जा सकता है कि यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उन लोगों का सर्वथा उन्मूलन कर दिया। यदि ऐसा ही है तो पणि का यहाँ निश्चित रूप से एक अच्छे आशय में व्यापारी अर्थ होगा, और वृबु का एक व्यावसायिक राजा।^४ वेवर^५ के अनुसार इस नाम से वेविलोन के साथ सम्बन्ध का आभास

^१ ६ ४५, ३१ ३३।

^२ १६ ११, ११।

^३ १० १०७।

^४ तु० की० त्रिफियः ऋग्वेद के सूक्त १, ६०६, नोट।

^५ ए० रि० २८ और वादः प्रो० अ० १८९८, ५६३, नोट १, इन्डिशे स्टूडियन १७, १९८। वावेरु जातक, जिस पर भारतीयों के वेविलोनिया-

सबन्धी ज्ञान के सन्दर्भ में विशेष जोर दिया गया है, सर्वथा अज्ञात समय का होने के कारण प्राचीन काल के लिये प्रमाण के रूप में कोई महत्त्व नहीं रखता। तु० की० वूहलरः इन्डिशे पालियोग्राफी, १७ १९, इन्डिशे स्टूडियन, ३, ७९ और वादः वेवरः इन्डियन लिटरेचर, ३, रिज डेविड्सः बुद्धिस्ट इन्डिया, २०१, और वाद।

मिलता है, किन्तु हम अनुमान को सर्वथा असम्भाव्य ही मानना चाहिये । हिलेब्रान्ट^६ अधिक बुद्धिमत्तापूर्वक 'वृवु' के सम्बन्ध में कोई मत व्यक्त ही नहीं करते, जब कि घुनहॉफर^७ द्वारा इसमें 'तास्कोई' (T'askoi) नामक एक जाति का आशय देखने तथा इसे वैदिक शब्द 'तत्तन्' के साथ सम्बद्ध करने का विचार निरर्थक है, मुख्यतः हम तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि ऋग्वेद में 'वृवु' की एक उपाधि के रूप में 'तत्तन्' नहीं मिलता ।

^६ वेदिशे माइथोलोजी, १, ९३, १०४, १०७ ।

^७ ईरान उन्ट तूरान, १०७ ।

त० की० लुडविग . ऋग्वेद का

अनुवाद ३, २७५. वृहदेवता ५. १०८, १०९, मैकडीनेल की टिप्पणी सहित, मैक्स मूलर . मे० बु० ई० ३२, ३१६ ।

वृसय का ऋग्वेद में दो चार उल्लेख है, जहाँ प्रथम स्थल^१ पर यह पणियों के साथ, और द्वितीय^२ पर पारावतों और पणियों के साथ सम्बद्ध है । सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश के अनुसार यह शब्द एक दानव^३ का नाम है; किन्तु द्वितीय स्थल^२ पर यह एक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसका सम्भवतः 'ऐन्द्रजालिक'^४ अर्थ है । हिलेब्रान्ट^५ का विचार है कि इससे एक जाति के लोगों का आशय है । आप इन्हें 'पारावतों' और 'पणियों' के साथ 'अर्कोसिया' अथवा 'ड्रैन्जियाना' में घसा हुआ बताते हैं और डेरियस^६ के काल के अर्कोसिया तथा ड्रैन्जियाना के मण्डलाधिपति (βαρσαυτης 'वारसाइन्टेस) के साथ तुलना करते हैं । किन्तु यह सिद्धान्त सम्भव नहीं है ।

^१ १ ९३, ४ ।

^२ ६ ६१, ३ ।

^३ तु० की० ऋग्वेद, उ० स्था० पर सायण ।

^४ वौटलिङ्क डिक्शनरी, व० स्था०, घास-

मैन का अनुसरण करते हुये ।

^५ वेदिशे माइथोलोजी, १, ९७ १०४ ।

^६ अरियन : इन्डिका, ८. ४; २१ १, २५ ८ ।

वृसी का, जो कि घास के 'गद्दे' का द्योतक है, ऐतरेय आरण्यक^१ और सूत्रों^२ में उल्लेख है । इसके अशुद्ध रूप 'वृशी' और 'वृपी' भी कहीं-कहीं मिलते हैं ।

^१ १ २, ४, ५ १, ३, कीथ की टिप्पणी सहित, ३, २ ।

^२ शाङ्खायन श्रौत सूत्र १७. ४, ७, ६ ६; कात्यायन श्रौत सूत्र १३ ३, १ ।

वृहच्-छन्दस्, अथर्ववेद^१ के एक स्थल पर शाला (गृह) की उपाधि के

^१ ३ १२, ३ ।

रूप में मिलता है। यह प्रत्यक्षतः^२ 'वृहद्-छदिस' (बड़ी छतवाला) का ही एक त्रुटिपूर्ण पाठ है, क्योंकि इसका सर्वत्र यही आशय है।^३

^२ तु० की० विहटने अथर्ववेद का अनुवाद १०५।

^३ ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त, ३४५।

वृहत्-सामन् का अथर्ववेद (५. १९, २) में एक ऐसे आङ्गिरस के रूप में उल्लेख है जिसे क्षत्रियों ने त्रस्त किया था। ऐसा कथन है कि इसके फलस्वरूप स्वयं क्षत्रिय लोग भी विनष्ट हो गये। तु० की० सृजय और बार्हत्सामा।

वृहद्-उक्थ का ऋग्वेद^१ के एक अस्पष्ट सूक्त में एक पुरोहित के रूप में उल्लेख है। दसवें मण्डल^२ के दो सूक्तों में यह निश्चित रूप से एक ऋषि है। दुर्मुख पाञ्चाल का प्रतिष्ठापन करनेवाले के रूप में इसका ऐतरेय ब्राह्मण^३ में भी उल्लेख है, और शतपथ ब्राह्मण^४ में इसे ही वामदेव का पुत्र कहा गया है। पञ्चविंश ब्राह्मण^५ में यह वामनेय ('वाम्नी' का वंशज) के रूप में आता है : हॉपकिन्स^६ का ऐसा मत भी कि यहाँ इसकी 'वामदेव्य' के रूप में कल्पना की गई हो सकती है, सर्वथा सम्भव प्रतीत होता है।^७

^१ १९, ३, जहाँ रौय सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० इसे विशेषात्मक मानने है। तु० की० औल्डेनवर्ग। त्सी० गे० ४७, २१४, लुडविग - ऋग्वेद का अनुवाद ३, १२६।

^४ ८ २३।

^४ १३ २, २, १४।

^५ १४ ९, ३७ ३८।

^६ ट्रा० सा० १५, ५५, नोट २।

^७ पञ्चविंश ब्राह्मण १३ ९, २७, वास्तव में १४ ९, ३८ के समानान्तर ही है।

^२ १० ५४, ६, ५६, ७।

वृहद्-गिरि को पञ्चविंश ब्राह्मण (८. १, ४) में उन तीन यतियों में से एक बताया गया है जो इन्द्र द्वारा यतियों के सामूहिक वध से बच गये थे। इसी ब्राह्मण (१३. ४, १५-१७) में इसके एक सामन् का भी उल्लेख है।

वृहद्-दिव, ऋग्वेद^१ के एक सूक्त में उसी सूक्त के प्रणेता के रूप में आता है, और अपने को एक अथर्वन् कहता है। ऐतरेय ब्राह्मण^२ में इसका उल्लेख है और शाङ्खायन आरण्यक^३ के वश (गुरुओं की तालिका) में इसे सुम्नयु का शिष्य बताया गया है।

^१ १० १२०, ८ ९।

^२ ४ १४।

^३ १५ १।

तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का

अनुवाद ३, १३३, मैकडोनेल वैदिक

माइथोलोजी, पृ० १४१।

वृहद्-रथ का ऋग्वेद^१ में दो बार और दोनों ही दशाओं में नववास्त्व के साथ उल्लेख है। इस प्रकार यह नाम 'नववास्त्व' की एक उपाधि हो सकता है।

^१ १. ३६, १८, १० ४९, ६।

तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १४७, १४८।

वृहद्-वसु, वंश ब्राह्मण^१ में एक गुरु का नाम है।

^१ इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७४

वृहस्पति (स्तुति के अधिपति), वैदिक ग्रन्थों में एक देवता का नाम है। यिवो^१ का ऐसा मत कि यह नाम वृहस्पति नामक ग्रह का द्योतक है, सुप्रमाणों द्वारा कदापि पुष्ट नहीं होता। इस मत को अस्वीकृत करने में औल्डेनबर्ग^२ स्पष्टतः ठीक प्रतीत होते हैं।

^१ ऐस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉलोजी अन्ट मैथमेटिक, ६।

^२ न० गो० १९०९, ५६८, नोट ३, व्हिट्ने
ज० अ० ओ० सो० १६, ४०१४,
तिलक : ओरायन, १०१ को शुद्ध

करते हुये। देखिये फ्लोट : ज० ए०
सो०, १९११, ५१४-५१८; और
कीथ : वही, ७९४-८००, मी।

वृहस्पति-गुप्त शायस्थि का वंश ब्राह्मण^१ में भवत्रात शायस्थि के शिष्य के रूप में उल्लेख है।

^१ इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७२।

वृहस्पति-सव, एक ऐसे यज्ञ का नाम है जिससे, तैत्तिरीय ब्राह्मण^१ के अनुसार, यदि कोई पुरोहित बनना चाहता था तो वह इस पद को प्राप्त कर सकता था। आश्वलायन श्रौत सूत्र^२ के अनुसार यह एक ऐसा यज्ञ होता था जिसे वाजपेय के पश्चात् पुरोहितों को करना होता था, जब कि राजा राजसूय करता था। दूसरी ओर शतपथ ब्राह्मण^३ में 'वृहस्पति-सव' को वाजपेय के साथ समीकृत किया गया है; किन्तु इस प्रकार का समीकरण स्पष्टतः बहुत पुरातन नहीं है।^४

^१ २ ७, १, २।

तु० की० काठक संहिता ३७
७, पञ्चविंश ब्राह्मण, १७ ११, ४,
२५. १, १ ७।

^२ १, ९, ५।

^३ ५. २, १, १९।

^४ एग्लिङ्ग : से० तु० ई० ४१, xxiv, xxv,
वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, १०, १०७,
१०८।

बेकनाट ऋग्वेद^१ में केवल एक बार आता है जहाँ इन्द्र को बेकनाटों और पणियों को पराभूत करनेवाला कहा गया है। अतः इसका स्वाभाविक आशय 'कुसीदक' है, और यास्क^२ ने भी इसकी इसी रूप में व्याख्या की है। इस शब्द में कुछ विदेशीपन का आभास तो मिलता है, किन्तु इसके उद्गम को कदाचित् ही निर्धारित किया जा सकता है : इसे जितना बेविलोनियन कहा जा सकता है उतना ही आदिम भी।^३ हिलेब्रान्ट^४ के विचार से ब्रुनहॉफर द्वारा किया गया 'बेकनाट' और 'बिकनिर' का समीकरण ठीक है।

^१ ८ १६, १०।

^२ निरुक्त ६ २६।

^३ हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो०
१७, ४४।

^४ वेदिशे माइथोलोजी, ३, २६८, नोट १।

तु० की० त्सिमर : आस्ट्रिन्डिशे

लेवेन २५९।

बेकुरा, पञ्चविंश ब्राह्मण^१ में आता है, जहाँ इसका अर्थ 'ध्वनि' अथवा 'वाणी' हो सकता है। नैघण्टुक^२ ने भी इसे यही आशय प्रदान किया है। फिर भी, बकुर की ही भाँति, ऐसा सम्भव हो सकता है कि यह किसी वाद्य-यन्त्र का ही नाम हो। तैत्तिरीय^३ और काठक^४ संहिताओं में 'अप्सरसों' की उपाधि के रूप में 'बेकुरि' और 'बेकुरि' शब्द आते हैं, जिनका अर्थ कदाचित् 'ल्यात्मक' है; वाजसनेयि संहिता^५ और शतपथ ब्राह्मण^६ में इनके 'भकुरि' और 'भाकुरि' विभेदात्मक रूप मिलते हैं।

^१ १ ३, १; ६ ७, ६, जैमिनीय ब्राह्मण
१ ८२।

^२ १ ११।

^३ ३ ४, ७, १।

^४ १८. १४।

^५ १८ ४२।

^६ ९. ४, १, ९

वैज-वाप ('वीजवाप' का वंशज), माध्यंदिन शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद् (२. ५, २०; ४. ५, २६) के प्रथम दो वंशों (गुरुओं की तालिकाओं) में किसी गुरु का नाम है।

वैज-वापायन (वैजवाप का वंशज), माध्यंदिन शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद् (२. ५, २०; ४. ५, २६) के प्रथम दो वंशों (गुरुओं की तालिकाओं) में किसी गुरु का नाम है। इस नाम का अक्षर-विन्यास 'वैजवापायन' भी है।

वैज-वापि ('वीजवाप', अथवा 'वीजवापिन्' का वंशज), मैत्रायणी संहिता (१. ४, ७) में एक गुरु का नाम है।

वैन्द, यजुर्वेद^१ में पुरुषमेध के वलिप्राणियों में से एक का नाम है। भाष्यकार महीधर के अनुसार यह शब्द 'निपाद्' का द्योतक है, किन्तु सायण के अनुसार मङ्गलियाँ पकड़नेवाले का। देखिये मृगयु।

^१ वाजसनेयि सहिता ३० १६, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, १०, १।

बोध, मन्त्र-पाठ^१ में एक ऋषि का नाम है। अथर्ववेद^२ में इसका प्रतिबोध के साथ उल्लेख है, किन्तु ष्हिट्ने^३ का विचार है कि कम से कम द्वितीय स्थल पर यह शब्द केवल एक साधारण संज्ञा है, जिसका अर्थ 'प्रबुद्ध' है।

^१ २ १६, १४।

तु० की० विन्दन्तिसः मन्त्र-
पाठ xlv।

^२ ५ ३०, १०; ८. १, १३।

^३ अथर्ववेद का अनुवाद, ४७४।

बौधायन (बुध अथवा बोध का वंशज) एक ऐसे गुरु का नाम है जिसका बौधायन श्रौत सूत्र^१ में उल्लेख है। इसके नाम से एक श्रौत सूत्र प्रचलित है जिसका वर्णन^२ और आंशिक सम्पादन कैलेण्ड^३ ने किया है। इसका ही एक धर्म सूत्र भी है जिसका सम्पादन^४ और अनुवाद^५ हो चुका है; किन्तु इसका गृह्य सूत्र अभी भी असम्पादित है।

^१ ४ ११, इत्यादि।

^२ ऊ० बौ० १९०३।

^३ विवलयोधेका इन्डिका १९०४, इत्यादि।

^४ हुल्श द्वारा, लीपजिग, १८८४।

^५ वूह्लर - से० बु० ई० १४। देखिये इनकी प्रस्तावना xxix और वाद, जहाँ आप बौधायन के काल का अत्यानुमान करते हैं।

बौधी-पुत्र (बोध के एक स्त्री-वंशज का पुत्र), माध्यंदिन शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद् (६. ४, ३१) के अन्तिम वंश (गुरुओं की तालिका) में शालङ्कायनीपुत्र के एक शिष्य का नाम है।

ब्रह्म-चर्य, जीवन के चार आश्रमों में से एक (ब्रह्मचारिन्)^१ का द्योतक है। इस शब्द का पारिभाषिक आशय सर्वप्रथम ऋग्वेद^२ के अन्तिम मण्डल में मिलता है। ब्रह्मचर्य-आश्रम मुख्यतः एक विद्यार्थी जीवन होता था। यद्यपि बहुत कुछ तात्कालीन प्रचलनों के आधार पर ही इस प्रथा का विकास तथा

^१ ऋग्वेद १० १०९, ५, अथर्ववेद ६

१०८, २; १३३, ३, ११ ५, १ और

वाद; शतपथ ब्राह्मण ११ ३, ३, १,

इत्यादि।

^२ ऋग्वेद, उ० स्था०।

नियन्त्रण हुआ होगा; तथापि वैदिक साहित्य में नियमित रूप से इसकी चर्चा और मान्यता है, जिससे स्पष्ट है कि यह वैदिक समाज का एक अनिवार्य अङ्ग बन चुका था ।

‘ब्रह्मचारिन्’ के सम्मान में अथर्ववेद^३ में एक सम्पूर्ण सूक्त मिलता है जिगमें ब्रह्मचर्य-जीवन की समस्त आवश्यक विशेषताओं का उल्लेख है । गुरु^४ द्वारा बालक को एक नवीन जीवन की दीक्षा (उप-नी) दी जाती है, वह सृगचर्म धारण करता है और अपने केशों को कटवाता नहीं;^५ वह ईंधन एकत्र करता है,^६ भिच्छाटन करता है,^७ और ज्ञानार्जन तथा प्रायश्चित्त करता है । बाद के वैदिक साहित्य में इन सभी विशेषताओं का उल्लेख है । विद्यार्थी गुरु-गृह में ही रहता है (‘आचार्य-कुल-वासिन्’;^८ अन्ते-वासिन्^९); भिच्छाटन करता है,^{१०} तथा यज्ञाग्नि की देख-रेख^{११} और गृह-कार्य भी करता है ।^{१२} उसके

^३ ११ ५। तु० की० गोपथ ब्राह्मण १ २, १-८, जिसमें ब्रह्मचारिन् का एक स्वतंत्र विवरण मिलता है (ब्लूमफील्ड अथर्ववेद, ११०), शतपथ ब्राह्मण ११. ३, ३, १ और बाद, तैत्तिरीय संहिता ६ ३, १०, ५ ।

^४ अथर्ववेद ११ ५, ३। कौशिक सूत्र ५५ १८, के अनुसार यह उपनयन संस्कार में प्रयुक्त हुआ है ।

^५ अथर्ववेद ११ ५, ६ ।

^६ अथर्ववेद ११ ५, ४ ६ ।

^७ अथर्ववेद ११ ५, ९ ।

^८ छान्दोग्य उपनिषद् २ २३, २ । ऐसे ही नियमित रूप से ‘ब्रह्म-चर्येण वस्’, अथर्ववेद ७ १०९, ७, ऐतरेय ब्राह्मण ५ २४, इत्यादि; अथवा ‘चर्’, शतपथ ब्राह्मण ११ ३, ३, ७, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ७, ६, ३, इत्यादि ।

^९ वही ३ ११, ५, ४ १०, १, बृहदारण्यक उपनिषद् ६ ३, १५ (माध्य-दिन = ६ ३, ७ काण्व), तैत्तिरीय उपनिषद् १ ३, ३, ११, १ ।

^{१०} छान्दोग्य उपनिषद् ४ ३, ५ । तु० की० अथर्ववेद ६ १३३, ३, शतपथ ब्राह्मण ११ ३, ३, ५ ।

^{११} छान्दोग्य उपनिषद् ४ १०, २ और बाद, शतपथ ब्राह्मण ११. ३, ३, ४ ।

^{१२} शतपथ ब्राह्मण ३ ६, २, १५ । आश्व-लायन गृह्य सूत्र १ २२, १ २, के एक मंत्र में, तथा अन्यत्र भी, ब्रह्मचारिन् के कर्त्तव्यों का इस प्रकार वर्णन है : ‘तुम एक ब्रह्मचारी हो : जल खाओ; अपने कर्त्तव्य का पालन करो, दिन के समय सोओ नहीं, अपने गुरु तथा वेदाध्ययन के प्रति निष्ठा रखो (ब्रह्मचार्य् अस्य्, अपोऽशान, कर्म कुरु, दिवा गा स्वाप्तीर्, आचार्या-याधीनो वेद अधीष्व’) । ऐतरेय आरण्यक ३ १, ६, शाङ्खायन आरण्यक ७ १९, और छान्दोग्य उपनिषद् ४. ५, ५, में जिस एक कर्त्तव्य का विशेष रूप से उल्लेख है वह है गुरु के पशुओं पर चरते समय निगरानी रखना । इसमें भी सन्देह नहीं कि शिष्य को इन चारागाहों से सूखे उपले तथा ईंधन के लिये लकड़ियाँ भी लाना होता था । गुरु के प्रति निष्ठा के लिये, तु० की० शतपथ ब्राह्मण ११ ३, ३, ६ ।

विद्यार्थी-जीवन की अवधि पर्याप्त विस्तृत होती है जिसे सामान्यतया वारह वर्ष माना गया है,^{१३} किन्तु अधिक दीर्घकाल, जैसे वत्तीस वर्ष तक का भी उल्लेख मिलता है।^{१४} विद्यार्थी-जीवन आरम्भ होने की अवस्था भी भिन्न-भिन्न है।^{१५} श्वेतकेतु ने वारह वर्ष की अवस्था में विद्यार्थी-जीवन आरम्भ किया था और वारह वर्षों तक विद्यार्थी रहा।^{१६}

गृह्य सूत्रों में ऐसी मान्यता है कि आर्यों के तीनों उच्च वर्गों को ब्रह्मचर्य-आश्रम का पालन करना चाहिये। किन्तु यह मान्यता केवल पुरोहितों की व्यवस्था मात्र है अथवा और कुछ, यह निश्चित नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि क्षत्रिय और वैश्य जाति के कुछ लोग उसी प्रकार ब्रह्मचर्य-आश्रम का पालन करते थे, जिस प्रकार सभी वर्गों के वर्मा के बालक विद्यार्थियों के रूप में कुछ समय विहारों में व्यतीत करते हैं। ऐसा, राजा द्वारा ब्रह्मचर्य के विरुद्ध अपने देश की रक्षा करने के अथर्ववेद^{१७} में उपलब्ध सन्दर्भ द्वारा—यद्यपि इस स्थल की एक भिन्न रूप से व्याख्या की जा सकती है—और अधिक स्पष्ट रूप से काठक संहिता^{१८} में वर्णित उस संस्कार द्वारा जिसका प्रयोजन विद्यार्जन किये हुए एक ब्राह्मण व्यक्ति को लाभान्वित करना है, तथा उपनिषदों में जनक जैसे उन राजाओं के सन्दर्भ द्वारा भी सिद्ध होता है जिन्होंने वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया था।^{१९} फिर भी सामान्यतया क्षत्रिय लोग युद्धकला ही सीखते थे।^{२०}

ब्रह्मचारियों का एक कर्त्तव्य आचरण को पवित्र रखना होता था। किन्तु अनेक स्थलों^{२१} पर विद्यार्थी और गुरु-पत्नी के बीच आचरण-भ्रष्टता का सन्दर्भ मिलता है, और ऐसे अपराध के लिये कठिन दण्ड—वाद में स्थिति भिन्न थी—

^{१३} छान्दोग्य उपनिषद् ४ १०, ६ १, २

^{१४} वही, ८ ७, ३ (वत्तीस वर्ष), १५ (आजीवन), इत्यादि।

^{१५} देखिये वेवर . इन्डिशे स्टूडियन, १०, २१। सूत्रों में ब्राह्मण के लिये ८ से १६ वर्ष, क्षत्रिय के लिये ११ से २२ वर्ष, और वैश्य के लिये १२ से २४ वर्ष, तक की स्वीकृति है। क्षत्रिय और वैश्य के अन्तरों की तुलना में ब्राह्मण और क्षत्रिय के अन्तरों से ऐसा व्यक्त होता है कि ब्राह्मण की तुलना में क्षत्रियों

और वैश्यों की स्थिति भिन्न थी।

^{१६} छान्दोग्य उपनिषद् ६ १, २।

^{१७} १५ ५, १७। तु० की० विहट्ने के अथर्ववेद के अनुवाद, ६३९, में लैनमैन।

^{१८} ९. १६ ('अब्राह्मण' पाठ है)।

^{१९} बृहदारण्यक उपनिषद् ४. २, १।

^{२०} तु० की० हॉपकिन्स . ज० अ० ओ० सो० १३, १०६-११३।

^{२१} तैत्तिरीय आरण्यक १० ६५; छान्दोग्य उपनिषद् ५ १०, ९।

की भी व्यवस्था नहीं है। कुछ दशाओं में संस्कार भी चारित्रिक पवित्रता का उल्लङ्घन करने की स्वीकृति देते हैं; किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि केवल गर्भाधान के लिये एक अभिचार के रूप में ही ऐसा विधान है।^{१२}

कभी-कभी एक वृद्ध पुरुष तक शिष्य बन सकता था, जैसा कि आरुणि के उदाहरण से स्पष्ट होता है।^{१३}

^{२२} काठक संहिता ३४ ५, तैत्तिरीय संहिता ७ ५, ९, ४, वेबर : इन्डिशे स्टूडियन १०, १२५, नोट १, कीथ : शास्त्रायन आरण्यक ७९।

^{२३} बृहदारण्यक उपनिषद् ६. १, ६ (माध्यदिन = ६ २, ४ काण्व)।

तु० की० फॉन श्रोडर : इन्डि-

यन लिटरेचर उन्ट कल्चर, २०२, २०३; जॉली : रेख्त उन्ट सिट्टे, १५१; वेबर : उ० पु० १०, १२१ और वाद; ड्यूसन : फिलॉसफी ऑफ दि उपनिषद्स, ३७०, ३७१, और देखिये ब्राह्मण।

ब्रह्म-ज्य^१ (ब्राह्मण को त्रस्त करनेवाला) और ब्रह्म-ज्येय^२ (ब्राह्मणों को त्रसित करना) ऐसे शब्द हैं जिनका अथर्ववेद में अनेक बार उन जघन्य अपराधों के वाचक के रूप में उल्लेख है जिनको करनेवाले व्यक्तियों का विनाश हो जाता है। देखिये ब्राह्मण।

^१ ५ १९, ७ १२, १२ ५, १५ और वाद, १३. ३, १। तु० की० तैत्तिरीय

ब्राह्मण ३ ७, ९, २।

^२ अथर्ववेद १२ ४, ११।

ब्रह्म-दत्त चैकितानेय ('चेकितान' का वंशज), बृहदारण्यक उपनिषद् (१. ३, २४) में एक गुरु का नाम है। एक कुरु राजा अभिप्रतारिन् द्वारा प्रतिपालित होने के रूप में इसका ही जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (१. ३८, १; ५९, १) में भी उल्लेख है।

१. ब्रह्मन् (क्लीव०), युद्ध करनेवाले तथा साधारण वर्गों (क्षत्र और विश्व) के विपरीत पुरोहित वर्ग का द्योतक है। यह शब्द अथर्ववेद^१ में, और बहुधा वाद^२ में भी मिलता है। इस वर्ग के सम्मान और पद के लिये देखिये ब्राह्मण।

^१ २ १५, ४; ९. ७, ९, १२ ५, ८, १५ १०, ३. ४।

^२ तैत्तिरीय संहिता ३. ३, १, १, इत्यादि,

वाजसनेयि संहिता ६. ३, ७. २१, इत्यादि। देखिये वर्ण और क्षत्र भी।

२. ब्रह्मन्, 'पुरोहित' के आशय में ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर तथा बाद में बहुधा मिलता है। ऋग्वेद^१ के अनेक स्थलों पर इसका देवों की प्रशस्ति करनेवाले के रूप में उल्लेख है। कुछ अन्य स्थलों^२ पर 'पुरोहित' का ही आशय पर्याप्त है। ऐसे भी स्थल^३ कुछ कम नहीं जहाँ पौरोहित्य-कर्म का स्पष्ट उल्लेख है, और इस बात पर भी सन्देह^४ करने का कोई आधार नहीं कि प्रायः सभी दशाओं में इस शब्द में पुरोहित-वर्ग के एक सदस्य का ही आशय निहित है। फिर भी ऋग्वेद में ऐसे स्थलों की संख्या पर पर्याप्त सन्देह किया जा सकता है जहाँ इससे सामान्य रूप से यज्ञ का निर्देशन करनेवाले पुरोहित का पारिभाषिक आशय माना जा सके। इसमें सन्देह नहीं कि यह इस आशय में मिलता है, और मूहर^५ तथा रौथ^६ दोनों ने इसके इस प्रकार प्रयुक्त हुये होने के उदाहरणों को स्वीकार किया है; फिर भी, गेल्डनर^७ अनेक स्थलों पर उक्त आशय मानने के लिये उत्सुक हैं, और इस बात पर जोर देते हैं कि पुरोहित सामान्यतया एक संकीर्ण आशय में ब्रह्मन् ही होता था। दूसरी

^१ १ ८०, १, १६४, ३४, २. २, ६, ६.
४५, ७; ७ ३३, ११, ८ १६, ७,
१० ७१, ११; ७७, १; ८५, ३ १६.
३४, १०७, ६, ११७, ७, १२५, ५;
मूहर : सस्कृत टेक्स्ट्स १^२, २४४-
२४६।

^२ १ २०, १; ३३, ९; १०१, ५, १०८,
७, १५८, ६, २ ३९, १, ४ ५०,
८ ९; ५८, २; ५. २९, ३, ३१, ४,
३२, १२; ४०, ८, ७ ७, ५, ४२, १;
८ ७, २०, १७, २, ३१, १; ३२,
१६, ३३, १९; ४५, ३९, ६४,
७, ७७, ५, ९२, ३०; ९६, ५,
९ ९६, ६, ११२, १; ११३, ६;
१०. २८, ११, ७१, ११; ८५, २९;
१४१, ३, मूहर : उ० पु०, १^२,
२४६-२५१।

^३ १ १०८, ७, ४. ५०, ८ ९, ८ ७,
२०, ४५, ३९, ६४, ७, ९२, ३०,
९. ११२, १; १० ८५, २९; मूहर :

१^२, २५८।

^४ उ० स्था०। तु० की० तिस्रर . आल्टि-
न्टिगे लेवेन, १९० और वाद।

^५ उ० पु० १^२, २५१, में २ १, २ (= ९.
९१, १०) का उद्धरण देते हुये, ४. ९,
४, १० ५०, २।

^६ सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० २, में
२ १, २, ९ ९६, ६, १०. ७१, ११,
१०७, ६, का उद्धरण देते हुये।
अन्तिम तीन स्थलों में से किसी पर भी
विशिष्ट आशय उपयुक्त आवश्यक
नहीं।

^७ वेदिशे स्टूडियन, २, १४५ और वाद,
३, १५५। आप का विचार है कि
'अधीक्षक पुरोहित' का आशय अपे-
क्षाकृत प्राचीन है, और इन स्थलों
पर आप इसी आशय को देखते हैं :
१ १५८, ६, ४ ९, ४; ५०, ७ ८;
७. ७, ५; ३३, ११; १० १४१, ३,
इत्यादि।

और, औत्सेनवर्ग,^८ अपेक्षाकृत अधिक सम्भावना के साथ यह मत व्यक्त करते हैं कि अधिकांश सम्बद्ध स्थलों पर 'ब्रह्मन्' का अर्थ केवल 'पौरोहित्य कर्म करनेवाला' मात्र है, जब कि 'पुरोहित', जो अनिवार्यतः यज्ञ करनेवाले पुरोहित-वर्ग (ऋत्विज्) का सदस्य नहीं था, यज्ञ कराने के समय अधिकतर 'होतृ' पुरोहित ही होता था और केवल वाद में ही 'ब्रह्मन्' के रूप में प्रचलित हुआ। आपके अनुसार यह परिवर्तन उस समय हुआ जब सूक्तों का महत्त्व घट गया और उस पुरोहित के कर्त्तव्यों को ही सर्वाधिक महत्त्व दिया जाने लगा जो सम्पूर्ण रूप से यज्ञ का अधीक्षण तथा अपनी अभिचारीय शक्तियों से यज्ञ के दोषों का निराकरण करता था।^९ वाद के साहित्य में इस शब्द के दोनों ही आशय सर्वथा प्रचलित हैं।^{१०}

^८ रिलीजन देस वेद, ३९६, ३९७, जिनका विचार है कि ऋग्वेद को ज्ञात 'ब्रह्मन्' पुरोहित ब्राह्मणाच्छंसिन् था, और आप अधिकांश स्थलों (उदाहरण के लिये ४ ५०, ७ ८) पर केवल 'पुरोहित' का ही आशय देखते हैं। तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, १०, ३७६, ३७७।

^९ तु० की० पिश्ल : गो०, १८९४, ४२०, हिलेब्रान्ट : रिचुअल लिटरेचर, १३; ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त, LXVIII, अथर्ववेद, ३२; और देखिये पुरोहित।

^{१०} 'पुरोहित' के रूप में, अथर्ववेद २. ७, २; ४ ३५, १ २; ५. ८, ५; १७,

८; १८, ७; १९, ८, ६ १२२, ५; ८ ९, ३, १० १, ३, ४, ३० ३३; ७, २४; ११. १, २५, १२. १, ३८; १९. ३२, ८, तैत्तिरीय संहिता ४. १, ७, १, वाजसनेयि संहिता २६. २, ऐतरेय ब्राह्मण ५. ३, इत्यादि। 'अधीक्षक पुरोहित' के रूप में, अथर्ववेद १८. ४, १५, २०. २, ३; तैत्तिरीय संहिता १. ८, ९, १; २. ३, ११, ४; ३. ५, २, १, इत्यादि; काठक संहिता ३७ १७, और देखिये, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १०, ३४, ३५; ११४, १३५-१३८, ३२७, ३३०-३३७।

ब्रह्म-पुत्र, कुछ स्थलों^१ पर 'पुरोहित के पुत्र' के आशय में प्रयुक्त हुआ है।

^१ ऋग्वेद २. ४३, २, शतपथ ब्राह्मण ११. ४, १, २. ९। तु० की० वेवर :

इन्डिशे स्टूडियन, १०, ४३, ६९; मूडर : सस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, १५२।

ब्रह्म-पुरोहित, काठक संहिता^१ और शतपथ ब्राह्मण^२ में मिलता है जहाँ

^१ १९ १०, २७. ४।

| ^२ १२. ८, ३, २९।

सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश द्वारा इसे 'पौरोहित्य ही जिसका पुरोहित हो', आशय प्रदान किया गया है। यह कुछ सन्दिग्ध ही प्रतीत होता है क्योंकि उस समय तक इसका अधिक सम्भाव्य आशय 'ब्रह्मन्-पुरोहित जिसका पुरोहित हो' ही होगा जब तक द्वात्र की एक उपाधि के रूप में इस शब्द का अर्थ 'जो पौरोहित्य को इससे श्रेष्ठ मानता हो' न मान लिया जाय, जैसा कि वेवर का विचार^३ प्रतीत होता है।

^३ इन्डिशे स्टूडियन, १०, ३०।

ब्रह्म-बन्धु, ऐतरेय ब्राह्मण^१ और छान्दोग्य उपनिषद्^२ में एक व्यंगात्मक आशय में 'अयोग्य पुरोहित', अथवा 'केवल नाम के पुरोहित' का द्योतक है। तु० की० राजन्यबन्धु।

^१ ७. २७।

^२ ६. १, १। तु० की० लाट्यायन श्रौत-सूत्र ८ ६, २८; कात्यायन श्रौतसूत्र

२०. ४, २२, शाह्यायन श्रौतसूत्र १६.

२९, ९, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, १०, ९९, १००।

ब्रह्मर्षि-देश—देखिये मध्यदेश।

ब्रह्म-वद्य—देखिये ब्रह्मोद्य।

ब्रह्म-वादिन् (वेदार्थ का उद्धाटन करनेवाला), वाद की संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में एक 'इश्वरशास्त्रविद्' का द्योतक है। 'ब्रह्म-विद्' (पवित्र तत्त्वों का ज्ञाता) से भी यही आशय है।^३

^१ अथर्ववेद ११. ३, २६; १५. १, ८,

तैत्तिरीय संहिता १. ७, १, ४; २. ६,

२, ३, ३, १; ५. २, ७, १; ५, ३, २;

६ १, ४, ५।

^२ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ३, १०, ६; पञ्चविंश

ब्राह्मण ४. ३, १३, ६ ४, १५;

तैत्तिरीय आरण्यक १. २२, ९; ५. २,

२, ४, ६, छान्दोग्य उपनिषद् २-

२४, १, इत्यादि।

^३ अथर्ववेद १०. ७, २४. २७; ८, ४३;

१९ ४३, १; तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ४,

८, ६; तैत्तिरीय उपनिषद् २. १;

बृहदारण्यक उपनिषद् ३. ७, ४; ४-

४, ११. १२, इत्यादि।

ब्रह्म-विद्या (ब्रह्म का ज्ञान) उन विज्ञानों में से एक का नाम है जिनकी छान्दोग्य उपनिषद्^१ में गणना कराई गई है। अन्यत्र^२ भी इसका उल्लेख है।

^१ ७. १, २. ४, २, १; ७, १।

^२ बृहदारण्यक उपनिषद् १. ४, २०, इत्यादि।

ब्रह्म-वृद्धि का वंश ब्राह्मण^१ में मित्रवर्चस् के शिष्य के रूप में उल्लेख है।

^१ इन्डिशे स्टूडियन ३, ३७२, ३८०।

ब्रह्म-हत्या का यजुर्वेद संहिताओं^१ तथा ब्राह्मणों^२ में एक जघन्य अपराध के रूप में उल्लेख है। ऐसी हत्या करनेवाले को 'ब्रह्म-हन्' ^३ कहा गया है।

^१ तैत्तिरीय संहिता २. ५, १, २, ५. ३, १२, १; वाजसनेयि संहिता ३९ १३, इत्यादि।

^२ शतपथ ब्राह्मण १३ ३, १, १, ५, ३, ५, ४, १; तैत्तिरीय आरण्यक १० ३८, निरुक्त ६. २७, इत्यादि।

^३ तैत्तिरीय संहिता २. ५, १, २; ६ ५, १०, ३, काठक संहिता ३१. ७; कपिष्ठल संहिता ४७ ७, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. २, ८, १२, शतपथ ब्राह्मण १३. ३, ५, ४, इत्यादि। तु० की० धर्म।

ब्रह्मावर्त—देखिये मध्यदेश।

ब्रह्मोद्य ब्राह्मणों^१ में ऐसी 'ईश्वरशास्त्र-विषयक समस्याओं' का द्योतक है जो अश्वमेध अथवा दशरात्र जैसे वैदिक यज्ञों से सम्बद्ध विभिन्न संस्कारों का अनिवार्य अङ्ग होती थीं। कौषीतकि ब्राह्मण^२ में इसका 'ब्रह्म-वाद्य' रूप मिलता है, और तैत्तिरीय संहिता^३ के ब्रह्म-वाद्य' का भी कदाचित्त यही भाशय है।

^१ शतपथ ब्राह्मण ४. ६, ९, २०, ११. ४, १, २, ५, ३, १, ६, २, ५, १३. २, ६, ९; ५, २, ११, बृहदारण्यक उपनिषद् ३. ८, १, ऐतरेय ब्राह्मण ५ २५।

^२ २७ ४।

^३ २ ५, ८, ३।

तु० की० ब्लूमफील्ड : ज० अ० ओ० सो० १५, १७२, रिलीजन ऑफ दि वेद, २१६ और वाद; वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, १०, ११८, ११९; लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, ३९० और वाद; एगिलङ्ग. से० बु० ई०, २६, ४५२, ४५३।

ब्रह्मोपनिषद् (ब्रह्म-सम्बन्धी गुह्य सिद्धान्त) छान्दोग्य उपनिषद् (३. ११, ३) में एक शास्त्रीय वार्ता का नाम है।

ब्रह्मौदन, वाद की संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में यज्ञ करानेवाले 'पुरोहितों के लिये 'पके हुये (ओदन) चावल' का द्योतक है।

^१ अथर्ववेद ४. ३५, ७, ११ १, १ ३.

२०. २३ और वाद, तैत्तिरीय संहिता

३ ४, ८, ७, ५. ७, ३, ४, ६ ५, ६,

१, इत्यादि।

^२ शतपथ ब्राह्मण १३. १, १, १ ४, ३, ६, ६, ४, १, ५, इत्यादि।

१. ब्राह्मण (एक 'ब्रह्मन्', अर्थात् एक पुरोहित का वंशज) ऋग्वेद^१ में केवल कुछ ही बार और वह भी अधिकतर उसके अद्यतन भागों में ही मिलता है। अथर्ववेद^२ और वाद^३ में 'पुरोहित' के आशय में यह अत्यन्त प्रचलित है। ऋग्वेद^४ के पुरुष-सूक्त में यह जातियों के चतुर्वर्गीय विभाजन में भी आता है।

यह निश्चित प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में, योद्धा तथा कृपक वर्ग से भिन्न, ब्राह्मणों की एक पृथक जाति बन चुकी थी।^५ वैदिक ग्रन्थों में इन्हें नियमित रूप से क्षत्रिय जाति से श्रेष्ठ बताया गया है।^६ यह अपनी अभिचारीय शक्तियों अथवा विभिन्न सांस्कारिक कृत्यों द्वारा जनसामान्य और योद्धाओं को^७, अथवा योद्धाओं के विभिन्न क्षेत्रों को^८, संतुष्ट कर सकते थे। यदि यह स्वीकार करना आवश्यक हो, जैसा कभी-कभी किया गया है, कि राजसूय के समय ब्राह्मण भी राजा की अम्यर्चना करते थे,^९ तो भी इस असामान्य स्थिति की इस

^१ १ १६४, ४५, ६ ७५, १०, ७ १०३,
१ ७ ८; १०. १६, ६, ७१, ८ ९,
८८, १९; ९०, १२; ९७, २२; १०९,
४। देखिये मूडर : संस्कृत टेक्स्ट्स,
१^२, २५१-२५७, रौथ : ए० नि०
१२६, सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०,
जहाँ ऋग्वेद ८ ५८, १, भी सम्मिलित
है, लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद
३, २२०-२२६।

^२ २ ६, ३, ४. ६, १; ५ १७, ९; १८,
१ और वाद; १०, २ और वाद, ११
१, २८; १९. ३४, ६, ३५, २,
इत्यादि।

^३ तैत्तिरीय संहिता १ ६, ७, २, २ १,
२, ८, इत्यादि; वाजसनेयि संहिता
७ ४६, इत्यादि।

^४ १० ९०।

^५ तु० की० औल्टेनबर्ग . रसी० गे० ४२,
२३५; गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन, २,
१४६, नोट १; देखिये 'वर्ण'।

^६ देखिये मैत्रायणी संहिता ४ ३, ८,

काठक संहिता २९. १०, वाजसनेयि
संहिता २१. २१, शतपथ ब्राह्मण
५ ४, ४, १५; १३. १, ९, १, ३,
७, ८, ऐतरेय ब्राह्मण ७ १५, ८ ९;
पञ्चविंश ब्राह्मण २. ८, २, ११ ११,
९, १५ ६, ३; और तु० की० ब्रह्म-
पुरोहित; वेदर : इन्डिशे स्टूडियन
१०, २७, और वाद।

^७ देखिये मैत्रायणी संहिता २ १, ७, ३.
३, १०, तैत्तिरीय संहिता २ २, ११;
२, इत्यादि।

^८ मैत्रायणी संहिता ३ ३, १०।

^९ बृहदारण्यक उपनिषद् १. ४, २३
(माध्यदिन = १ ४, ११ काण्व)।
तु० की० काठक संहिता २८ ५;
शतपथ ब्राह्मण १ २, ३, २, ५ ४,
२, ७। इस धारणा की तुलना कीजिये
कि केवल सोम ही ब्राह्मणों के राजा
हैं, वाजसनेयि संहिता १० १८;
शतपथ ब्राह्मण ५ ४, २, ३।

सतर्कता के साथ व्याख्या की गई है कि इससे ब्राह्मणों की प्राथमिकता अप्रभावित ही रह जाती है। किन्तु इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि पूर्ण ममृद्धि के लिये क्षत्रिय और ब्राह्मण का परस्पर मैत्री-भाव और सहयोग आवश्यक है।^{१०} यद्यपि यह भी स्वीकार^{११} किया गया है कि राजा और सम्भ्रान्त व्यक्ति कभी-कभी ब्राह्मणों को त्रस्त करते थे, तथापि इस बात का संकेत किया गया है कि ऐसी दशा में उनका (त्रस्त करनेवालों का) निश्चित और शीघ्र पतन हो जाता है।

द्युलोक में रहनेवाले देवों की ही भांति, ब्राह्मणों को पृथ्वी पर रहने वाले देवता कहा गया है;^{१२} किन्तु ऋग्वेद^{१३} में ऐसी उक्ति कदाचित् ही मिलती है।

ऐतरेय ब्राह्मण^{१४} में ब्राह्मणों को 'उपहार ग्रहण करनेवाला' (आदायी) और 'समर्पित पदार्थों का पान करनेवाला' (आपायी) बताया गया है। इनके लिये व्यवहृत अन्य दो उपाधियाँ 'अवसायी' और 'यथाकाम-प्रयाप्य' अपेक्षाकृत अधिक अस्पष्ट हैं। इनमें से प्रथम उपाधि या तो 'सर्वत्र निवास करनेवाला',^{१५} अथवा 'भोजन हूढ़नेवाला',^{१६} की छोटक है, जब कि द्वितीय को सामान्यतया 'स्वेच्छा से भ्रमण करनेवाला' अर्थ में ग्रहण किया गया है, किन्तु

^{१०} देखिये तैत्तिरीय संहिता ५. १, १०, ३; काठक संहिता १९ १०, २७ ४; २९. १०; मैत्रायणी संहिता २. २, ३, ७, ७, ३. १, ९; २, ३, ४ ३, ९, वाजसनेयि संहिता २०. २५, पञ्चविंश ब्राह्मण १९. १७, ४, शतपथ ब्राह्मण ४ १, ४, ६, ५ ४, ४, १५, ऐतरेय ब्राह्मण ८. १०. १७. २४ २५, इत्यादि। तु० का० पुरोहित।

^{११} मैत्रायणी संहिता १ ८, ७, पञ्चविंश ब्राह्मण १८. १०, ८, अथर्ववेद ५ १७-१९, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ७, २, ६, शतपथ ब्राह्मण १३ १, ५, ४।

^{१२} अथर्ववेद ५ ३, २, ६. १३, १, ४४, २; १९ ६२, १ (१९ ३२, ८ की तुलना में), और सम्भवतः ५ ११, ११; तैत्तिरीय संहिता १. ७, ३, १,

२ ५, ९, ६, काठक संहिता ८ १३, मैत्रायणी संहिता १. ४, ६; शतपथ ब्राह्मण २. २, २, ६; ४, ३, १४, ३. १, १, ११, ४. ३, ४, ४। देखिये वेबर : उ० पु० १०, ३५, ३६, फॉन श्रोडर : इन्डियन्स लिटरेचर उन्ट कल्चर, १४६, १४७।

^{१३} न तो १ १३९, ७, में और न ९ ९९, ६ (देखिये रीथ : सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० 'देव') में ही यह आशय किसी प्रकार सम्भव है। तिसमर ने, आल्टिन्डिशे लेवेन, २०६, में, १ १०८, ८, का उद्धरण दिया है, किन्तु यह भी अनिश्चित ही है।

^{१४} ७ २९, २। तु० की० वर्ण, नोट ७१।

^{१५} वेबर : इन्डिशे स्टूडियन ९ ३२६।

^{१६} मूहर . सस्कृत टेक्स्ट्स, ५, ४३९।

१. ब्राह्मण (एक 'ब्रह्मन्', अर्थात् एक पुरोहित का वंशज) ऋग्वेद^१ में केवल कुछ ही बार और वह भी अधिकतर उसके अद्यतन भागों में ही मिलता है। अथर्ववेद^२ और वाद^३ में 'पुरोहित' के आशय में यह अत्यन्त प्रचलित है। ऋग्वेद^४ के पुरुष-सूक्त में यह जातियों के चतुर्वर्गीय विभाजन में भी आता है।

यह निश्चित प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में, योद्धा तथा कृपक वर्ग से भिन्न, ब्राह्मणों की एक पृथक् जाति बन चुकी थी।^५ वैदिक ग्रन्थों में इन्हें नियमित रूप से क्षत्रिय जाति से श्रेष्ठ बताया गया है।^६ यह अपनी अभिचारीय शक्तियों अथवा विभिन्न सांस्कारिक कृत्यों द्वारा जनसामान्य और योद्धाओं को^७, अथवा योद्धाओं के विभिन्न क्षेत्रों को, संयुक्त कर सकते थे। यदि यह स्वीकार करना आवश्यक हो, जैसा कभी-कभी किया गया है, कि राजसूय के समय ब्राह्मण भी राजा की अग्न्यर्चना करते थे,^८ तो भी इस असामान्य स्थिति की इस

^१ १ १६४, ४५, ६ ७५, १०, ७ १०२, १ ७. ८; १० १६, ६, ७१, ८. ९, ८८, १९; ९०, १२, ९७, २२, १०९, ४। देखिये मूडर : सस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, २५१-२५७, रीथ : ६० नि० १२६, सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०, जहाँ ऋग्वेद ८ ५८, १, भी सम्मिलित है, लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद ३, २२०-२२६।

^२ ७ ६, ३, ४ ६, १; ५ १७, ९; १८, १ और वाद; १०, २ और वाद; ११ १, २८, १९. ३४, ६, ३५, २, इत्यादि।

^३ तैत्तिरीय संहिता १ ६, ७, २; २ १, २, ८, इत्यादि, वाजसनेयि संहिता ७ ४६, इत्यादि।

^४ १० ९०।

^५ तु० की० औल्डेनवर्ग : त्सी० गे० ४२, २३५; गेल्टनर : वेदिशे स्टूडियन, २, १४६, नोट १, देखिये वर्ण।

^६ देखिये मैत्रायणी संहिता ४ ३, ८,

काठक संहिता २९. १०, वाजसनेयि संहिता २१. २१; शतपथ ब्राह्मण ५ ४, ४, १५, १३. १, ९, १, ३, ७, ८; ऐतरेय ब्राह्मण ७ १५, ८ ९, पञ्चविंश ब्राह्मण २ ८, २, ११ ११, ९, १५ ६, ३; और तु० की० ब्रह्म-पुरोहित, वेवर : इन्दिशे स्टूडियन १०, २७, और वाद।

^७ देखिये मैत्रायणी संहिता २ १, ७, ३. ३, १०, तैत्तिरीय संहिता २ २, ११; २, इत्यादि।

^८ मैत्रायणी संहिता ३ ३, १०।

^९ बृहदारण्यक उपनिषद् १ ४, २३ (माध्यदिन = १ ४, ११ काण्व)। तु० की० काठक संहिता २८ ५, शतपथ ब्राह्मण १ २, ३, २, ५ ४, २, ७। इस धारणा की तुलना कीजिये कि केवल सोम ही ब्राह्मणों के राजा है, वाजसनेयि संहिता १०. १८; शतपथ ब्राह्मण ५. ४, २, ३।

सतर्कता के साथ व्याख्या की गई है कि इससे ब्राह्मणों की प्राथमिकता अप्रभावित ही रह जाती है। किन्तु इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि पूर्ण समृद्धि के लिये क्षत्रिय और ब्राह्मण का परस्पर मैत्री-भाव और सहयोग आवश्यक है।^{१०} यद्यपि यह भी स्वीकार^{११} किया गया है कि राजा और सम्भ्रान्त व्यक्ति कभी-कभी ब्राह्मणों को त्रस्त करते थे, तथापि इस बात का संकेत किया गया है कि ऐसी दशा में उनका (त्रस्त करनेवालों का) निश्चित और शीघ्र पतन हो जाता है।

द्युलोक में रहनेवाले देवों की ही भांति, ब्राह्मणों को पृथ्वी पर रहने वाले देवता कहा गया है;^{१२} किन्तु ऋग्वेद^{१३} में ऐसी उक्ति कदाचित ही मिलती है।

ऐतरेय ब्राह्मण^{१४} में ब्राह्मणों को 'उपहार ग्रहण करनेवाला' (आदायी) और 'समर्पित पदार्थों का पान करनेवाला' (आपायी) बताया गया है। इनके लिये व्यवहृत अन्य दो उपाधियाँ 'अवसायी' और 'यथाकाम-प्रयाप्य' अपेक्षाकृत अधिक अस्पष्ट हैं। इनमें से प्रथम उपाधि या तो 'सर्वत्र निवास करनेवाला',^{१५} अथवा 'भोजन दूढ़नेवाला',^{१६} की छोटक है, जब कि द्वितीय को सामान्यतया 'स्वेच्छा से भ्रमण करनेवाला' अर्थ में ग्रहण किया गया है, किन्तु

^{१०} देखिये तैत्तिरीय संहिता ५. १, १०, ३; काठक संहिता १९. १०, २७ ४, २९. १०, मैत्रायणी संहिता २. २, ३, ७, ७, ३. १, ९, २, ३; ४ ३, ९, वाजसनेयि संहिता २०. २५, पञ्चविंश ब्राह्मण १९ १७, ४, शतपथ ब्राह्मण ४ १, ४, ६, ५ ४, ४, १५, ऐतरेय ब्राह्मण ८. १० १७. २४ २५, इत्यादि। तु० की० पुरोहित।

^{११} मैत्रायणी संहिता १ ८, ७, पञ्चविंश ब्राह्मण १८. १०, ८, अथर्ववेद ५ १७ १९, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ७, २, ६, शतपथ ब्राह्मण १३ १, ५, ४।

^{१२} अथर्ववेद ५ ३, २, ६. १३, १; ४४, २; १९ ६२, १ (१९ ३२, ८ की तुलना में), और सम्भवतः ५ ११, ११; तैत्तिरीय संहिता १ ७, ३, १;

२ ५, ९, ६, काठक संहिता ८ १३, मैत्रायणी संहिता १. ४, ६; शतपथ ब्राह्मण २ २, २, ६; ४, ३, १४, ३ १, १, ११, ४. ३, ४, ४। देखिये वेबर : उ० पु० १०, ३५, ३६, फॉन श्रोडर : इन्डियन्स लिटरेचर उन्ट कल्चर, १४६, १४७।

^{१३} न तो १. १३९, ७, में और न ९ ९९, ६ (देखिये रीथ . सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० 'देव') में ही यह आशय किसी प्रकार सम्भव है। तिसमर ने, आस्ट्रिन्डिशे लेवेन, २०६, में, १. १२८, ८, का उद्धरण दिया है, किन्तु यह भी अनिश्चित ही है।

^{१४} ७ २९, २। तु० की० वर्ण, नोट ७१।

^{१५} वेबर : इन्डिशे स्टूडियन ९ ३२६।

^{१६} मूहर : संस्कृत टेक्स्ट्स, ५, ४३९।

इससे ब्राह्मणों को आवास-स्थान प्रदान कर सकने के राजा के अधिकार का ही आशय अधिक उपयुक्त होगा ।

शतपथ ब्राह्मण^{१७} में ब्राह्मण के विशेषाधिकारों को इस प्रकार व्यक्त किया गया है : (१) अर्चा; (२) दान; (३) अज्येयता, और (४) अवध्यता । दूसरी ओर इनके कर्त्तव्यों के अन्तर्गत इन बातों को रक्खा गया है : (१) ब्राह्मण्य (आनुवंशिक पवित्रता); (२) प्रतिरूप-चर्या (अपने जातिगत कर्त्तव्यों के प्रति भास्था); और (३) लोक-पक्ति (लोगों को शिक्षा द्वारा पूर्ण बनाना) ।

१. ब्राह्मणों का आदर:—ब्राह्मणों का आदर-सत्कार करनेवाली औपचारिकताओं के सम्बन्ध में वैदिक ग्रन्थों^{१८} में प्रचुर सन्दर्भ हैं । ब्राह्मणों को 'भगवन्त्' कहा गया है^{१९}, और ऐसा विधान है कि यह जहाँ भी जाँय इनका श्रेष्ठ भोजन^{२०} और मनोरंजन से सत्कार करना चाहिये । पञ्चविंश ब्राह्मण^{२१} के अनुसार इनकी जातिगत पवित्रता ही इनके वास्तविक ब्राह्मणत्व के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शंका किये जाने से इन्हें मुक्त कर देती है ।

२. ब्राह्मणों को दान:—ऋग्वेद में 'दानस्तुतियाँ' नियमित रूप से आती हैं, और दक्षिणा प्राप्त करने का वैदिक कवियों का लोभ कहीं-कहीं तो सीमा का अतिक्रमण कर गया है । स्वयं वैदिक ग्रन्थों^{२२} ने ही इस बात को स्वीकार किया है कि दाताओं को प्रसन्न करने के लिये सृजित साहित्य (नाराशंसी) अक्सर मिथ्या होता था । फिर भी, यह एक नियम^{२३} था कि जिस वस्तु को अन्य लोगों ने अस्वीकृत कर दिया हो उसे ब्राह्मणों को स्वीकार नहीं करना चाहिये; इससे ब्राह्मणों द्वारा दान ग्रहण करने में असतर्कता की सम्भावना का तीव्र आभास मिलता है । दान ग्रहण करना इनका ऐसा एकाधिकार था, कि पञ्चविंश ब्राह्मण^{२४} को इस बात की व्याख्या

^{१७} ११. ५, ७, १ और वाद । देखिये वेवर : उ० पु० १०, ४१ और वाद ।

^{१८} उदाहरण के लिये, काठक संहिता २५ ३, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ १, १०, ६, शतपथ ब्राह्मण २ ४, १, १०, ३, ४, ६, इत्यादि ।

^{१९} शतपथ ब्राह्मण १४ ६ १, २ ।

^{२०} काठक संहिता १९. १२ ।

^{२१} ६. ५, ८; काठक संहिता २७ २ ।

^{२२} काठक संहिता १४ ५, तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ३, २, ६ ७ ।

^{२३} शतपथ ब्राह्मण ३. ५, १, २५ । तु० की बृहदारण्यक उपनिषद् ३. १५, ८; और शतपथ ब्राह्मण १३. ४, ३, १४, इत्यादि, भी ।

^{२४} १३ ७, १२ ।

करनी पड़ी कि तरन्त और पुरुमीळ्ह ऋग्वेद के एक सूक्त^{२५} का निर्माण करके किस प्रकार दान ग्रहण करने के अधिकारी हो सके। पुरोहितों को प्रदत्त दान की अतिरिक्त प्रशस्ति करने की प्रवृत्ति ने कुछ उपयोगी संख्यावाचक तालिकाओं को जन्म दिया है (दशन्)। कुछ स्थलों^{२६} पर कुछ उपहारों—अश्व अथवा भेड—को वर्जित बताया गया है, किन्तु यह स्पष्ट है कि सामान्यतया इन नियमों का पालन नहीं किया जाता था।

३. ब्राह्मणों की विमुक्तता:—ब्राह्मणों को साधारण राजशक्ति की सीमा से मुक्त माना जाता था। जब कोई राजा अपना समस्त भूभाग और उस पर स्थित समस्त सम्पत्ति पुरोहित को दान में दे देता था, तो भी, शतपथ ब्राह्मण^{२७} के अनुसार ऐसे दान के अन्तर्गत उस भूभाग में वसे ब्राह्मणों की सम्पत्ति सम्मिलित नहीं होती थी। राजा सबको दण्ड दे सकता है किन्तु ब्राह्मण को नहीं,^{२८} और वह स्वयं निरापद रहकर एक अयोग्य पुरोहित के अतिरिक्त किसी अन्य ब्राह्मण को त्रस्त भी नहीं कर सकता था।^{२९} ब्राह्मण और अब्राह्मण के बीच किसी वैधानिक विवाद में मध्यस्थ को ब्राह्मण के पक्ष में ही अपना निर्णय देना चाहिये।^{३०}

ब्राह्मणों का उपयुक्त भोजन सोम^{३१} है, सुरा^{३२} अथवा परिस्नुत्^{३३} नहीं, और इनके लिये कुछ प्रकार का मांस-भक्षण वर्जित है।^{३४} दूसरी ओर, यज्ञ के उच्छिष्ट को खाने का अधिकार एकमात्र इन्हें ही है^{३५} क्योंकि कोई भी अन्य व्यक्ति ऐसे पवित्र भोजन को ग्रहण करने के योग्य नहीं माना गया है जिसे

२५ ९. ५८, ३।

२६ तैत्तिरीय संहिता २. ३, १२, १. २;

काठक संहिता १२. ६, इत्यादि।

२७ १३. ५, ४, २९, ६, २, १८, ७, १, १३।

२८ वही, ५. ४, २, ३।

२९ वही, १३. ४, २, १७।

३० तैत्तिरीय संहिता २. ५, ११, ९।

३१ शतपथ ब्राह्मण १२. ७, २, २, ऐतरेय ब्राह्मण ७. २९। तु० की० काठक संहिता ११. ५, वाजसनेयि संहिता

९. ४०; १०. १८, इत्यादि।

३२ शतपथ ब्राह्मण १२. ८, १, ५।

३३ वही १२. ९, १, १।

३४ वही, १, २, ३, ९, ७. ५, २, ३७; ऐतरेय ब्राह्मण २. ८।

३५ शतपथ ब्राह्मण २. ३, १, ३९; ५, ३, १६, इत्यादि। ब्राह्मणों के भोजन के विषय पर, तु० की० पञ्चविंश ब्राह्मण १०. ४, ५; १७. १, ९, और ऐतरेय ब्राह्मण ४. ११, भी।

देवों ने ग्रहण कर लिया हो । इसके अतिरिक्त यद्यपि यह चिकित्सक^{३६} नहीं होते, तथापि चिकित्सक के पास रह कर उसके चिकित्सा-कार्य में सहायता दे सकते हैं ।^{३७} इनकी पत्नी^{३८} तथा गायें^{३९} दोनों ही पवित्र मानी गई हैं ।

४. ब्राह्मणों की वैधानिक स्थिति:—तैत्तिरीय संहिता^{४०} में ब्राह्मणों का अनादर करने पर एक सौ (कौन सी वस्तु यह अज्ञात है) और ब्राह्मणों पर प्रहार करने पर एक सहस्र के दण्ड का विधान है; किन्तु ब्राह्मण का रक्त-पात कर देने पर दण्ड का स्वरूप आध्यात्मिक है । शतपथ ब्राह्मण^{४१} के अनुसार वास्तविक हत्या केवल वही है जिसमें ब्राह्मण का वध किया गया हो । अजुर्वेद^{४२} में ब्राह्मण की हत्या को किसी अन्य व्यक्ति की हत्या से बड़ा, किन्तु भ्रूण हत्या से छोटा, अपराध माना गया है । किसी ऐसे भ्रूण की हत्या को, जिसका लिङ्ग अनिश्चित हो, ब्राह्मण हत्या के समान अपराध बताया गया है ।^{४३} ब्राह्मण-हत्या का प्रायश्चित्त केवल अश्वमेध द्वारा,^{४४} अथवा तैत्तिरीय आरण्यक^{४५} के अनुसार एक अन्य अपेक्षाकृत छोटे संस्कार द्वारा किया जा सकता है । वाद के संस्कारों में ब्राह्मण के सांस्कारिक-वध की स्वीकृति^{४६} और शुनः श्रेय^{४७} की कौतूहलवर्धक कथा में इसका संकेत है । अपने दाता के साथ विश्वासघात करने पर पुरोहित को भी मृत्यु दण्ड दिया जा सकता है ।^{४८}

^{३६} तु० कौ० शतपथ ब्राह्मण ४. १, ५, ८-१४, जहाँ उन अधिनों को, जो चिकित्सकों के रूप में भी प्रसिद्ध हैं (८ २, १, ३, १२ ७, १, ११) अपवित्र कहा गया है ।

^{३७} तैत्तिरीय संहिता ६. ४, ९, ३ । तुलना कीजिये ऋग्वेद १० ९७, २२, जहाँ इस व्यवसाय के साथ कोई अपयश सयुक्त नहीं है ।

^{३८} अथर्ववेद, ५. १७ ।

^{३९} वही ५ १८ ।

^{४०} २. ६, १०, २ ।

^{४१} १३ ३, ५, ३ ।

^{४२} काठक संहिता ३१ ७, कपिष्ठल संहिता,

४७ ७, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ २, ८, १० ।

^{४३} तैत्तिरीय संहिता ६ ५, १०, २; काठक संहिता २७. ९; वेवर : इन्डिशो स्टूडियन, ९, ४८१; १०, ६६ ।

^{४४} शतपथ ब्राह्मण १३. ३, १, १; ५, ४, १, और वाद ।

^{४५} १० ३८ ।

^{४६} शाङ्खायन श्रौतसूत्र १६. १०, १०, १२, १६-२०, वेवर : त्सी० गे० १८, २६८, २६९ ।

^{४७} ऐतरेय ब्राह्मण ७ १५, शाङ्खायन श्रौत सूत्र १५ २० ।

^{४८} पञ्चविंश ब्राह्मण १४ ६, ८ ।

५. कुलीनता:—शुद्ध आनुवंशिकता का महश्च, किसी ऋषि का वंशज (आर्षेय) होने पर ज़ोर दिये गये होने के तथ्य से स्पष्ट है ।^{५९} किन्तु, दूसरी ओर, एक अन्य ऐसे मिद्धान्त के चिह्न भी मिलते हैं, जिसके अनुसार दैहिक आनुवंशिकता की अपेक्षा विद्वत्ता को ही ऋषित्व का वास्तविक आधार माना गया है ।^{५०} इसी के अनुकूल यह तथ्य भी है कि सत्यकाम जावाल को अज्ञात पैतृकता के विपरीत भी शिष्य के रूप में ग्रहण कर लिया गया था (इसकी माता एक दासी और अनेक व्यक्तियों से सम्बद्ध थी) ।^{५१} शतपथ ब्राह्मण^{५२} में भी शिष्य के रूप में स्वीकार करने के संस्कार में केवल शिष्य का नाम जानना ही आवश्यक माना गया है । इसीलिये ऋग्वेद के ब्राह्मणों^{५३} में कवष पर एक दासी-पुत्र होने का व्यंग किया गया है, और वत्स ने अग्नि परीक्षा^{५४} द्वारा इसी प्रकार के आक्षेप से अपने को मुक्त किया था । इसके अतिरिक्त, आनुवंशिकता-संबन्धी सन्देह का निवारण करने के लिये एक अत्यन्त साधारण संस्कार ही पर्याप्त था ।^{५५} ऐसी दशा में उन प्रवर सूचियों को अधिक महश्चपूर्ण समझा गया होना सन्दिग्ध ही है जिनमें किसी यज्ञ के आरम्भ में होतृ और अध्वर्यु पुरोहितों द्वारा पुरोहितों के पूर्वजों का आवाहन किया गया है ।^{५६} फिर भी, संस्कार के अनेक अंशों में दो या अधिक पीढ़ियों के ज्ञान की आवश्यकता होती थी,^{५७} और एक संस्कार^{५८} में दस ऐसे पूर्वजों की आवश्यकता पड़ती थी जिन्होंने सोम-पान किया हो; किन्तु संस्कार का

^{५९} देखिये तैत्तिरीय संहिता ६ ६, १, ४, वाजसनेयि संहिता ७ ४६, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ४, ४, २, शतपथ ब्राह्मण ४ ३, ४, १९; १२. ४, ४, ६ ।

^{५०} तैत्तिरीय संहिता ६ ६, १, ४, काठक संहिता ३० १, मैत्रायणी संहिता ४. ८, १ ।

^{५१} छान्दोग्य उपनिषद् ६ ४, ४ ।

^{५२} ११ ५, ४, १; और तु० की० कात्यायन श्रौत सूत्र के भाष्य में यह उद्धरण : 'जो कोई भी स्तोम भागों (वसिष्ठों की एक विशेषता) का अध्ययन करता है वह एक वसिष्ठ है', वेवर . इन्डिशे स्टुडियन, १०, ७३ ।

^{५३} ऐतरेय ब्राह्मण २. १९, कौषीतकि ब्राह्मण १२ ३, वेवर : उ० पु० २, ३११ ।

^{५४} पञ्चविंश ब्राह्मण १४ ६, ६ ।

^{५५} तैत्तिरीय संहिता ६ २, ६, ४, काठक संहिता २५ ३, पञ्चविंश ब्राह्मण २३ ४, २ ।

^{५६} देखिये वेवर . उ० पु० ९, ३२१, १०, ७८-८१, मैक्स मूलर : ऐन्डोन्ट सस्कृत लिटरेचर ३८० और वाद ।

^{५७} तु० की० उदाहरण के लिये, तैत्तिरीय संहिता २ १, ५, ५, काठक संहिता १३ ५ ।

^{५८} शतपथ ब्राह्मण ५ ४, ५, ४, वेवर : उ० पु० १०, ८५-८८ ।

अक्षरशः पालन न करना क्षम्य था । इसके अतिरिक्त, वसिष्ठों और विश्वामित्रों की पृथक् परम्पराओं में संस्कारीय विभेद के स्पष्ट चिह्न वर्तमान हैं ।

६. ब्राह्मण का आचरण :—ब्राह्मणों में आचरण-सम्बन्धी उत्कृष्टता का स्तर उच्च होना आवश्यक माना जाता था ।^{६१} उन्हें सब के प्रति दयालुता^{६०} और सज्जनता^{६१} प्रदर्शिता करना, यज्ञ करना, और दान^{६२} ग्रहण करना चाहिये । वाणी की पवित्रता पर विशेष ज़ोर दिया गया है;^{६३} इस प्रकार विश्वन्तर द्वारा श्यापणों को अपने अनुचर-वर्ग से वंचित रखने का कारण 'श्यापणों' की अपवित्र (अपूता) वाणी ही थी ।^{६४} इनके जीवन का उद्देश्य ज्ञानोपार्जन^{६५} तथा भित्ताटन^{६६} ही होता था । अपने कर्त्तव्यों का पालन न करनेवाले ब्राह्मणों को मिथ्या कहा गया है^{६७} (तु० की० ब्रह्मवन्धु) । परन्तु सूत्रों में, कर्त्तव्योल्लङ्घन सम्बन्धी प्रायश्चित्तों का स्वरूप और उनकी प्रकृति अत्यन्त साधारण और अमहत्त्वपूर्ण है ।^{६८}

७. ब्रह्म-सम्बन्धी ज्ञानार्जन :—जैसा कि वैदिक साहित्य^{६९} में अनेक स्थलों पर कहा गया है, पुरोहित का उद्देश्य पवित्र ज्ञान (ब्रह्म-वर्चसम्) में प्रवीणता प्राप्त करना होता था । इस प्रकार की प्रवीणता केवल ब्राह्मण जाति तक ही सीमित नहीं थी : राजा लोग भी इसे प्राप्त कर सकते थे, किन्तु वास्तव में इसे क्षत्रियों के लिये विशेष रूप से उपयुक्त नहीं माना जाता था ।^{७०} अनेक सांस्कारिक कृत्यों को ब्रह्मवर्चस की प्राप्ति में सहायक बताया

^{६१} वेवर १०, ८८-९६; मैक्स मूलर .
देन्शेन्ट सस्कृत लिटरेचर, ४०७
और वाद ।

^{६०} शतपथ ब्राह्मण २ ३, २, १२ ।

^{६१} वही २. ३, ४, ६ ।

^{६२} वही १३ १, ५, ६ ।

^{६३} वही ३ २, १, २४ । तु० की० ४. १,
३, १७, निरुक्त १३ ९; काठक
सहिता १४ ५, ३७ २, वाजसनेयि
सहिता २३ ६२ ।

^{६४} ऐतरेय ब्राह्मण ७ २७, मूहर . सस्कृत
टेक्स्ट्स, १^२ ४३८ ।

^{६५} बृहदारण्यक उपनिषद् ३ ८, ८, ५
१, १ ।

^{६६} वही, ३ ४, १; ४ ४, २६ ।

^{६७} वही ६ ४, ४ ।

^{६८} तैत्तिरीय आरण्यक २ १८, इत्यादि ।

^{६९} तैत्तिरीय सहिता ४. १, ७, १; ७ ५,
१८, १; काठक सहिता, अश्वमेध, ५.
१४, वाजसनेयि सहिता २२ २२,
२७ २, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ८, १३,
१; ऐतरेय ब्राह्मण ४. ११, ६-९;
शतपथ ब्राह्मण १३ २, ६, १०, १०
३, ५, १६, ११ ४, ४, १; पञ्चविंश
ब्राह्मण ६ ३, ५ ।

^{७०} शतपथ ब्राह्मण २ १, ३, ६, १३ १,
५, ३ ५, २, ६, ९ ।

गया है,^{७१} किन्तु पवित्र ग्रन्थों के अध्ययन पर विशेष जोर दिया गया है। इस प्रकार के अध्ययन के महत्त्व का अनेकशः उल्लेख है।^{७२}

अध्ययन का पारिभाषिक नाम 'स्वाध्याय' है : शतपथ ब्राह्मण में स्वाध्याय के गुणों की विशेष रूप से चर्चा की गई है,^{७३} और यह कहा गया है कि एक विद्वान् 'श्रोत्रिय' को प्राप्त भानन्द श्रेष्ठतम सम्भव भानन्द के ही समान होता है।^{७४} नाक मौद्गल्य के विचार से अध्ययन और अध्यापन सर्वश्रेष्ठ तप (तपस्) हैं।^{७५} इस प्रकार के ज्ञानार्जन का उद्देश्य ऋच्, यजुस् और सामन् सम्बन्धी 'त्रयी विद्या' में प्रवीणता प्राप्त करना होता था,^{७६} और तीनों वेदों के विद्यार्थी को 'त्रि-शुक्रिय'^{७७} अथवा 'त्रि-शुक्र'^{७८} कहा गया है। अध्ययन के अन्य विषयों का शतपथ ब्राह्मण,^{७९} तैत्तिरीय आरण्यक,^{८०} और छान्दोग्य उपनिषद्^{८१}, इत्यादि, में उल्लेख है। (देखिये इतिहास, पुराण; गाथा, नारा-शंसी; ब्रह्मोद्य; अनुशासन, अनुव्याख्यान, अन्वाख्यान, कल्प, २. ब्राह्मण; विद्या, क्षत्रविद्या, देवजनविद्या, नक्षत्रविद्या, भूतविद्या, सर्पविद्या; अथर्वाङ्गि-रसः, दैव, निधि, पित्र्य, राशि; सूत्र इत्यादि)।

अध्ययन के ठीक ठीक स्थान तथा समय का तैत्तिरीय आरण्यक^{८२} और सूत्रों में निर्देशन मिलता है। यदि ग्राम की सीमा में अध्ययन करना हो तो उसे मन में (मनसा), किन्तु यदि बाहर हो तो बोल कर (वाचा) करना चाहिये।

ऐसे व्यक्तियों से भी विद्वत्ता की आशा की जा सकती है जो सामान्यतया गुरु नहीं होते। उदाहरण के लिये शतपथ ब्राह्मण^{८३} के चरकों तक को ज्ञान प्राप्त करने का सम्भव स्रोत माना गया है। यहीं ऐसे ब्राह्मणों का भी

^{७१} काठक संहिता ३७ ७, तैत्तिरीय ब्राह्मण २ ७, १, १, पञ्चविंश ब्राह्मण २३ ७, ३, इत्यादि, शतपथ ब्राह्मण २, ३, १, ३१, इत्यादि।

^{७२} शतपथ ब्राह्मण १ ७, २, ३, ११ ३, ३, ३-६, ५, ७, १०।

^{७३} शतपथ ब्राह्मण ११ ५, ६, ३. ९, ७, १; तैत्तिरीय आरण्यक २ १३।

^{७४} बृहदारण्यक उपनिषद् ४ ३, ३५-३९, तैत्तिरीय आरण्यक ९ ८।

^{७५} वही ७. ८ १०।

^{७६} शतपथ ब्राह्मण १ १, ४, २ ३, २

६, ४, २-७, ४. ६, ७, १. २; ५.

५, ५, ९, ६ ३. १, १० ११ २०,

१०. ५, २, १ २, ११. ५, ४, १८,

१२. ३, ३, २, इत्यादि।

^{७७} काठक संहिता ३७ ७।

^{७८} तैत्तिरीय ब्राह्मण २ ७, १, २।

^{७९} ११. ५, ७, ५-८।

^{८०} २ ९. १०।

^{८१} ७ १, २. ४, २, १, ७, १।

^{८२} २ ११. १२-१५।

^{८३} ४. २, ४, १।

उल्लेख किया जा सकता है जिन्होंने राजाओं से ज्ञान प्राप्त किया था, यद्यपि ऐसे राजाओं का सर्वथा महत्त्वपूर्ण होना सन्देह है, क्योंकि पुरोहितों द्वारा अपने प्रतिपालकों को अपनी पवित्र विद्या में अभिरुचि रखनेवालों के रूप में व्यक्त करना सर्वथा स्वाभाविक ही है : अतः इस प्रकार के उल्लेखों में चन्द्रियों द्वारा वास्तविक और स्वतंत्र अध्ययन का सन्दर्भ देखना बहुत आवश्यक नहीं।^{८४} याज्ञवल्क्य ने जनक से,^{८५} उद्दालक आरुणि और दो अन्य ब्राह्मणों ने प्रवाहरा जैवलि से,^{८६} हप्तवालाकि गार्ग्य ने अजातशत्रु से,^{८७} और 'अरुण' के नेतृत्व में पाँच ब्राह्मणों ने अश्वपति कैकेय से,^{८८} ज्ञान प्राप्त किया था। कुछ उल्लेखों में ब्रह्मविद्या के वास्तविक शिक्षकों का भी सन्दर्भ है : भ्रमणशील विद्वान् देशाटन^{८९} करते हुये ऐसे शास्त्राओं और वाद-विवादों में भाग लेते रहते थे जिनमें दोनों पक्ष पहले से ही हार-जीत के लिये पुरस्कार की घोषणा कर देते थे।^{९०} इनके अतिरिक्त जनक-प्रभृत राजा सर्वश्रेष्ठ विद्वान् ब्राह्मणों को पुरस्कार देते थे,^{९१} जनक से ईर्ष्या रखने के कारण अजातशत्रु ने जनक की ही भाँति उदारता प्रदर्शित करने का प्रयास किया था। पुनश्च, ब्राह्मणों^{९२} में अनेक विद्वान् महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है।

शास्त्रार्थ के एक विशेष रूप को ब्रह्मोद्य कहते थे। इसके लिये अश्वमेध^{९३} और दशरात्र^{९४} आदि यज्ञों के समय नियमित रूप से प्रयोजन होता था। विद्वत्ता का पुरस्कार 'कवि' अथवा 'विप्र' की उपाधि प्राप्त करना होता था।^{९५}

^{८४} तु० की० (१) चन्द्रिय, और (२) वर्ण।

^{८५} शतपथ ब्राह्मण ११ ६, ७, ५।

^{८६} बृहदारण्यक उपनिषद् ६ १, ११; छान्दोग्य उपनिषद् ५ ३, १, और १ ८, १। तु० की० मूश्नर-संस्कृत टेक्स्ट्स, ५, ४३६, ५१४-५१६।

^{८७} बृहदारण्यक उपनिषद् २ १, १, कौपीतिक उपनिषद् ४ १।

^{८८} शतपथ ब्राह्मण १० ६, १, २।

^{८९} बृहदारण्यक उपनिषद् ३ ३, १। तु० की० ३ ७, १।

^{९०} शतपथ ब्राह्मण ११ ४, १, १।

^{९१} वही ११ ६, ३, १, बृहदारण्यक उपनिषद्

६ १, १-९, २०. २९।

^{९२} ऐनरेय ब्राह्मण ५ २९, कौपीतिक ब्राह्मण २ ९, बृहदारण्यक उपनिषद् ३ ३, १, ७, १। तु० की० आश्वलायन गृह्य सूत्र, ३ ४, ४, शाङ्खायन गृह्य सूत्र ४ १०।

^{९३} शतपथ ब्राह्मण १३ ५, २, ११।

^{९४} वही, ४ ६, ९, २०।

^{९५} तैत्तिरीय संहिता २ ५, ९, १, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ५, ३, १, शतपथ ब्राह्मण १ ४, २, ७, ३ ५, ३, १२। तु० की० बृहदारण्यक उपनिषद् ६ ४, २९, भी।

८. ब्राह्मणों के कर्त्तव्यः—ब्राह्मणों से केवल व्यक्तिगत ज्ञानार्जन की ही नहीं, वरन् एक गुरु अथवा पुरोहित के रूप में दूसरों को भी अपनी योग्यता में लामान्वित करने की आशा की जाती थी ।

इसमें सन्देह नहीं कि एक गुरु के रूप में ब्राह्मण को अपने पुत्र को शिक्षा तथा यज्ञीय स्मृकार, दोनों का ज्ञान प्रदान करना होता था ।^{१६} वैदिक ग्रन्थों में आरुणि और श्वेतकेतु,^{१७} अथवा पौराणिक 'वरुण' और 'भृगु'^{१८} के रूप में इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं । सामवेद के वंश ब्राह्मण^{१९} और शाङ्खायन आरण्यक^{१००} के वंश (गुरुओं की तालिका) में मिलनेवाले कुछ नामों से भी यही तथ्य व्यक्त होता है । दूसरी ओर, उक्त तथा शतपथ ब्राह्मण के वंशों द्वारा यह भी स्पष्ट होता है कि पिता अक्सर किसी प्रसिद्ध आचार्य से ही अपने पुत्र को शिक्षित कराना अधिक अच्छा समझता था । गुरु और शिष्य के सम्बन्ध का ब्रह्मचर्य के अन्तर्गत उल्लेख किया गया है । एक गुरु अनेक शिष्यों को ग्रहण कर सकता था,^{१०१} और उन सभी को उसे अपने समस्त मनोयोग से शिक्षा देनी होती थी ।^{१०२} गुरु के लिये अपने शिष्यों को समस्त ज्ञान प्रदान करना आवश्यक होता था, और कम से कम उन शिष्यों को तो अवश्य ही, जो एक वर्ष तक उसके साथ रह लेते थे (संवत्सर-वासिन्)^{१०३} । इस व्याहृति (संवत्सर-वासिन्) से ऐसा व्यक्त होता है, और जो स्वाभाविक भी था, कि एक शिष्य सरलतापूर्वक अपना गुरु बदल सकता था । किन्तु इसके विपरीत, कुछ ऐसे गुप्त ज्ञान का भी उल्लेख मिलता है जिसे केवल विशेष व्यक्तियों को ही प्रदान किया जाता था ।^{१०४} प्राचीन ग्रन्थों

^{१६} शतपथ ब्राह्मण १. ६, २, ४ ।

^{१७} बृहदारण्यक उपनिषद् ६. १, १
(माध्यन्दिन = ६. २, १ काण्व) ।

^{१८} शतपथ ब्राह्मण ११. ६, १, १ ।

^{१९} इन्डिशे स्टूडियन्, ४, ३७६ ।

^{१००} १५. १ ।

^{१०१} तैत्तिरीय आरण्यक ७. ३ ।

^{१०२} देखिये तैत्तिरीय आरण्यक ७. ४

(इन्डिशे स्टूडियन्, २, २११) ।

^{१०३} शतपथ ब्राह्मण १४. १, १, २६
२७ । तु० की० ऐतरेय आरण्यक

५. ३, ३ ।

^{१०४} इसी प्रकार वसिष्ठ तथा स्तोमभाग,
पञ्चविंश ब्राह्मण १५. ५, २४; तैत्तिरीय

ब्राह्मण ३. ५, २. १; काठक संहिता
३७. १७, 'प्रवाहण जैवलि' और
उनका ब्रह्म-ज्ञान, बृहदारण्यक उप-
निषद् ६. १, ११; छान्दोग्य उपनिषद्
५. ३, जहाँ यह व्यक्त किया गया
है कि 'प्रशासन' क्षत्रियों का कार्य
है । अपने भाष्य में शङ्कर ने इस
शब्द को 'शिक्षा देना' के अर्थ में
ग्रहण किया है, किन्तु इसे असम्मान्य
ही मानना चाहिये; 'नियम' अधिक
सम्भव आशय हो सकता है । तु०
की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन् १०,
१२८; वौटलिङ्क : बृहदारण्यक उप-
निषद् ३. ८, ९, का अनुवाद ।

में तो नहीं, किन्तु सूत्रों^{१०५} में शिक्षण के समय तथा पद्धति का विस्तार से निर्धारण किया गया है ।

पुरोहित के रूप में ब्राह्मण लोग सभी बड़े यज्ञों में कार्य करते थे, क्योंकि सरल गृह्य संस्कार साधारणतया इनकी सहायता के बिना भी सम्पन्न किये जा सकते थे । फिर भी, अधिक महत्त्वपूर्ण संस्कार (श्रौत) इनकी सहायता के बिना सम्भव नहीं होते थे । पुरोहितों की संख्या पृथक्-पृथक् अवसरों पर भिन्न-भिन्न हो सकती थी । सांस्कारिक माहित्य के अनुसार बृहत्तम यज्ञों के समय सोलह पुरोहितों (देखिये ऋत्विज्) की आवश्यकता होती थी । किन्तु अन्य संस्कार चार^{१०६}, पाँच^{१०७}, छह^{१०८}, सात^{१०९}, अथवा दस^{११०} पुरोहितों द्वारा भी सम्पन्न कराये जा सकते थे । पुनश्च, कौपीतकि^{१११} लोग, साधारणतया निर्धारित सोलह के अतिरिक्त 'सदस्य' नामक एक सत्रहवाँ पुरोहित भी रखते थे, जिसे इसलिये इस नाम से पुकारा गया है कि यह अपने 'सदस्' (भासन) से ही समारोह का अवलोकन करता था । 'सर्प-सत्र' नामक एक अन्य संस्कार के लिये, पञ्चविंश ब्राह्मण^{११२}

^{१०५} ऋग्वेद प्रातिशाख्य, १५ १ और वाट, ऐतरेय आरण्यक ५ ३, ३, और देखिये वेवर . ३० पु० १०, १०९-१३५ ।

^{१०६} तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ३, ६, १-४, पञ्चविंश ब्राह्मण २५ ४, २ । चार के नाम इस प्रकार हैं : 'होतृ', 'अध्वर्यु', 'अग्नीध्र', और 'उपवक्तृ' : वेवर, १०, १३९, नोट ४ ।

^{१०७} काठक संहिता ९. १३, पञ्चविंश ब्राह्मण २५ ४, २, जहाँ पिछले नोट में उद्धिखित चार के अतिरिक्त एक दूसरे 'अध्वर्यु' को भी सम्मिलित किया गया है ।

^{१०८} काठक संहिता ९ १३, तैत्तिरीय ब्राह्मण २ २, २, ३; तैत्तिरीय आरण्यक ३. ४, ६, शतपथ ब्राह्मण ११. ७, २, ६, जहाँ सूची में 'अध्वर्यु'-'होतृ', 'अग्निध्र', के साथ साथ 'प्रति-

प्रस्थातृ', 'मैत्रावरुण', 'आग्नीध्र' भी है ।

^{१०९} काठक संहिता ९. १३, तैत्तिरीय ब्राह्मण २ २, २, ५; तैत्तिरीय आरण्यक ३ ५, पञ्चविंश ब्राह्मण २५ ४, २ । इनकी संख्या के अन्तर्गत उपरोक्त नोट १०७ के पाँच के अतिरिक्त 'अभिगरौ'—अर्थात् सम्भवतः 'अभिगर' और 'अपगर'—भी सम्मिलित हैं ।

^{११०} काठक संहिता ९ ८, १३-१६, तैत्तिरीय ब्राह्मण २. २, ४, १, ३, ६, ४, तैत्तिरीय आरण्यक ३. १, ऐतरेय ब्राह्मण ५ २५; पञ्चविंश ब्राह्मण २५. ४, २ । किन्तु दस से तात्पर्य है, यह अनिश्चित है, नोट १०६ के चार की भी गणना कराई गई है ।

^{१११} तु० की० शतपथ ब्राह्मण १० ४, २, १९, कीथ : ऐतरेय आरण्यक ३७ ।

^{११२} २५. १४, ३ ।

में साधारणतया नियुक्त सोलह के अतिरिक्त और तीन, अर्थात् एक द्वितीय 'उन्नेत्', एक 'अभिगर', और एक 'अपगर' नामक पुरोहित को भी सम्मिलित किया गया है। वाद के सस्कारों में ब्रह्मन् को अन्य सभी पुरोहितों के ऊपर रखा गया है, किन्तु सम्भवतः प्राचीन दृष्टिकोण ऐसा नहीं था (देखिये ब्रह्मन्)।

सुचारु रूप से सम्पन्न यज्ञ द्वारा प्रमुखतः 'यजमान'^{११३} का ही भला होता था, किन्तु पुरोहित भी दक्षिणा प्राप्त करने के अतिरिक्त उसके लाभ में भागी होता था। पुरोहितों और यजमानों के बीच विवाद हो जाना दुर्लभ नहीं था, जैसा कि विश्वन्तर और श्यापगों,^{११४} अथवा जनमेजय और असितमृगों,^{११५} के उदाहरण से व्यक्त होता है; और ऐषावीरों को भी अवाञ्छित पुरोहित ही कहा गया है।^{११६} इसके अतिरिक्त, सुदास् के पुरोहित एक समय विश्वामित्र थे किन्तु वाद में वसिष्ठ ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया था।

साधारण कर्म-काण्डियों की अपेक्षा पुरोहित का पद अनेक अंशों में भिन्न होता था, क्योंकि 'पुरोहित' न केवल यज्ञ ही सम्पन्न कराते थे वरन् राजा के समस्त व्यक्तिगत यज्ञों का भी इन्हीं के द्वारा संचालन होता था। इसीलिये यह लोग लौकिक महत्त्व के विषयों पर अपने प्रतिपालकों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभाव अर्जित कर सकते अथवा कभी-कभी तो निश्चित रूप से कर लेते थे। गृह्य तथा धार्मिक की अपेक्षा राजनैतिक विषयों पर पुरोहितीय शक्ति का प्रभाव निश्चित रूप से पुरोहितों के व्यक्तित्व पर ही आधारित होता था।

वैदिक साहित्य में, वाद में प्रचलित उस नियम की कोई मान्यता नहीं है जिसके अनुसार जीवन का कुछ अंश 'ब्रह्मचारिन्' और कुछ गृहस्थ के रूप में व्यतीत करने के पश्चात् ब्राह्मण लोग संन्यासी^{११७} (जिसे वाद में

^{११३} शतपथ ब्राह्मण १ ६, १, २०; ९, १, १२; २ २, २, ७; ३ ४, २, १५, ४ २, ५, ९ १०; ८ ५, ३, ८; ९ ५, २, १६, १२ ८, १, १७, इत्यादि।

^{११४} ऐतरेय ब्राह्मण ७ २७ और वाद, मूडर 'संस्कृत टेक्स्ट्स ५, ४३६ और वाद।

^{११५} ऐतरेय ब्राह्मण ७ २७।

^{११६} तु० की० शतपथ ब्राह्मण ११ २, ७,

३२, जहाँ वेवर : इण्डिशे स्टूडियन १०, १५३, नोट १, 'ऐषावीर' की एक व्यक्तिवाचक नाम के रूप में नहीं वरन् 'तिरस्कार्य' के अर्थ में व्याख्या करते हैं, किन्तु सायण इसे व्यक्तिवाचक नाम ही मानते हैं और एग्लिङ्ग . से० बु० ई० ४४, ४५, नोट, २, ने भी इसी विचार को ग्रहण किया है।

^{११७} देखिये, व्थूनस : फिलॉसफी ऑफ दि उपनिषद्स, ३७२ और वाद।

‘वानप्रस्थ’ और संन्यासिन् के रूप में दो स्तरों में विभक्त कर दिया गया था) वन जाते थे। याज्ञवल्क्य के उदाहरण^{११८} से ऐसा प्रकट होता है कि परम तत्त्व का अध्ययन ऋषि के जीवन को सभी विषयों से रहित करके अपने परिवार तथा पत्नी का भी परित्याग करने के लिये प्रेरित कर देता है। बौद्ध-काल में यही सिद्धान्त ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिये भी व्यवहृत हुआ प्रतीत^{११९} होता है। इस दिशा में बौद्ध-ग्रन्थों की यूनानी विद्वानों ने कुछ अंशों तक पुष्टि की है।^{१२०} महाकाव्य परम्परा^{१२१} में सक्रिय जीवन समाप्त होने पर राजाओं द्वारा वन में जाकर संन्यास ले लेने के प्रचलन की भी इस प्रथा के साथ समानता है।

यूनानी आधिकारिक स्रोतों^{१२२} से ऐसा भी प्रकट होता है—जैसा कि बौद्ध साहित्य^{१२३} की दशा में निश्चित है—कि ब्राह्मण लोग अत्यन्त विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते थे। वैदिक काल के लिये भी यह कितना सत्य था, इसे बताना कठिन है। डुइड्स^{१२४} के साथ समानता—जो कुछ दशाओं में अत्यन्त घनिष्ठ है—ऐसा व्यक्त करती है कि ब्राह्मण लोग प्रमुखतः अपने उन व्यवसायों तक ही सीमित रहते थे जिनके अन्तर्गत ज्योतिष,^{१२५} इत्यादि जैसे बौद्धिक कार्य ही आते हैं। किसी भी वैदिक प्रमाण द्वारा इमका खण्डन नहीं होता। उदाहरण के लिये ऋग्वेद के एक सूक्त^{१२६} का कवि कहता है कि वह स्वयं एक कवि है और उसका पिता एक भिषज् तथा माता उपल-प्रक्षिणी। इससे यह प्रकट होता है कि एक ब्राह्मण स्वयं चिकित्सक भी हो

^{११८} बृहदारण्यक उपनिषद् २. ४, १, ४
५, १। देखिये ३ ५, १, इनके उन
उपदेशों के लिये, इनका व्यवहार
जिनका एक तर्कसंगत परिणाम है।

^{११९} फिक : डी० ग्ली० ४० और वाद;
औल्टेनबर्ग : बुद्ध^५, ७२ और वाद।

^{१२०} अरियन : इन्डिका, १२. ८ ९;
स्ट्राबो, १५. १, ४९ ६०।

^{१२१} हॉफकिन्स : ज० अ० ओ० सो० १३,
१७९ और वाद।

^{१२२} देखिये फिक : उ० स्था०।

^{१२३} रिज डेविड्स . बुद्धिस्ट इन्डिया ५७।

^{१२४} सीजर . वेलम गैलिकम, ६ १४।

‘डुइड्स’ न तो युद्ध करते थे और न
कर देते थे, अनेक वर्षों तक अध्ययन
करते थे, ज्ञान और सत्कार सम्बन्धी
बातों को गुप्त रखते थे; लेखन का
प्रयोग नहीं करते थे, और पुनर्जन्म
में निश्चित रूप से विश्वास करते थे।
तु० की० वेबर . इन्डिशे स्टूडियन,
५, १९।

^{१२५} अतः ‘ब्रह्मन्’ अट्टाइसवाँ नक्षत्र है :
तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ५, ३, ३, वेबर :
नक्षत्र २, ३०६, ३११, इन्डिशे
स्टूडियन १०, ४०।

^{१२६} ९ ११२।

सकता था जब कि उसकी पत्नी साधारण गृह्य-कार्य करती थी। इसी प्रकार एक पुरोहित युद्धस्थल में जाकर अपनी स्तुतियों द्वारा राजा की सहायता भी कर सकता था, जैसा कि विश्वामित्र^{१२०} तथा बाद में वसिष्ठ^{१२८} ने किया था; किन्तु इससे यह व्यक्त नहीं होता कि पुरोहितगण सामान्यतया युद्ध भी करते थे। ऐसा भी प्रतीत नहीं होता कि यह लोग साधारणतया कृषक अथवा व्यापारी होते थे। दूसरी ओर, यह लोग पशु पालते थे : एक ब्रह्मचारी का यह कर्तव्य होता था कि वह अपने गुरु के पशुओं की देख-रेख करे।^{१२९} अतः यह मानना निरर्थक ही है कि यह लोग कृषि अथवा व्यवसाय में कभी भी प्रवृत्त नहीं होते थे। बाद में तो निश्चित रूप से यह ऐसे कार्य करते थे। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि उस बौद्ध-काल की अपेक्षा जिसमें वैदिक यज्ञ-विज्ञान और कर्मकाण्ड सर्वथा अप्रचलित हो चला था, बहुत सम्भवतः वास्तविक वैदिक काल में ब्राह्मणों के लिये जीवन-यापन की समस्या उतना अधिक महत्त्व नहीं रखती थी जितनी कुलीनता की।

यह स्पष्ट है कि अपने दोषों के विपरीत भी, ब्राह्मण लोग वैदिक-जीवन के बौद्धिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते थे, और यदि उस जीवन में क्षत्रियों का कोई महत्त्व था भी तो वह केवल एक गौण तथा अल्प सीमा तक ही। ऐसी मान्यता स्वाभाविक है कि ब्राह्मण लोग ऐसे गीतों या गाथाओं की भी रचना करते थे जिन्हें महाकाव्य की रचना-पद्धति का पूर्वगामी कहा जा सकता है; क्योंकि यद्यपि ऐसी कोई रचना केवल कुछ पंक्तियों से अधिक उपलब्ध नहीं, तथापि प्रतिपालकों की उदारता की प्रशस्तियाँ पुरोहितीय-रचनाओं में निहित और सुरक्षित हैं। शतपथ ब्राह्मण^{१३०} की एक गाथा

१२७ ऋग्वेद ३ ३३, ५३।

१२८ ऋग्वेद ७ १८।

१२९ छान्दोग्य उपनिषद् ४ ४, ५, ऐतरेय आरण्यक ३ १, ६।

१३० १. ४, १, १४-१७। तु० की० वेवर • इन्डिशे स्टूडियन, ९, २५७, २७७, २७८, और ऐतरेय ब्राह्मण ३ ४४।

संग्रहीत है। तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, २२०-२२६; फिक : डी० ग्लो० (बौद्धकाल के लिये, फिर भी प्रमाण अनिश्चित, और उसका अधिकांश बहुत बाद के काल का ही है); हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० १३, ८२, १८२, इत्यादि (महाकाव्य में ब्राह्मणों से सम्बद्ध विवरण के लिये), दि म्यूचुअल रिलेशन्स ऑफ दि फोर कास्ट्स एका-डिङ्ग टु मानव धर्मशास्त्रम् (धर्म

ब्राह्मणों के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा जा सकता है वह वेवर के इन्डिशे स्टूडियन, १०, ४०-१५८ में

सम्बन्धी दृष्टिकोण के लिये)। मूहर :
सस्कृत टेक्स्टस, १^२, २४८ और वाद,
ऋग्वेद में पौरोहित्य के विवरण का
अध्ययन करते हैं, और तिमर ने

आल्डिन्डिशे लेवेन, १९७-२१२, में
सभी तथ्यों का एक उत्तम सारांश
दिया है।

स्पष्ट रूप से ऐसा व्यक्त करती है कि ब्राह्मण लोग केवल स्वयं को ही सभ्यता का प्रसारक मानते थे . इसमें सन्देह नहीं कि कोसल और विदेह में भी आर्य लोग ही बसे थे, किन्तु इन स्थानों को रहने योग्य तथा सभ्य बनाने का श्रेय पवित्र ब्राह्मणों को ही है। यद्यपि, हमें इस पर सन्देह नहीं व्यक्त करना चाहिये कि अ-ब्राह्मण जातियाँ (देखिये ब्रात्य) भी वैदिक और भौतिक सभ्यता प्राप्त कर सकी थीं, तथापि यह मान लेना तर्क-सगत होगा कि इनकी सभ्यता का स्तर ब्राह्मणों की अपेक्षा निम्न था, क्योंकि हिन्दुत्व का इतिहास ब्राह्मणों द्वारा अपनी सीमा से बाहर की आर्य अथवा अनार्य जातियों पर—शस्त्र से नहीं वरन् बुद्धि से—विजय का इतिहास है।

२. ब्राह्मण (धार्मिक व्याख्या),^१ ग्रन्थों के एक ऐसे वर्ग का नाम है जिनका इस प्रकार केवल निरुक्त^२ और तैत्तिरीय आरण्यक^३ में, और उसके बाद सूत्रों में भी उल्लेख है जहाँ ब्राह्मणों का नाम आता है। इससे यह व्यक्त होता है कि ऐसी साहित्यिक कृतियों का अस्तित्व था।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण १. २५, १५, ३ ४५,
८; ६. २५, १, इत्यादि; तैत्तिरीय
सहिता ३. १, ९, ५; ५, २, १;
शतपथ ब्राह्मण ३. २, ४, १, इत्यादि।
कौपीतिक ब्राह्मण और शाङ्खायन

आरण्यक १. और २, में इसका
नियमित प्रयोग है।

^२ २. १६, १३. ७।

^३ २. १०।

३. ब्राह्मण को रौथ ने, सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश^१ में, ऋग्वेद^२ के दो और अथर्ववेद^३ के एक स्थल पर 'ब्राह्मण का सोम कलश' अर्थ में ग्रहण किया है।

^१ तु० की० मूहर : सस्कृत टेक्स्टस १^१,
२५३, नोट २६।

^२ १ १५, ५; २ ३६, ५

^३ २० २, ३।

ब्राह्मणाच्छंसिन् (ब्राह्मण के बाद उच्चारण करनेवाला—अर्थात् 'ब्रह्मन्'), ब्राह्मण-ग्रन्थों^१ में एक प्रकार के पुरोहित का नाम है। यज्ञ-पुरोहितों (ऋत्विज्)

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ६. ४, २; ६, ३ ४,
१०, १, १८, ५, ७ १, २; कौपीतिक
ब्राह्मण २८. ३; तैत्तिरीय ब्राह्मण १

७, ६, १, शतपथ ब्राह्मण ४ २, ३,
१३, इत्यादि।

के पारिभाषिक विभाजन में इसे 'ब्रह्मन्' के साथ रक्खा गया है,^२ किन्तु स्पष्ट है कि यह वास्तव में 'होत्रक' अथवा 'होत्र' का सहायक होता था।^३ औल्डेनवर्ग^४ के अनुसार ऋग्वेद में यह ब्रह्मन् के रूप में ज्ञात था। गेल्डनर^५ ने इसे अस्वीकार किया और 'ब्रह्मन्' में केवल 'अधीक्षक पुरोहित' अथवा 'पुरोहित' का ही आशय देखा है।

^२ वेवर : इन्डिश स्टूडियन्, १०, १४४।

^३ उदाहरण के लिये, आश्वलायन श्रौत सूत्र, ५ १०, १०; वेवर : उ० पु० ९, ३७४-३७६।

^४ रिलीजन देस वेद, ३९६।

^५ वेदिशे स्टूडियन्, २, १४५ और बाद। तु० की० पुरोहित।

ब्लेष्क, काठक संहिता^१ में कण्ठपाश के लिये प्रयुक्त रस्सी या फन्दे का द्योतक है। मैत्रायणी संहिता^२ में इसका अक्षर-विन्यास 'ब्लेष्क' है।

^१ २३. ६, ३७. १३. १४।

^२ ३ ६, १०। आपस्तम्ब श्रौत सूत्र १० १९, १ में 'भेष्क' पाठ है।

भ

भग, ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर, हिलेब्रान्ट^२ के अनुसार रथ के एक भाग का द्योतक है।

^१ २. ३४, ८।

| ^२ वेदिशे माशुथोलोजी, ३, ९५।

भगिनी (वहन), जिसका शब्दार्थ इस दृष्टि से 'भाग्यशालिनी' है कि इसका एक भ्राता होता है। यह निरुक्त (३. ६) में आता है।

भगी-रथ ऐदवाक (इदवाकु का वंशज), जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (४. ६, ५. २) में एक राजा का नाम है। यह उल्लेखनीय है कि इसे कुरु-पञ्चालों के साथ मैत्री-सम्बन्ध रखनेवाला बताया गया है, जो ऐसा सकेत करता है कि 'इदवाकु-गण' पूर्वी भारत में रहनेवाले (जैसा कि बौद्ध ग्रन्थों में है) नहीं वरन् उक्त लोगों (कुरु-पञ्चालों) के साथ सम्बद्ध थे।

भङ्ग का अथर्ववेद^१ में उल्लेख है। ऋग्वेद^२ में यह, सम्भवतः^३ 'मादक' के

^१ ११ ६, १५, कदाचित् शाङ्खायन आरण्यक १२. १४, में भी, किन्तु बहुत सम्भाव्य नहीं है।

^२ ९. ६१, १३।

^३ श्रेडर : प्रिहिस्टोरिक ऐन्टिकिटीज, २९९।

भयमान, सायण के अनुसार, ऋग्वेद^१ के एक ऐसे सूक्त में किसी व्यक्ति का नाम है जिसकी रचना का अनुक्रमणी द्वारा इसे ही श्रेय दिया गया है। फिर भी, यह व्याख्या अनिश्चित है।

^१ १ १००, १७। तु० की० मूहर : सस्कृत टेक्स्ट्स १^२, २६६।

भरत, ऋग्वेद और वाद के साहित्य में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण जाति के लोगों का नाम है। ऋग्वेद में यह तीसरे और सातवें मण्डलों में सुदास् और तृत्सुओं^३ के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से आते हैं, जब कि छठवें मण्डल में इन्हें दिवोदास^२ के साथ सम्बद्ध किया गया है। एक स्थल^३ पर भरत-गण भी, तृत्सुओं की ही भाँति, पूरुओं के शत्रु हैं : तृत्सुओं और भरतों को समीकृत करने के लुडविग^४ के दृष्टिकोण की प्रत्यक्ष शुद्धतापर कदाचित्त ही सन्देह किया जा सकता है। अपेक्षाकृत अधिक समीचीनता के साथ औल्डेनवर्ग^५ यह विचार व्यक्त करते हैं कि तृत्सुगण वास्तव में भरतों के पारिवारिक गायक वसिष्ठ ही हैं; जब कि गेल्डनर^६ कदाचित्त अधिक सम्भावना के साथ तृत्सुओं में भरतों के राज-परिवार का आशय देखते हैं। त्सिमर^७ का यह विचार कि तृत्सु और भरत परस्पर शत्रु थे, भौगोलिक आधार तक पर भी अत्यन्त असम्भव है, क्योंकि त्सिमर^८ के ही मतानुसार तृत्सुगण परुष्णी (रवि) के पूर्व के क्षेत्र में बसे थे, और इसलिये यह मानना पड़ेगा कि तृत्सुओं के विरुद्ध भरतगण पश्चिम दिशा से आये थे;

^२ ५३, ९. १२ २४, ३३, ११ १२
(विश्वामित्र, जिसे ऐतरेय ब्राह्मण ७
१७, ७, में तदनुसार 'भरत-ऋषभ'
अर्थात् 'भरतों का ऋषभ', कहा गया
है), ७ ८, ४, ३३, ६, जिस स्थल
पर भरतों की एक पराजय और
वसिष्ठ की सहायता से उनकी रक्षा
का स्पष्ट सन्दर्भ है, यहाँ, जैसा पहले
सोचा गया है (उदाहरण के लिये
मूहर . सस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, ३५४,
त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, १२७)
तृत्सुओं द्वारा भरतों की पराजय का
आशय नहीं है।

^२ ६ १६, ४ ५। तु० की० मन्त्र १९।

^३ ७. ८, ४।

^४ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १७२, और
वाद।

^५ त्सी० गे० ४२, २०७। बुद्ध, ४०५ और
वाद, में आपने लुडविग के समीकरण
को स्वीकार कर लिया है।

^६ वेदिशे स्टूडियन, २, १३६ और वाद।

^७ आल्टिन्डिशे लेवेन, १२७। ग्लूमफील्ड
का भी यही विचार है (देखिये ज०
अ० ओ० सो० १६, ४१, ४२)।

^८ उ० पु० १२४।

जब कि ऋग्वेद^१ में दो भरत राजाओं को, सरस्वती, आपया और हृपद्वती— अर्थात् भारत के पवित्र क्षेत्र मध्यप्रदेश में, रहनेवाला बताया गया है। हिले-ब्रान्ट^{१०} वृत्सुओं और भरतों के सम्बन्ध में दो जातियों के मिश्रण का आभाम देखते हैं; किन्तु यह आपकी इस मान्यता के अतिरिक्त और क्रिमी भी प्रमाण से पुष्ट नहीं होता कि भरद्वाज परिवार के सम्बन्ध में द्विवेदाय के उल्लेख तथा उसी के पुत्र अथवा कदाचित पौत्र सुदाय (तु० की० पंजवन) के वसिष्ठों और विश्वामित्रों के साथ सम्बद्ध होने के तथ्य की व्याख्या करने के लिये इस प्रकार के सिद्धान्त की ही आवश्यकता है।

वाद के साहित्य में भरत-गण विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। जनपय ब्राह्मण^{११} में एक राजा तथा अश्वमेध यज्ञ करनेवाले के रूप में 'भरत दौःपन्ति' का, और शतानीक सात्राजित नामक एक अन्य भरत का भी यही यज्ञ करने वाले के रूप में उल्लेख है। ऐतरेय ब्राह्मण^{१२} में दीर्घतमस् मामतेय द्वारा अपना राज्याभिषेक करानेवाले के रूप में 'भरत दौःपन्ति' का, और 'शतानीक' का उस सोमशुष्मन् वाजरत्नायन नामक पुरोहित द्वारा अभिषिक्त हुये होने के रूप में उल्लेख है जिसके नाम का स्वरूप बहुत बाद का प्रतीत होता है। भरत लोगों की भौगोलिक स्थिति इस तथ्य द्वारा स्पष्ट हो जाती है कि भरत राजा काशियों को विजित और यमुना तथा गङ्गा के तट पर यज्ञ करते हैं।^{१३} इसके

^१ ३ २३, ४. दूसरे मन्त्र में देवश्रवस् और देववात का भरतों के रूप में उल्लेख है। भीरडेनवर्ग : बुद्ध, ४१०, नोट, यह उल्लेख करते हैं कि महा-भारत, ३ ६०६५ में सरस्वती की एक सहायक नदी को 'कौशिकी' कहा गया है, और 'कुशिक-गण' निःसन्देह उस विश्वामित्र परिवार के ही सदस्य थे जिनका भरतों के साथ सम्बद्ध होना निर्विवाद है।

^{१०} वेदिशे माइथोलोजी, १, १११। आप का यह विचार है कि सुदाय और भरत-गण उन वृत्सुओं के बाद आये जिन्होंने

इन्हें एक जाति के रूप में परिणत कर दिया तथा वसिष्ठ-गण भरतों के पुरोहित बन गये। आपके मतानुसार वसिष्ठ-गण मूलतः इन्द्र-सोम के नहीं वरन् विशेषतः वरुण के भक्त थे; किन्तु इन दोनों में किसी मत के पक्ष में कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है। तु० की० व्हल्लमफील्ड को, उक्त नोट ७ में उद्धृत रूप में।

^{११} १३ ५, ४।

^{१२} ८ २३, और २६।

^{१३} शतपथ ब्राह्मण १३. ५, ४, ११. २१।

अतिरिक्त, सर्वसाधारण के लिये राजा के घोषणा-पत्र में उल्लिखित^{१४} विभेदों के अन्तर्गत 'कुरवः', 'पञ्चालाः', 'कुरु-पञ्चालाः', और भरताः आते हैं; और महा-भारत में नियमित रूप से कुरुओं के राज-परिवार को भरत-वंशीय ही माना गया है।^{१५} अतः औल्डेनवर्ग^{१६} का यह मानना अत्यन्त उपयुक्त प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों के काल तक भरत-गण कुरु-पञ्चाल जाति में विलीन हो चुके थे।

भरतों के सांस्कारिक प्रचलनों का पञ्चविंश ब्राह्मण^{१७}, ऐतरेय ब्राह्मण^{१८}, शतपथ ब्राह्मण^{१९}, और तैत्तिरीय आरण्यक^{२०} में बहुधा उल्लेख है। ऋग्वेद^{२१}

^{१४} तैत्तिरीय संहिता १. ८, १०, २, और तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ७, ४, २ में 'एष वो, भरता, राजा' वाक्यपद है। काण्व शाखा की वाजसनेयि संहिता, ११. ३, ३; ६, ३, में 'कुरवः, पञ्चालाः (प्रत्यक्षतः एक सम्मिलित जाति के रूप में) है। आपस्तम्ब १८ १२, ७, में जिस जाति के राजा हैं उसके अनुसार विकल्पों के रूप में 'भरताः', 'कुरवः', 'पञ्चालाः', 'कुरु-पञ्चालाः', और 'जनताः' दिया गया है। काठक संहिता १५ ७, और मैत्रायणी संहिता २. ६, ७ में 'एस ते जनते राजा' पाठ है। देखिये वेवर : इन्डियन लिटरेचर, ११४, नोट, फॉन ओडर : इन्डियन्स लिटरेचर उन्ट कल्चर, ४६५।

^{१५} औल्डेनवर्ग : बुद्ध, ४०९।

^{१६} उ० पु० ४०८। आप यह सकेत करते हैं (४०५, नोट) कि शतपथ ब्राह्मण १३ ५, ४, में उन जातियों का उल्लेख किये बिना कि यह किस पर राज्य करते थे, केवल कुरु राजा जनमेजय और भरत राजाओं का उल्लेख है।

^{१७} १४ ३, १३, १५ ५, २४ और सम्भवतः १८. १०, ८, जिस पर

देखिये, वेवर : इन्डिश स्टूडियन, १०, २८, नोट २, नीचे, पृष्ठ—

^{१८} २ २५; ३ १८। यहाँ सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० २ द्वारा माने गये 'धनलुब्ध सैनिक' के आशय को (जिसका अब बौटलिङ्ग के कोश में उल्लेख नहीं है) स्वीकार नहीं किया जा सकता। देखिये वेवर : इन्डिश स्टूडियन, ९, २५४; औल्डेनवर्ग : बुद्ध, ४०७, नोट। दूसरी ओर, ऐतरेय ब्राह्मण (८ १४) की भौगोलिक सूचियों में, मानव धर्म शास्त्र में, अथवा बौद्ध ग्रन्थों में भरतों का उल्लेख नहीं है। इसका यह तात्पर्य हुआ कि इस समय तक भरत-गण एक जाति नहीं वरन् एक बृहत्तर जाति के अन्तर्गत एक परिवार या उप जाति मात्र रह गये थे।

^{१९} ५ ४, ४, १।

^{२०} १. २७, २।

^{२१} २ ७, १ ५; ४. २५, ४, ६ १६, १९; तैत्तिरीय संहिता २ ५, ९, १, शतपथ ब्राह्मण १. ४, २, २। रौथ का विचार है कि अग्नि की इस उपाधि का अर्थ सम्भवतः 'युद्धोपम' है, किन्तु यह असम्भाव्य है।

तक में 'अग्नि भारत' (भरतों की) का उल्लेख किया गया है । आप्री सूक्त^{२२} में एक देवी 'भारती' भी आती है, जो कि भरतों की मूर्तिकृत दिव्य सुरचात्मक शक्ति है : इन सूक्तों में इस देवी के सरस्वती के साथ सम्बद्ध होने के कारण ऋग्वेद^{२३} में सरस्वती के साथ भरतों के सम्बन्ध का आभास मिलता है । पुनः शतपथ ब्राह्मण^{२४} में अग्नि को 'ब्राह्मण भारत' (भरतों का पुरोहित) कहा गया है, और हवि को 'मनुष्वत् भरतवत् (मनु की भाँति, भरत की भाँति) विसर्जित करने के लिये अग्नि को आहूत किया गया है ।^{२५}

एक अथवा दो स्थलों^{२६} पर सुदास् अथवा दिवोदास, और दूसरी ओर पुरुकुत्स अथवा त्रसदस्यु का सम्बन्ध मित्रवत् प्रतीत होता है । जंमा कि औल्हेनवर्ग^{२७} का विचार है, सम्भवतः यह तथ्य भरतों और पूरुओं का कुरुओं के साथ सम्मिलन व्यक्त करता है ।

ऋग्वेद^{२८} के पाँचवें मण्डल में एक भरत का उल्लेख है, किन्तु यह कौन था यह अनिश्चित है ।

^{२२} ऋग्वेद १ २२, १०, १४२, ९; १८८, ८, २. १, ११, ३, ८. ३ ४, ८, इत्यादि ।

^{२३} १ ४, २, २ ।

^{२४} १ ५, १, ७ ।

^{२५} १ ११२, १४, ७ १९, ८ ।

^{२६} उ० पु० ४१० ।

^{२७} ५ ५४, १४ ।

भरत की एक वाद की गाथा के लिये तु० की० ल्यूमैन : त्सी० गे० ४८, ८० और वाद, फॉन ब्राट्के . वही, ४९८-५०३, और देखिये मूडर सस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, ३३८, ३४०, और वाद ।

भरद्-वाज, ऋग्वेद के छठवें मण्डल के प्रख्यात^२ प्रणेता का नाम है । यह तथ्य इतना अधिक ठीक है कि 'भरद्वाज^२' तथा 'भरद्वाजो^३' का इस मण्डल में गायकों के रूप में बहुधा उल्लेख है । भरद्वाज के सन्दर्भ की प्रकृति से ऐसा प्रतीत होता है कि इसे इन सूक्तों में से कदाचित ही किसी का

^१ तु० की आश्वलायन गृह्यसूत्र, ३, ४, २, शाङ्खायन गृह्य सूत्र, ४. १०, बृह-देवता, ५ १०२ और वाद, जहाँ इसे बृहस्पति का पुत्र और अङ्गिरस का पौत्र कहा गया है (तु० की० ऋग्वेद ६ २, १०, ११, ३ इत्यादि), आर्नाल्ड . वैदिक मीटर, ६१, ६२ ।

^२ ऋग्वेद ६ १५, ३, १६, ५ ३३, १७,

४, ३१, ४, ४८, ७ १३, ६३, १०; ६५, ६ । देखिये ऋग्वेद १ ११२, १३, ११६, १८, १०. १५०, ५, १८१, २, भी ।

^३ ऋग्वेद ६. १०, ६, १६, ३३, १७, १४; २३, १०, २५, ९, ३५, ४, ४७, २५, ५०, १५ । देखिये ऋग्वेद १. ५९, ७, भी ।

समकालीन माना जा सकता है।^४ पञ्चविंश ब्राह्मण^५ के अनुसार यह दिवोदास का पुरोहित था। दिवोदास और इसे समान मानने के रौथ^६ के विचार की अपेक्षा यही व्याख्या अधिक उपयुक्त है। दिवादास के गृह के साथ इसके सम्बन्ध का काठक संहिता^७ की उस उक्ति से भी पता चलता है जिसके अनुसार भरद्वाज ने प्रतर्दन को राज्य प्रदान किया था। यह मानना अनावश्यक है कि इन दोनों दशाओं में एक ही भरद्वाज से ताक्षर्य है, और यह कि प्रतर्दन दिवोदास का पुत्र था : वाद की संहिताओं में कालक्रम पर ध्यान दिये बिना ही भरद्वाज का अन्य महान ऋषियों की भाँति उल्लेख है।

भरद्वाजों ने अपने काव्यों में वृषु, वृसय और पारावतों का उल्लेख किया है।^८ हिलेब्रान्ट^९ ने यह संकेत किया है कि यह लोग सृजयों के साथ भी सम्बद्ध थे। विशेष रूप से, शाङ्खायन श्रौत सूत्र^{१०} में यह उल्लेख है कि भरद्वाज ने प्रस्तोक सार्जय से पारितोषिक प्राप्त किया था। किन्तु इन सब लोगों, तथा दिवोदास को, अर्कोसिया और हैन्जियाना में स्थिति करना ठीक भी है कि नहीं यह अत्यन्त सन्दिग्ध है।

एक प्रणेता और द्रष्टा के रूप में भरद्वाज का वाद की संहिताओं^{११} और ब्राह्मणों^{१२} में अक्सर उल्लेख है।

^४ औल्डेनवर्ग. त्सी० गे० ४२, २१०, २२२।

^५ १५. ३, ७।

^६ सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था०। देखिये ऋग्वेद १. ११६, १८; ६ १६, ५; ३१, ४।

^७ ११ १० (इन्डिशे स्टूडियन, ३, ४७८)

^८ ६. ६१, १-३।

^९ वेदिशे माइथोलोजी, १, १०४।

^{१०} १६. ११. ११।

^{११} अथर्ववेद २. १२, २; ४. २९, ५; १८. ३, १६; १९. ४८, ६; काठक संहिता

१६ १९, २० ९, मैत्रायणी संहिता २ ७, १९, ४ ८, ४, वाजसनेयि संहिता १३ ५५, इत्यादि।

^{१२} ऐतरेय ब्राह्मण ६ १८; ८ ३, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. १०, ११, १३, ऐतरेय आरण्यक १ २, २; ४, २; २ २, २, ४, इत्यादि; कौषीतकि ब्राह्मण १५ १, २९, ३, ३०. ९।

तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १२८; वेवर : ए० रि० ३१।

भरन्त्, बहुवचन में पञ्चविंश ब्राह्मण^१ के एक स्थल पर, सायण का अनुगमन करते हुये यौटलिङ्क^२ के अनुसार 'योद्धा जाति' का द्योतक है, किन्तु

^१ १८ १०, ८।

| ^२ डिकशनरी, व० स्था०।

आशय निश्चित नहीं। वेवर^३ इसमें भरतों का ही सन्दर्भ देखने के पक्षपाती थे, यद्यपि यह शब्द वर्तमानकालिक कृदन्त है।^४

^३ इन्डिगे स्टूडियन, १०, २८, नोट २। | ^४ 'भरनान्' की सायण ने 'भरण कुर्वतां क्षत्रियाणान्' के रूप में व्याख्या की है

भरुजी, अथर्ववेद^१ के एक स्थल पर, रौथ^२ के अनुसार, किसी अपकारक पशु का द्योतक हो सकता है।

^१ २ २४, २८।

| ^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था।

भर्तृ का, शाब्दिक आशय 'वाहक' के अतिरिक्त, प्राचीन साहित्य^१ में 'पोषक', अथवा 'प्रतिपालक' अर्थ है, किन्तु यहाँ 'पति' का भी आशय मिलता है अथवा नहीं, यह सन्दिग्ध है। ऋग्वेद^२ के एक स्थल पर 'पति' ही निश्चित रूप से सर्वोपयुक्त और स्वाभाविक आशय हो सकता है, किन्तु जैसा कि डेल-ब्रुक^३ का उपयुक्त-सा मत है, यहाँ भी 'पिता' का अर्थ सम्भव है, क्योंकि 'माता' को यन्न-तन्न^४ 'भर्त्री' कहा गया है।

^१ अथर्ववेद ११ ७, १५; १८ २, ३०, शतपथ ब्राह्मण २ ३, ४, ७ (जहाँ 'पति' सम्भव है), ४ ६, ७, २१, इत्यादि।

^२ ५ ५८, ७।

^३ डी० व० ४१५, नोट १।

^४ अथर्ववेद ५ ५, २; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ १, १, ४।

भलानस् (बहु०) ऋग्वेद^१ में पक्थों, भलानसों, अलिनो, विपाणिनों, और शिवों के नाम से प्रख्यात उन पाँच जातियों में से एक का नाम है, जिनका दस राजाओं (दाशराज्ञ) के युद्ध में सुदास् के शत्रु-पक्ष^२ के साथ होने के रूप में उल्लेख है। यह लोग इन राजाओं के विरुद्ध नहीं थे, जैसा कि रौथ^३ और कभी तिसमर^४ का भी विचार था। बोलन दर्रे के साथ इसके नाम का तुलना करते हुये तिसमर ऐसा विचार व्यक्त करते हैं कि इस जाति का मूल आवास क्षेत्र पूर्वी कबूलिस्तान था। यह दृष्टिकोण बहुत कुछ तर्क-सम्मत प्रतीत होता है।

^१ ७ १८, ७।

^२ हॉपकिन्स . ज० अ० ओ० सो० १५, २६०, २६१, जो इस नाम के रूप को 'भलान' मानते हैं (किन्तु ऋग्वेद के मूल पाठ में 'भलानस' है) और तिसमर के वाद के विचार पर ध्यान।

नहीं देते।

^३ त्सु० वे० ९५।

^४ तिसमर आस्टिन्डिगे लेवेन, १२६।

^५ उ० पु० ४३१। तु० की० लुडविगः ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १७३, २०७

भव-त्रात शायस्थि, वंश ब्राह्मण^१ में एक गुरु का नाम है ।

^१ इन्डिगे स्टूडियन ४, ३७२, मैक्स मूलर . ऐन्थ्रोप्ट संस्कृत लिटरेचर, ४४३ ।

भस्त्रा, शतपथ ब्राह्मण (१. १, २, ७; ६, ३, १६) में चमडे की वोतल का द्योतक है ।

भाकुरि—देखिये वेकुरा ।

भाग-दुघ (वितरक), यजुर्वेद संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में राजा के रत्नों (रत्निन्) में से एक का नाम है । इसके ठीक-ठीक क्या कार्य थे यह अनिश्चित है । कुछ स्थलों^३ पर सायण इस शब्द का 'कर एकत्र करनेवाला', किन्तु कुछ अन्य^४ पर 'नक्काशी काटनेवाला' अनुवाद करते हैं, और इस प्रकार इसे या तो एक कर-अधिकारी अथवा एक राज्य कर्मचारी मात्र मानते हैं ।

^१ तैत्तिरीय संहिता १ ८, ९, २, काठक संहिता १५ ४; मैत्रायणी संहिता २ ६, ५; ४ ३, ८, वाजसनेयि संहिता ३० १३ ।

^२ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ७, ३, ५; ३ ४, ८, १, शतपथ ब्राह्मण १ १, २, १७, ५ ३, १, ९ ।

^३ तैत्तिरीय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण, उ० स्था० पर, और शतपथ ब्राह्मण ५ ३, १, ९, पर ।

^४ शतपथ ब्राह्मण १. १, २, १७ पर ।

तु० की० एग्लिङ्ग : से० बु० ई० ४१, ६३, नोट ।

भाग-वित्ति ('भगवित्' का वंशज) बृहदारण्यक उपनिषद् में वर्णित 'चूड'^१ अथवा 'चूल'^२ नामक एक गुरु का पैतृक नाम है ।

^१ बृहदारण्यक उपनिषद् ६. ३, १७ १८ माध्यदिन ।

^२ वही, ६. ३ ९ काण्व ।

भाडितायन ('भडित' का वंशज), वंश ब्राह्मण^१ में शाकदास का पैतृक नाम है ।

^१ इन्डिगे स्टूडियन ४, ३७३ ।

भानुमन्त औपमन्यव (उपमन्यु का वंशज) वंश ब्राह्मण^१ में, आनन्दज के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

^१ इन्डिगे स्टूडियन ४, ३७२ ।

भाय-जात्य ('भयजात' का वंशज), वंश ब्राह्मण^१ में निकोथक का पैतृक नाम है ।

^१ इन्डिशो स्टूडियन, ४, ३७३, मैक्स मूलर . ऐन्शेन्ट सरकून लिष्टरेचर, ४४४ ।

भारत—देखिये भरत ।

भारद्-वाज (भरद्वाज का वंशज), अनेक गुरुओं का पैतृक नाम है । बृहदारण्यक उपनिषद् के वंशों (गुरुओं की तालिकाओं) में 'भारद्वाजों' को 'भारद्वाज'^१, पाराशर्य^२, बलाकाकौशिक^३, ऐतरेय^४, असुरायण^५, और वैजवापायन^६ के शिष्यों के रूप में उल्लेख है । ऋग्वेद^७ में भी एक 'भारद्वाज' आता है, और वंश ब्राह्मण^८ में शूष वाह्येय का एक भारद्वाज के रूप में उल्लेख है ।

^१ ० ५, ०१, ४ ५, ०७ (माध्यदिन = ० ६, ३, ४ ६, ३ काण्व) ।

० ६, ० काण्व ।

^२ २ ६, ०, काण्व ।

^३ ४ ५, २७, माध्यदिन ।

^४ २ ५, २१; ४ ५, ०७ (माध्यदिन =

^५ २ ५, २१, ४. ५, २७ माध्यदिन ।

^६ ० ५, २१, ४ ५, ०७ माध्यदिन ।

^७ ५ ६१, २ ।

^८ इन्डिशो स्टूडियन, ४, ३७३ ।

भारद्वाजायन (भरद्वाज का वंशज), पञ्चविंश ब्राह्मण^१ में एक गुरु का पैतृक नाम है ।

^१ १० १२, १, निदान सूत्र, ९ ९ । तु० की० हॉपकिन्स ट्रा० सा० १५, ६१, नोट २ ।

भारद्वाजी-पुत्र (भरद्वाज के एक स्त्री-वंशज का पुत्र), बृहदारण्यक उपनिषद् में क्रमशः पारशरीपुत्र^१, पैङ्गीपुत्र^२ और वात्सीमाण्डवीपुत्र^३ के शिष्यों के रूप में अनेक गुरुओं का मातृनामोद्धत नाम है ।

^१ ६ ४, ३१ (माध्यदिन = ६ ५, २ काण्व ।

^२ ६. ४, ३० माध्यदिन ।

^३ वही ।

भार्गव (भृगु का वंशज), च्यवन^१ और गृत्समद^२ सहित अनेक गुरुओं का पैतृक नाम है । व्यक्तिगत नामों का संकेत किये बिना भी अनेक अन्य 'भार्गवों' का उल्लेख मिलता है ।^३

^१ शतपथ ब्राह्मण ४ १, ५, १; ऐतरेय ब्राह्मण ८ २१ ।

^२ कौपीतिक ब्राह्मण २२ ४ ('वाञ्जव' पाठांतर सहित) ।

^३ तैत्तिरीय संहिता १ ८, १८, १, शाङ्खा-आरण्यक ७ १५, ऐतरेय ब्राह्मण ८.

८. २, १ ५; प्रश्न उपनिषद् १. १ (वैदर्भि), इत्यादि, पञ्चविंश ब्राह्मण ११ २, २३; ९, १९. ३९, इत्यादि ।

तु० की० ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त ३५ ।

भार्गायणा ('भर्ग' का वंशज), एतरेय ब्राह्मण (८.२८) में सुत्वन् का पैतृक नाम है ।

भार्ग्य-अश्व ('भृम्यश्व' का वंशज), निरुक्त (९.२३) और बृहद्देवता (६.४६; ८.१२) में मुद्गल का पैतृक नाम है ।

भार्या, जो कि वाद में सामान्य रूप से 'पत्नी' का घोटक है, संहिताओं में कहीं भी इस आशय में नहीं आता । सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश के अनुसार यह सर्वप्रथम एतरेय ब्राह्मण^१ में मिलता है, जहाँ यद्यपि, डेल्टुक^२ के विचार से इससे केवल परिवार के एक सदस्य (जिसका भरण-पोषण किया जाय) मात्र ही अर्थ है । फिर भी शतपथ ब्राह्मण^३ में याज्ञवल्क्य की दो पत्नियों को इसी नाम से पुकारा गया है ।

^१ ७. ९. ८ ।

^२ डी० व० ४१५ । तु० की० एतरेय
ब्राह्मण १. २९, २० ।

^३ बृहदारण्यक उपनिषद् ३ ४, १;
४. ५, १ ।

भालन्दन ('भलन्दन' का वंशज) तैत्तिरीये संहिता^१, काठक संहिता^२ और पञ्चविंश ब्राह्मण^३ में वत्सप्री का पैतृक नाम है ।

^१ ५. २, १. ६ ।

^२ १९, १६ ।

^३ १२. ११, २५, हॉपकिन्स : ट्रा० सा०
१५, ५९ ।

भालुकी-पुत्र ('भालुकी' का पुत्र), बृहदारण्यक उपनिषद् के अन्तिम वंश (गुरुओं की तालिका) में, क्रौञ्चिकीपुत्र^१ अथवा प्राचीनयोगीपुत्र^२ के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

^१ ६. ५, २ काण्व ।

^२ ६. ४, ३२ माध्यदिन ।

भाल्ल, उस गुरु का पैतृक नाम है जो जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ३१, ४) में 'प्रानृद' पैतृक नाम धारण करता है ।

भाल्लवि, एक ऐसी परम्परा का नाम है, जिसकी आधिकारिता का पञ्चविंश ब्राह्मण (२. २, ४) में उल्लेख है ।

भाल्लविन्, ('भाल्लविन्' का शिष्य), जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण^१ में वर्णित गुरुओं की एक परम्परा का नाम है ।

^१ २. ४, ७ (भाल्लविन्' के रूप में अक्षर-
विन्यास) । तु० की० वेवर इन्डिशे
स्टूडियन १, ४४, २, १००, ३९०, ।

निदान सूत्र ५ १, अनुपद सूत्र, २-
१, ७ १२, बृहद्देवता ५ २३ १५९

भाल्लवेय (भाल्लवि का वंशज), शतपथ ब्राह्मण^१ और छान्दोग्य उप-निषद्^२ में इन्द्रद्युम्न का पैतृक नाम है । सम्भवतः उस 'भाल्लवेय' से भी इसी व्यक्ति का तात्पर्य है, जिसका एक अधिकारी के रूप में अक्सर इसी ब्राह्मण^३ में उल्लेख है ।

^१ १० ६, १, १ ।

^२ ५ ११, १ ।

^३ १ ७, ३, १९; २ १, ४, ६, १३ ४,

२, ३, ५, ३, ४ ।

भावयव्य—देखिये भाव्य ।

भाव्य, जैसा कि ऋग्वेद^१ से प्रकट होता है, एक प्रतिपालक का नाम है । शाङ्खायन श्रौत सूत्र^२ में 'भावयव्य' रूप है जो कक्षीवन्त् के प्रतिपालक स्वनय का पैतृक नाम है । यह सम्बन्ध ऋग्वेद द्वारा भी पुष्ट होता है जहाँ एक ही मन्त्र^३ में 'कक्षीवन्त्' और 'स्वनय' दोनों का उल्लेख है, जब कि उसी सूक्त के एक अन्य मन्त्र^४ में भी 'स्वनय' का ही आशय होना चाहिये जहाँ 'भाव्य' का 'सिन्धु के तट पर रहनेवाले' के रूप में उल्लेख है । रौथ^५ का यह विचार कि 'भाव्य' यहाँ सम्भवतः 'पूज्य' के आशय में क्रिया-वाचक है, बहुत सम्भव नहीं । लुडविग^६ का विचार है कि 'स्वनय' नहुषों के साथ सम्बद्ध था ।

^१ १. १२६, १, निरुक्त ९. १० ।

^२ १५. ११, ५ । तु० की० बृहदेवता ३.

१४० ।

^३ १ १२६, ३ ।

^४ १. १२६, १ ।

^५ सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश व० स्था० १, और वाद ।

^६ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५१ ।

तु० की० वेवर : ए० रि० २२, औल्डेनवर्ग . ऋग्वेद-नोट्स, १, १२८

भाषा, निरुक्त^१ और पाणिनि^२ में वैदिक भाषा के विपरीत प्रचलित लोक-भाषा का द्योतक है । तु० की० वाच्

^१ १, ४, ५ । तु० की० २ २ ।

^२ ३ २, १०८; ६ १, १८१ । तु० की० फ्रैन्के . वेजेनवर्गर का वीट्रेज, १७, ५४ और वाद, जो पाणिनी के नियमों द्वारा नियामित भाषा का, वार्तालाप

में प्रयुक्त 'भाषा' के साथ, विभेद करते हैं । किन्तु देखिये वाकरनॉगल : आल्टिन्डिशे ग्रामेटिक, १, xlii, कीथ. ऐतरेय आरण्यक, १७९, १८० ।

भास, अङ्कत ब्राह्मण^१ में तथा अक्सर महाकाव्य में एक हिंसक पक्षी का नाम है ।

^१ ६ ८, देखिये वेवर : इन्डिशे स्टूडियन्, १, ४० ।

भिक्षा, शतपथ ब्राह्मण^१ के अनुसार ब्रह्मचारिन् के कर्त्तव्यों में से एक है। अथर्ववेद^२ में इस शब्द से 'भिक्षा द्वारा प्राप्त पदार्थ' का भी आशय है। सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश^३ के अनुसार छान्दोग्य उपनिषद्^४ में भी इससे यही आशय है, किन्तु यहाँ इसका शुद्ध पाठ कदाचित् आमिक्षा है।

^१ ११ ३, ३, ७। तु० की० आश्वलायन गृह्य सूत्र १ ९, इत्यादि, में एक मन्त्र, और 'भिक्षाचर्य', बृहदारण्यक उपनिषद् ३ ४, १, ४ ४, २६।

^२ ११ ५, ९।

^३ व० स्था० २।

^४ ८. ८, ५, जहाँ भाष्यकार इस शब्द की 'सुगन्धि, पुष्पहार, भोजन' इत्यादि (गन्धमाल्यान्नादि) के रूप में व्याख्या करते हैं।

भिक्तु, एक ऐसा शब्द है जो वैदिक साहित्य में नहीं मिलता। बाद की आश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत ब्रह्मचारिन् का भिक्षाटन उस 'भिक्तु-जीवन' के कर्त्तव्यों से सर्वथा भिन्न है जिसमें परिवार का परित्याग कर देने के पश्चात् जीवन के अन्तिम आश्रम में ब्राह्मण केवल भिक्षावृत्ति पर ही निर्भर रहता है। देखिये, १. ब्राह्मण।

भित्ति, शतपथ ब्राह्मण^१ में नरकट की पटरियों से विनी चटाई का द्योतक है।

^१ ३ ५, ३, ९। तु० की० शाह्यायन श्रौत सूत्र, ८ ३, २४।

१. भिषज् (चिकित्सक), ऋग्वेद^३ और बाद^२ में बहुधा मिलनेवाला एक साधारण शब्द है। ऋग्वेद में इस बात का कोई भी चिह्न नहीं कि इस व्यवसाय को अनादर की दृष्टि से देखा जाता था : अश्विनो,^३ वरुण,^४ और रुद्र,^५ सभी को 'भिषज्' कहा गया है। दूसरी ओर धर्म-शास्त्रीय साहित्य^६ में

^१ २. ३३, ४; ६. ५०, ७, ९ ११२, १, विशेषण 'भिषज्', २ ३३, ७; १० १३७, ६, विशेष्य के रूप में, १ २३, १९ २०, २. ३३, २ ४, ६ ७४, ३, ७ ४६, ३, इत्यादि।

^२ अथर्ववेद ५. २९, १, ६ २४, २, तैत्तिरीय संहिता ६ ४, ९, २; वाजसनेयि संहिता १६. ५, १९ १२ ८८, ३० १०, इत्यादि, 'भिषज्', विशेषण, अथर्व वेद ६ १०९, ३, वाजसनेयि संहिता १६ ४५, इत्यादि, विशेष्य के रूप में, अथर्ववेद ५ २९, -१; ६ २१, २, ११

१, ९, इत्यादि।

^३ ऋग्वेद १ ११६, १६, १५७, ६; ८. १८, ८; ८६, १; १० ३९, ३ ५; अथर्ववेद ७ ५३, १; ऐतरेय ब्राह्मण १ १८।

^४ देखिये, ऋग्वेद १. २४, ९।

^५ ऋग्वेद २. ३३, ४ ७।

^६ देखिये आपस्तम्ब धर्म सूत्र, १ ६, १८, २०, १९, १५; गौतम धर्म सूत्र, १७ १७, वसिष्ठ धर्म सूत्र १४ २, १९, विष्णु ५१ १०, ८२ ९, ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद का अनुवाद, 1।

यह व्यवसाय सर्वथा घृणित है। घृणा का यह भाव यजुर्वेद सहिताओं^७ जैसे प्राचीन समय में भी मिलता है, जहाँ अश्विनों की इमलिष् भरसना की गई है कि वह 'भेषज' हैं और उनका यह व्यवसाय उन्हें मनुष्यों के अत्यधिक सम्पर्क में ला देता है। यहाँ अविवेकपूर्ण सम्पर्क-सम्बन्धी जातीय घृणा का भाव ही लक्षित होता है।

ऋग्वेद^८ में एक ऐसा सूक्त है जिसमें एक भेषज अपने पौधों और उनकी उपशामक शक्तियों की प्रशस्ति करता है। इसके अतिरिक्त अश्विनों द्वारा आश्चर्यजनक उपचार के भी सन्दर्भ मिलते हैं : लंगडे^९ और नेत्रहीनों^{१०} का उपचार, वृद्ध च्यवन^{११} और पुरंधि के पति^{१२} को पुनः युवक बना देना; विश्पला^{१३} को एक लौह-पाद (जह्वा आयसी) प्रदान करना, जो कृत्य उस समय और भी आश्चर्यजनक प्रतीत होगा जब हम, जैसा कि पिशल^{१४} ने विचार व्यक्त किया है, यह मान लें कि विश्पला एक अश्वी थी। यह स्वीकार^{१५} कर लेना प्रायः एक त्रुटि ही होगी कि वैदिक-भारतीय शल्य-क्रिया से भी परिचित थे। इसमें सन्देह नहीं कि वह घावों की साधारण चीड़-फाड़ करते थे,^{१६} किन्तु उनकी औषधि और उनकी शल्य-क्रिया दोनों ही अत्यन्त आदिम ही रही होंगी। औषधि के सम्बन्ध में अथर्ववेद में जो कुछ भी विवरण उपलब्ध है उससे केवल अभिचारों^{१७} के साथ कुछ जड़ी बूटियों के, तथा जल (तु० की० जलाप) के प्रयोग के प्रचलन का ही पता चलता है। इन उपचारीय पद्धतियों की प्रकृति भारोपीय है और इनका विशेष वैज्ञानिक महत्त्व नहीं। दूसरी ओर, शरीर-व्यवच्छेदशास्त्र का ज्ञान (देखिये शरीर)

^७ तैत्तिरीय सहिता ६ ४, ९, ३। तु० की० मैत्रायणी सहिता ४ ६, २, शतपथ ब्राह्मण ४ १, ५, १४, ब्लूम-फील्ड उ० पु० XXXIX, XI।

^८ १० ९७।

^९ ऋग्वेद १ ११२, ८, १०. ३९, ३, इत्यादि।

^{१०} तु० की० 'ऋज्जाश्व' का दृष्टान्त, ऋग्वेद १. ११६, १७।

^{११} ऋग्वेद १० ३९, ४।

^{१२} १ ११६, १३।

^{१३} ऋग्वेद १. ११६, १५, इत्यादि।

^{१४} वेदिशे स्टूडियन १, १७१ और वाद, ३०५।

^{१५} जैसा कि तिसमर. आस्टिन्शि लेवेन, ३९८, में मानने के लिये प्रवृत्त हैं।

^{१६} तु० की० ऋग्वेद ९ ११२, १।

^{१७} पञ्चविंश ब्राह्मण, १२. ९, १०, में इस प्रकार कहा गया है. 'भेषज वा आथर्वणानि' (अथर्वन्-सूक्त ही औषधियाँ हैं), १६ १०, १०, और तु० की० वही, २३, १६, ७, काठक सहिता ११ ५, और २. भिषज्।

जो यद्यपि गम्भीर अशुद्धियोंसे युक्त है, सर्वथा अमहत्त्वपूर्ण नहीं; किन्तु निश्चित रूप से यह ज्ञान मुख्यतः यज्ञ के समय पशुओं की चीड़-फाड़ पर ही आधारित था ।

ऋग्वेद^{१८} में इस बात के भी कुछ प्रमाण हैं कि चिकित्सा-कार्य उस समय तक एक व्यवसाय बन चुका था । यह तथ्य यजुर्वेद^{१९} में पुरुषमेध के वलि-प्राणियों की तालिका के अन्तर्गत एक चिकित्सक के सम्मिलित किये जाने से पुष्ट होता है । ब्लूमफील्ड^{२०} के अनुसार अथर्ववेद^{२१} के एक सूक्त में एक चिकित्सक द्वारा अपने कार्यात्मक प्रशिक्षण पर आधारित होने की अपेक्षा घर में बनी औषधियों के प्रयोग को अनुचित बताया गया है ।

^{१८} ९. ११२, जहाँ एक व्यवसाय का ही अर्थ होना चाहिये । वही ३, में चिकित्सक के पारिश्रमिक का सन्दर्भ है । तु० की० १० ९७, ४ ८, भी ।

^{१९} वाजसनेयि संहिता ३० १०; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, ४, १ ।

^{२०} अथर्ववेद के सूक्त ४९६ ।

^{२१} ५ ३०, ५ । किन्तु यह आशय सदिग्ध है । तु० की० विहट्ने अथर्ववेद का

अनुवाद, २७७ ।

तु० की० तिसमर : उ० पु० ३९७-३९९, ब्लूमफील्ड . उ० पु० (देखिये पृ० ६९७ पर उद्धृत सन्दर्भ), अथर्व वेद ५९ और बाद, श्रेडर : प्रिहिस्टोरिक ऐन्टिकिटीज, ४२० और बाद, जॉली . मेडिसिन, १६, १७, विन्ट-निज : नेचर, १८९८, २३३-२३५, कैलेण्ड आर्किटन्डिशे त्सावररिचुअल ।

२. भिषज् आथर्वणा, काठक संहिता^१ में उल्लिखित किसी पौराणिक चिकित्सक का नाम है ।

^१ १६ ३ (इन्डिशे स्टूडियन ३, ४५९) । तु० की० ब्लूमफील्ड अथर्ववेद के

सूक्त XXI, ज० अ० ओ० सो० १७, १८१ ।

भीम वैदर्भ (विदर्भ का राजा), का ऐतरेय ब्राह्मण (७. ३४) में गुरुओं की एक परम्परा के माध्यम से, पर्वत और नारद द्वारा सोम-रस के स्थापनापन्न के सम्बन्ध में निर्देशन प्राप्त करनेवाले के रूप में उल्लेख है ।

भीम-सेन, शतपथ ब्राह्मण^१ में जनमेजय के आताओं, पारिच्छितीयों, में से एक का नाम है ।

^१ १३ ५, ४, ३ । तु० की० शाह्यायन श्रौत सूत्र, १६. ९, ३ ।

१. भुज्यु, सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश के अनुसार, ऋग्वेद^१ के दो और वाज-

^१ ४ २७, ४; १० ९५, ८ ।

सनेधि संहिता' के एक स्थल पर 'जोसनेवाले' का चोतक है । किन्तु इन मय स्थलों पर आशय संदिग्ध ही है ।

^२ १८ ४२ ।

तु० की० गेट्टनर : ऋग्वेद,
ग्लोसर, १२६, जो ऋग्वेद १० १५,

८, में 'भुज्यु' को 'उत्कट', 'गतलोडुप',
के अर्थ में ग्रहण करते हैं ।

२. भुज्यु, तृय के पुत्र, एक व्यक्ति का नाम है जिसका ऋग्वेद^१ में अश्विनों द्वारा पाताल से वचाये गये होने के रूप में यहुधा उल्लेख है । बृहत्स^२ के अनुसार इस स्थल पर हिन्द महासागर में यात्रा करते समय जलयान के भग्न हो जाने पर भुज्यु की रक्षा करने का सन्दर्भ है, किन्तु इस निष्कर्ष की पुष्टि करने के लिये प्रमाण अपर्याप्त हैं । तु० की० समुद्र ।

^१ १ ११२, ६ २०, ११६, ३, ११७, १४;

११९, ४, ६ ६२, ६; ७ ६८, ७, ६९,

७, १० ४०, ७, ६५, १२, १४३, ५ ।

^२ इन्डिशे पालियोग्राफी, १७

तु० की० वॉनेक, कुन के रसी०,

३५, ४८५ में, ओ-डेनवर्ग : रिलीजन

देम वेद, २११, इन्डिप्रान्त : वेदिशे

माथीलोजी, ३, १६, नोट ५, मूद्र

संस्कृत टेक्स्ट्स, ५, २४१, २४५,

मैकटीनेल 'वैदिक माथीलोजी, ५०५२।

भुज्यु लाहायनि ('लहायन' का वंशज), बृहदारण्यक उपनिषद् (३. ३, १) में, याज्ञवल्क्य के समकालीन, एक गुरु का नाम है ।

भुरिज् (केवल द्विवचन में ही प्रयुक्त) कुछ संदिग्ध आशयवाला शब्द है । रौथ^१ ने इसे कुछ स्थलों^२ पर 'कैची' और अन्य^३ पर रथकारों द्वारा लड़कियों को यथा-स्थान लगाने के लिये प्रयुक्त बहुत कुछ बढ़ई के वाँक जैसे दो भुजाओं वाले एक यन्त्र के अर्थ में ग्रहण किया है । तुर भी देखिये ।

^१ सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । तु० की०

मूडर संस्कृत टेक्स्ट्स, ५, ४६६ ।

^२ ऋग्वेद ८ ४, १६, अथर्ववेद २०

१२७, ४ ।

^३ ऋग्वेद ४ २, १४, ९ २६, ४, ७१, ५,

जहाँ पिशल (वेदिशे स्टूडियन १,

२३९-२४३) यह विचार व्यक्त करते

हैं कि रथका 'दण्ड' अर्थ है (तु० की०

गोमिल गृह्य सूत्र ३ ४, ३१ जिससे

ऐसा प्रकट होता है कि रथ का 'दण्ड',

जिसे दो भुजाओंवाला कहा गया

है, द्विशिख' होना था) । नोट २ में

उद्धृत स्थलों के सन्बन्ध में भी यही

मत एक ऐसे चर्मपट के बने यन्त्र

का आशय व्यक्त करता है जिसमें

लकड़ी के दो टुकड़े लगे होते हैं और

जिसके बीच में ही पत्थर की चक्री

घूमती है ।

तु० की० तिसर : आल्टिन्डिशे

लेवेन, २५०, २५५ ।

भूत-विद्या, छान्दोग्य उपनिषद्^१ में उल्लिखित विज्ञानों में से एक है ।

^१ ७ १, २ ४; २, १, ७, १ । तु० की० लिटिल . ग्रामेटिक इन्डेक्स, ११५ ।

इससे मनुष्यों को त्रस्त करनेवाले 'पशुओं के विज्ञान' तथा उनको दूर भगाने के उपायों का तात्पर्य प्रतीत होता है ।

भूत-वीर, पुरोहितों के परिवार का नाम है, जिनको, ऐतरेय ब्राह्मण^१ के अनुसार, जनमेजय ने कश्यपों की उपेक्षा करते हुये अपने लिये नियुक्त किया था । फिर भी, इस वाद के व्यक्ति के परिवार के लोगों, असितमृगों, ने भूतवीरों को अपदस्थ करते हुये जनमेजय को पुनः अपने अनुकूल बना लिया था ।

^१ ७ २७ । तु० की० रौथ • त्सु० वे० | ३४४, नोट ३, मूडर : सस्कृत टेक्स्ट्स
११८, एगिल्द से० बु० ई० ४३, | १^२, ४३७ और वाद ।

भूताश, ऋग्वेद^१ में 'कश्यप' के वंशज, एक कवि का नाम है ।

^१ १० १०६, ११ । देखिये, निरुक्त, १२ ४१, बृहद्देवता ८ १८ १९, लुडविग
ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १३३ ।

भूति, एक ऐसा शब्द है जो ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'सम्पन्नता' के आशय में प्रयुक्त हुआ है ।

^१ ८ ५९, ७ । तु० की० १ १६१, १ | संहिता २ १, १, १, ३, ५, इत्यादि;
(यह दोनों ही अपेक्षाकृत वाद के 'भूति-काम' (सम्पन्नता का आकाक्षी)
स्थल हैं) । तैत्तिरीय संहिता २ १, १, १, २, ३,
^२ अथर्ववेद ९ ६, ४५; १० ३, १७, ३; ५ १, ९, १, इत्यादि ।
६, ९, ११ ७, २२; ८, २१, तैत्तिरीय

भूमि अथवा भूमी, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में पृथ्वी के लिये प्रयुक्त साधारण और पृथिवी का समानार्थी शब्द है । देवों द्वारा आर्यों को प्रदत्त भूमि^३, और दान में दी हुई भूमियों^४ के लिये भी, इन शब्दों का प्रयोग मिलता है ।

^१ १ ६४, ५, १६१, १४, २. १४, ७, | पृथिवियों और समुद्रों का उल्लेख है;
इत्यादि । इसी प्रकार १० १८, १० | २ ९, ४, ६ ८, २, इत्यादि ।
में 'माता पृथ्वी' मृतकों के अवशेषों ^३ ऋग्वेद ४ २६, २ । तु० की० ६.
को ग्रहण करती है । ४७, २० ।
^४ अथर्ववेद ६ २, १, जहाँ यह कहा गया ^४ शतपथ ब्राह्मण १३ ५, ४, २४, ६,
है कि 'भूमि', तीनों पृथिवियों में से २, १८ ।
सर्वोच्च है, ११ ७, १४, यहाँ नौ

भूमि-दुन्दुभि, भूमि में बने एक ऐसे गड्ढे का द्योतक है जिसे चर्म से ढक दिया जाता था । इसका महाव्रत संस्कार के समय प्रयोग किया जाता था और संहिताओं^१ तथा ब्राह्मणों^२ में इसका उल्लेख है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ७ ५, ०, ३, काठक-
संहिता ३४ ५ ।

^२ पञ्चविंश ब्राह्मण ५ ५, १९, ऐतरेय

आरण्यक ५ १, ५ ।

तु० की० की० ऐतरेय आरण्यक

२७७, नोट १४ ।

भूमि-पाश, शतपथ ब्राह्मण^१ में एक प्रकार के पौधे, सम्भवतः किसी लतिका का नाम है ।

^१ १३ ८, १, १६ । तु० की० एगिलझ से० बु० २० ४४, ४२७, नोट १ ।

भृगुवाण, ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर, प्रत्यक्षतः^२ उस व्यक्ति का नाम है जिसे शोभ कहा गया है । फिर भी, लुडविग^३ का विचार है कि इसका नाम घोष था । अन्यत्र यह शब्द 'अग्नि' की उपाधि के रूप में आता है, जिससे निःसन्देह भृगुओं द्वारा अग्नि-पूजा का ही आशय है ।

^१ १ १२०, ५ ।

^२ पिशाल . वेदिशे स्टूडियन १, ४, २, ९२ ।

^३ ऊ० ऋ० ४ ।

भृगु, ऋग्वेद और बाद में प्रायः एक सर्वथा पौराणिक व्यक्तित्व है । इसे वरुण के पुत्र के रूप में व्यक्त किया गया है^१, और यह 'वारुणि' पेतृक नाम धारण करता है ।^२ बहुवचन में भृगुओं को बहुधा^३ अग्नि-पूजकों के रूप में प्रस्तुत किया गया है । यह लोग ऋग्वेद में स्पष्टतः^४ जातिवाचक

^१ शतपथ ब्राह्मण ११ ६, १, १, तैत्तिरीय
आरण्यक ९ १ । तु० की० पञ्चविंश
ब्राह्मण १८. ९, २, निरुक्त ३ १७ ।

^२ ऐतरेय ब्राह्मण ३ ३४, और नोट १४ ।
कथा के एक भिन्न रूप के लिये तु०
की० तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ८, २, ५ ।

^३ ऋग्वेद १ ५८, ६, १२७, ७, १४३,
४, २ ४, २, ३ २, ४, ४ ७, १,
इत्यादि, देखिये मैकडौनेल वैदिक
माइथोलोजी, ५१ । इनके द्वारा रथ-
निर्माण की कथा का (ऋग्वेद ४.
१६, २०, १०. ३९, १४) आरम्भ,

जैसा कि रौथ ने सेन्टपीटर्स बर्ग कोश,
व० स्था० पर व्यक्त किया है,
'भृगुओं' के ही मिथ्या ग्रहण के
कारण हुआ प्रतीत होता है । फिर
भी, यह उन ऐतिहासिक भृगुओं को
उद्दिष्ट करके भी कहा गया हो सकता
है जिन्हें हम दस राजाओं के युद्ध में
देखते हैं ।

^४ जैसा कि ऋग्वेद ३ ५, १०, में मात-
रिश्वन् द्वारा इनके लिये अग्नि लाने की
कथा से व्यक्त होता है ।

‘भृगु’^५ नामधारी प्राचीन पुरोहितों और पूर्वजों के एक वर्ग के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसके अपवाद स्वरूप ऋग्वेद के केवल तीन ही रथल^६ ऐसे हैं जहाँ इन्हें प्रत्यक्षतः एक ऐतिहासिक परिवार माना गया है। फिर भी, यह स्पष्ट नहीं है कि यह लोग पुरोहित थे या योद्धा : दस राजाओं के युद्ध में भृगुगण द्रुह्युओं के साथ, सम्भवतः उनके पुरोहितों के रूप में आते हैं, किन्तु यह निश्चित नहीं है।^७

वाद के साहित्य में भृगु-गण एक वास्तविक परिवार है और कौपीतिकि ब्राह्मण^८ के अनुसार ऐतशायन भी इनके एक अङ्ग हैं। पुरोहितों के रूप में भृगुओं का ‘अग्निस्थापन’^९ और ‘दशपेयक्रतु’^{१०} जैसे अनेक संस्कारों के सम्बन्ध में उल्लेख है। अनेक स्थलों पर यह लोग अङ्गिरसों^{११} के साथ भी संयुक्त हैं। इन दोनों परिवारों का घनिष्ठ सम्बन्ध इस तथ्य से प्रकट होता है कि शतपथ

^५ १ ६०, १, जहाँ, यद्यपि, रथै : उ० स्था०, एकवचन को सामूहिक आशय में ग्रहण करते हैं। यह व्याख्या ठीक हो सकती है, किन्तु आवश्यक नहीं है।

^६ ऋग्वेद ७ १८, ६, ८ ३, ९, ६, १८, जिसके आधार पर मैकडौनेल : उ० स्था०, द्वारा प्रस्तुत सूची में रथै ८ १००, ४ (और्व-भृगु-वत्) को भी सम्मिलित करते हैं। तु० की० यह तथ्य कि ऐतरेय ब्राह्मण ६ ३३ में और्वों ने कौपीतिकि ब्राह्मण ३० ५, के भृगुओं का स्थान ग्रहण कर लिया है।

^७ ८ ३, ९, ६, १८, १०२, ४, में एक पुरोहित-परिवार का सन्दर्भ अधिक स्वाभाविक है, ७ १८, ६ में योद्धाओं का अर्थ हो सकता है। तु० की० हॉपकिन्स . ज० अ० ओ० सो० १५, २६२, नोट, जहाँ आप, सम्भवतः इसी राजा को व्यक्त करनेवाले के रूप में, ९. १०१, १३ का उदाहरण देते हैं।

^८ ३० ५। देखिये, नोट ६।

^९ तैत्तिरीय संहिता ४ ६, ५, २, ५ ६, ८, ६, अथर्ववेद ४ १४, ५, मैत्रायणी संहिता १ ४, १ (पृ० ४८)।

^{१०} तैत्तिरीय संहिता १. ८, १८, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ८, २, ५; पञ्चविंश ब्राह्मण १८ ९, २।

^{११} तैत्तिरीय संहिता १ १, ७, २, मैत्रायणी संहिता, १ १, ८, वाजसनेयि संहिता १ १८, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ १, ४, ८, ३ २, ७, ६, शतपथ ब्राह्मण १ २, १, १३, इत्यादि। तु० की० ऋग्वेद ८ ३५, ३, ४३, १३, १० १४, ६, जिनमें से प्रथम और अन्तिम स्थलों पर ‘अथर्वन्’ भी आते हैं। देखिये ब्लूमफील्ड अथर्ववेद के सूक्त, xxvii नोट २। इसीलिये अथर्वन सांस्कारिक ग्रन्थों में ‘भृग्व-ङ्गिरस.’ शब्द अथर्ववेद के लिये व्यवहृत हुआ है (ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद, ९ १०, १०७ और बाद)।

ब्राह्मण^{१२} में 'व्यवन' को 'भार्गव' या 'आङ्गिरस' दोनों ही कहा गया है। अथर्ववेद^{१३} में, ब्राह्मणों को त्रस्त करनेवाले लोगों पर पढ़नेवाली विपत्तियों का दृष्टान्त देने के लिये 'भृगु' नाम का उपयोग किया गया है : 'भृगु' पर आक्रमण करने के परिणाम-स्वरूप सृज्य वैतहव्यों का सर्वनाश हो गया। ऐतरेय ब्राह्मण^{१४} में भी 'भृगु' का ऐसा ही प्रतिनिधि व्यक्तित्व है। तु० की० भृगुवाण और भार्गव ।

^{१२} ४ १, ५, १ ।

^{१३} ५ १९, १ ।

^{१४} ० ०० । जैमिनीय ब्राह्मण १. ४२-४४
(ज० अ० ओ० सो० १५, २०४)
में 'भृगु वारुणि' एक विद्यार्थी के रूप
में आता है । तु० की० तैत्तिरीय

उपनिषद् ३ १ ।

तु० की० हिलेब्राण्ट . वेदिशे माइ-
थैलोजी, २, १६९-१७३, लुडविग :
ऋग्वेद का अनुवाद ३, १४०,
मूशर : सस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, ४४३
और वाद ।

भृङ्गा, मधुमक्खी की एक जाति का नाम है जिसे अथर्ववेद^१ और यजुर्वेद की संहिताओं^२ में बड़ी और काली बताया गया है। उक्त वाद के ग्रन्थ में इसे अश्वमेध के बलिप्राणियों की तालिका में भी सम्मिलित किया गया है।

^१ ० ०, २२ ।

^२ मैत्रायणी संहिता ३ १५, ८, वाजसनेयि

संहिता २४ २९ । तु० की० तिसर .
आस्टिन्डिशे लेवेन, ९६ ।

भृम्य-अश्व, निरुक्त (९. २४) में मुद्गल के पिता का नाम है।
भेकुरि—देखिये बेकुरा ।

१. भेद, जो कि सुदास् और तृत्सु-भरतों के शत्रुओं में से एक था, यमुना^१ के तट पर प्रत्यक्षतः दस राजाओं के युद्ध के पश्चात् उस द्वितीय संघर्ष में सुदास् द्वारा पराजित हुआ था जिसमें सुदास् ने अपने राज्य की पश्चिमी सीमा की संघबद्ध शत्रुओं से सफलतापूर्वक रक्षा की थी। यदि 'भेद' एक राजा था तो, अज, शिमु, और यद्दु आदि, जिनका भी पराजित होनेवालों के रूप में उल्लेख है, इसके ('भेद' के) नेतृत्व में संगठित हुये होंगे; अथवा, जैसा कि रौथ^२ का विचार है, भेद-गण एक अलग जाति ही रहे हो सकते हैं। हॉपकिन्स^३ का यह विचार कि इनकी पराजय परुष्णी के तट पर हुई थी और यमुना इसी नदी का दूसरा नाम है, अत्यन्त असम्भव है। यह

^१ ऋग्वेद ७ १८, १८ १९, ३३, ३,
८३, ४ ।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० १२ ।

(यह शब्द सदैव एकवचन में ही प्रयुक्त हुआ है) ।

^३ इन्डिया, ओल्ड ऐण्ड न्यू, ५० ।

दृष्टिकोण भी आवश्यक नहीं कि 'भेद' दस राजाओं में से ही एक था ।^४
तु० की० तुर्वश ।

^४ हॉपकिन्स ज० अ० ओ० सो०, १५,
२६० और वाट ।
तु० की० त्रिफिथ : ऋग्वेद के

सूक्त, २, २०, नोट, तिसमर : आल्टि-
न्डिशे लेवेन, १२६, मूडर . सस्कृत
टेक्स्ट्स, १^२, ३१९, ३२७ ।

२. भेद का, अथर्ववेद^१ में, इसलिये विनाश हो गया होने का उल्लेख है कि इसने माँगने पर इन्द्र को एक गाय (वशा) देना अस्वीकृत कर दिया था । यह गत 'भेद' से भिन्न है, जैसा रौथ^२ मानते हैं, अथवा नहीं, यह अनिश्चित है । वास्तव में बहुत सम्भव यह है कि पराजय के कारण ही एक दुष्ट व्यक्ति के दुःखद अन्त का प्रतिनिधित्व करनेवाले के रूप में इसे चुन लिया गया है । इसके अतिरिक्त, यदि अज और शिगु, जिनके साथ इसे ऋग्वेद में संयुक्त या सम्यद्ध किया गया है, अनार्य जातियाँ रही हों, जैसा कि सम्भव तो है किन्तु किसी प्रकार निश्चित नहीं, तो भेद के चरित्र को अधर्मिक मान लिया गया होने का कारण इन अनार्य जातियों का नेतृत्व करना भी हो सकता है ।^३

^१ १३ ४, ४९ ५० ।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० १३ ।

^३ तु० की० मैकडौनेल . वैदिक माइथो-
लोजी पृ० १५३, इन्हें अनार्य जातियाँ
मानते हैं, किन्तु केवल इनके नाम

ही इस अनुमान की पुष्टि करते हैं ।
अन इसी मान्यता के आधार पर
इन्हें सम्भवतः अनार्य कहा गया है ।
तु० की० अज ।

१. भेषज, जो कि 'औषधि' अथवा 'उपचारक माध्यम' का द्योतक है, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में मिलता है । इसका लाक्षणिक आशय में भी प्रयोग किया गया है ।^३ पौधों^४, जलों^५, और अभिचारों^६ की, बहुधा ही, औषधियों

^१ १ ८९, ४, २ ३३, २, इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद ५ २९, १, ६ २१, २,
इत्यादि ।

^३ शतपथ ब्राह्मण १३ ३, १, १, ५, ४,
पेतरेय ब्राह्मण ३ ४१ ।

^४ ऋग्वेद १० ९७, और अथर्ववेद में
सर्वत्र ।

^५ १ २३, १९ २०, ३४, ६, इत्यादि;

तैत्तिरीय संहिता ६ ४, ९, २,
कौषीतकि ब्राह्मण १६ ७, इत्यादि ।
सम्भवत आल्टिन्डिशे लेवेन ३९९,
में तिसमर के इस मत में कुछ सत्यता
है कि यहाँ खान के लाभकर प्रभाव
का ही सन्दर्भ है ।

^६ अथर्ववेद और कौशिक सूत्र के औषधिक
अभिचारों में व्यक्त ।

के रूप में गणना कराई गई है। अथर्ववेद की अधिकांश चिकित्सात्मक पद्धतियाँ केवल सहानुभूतिपूर्ण अभिचार की ही उदाहरण हैं। उदाहरण के लिये, एक सूक्त^७ में 'पीतरोग' के पीतरु को पीत पक्षियों पर स्थानान्तरित हो जाने की स्तुति की गई है। एक अन्य^८ सूक्त में ज्वर को मेढक के माध्यम से भगाने का उल्लेख है; क्योंकि मेढक को, जो कि अग्नि^९ को ठंडा करने का एक समर्थ माध्यम है (जल के साथ अपने सम्बन्ध के कारण), इसी समानता के आधार पर ज्वराग्नि को भगानेवाला माना गया है। देखिये भिषज् ।

^७ १ २२, ब्लूमफील्ड अथर्ववेद के सूक्त, ।

और वाद ।

२६४ और वाद ।

^९ तु० की० ऋग्वेद १० १६, १४, अथर्व-

^८ ७. ११६, ब्लूमफील्ड • उ० पु०, ५६५

वेद १८ ३, ६० ।

२. भेषज, बहुवचन में अथर्ववेद^१ और सूत्रों^२ में मिलता है। यह इस आशय में अथर्ववेद के सूक्तों का द्योतक है कि उसके सूक्त उपशामक शक्ति से युक्त हैं।

^१ ११ ६, १४ ।

पञ्चविंश ब्राह्मण १२ ९, १० ।

^२ आश्वलायन श्रौत सूत्र १० ७, ३,

तु० की० ब्लूमफील्ड अथर्ववेद के

शाङ्खायन श्रौत सूत्र १६ २, १०,

सूक्त, ३१, ६०८ ।

भैम-सेन (भीमसेन का वंशज), भैत्रायणी संहिता (४. ६, ६) में एक व्यक्ति का नाम है ।

भैम-सेनि (भीमसेन का वंशज) काठक संहिता^१ में दिवोदास का पैतृक नाम है ।

^१ ७ ८ (इन्दिशे गृह्यियन, २, ४६०, ४७२) ।

भेषज्य, शतपथ ब्राह्मण (१२. ७, १, १२) और निरुक्त (१०. ७. २५) में, भेषज की ही भाँति, 'उपशामक औषधि' का द्योतक है ।

भोग, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में सर्प के 'मण्डल' का द्योतक है ।

^१ ७ २९, ६, ६ ७५, १४ (जहाँ अनु-
धर के हस्तघ्न की सर्प से तुलना की
की गई है) ।

^२ अथर्ववेद ११ ९, ५, तैत्तिरीय संहिता
२ १, ४, ५ ६, ५ ४, ५, ४, काठक
संहिता १३. ४, २१ ८, इत्यादि ।

भोज, पेत्रेय ब्राह्मण (८. १२. १४. १७) के अनेक स्थलों पर राजा की उपाधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है ।

भौज्य, ऐतरेय ब्राह्मण^१ में भोज उपाधि धारण करनेवाले राजा के पद का द्योतक है ।

^१ ७ ३२, ८. ६ १२ १४. १६ ।

भौमक, अद्भुत ब्राह्मण^१ में किसी पशु का नाम है ।

^१ इन्डिशे स्टूडियन, १, ४० ।

भौमी, तैत्तिरीय संहिता^१ में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में सम्मिलित किसी पशु का नाम है ।

^१ ८ ५, १८, १ । तु० की० तिसमर . आल्टिन्डिजे लेवेन, ९९ ।

भौवन ('भुवन' का वंशज), शतपथ (१३. ७, १, १५) और ऐतरेय (८. २१, ८. १०) ब्राह्मणों तथा निरुक्त (१०. २६) में पौराणिक विश्वकर्मन् का पैतृक नाम है ।

भौवायन ('भुव' का वंशज), पञ्चविंश ब्राह्मण^१ में कपिवन का पैतृक नाम है । यह यजुर्वेद संहिताओं^२ में भी मिलता है ।

^१ २०, १३, ४ ।

^२ काठक संहिता ३२ २ (इन्डिशे स्टूडियन ३, ४७३), मैत्रायणी संहिता, १ ४, ५, और वाजसनेयि संहिता १३ ५४,

जहाँ 'कपिवन' का उल्लेख नहीं है ।

तु० की० हॉपकिन्स . ट्रा० सा० १५, ५५, ६९ ।

भ्रातृ, ऋग्वेद^१ और उसके बाद से 'भ्राता' के लिये प्रयुक्त साधारण शब्द है । सामान्य रूप से घनिष्ठ मित्र या सम्बन्धी के लिए भी यह शब्द व्यवहृत हुआ है,^२ किन्तु ध्यान रखना चाहिये कि ऋग्वेद^३ में इस प्रकार व्यक्त व्यक्ति देवगण ही हैं जिन्हें परस्पर अथवा स्तुति करनेवाले का भ्राता कहा गया है । अतः प्राचीन साहित्य में इस शब्द का ठीक-ठीक आशय वास्तविक रूप से लुप्त नहीं हुआ है । 'भृ' (पोषण) धातु से इसकी व्युत्पत्ति कदाचित् ठीक है और इसके अनुसार यह अपनी वहन का पोषण करनेवाले के रूप में भ्राता

^१ १ १६४, १; ४ ३, १३, ५ ३४, ४, इत्यादि, अथर्ववेद १ १४, २, २ १३, ५, तैत्तिरीय संहिता ६. २, ८, ४, इत्यादि; 'भ्रातृत्व', ऋग्वेद ८ २०, २२, ८३, ८, १० १०८, १० ।

^२ वौटलिङ्ग और रौधः सेन्ट पीटर्सवर्ग

कोश, व० स्था०, डेलब्रुक : डी० व० ४६२ ।

^३ १ १६१, १, १७०, २, ३ ५३, ५, ४. १, २, ६ ५१, ५, ८ ४३, १६ । तु० की० अथर्ववेद ४. ४, ५, ५. २२, १२ ।

का द्योतक है। इस तथ्य के साथ भी दृश्यकी सगति है कि वैदिक साहित्य में पिता की मृत्यु के पश्चात् भ्राता ही वधन का रक्षक होता था, और भ्रातृ-विहीन (अभ्रातृ) कन्याओं को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ना था। घर में मन्त्र-न्धियों का महत्त्व-क्रम छान्दोग्य उपनिषद् की उस तालिका से व्यक्त होता है जहाँ पिता, माता, भ्राता, और भगिनी का क्रम से उल्लेख है। भ्राताओं के बीच कलह का भी अक्सर उल्लेख है।^६

^४ ऋग्वेद १. १२४, ७, ४ ५, ५; अथर्व-
वेद, १. १७, १, तिसमर आटिटन्दिशे
लेवेन ३०८। तु० की० अयोग्य।

^५ ७ १५, २।

^६ तु० की० अथर्ववेद ३ ३०, २, शतपथ

ब्राह्मण ४ १, ५, ३, जहाँ यह एक
गम्भीर अस्तव्यसना का निहृद है, ज०
३० ओ० सो० ११, ०५१, मन्मफोन्ट
अथर्ववेद, ७०।

भ्रातृव्य, अथर्ववेद के एक स्थल पर मिलता है, जहाँ इसका भ्राता और भगिनी के साथ उल्लेख होने के कारण यह निश्चित रूप से किसी मन्त्रन्धी का ही द्योतक होगा। इससे 'पिताके भ्राताके पुत्र', अर्थात् 'चचेरे भाई' का आशय प्रतीत होता है, क्योंकि केवल यही आशय अथर्ववेद में अन्यत्र और अन्य सहिताओं तथा ब्राह्मणों में मिलनेवाले 'शत्रु' या 'प्रतिद्वन्दि' के आशय का समाधान करता है। एक सम्मिलित परिवार में चचेरे भाइयों का सम्बन्ध अत्यन्त सरलता के साथ शत्रुता या प्रतिद्वन्द्विता में परिणत हो सकता है। फिर भी, इसका मूल अर्थ 'भतीजा' रहा हो सकता है, जैसा कि हमके साधारण व्युत्पत्तिजन्य आशय 'भ्राता का पुत्र' से व्यक्त होता है, किन्तु यह आशय इसके वाद के अर्थ का उतने संतोषप्रद रूप से समाधान नहीं करता।

^१ ५ २२, १२, और सम्भवतः १० ३, ९।

^२ विहट्ने ने अथर्ववेद (१०. ६, १; १५
१, ८) के अनुवाद में इस शब्द का
'चचेरा भाई' ही अनुवाद किया है।

^३ २ २८, १, ८ १०, १८ ३३, १०
९, १।

^४ तैत्तिरीय सहिता ३ ५, ९, २, इत्यादि,
काठक सहिता १० ७, २७ ८;
वाजसनेयि सहिता १ २७, पेत्रेय

ब्राह्मण ३ ७, इत्यादि, शतपथ ब्राह्मण
१. १, १, २१, इत्यादि, पञ्चविंश
ब्राह्मण १० १३, २। तु० की०
ऋग्वेद ८ २१, १३।

^५ विहट्ने अथर्ववेद (२ १८, १) के
अनुवाद में इस शब्द का 'विरोधी'
अनुवाद करते हुये टिप्पणी में यह
व्याख्या करते हैं कि इसका वास्तविक
अर्थ 'भतीजा' या 'भ्राता पुत्र' है।

काठक संहिता^६ में 'भ्रातृव्य' से मिथ्या-भाषण की अभिव्यक्ति की गई है, और वाद की संहिताओं तथा ब्राह्मणों^७ में इसके लिये 'द्विपन्', 'अप्रिय', और 'पाप्मन्' आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद^८ में भी विभिन्न प्रकार के ऐसे अभिचार उपलब्ध हैं जिनके द्वारा अपने प्रतिद्वन्द्वियों को बहिष्कृत या विनष्ट किया जा सकता है।

^६ २७, ८।

^७ देखिये नोट ४ में उद्धृत अनेक स्थल।

^८ ० १८, १; १०, ९, १, इत्यादि। तु० की० तैत्तिरीय संहिता १ ३ ० १, इत्यादि।

तु० की० डेलब्रुक : डी० व० ५०१, ५०६, ५०७, जिनका विचार है कि

इससे एक प्रकार के भ्राता का अर्थ है, और आरम्भिक पारिवारिक स्थितियाँ चचेरे भाइयों तक ही सीमित थीं; वीटलिङ्ग और रौथ सेन्ट पोर्टर्सवर्ग कोश, व० स्था०, वेबर इन्डिशे स्टूडियन १७, ३०७।

भ्रूण-हन और भ्रूण-हत्या, एक ऐसे अपराध को व्यक्त करनेवाले शब्द है जिसे वाद की संहिताओं^९ में बहुधा ही अत्यन्त गम्भीर और निषिद्ध बताया गया है। इसका पाप मिटाया नहीं जा सकता। अनेक वाद के स्थलों^{१०} पर भी इसी अपराध का, सदैव तीव्र निन्दात्मक रूप से ही सन्दर्भ मिलता है। यह तथ्य अकेले ही उस सिद्धान्त^३ की त्रुटि को व्यक्त करने के लिये पर्याप्त है, जिसके अनुसार ऐसा माना गया है कि यदि पिता चाहता था तो एक बार जन्म ले लेने पर भी अपनी पुत्री को मृत्यु के लिये छोड़ दे सकता था।

^९ मैत्रायणी संहिता ४ १, ९, काठक संहिता ३१ ७, कपिष्ठल संहिता ४७ ७ (डेलब्रुक : डी० व० ५७९, ५८०, में उद्धृत), अथर्ववेद ६ ११२, ३, ११३, २। तैत्तिरीय संहिता ६ ५, १०, ३ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ २, ८, ११, में इसके स्थान पर 'ब्रह्म-हन' है, किन्तु देखिये वही, १२।

^{१०} तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ९, १५, ३, तैत्तिरीय आरण्यक २ ८, २, १० १, १५, बृहदारण्यक उपनिषद् ४ ३, २२। विशेष्य के रूप में इन स्थलों पर

मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ८, २०, १, तैत्तिरीय आरण्यक २ ७, ३; ८, ३, कौषीतकि उपनिषद् ३ १, शाङ्खायन श्रौत सूत्र १६ १८, १९; निरुक्त ६ २७। 'भ्रूण', ऋग्वेद १०. १५५, २ में आता है।

^३ देखिये पति, और उसका नोट १३१।

तु० की० वेबर : इन्डिशे स्टूडियन ९ ४८१, १०, ६६, ब्लूमफील्ड . अ० फा० १७, ४३०, अथर्ववेद के सूक्त ५२१, ५२२।

म

मकक, एक बार अथर्ववेद (८. ६, १२) में मिलनेवाला ऐसा शब्द है जो किसी अज्ञात प्रकार के पशु का नाम हो सकता है । किन्तु सम्भवतः यह एक विशेषण है जिसका 'रेभण' जैसा कुछ आशय है ।

मकर को, जो कि एक पशु, सम्भवतः 'मगर'^१ का नाम है, यजुर्वेद संहिताओं^२ में अश्वमेध के वलि-प्राणियों की तालिका के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है ।

^१ हिन्दू अलङ्कारिक मूर्तियों के रूप में 'मकर' मूलतः 'मगर' को ही व्यक्त करता था । तु० की० एनुअल रिपोर्ट ऑफ आर्कियालौजिकल सर्वे ऑफ इन्डिया, १९०३-४, पृ० २२७-२३१ में कजिन का लेख (जहाँ वरुण और गङ्गा के वाहन के रूप में 'मकर' आता

है । तु० की० ३० पु० १९०४-५, पृ० ८०, ८३, ८४ भी ।

^२ तैत्तिरीय संहिता ५ ५, १३, १, मैत्रायणी संहिता ३ १४, १६, वाजसनेयि संहिता २४ ३५ । तु० की० तिसमर . आस्टिन्डिशे लेवेन, ९७ ।

मक्ष (मक्खी), ऋग्वेद^१ और अथर्ववेद^२ में मिलता है जहाँ मीठी वस्तु के प्रति इसके प्रेम का उल्लेख है । तु० की० अन्नसद ।

^१ ४ ४५, ४, ७ ३०, २ ।

^२ ९ १, १७ (

तु० की० तिसमर आस्टिन्डिशे लेवेन, ९७ ।

मक्षा, मक्षिका, ऋग्वेद और उसके बाद से 'मक्खी'^१ और 'मधुमक्खी'^२ दोनों के ही द्योतक हैं ।

^१ 'मक्षिका', ऋग्वेद १. १६०, ९, अथर्ववेद ११ १, २; ९, १०, बृहदारण्यक उपनिषद् ३ ३, २ ।

^२ 'मक्षा' ऋग्वेद १०. ४०, ६, 'मक्षिका' १ ११९, ९; प्रश्न उपनिषद् २ ४,

जहाँ एक 'राजा मधुमक्खी' (मधुकर-राजन्) का उल्लेख है ।

तु० की० तिसमर . आस्टिन्डिशे लेवेन, ९७, हिलेब्रान्ट वेदिशे माइथोलोजी, १, २४०, नोट १ ।

मख, ऋग्वेद^१ के दो स्थलों पर किसी व्यक्ति का द्योतक प्रतीत होता है, किन्तु इन दोनों में से किसी भी स्थल का सन्दर्भ इस बात को प्रकट नहीं करता कि यह कौन था । सम्भवतः इससे एक प्रकार के दानव का अर्थ

^१ ९, १०१, १३, जहाँ 'मग्' के धिरोधियाँ के रूप में मृगुओं का उल्लेख है (तु० की०

मैकडोनेल वैदिक माइथोलोजी, पृ० ५१), १० १७१, २ ।

है। बाद की संहिताओं^२ में 'मख के मस्तक' का भी उल्लेख है, किन्तु ब्राह्मण-ग्रन्थों^३ के लिये यह व्याहृति अवोधगम्य है।

^२ वाजसनेयि संहिता ११. ५७; ३७ ७,
नैत्तिरीय संहिता १, १, ८, १, ३ २,
४, १।

^३ शतपथ ब्राह्मण १४. १, २, १७।
तु० की० सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश,
व० स्था०।

मगध, एक ऐसी जाति के लोगों का नाम है, जिनका अल्प प्रसिद्धिवाले लोगों के रूप में वैदिक साहित्य में सर्वत्र उल्लेख है। यद्यपि यह नाम वस्तुतः ऋग्वेद^१ में नहीं मिलता, तथापि अथर्ववेद^२ में आता है जहाँ उजर को उत्तर में गान्धारियों और मूजवन्तों पर तथा पूर्व में अज्जों और मगधों पर स्थान्तरित होने की स्तुति की गई है। पुनः यजुर्वेद^३ में 'अति-क्रुष्ट' (तीव्र ध्वनि, ?) को समर्पित किये जानेवाले के रूप में 'मागध', अथवा मगध के निवासी को पुरुषमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में सम्मिलित किया गया है, जब कि अथर्ववेद^४ के ब्रात्य-सूक्त में 'मागध' को ब्रात्य के साथ, उसके 'मित्र', 'मन्त्र', 'हास' और चतुर्दिक गर्जन के रूप में, सम्बद्ध किया गया है। श्रौत सूत्रों^५ में ऐसा कथन है कि ब्रात्य को आर्य-ब्राह्मण समुदाय के अन्तर्गत सम्मिलित करने के पूर्व उसके विशेष उपकरणों को मगध-निवासी एक अश्रेष्ठ ब्राह्मण (ब्रह्म-बन्धु मागध-देशीय) को दे दिया गया था, किन्तु पञ्चविंश ब्राह्मण^६ में यह तथ्य नहीं मिलता। दूसरी ओर कभी-कभी मगध में प्रतिष्ठित ब्राह्मण भी निवास करते थे, क्योंकि कौपीतिक आरण्यक^७ में मध्यम, प्रातीवोधी-पुत्र, आदि को 'मगध-वासिन्' कहा गया है। फिर भी, इसे एक असाधारण घटना मानते हुये औद्वेनवर्ग^८ स्पष्टतः ठीक प्रतीत होते हैं।

^१ देखिये कीकट।

^२ ५ २०, १४, जहाँ पैप्पलाद शाखा में 'मयेभिः' है, जो केवल एक गम्भीर अशुद्धि है, किन्तु अज्जों के स्थान पर काशियों को सम्मिलित किया गया है।

^३ वाजसनेयि संहिता ३० ५ २०, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, १, १।

^४ १५ २, १-४।

^५ लाट्यायन श्रौत सूत्र ८ ६, २८, कात्या

यन श्रौत सूत्र २२ ४, २२।

तु० की० पञ्चविंश ब्राह्मण १७ १,
१६ १७ पर सायण।

^६ १७ १, १६।

^७ ७ १३, ऐतरेय आरण्यक के आरम्भिक अंशों में इसका उल्लेख नहीं है।

^८ बुद्ध, ४००, नोट, वेबर : इन्डियन लिट-
रेचर ११२, नोट।

वैधायन तथा अन्य सूत्रों^१ और सम्भवतः ऐतरेय आरण्यक^{१०} में भी, मगध-गण, प्रत्यक्षतः एक जाति के रूप में ही आते हैं। अतः त्सिमर^{११} का यह विचार अत्यन्त असम्भाव्य प्रतीत होता है कि, यजुर्वेद^३ और अथर्ववेद^४ में 'मागध' एक मगध-वासी नहीं वरन् एक वैश्य से विवाहित क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न मिश्रित जाति का सदस्य है।^{१२} मिश्रित जाति के सिद्धान्त का, जो कि निश्चित रूप से कुछ सन्दिग्ध है, 'मागध' जैसे स्पष्ट जातीय नामों की व्याख्या के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस तथ्य का कि वाद के समय में अक्सर 'मागध' को चारण माना गया है, इस मान्यता से समाधान हो जाता है कि यह देश चारणों का गृह था और इसलिये मगध के भ्रमण-शील चारण पश्चिम के देशों में भी जाते रहे होंगे। वाद के ग्रन्थों में इस वर्ग को एक ऐसी जाति कहा गया है जिसकी उत्पत्ति पूर्व-स्थापित जातियों के बीच अन्तर-वैवाहिक सम्बन्धों से हुई मानी गई है।

क्रीकटों के भी कदाचित् मगधों का ही प्रतिरूप होने के कारण मगधों के प्रति घृणा का भाव, जो ऋग्वेदिक हो सकता है और जैसा कि औल्डेनवर्ग^{१३} का विचार है, बहुत कुछ इस तथ्य के कारण विकसित हो गया था कि मगध-गण चास्तव में ब्राह्मण-धर्मावलम्बी नहीं थे। यह शतपथ ब्राह्मण^{१४} के इस प्रमाण के भी सर्वथा अनुकूल है कि अत्यन्त आरम्भिक काल में न तो कोसल और

^१ वैधायन धर्म सूत्र, १. २, १३, वैधायन श्रौत सूत्र २० १३, आपस्तम्ब श्रौत सूत्र, २२ ६, १८, हिरण्यकेशि श्रौत सूत्र १७. ६। देखिये, कैलण्ड त्सी० नो० ५६, ५५३।

^{१०} २ १, १। देखिये, कोथ : ऐतरेय आरण्यक, २००, शाङ्खायन आरण्यक ४६, नोट ४।

^{११} आस्टिन्डिशे लेवेन, ३५। तु० की० सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था०, २ (ग)।

^{१२} मउ, १० ११, गौतम धर्म सूत्र, ४ १७। इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण उ० स्था० पर सायण 'मागध' की व्याख्या करते हैं और वाजसनेयि सहिता पर

महीधर इसे एक पाठ के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

^{१३} बुद्ध, ४००, नोट।

^{१४} १ ४, १, १० और वाद, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, १७० और वाद, औल्डेनवर्ग • उ० पु० ३९८। यहाँ 'विदेह' की अपेक्षा 'कोसल' पर ब्राह्मण धर्म का अधिक प्रभाव प्रतीत होता है, यह विशेष उल्लेखनीय है कि जहाँ 'मागध' की ही भाँति 'विदेह' भी वाद के सिद्धान्त में एक निश्चित जाति के नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, वहाँ 'कोसल्य' इतना पतित नहीं है (औल्डेनवर्ग, ३९९, नोट)।

न विदेह ही ब्राह्मण-धर्मावलम्बी थे । मगध-गण तो और भी कम । वेबर^{१५} ऐसे दो अन्य आधार भी प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने वस्तुस्थिति को प्रभावित किया हो सकता है—आदिवासी रक्त का संचार और घौधद्धर्म का विकास । यह वाद का आधार यजुर्वेद अथवा अथर्ववेद के लिये कदाचित ही व्यवहृत हो सकता है; किन्तु इसके स्थान पर यदि औल्डेनवर्ग के विचार के अनुसार ब्राह्मणत्व के अपर्याप्त प्रसार के सिद्धान्त को मान लिया जाय तो उसमें कुछ शक्ति होगी । औल्डेनवर्ग के सन्देह के विपरीत भी प्रथम आधार सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है । पार्जिटर^{१६} ने तो यहाँ तक कहा है कि मगध में जाकर आर्यों को पूर्व से समुद्र-मार्ग से आये आक्रामकों का सामना करना पड़ा और वह उनके साथ मिश्रित हो गये । यद्यपि वैदिक ग्रन्थों में इस दृष्टिकोण के समर्थन के लिये कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तथापि यह मान लेना तर्क-सम्मत हो सकता है कि आर्यगण जितना ही अधिक पूर्व में बढ़ते गये, आदिवासियों पर उतना ही कम अपना प्रभाव डाल सके । आधुनिक वंश-विज्ञान द्वारा इसकी इस अंश तक पुष्टि होती है कि हम ज्यों-ज्यों पूर्वी भारत की ओर बढ़ते हैं आर्य-जातीय गुणों में क्रमिक कमी लक्षित होती है । फिर भी, भारत में जातियों के अत्यन्त अन्तर-मिश्रण के कारण इस प्रकार का प्रमाण निर्णायक नहीं है ।

^{१५} देखिये इन्डिशे स्टूडियन १, ५२, ५३, १८५, १०, ९०, इन्डियन लिटरेचर ७९, नोट १, १११, ११२ ।

^{१६} ज० ए० सो० १९०८, पृ० ८५१-८५३
तु० की० रिज डेविड्स : बुद्धिस्त इन्डिया, ६, २४, २६०, २६७ ।

मगुन्दी, अथर्ववेद के एक सूक्त^१ में आनेवाले किसी ऐसे घातक जीव का नाम है जिसका दुष्प्रभावों को उत्पीड़ित करने के लिये प्रयोग किया गया है । इस मन्त्र द्वारा गोष्ठों, रथों और ग्रहों से 'मगुन्दी की पुत्रियों को वहिष्कृत किया जाता था । यह निश्चित नहीं है कि इससे पशु, कीटाणु, अथवा दानवी, किसका अर्थ है ।^२

^१ २ १४, २ ।

^२ तु० की० बिह्ट्ने . अथर्ववेद का अनुवाद, ५८ ।

मघ, ऋग्वेद^३ में 'उदारता' का द्योतक है । पुरोहितों को उदारता-

^३ १ ११, ३; १०४, ५; ३ १३, ३, १९, १, ४ १७, ८, ५ ३०, १२; ३२, १२, इत्यादि, निरुक्त ५ १६ । वाद

में अत्यन्त दुर्लभ रूप से, यथा, वाजसनेयि संहिता २० ६७ ।

पूर्वक दान देनेवालों का वैदिक नाम 'मघवन्'^२ है। 'मघवन' लोग इससे कुछ और अधिक थे, अथवा वैदिक समाज में इनका एक वर्ग के रूप में कोई विशेष पद होता था, यह अनिश्चित है। देखिये सभा।

^२ ऋग्वेद १ ३१, १२; २ ६, ४, २७, १७, ५, ३९, ४, ४२, ८; ६ २७, ८, इत्यादि। इसी प्रकार 'मघ-त्ति', ऋग्वेद ४ ३७, ८, ५ ७९, ५, ८ २४, १०, इत्यादि, 'मघ-देय', ७ ६७, ९, १०. १५६, २, 'मघवत्-त्व', ६ २७, ३। मघवन्' शब्द ऋग्वेद (३ ३०, ३, ४ १६, १, ३१, ७, ४२, ५, इत्यादि) में इन्द्र की विशिष्ट उपाधि

और वैदिकोत्तर साहित्य में इन्द्र का नाम ही बन गया है। अन्यथा बाद की संहिताओं तक में यह अत्यन्त दुर्लभ, और प्रत्यक्षतः केवल एक दिव्य उपाधि के रूप में ही आता है (तैत्तिरीय संहिता ४ ४, ८, १, बृहदारण्यक उपनिषद् १. ३, १३, कौपीतिक उपनिषद् २ ११, आदि में यह इन्द्र की उपाधि है।)

मघा—देखिये नक्षत्र और अघा।

मङ्गल, बौधायन श्रौत सूत्र (२६. २) में एक गुह का नाम है।

मङ्गीर, वैतान^१ के एक अस्पष्ट श्लोक तथा अन्य^२ सूक्तों में गायों के सन्दर्भ में मिलता है। यह सर्वथा अनिश्चित है कि इससे नदी अथवा व्यक्ति,^३ किसका अर्थ है। इसी श्लोक में गङ्गा और यमुना, दोनों का ही उल्लेख है। इस शब्द का शुद्ध रूप भी संदिग्ध है।^४

^१ ३४ ९।

^२ मानव श्रौत सूत्र ७ २, ७, 'मन्दोरस्य', कात्यायन श्रौत सूत्र, १३ ३, २१, 'माङ्गीरस्य', आपस्तम्ब श्रौत सूत्र, २१ २०, ३।

^३ प्रत्यक्षत इसी प्रकार, गावैः : वैतान मूत्र

का अनुवाद, ९७, वैलेण्ड • दाम वैतान सूत्र, १०२, बौटलिङ्क : डिकशनरी, व० स्था०।

^४ देखिये नोट २, में विभिन्न विभेदात्मक रूप।

मञ्जिष्ठा का, पेत्रेय (३. २, ४) और शाङ्खायन (८. ७) आरण्यकों में उल्लेख है।

मटची, छान्दोग्य उपनिषद्^१ के एक स्थल पर आता है, जहाँ 'मटचीयों'^२ द्वारा कुरुओं के पराभूत होने का उल्लेख है। शङ्कर ने इस शब्द की 'वज्र' (अशनयः) के रूप में व्याख्या की है, जब कि अपने भाष्य में आनन्दतीर्थ इसका 'पापाण-वृष्टयः' (पत्थरों की वृष्टि) अनुवाद करते हैं, और यही

^१ २ १०, १।

| ^२ 'मटची-हत्'।

भाशय ठीक भी हो सकता है। आनन्दतीर्थ^३ से सहमत होते हुए शब्दकल्पद्रुम^४ का यह कथन है कि 'मटची', एक प्रकार की छोटी लाल चिड़िया' (रक्त-वर्ण-शुद्ध-पक्षि-विशेष) का द्योतक है। जैकव^५ के विचार से इसका 'टिड्डी' अर्थ है।

^३ ब्रह्मसूत्र, ३ ४, २८, पर।

^४ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०।

^५ ज० ए० सो० १९११, पृ० ५१०।

मणि, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में एक ऐसे 'रत्न' का द्योतक है जिसका सभी प्रकार की विपत्तियों के विरुद्ध कवच के रूप में प्रयोग होता था। इससे 'मोती'^३ अथवा 'हीरा'^४ क्या अर्थ है यह स्पष्ट नहीं।^५ ऐसा प्रतीत होता है कि मणि को धागे (सूत्र) में लटकाया जा सकता था क्योंकि पञ्चविंश ब्राह्मण^६ और अन्यत्र^७ ऐसा उल्लेख है। मणि को निश्चित रूप से गले में भी पहना जाता था, क्योंकि ऋग्वेद^८ में 'मणि-ग्रीव' विशेषण आता है। शाङ्खायन धारण्यक^९ में 'वित्त्व' के एक कवच की प्रशस्ति तथा अनेक प्रकार के कवचों की गणना मिलती है।^{१०} यजुर्वेद^{११} में 'मणि-कार' को पुरुषमेध के वलि-प्राणियों की तालिका के अन्तर्गत रक्खा गया है।

^१ १. ३३, ८।

^२ अथर्ववेद, १ २९, १, २ ४, १ २, ८ ५, १ और वाद, १० ६, २४, १२ १, ४४, तैत्तिरीय संहिता ७ ३, ४, १; काठक संहिता ३५ १५; ऐतरेय ब्राह्मण ४ ६, निरुक्त ७, २३, जहाँ दुर्ग ने अपने भाष्य में 'मणि' ओ 'आदित्य-मणि' के अर्थ में ग्रहण किया है; जब कि सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० का विचार है कि ज्वलन्त शीशे के रूप में प्रयुक्त एक 'सितमणि' का अर्थ है।

^३ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०।

^४ तु० की० तिसर : आस्ट्रिन्डिशे लेबेन, ५३।

^५ ऋग्वेद १ ३३, ८, में 'द्विरण्य मणि' का सम्भवतः 'अलङ्कार के रूप में स्वर्ण' अर्थ हो सकता है, किन्तु 'स्वर्ण

(और) रत्न' अर्थ अधिक सम्भाव्य हैं। तु० की० अथर्ववेद १२ १, ४४, जहाँ 'मणि द्विरण्यम्' का 'एक रत्न (और) स्वर्ण' अर्थ ही होना चाहिये।
E २० १६, ६।

^६ जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण १ १८, ८। तु० की० ३ ४, १३, जैमिनीय ब्राह्मण २ २४८, शतपथ ब्राह्मण १२. ३, ४, २।

^७ १ १२२, १४।

^८ १२ १८ और वाद।

^९ १२ १८।

^{१०} वाजसनेयि संहिता ३० ७, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, ३, १।

तु० की० श्रेडर . प्रिहिस्टोरिक ऐन्टिकिटीज़, ३३७, तिसर : उ० पु० २५३; वेबर . ओमिना उन्ट पोर्टेन्टा, ३१७, ३७४, इन्डिशे स्टूडियन, २,

२, नोट ४, ५, ३८६, १८, ३७, प्रो०
अ० १८९१, ७९६ । वेवर 'मणि'
को वेविलोनिया से व्युत्पन्न मानने का

विचार व्यक्त करते हैं (तु० की०
मना) किन्तु इस विचार के पक्ष में
प्रमाण विश्वसनीय नहीं हैं ।

मणिक, अद्भुत ब्राह्मण^१ नामक एक वाद के ग्रन्थ, तथा सूत्रों^२ में बृहत्
'जल-पात्र' का द्योतक है ।

^१ वेवर : ओमिना उन्ट पोर्टेन्टा, ३१६ ।

३ ९, ६, ७, इत्यादि; शाङ्खायन
गृह्य सूत्र २: १४ ।

^२ आश्वलायन गृह्य सूत्र २ ९, ३, ४, ६,
४, गोभिल गृह्य सूत्र १. १, २६,

मण्ड (संज्ञा), यौगिक शब्द 'नौ-मण्ड' (द्विवचन) में मिलता है और
शतपथ ब्राह्मण^३ में एक नौका के दो 'पतवारों' का द्योतक है ।

^३ २ ३, ३, १५ । तु० की० एगिल्ड :
से० वु० ई० १२, ३४५, नोट ३,
नौ भाष्य का अनुसरण करते हुये

इसके अर्थ के रूप में 'पार्श्व' को ग्रहण
करते हैं, कैलेण्ड : ऊ० वी० ६० ।

मण्डूक, ऋग्वेद^४ और वाद^२ में 'मेढक' का नाम है । इसका ख्रीलिङ्ग
'मण्डूकी' भी मिलता है ।^३ ऋग्वेद^४ के प्रसिद्ध मण्डूक-सूक्त में वर्षा ऋतु के
आरम्भ होते ही पुनः क्रियाशील होकर मण्डूकों की टटराहट के साथ ब्राह्मणों
की तुलना की गई है । मैक्स मूलर^५ ने इस स्थल की ब्राह्मणों पर व्यङ्ग्य होने
के रूप में व्याख्या की है । इसी दृष्टिकोण से सहमत होते हुए गेल्डनर^६ का
विचार है कि यह व्यंग्य इस सूक्त प्रणेता वसिष्ठ द्वारा अन्य प्रतिद्वन्दी ब्राह्मणों,

^४ ७ १०३, १, १० १६६, ५ ।

^२ अथर्ववेद ७ ११२, २, तैत्तिरीय संहिता
५ ४, ४, ३, ७, ११, १, काठक
संहिता १३. १, २१ ७, मैत्रायणी
संहिता ३ १४. २, वाजसनेयि संहिता
२४ ३६, पञ्चविंश ब्राह्मण १२ ४,
१६, शतपथ ब्राह्मण ९ १, २, २०
और वाद, निरुक्त ९ ५ ।

^३ ऋग्वेद १० १६, १४; अथर्ववेद १८
३, ६०, वाजसनेयि संहिता १७ ६,
तैत्तिरीय संहिता ४ ६, १, २, काठक

संहिता १७ १७, मैत्रायणी संहिता
२ १०, १, तैत्तिरीय आरण्यक ६.
४, १ ।

^५ ७ १०७ । तु० की० अथर्ववेद ४ १५,
१२, की जैसी पिश्ल : वेदिशे स्टूडि-
यन, २, २२३, ने व्याख्या की है,
और जहाँ पृथ्वी के विवरों (इरिण)
में रहनेवाले मण्डूकों का सन्दर्भ है ।

^६ ऐन्ड्रेन्ट सस्कृत लिटरेचर, ४९४,
४९५ ।

^६ ऋग्वेद, कमेन्टर, ११७ ।

कदाचित् विश्वामित्रो^७ पर किया गया है। फिर भी, सम्पूर्ण रूप से वही दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है जो इस सूक्त की वर्णा-अभिचार^८ के रूप में व्याख्या करता है। जल के साथ सम्बद्ध होने के कारण मण्डूक को शीतलता प्रदान करनेवाले गुणों से युक्त माना जाता था। अतः शव का अग्नि संस्कार कर लेने के पश्चात्, संस्कार के स्थान को शीतल करने के लिये, मण्डूक को आमन्त्रित किया जाता था।^९ इसी प्रकार अथर्ववेद में ज्वराग्नि के विरुद्ध भी मण्डूक का आवाहन किया गया है।^{१०}

^७ गेडडनर : उ० स्था० बहुत कुछ उपयुक्त रूप से यह व्यक्त करते हैं कि इस वसिष्ठ सूक्त का अन्तिम 'पाद' अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विश्वामित्र-सूक्त (ऋग्वेद ३ ५३, ७) से ही लिया गया है।

^८ वास्क : निरुक्त, ९ ५, ब्लूमफील्ड : ज० अ० ओ० सो० १७, १७३-१७९ तु० की० मैकडौनेल : वैदिक माइथोलोजी पृ० १५१; संस्कृत लिटरेचर,

१२१, १२२।

^९ ऋग्वेद १० १६, १४। देखिये ब्लूमफील्ड : अ० फा० ११ ३४२-३५०; विहिटने के अथर्ववेद के अनुवाद (८५०) में लैनमैन।

^{१०} अथर्ववेद ७ ११६। देखिये ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त, ५६५। तु० की० रिसमर : आस्टिन्डिशे लेवेन, ९५।

१. मत्स्य (मछली) का ऋग्वेद^१ में तो केवल एक बार ही किन्तु बाद में बहुधा^२ उल्लेख है।

^१ १० ६८, ८।

^२ अथर्ववेद ११ २, २५, मैत्रायणी संहिता ३. ९, ५; १४, २, वाजसनेयि संहिता २४ २१ ३४, तैत्तिरीय संहिता २ ६, ६, १; शतपथ ब्राह्मण १. ८, १, १ / प्रलय जल का प्रसिद्ध मत्स्य), छान्दोग्य उपनिषद् १ ४, ३; कौषीतकि उपनिषद् १ २, 'महा-मत्स्य',

बृहदारण्यक उपनिषद् ४. ३, १८। शतपथ ब्राह्मण १३ ४, ३, १२ (तु० की० आश्वलायन श्रौत सूत्र १०. ७, ८, शाङ्खायन श्रौत सूत्र १६. २, २३) में एक 'मत्स्य सामद' का मछलियों के राजा के रूप में मूर्तीकरण किया गया है।

२. मत्स्य, ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर एक जाति के लोगों का नाम प्रतीत होता है, जहाँ इसे सुदास् के अन्य शत्रुओं के साथ रक्खा गया है, यद्यपि इस स्थल पर भी इससे केवल 'मछली' का आशय मानना भी सम्भव है। शतपथ ब्राह्मण^२ में अश्वमेधियों की सूची में ध्वसन् द्वैतवन का एक

^१ ७ १८, ६।

| ^२ १३ ५, ४, ९।

'मत्स्य-राजा' (मात्स्य) के रूप में उल्लेख है। कौपीतिक उपनिषद^३ में वशों^४ के सन्दर्भ में और गोपथ ब्राह्मण^५ में शात्वों के सन्दर्भ में भी, मत्स्य-गण एक जाति के रूप में आते हैं। मनु^६ में कुरुक्षेत्र, मत्स्य-गण, पञ्चाल और शूरसेनक ब्रह्मर्षियों के देश (ब्रह्मर्षि देश) के अन्तर्गत रक्खे गये हैं। इस बात पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं कि मत्स्य-गण बहुत कुछ उसी क्षेत्र में रहते थे जहाँ महाकाव्य-काल में मिलते हैं और यह बहुत कुछ आधुनिक अलवर, जैपुर, भरतपुर आदि का ही क्षेत्र था।^७

^३ ४ १।

^४ यही सर्वसम्भव पाठ है, जो गोपथ ब्राह्मण (१ २, ९) के उस स्थल के साथ तुलना के आधार पर निष्कृष्ट होता है जहाँ 'शात्व-मत्स्येषु' के वाद 'सवश-उशीनरेषु' ('शवश' के रूप में मुद्रण-अशुद्धि) आता है। देखिये कीथ : ज० ए० सी० १९०८, ३६७। प्राचीन दृष्टिकोण 'सत्वन्-मत्स्येषु' था, कोवेल का अनुसरण करते हुये मैक्स-

मूलर : से० बु० ई०, १, lxviii।

सेन्ट पीटर्सवर्ग कोप, व० स्था० 'सत्वन्'

^५ १ २, ९।

^६ २ १९, ७ १९३।

^७ देखिये विम्सेन्ट रिमथ . त्सी० गे० ५६, ६७५।

तु० की० फॉन थ्रोडर . इन्डियन्स लिटरेचर उन्ट कल्चर, १६६, वेवर . इन्डिशे स्टूडियन, १, २११, तिसमर . आस्ट्रिन्डिशे लेवेन, १२७।

मदा-वती (मादक), अथर्ववेद^१ में एक प्रकार के पौधे का नाम है।

^३ ६ १६, २, तु० की० ४ ७, ४। तु० की० विह्टने : अथर्ववेद का अनुवाद २९०, ब्लूमफील्ड अथर्ववेद के सूक्त

४६१, तिसमर . आस्ट्रिन्डिशे लेवेन, ७२।

मधुघ (मधु-पौधा^१), अथर्ववेद^२ में एक मीठी जड़ी का नाम है। इसका अक्षर विन्यास बहुत कुछ अनिश्चित है क्योंकि अनेक पाण्डुलिपियों में 'मधुघ'^३ पाठ मिलता है।

^१ इसका शब्दार्थ सम्भवत 'मधु प्रदान करनेवाला' है और भाष्यकार के अनुसार यह शब्द उस 'मधु-दुघ' से व्युत्पन्न हुआ है जो वास्तव में ऋग्वेद (६ ७०, १ ५,) में आता है।

अनुवाद, ३४, ३५, ३५५, ब्लूम-फील्ड अथर्ववेद के सूक्त २७५, तिसमर . आस्ट्रिन्डिशे लेवेन, ६९।

^२ इस शब्द के यह दोनों रूप कदाचित 'म[धु]-दुघ' और 'मधु[दु]घ' के स्थान पर ही अदृष्टवशात् व्युत्पन्न हो गये हैं। तु० की० मैकडौनेल . वैदिक ग्रामर ६४, १ (क)।

^३ १. ३४, ४, ६ १०२, ३। तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, ५, ३८६, नोट; ४०४; विह्टने : अथर्ववेद का

मद्रु ('गोता लगानेवाला', 'मज्ज', अर्थात् 'गोता लगाना', धातु से) एक ऐमे जलीय पक्षी का नाम है जिसका यजुर्वेद संहिताओं^१ में अश्वमेध के वलि-प्राणियों की तालिका के अन्तर्गत और अक्सर अन्यत्र^२ भी उल्लेख है ।

^१ देखिये, मैकडौनेल : वैदिक ग्रामर, ३८
ग, ४४ क, ३ क ।

^२ तैत्तिरीय संहिता ५. ५, २०, १, मैत्रा-
यणी संहिता ३. १४, ३; वाजसनेयि

संहिता २४. २२ ३४ ।

^३ छान्दोग्य उपनिषद् ४. ८, १. २ ।

तु० की० तिसर . अल्टिन्डिशे
लेवेन, ९३ ।

मद्य (मादक-द्रव) का छान्दोग्य उपनिषद्^३ के उस स्थल के पहले उल्लेख नहीं मिलता जहाँ यह 'मद्य-पा' यौगिक शब्द के रूप में आता है ।

^१ ५. ११, ५ । यह शब्द महाकाव्य में, और अक्सर धर्मशास्त्रों तथा चिकित्सा-शास्त्रीय ग्रन्थों में मिलता है ।

मद्रु, एक जाति के लोगों का द्योतक है जिनका वृहदारण्यक उपनिषद्^१ में उल्लेख है; उस समय काप्य पतञ्जल इन्हीं के बीच रहता था । वैदिक साहित्य में अन्यत्र भी केवल एक शाखा के रूप में उत्तर मद्रों का उल्लेख है, जिनका ऐतरेय ब्राह्मण^२ में हिमालय पर्वत के उस पार (परेण हिमवन्तम्) उत्तर कुरुओं के पदोस में, सम्भवतः जैसा कि तिसर^३ का अनुमान है, कश्मीर क्षेत्र में, निवास करनेवालों के रूप में उल्लेख है । उपनिषदों में वर्णित मद्र-गण भी, कुरुओं की ही भाँति, सम्भवतः मध्यदेश के कुरुक्षेत्र नामक स्थान में बसे थे । तु० की० मद्रगार ।

^१ ३. ३, १, ७, १ ।

^२ ८. १४, ३ ।

^३ आल्टिन्डिशे लेवेन, १०२ ।

मद्रु-गार शौङ्गायनि ('शुङ्ग' का वंशज) उस गुरु का नाम है, जिसका वंश ब्राह्मण^१ के अनुसार काम्बोज औपमन्यव क्षिप्य था । सम्भावनापूर्वक तिसर^२ का यह निष्कर्ष है कि इन नामों से 'कम्बोजों' और 'मद्रों' के सम्बन्ध का सङ्केत मिलता है ।

^१ इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७२ ।

^२ आल्टिन्डिशे लेवेन, १०२ ।

मधु, भोजन के रूप में प्रयुक्त किसी भी मीठे पदार्थ, और विशेषतः

‘मधु’ का द्योतक है और इसका यह आशय ऋग्वेद^२ में अक्सर मिलता है। अधिक उपयुक्ततः यह ‘सोम’^३ अथवा ‘दुग्ध’^४ का, या अपेक्षाकृत कम स्थलों पर उस ‘शहद’^५ का द्योतक है, जो वाद के साहित्य में इसका सर्वाधिक निश्चित आशय है। मधु के प्रयोग के विरुद्ध निषेधों का भी उल्लेख है।^६

^१ व्युत्पत्ति की दृष्टि से यह शब्द यूनानी ‘मेथ’ (*metho*) और ऐंग्लो-सैक्सन ‘मेदु’ (*medu*) के ही समान है।

^२ एक विशेषण (मीठा) के रूप में प्रयुक्त ऋग्वेद १ ९०, ६ ८, १८७, २; ३ १, ८, ४ ३४, २, ४२, ३, वाजसनेयि संहिता ३८, १०, इत्यादि, एक विशेष्य के रूप में ऋग्वेद १ १५४, ४, २ ३७, ५, ३ ३९, ६; ४ ३८, १०, इत्यादि; अथर्ववेद ६ ६९, १, ९. १, २२, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. १, २, ४ १३, इत्यादि।

^३ ऋग्वेद १ १९, ९, २ १९, २, ३४, ५, ३६, ४, ३. ४३, ३, ४ १८, १३, इत्यादि।

^४ ऋग्वेद १, ११७, ६, १६९, ४, १७७, ३, ३. ८, १; ७ २४, २, वाजसनेयि संहिता ६. २, इत्यादि।

^५ ऋग्वेद ८ ४, ८ (जहाँ ‘सारध’ अर्थात्

‘मधु-मक्खी से निष्कृष्ट’, विशेषण द्वारा आशय निश्चित हो जाता है), कदाचित् ४ ४५, ४, ७. ३२, २; ८. २४, २०, भी, और हिलेब्रान्ट . वेदिशे माइथोलोजी, १, २३९ और वाद, के अनुसार अनेक अन्य स्थलों पर; अथर्ववेद ९ १, १७. १९; तैत्तिरीय संहिता ७ ५, १०, १; मैत्रायणी संहिता ४ ९, ७, ऐतरेय ब्राह्मण ७. १५, ८ ५ २०; शतपथ ब्राह्मण १. ६, २, १ २, ११. ५, ४, १८, बृहदारण्यक, २ ५, १; छान्दोग्य उपनिषद् ६ ९, १, इत्यादि।

^६ स्त्री की दशा में, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण १ ५५, २, विद्याधियों का, शतपथ ब्राह्मण ११. ५, ४, १८।

तु० की० श्रेडर प्रिहिस्टोरिक ऐन्टिकिटीज, ३२१; सेन्ट पीटर्सवर्ग कोज़, व० स्या।

मधुक पैङ्गथ (‘पिङ्ग’ का वंशज) एक गुरु का नाम है जिसका शतपथ^१ और कौपीतकि^२ ब्राह्मणों में उल्लेख है।

^१ ११ ७, २, ८; बृहदारण्यक उपनिषद् (८ काण्व)।
६ ३, १७. १८ (माध्यदिन = ६ ३, ^२ १६. ९।

मधु-कशा^१ अथवा मधोः कशा^२ ऋग्वेद में अश्विनो की उस मधु-कशा का नाम है जिससे वह लोग यज्ञों को मधुरता प्रदान करते हैं। रौथ^३

^१ ऋग्वेद १ २०, ३; १५७, ४, अथर्ववेद १० ७, १९, पञ्चविंश ब्राह्मण २१ १०, १२।

^२ अथर्ववेद ९. १, ५।

^३ सेन्ट पीटर्सवर्ग कोज़, व० स्या।

अत्यन्त कुशलतापूर्वक यह अनुमान करते हैं कि इसका विचार, दुग्ध को पीटने के लिये प्रयुक्त नग्नी से युक्त एक उपकरण से जिष्कृष्ट हुआ है ।

मधु-कृत (मधु-निर्माण करनेवाला), वाद की संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में 'मधु-मक्खी' का द्योतक है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता १. ५ ६, ५, ४ २, ९, ६, इत्यादि ।

ब्राह्मण १ ६, २, १ २; छान्दोग्य उपनिषद् ३ १, २, ६ ९, १, इत्यादि

^२ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ १०, १०, १; शतपथ

मधु-छन्दस् का, जो कि ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के दस आरम्भिक सूक्तों का प्रख्यात प्रणेता है, एक ऋषि के रूप में कौपीतिक ब्राह्मण^१ और ऐतरेय आरण्यक^२ में उल्लेख है । ऐतरेय ब्राह्मण^३ में यह विश्वामित्र का इक्यावनवाँ पुत्र है और इसके 'प्रऽउग' (प्रातःकालीन स्तुति-सूक्त) का शतपथ ब्राह्मण^४ में उल्लेख है ।

^१ २८ २ ।

^२ १. १, ३ ।

^३ ७. १७, ७, १८, १; तु० की० शाह्या-यन श्रौत सूत्र १५. २६, १ और वाद ।

तु० की० कीथ . ऐतरेय आरण्यक, १६७ ।

^४ १३ ५, १, ८ ।

मधु-ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण^१ में किसी रहस्यवादी सिद्धान्त का नाम है ।

^१ ४ १, ५, १८, १४ १, ४, १३; बृहदा-रण्यक उपनिषद् २ ५, १६ ।

तु० की० वेवर इन्डिसे स्टूडियन, १, २९० ।

मध्य-देश, मानव धर्म शास्त्र^१ के अनुसार, उस भूभाग का नाम है जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्य, पश्चिम में विनशन और पूर्व में प्रयाग (अब इलाहाबाद) स्थित थे; अर्थात् यह मरुभूमि में सरस्वती के विलीन हो जाने के स्थान से लेकर यमुना और गङ्गा के सङ्गम के बीच स्थित क्षेत्र था । इसी ग्रन्थ^२ में 'ब्रह्मर्षि-देश' को कुरुक्षेत्र, मत्स्यों, पञ्चालों और शूरसेनकों का भूभाग, और ब्रह्मावर्त^३ को सरस्वती तथा दृषद्वर्षी के बीच का विशेष रूप से पवित्र क्षेत्र बताया गया है । बौधायन धर्म सूत्र^४ में आर्यावर्त की 'विनशन' के पूर्व, कालक-वन अथवा कदाचित्त 'हरद्वार' के निकट स्थित

^१ २. २१ ।

^३ २ १७. १९ ।

^२ २. १९ ।

^४ १. २, ९; वसिष्ठ धर्मसूत्र, १ ८ ।

‘कनखल’ के पश्चिम, हिमालय के दक्षिण और ‘पारियात्र’ अथवा ‘पारिपात्र’ पर्वतमाला के उत्तर स्थित भूभाग के रूप में परिभाषा की गई है। यहीं यह भी कहा गया है कि अन्य लोगों^५ के मत से यह यमुना और गङ्गा के बीच का क्षेत्र था, जब कि भाल्लविनों^६ ने इसे सीमावर्ती नदी (अथवा कदाचित् सरस्वती)^७ और सूर्योदय के स्थान के बीच स्थिति भूभाग के रूप में ग्रहण किया था। मानव धर्म शास्त्र^८ भी, जो वसिष्ठ धर्म सूत्र^९ के साथ सहमत है, आर्यावर्त की विन्ध्य और हिमालय के बीच के क्षेत्र के रूप में परिभाषा देता है और कौषीतकि उपनिषद्^{१०} में भी आर्य-देश की सीमाओं के रूप में इन्हीं दोनों पर्वत मालाओं को स्वीकार किया गया है।

‘मध्यदेश’ शब्द वैदिक नहीं है, किन्तु ऐतरेय ब्राह्मण^{११} में ‘मध्यमा प्रतिष्ठा दिश्’ (मध्य में प्रतिष्ठित क्षेत्र) व्याहृत से इसका प्रमाण मिलता है और कुरुओं, पञ्चालों, वशों और उशीनरों को इस क्षेत्र का निवासी बताया गया है। बाद में ‘वश’ और ‘उशीनर’ जातियाँ प्रायः समाप्त हो जाती हैं और मध्यदेश कुरु-पञ्चालों का वह क्षेत्र रह जाता है जहाँ बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों की रचना हुई थी और जिसके पूर्व में कोसल-विदेह थे तथा पश्चिम में

^५ वौधायन १ २, १०; वसिष्ठ, १ १०।

‘कनखल’ के लिये देखिये हुदश इण्डियन ऐण्टिकेरी, ३४, १७९।

^६ वौधायन, १ २, ११. १२, वसिष्ठ १ १४. १५, प्रत्येक दशा में निदान के एक मन्त्र का उद्धरण देते हुये (किस ग्रन्थ का सन्दर्भ है, यह निश्चित नहीं; इसी प्रकार बृहद्देवता ५ २३, के अनुसार निदान में ‘भाल्लवि ब्राह्मण’ का उल्लेख होना भी सन्दिग्ध है, जिसके लिये देखिये मैकडौनेल की टिप्पणी और तु० की० बूहलर . से० वु० ई० १४, ३, नोट।

^७ पाठ सन्दिग्ध है और ‘सिन्धुर् विधारणी’ अथवा ‘विधरणी’ तथा ‘सिन्धुर् विचरणी’ अथवा ‘विसरणी’ आदि पाठ-भेद मिलते हैं। हम बाद की

व्याहृति से सरस्वती का ही तात्पर्य होना चाहिये, प्रथम से भी यही हो सकता है किन्तु अनिवार्यतः ऐसा ही है यह नहीं कहा जा सकता। सम्भवतः ‘सिन्धु’ नदी से तात्पर्य है, क्योंकि यह एक महती सीमा थी, जिसके पूर्व में आर्य जाति निवास करती थी।

^८ २२।

^९ १ ९।

^{१०} २३। तु० की० कीथ शाङ्खायन आरण्यक, २८, नोट १।

^{११} ८ १४, ३। ‘उशीनरों’ को उत्तर में वसा माना जा सकता है, क्योंकि वौद्व-ग्रन्थों में मध्य देश की उत्तरी सीमा के रूप में ‘उशीरगिरि’ का उल्लेख है। देखिये, हुदश इण्डियन ऐण्टिकेरी, ३४, १७९।

मरुभूमि । शतपथ^{१२} और पेटरेय^{१३} दोनों ही ब्राह्मणों में पश्चिमी जातियों को अमान्यता प्रदान की गई है, जब कि कुरु-पञ्चाल देश से कोसलों और विदेहों के ब्राह्मणीकरण की परम्परा शतपथ ब्राह्मण^{१४} में सुरक्षित है ।

^{१२} १. ३, १, ८ ।

^{१३} ३. ४४, ३; लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, २४५ ।

^{१४} १. ४, १ ।

तु० की० बृहल्लर : से० वु० ई० १४, २, ३; १४६, १४७ जो यह व्यक्त करते हैं कि 'पारिपात्र' पर्वत मालवा में विन्ध्य पर्वतमाला का ही एक भाग है । आपका यह भी विचार है कि पश्चिमी सीमा पर मूलतः 'आदर्श' पर्वत था, क्योंकि पाण्डुलिपियों में और वसिष्ठ धर्मसूत्र १. ८, में कृष्ण पण्डित का पाठ 'प्राग् आदर्शनात्' है 'अदर्शनात्' नहीं (व्रीधादन धर्मसूत्र १. २, ९ के 'विनशन' के ही समान), और पाणिनि ०. ४, १० पर महामाघ्य में 'प्राग् आदर्शात्' है । बौद्धों के मध्य देश के लिये भी देखिये रिज डेविड्स ज० ए० सो० १९०४, ८३ और वाद में एक केल और उस पर फ्लीट वही, १९०७, ६५७, के सशोधन, मैक्समूलर : से० वु० ई० ३०, ५८, ५९, इण्डियन एम्पायर, १, ३०३, ३०४, जहाँ इस असाधारण सिद्धान्त को ग्रहण किया गया है कि मध्य देश में आगत आर्यों की एक ऐसी नवीन

जाति बसी थी, जो चित्राल और गिलगिट के मार्ग से आई थी, जिसके साथ स्त्रियों नहीं थीं और जिसने द्रविड स्त्रियों के साथ विवाह करके नथाकथित आर्य-द्रविड जाति को उत्पन्न किया था । इस सिद्धान्त की पुष्टि के लिये वैदिक साहित्य में कोई भी प्रमाण दृढ़ पाना असम्भव है । यह कहना, जैसा कि इस सिद्धान्त के अन्तर्गत कहा गया है, कि 'वैदिक सूक्तों में आर्यों के भारत प्रवेश के मार्ग के, अथवा सिन्धु के किनारे उनकी आरम्भिक वस्तियों के सम्बन्ध में कोई सन्दर्भ नहीं और इसकी इस सिद्धान्त से ही व्याख्या हो सकती हैं कि भारतीय आर्य चित्राल के मार्ग से ही आये थे, एक निरर्थक उक्ति होगी । यह सिद्धान्त वाद की लोक-भाषाओं और उनके सम्बन्धों पर आधारित है (देखिये ग्रियर्सन. इण्डियन एम्पायर, १, ३५७ और वाद), इसे सम्भवतः किसी भी काल के लिये उपयुक्त नहीं मानना चाहिये । जो कुछ भी हो यह आठवीं शताब्दी ई० पू० के लिये तो किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं है ।

मध्य-दिन (मध्याह्न) ऋग्वेद^१, वाद की सहिताओं^२ और ब्राह्मणों^३ में एक बहुप्रयुक्त समय-वाचक शब्द है । तु० की० अहन् ।

^१ ४. २८. ३, ८. १, २९, १३, १३, २७, १९, १० १५१, ५, इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद, ९. ६, ४६, तैत्तिरीय सहिता

६. २, ५, ४, इत्यादि ।

^३ पञ्चविंश ब्राह्मण १५. ९, १६; तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ५, ३, २, शतपथ ब्राह्मण

२. २, ३, ९, छान्दोग्य उपनिषद्
२९, ६, १४, १ इत्यादि । ऐतरेय
ब्राह्मण ३. १०, २ ५, और कौषीतकि
ब्राह्मण २९ ८, में यह शब्द कभी

कभी 'मध्याह्न हवि' (जिस प्रकार
'मध्याह्न के भोजन' के लिये जर्मन
शब्द Mittag) के लिये सक्षिप्त रूप
में भी प्रयुक्त हुआ है ।

मध्यम-वह् रथ के एक विशेषण के रूप में ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर
आता है । इसकी ठीक-ठीक व्याख्या संदिग्ध है । रौथ^२ ने हम व्याहृति को
'रथ-काण्ड के बीच केवल एक अश्व द्वारा रथ चलाते हुये' अर्थ में ग्रहण
किया है । सायण की व्याख्या के अनुसार इसका 'मध्यमगति से रथ चलाते
हुये' अर्थ है । इसका अर्थ 'मध्य तक रथ चलाते हुये' अर्थात् 'केवल आधी दूर
तक'^३ हो सकता है ।

^१ २ २०, ४ ।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था ।

^३ तु० की० औल्डेनवर्ग ऋग्वेद-नोटेन,
१, २१० । यहाँ प्रसंग के अन्तर्गत

'यज्ञ से दूर रहने' के आशय की
आवश्यकता है ।

तु० की० पूर्ववह् ।

मध्यम-शी ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर मिलता है, जहाँ रौथ^२ इस शब्द
को 'मध्यस्थ' का आशय प्रदान करते हैं और जिसे ही रिसमर^३ एक वैधानिक
शब्द के रूप में 'मध्यस्थ' के आशय में ग्रहण कर लेते हैं, किन्तु लैनमैन^४ का
विचार है कि रौथ इस शब्द को इसी सूक्त में व्यक्त व्याधि के 'प्रतिरोधक'
अथवा 'विरोधी' का आशय प्रदान करना चाहते थे । ग्विह्टने^५ का विचार
है कि इससे उस 'मध्य में स्थित मनुष्य' अथवा 'प्रधान' का आशय है, जिसके
चतुर्दिक उसके अनुगामी शिविरस्थ रहते थे ।^६ फिर भी गेल्डनर^७ के विचार
से इससे एक ऐसे तृतीय राजा का आशय है जो दो शत्रुओं के बीच
तटस्थ रहता है ।

^१ १० ९७, २२ = अथर्ववेद ४ ९, ४ =
वाजसनेयि संहिता १७ ८६ ।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० ।

^३ आल्टिन्डिशे लेवेन, १८० । तु० की०
धर्म ।

^४ ग्विह्टने अथर्ववेद के अनुवाद, १५९
में । किन्तु देखिये रौथ . सीवेनजिग
लीडर, १७४, जिस पर लैनमैन की
दृष्टि नहीं पढी प्रनीत होती, क्योंकि

वह इसका उद्धरण नहीं देते ।

^५ उ० स्था० ।

^६ जैमिनीय ब्राह्मण २ ४०८, में 'मध्यम-
शीवन' अस्पष्ट है ।

^७ ऋग्वेद, ग्लॉसर, १३१; कमेन्टर, १९६
(जहाँ आप इसके 'श्व' से नहीं वरन्
'शी' से व्युत्पन्न हुये होने के पक्ष में
निर्णय देते प्रतीत होते हैं ।

मध्यम-स्थ,^१ मध्यमे-ष्ठ^२ वाद की सहिताओं में, अपने अनुगामियों (सजात) के सन्दर्भ में प्रधान का घोटक है । तु० की० मध्यमशी ।

^१ वाजसनेयि सहिता २७ ५ ।

^२ अथर्ववेद ३ ८, २, और तु० की० तैत्ति-
रीय सहिता ४ ४, ५, १, में 'मध्यम-

स्थेय' (प्रधान की स्थिति) ।

तु० की० ऋट्ने . अथर्ववेद का
अनुवाद ९६ ।

मध्या-वर्ष (वर्षा का मध्य) का कौपीतिक ब्राह्मण^१ और सूत्रों^२ में विशेष रूप से वर्ष के एक समय के रूप में उल्लेख है ।

^१ १. ३ ।

^२ शाङ्खायन श्रौत सूत्र, ३ ५, ५ ७, इत्यादि ।

मनस, जो कि ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर आता है, सायण की व्याख्या के अनुसार स्पष्टतः किसी ऋषि का नाम प्रतीत होता है ।

^१ ५ ४४, १० । तु० की० लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद ३, १३९ ।

मना उपहारों की गणना के अन्तर्गत ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर आता है, जहाँ इसे 'स्वर्णिम' (सचा मना हिरण्यया) कहा गया है । अतः यह किसी अलङ्कार अथवा सम्भवतः तौल का घोटक है और इसी दृष्टि से इसकी यूनानी 'मिना' ($\mu\nu\alpha$, हिरोडोटस में $\mu\nu\epsilon\alpha$ है), तथा लैटिन 'मिना' (Mina) के साथ तुलना^२ की गई है । इन तीनों ही शब्दों की उत्पत्ति सेमिटिक मानी गई है, जिसके अनुसार यूनानी शब्द फोनेशियनों^३ से, रोमन (लैटिन) शब्द एट्रूरिया के रस्ते कार्थेज अथवा सिसली से, और भारतीय शब्द वेविलोन से लिये गये हैं । जहाँ तक 'मना' का सम्बन्ध है यह समीकरण अत्यन्त अनुमानात्मक और केवल वेविलोनिया, अर्थात् प्रलय आप्लावन की कथा

^१ ८. ७८, २ ।

^२ नैसा कि, रिसमर : आस्ट्रिन्डिशे लेवेन, ५०, ५१, वेबर इन्डिशे स्टूडियन, ५ ३८६, १७, २०२, २०३, वाकर-नाँगल : आस्ट्रिन्डिशे लेवेन, १, xxii, हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० १६ २७८, आदि ने किया है ।

^३ अथवा सम्भवतः पशिया माइनर के

रास्ते वेविलोनियाँ से । यूनानी जीवन पर फोनेशियनों के प्रभाव को अब अत्यन्त सीमित माना जाने लगा है । जहाँ तक 'मिन' का सम्बन्ध है, इस शब्द के ग्रहण किये जाने में व्यावसायिक अन्तर्क्रियाओं को इसका कारण माना जा सकता है ।

और नक्षत्रों की पद्धति से गृहीत^१ हुये होने की सम्भावना-मात्र पर आधारित है। दूसरी ओर यह 'मना' भी ऋग्वेद^२ में अनेक वार 'इच्छा' के आशय में (मन् अर्थात् 'विचारना' धातु से) आनेवाले उस 'मना' शब्द के समान हो सकता है, जिसका इस स्थल पर 'वाञ्छित पदार्थ' का वास्तविक आशय है। यह भी उल्लेखनीय है कि बौटलिङ्ग के कोश में केवल एक ही 'मना' शब्द आता है जिसे 'इच्छा', 'कामना' और 'ईर्ष्या' जैसे आशय प्रदान किये गये हैं।

^४ देखिये, उदाहरण के लिये, औल्डेनवर्ग • रिलीजन देस वेद, २७६, त्सी० गे० ५०, ४३ और वाद, वूहलर इन्डियन स्टडीज, ३, १६ और वाद; इन्डिशे पालियोग्राफी, १७, विन्सेन्ट स्मिथ • इन्डियन ऐन्टिक्वेरी, ३४, २३०। इसके विपरीत मत के लिये देखिये, मैक्स मूलर इन्डिया, १३३-१३८; हॉपकिन्स • रिलीजन्स ऑफ इन्डिया, १६०, मैकडौनेल • वैदिक माइथोलोजी, पृ० १३९ (जहाँ तक आप्लावन की कथा का सम्बन्ध है), ब्लूमफील्ड रिलीजन्स ऑफ इन्डिया, १३३ और

वाद (जहाँ तक 'आदित्यों' का सम्बन्ध है)।

^५ १. १७३, २, ४ ३३, २; १० ६, ३; वाजसनेयि संहिता ४ १०, 'ईर्ष्या', ऋग्वेद २ ३३, ५, कौशिक सूत्र १०७. २। यह सभी 'मना-य' ('विचारना', ईर्ष्या करना) से भी व्युत्पन्न होते हैं ऋग्वेद १ १३३, ४, २ २६, २, 'मना-यु' (आकाशी): ऋग्वेद १, ९२, ९, ४ २४, ७, 'मनावसु' (भक्ति में सम्पन्न). ऋग्वेद ५ ७४, १।

मनावी ('मनु' की पत्नी) का काठक संहिता^३ और शतपथ ब्राह्मण^४ में उल्लेख है। देखिये मनु।

^१ ३० १ (इन्डिशे स्टूडियन, ३, ४६०)। | ^२ १ १, ४, १६।

मनु को ऋग्वेद^५ अथवा वाद^६ में भी कोई ऐतिहासिकता नहीं प्रदान की जा सकती। यह केवल प्रथम मनुष्य और मानव जाति का पिता, तथा यज्ञ और अन्य विषयों का मार्ग-दर्शक है। अतः मूल ग्रन्थों में वशानुक्रम सम्बन्धी

^३ १ ८०, १६, २ ३३, १३, ८. ६३, १, १० १००, ५, इत्यादि। देखिये मैकडौनेल : वैदिक माइथोलोजी, ५०

^४ अथर्ववेद १४ २, ४१, तैत्तिरीय संहिता, १ ५, १, ३, ७ ५, १५, ३, २ ५,

९, १, ६, ७, १; ३ ३, २, १, ५ ४, १०, ५, ६ ६, ६, १, काठक संहिता ८ १५; शतपथ ब्राह्मण १. १, ४, १४, इत्यादि, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण ३ १५, २, इत्यादि।

दृष्टिकोणों को मनु और उसके सबसे छोटे पुत्र नामानेदिष्ठ^३ पर आरोपित कर दिये गये हैं। जल-प्लावन^४ की वैदिक कथा में भी यह नायक के रूप में आता है !

मनु को 'विवस्वन्'^५ अथवा 'वैवस्वत'^६ ('विवस्वन्त' का पुत्र); 'सावर्णि'^७ ('सवर्णा' का वंशज; सवर्णा अपने विवाह की कथा में 'सरण्यू' के नाम से आती है), और 'सांवरणि'^८ ('संवरण' का वंशज), भी कहा गया है। इनमें से प्रमथ नाम निःसन्देह पौराणिक है। अन्य दो को ऐतिहासिक माना गया है, जिनमें से 'सावर्णि' को लुडविग^९ ने तुर्वशा^{१०} का राजा कहा है, किन्तु यह अत्यन्त सन्दिग्ध है।

^३ तैत्तिरीय संहिता ३ १, ९, ४, ऐतरेय ब्राह्मण ५ १४, १ २।

^४ शतपथ ब्राह्मण १ ८, १, १ और वाद; काठक संहिता ११ २।

^५ ऋग्वेद ८ ५०, १।

^६ अथर्ववेद ८ १०, २४, शतपथ ब्राह्मण १३ ४, ३, ३; आश्वलायन श्रौत सूत्र १०. ७, निरुक्त १२ १०।

^७ ऋग्वेद ८. ५१, १, ब्लूमफील्ड : ज० अ० ओ० सो० १५, १८०, नोट, इसके स्थान पर 'सावर्णि' का ही अनुमान करते हैं। तु० की० शेफ्टे

लोवित्स^{११} डी० ऋ० ३८।

^८ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६६।

तु० की० वेवर . इन्डिशे स्टूडियन १, १९५, हॉपकिन्स . ज० अ० ओ० सो० ११, २४०, लेवी : ल डॉक्ट्रिन डु सैन्तीफाइस, ११४ और वाद; सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था०, मूर : मस्कृत टेक्स्ट , १^२, १६१ और वाद; वूह्लर . से० बु० ई० २५ lvi और वाद; लैनमैन : संस्कृत रीडर, ३४० और वाद।

मनोर अवसर्पण शतपथ ब्राह्मण^१ में उस पर्वत का नाम है जिस पर आकर मनु की नौका टिक गई थी। महाकाव्य में इसका नाम 'नौवन्धन' है, किन्तु उस दृष्टिकोण^२ का कि अथर्ववेद^३ में इससे (नौवन्धन से) नावप्रभंशन ही उद्दिष्ट है अव परित्याग^४ कर दिया गया है।

^१ १. ८, १, ८।

^२ देखिये मैकडौनेल : वैदिक माइथोलोजी पृ० १३९, विह्टने : इन्डिशे स्टूडियन, १, १६२, तिसमर . आल्टिन्डिशे लेवेन ३०; ब्लूमफील्ड . अथर्ववेद के सूक्त,

१० वै० इ० द्वि०

६७६।

^३ १९ ३९, ८।

^४ विह्टने . अथर्ववेद का अनुवाद ९६१; मैकडौनेल ज० ए० सो, १९०७, ११०७।

मनुष्य-राज^१ और मनुष्य-राजन्^२, दोनों ही वाद की संहिताओं और ब्राह्मणों में 'मनुष्यों के राजा' के द्योतक हैं । तु० की० राजन् ।

^१ वाजसनेयि संहिता २४ ३०, ऐतरेय ब्राह्मण १, १५, ६, काठक संहिता २४ ७ ।	^२ पञ्चविंश ब्राह्मण १८ १०, ५; ऐतरेय ब्राह्मण ८. २६, ४ ।
---	--

मनुष्य-विश^१, मनुष्य-विश^२ और मनुष्य-विशा^३ वाद की संहिताओं और ब्राह्मणों में 'मानव जाति' के द्योतक हैं ।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण १ ९, १ ।	^२ ५, ३ ।
^२ तैत्तिरीय संहिता ५, ४, ७, ७, ६ १,	^३ काठक संहिता ११. ६; २३. ८ ।

मन्त्र ('मन्' अर्थात् विचारना, धातु से), ऋग्वेद^१ और वाद^२ में गायकों के सृजनात्मक विचारों के उत्पादन के रूप में 'सूक्त' का द्योतक है । ब्राह्मणों^३ में इस शब्द का ऋषियों की पद्यात्मक और गद्यात्मक उक्तियों के लिये नियमित रूप से प्रयोग किया गया है । इसके अन्तर्गत न केवल संहिताओं के पद्यात्मक ही वरन् वह गद्यात्मक स्थल भी आ जाते हैं जो अपनी शैली के द्वारा अपनी विशेष तथा पुरातन प्रकृति को व्यक्त करते हैं ।^४

^१ १ ३१, १३, ४०, ५, ६७, ४, ७४, १, १५२, २, २ ३५, २, इत्यादि ।	निरुक्त, ७. १, इत्यादि, छान्दोग्य उपनिषद् ७. १, ३ ।
^२ अथर्ववेद १५. २, १, १९ ५४, ३, तैत्तिरीय संहिता १. ५, ४, १; ५, १, इत्यादि ।	^४ ब्लूमफील्ड 'वैदिक कॉन्कोर्डेंस' viii, कीथ ऐतरेय आरण्यक २९८ । मैकडौनेल के वैदिक ग्रामर में पद्य अथवा गद्य दोनों ही प्रकार की वैदिक संहिताओं की समस्त मन्त्र सामग्री को इसके अन्तर्गत रक्खा गया है ।
^३ ऐतरेय ब्राह्मण ५ १४, २३; ६ १, कौपीतिक ब्राह्मण २६ ३, ५, शतपथ ब्राह्मण १ ४, ४, ६, ११. २, १, ६,	

मन्त्र-कृत्, ऋग्वेद^१ और ब्राह्मणों^२ में 'मन्त्रों के रचयिता' का द्योतक है ।

^१ ९ ११४, २ ।	१३ ३, २४, तैत्तिरीय आरण्यक
^२ ऐतरेय ब्राह्मण ६. १, १, पञ्चविंश ब्राह्मण	४ १, १ ।

मन्थ, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में एक ऐसे पेय का द्योतक है जिसमें कुछ ठोस पदार्थों, सामान्यतया अम्ले हुये जौ (सक्तु) को दूध में मिलाकर और

^१ १० ८६, १५ ।	६, २, १८. ४, ४२; २० १२७, ९;
^२ अथर्ववेद २. २९, ६, ५. २९, ७, १०	तैत्तिरीय संहिता १ ८, ५, १, इत्यादि

मथकर तैयार किया जाता था ।^३ शांङ्खायन आरण्यक^४ में इस प्रकार के अनेक मिश्रित पेयों का उल्लेख है ।

^३ शतपथ ब्राह्मण ४ २, १, २; सुश्रुत, १, २३३, १०, सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था०, १ (ख) में ।

^४ १२ ८ । तु० की० तिसमरः • आल्टिन्डिशे लेवेन, २६८, २६९, मैकडौनेल : वैदिक माइथोलोजी, १०८ ।

मन्था, ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर 'मन्थनी' का द्योतक है । इसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता^२ में 'मथ्' धातु, मन्थन करने की द्योतक है । अथर्ववेद^३ के एक स्थल पर यह शब्द, मन्थ की ही भाँति, एक पेय के वाचक के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है ।

^१ १. २८, ४ ।

^२ २. २, १०, २, शतपथ ब्राह्मण ५ ३, २, ६, छान्दोग्य उपनिषद् ६ ६, १ । तु० की० हिलेब्रान्ट वेदिशे माइथोलोजी, १, १६१ ।

^३ २०, १२७, ९ । खिल ५ १०, ३ में

शेफ्टेलोवित्स, कश्मीर की पाण्डुलिपि का अनुसरण करते हुये 'मन्थाम्' को प्लुति के साथ पढ़ते हैं, किन्तु यह अथर्वन् के मूलपाठ का मिथ्या-उद्धरण ही है ।

मन्थावल, ऐतरेय ब्राह्मण^१ में किसी पशु, सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश के अनुसार एक प्रकार के सर्प, का नाम है । सायण^२ ने इसे एक ऐसे पशु के अर्थ में ग्रहण किया है जो वृक्षों की शाखाओं पर सर नीचा करके लटका रहता है और जिससे सम्भवतः 'उड़नेवाली लोंमड़ी'^३ (चमगादड़) से तात्पर्य है । तु० की० मान्थाल, मान्थीलव ।

^१ ३ २६, ३ ।

^२ पृ० २९१ (ऑफरेल्त द्वारा सम्पादित) । तु० की० तिसमरः आल्टिन्डिशे लेवेन

८६ ।

^३ वौटलिङ्क : कोश, व० स्था०, के अनुसार इस शब्द का यही सम्भव अर्थ है ।

मन्थिन्, ऋग्वेद^१ और बाद^२ में मन्थन द्वारा सक्तु में मिलाये गये सोमरस का द्योतक है ।

^१ ३. ३२, २, ९ ४६ ४ । तिलक का यह अनुमान कि इससे ग्रहों का तात्पर्य है, अनुपयुक्त प्रतीत होता है । देखिये ओरायन, १६२, विट्टने ज० अ० ओ० सो, १६, २०१४ ।

^२ तैत्तिरीय संहिता ३ १, ६, ३; ६ ४, १०, १; ७ २, ७, ३, वाजसनेयि संहिता ७ १८, ८. ५७, १३. ५७, १८ १९; ऐतरेय ब्राह्मण ३ १, ६, इत्यादि ।

मन्टीर, सम्भवतः एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसके पशुओं ने, कात्यायन श्रौतसूत्र (१३. ३, २१) के अनुसार गङ्गा के जल का पान नहीं किया था । देखिये मङ्गीर ।

१. मन्धातृ, ऋग्वेद^१ के अनेक स्थलों पर आता है, जहाँ सभी स्थानों पर रौथ^२ ने इस शब्द को 'पवित्र व्यक्ति' के आशय में प्रयुक्त एक विशेषण के अर्थ में ग्रहण किया है । एक स्थल^३ पर, जहाँ यह शब्द अग्नि के लिये व्यवहृत हुआ है, इसी आशय में प्रयुक्त है, किन्तु एक अन्य^४ स्थल पर 'मन्धातृवत्' को 'अङ्गिरस्वत्' (अङ्गिरस् की भाँति) के समानान्तर होने के कारण स्वभावतः एक व्यक्तिवाचक नाम मानना चाहिए, और सम्भवतः पिछले सूक्त^५ में भी इस शब्द का यही आशय है । प्रथम मंडल^६ में एक भिन्न मन्धातृ का आशय हो सकता है जहाँ उसका अश्विनों के एक आश्रित, प्रत्यक्षतः किसी राजा, के रूप में उल्लेख है । इन दोनों व्यक्तियों में समीकरण स्थापित करना और मन्धातृ से एक राजर्षि का अर्थ निकालना, जैसा कि लुडविग^७ और ग्रिफिथ^८ मानते हैं, अनावश्यक और असम्भाव्य है ।

^१ ११०, १३; ८. ३९, ८, ४०, १२, १० २, २ ।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश व० स्था० ।

^३ ऋग्वेद १०, २, २ ।

^४ ऋग्वेद ८. ४०, १० ।

^५ ऋग्वेद ८ ३९, ८ ।

^६ ऋग्वेद १ १२२, १३ ।

^७ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १०७, जहाँ आप ऋग्वेद ८ ३९-४० को नभाक (नभाक का वशज) के रूप में इसे आरोपित करते हैं ।

^८ ऋग्वेद के सूक्त, १, १४७ ।

२. मन्धातृ यौवनाश्व ('युवनाश्व' का वंशज) गोपथ ब्राह्मण^१ में एक ऐसे राजा का नाम है जिसको कवन्ध आथर्वण के पुत्र विचारिन् ने शिष्टित किया था ।

^१ १ २, १० और वाद । तु० की० ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद, ११२ ।

मन्था, बहु०, किसी ग्याधि के विरुद्ध प्रयुक्त अथर्ववेद^१ के एक स्थल पर आता है, जहाँ ब्लूमफील्ड^२ ने इस ग्याधि को 'गण्डमाल' के रूप में ग्रहण किया है । आप वाङ्म^३ द्वारा वर्णित 'मन्सकुन्डेर' (यह उन

^१ ८. २५, १ ।

^२ प्रो० सी०, अक्नूवर, १८८७, xix; अ० ५१०, ११, ३२७ और वाद; अथर्ववेद की मूल, ४७२ ।

^३ सिस्टम ऑफ हिन्दू मेडिसिन, ३१६ ।

तु० की० वेवर . इन्डिशे स्टूडियन, १७, २०२; इह्टने : अथर्ववेद का अनुवाद, २९८, २९९ ।

‘मन्या’ और ‘स्कन्ध्या’ शब्दों का समस्त रूप प्रतीत होता है, जो कि अथर्ववेद के उक्त सूक्त के प्रथम और तृतीय मन्त्रों में आते हैं) नामक व्याधि के साथ इसकी तुलना करते हैं ।

ममता, सायण के अनुसार, ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर ‘उचथ्य’ की पत्नी और दीर्घतमस् की माता का नाम है । किन्तु यह शब्द ‘स्वार्थ’ के अर्थ में केवल एक भाववाचक संज्ञा हो सकता है, और वाद की भाषा में अक्सर इसका यही आशय है । औल्डेनवर्ग^२ ऋग्वेद^३ के एक मन्त्र में भरद्वाज के नाम के रूप में ‘ममत’ (पुल्लिङ्ग) का उल्लेख देखते हैं ।

^१ ६ १०, २ । तु० की० महामारत, १
४१७९ और वाद ।

^२ त्सी० गे०, ४२, २१० ।

^३ ६. ५०, १५ जहाँ प्राप्त मूल ग्रन्थ में
‘मम तस्य’ पाठ है ।

मयु, वाजसनेयि संहिता (२२. १९) में एक बार ‘अश्व’ के आशय में मिलता है ।

मयु, यजुर्वेद संहिताओं^१ में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में आता है । तैत्तिरीय संहिता^२ के भाष्यकार ने इस शब्द की ‘वनमानुष’ (किंपुरुष) अथवा ‘जगली मोर’ (आरण्य-मयूर) के अर्थ में व्याख्या की है । प्रथम आशय वाजसनेयि संहिता^२ के उस दूसरे स्थल द्वारा भी पुष्ट होता है, जहाँ, एक मनुष्य के स्थानापन्न के रूप में प्रयुक्त हुये होने के कारण मयु को निश्चित रूप से वनमानुष ही होना चाहिए । यही आशय एक अन्य स्थल^३ पर मिलनेवाले इस शब्द के प्रयोग के भी अनुकूल है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ५ ५, १२, १, वाजस-
नेयि संहिता २४. ३१ ।

^२ ८. ४७, तैत्तिरीय संहिता ४ २, १०, १
में ‘मयु आरण्य’ है ।

^३ शतपथ ब्राह्मण ७ ५, २, २२ ।

तु० की० तिसमर : आस्टिन्डिशे
लेबेन ८५, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन,
९, २४६ ।

मयूख, ऋग्वेद और उसके बाद^१ से मुख्यतः जाल को खिंचा रखने के लिये^२ प्रयुक्त एक खूँटी का छोटक है । तु० की० श्रोतु० ।

^१ ऋग्वेद ७ ९९, ३, तैत्तिरीय संहिता २
३, १, ५, काठक संहिता ११ ६,
पैतरेय ब्राह्मण ५ १५, ९, इत्यादि ।

^२ ऋग्वेद १० १३०, २ (एक रूपक में),

अथर्ववेद १० ७, ४२, काठक संहिता
२६ ६, तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ५, ५, ३,
इत्यादि ।

मयूर, इन्द्र के अश्वों का वर्णन करनेवाले समस्त पदों के रूप में ऋग्वेद में आता है, यथा: 'मयूर-रोमन'^१ (मयूर-पंखों की भाँति रोम वाला), 'मयूर-शेष्य'^२ (मयूर-पंखों की भाँति पूँछ वाला) । यजुर्वेद संहिताओं^३ में अश्वमेध के वलि-प्राणियों की तालिका के अन्तर्गत भी मयूर आता है । ऋग्वेद^४ और अथर्ववेद^५ में मयूरी का उल्लेख है जहाँ दोनों ही दशाओं में विष के विरुद्ध इसके प्रभावशाली होने का संदर्भ है, और यह एक ऐसा अन्धविश्वास है जिसके साथ मयूर-पंख के प्रति आधुनिक अप्रिय भावना की तुलना की जा सकती है ।

^१ ऋग्वेद ३ ४५, १ ।

^२ ऋग्वेद ८ १, २५ ।

^३ मैत्रायणी संहिता ३ १४, ४, वाजसनेयि संहिता २३ २४ २७ ।

^४ १ १९१, १४ (एक वाद का सूक्त) ।

^५ ७ ५६, ७ ।

तु० की० तिसर आस्टिन्डिशे लेवेन, ९० ।

मरीचि, वेवर^१ के अनुसार बहुवचन में उन 'ज्योतिकर्णों' अथवा 'चमकदार कर्णों' का द्योतक है जो प्रकाश-रश्मियों के विपरीत वायुमंडल में व्याप्त रहते हैं । यही अर्थ आरम्भिक वैदिक साहित्य^२ के उन स्थलों के भी अनुकूल है, जहाँ यह शब्द आता है; किन्तु उपनिषदों^३ में 'रश्मि' का, तथा प्राचीन आशय^४ भी, स्पष्ट रूप से मिलता है ।

^१ इन्डिशे स्टूडियन ९, ९, जिसे सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० ने स्वीकार किया है ।

^२ ऋग्वेद १० ५७, १२, १७७, १, अथर्ववेद ४ ३८, ५ (जहाँ 'रश्मि' और 'मरीचि' परस्पर विरोधी हैं), ५ २१, १०, ६ ११३, २, तैत्तिरीय संहिता ६ ४, ५, ५ ('मरीचि-प अर्थात् 'ज्योतिकर्णों का पान करनेवाला'

देवों के लिये प्रयुक्त हुआ है), तैत्ति-ब्राह्मण २ २, ९, २ (जहाँ सायण की 'सर्वत्र-प्रसृत-प्रभा द्रव्य' उक्ति से सर्वत्र व्याप्त प्रकाश का तात्पर्य है), इत्यादि ।

^३ प्रश्न उपनिषद् ४. २ ।

तु० की० तैत्तिरीय उपनिषद् १. १, २, २, १, मैत्रायणी उपनिषद् ६ ३१

^४ ऐतरेय उपनिषद् १ २ ।

मरु का, बहुवचन में तैत्तिरीय आरण्यक^१ में कुरुक्षेत्र के 'उत्कर' (वेदिका^२ को खोदने से निकली हुई मिट्टी का टीला) के रूप में उल्लेख है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मरु प्रदेश (वाद में 'मरु-स्थल'^३) को

^१ ५ १, १ ।

^२ एग्लिङ्ग . से० तु० ई०, १२, २५, ५४ ।

^३ तु० की० तिसर : अस्टिन्डिशे लेवेन,

४८, और धन्वन् ।

तु० की० वेवर . इन्डिशे स्टूडियन १, ७८ ।

इसलिये इस रूप में व्यक्त किया गया है कि इसका कुरुक्षेत्र रूपी वेदिका के साथ वही सम्बन्ध था जो उत्कर की फेंकी हुई मिट्टी और यज्ञ की वेदिका के बीच होता है ।

मरुत आवि-क्षित ('अविक्षित' का वंशज) काम-प्रि ('कामप्र' का वंशज) एक राजा का नाम है जो ऐतरेय ब्राह्मण^१ के अनुसार संवर्त द्वारा अभिषिक्त हुआ था । इसी राजा से सम्बन्धित शतपथ ब्राह्मण^२ के विवरण में इसे आयोगव कहा गया है ।

^१ ८ २१, १२ ।

^२ १३ ५, ४, ६ । तु० की० शाङ्खायन ।

श्रौत सूत्र १६, ९, १४ १६, और

मैत्रायणी उपनिषद् १ ४, भी ।

मरुद्-वृधा^३, ऋग्वेद^२ की 'नदीस्तुति' में असिक्नी और वितस्ता के साथ उल्लिखित एक नदी का नाम है । रौथ^३ का विचार है कि मरुद्-वृधा उस नदी की द्योतक है जो उक्त दोनों नदियों के मिलने के बाद बनती है और परुष्णी में मिलती है । त्सिमर^४ ने इसी मत को स्वीकार किया है । दूसरी ओर, लुडविग^५ का विचार है कि मरुद्-वृधा उस नदी की द्योतक है जो परुष्णी, तथा असिक्नी और वितस्ता की सम्मिलित जल धारा के संगम के बाद बनती है । यह दृष्टिकोण अपेक्षाकृत कम सम्भव प्रतीत होता है ।

^१ शब्दार्थ, 'मरुतों में वृद्धि को प्राप्त करने वाली'—अर्थात् 'तूफानी वर्षा से बढी हुई' । इस नाम का एक अशुद्ध अक्षर-विन्यास, 'मरुद्-वृद्धा', मैकडौनेल की वैदिक साइथोलोजी, पृ० ८०, ८८, पर मिलता है, जिसे उस ग्रन्थ की शब्दानुक्रमणिका और शुद्धि-पत्र में सशोधित

किया गया है । इस नाम के स्वरों के लिये देखिये, पाणिनि, ६, २, १०६, पर वार्तिक २ ।

^२ १०. ७५, ५ ।

^३ त्सु० वे० १३८ और वाद ।

^४ आस्टिन्डिशे लेवेन, ११, १२ ।

^५ ऋग्वेद का अनुवाद ३, २०० ।

१. मर्क, ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर मिलता है, जहाँ रौथ^२ 'सूरो मर्कः' व्याहृति में 'सूर्य-ग्रहण' का आशय देखते हैं । सायण^३ के विचार से इसका अर्थ 'पवित्र करना'^४ है ।

^१ १० २७, २० ।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० । फिर भी आपका विचार है कि यदि इस शब्द का अर्थ 'ग्रहण' है तो यह 'मृच्' (क्षति पहुँचना) धातु से व्युत्पन्न नहीं हो सकता ।

^३ जैसा कि 'मृज्' से निष्कृष्ट होता है, यद्यपि यह व्युत्पत्ति ध्वन्यात्मक दृष्टि से पुष्ट नहीं होती ।

^४ लुडविग ने ऋग्वेद में 'ग्रहण' सम्बन्धी अपने लेख (प्रोसीडिङ्स ऑफ बोहे-मियन अकेडेमी, १८८५) में इस स्थल

को इस बात के प्रमाण स्वरूप उद्धृत किया है कि वैदिक ऋषि चन्द्रमा द्वारा सूर्य-ग्रहण उत्पन्न करने

के तथ्य से परिचित थे, किन्तु देखिये विहट्ने का उत्तर, ज० अ० ओ सौ० १३, Ix1 और वाद, और सूर्य।

२. मर्क, तैत्तिरीय संहिता^१ और अन्यत्र^२ असुरों के पुरोहित के रूप में, शण्ड के साथ उल्लेख है, जब कि बृहस्पति देवों के पुरोहित हैं। मर्क का अन्यत्र भी उल्लेख मिलता है।^३ जैसा कि हिलेब्रान्ट^४ और हॉपकिन्स^५ ने माना है इस नाम पर बहुत कुछ ईरानी प्रभाव हो सकता है। हिलेब्रान्ट^६ ने ऋग्वेद^७ और अन्यत्र^८ उल्लिखित एक 'गृध्र' में भी 'मर्क' का ही प्रतिरूप देखा है।

^१ ६ ४, १०, १।

^२ मैत्रायणी संहिता ४ ६, ३; तैत्तिरीय ब्राह्मण १ १, १, ५, शतपथ ब्राह्मण ४. २, १, ४।

^३ वाजसनेयि संहिता ७. १६. १७।

^४ वेदिशे माइथोलोजी, ३, ४४२ और वाद।

^५ तु० की० ट्रा० सा० १५, ४९, नोट १।

^६ उ० पु० १. २२३ और वाद।

^७ ५. ७७, १।

^८ तैत्तिरीय आरण्यक ४. २९, मैत्रायणी संहिता ४ ९, १९।

तु० की एग्लिङ्ग : से० तु० ई० २६, २७९ और वाद।

मर्कट, (वन्दर) का 'यजुर्वेद संहिताओं'^१ में अश्वमेध के वलि-प्राणियों की तालिका के अन्तर्गत उल्लेख है। 'मुख से पकड़ने वाले' (मुखदान) के विपरीत 'हाथ से पकड़ने वाले' (हस्तादान) के रूप में इसे इन्हीं संहिताओं^२ में मनुष्य और हाथी के साथ वर्गीकृत किया गया है। इस पशु का अनेक बार अन्यत्र^३ भी उल्लेख मिलता है। तु० की० पुरुष हस्तिन्, मयु।

^१ तैत्तिरीय संहिता ५ ५, ११, १; मैत्रायणी संहिता ३ १४, ११, वाजसनेयि संहिता २४ ३०।

^२ तैत्तिरीय संहिता ६ ४, ५, ७, मैत्रायणी संहिता ४. ५, ७।

^३ ऐतरेय आरण्यक ३. २, ४, जैमिनीय ब्राह्मण १ १८४; तैत्तिरीय आरण्यक ३, ११, ३२, इत्यादि।

तु० की० तिस्रमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, ८५।

१. मर्य, ऋग्वेद^१ में एक ऐसे पुरुष का द्योतक है जिसे विशेषतः युवा और प्रेमी माना गया है तथा जिसका नियमित रूप से 'युवतियों (युवती) के साथ रहनेवाले के रूप में उल्लेख है।

^१ ३ ३१, ७; ३३, १०, ४ २०, ५, ९ ९६, २०, इत्यादि, 'मर्य-श्री', २ १०,

५। तु० की० निरुक्त ३. १५; ४. २।

२. मर्य^१, ऋग्वेद^२ के अनेक स्थलों पर 'अश्व'^३ का द्योतक है। एक स्थल^३ पर इसका 'पस्त्यावन्त्' के रूप में उल्लेख है; अर्थात् इसकी सतर्कतापूर्वक देख-रेख की जाती थी और बाहर चरने नहीं दिया जाता था।

^१ ७ ५६, १६, ८ ४३, २५ ।

^२ यह निःसन्देह 'पुरुष' अर्थ वाले १. मर्य का एक विशिष्ट अर्थ मात्र है (तु० की लैटिन Mas, maritus)। यह विशिष्ट अर्थ बहुत कुछ अग्रेजी में

'Sire' के प्रयोग के समान है ।

^३ ऋग्वेद ९ ९७, १८ । सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० २ में रौथ का विचार है कि ऋग्वेद १. ९१, १३ का भी यही आशय हो सकता है ।

मर्यक, केवल एक बार ऋग्वेद^१ में आता है और एक ऐसे बैल का द्योतक प्रतीत होता है जिसे गायों से विच्छुद गया कहा गया है ।

^१ ५, २, ५ । तु० की० औल्डेनवर्ग • ऋग्वेद-नोटन १, ३१३ ।

मर्यादा (सीमा), शतपथ ब्राह्मण^१ में मिलता है, जहाँ इससे कोसलों और विदेहों के बीच की सीमा का सन्दर्भ है। सामान्यतया यह शब्द लाक्षणिक आशय में ही प्रयुक्त हुआ है।^२

^१ १ ४, १, १७ । तु० की० १३ ८, ४, १२ ।

^२ ऋग्वेद ४ ५, १३, १० ५, ६, अथर्ववेद ६ ८१, २ (एक कवच की)। अथर्ववेद के स्थल पर, विहटने (अथर्ववेद का

अनुवाद ३९२) ने इस शब्द के अत्यन्त विचित्र प्रयोग के कारण ही इसे 'मर्य-दा' (पुत्र प्रदान करनेवाला) के रूप में सशोधित किये जाने का विचार व्यक्त किया है ।

मल, ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर, मुनियों के परिधान के लिये प्रयुक्त हुआ है। सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश इसे 'चर्म परिधान'^२ के अर्थ में ग्रहण करता है; किन्तु लुडविग और त्सिमर^३ का विचार है कि इससे केवल 'मलिन' परिधान मात्रा से तात्पर्य है, जो अर्थ निःसन्देह, अथर्ववेद^४ में इस शब्द के साधारण आशय और बड़े-बड़े केशों वाले (केशिन्) मुनियों (मुनि) की प्रकृति के सर्वथा अनुकूल है। तु० की० मलग ।

^१ १०. १३६, २ ।

^२ यदि यह ठीक है, तो इस शब्द को 'चर्म परिष्कार' के आशय में 'मल' से व्युत्पन्न माना जा सकता है। तु० की० चर्मन्, विशेषतः नोट ६ और ७ ।

^३ आल्टिन्डिशे लेवेन, २६२ ।

^४ ६ ११५, ३, ७ ८९, ३, १०. ५, २४ इत्यादि ।

तु० की० श्रेडर : प्रिहिस्टोरिक ऐन्टिक्विटीज, ३३३, नोट ।

मल-ग, अथर्ववेद^१ के एक स्थल पर 'धोत्री' अथवा 'वर्षों का परिष्कार करनेवाले' का द्योतक है; किन्तु इस शब्द की व्युत्पत्ति कुछ अनिश्चित^२ ही है ।

^१ १२ ३, २१ ।

^२ सम्भवत इसका मूलतः 'मल से सम्बद्ध' अर्थ रहा हो सकता है । देखिये सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश व० स्था०, 'ग' १, समस्त पदों में 'ग' के साथ बने

यौगिक शब्दों के लिये; और तु० की० मल ।

तु० की० तिस्रः : आस्टिन्डिशे लेवेन, २६२; ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त, १८८ ।

मलिस्तु, यजुर्वेद संहिता^१ में विशिष्टतः एक 'डाकू' का, किन्तु भाष्यकार महीधर के अनुसार 'चोर' अथवा 'घर में सेंध लगानेवाले' का द्योतक है । तु० की० तायु, तस्कर, स्तेन और देवमलिस्तुच् ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ६ ३, २, ६, वाजसनेयि संहिता ११. ७८. ७९; अथर्ववेद १९ ४९, १० ।

मलिस्तुच, काठक संहिता^१ में एक मलमास का द्योतक है । देखिये मास ।

^१ ३५ १०, ३८ १४ । तु० की० वेवर : ज्योतिष, १००, १०२; नक्षत्र, २, ३५० ।

१. मशक, एक 'काटनेवाली मक्खी' अथवा 'मच्छर' का द्योतक है, जिसका अथर्ववेद^१ में 'शीघ्रता (?) से काटने वाले' (वृप्र-दंशिन), और विषयुक्त दंश से युक्त होने के रूप में वर्णन किया गया है । इसके दंश से हाथियों^२ के विशेष रूप त्रस्त होने का उल्लेख है । अन्यत्र^३ भी इस कीटाणु का सन्दर्भ मिलता है । तु० की० दंश ।

^१ ७ ५६, ३ ।

^२ अथर्ववेद ४ ३६, ९ ।

^३ अथर्ववेद ११. ३, ५, अश्वमेध के समय, मैत्रायणी संहिता, ३. १४, ८, वाजसनेयि संहिता २४ २९, २५ ३; बृहदारण्यक उपनिषद् १ ३, २४

(माध्यदिन = १. ३, २२ काण्व); छान्दोग्य उपनिषद्, ६. ९, ३; १०, २ ।

तु० की० तिस्रः : आस्टिन्डिशे लेवेन, ९७ ।

२. मशक गार्ग्य (गर्ग का वंशज), वंश-ब्राह्मण^१ में स्थिरक गार्ग्य के शिष्य, एक गुरु का नाम है । 'सामवेद के सूत्रों'^२ में भी इसका उल्लेख है । यह एक उपलब्ध कल्पसूत्र का प्रसिद्ध लेखक भी है ।

^१ इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७३, ३८२ ।

^२ लाट्यायन श्रौत सूत्र ७. ९, १४; अनुपद सूत्र ९ ९ ।

तु० की० वेवर इन्डियन लिट-रेचर, ७५, ७६; ८३, ८४ ।

मशशार, लुडविग^१ के अनुसार ऋग्वेद^२ में नहुषों के एक राजा का नाम है ।

^१ ऋग्वेद का अनुवाद ३, २०६ । | ^२ १. १२२, १५ ।

मष्णार, पेत्रेय ब्राह्मण^१ में उस स्थान का नाम है जहाँ एक कुरु राजा ने विजय प्राप्त की थी ।

^१ ८ २३, ३ (तु० की० भागवत पुराण, ५ १३, २६ और वाद; ल्यूमैन : त्सी० गे० ४८, ८०, नोट २ ।

मसूर, वाजसनेयि संहिता^१ और बृहदारण्यक उपनिषद्^२ में एक प्रकार की दाल (*Eryum Hirsutum*) का द्योतक है ।

^१ १८ १२ ।

^२ ६. ३, २२ (माध्यदिन = ६. ३, १३, काण्व) ।

तु० की० वेवर . इन्डिशे स्टूडियन

१, ३५५, तिसमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, २४१ ।

मसूस्य, जो कि तैत्तिरीय ब्राह्मण (३. ८, १४, ६) में आता है, भाष्यकार के अनुसार उत्तर-देश के एक अन्न का नाम है ।

मस्तु, यजुर्वेद संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में 'खट्टी दधि' का द्योतक है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ६, १, १, ४, काठक संहिता ३६ १ ।

^२ शतपथ ब्राह्मण १. ८, १, ७, ३. ३, ३, २, इत्यादि ।

मह-र्तविज्, ब्राह्मणों^१ में चार प्रमुख पुरोहितों—अध्वर्यु, ब्रह्मन्, होतृ, और उद्गातृ—का सामूहिक नाम है ।

^१ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ८, २, ४, शतपथ ब्राह्मण १३ १, १, ४, शाङ्खायन श्रौत सूत्र १६ १, ७, इत्यादि ।

मह-र्षभ, (महान् वैल) का अथर्ववेद (४. १५, १) में उल्लेख है ।

मह-र्षि, का, तैत्तिरीय आरण्यक (१. ९, ६) में उल्लेख है । तु० की० महाब्राह्मण ।

महा-कुल, (महान कुल से उत्पन्न) ऋग्वेद (१. १६१, १) में किसी पात्र अथवा प्याले (चमस) का द्योतक है । इस शब्द का लाक्षणिक प्रयोग यह व्यक्त करता है कि ऋग्वेद के काल में भी कुछ परिवारों की उच्च स्थिति को मान्यता मिल चुकी थी ।

महा-कौषीतक, ऋग्वेद के गृह्यसूत्रों^१ में एक वैदिक ग्रन्थ—महा कौषीतक (ब्राह्मण)—का नाम है ।

^१ आश्वलायन गृह्य सूत्र ३ ४, ४, गुरु के रूप में 'महाकौषीतकि', शाङ्खायन गृह्य सूत्र ४ १०, ६ १, इत्यादि में ।

तु० की० औल्डेनवर्न : से० बु० ई० २९, ३, ४ ।

महाज, (महान् वकरा, अज) का शतपथ ब्राह्मण (३. ४, १, २) में उल्लेख है ।

महा-घन, ऋग्वेद में या तो एक 'महान् युद्ध'^१ का अथवा युद्ध के परिणाम स्वरूप प्राप्त 'महान् पुरस्कार'^२ का द्योतक है । अनेक दशाओं में इस युद्ध से केवल रथ के दौड़ की प्रतिस्पर्धा मात्र का ही अर्थ हो सकता है ।

^१ ऋग्वेद १ ७, ५, ४०, ८; ११२, १७, १ ९ ८६, १२ ।
६. ५९, ७, इत्यादि ।

महा-नग्नी, अथर्ववेद^१ में एक 'राजनर्तकी' का द्योतक है । सम्भवतः इसका पुल्लिङ्ग रूप 'महा-नग्नी'^२, स्त्रीलिङ्ग 'महानग्नी'^३ से ही न्युत्पन्न हुआ है ।

^१ १४. १, ३६; २० १३६, ५ और वाद, ऐतरेय ब्राह्मण १. २७, १ ।

गेल्लेनर : वेदिशे स्टूडियन, १, २८०, नोट १ ।

^२ अथर्ववेद २० १३६, ११, शाङ्खायन श्रौत सूत्र १२. २४, १४ । तु० की० विहटने : अथर्ववेद का अनुवाद ७४७,

^३ जिस प्रकार 'स-पल' (प्रतिद्वन्दी) निश्चित रूप से 'स-पली' से ही बना है ।

महा-नाग (महान् सर्प) का शतपथ ब्राह्मण (११. २, ७, १२) में उल्लेख है, जहाँ यह सर्वथा पौराणिक ही है ।

महा-निरष्ट (एक महान् बधिया बैल) का, यजुर्वेद संहिताओं^१ में राजसूय के समय सूत के गृह में दक्षिणा के रूप में उल्लेख है । तु० की० अनड्वाह और गो ।

^१ तैत्तिरीय संहिता १. ८, ९, १, काठक संहिता १५. ४, ९, मैत्रायणी संहिता २ ६, ५ ।

महा-पथ, ब्राह्मणों^१ में दो ग्रामों के बीच स्थित 'उच्च पथ' का द्योतक है ।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ४ १७, ८; छान्दोग्य उपनिषद् ८ ६, २ । तु० की० वेवर . इन्डिशे स्टूडियन, १, २७१, नोट ।

महा-पुर, यजुर्वेद संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में एक महान् 'दुर्ग'^३ का द्योतक है। सम्भवतः पुर और महापुर में एक मात्र केवल आकार का ही अन्तर होता था।

^१ तैत्तिरीय संहिता ६. २, ३, १, काठक संहिता २४ १०, मैत्रायणी संहिता ३ ८, १।

^२ ऐतरेय ब्राह्मण १. २३, २; गोपथ ब्राह्मण २. २, ७।

महा-ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद् (२. १, १९. २२) में मिलता है और एक महान् ब्राह्मण का द्योतक है। तु० की० महर्षि।

महाभिषेक, का ऐतरेय ब्राह्मण^१ में उल्लेख है। यहाँ इसका महान् राजाओं के लिये सम्पन्न समारोह के रूप में वर्णन है, और ऐसे राजाओं की एक सूची भी दी हुई है। यह राजसूय के समान होता था।

^१ ८ १४, ४, १९, २। तु० की० वेवर : ए० रि० ८। सूची में निम्नलिखित नाम हैं . जनमेजय पारिचित, जिनका मित्र तुर कावषेय था, शार्यात मानव और च्यवन भार्गव; सतानीक सात्राजित और सोम-शुष्म भार्गव; अम्बरीष और पर्वत और नारद; युधांश्रौष्टि औग्रसैन्य

और वही दोनों ऋषि, विश्वकर्मन भौवन और कश्यप; सुदास् पेंजवन और वसिष्ठ, मरुत आविचित और संवर्त, अङ्ग वैरोचन और उद-मय आत्रेय, भरत दौःषन्ति और दीर्घतमस् मामतेय; दुर्मुख पाञ्चाल और बृहदुक्थ; अत्यराति जानंतपि और वासिष्ठ सात्यहव्य।

महा-भूत, निरुक्त (१४. ५, १०) और ऐतरेय उपनिषद् (३. २, ३) में पञ्चभूतों (पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, और आकाश) का द्योतक है।

महा-मत्स्य, का बृहदारण्यक उपनिषद् (४. ३, १८) में उल्लेख है।

महा-मेरु, तैत्तिरीय आरण्यक^१ में एक पर्वत का नाम है।

^१ १ ७, १. ३। तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, ७८; ३, १२३।

महा-रथ (महान् रथवाला, अर्थात् एक महारथी योद्धा) उस महान् योद्धा की उपाधि है जिसकी यजुर्वेद संहिताओं^१ के अश्वमेध संस्कार में स्तुति की गई है।

^१ तैत्तिरीय संहिता ७, ५, १८, १; वाजसनेयि संहिता २२. २२।

महा-राज का ब्राह्मणों^१ में बहुधा ही उल्लेख मिलता है। इससे सम्भवतः केवल एक राजा (जिसे राजन् कहा गया है) के विपरीत एक महाराज, अथवा एक राज्य करनेवाले शक्तिशाली राजा के अतिरिक्त और कुछ अधिक अर्थ प्रतीत नहीं होता।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ७ ३४, ९; कौपीतकि
ब्राह्मण ५. ५, शतपथ ब्राह्मण १. ६,
४, २१, २. ५, ४, ९, बृहदारण्यक | उपनिषद् २ १, १९ और वाद;
मैत्रायणी संहिता २ १, इत्यादि।

महा-रात्र, कौपीतकी ब्राह्मण^१ और सूत्रों^२ में मिलनेवाला शब्द है और मध्यरात्रि के पश्चात् तथा उपाकाल के पूर्व के बीच के रात्रि के भाग का द्योतक है।

^१ २ ९, ११. ८।

^२ शाङ्खायन श्रौत सूत्र ६ २, १, १७ ७, १, इत्यादि।

महाराज (महासागर) एक ऐसा शब्द है जो मैत्रायणी उपनिषद् (१. ४) के पहले नहीं मिलता। इस उपनिषद् में 'महासागरों' के सूखने को महान् आश्चर्यों में से एक कहा गया है। तु० की० समुद्र।

महा-वीर (एक महान् नायक), वाद की संहिताओं तथा ब्राह्मणों^१ में एक मिट्टी के बृहत् पात्र का नाम है जिसे आग पर भी रक्खा जा सकता था और जो 'प्रवर्ग्य' नामक आरम्भिक सोम-संस्कार के समय विशेष रूप से प्रयुक्त होता था।

^१ वाजसनेयि संहिता १९ १४; शतपथ
ब्राह्मण १४ १, २, ९. १७, ३, १,
१३, ४, १६, २, २, १३ ४०, | पञ्चविंश ब्राह्मण ९ १०, १; कौपीतकि
ब्राह्मण ८ ३, ७, इत्यादि।

२

महा-वृक्ष का कभी-कभी पञ्चविंश ब्राह्मण (७. ६, १५; १४. १, १२) और सूत्रों में उल्लेख है।

महा-वृष, अथर्ववेद^१ में मूजवन्तों के साथ उल्लिखित एक ऐसी जाति का नाम है जिन पर ज्वर को स्थानान्तरित किया गया है। इन्हें एक उत्तरी जाति के रूप में ग्रहण करना तर्कसंगत प्रतीत होता है, यद्यपि ब्लूमफील्ड^२ ऐसा विचार व्यक्त करते हैं कि इस नाम को भौगोलिक स्थिति की अपेक्षा

^१ ५. २२, ४ ५. ८।

| ^२ अथर्ववेद के सूक्त ४४६।

ध्वनि तथा आशय की दृष्टि से (जैसे, व्याधि का प्रतिरोध करने की 'महान् शक्ति' रखने वाला) ही ग्रहण करना चाहिये । छान्दोग्य उपनिषद्^३ में रैकपर्ण नामक स्थान को महावृष-क्षेत्र में स्थित बताया गया है । जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण^४ में हत्स्वाशय को महावृषों का राजा कहा गया है । बौधायन श्रौत सूत्र^५ के भी एक श्लोक में 'महावृषों' का सन्दर्भ मिलता है ।

^३ ४ २, ५ ।

^४ ३ ४०, ० ।

^५ २. ५ ।

तु० की० वेवर : इन्डियन लिट-

रेचर, ७०, १४७; तिसर . आस्टि-
न्डिशे लेवेन, १२९, विट्टने : अथर्ववेद
का अनुवाद, १२५९, २६० ।

१. महा-शाल (शब्दार्थ: 'एक महान् गृहवाला')—एक 'महान् गृहस्थ' के आशय में यह व्याहृति छान्दोग्य उपनिषद् (५. ११, १) में उन ब्राह्मणों के लिये व्यवहृत हुई है जिनको अश्वपति ने शिक्षा दी थी । इसमें सन्देह नहीं कि इन ब्राह्मणों के महत्त्व पर जोर देने के लिये ही इनका इस प्रकार वर्णन किया गया है । तु० की० महाब्राह्मण ।

२. महा-शाल जावाल, एक ऐसे गुरु का नाम है जिसका शतपथ ब्राह्मण में दो बार उल्लेख है : एक बार धीर शातपर्ण^१ को शिक्षित करने वाले के रूप में, तथा एक अन्य बार उन ब्राह्मणों में से एक के रूप में जिन्होंने अश्वपति^२ से शिक्षा प्राप्त की थी । छान्दोग्य उपनिषद्^३ के समानान्तर स्थल पर इस नाम का रूप प्राचीनशाल औपमन्यव^४ है । इस शब्द को एक विशेषण (१. महाशाल) मानने की अपेक्षा, जैसा कि सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश^५ ने माना है, व्यक्तिवाचक नाम ही मानना चाहिये ।

^१ १० ३, ३, १ ।

^२ १० ६, १, १ ।

^३ ५. ११, १ ।

^४ तु० की० एग्लिङ्ग : से० बु० ई० ४३,
३९३, नोट १ ।

^५ मुण्डक उपनिषद् १. १, ३, में इस शब्द का 'शौनक' के लिये, सम्भवतः केवल एक उपाधि के रूप में ही व्यवहार किया गया है । तु० की० वेवर : इन्डियन लिटरेचर, १६१ ।

महा-सुपर्ण, शतपथ ब्राह्मण (१२. २, ३, ७) में एक प्रकार के 'महान् पक्षी' अथवा 'महान् श्येन' का द्योतक है ।

महा-सुहय (एक महान् अश्व) व्याहृति द्वारा बृहदारण्यक उपनिषद्^१ में

^१ ६ २, १३ । तु० की० शाङ्खायन आर-
ण्यक ९ ७, छान्दोग्य उपनिषद् ५
१, १२, पिशल वेदिशे स्टूडियन,

१, २३४, २३५; कीथ : शाङ्खायन
आरण्यक, ५७, नोट ३ । तु० की०
पड्वीश ।

मिन्धु-चेत्र (सैन्धव) के एक ऐसे अश्व का वर्णन किया गया है जो अपने 'पाद-पाश' को तोड़ देता था (पड्वीश-शङ्खु) ।

महा-सूक्त, पु०, बहु०, का ऋग्वेद^१ के दसवें मण्डल के बड़े-बड़े सूक्तों के रचयिताओं के रूप में ऐतरेय आरण्यक^२ और सूत्रों^३ में उल्लेख है । तु० की० बुद्र-सूक्त ।

^१ १० १-१२८ ।

^२ २ ०, २ ।

^३ आश्वलायन गृह्य सूत्र, ३ ४, २,
शाङ्खायन गृह्य सूत्र ४ १० ।

तु० की० वेपर : इन्डिशे स्टूडियन,
१, ११५, ३९०, रौथ तु० वे०
२७ ।

महाह, कौपीतिकि ब्राह्मण (२. ९) में दिन के उत्तरार्ध—अर्थात् मध्याह्नोत्तर काल का द्योतक है । तु० की० महारात्र ।

महि-दास ऐतरेय ('इतर' अथवा 'इतरा' का वंशज) एक ऋषि का नाम है जिसके आधार पर ही ऐतरेय ब्राह्मण और आरण्यक ने अपने नाम धारण किये हैं । इसका ऐतरेय आरण्यक^३ में अनेक वार उल्लेख है, किन्तु इसके रचयिता के रूप में नहीं । छान्दोग्य उपनिषद्^२ और जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण^३ में इसकी आयु ११६ वर्ष बताई गई है ।

^१ २ १, ८; ३, ७ ।

^२ ३ १६, ७ ।

^३ ४. २, ११ (तु० की० ज० अ० ओ०)

सो० १५, २४६) । तु० की० कीथ
ऐतरेय आरण्यक १६, १७ ।

महिष (शक्तिशाली) ऋग्वेद और वाद के ग्रन्थों में मृग (वन्य पशु) के साथ^१ अथवा बिना^२ भी, 'मैसे' का द्योतक है । इसका श्रीलिङ्ग 'महिषी' षाद की संहिताओं^३ में मिलता है ।

^१ ऋग्वेद ८ ५८, १५, ९ ९२, ६; ९६,
६; १०. १०३, ४ ।

^२ ऋग्वेद ५ २९, ७, ६ ६७, ११; ८
१०, ८, ६६, १०, ९ ८७, ७; १०
०८, १०, १८९, २; वाजसनेयि संहिता

२६ २८, इत्यादि ।

^३ काठक संहिता २५. ६; मैत्रायणी संहिता
३ ८, ५; पड्वीश ब्राह्मण ५.
७, ११ ।

१. महिषी—देखिये महिष ।

२. महिषी (शक्तिशाली) का, जो राजा की चार पत्नियों में से प्रथम

का द्योतक है (देखिये पति), वाद के साहित्य^१ में अक्सर उल्लेख है । सम्भवतः ऋग्वेद^२ तक में 'प्रथम पत्नी' का पारिभाषिक आशय वर्तमान है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता १. ८, ९, १; काठक संहिता १.५. ४; मैत्रायणी संहिता ०. ६, ५; पञ्चविंश ब्राह्मण १९. १, ४; शतपथ ब्राह्मण ६. ५, ३, १; ७. ५, १, ६, इत्यादि ।
^२ ५. २, २; ३७, ३ ।

महैतरेय, ऋग्वेद^३ के गृह्य सूत्रों के अनुसार एक वैदिक ग्रन्थ का नाम है ।

^३ आश्वलायन गृह्य सूत्र ३. ४, ४; शाङ्खायन गृह्य सूत्र ४. १०; ६. १, में एक गुरु का । तु० की० कीथ. ऐतरेय आरण्यक ३९, औलडेनवर्गः से० बु० ई० २९, ३, ४ ।

महोत्त, का शतपथ ब्राह्मण (३. ४. १, २) में उल्लेख है ।

मांस—वैदिक ग्रन्थों में मांस खाना बहुत कुछ नियमित ही प्रतीत होता है क्योंकि इनमें अहिंसा अथवा पशुओं को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाने के सिद्धान्त का कोई चिह्न नहीं मिलता । उदाहरण के लिये सांस्कारिक मांसापर्ण के पीछे यही मान्यता है कि देवगण उसे खायेंगे, और ब्राह्मण लोग देवों की समर्पित वस्तुयें खाते ही थे ।^१ पुनश्चः आतिथ्य-संस्कार के लिये एक 'महान् वैल' (महोत्त) अथवा 'महान् बकरे' (महाज) के वध का नियमित विधान है;^२ और अतिथिग्व नाम का भी सम्भवतः 'अतिथियों के लिये गायों का वध करना' अर्थ है ।^३ महर्षि याज्ञवल्क्य दुग्धा गायों और बैलों (धेन्व-भनडुह) का ऐसा मांस खा सकते थे जो अंसल ('दृढ़' और 'कोमल')^४ हो । अग्रस्त्य नामक एक याज्ञिक को एक सौ बैलों (उच्चन्) के वध का श्रेय दिया गया है ।^५ विवाह-संस्कार के समय बैलों का, स्पष्टतः खाने के लिये ही, वध किया जाता था ।^६

^१ इसलिये अग्नि को 'वैल और गाय का भक्षक' कहा गया है : ऋग्वेद ८. ४३, ११ = अथर्ववेद ३. २१, ६ = तैत्तिरीय संहिता १. ३, १४, ७, वेवर इण्डिशे स्टूडियन १७, २८०, २८१, औलडेनवर्ग. रिलीजन देस वेद, ३५५

^२ शतपथ ब्राह्मण ३. ४, १, २ । तु० की० शाङ्खायन गृह्य सूत्र २. १५, २ ।

^३ बल्लमफील्ड : अ० फा० १७, ४२६, ज० अ० ओ० सो० १६, OXXIV । तु० की० 'अतिथिनीर् गाः' (अतिथियों के

योग्य गायें) ऋग्वेद १०. ६८, ३ ।

^४ शतपथ ब्राह्मण ३. १, २, २१ । भाष्य में 'अशल' का आशय 'स्थूल' दिया गया है । तु० की० कात्यायन श्रौत सूत्र ७. २, २३-२५ । एणिलङ्ग : से० बु० ई० २६, ११, ने 'कोमल' माना है । 'स्कन्ध (अस) से' भी एक आशय हो सकता है ।

^५ तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ७, ११, १, पञ्चविंश ब्राह्मण २१. १४, ५

^६ ऋग्वेद १०. ८५, १३ । तु० की० विण्ट-निज : डा० हो० ३३ ।

मांस-भक्षण के प्रति किसी सामान्य आपत्ति या निषेध का होना अत्यन्त असम्भाव्य है। कभी-कभी यह वर्जित था, जैसे जब कोई व्यक्ति किसी व्रत^७ का पालन कर रहा हो; अथवा इसको अमान्यता भी प्रदान की गई हो सकती है, जैसा कि अथर्ववेद^८ के उस स्थल पर है जहाँ मांस को सुरा के साथ-साथ एक बुरे पदार्थ के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। पुनश्च, ऋग्वेद^९ में उन ऋचाओं में गायों के वध का उल्लेख है जो मघाओं का ही एक जानवृक्ष कर किया गया विभेदात्मक रूप है; किन्तु यह, उस दशा में भी, जब केवल गायों का ही वध होता रहा होगा, मृत्यु के साथ संयुक्त शोक की भावना के स्वाभाविक साहचर्य का ही परिणाम हो सकता है। ब्राह्मणों में भी यह सिद्धान्त मिलता है कि जो इस संसार में मांस-भक्षण करते हैं दूसरे संसार में उनके ही मांस का भक्षण किया जाता है।^{१०} किन्तु इसे मांस-भक्षण को नैतिक अथवा धार्मिक अमान्यता प्रदान करनेवाला सिद्धान्त नहीं मानना चाहिये, यद्यपि इसमें निःसन्देह इस प्रकार के दृष्टिकोण का अंकुर वर्तमान है; यह अस्तित्व की एकता के उस विचार के भी अनुकूल है जो ब्राह्मणों में स्पष्ट हो गया है। किन्तु एक विकसित और स्पष्ट अहिंसा के सिद्धान्त का, पुनर्जन्म के उस विचार की स्वीकृति के फलस्वरूप ही विकास हुआ होगा जो अपने आधारभूत रूप में ब्राह्मण-काल के बाद का ही है।^{११}

^७ कात्यायन श्रौतसूत्र २. १, ८। अतः एक ब्रह्मचारिन् को मांस नहीं खाना चाहिये। देखिये औल्डेनवर्ग : उ० पु० ४६८, नोट ३। किसी पशु का रक्त सदैव ही एक रहस्यात्मक तथा भयकर पदार्थ माना गया है, इसीलिये मांस-भक्षण पर प्रतिबन्ध है, जिसकी उत्पत्ति एक दूसरे रूप में, मृतक की प्रेतात्मा के भय के कारण ही हुई है (तु० की० औल्डेनवर्ग उ० पु० ४१४, नोट १)। देखिये शतपथ ब्राह्मण १४. १, १, २९, कीथ ज० ए० सो० १९०९, ५८८, नोट ४, आदि भी।

^८ ७०, १। तु० की० ब्लूमफील्ड :

अथर्ववेद के सूक्त ४९३।

^९ १० ८५, १३ [अथर्ववेद १४ १, १३, में साधारण सा शब्द 'मघायो' मिलता है, और इसमें सन्देह नहीं कि इसे ही ग्रहण करना चाहिये। देखिये, वेवर : प्रो० अ० १८९४, ८०७।

^{१०} तु० की० शृगु वारुणि की कथा, शतपथ ब्राह्मण ११. ६, १, १ और बाद, जैमिनीय ब्राह्मण १, ४२-४४; ऐतरेय आरण्यक २. १, २, कीथ की टिप्पणी (पृ० २०२, २०३) सहित।

^{११} तु० की० ड्यूसन : फिलॉसफी ऑफ दि उपनिषद्स, ३१७ और बाद; कीथ : ज० ए० सो० १९०९, ५६५।

दूसरी ओर, यह उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद^{१२} तक में गाय एक विशेष पवित्रता अर्जित करने लगी थी, जैसा कि इसके लिये अनेक स्थलों पर प्रयुक्त 'अहन्य'^{१३}, (अवध्य) उपाधि से स्पष्ट होता है। किन्तु इस तथ्य को ऐसा व्यक्त करनेवाला नहीं माना जा सकता कि मांस खाना सामान्य रूप से निषिद्ध था। पृथिवी अथवा अदिति के साथ गाय के समीकरण (जो निःसन्देह केवल पुरोहितीय बुद्धि की उपज मात्र होने से कहीं अधिक है) जैसे पौराणिक तथ्यों के विपरीत भी, गोमांस खाने की अपेक्षा गाय की अन्य दृष्टियों से इतनी अधिक उपयोगिता थी कि उसे पवित्र मानने के विचार का पर्याप्त समाधान हो जाता है। साथ ही, इसके अंकुर भारतीय-ईरानी काल में भी देखे जा सकते हैं।^{१४} इसके अतिरिक्त, गाय का वध मृतकों के अन्त्येष्टि संस्कार का अनिवार्य अंग था, क्योंकि मृतक शरीर को ढँकने के लिये गोमांस का प्रयोग होता था।^{१५}

जहाँ तक मांस का सम्बन्ध है, वैदिक भारतीयों के सामान्य भोजन की, यज्ञ के वलि-प्राणियों की तालिका के आधार पर कल्पना की जा सकती है। मनुष्य जो स्वयं खाता था वही—जैसे भेड़, बकरी, और बैल—देवों को भी समर्पित करता था। अश्वमेध एक असाधारण अपवाद था : अश्वमेध को, भोजन के रूप में अश्व के मांस के प्रयोग का द्योतक नहीं मानना चाहिये, यद्यपि विभिन्न देश और काल में भोजन के रूप में अश्व के मांस के व्यापक व्यवहार को देखते हुये इस प्रकार के सम्भावना की उपेक्षा नहीं की जा

^{१२} ८. १०१, १५. १६, वाजसनेयि संहिता ४. १९, २०, अथर्ववेद १०. १०, १२ ४, ५, मैकडौनेल : वैदिक माशूलोजी, पृ० १५१।

^{१३} 'अहन्य' (पु०) के विपरीत ऋग्वेद में सोलह बार मिलता है, मैकडौनेल उ० स्था०। फिर भी, 'जिसका वध न किया जाय' के विपरीत सेन्ट पीटर्स-वर्ग कोश द्वारा ग्रहण किया गया 'जिसे वशीभूत करना कठिन हो', आशय सर्वथा सम्भव प्रतीत होता है।

वेवर . उ० स्था० १७, २८१, ने इस शब्द को 'अहन्य' (दिन की भांति उज्ज्वल वर्ण) से व्युत्पन्न सिद्ध करने का प्रयास किया है, किन्तु इस व्युत्पत्ति को अनुचित ही मानना चाहिये।

^{१४} तु० की० मैकडौनेल . सस्कृत लिट-रेचर, ६८।

^{१५} ऋग्वेद १०. १६, ७। देखिये औल्डेन-वर्ग . उ० पु० ५७६।

सकती। फिर भी, जैसा कि औल्डेनवर्ग^{१६} तर्क उपस्थित करते हैं, अधिक सम्भवतः इस यज्ञ का उद्देश्य अश्वों की अभिचारीय शक्ति, गति, और स्फूर्ति को देवों तथा उनके उपासकों पर स्थानान्तरित करना ही होता था।

^{१६} रिलीजन देस वेद, ३५६, नोट ४।
बौद्धकाल में मास-भक्षण के लिये, तु०
की० सूकर-मांस युक्त भोजन से बुद्ध की
मृत्यु, फ्लोट : ज० ए० सो०, १९०६,
८८१, ८८२, औल्डेनवर्ग : बुद्ध^{१७},
२३१, नोट २ (इसके विपरीत न्यू-
मैन : डी रेडेन डेस गौतमो बुद्धो, १,
xix)। महाकाव्य में मास-भक्षण के
लिये, देखिये हॉपकिन्स : ज० अ०

ओ० सो० १३, ११९, १२०; ग्रेट
इपिक ऑफ इण्डिया, ३७७-३७९;
और आधुनिक उदाहरणों के लिये
देखिये, जॉली : ड्यूट्श रुण्डशॉ,
जुलाई, १८८४, ११८, वूह्लर : रिपोर्ट,
२३।

तु० की० श्रेडर : प्रिहिस्टोरिक ऐण्टि-
क्लिटीज, ३१६, हॉपकिन्स : रिलीजन्स
ऑफ इण्डिया, १५६, १८९।

मांसौदन, शतपथ ब्राह्मण^१ में 'चावल के साथ पके मांस' की एक थाली का द्योतक है।

^१ ११ ५, ७, ५, बृहदारण्यक उपनिषद् ६ ४, १८, शाङ्खायन आरण्यक १० ८।

माक्षव्य ('मक्षु' का वंशज) ऐतरेय आरण्यक^१ में एक गुरु का पैतृक नाम है।

^१ ३ १, १, जिसकी ऋग्वेद प्रातिशाख्य में विवेचना की गई है। तु० की० वेवर : इण्डिशे स्टूडियन, १, ३९१, २, २१२।

मागध—देखिये मगध।

मागध-देशीय (मगध देश का रहने वाला) द्वारा सूत्रों^१ में मगध के एक ब्राह्मण का वर्णन किया गया है।

^१ कात्यायन श्रौत सूत्र २० ४, २२; लाट्यायन श्रौत सूत्र ८ ६, २८।

माचल, जिसका जैमिनीय ब्राह्मण^१ में उल्लेख है, प्रत्यक्षतः विदर्भ में प्राप्त एक प्रकार के कुत्ते का द्योतक है।

^१ ० ४४०। तु० की०, ज० अ० ओ० सो० १९, १०३, नोट ३।

माठरी ('मठर' का स्त्री वंशज) बृहदारण्यक उपनिषद् (६.१ ४, ३१ माध्यंदिन) में एक गुरु के कुछ कौतूहल-वर्धक से नाम, काश्यपी-वालाक्य-माठरी-पुत्र, में आता है।

माण्टि, बृहदारण्यक उपनिषद्^१ में, गौतम के शिष्य, एक गुरु का नाम है।

^१ २ ५, २२, ४ ५, २८ (मध्यन्दिन = २ ६, ३, ४. ६, ३ काण्व)।

माण्डवी ('मण्डु' का स्त्री-वंशज) बृहदारण्यक उपनिषद् (६. ४, ३० माध्यन्दिन) में वात्सी-माण्डवी-पुत्र नामक एक गुरु के नाम में आता है।

माण्डव्य ('मण्डु' का वंशज) का शतपथ ब्राह्मण^२, शाङ्खायन आरण्यक^३ और सूत्रों^३ में एक गुरु के रूप में उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद्^४ के अन्तिम वंश (गुरुओं की तालिका) में कौत्स के शिष्य के रूप में भी इसी का उल्लेख है।

^१ १० ६, ५, ९।

^२ ७ २।

^३ आश्वलायन गृह्य सूत्र ३ ४, ४, शाङ्खायन गृह्यसूत्र ४ १०, ६ १। तु०

का० वेवर : इण्डिशे स्टूडियन १, ४८२ (महाकाव्य में जनक का एक मित्र इसी नाम से आता है)।

^४ ६ ५, ४ काण्व।

माण्डूकायनि ('माण्डूक' का वंशज) का शतपथ ब्राह्मण^१ में एक गुरु के रूप में उल्लेख है।

^१ १० ६, ५, ९; बृहदारण्यक उपनिषद् ६ ५, ४ काण्व।

माण्डूकायनी-पुत्र ('माण्डूक' के एक स्त्री-वंशज का पुत्र) बृहदारण्यक उपनिषद्^१ के अन्तिम वंश (गुरुओं की तालिका) में, माण्डूकीपुत्र के शिष्य, एक गुरु का नाम है।

^१ ६ ४, ३२ (माध्यन्दिन = ६. ५, २ काण्व)।

माण्डूकी-पुत्र ('माण्डूक' के एक स्त्री-वंशज का पुत्र) का बृहदारण्यक उपनिषद्^१ के अन्तिम वंश (गुरुओं की तालिका) में, शाण्डिलीपुत्र के शिष्य, एक गुरु के रूप में उल्लेख है।

^१ ६ ४, ३० (माध्यन्दिन = ६ ५, २ काण्व)।

माण्डूकेय ('माण्डूक' का वंशज) ऋग्वेद के आरण्यकों में अनेक गुरुओं का पैतृक नाम है, यथा :—शूरवीर^१, ह्रस्व^२, दीर्घ^३, मध्यम प्रातीवोधीपुत्र^४। माण्डूकेय-लोग आरण्यकों^५ में एक मत-सम्प्रदाय के रूप में भी आते हैं :

^१ ऐतरेय आरण्यक ३. १, १, शाङ्खायन आरण्यक ७ २ ८ ९. १०।

^२ शाङ्खायन आरण्यक ७ १२; ८. ११।

^३ वही ७ २।

^४ वही ७ १३।

^५ ऐतरेय आरण्यक ३ १, १; शाङ्खायन आरण्यक ७ २।

प्रत्यक्षतः ऋग्वेद के पाठ की एक विशेष शाखा इन्हीं से सम्बद्ध थी।^६

^६ तु० की० 'माण्डूकेयीय अध्याय', ऐत- रेय आरण्यक ३ ०, ६; शाङ्खायन आरण्यक ८. ११, शेष्टेलोवित्सः डी० ऋ० १२, कीथ . ज० ए० सो०	१९०७, २२७, ऐतरेय आरण्यक २३९; वेवर : इण्डिशे स्टूडियन, १, ३९१ ।
---	--

मातरिश्वन् का ऋग्वेद^१ के वालखिल्य-सूक्त में मेध्य और पृषघ्न के साथ-साथ, एक यज्ञकर्ता के रूप में उल्लेख है। एक, अथवा सम्भवतः दो^२ अन्य स्थलों पर भी इसी का उल्लेख प्रतीत होता है। शाङ्खायन श्रौत सूत्र^३ में ऋग्वेद के पाठ के मिथ्याग्रहण के कारण पृषघ्न मेध्य मातरिश्वन् अथवा मातरिश्व नामक एक प्रतिपालक का सृजन हो गया है।

^१ ऋग्वेद ८. ५२, २ ।

^२ ऋग्वेद १० ४८, २, १०५, ६ । वाद की अपेक्षा प्रथम सन्दर्भ कहीं अधिक सम्भव है ।

^३ १६. ११, २६, वेवर . ऐ० रि० ३९,

४० । पाण्डुलिपियों में कहीं 'मातरिश्वन्' और कहीं 'मातरिश्व' पाठ है ।

तु० की० लुडविग . ऋग्वेद क' अनुवाद, ३, १६३ ।

मातुर्-भ्रात्र एक कौतूहलवर्धक समस्त पद है जो मैत्रायणी संहिता^१ में एक वार उस 'मामा' के वाचक के रूप में आता है जो सूत्रकाल में मातुल नाम धारण करता है। इस प्रकार वैदिक काल में 'मामा' की बहुत चर्चा नहीं मिलती : चाचा (पितृव्य) की तुलना में इसकी प्रमुखता के चिह्न महाकाव्य^२ के पूर्व नहीं मिलते। भारम्भिक भारतीय परिवारिक संगठन की पितृसत्ता प्रधान प्रकृति के लिये इस तथ्य का पर्याप्त महत्त्व है।^३

^१ १ ६, १२ ।

^२ हॉपकिन्स . ज० अ० ओ० सो० १३, १४१ ।

^३ डेलब्रुक : डी० व० ४८४, ५८६-५८८ ।

तु० की० रिर्वर्स : ज० ए० सो० १९०७, ६२९ और वाद, भी ।

मातुल^१ (मामा) केवल सूत्रों^२ तथा वाट में मिलता है ।

^१ इस शब्द का यह विचित्र रूप सम्भवतः लोकभाषा का ही था जिसने कालान्तर

में लिखित भाषा में स्थान बना लिया ।

^२ आश्वलायन गृह्यसूत्र १ २४, ४, इत्यादि ।

मातृ, ऋग्वेद और उसके बाद^१ से 'माता' के लिये प्रयुक्त नियमित शब्द है। इसके रूप का निर्माण सम्भवतः अम्वा^२ और नना^३ की ही भाँति प्रयुक्त 'मा'^४ शब्द के ध्वन्यानुकरणात्मक प्रभाव के कारण ही हुआ होगा।

पत्नी और पति, तथा माता और पुत्र-पुत्रियों के सम्बन्धों की पति के अन्तर्गत चर्चा की जा चुकी है। अतः यहाँ केवल इतना ही कहना और शेष रह जाता है कि सूत्रों^५ में माता के प्रति आदर व्यक्त करने तथा माता से सम्बद्ध अन्य संस्कारों का उल्लेख है। अपनी सन्तान के भाग्य में भी माता अभिरुचि रखती है, जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण^६ में वर्णित उस कथा द्वारा व्यक्त होता है जिसमें विश्वामित्र द्वारा दत्तक लिये जाने के लिये शुनःशेष के विक्रय की चर्चा है।

परिवार में पिता के बाद माता का ही स्थान आता था (देखिये पितृ)। अक्सर माता-पिता दोनों के लिये ही 'मातरा' का प्रयोग किया गया है, जैसा कि 'पितरा' और 'मातरा पितरा'^७ तथा 'माता-पितरः'^८ का भी इसी आशय में प्रयोग हुआ है।

^१ १ २४, १, ७. १०१, ३, इत्यादि, वाजसनेयि संहिता १३. २१, इत्यादि, ऐतरेय ब्राह्मण २. ६, इत्यादि।

^२ तु० की० 'अम्वे अम्बिके अम्बलिके', वाजसनेयि संहिता २३ १८, जिसका तैत्तिरीय संहिता ७ ४, १९, १, मैत्रायणी संहिता ३ १२, २०, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ९, ६, ३, में थोड़ा पाठान्तर है। कौषीतकि उपनिषद् १ ३, में भी देखिये 'अम्वा अम्वायवी, अम्वाय'।

^३ ऋग्वेद ९ ११७, ३ (उपलप्रक्षिणी) देखिये फॉन श्रोडर . मि० ४१२।

^४ बौटलिक और रौथ : सेण्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० नोट।

^५ तु० की० डेलब्रुक : डी० व० ४६०, ४७६, ४७७।

^६ ७ १८ और बाद। तु० की० लीस्ट : आ० जे० १०४, और जॉली : डी एडॉप्शन इन इण्डियन, १६, १७।

^७ ऋग्वेद ३ ३३, ३, ७. २, ५, इत्यादि।

'मातरा पितरा' के लिये देखिये ऋग्वेद ४ ६, ७, वाजसनेयि संहिता ९ १९।

^८ तैत्तिरीय संहिता १ ३, १०, १, ६ ३, ११, ३।

मातृ-वध का कौषीतकि उपनिषद् (३. १) में एक अत्यन्त गम्भीर अपराध के रूप में उल्लेख है। किन्तु ब्रह्म-ज्ञान द्वारा इसका प्रायश्चित्त किया जा सकता था

मातृ-हन्, पाणिनि^९ के भाष्यकार द्वारा उद्धृत एक वैदिक उद्धरण में आता है।

^९ पाणिनि ३ २, ८८, पर काशिका वृत्ति . 'मातृहा सप्तम नरक प्रविशेत्'।

मात्रा, उपनिषदों^१ में एक लघुस्वर की लम्बाई का द्योतक है ।

^१ तैत्तिरीय उपनिषद् १ २, १; ऐतरेय आरण्यक ३. १, ५, शाङ्खायन आरण्यक ७. १५ ।

१. मात्स्य (मत्स्यों का राजा)—देखिये मत्स्य ।

२. मात्स्य, तैत्तिरीय ब्राह्मण^१ में यज्ञ में प्रवीण एक ऋषि के नाम के रूप में आता है । निश्चित तो नहीं किन्तु सम्भवतः^२ अथर्ववेद^३ में भी इसीसे तात्पर्य हो सकता है ।

^१ १ ५, २, १, जहाँ यह यज्ञेषु और शतघुञ्ज की सेवा करता है । ^३ १९ ३९, ९ ।
तु० की० वेवर . नक्षत्र, २, ३०६ ।
^२ ब्लूमफील्ड . अथर्ववेद के सूक्त, ६८१ ।

माथव ('मथु' का वंशज) शतपथ ब्राह्मण^१ में, सम्भवतः विदेह के राजा, विदेघ का पैतृक नाम है ।

^१ १ ४, १, १०. १७ । तु० की० एलिङ्ग . २६, xxix, वेवर : [इण्डिशे स्टूडियन से० तु० ई० १२, xli, १०४, नोट १, १, १७० ।

माधुकि (मधुक का वंशज) शतपथ ब्राह्मण^१ में एक ऐसे गुरु का पैतृक नाम है जिसको मान्यता नहीं प्रदान की गई है ।

^१ २. १, ४, २७ । तु० की० वेवर : इण्डिशे स्टूडियन १, ४३४ ।

माध्यंदिनायन ('मध्यंदिन' का वंशज) एक गुरु का पैतृक नाम है जिसका बृहदारण्यक उपनिषद् (४. ६, २) की काण्व शाखा में उल्लेख है ।

माध्यम (मध्य से सम्बद्ध) एक ऐसा शब्द है जो कौपीतिक ब्राह्मण^१ और ऐतरेय आरण्यक^२ में ऋग्वेद के मध्य के मण्डलों (२.—७.) के रचयिताओं को व्यक्त करने के लिये व्यवहृत हुआ है ।

^१ १२ ३ । १, ११५, ३८९, आश्वलायन गृह्य सूत्र
^२ २ २, २ । ३ ४, २, शाङ्खायन गृह सूत्र ४ १०, इत्यादि ।
तु० की० वेवर . इण्डिशे स्टूडियन

१. मान, को तौल के एक नाप के रूप में कृष्णाल अथवा 'रक्तिका'—अर्थात् गुक्षा (*Abrus precatorius*) के बीज के घराघर बताया गया है । वाद की संहिताओं और ब्राह्मणों^१ में यह यौगिक शब्दों में आता है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ३ २, ६, ३, ६ ४, ७, ७, ६, २, शतपथ ब्राह्मण ५ ४, १०, २, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ३, ७, ३, २४, ५, ५, १६, इत्यादि ।

२. मान एक व्यक्ति का नाम है जो ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर आता है। एक स्थान^१ पर स्पष्ट रूप से इसके पुत्र (सूनु) का उल्लेख है, जिससे, वर्गेन के विरोधी मत के विपरीत^२ भी, अगस्त्य का ही आशय होना चाहिये। एक अन्य स्थल^३ पर, मान' के लिये प्रत्यक्षतः उक्त अर्थ, अर्थात् 'एक मान' के रूप में, अगस्त्य का ही आशय है। तृतीय स्थल^४ पर 'सूनुवे मानेन' व्याहृति को सीग^५ ने 'मानस्य सूनुना' (मान के पुत्र, अर्थात् अगस्त्य द्वारा) का उल्टा माना है। किन्तु अधिक सम्भव^६ यह प्रतीत होता है कि या तो 'सूनोर् मान', अगस्त्य के नाम (उसकी उच्च पैतृकता के सन्दर्भ में 'पुत्र का अभिमान') का अपेक्षाकृत पूर्ण रूप है, अथवा 'मान के पुत्र'^७ (= अगस्त्य) का विश्रुता में अभिरुचि रखनेवाले के रूप में उल्लेख है।

'मानों', अर्थात् 'मान' के वंशजों को, अनेक स्थलों पर गायकों के रूप में व्यक्त किया गया है।^८ तु० की० मान्य, मान्दार्य ।

^१ ऋग्वेद १. १८९, ८

^२ रिलीजन वेदिके २, ३९४। तु० की० पिशलः वेदिशे स्टूडियन, १, १७३, औल्डेनवर्गः त्सी० गे०, ४२, २०१, नोट ५, ऋग्वेद-नोटेन, १, ११०, सीगः सा० ऋ०, १०७, गेल्डनरः ऋग्वेद, ग्लॉसर, १३५।

^३ ७ ३३, १३, १। तु० की० मन्त्र, १०।

^४ १ ११७, ११।

^५ उ० स्था०।

^६ औल्डेनवर्गः ऋग्वेद नोटेन, उ० स्था०।

^७ वर्गेन . उ० स्था०; पिशलः उ० स्था०।

तु० की० रौथः सेण्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था०, जहाँ 'सूनो.' को 'वाजम्' से स्वतन्त्र रूप में ग्रहण किया गया है।

^८ ऋग्वेद १. १६९, ८, १७१, ५; १८२, ८; १८४, ५।

तु० की० लुडविगः ऋग्वेद का अनुवाद, ३, ११६, ११७, जिनका विचार है कि 'मान-गण' सिन्धु के तट पर बसे थे। देखिये ऋग्वेद १. १८६, ५।

मानव (मनु^१ का वंशज), नाभानेदिष्ठ और शार्यात^२ का पैतृक नाम है।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ५ १४, २।

^२ वही, ४ ३२, ७। तु० की० शतपथ

ब्राह्मण ४ १, ५, २ (शार्यात)।

मानवी (मनु का वंशज) शतपथ ब्राह्मण^१ में पौराणिक 'इडा' का, तथा ऋग्वेद^२ में पर्शु नामक एक स्त्री का पैतृक नाम है।

^१ १ ८, १, २६, तैत्तिरीय संहिता २. ६, | ^२ १० ८६, ३३।
७, ३।

मनु-तन्तव्य ('मनुतन्तु' का वंशज) ऐतरेय ब्राह्मण (५. ३०, १५) में ऐकादशाक्ष का पैतृक नाम है। शतपथ ब्राह्मण (१३. ५, ३, २) में 'सौमापौ मानुतन्तव्यौ' ('मनुतन्तु' के वंशज, दो 'सौमाप') का उल्लेख है।

मान्थाल, तैत्तिरीय ब्राह्मण (२. ५, ८, ४) में नीचे दिये जा रहे नाम का रूप है।

मान्थालव,^१ मान्थीलव,^२ यजुर्वेद संहिओं में भ्रश्ममेध के वलि-प्राणियों के नाम हैं। यह प्राणी क्या था, यह अज्ञात है : भाष्यकार महीधर^३ का विचार है कि यह एक प्रकार का मूपक (चूहा) था; सायण इसकी 'जल-मुर्गे' (जल-कुदकुट) के रूप में व्याख्या करते हैं। सम्भवतः यदि एक सामान्तर से शब्द मन्थावल पर सायण^४ की व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाय तो इससे एक प्रकार की 'उदनेवाली लोमड़ी' (चमगादड़) अर्थ हो सकता है।^५

^१ मैत्रायणी संहिता ३ १४, १९, जहाँ एक विभेद 'मातालव' है, वाजसनेयि संहिता २४ ३८।

^२ तैत्तिरीय संहिता ५ ५, १८, १।

^३ वाजसनेयि संहिता, उ० स्था०, पर।

^४ तैत्तिरीय संहिता, उ० स्था०, पर। तु० की० त्मिमर : आस्टिन्डिशे लेवेन, ८६

^५ वीटलिङ्ग : डिक्शनरी, व० स्था०, और व० स्था० 'मान्थाल' भी।

मान्दार्य मान्य (मान का वंशज) ऋग्वेद^१ में एक ऋषि का नाम है। बहुत सम्भवतः इससे स्वयं अगस्त्य का ही आशय है।^२

^१ १ १६५, १५ = १. १६६, १५ = १ १६७, ११ = १. १६८, २०।

^२ तु० की० गेल्डनर . ऋग्वेद, ग्लॉसर, १३५; वर्गेन : रिलीजन वेदिके, २,

३९४, औल्डेनवर्ग : त्सी० गे० ४२, २२१;

सीग : सा० ऋ० १०७, मैक्समूलर :

से० तु० ई० ३२, १८३, और वाद, २०६।

मान्य (मान का वंशज) ऋग्वेद^१ के अनेक स्थलों पर मान्दार्य का पैतृक नाम है, किन्तु अन्य स्थानों^२ पर अकेले भी आता है। यह सम्भवतः अगस्त्य का द्योतक है।

^१ देखिये मान्दार्य, नोट १।

^२ १. १६५, १४, १७७, ५; १८४, ४। तु०

की० सीग : सा० ऋ० १०७।

मान्यमान, ऋग्वेद^१ में देवक शब्द के साथ आता है। यह शब्द

^१ ८ १८ २०।

‘मान्यमान’ का पैतृक नाम प्रतीत होता है जिसका अर्थ ‘अभिमानी व्यक्ति का पुत्र’^२ है। रीथ ने दोनों शब्दों का ‘देव-पुत्र, अभिमान-पुत्र’ अनुवाद किया है।

^२ सायण ने ‘मन्यमान’ को एक व्यक्ति-वाचक नाम माना है। सेन्ट पीटर्सवर्ग

कोश, व० स्था०। तु० की० हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० १५, २६४।

मामतेय (‘ममता’ का वंशज), ऋग्वेद^१ और ऐतरेय ब्राह्मण^२ में दीर्घतमस् का मातृनामोद्गत नाम है।

^१ १- १४७, ३, १५२, ६, १५८, ६।

‘ममता’ के लिये, तु० की० बृहद्देवता,

^२ ८ २३, १, शाङ्खायन आरण्यक २ १७।

३ ५६, ४ ११।

मायव (‘मयु’ अथवा ‘मायु’ का वंशज) ऋग्वेद^१ में एक प्रतिपालक, संभवतः जैसा कि लुडविग^२ का विचार है, राम का पैतृक नाम है।

^१ १० ९३, १५।

| ^२ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६६।

माया, शतपथ ब्राह्मण (१३. ४, ३, ११) में असुरविद्या (इन्द्रजाल) का समानार्थी है।

मायु, ऋग्वेद^१ में गायों के रेंभन और भेड वकरियों के ‘निनाद’ का, तथा अथर्ववेद^२ में वन्दरों की बोली का द्योतक है।

^१ १. १६४, २८ (गाय), ७ १०३, २ (गाय), १० ९५, ३ (मेपी), निरुक्त २ ९।

गया है, तु० की० त्सिमर आस्टिन्डिशे लेवेन, ८५, ८६, सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० ‘मायु’।

^२ ६ ३८, ४, १९ ४९, ४, (‘पुरुष’ कहा

मारुत (‘मरुत्’ का वंशज), द्यूतान और नितान का पैतृक नाम है।

मारुताश्च (‘मरुताश्च’ का वंशज), लुडविग^१ के अनुसार ऋग्वेद^२ में एक प्रतिपालक का पैतृक नाम है। फिर भी, यह शब्द केवल एक विशेषण हो सकता है जिसका अर्थ ‘वायु के समान क्षिप्रगति वाले अश्वों से युक्त’ हो सकता है।

^१ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५५। यह च्यवतान का पैतृक नाम हो

सकता है।

^२ ५. ३३. ९।

मार्गवेद्य, ऐतरेय ब्राह्मण (७. २७, ३. ४) में राम का पैतृक अथवा मातृनामोद्गत नाम है और यहाँ इसका एक श्यापर्णा के रूप में उल्लेख है ।

मार्गार, यजुर्वेद^१ में पुरुषमेध के वलिप्राणियों में से एक का नाम है । 'मृगारि' (जंगली पशुओं का शत्रु) से बने पैतृक नाम के रूप में इस शब्द का आशय प्रत्यक्षतः 'व्याध' अथवा 'मछुआ'^२ है ।

^१ वाजसनेयि संहिता ३०, १६; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, १२, १ । ^२ तु० की० तैत्तिरीय ब्राह्मण, उ० स्था० पर सायण ।

१. माल्य, (हार) उपनिषदों^३ में मिलता है ।

^३ छान्दोग्य उपनिषद् ८ २, ६, कौपीतिक उपनिषद् १. ४, इत्यादि ।

२. माल्य ('माल' का वंशज) पञ्चविंश ब्राह्मण (१३. ४, ११) में आर्य का पैतृक नाम है ।

माष, अथर्ववेद^४ और वाद^५ में एक प्रकार के बीज (*Phaseolus radiatus*) का नाम है । यह आज भी भारत में अपने समान पौधों में सर्वाधिक उपयोगी है । इसके बीजों^६ को, अथर्ववेद^७ के अनुसार, पीस (पिष्ट) लिया जाता था । इसके बीज हेमन्त ऋतु में पकते थे ।^८ संस्कार में यज्ञ के लिये मानव-मस्तक को इक्कीस माषों^९ में क्रय किया जाता था : यह स्पष्ट नहीं है कि यहाँ इस शब्द से किसी धातु के बटखरे का आशय है, जैसा कि अक्सर वाद^{१०} में है, अथवा नहीं । यजुर्वेद संहिताओं^{११} में माषों से सम्बन्धित एक निषेध मिलता है ।

^४ ६ १४०, २; १० ०, ५३ ।

^५ तैत्तिरीय संहिता ५ १, ८, १, ७ ०, १०, २; काठक संहिता १२. ७, ३२ ७, ३७ १, मैत्रायणी संहिता ४ ३, २; वाजसनेयि संहिता १८. १२, अत-पथ ब्राह्मण १ १, १, १०, बृहदारण्यक उपनिषद् ६ ३, २२ (नाध्यं-दिन = ६. ३, १३ काण्व) ।

^६ वाद में इसे काले और भूरे धव्यों से चिह्नित बताया गया है । तु० की० सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० :

^७ १२ २, ५३ । वही, १२. २, ४, जहाँ

पिसे हुए माषों (माषाज्य) के हवि का उल्लेख है ।

^८ तैत्तिरीय संहिता ७ २, १०, २ ।

^९ वही ५ १, ८, १; काठक संहिता २० ८

^{१०} वेवर . त्सी० गे०, १८, २६७ । मनु० ८ १३४ के अनुसार एक माप पाँच (प्रस्तुत ग्रन्थ के भाग एक, पृष्ठ २०५ में भूल से चार कहा गया है) कृष्णलों के बराबर है । तु० की० सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश व० स्था० २, भी ।

^{११} काठक संहिता ३२ ७; मैत्रायणी संहिता १ ४, १० । तु० की० फॉन श्रोडर :

वि० ज०, १५, १८७-२१०, कीथ .
ज० ए० सो०, १९०९, ५८७, ५८८ ।

तु० की० तिसमर : आस्टिन्डिशे लेवन,
२४० ।

मास, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में दुर्लभ रूप से 'चन्द्रमा'^३ और अक्सर 'महीने का द्योतक है । देखिये मास ।

^१ ऋग्वेद १ २५, ८; ४ १८, ४; ५ ४५,
७ ११; ७. ९१, २, इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद ८ १०, १९, तैत्तिरीय संहिता
५. ५, २, २; षड्विंश ब्राह्मण ४. ४,
१, तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ४, ९, १,
इत्यादि ।

^३ ऋग्वेद १०. १२, ७ । तु० की० ८ ९४,

२ में यौगिक शब्द 'सूर्या-मासा' (सूर्य
और चन्द्रमा), १० ६४, ३; ६८,
१०, ९२, १२, ९३, ५ जो, 'मास' से
बना हो सकता है । तु० की० मैक-
डौनेल : वैदिक ग्रामर पृ० २२०,
नोट २० ।

मास, 'महीना' अथवा समय की एक अवधि का द्योतक है और ऋग्वेद तथा वाद में इसका बहुधा उल्लेख है ।

मास के विशिष्ट दिन (अथवा कदाचित् रात्रियाँ) अमा-वस्या (घर पर वास करने की रात्रि) और पूर्ण मासी थे । अथर्ववेद^१ के दो सूक्त क्रमशः इनकी प्रशस्ति करते हैं । चन्द्रमा के विभिन्न पक्षों का मूर्त्तीकरण इन चार नामों से व्यक्त होता है : 'सिनीवाली'^२, अमावस्या के पहले का दिन; 'कुहू'^३, जिसे 'गुड्गू'^४ भी कहा गया है और जो अमावस्या का दिन होता है; 'अनुमति'^५, पूर्णिमा के पहले का दिन; और 'राका'^६, पूर्णिमा का दिन । अमावस्या और पूर्णिमा का महत्त्व 'दर्श पूर्णमासौ' अथवा क्रमशः अमावस्या और पूर्णिमा के दिनों के उरसवों से प्रगट होता है ।

^१ ७ ७९ और ८० । तु० की० तैत्तिरीय
संहिता ३ ५, १, १, तैत्तिरीय ब्राह्मण
३ ७, ५, १३, इत्यादि ।

^२ तैत्तिरीय संहिता १. ८, ८, १; ३ ४,
९, १; ऋग्वेद २ ३२, ६, अथर्ववेद
२ २६, २; ६ ११, ३, वाजसनेयि
संहिता ११ ५५ ५६; ३४. १०,
काठक संहिता १२ ८, षड्विंश ब्राह्मण
५. ६ ।

^३ अथर्ववेद ७ ४७, तैत्तिरीय संहिता १
८, ८, १, ३ ४, ९, १; काठक संहिता
१२ ८, इत्यादि ।

^४ ऋग्वेद २. ३२, ८, जहाँ सायण इसे
'कुहू' के साथ समीकृत करते हैं ।

^५ तैत्तिरीय संहिता १ ८, ८, १; ३. ४,
९, १, काठक संहिता १२ ८, वाजस-
नेयि संहिता २९. ६०; ३४. ८ ९;
षड्विंश ब्राह्मण ५ ६ ।

^६ ऋग्वेद २. ३२, ४, ५ ४२, १२, तैत्ति-
रीय संहिता १. ८, ८, १; ३. ४, ९,
१ । तु० की० निरुक्त ११. ३१; वेवर :
इन्डिशे स्टूडियन, ५, २२८ और वाद;
लुडविग . ऋग्वेद का अनुवाद, ३,
१८९ ।

मास में एक दिन, एकाष्टका, अथवा पूर्णिमा के बाद का आठवाँ दिन, विशेष महत्त्वपूर्ण होता था। पञ्चविंश ब्राह्मण^७ में वर्ष में इस प्रकार के चारह दिनों का उल्लेख है जिन्हें पूर्णिमा के चारह और अमावस्या के चारह दिनों के बीच स्थिर किया गया है। किन्तु यजुर्वेद संहिताओं तथा अन्यत्र एक 'एकाष्टका' को विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण बताया गया है। अधिकांश भाष्यकारों के समान मतों के अनुसार यह माघ की पूर्णिमा के बाद का आठवाँ दिन होता था। इसी दिन गतवर्ष समाप्त और नववर्ष आरम्भ होता था। यद्यपि कौपीतिक ब्राह्मण^८ मकर-संक्रान्ति को माघ की अमावस्या के दिन स्थिर करता है, तथापि कदाचित् इस बाद की तिथि से माघ-पूर्णिमा के पहले की अमावस्या का तात्पर्य है,^९ न कि पूर्णिमा के बाद की अमावस्या

^७ १० ३, ११। तु० की० शतपथ ब्राह्मण ६ २, २, २३, अथर्ववेद १५ १६, २

^८ तैत्तिरीय संहिता ७ ४, ८, १; पञ्चविंश ब्राह्मण ५ ९, १। तु० की० तैत्तिरीय संहिता ३ ३, ८, ४, ४ ३, ११, ३, ५ ७, २, २, अथर्ववेद ३ १०, ८ ९, १०, काठक संहिता ३९ १०, मंत्रायणी संहिता २ १३, २१, इत्यादि। देखिये कात्यायन श्रौत सूत्र, १३. १, २, भाष्य सहित, पञ्चविंश ब्राह्मण उ० स्था०, सायण की टिप्पणी सहित, वेवर-नक्षत्र, २, ३४१, ३४२, इन्डिशे स्टूडियन, १७, २१९ और बाद।

^९ २९. २३।

^{१०} कौपीतिक ब्राह्मण उ० स्था०, पर विनायक, शाङ्खायन श्रौत सूत्र १३ १९, १ पर आनर्तीय, वेवर • उ० स्था० २, ३४५, ३४६, ३५३, ३५४, यही अर्थ ग्रहण करते हैं। वेवर भाष्यकारों के इस दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं कि यहाँ 'माघ' का आरम्भ 'तैष' पूर्णिमा के बाद के दिन से माना गया है। किन्तु यहाँ यह मान लेना अधिक सरल

है कि 'माघ' का आरम्भ अमावस्या के बाद के दिन से नहीं वरन् अमावस्या से ही होता था, और उसका अन्त अगली अमावस्या के एक दिन पूर्व होता था। बौधायन श्रौत सूत्र (२ १२, ४. १, २६. १८, ३०, ३, देखिये कैलेण्ड : उ० वी० ३६, ३७) के अनेक स्थल कौपीतिक ब्राह्मण (१. ३), और शतपथ ब्राह्मण (११ १, १, ७) इस बात का संकेत करते हैं कि पूर्णिमा मास के मध्य में पड़ती थी, और अमावस्या को या तो मास का आरम्भ माना जाता था अथवा अन्त। हॉपकिन्स (नोट ११) का विचार है कि कौपीतिक ब्राह्मण ५ १ और शतपथ ब्राह्मण ६ २, २, १८, मास के पूर्णिमा से आरम्भ होने का संकेत करते हैं। यदि इसे मान लिया जाय तो 'अष्टका', माघ में मकर संक्रान्ति के एक सप्ताह पूर्व पड़ेगी।

तैत्तिरीय संहिता ३ ५, १, ३, के अनुसार मास का आरम्भ अमावस्या से होता है।

का । किन्तु नव-वर्षारम्भ के पश्चात् प्रथम अष्टका के रूप में एकाष्टका को ग्रहण करने का सम्भवतः पर्याप्त औचित्य सिद्ध किया जा सकता है ।

यह निश्चित नहीं कि ठीक-ठीक मास की गणना किस दिन से किस दिन तक होती थी । यह गणना अमावस्या के बाद के दिन से अगली अमावस्या तक होती थी, जिस पद्धति को 'अमान्त' कहते हैं, अथवा पूर्णिमा के बाद के दिन से अगली पूर्णिमा तक जिसे 'पूर्णिमान्त' पद्धति कहते हैं और जिसका बाद में उत्तर भारत में अनुसरण होता था, जब कि दक्षिण में प्रथम पद्धति प्रचलित थी । याकोबी^{११} यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि वर्ष का आरम्भ फाल्गुन की पूर्णिमा से होता था और केवल नक्षत्रों के साथ पूर्णिमा के संयोग के आधार पर ही मास को जाना जा सकता था । औल्डेनवर्ग^{१२} इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि पूर्णिमा की अपेक्षा अमावस्या कहीं अधिक स्पष्ट पर्व है; ग्रीक, रोमन, और यहूदीयों के वर्षों का अमावस्या से ही आरम्भ होता था; और इसका वैदिक प्रमाण मास का पूर्वार्द्ध और अपरार्द्ध के रूप में विभाजन है जिसमें प्रथमार्द्ध शुक्ल होता था और द्वितीयार्द्ध कृष्ण । थिवो^{१३} का विचार है कि वेदों के लिये पूर्णिमान्त पद्धति को ग्रहण करना अनावश्यक, यद्यपि संभव है । वेवर^{१०} यह मानते हैं कि भाष्यकारों के अनुसार कौपीतिक ब्राह्मण में यही मान्यता है । किन्तु इस स्थल पर बहुत जोर देना अथवा यह मानना कि वेदों में विशुद्धतः अमान्त पद्धति को भी मान्यता थी, सम्भवतः एक भूल होगी : कम से कम ऐसा सम्भव प्रतीत होता है कि एक अस्पष्ट रूप से अमावस्या के दिन मास का आरम्भ माना जाता था जिससे अमावस्या उस पूर्णिमा के पहले आती थी जो मास के मध्य में पड़ती थी, मास के आरम्भ अथवा अन्त में नहीं ।

एक मास में नियमित रूप से तीस दिन माने जाते थे । इसका उन

^{११} त्सी० गे० ४९, २२९, नोट १, ५०, ८१ । तु० की० हॉपकिन्स ज० अ० ओ० सो० २४, २० ।

^{१२} वही, ४८, ६३३, नोट १, ४९, ४७६, ४७७ । महाकाव्य का यही नियम है, हॉपकिन्स : ३० स्था० ।

^{१३} इन्डियन ऐन्टिक्वेरी, २४, ८७ । कोई

भी प्रमाण किसी भी पक्ष के लिये निर्णायक नहीं है । यह सम्भव है कि विभिन्न परिवारों या नगरों में अलग अलग प्रचलन रहे हों । तु० की० थिवो ऐस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉलोजी अन्ट मैथमेटिक, १२ ।

अनेक स्थलों द्वारा निर्णायक प्रमाण मिलता है जिनमें वर्ष में चारह महीने और ३६० दिन घताये गये हैं। इस प्रकार का मास प्राचीनतम ग्रन्थों में भी ज्ञात था और इसका प्रत्यक्ष संकेत और सन्दर्भ मिलता है^{१४}। ब्राह्मणों^{१५} में इसी प्रकार के मास का नियमित उल्लेख है और इसे ही वैदिक भारतीयों द्वारा मान्य मास के रूप में स्वीकार करना चाहिये। ब्राह्मण साहित्य में किसी भी अन्य प्रकार के मास का उल्लेख नहीं है। यह केवल सूत्रों में ही देखा जा सकता है जहाँ विभिन्न अवधि के मासों का उल्लेख है। सामवेद के सूत्रों^{१६} में यह संदर्भ है :—(१) ३२४ दिनों का वर्ष—अर्थात् २७ दिनों वाले १२ मासों का वर्ष, (२) ३५१ दिनों का वर्ष—अर्थात् २७ दिनों के १२ मासों तथा २७ दिन के ही एक सौर-मास का वर्ष, (३) ३५४ दिनों का वर्ष—अर्थात् ३० दिनों के ६ महीनों और २९ दिनों के ६ महीनों का वर्ष, अथवा चान्द्रसंयुति वर्ष; (४) ३७८ दिनों का वर्ष—जिमके सन्वन्ध में थिवो^{१७} स्पष्ट रूप से यह दिखाते हैं कि यह तृतीय वर्ष होता था जिस में ३६० दिनों के दो वर्षों के पश्चात् १८ दिन इसलिये जोड़ दिये जाते थे कि नागरिक वर्ष और ३६६ दिनों के सौर-वर्ष में समानता आ जाय। किन्तु सामसूत्रों तक में ३६६ दिनों के वर्ष का उल्लेख नहीं है, और ऐसे वर्ष सर्व-प्रथम ज्योतिष^{१८} और गर्ग^{१९} में ही मिलते।

वैदिक काल ३५४ दिनों के वर्ष से परिचित था इसे भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। रिसमर^{२०} वस्तुतः इसे इस तथ्य द्वारा प्रमाणित मानते हैं कि गर्भावस्था को १० मास, अथवा कभी-कभी १ वर्ष माना गया

^{१४} ऋग्वेद, १ १६४, ११. १४. ४८, १०. १८९, ३, १९०, २, अथर्ववेद ४. ३५, ४, १०. ७, ६; ८, २३, १३ ३, ८, इत्यादि।

^{१५} मैत्रायणी संहिता १ १०, ८; ऐतरेय ब्राह्मण ४. १२; काठक संहिता ३६ २, ३, कौपीतकि ब्राह्मण ३ २; ऐतरेय आरण्यक ३ २, १; बौधायन श्रौत सूत्र २६. १०, बृहदारण्यक उपनिषद् १ ५, २२। देखिये वेवर. नक्षत्र २,

२८८, भी, थिवो : ऐस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉ-लोजी, उन्ट मैथमेटिक, ८।

^{१६} लाट्यायन श्रौत सूत्र ४. ८, १ और वाद, निदान सूत्र ५. ११ १२, वेवरः नक्षत्र, २ २८१-२८८ :

^{१७} उ० पु०, ८, ९।

^{१८} श्लोक २८।

^{१९} ज्योतिष, १० पर भाष्य में उद्धृत।

^{२०} आल्टिन्डिशे लेवेन, ३६५, ३६६।

है।^{२१} किन्तु यहाँ वेबर^{२२} यह मानते हुये ठीक हो सकते हैं कि इस अवधि की गणना २७ दिन के मासों के आधार पर की गयी है, क्योंकि वर्ष के आधार पर गणना करने पर यह अवधि बहुत अधिक बढ़ जायेगी। दूसरी ओर १० महीने की अवधि उस दशा में गर्भावस्था के सर्वथा अनुकूल होगी जब दसवें महीने में गर्भ का जन्म हो जाय और इस आशय में ३० दिनों के मास का ही तात्पर्य होना सर्वथा उचित है।

तीस-तीस दिनों के वारह महीनों का वर्ष निश्चय ही अवैज्ञानिक होने के कारण, स्लिमर^{२३} का यह दृढ़ मत है कि ऐमे वर्ष का इम तथ्य की मान्यता के साथ ही व्यवहार होता था कि मलमास भी पढ सकते थे, और यह कि स्वयं वर्ष भी एक अपेक्षाकृत अधिक जटिल और सामान्यतया पाँच वर्ष की युग-चक्र पद्धति का ही अंश होता था। ज्योतिष द्वारा यह पद्धति भली प्रकार विदित होती है : इसमें २९ $\frac{1}{4}$ दिनों वाले ६२ मास = १,८३० दिन (इनमें से दो मास मलमास होते थे जिनमें से एक युग के मध्य में तथा दूसरा अन्त में पढता था), अथवा ३० दिनोंवाले ६१ मास, अथवा ३० $\frac{1}{2}$ दिनों वाले ६० मास होते थे, जिसमें वर्ष की इकाई स्पष्टतः ३६६ दिनों का एक सौर वर्ष होती थी। यह एक आदर्श पद्धति नहीं है, क्योंकि वर्ष की अवधि अत्यधिक लम्बी है;^{२४} किन्तु यह ऐसी अवश्य है जिसका अस्तित्व ब्राह्मण काल में नहीं रहा हो सकता क्योंकि इस काल में वर्ष की वास्तविक अवधि के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय नहीं किया गया प्रतीत होता। ऋग्वेद^{२५} में स्लिमर द्वारा देखे गये इसके सन्दर्भ तर्क की दृष्टि से भी

^{२१} ऋग्वेद ५ ७८, ७-९, १० १८४, ३, अथर्ववेद १ ११, ६, ३. २३, २, ५ २५, १३, काठक संहिता २८ ६, शतपथ ब्राह्मण ४ ५, २, ४ ५ (वही ९ ५, १, ६३, में यह कथन है कि छह मास का भ्रूण भी जीवित रह सकता है), इत्यादि में दस मास की गर्भावस्था का उल्लेख है। एक वर्षकी अवधि का पञ्चविंश ब्राह्मण १०. १, ९ (६ १, ३, में दस मास), काठक संहिता ३३ ८, शतपथ ब्राह्मण ६ १, ३, ८, ११ ५, ४, ६-११, ऐतरेय ब्राह्मण

४ २२, इत्यादि में उल्लेख है।

^{२२} नक्षत्र २, २१३, नोट १।

^{२३} उ० पु० ३६९, ३७०।

^{२४} युग लगभग चार दिनों से लम्बा है। वास्तविक वर्ष ३६५ दिन, ५ घण्टे, ४८ मिनट, ४६ सेकेन्ड, का होता है। तु० की० थियो उ० पु० २४, २५।

^{२५} १. १६४, १४, ३ ५१, १८।

यह स्थल निःसन्देह अस्पष्ट हैं; किन्तु इनकी युग को दस अर्द्ध-वर्षों के रूप में व्याख्या करना विशेष रूप से सहानुभूति दिखाना मात्र है।

सम्भव नहीं प्रतीत होते, जब कि इनके द्वारा पञ्चविंश ब्राह्मण^{२६} से उद्धृत 'पञ्चक युग' एक भाग्य के उद्धरण मात्र में आता है, जिसका स्वयं मूलग्रन्थ के लिये कोई आधिकारिक महत्त्व नहीं।

दूसरी ओर, इसमें सन्देह नहीं कि ३६० दिनों के वर्ष—एक चान्द्र-संयुति वर्ष—को मोटे रूप से वास्तविकता के साथ सम्बद्ध करने का कुछ प्रयास किया गया था। एक सामसूत्र^{२७} इसे एक सौर-वर्ष मानते हुये यह मत व्यक्त करता है कि सूर्य प्रत्येक नक्षत्र का १३ $\frac{१}{३}$ दिनों में परिभ्रमण करता है; जब कि अन्य स्रोतों ने इसी समानता को प्राप्त करने के लिये प्रत्येक तीसरे वर्ष प्रत्यक्षतः १८ दिन जोड़ देने के विधान का प्रतिपादन किया है। किन्तु ऋग्वेद^{२८} तथा उसके बाद^{२९} का वैदिक साहित्य मास की अवधि-निर्णय सम्बन्धी कठिनाईयों से परिपूर्ण है, क्योंकि मास की अवधि विभिन्न रूप से ३० दिन^{३०}, ३५ दिन^{३१}, अथवा ३६ दिन^{३२} बताई गई है। इस अन्तिम सख्या से सम्भवतः ६ वर्षों (६ × ६ = ३६, अथवा सांस्कारिक प्रयोजन की दृष्टि से ३५) के पश्चात् मलमास का संकेत मिलता है, किन्तु

^{२६} १७ १३, १७। धित्री ७० पु० ७, ८, वेवर : इन्डिओ स्ट्रीफेन, १, ९१, और उसमें उद्धृत मन्दर्म भी देखिये। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि मलमास के लिये पाँच वर्ष की अवधि को स्वीकृत करने की प्रवृत्ति का आरम्भ हो चला था, जो अन्ततः गत्वा ज्योतिष में विकसित दिखाई पड़ती है। किन्तु हम यह नहीं कह सकते कि इस समय के पूर्व भी ३६६ दिनों का वर्ष ज्ञात था।

^{२७} लाट्यायन श्रौत सूत्र ४ ८, में ऐसा कुछ नहीं, किन्तु निदान सूत्र ५. १२, २ ५, सर्वथा स्पष्ट है।

^{२८} १ २५, ८, कदाचित् १६५, १५।

^{२९} शतपथ ब्राह्मण ४. ३, १, ५, ६ २, २,

२१, १० २, १, ८, ऐतरेय ब्राह्मण १ १०; काठक संहिता ३४ १३, पञ्चविंश ब्राह्मण १० ३, २; = ३ २, ३, तैत्तिरीय आरण्यक ५ ४, २९; वेवर : नक्षत्र २, ३३६, नोट १।

^{३०} अथर्ववेद १३ ३, ८।

^{३१} शतपथ ब्राह्मण १०. ५, ४, ५।

^{३२} वही ९ १, १, ४३, ३, ३, १८। तु० की० एगिल्डन से० बु० ई० ४३, १६७, नोट १। शामशास्त्री (गवाम् अवन, १२२) इन स्थलों की एक अत्यन्त असम्भव रूप से व्याख्या करते हैं। महाकाव्य में ३५-३६ दिनों के मास का कोई चिह्न नहीं है : हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० २४, ४२।

इसके लिये कोई विशेष प्रमाण उपलब्ध नहीं। १२ या १३ मासों वाले वर्ष का भी अनेक सन्दर्भ^{३३} मिलता है।

यह भी कौतूहलवर्धक है कि मासों के नाम प्राचीन नहीं। यज्ञीय विषय-वस्तु से परिपूर्ण यजुर्वेद में उस स्थल पर इनका स्पष्टतम रूप मिलता है जहाँ 'अग्निचयन' का वर्णन किया गया है।^{३४} यहाँ उपलब्ध नाम इस प्रकार हैं : (१) मधु; (२) माधव (वसन्त-मास : 'वासन्तिकाव् ऋतू'); (३) शुक्र, (४) शुचि (ग्रीष्म-मास : 'ग्रैष्माव् ऋतू'); (५) नभ (अथवा 'नभस्')^{३५}; (६) नभस्य (वर्षा-मास : 'वर्षिकाव् ऋतू'); (७) ह्य; (८) ऊर्ज (शरद्-मास : 'शारदाव् ऋतू'), (९) सह (अथवा 'सहस्')^{३५}; (१०) सहस्य (हेमन्त-मास : 'हैमन्तिकाव् ऋतू'); (११) तप (अथवा 'तपस्')^{३५}; (१२) तपस्य (शीतल-मास : 'शैशिराव् ऋतू')।

सोम-यज्ञ^{३६} तथा अश्वमेध-यज्ञ^{३७} के वर्णनों में भी इसी प्रकार की सूचियाँ हैं, और अनिवार्य अंशों में सभी एक दूसरे के समान हैं। कुछ और कल्पनाशील नामोंवाली अन्य सूचियाँ भी मिलती हैं,^{३८} किन्तु वास्तविक विभाजन के प्रचलित आशय को व्यक्त करने की दृष्टि से इनका कोई महत्त्व नहीं है। ऊपर दी हुई सूची एक पुरोहितीय आविष्कार के अतिरिक्त कुछ और भी है, यह कह सकना सन्दिग्ध ही है। वेबर ऐसा संकेत करते हैं कि 'मधु' और 'माधव' वाद में वसन्त के नाम के रूप में

^{३३} तैत्तिरीय संहिता ५ ६ ७ १, काठक संहिता २१ ५, ३४, ९, मैत्रायणी संहिता १ १०, ८, कौपीतिकि ब्राह्मण ५ ८, कौपीतिकि उपनिषद् १ ६, शतपथ ब्राह्मण २ २, ३, २७, ३ ६, ४, २४, ५ ४, ५, २३, ७ २, ३, ९, इत्यादि, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण १ १०, ६।

^{३४} तैत्तिरीय संहिता ४ ४, ११, १, काठक संहिता १७ १०, ३५ ९, मैत्रायणी संहिता २ ८, १२, वाजसनेयि संहिता १३. २५, १४ ६ १५. १६ २७, १५. ५७।

^{३५} मैत्रायणी, काठक और वाजसनेयि

संहिताओं में। देखिये नोट ३४, ३६।

^{३६} तैत्तिरीय संहिता १ ४, १४, १ मैत्रायणी संहिता १ ३, १६, ४. ६, ७, काठक संहिता ४ ७, वाजसनेयि संहिता ७ ३० (जहाँ मास के नामों के रूप में 'दृप्' और 'ऊर्ज्' आते हैं)।

^{३७} मैत्रायणी संहिता ३ १०, १३, वाजसनेयि संहिता २२ ३१।

^{३८} देखिये, उदाहरण के लिये, तैत्तिरीय संहिता १ ७, ९, १, ४ ७, ११, २; वाजसनेयि संहिता ९. २०; १८ २८, २२ ३२, काठक संहिता ३५ १०। वेबर, २, ३४९, ३५०।

आते हैं और इन दोनों का तैत्तिरीय आरण्यक^{३९} में इस प्रकार उल्लेख है मानो यह वास्तविक रूप से ही प्रयुक्त हुये हों, किन्तु यह दिखाने के लिये प्रमाण अत्यन्त अपर्याप्त हैं कि मासों के अन्य नाम भी साधारण प्रयोग में प्रचलित थे।^{४०}

इन सूचियों में से कुछ में मलमास का भी उल्लेख है। वाजसनेयि संहिता^{४१} में इसे 'अहसस्पति' नाम दिया गया है, जब कि तैत्तिरीय^{४२} और मैत्रायणी^{४३} संहिताओं में 'ससर्प' नाम आता है। काठक संहिता^{४४} इसे 'मलिम्लुच' नाम प्रदान करती है, जो अन्यत्र भी कल्पनाशील नामों की सूचियों में से एक में, 'ससर्प' के साथ-साथ आता है।^{४५} इसमें सन्देह नहीं कि इसकी अस्थिर प्रकृति के कारण ही अथर्ववेद^{४६} 'सनिस्रस' (फिसलनेवाला) के रूप में इसका वर्णन करता है।

मासों के नामकरण की एक अन्य पद्धति का आधार नक्षत्र हैं। ब्राह्मण-काल में इन पद्धति के प्रयोग का आरम्भ मात्र हुआ था किन्तु महाकाव्य तथा उसके बाद में यह विकसित रूप में मिलती है। ज्योतिष^{४७} में ऐसा उल्लेख है कि 'माघ' और 'तप' समान थे। इस स्थल की, जिसमें 'मघु' और 'चैत्र' का समीकरण भी मिलता है, यही उचित व्याख्या है और यह परिणाम ब्राह्मणों में अक्सर उपलब्ध इस दृष्टिकोण के समान है कि 'फाल्गुनी' नहीं वरन् 'चित्रा' की पूर्णिमा से ही वर्षारम्भ होता था।^{४८}

^{३९} ८, ७, २, ५, ६, १६।

^{४०} मेघदूत, १, ४, पर मछिनाथ द्वारा प्रयुक्त 'नमस्' जैसे उदाहरण केवल आढम्बर मात्र हैं।

^{४१} ७, ३०, २२, ३१।

^{४२} १, ४, १४, १।

^{४३} ३, १०, १३।

^{४४} ३८, ४।

^{४५} वही ३५, १०, वाजसनेयि संहिता २२, ३०।

^{४६} ५, ६, ४।

^{४७} यजुम् शापा का मन्त्र ५ = ऋक् शाखा का मन्त्र ५ - वेवर, २, ३५४ और वाद

^{४८} वेवर का यह सिद्धान्त (३५९) कि

फाल्गुन के बाद चैत्र हा वसन्त का द्वितीय मास है, नि सन्देह एक त्रुटि है; क्योंकि विपुव-पूर्वायणों के कारण फाल्गुन स्वतः वसन्त का प्रथम मास बन गया, जब कि चैत्र स्वभावतः गत ऋतु का अन्तिम मास हो गया। सत्य यह है कि वर्ष का छह ऋतुओं में विभाजन कृत्रिम है, और फाल्गुन अथवा चैत्र दोनों में से किसी से भी विना किसी विशेष प्राथमिकता के वसन्त का आरम्भ माना जा सकता है। देखिये वेवर इन्डिशे स्टूडियन, ९, ४५७, १०, २३१, २३२, विद्वत्ने : ज० अ० ओ० सो० ८, ७१, ३९७, ३९८।

मास के शुद्ध और कृष्ण पक्षों के लिये शतपथ ब्राह्मण^{४९} में 'यव' और 'अयव' नामक दो कौतूहलवर्धक व्याहृतियाँ मिलती हैं, जहाँ मास का आरम्भ स्पष्ट रूप से शुद्ध पक्ष से ही माना गया है। जैसा कि एग्लिङ्ग^{५०} का विचार है, यह शब्द सम्भवतः दुष्टात्माओं के सन्दर्भ में 'यु' (भगाना) से व्युत्पन्न हुये हैं। पर्वन् (जोड़ = समय का विभाजन) शब्द कदाचित्^{५१} ऋग्वेद^{५२} तक में सम्भवतः मास के अर्द्ध-भाग का द्योतक है। अधिक उपयुक्त भाष्य में प्रथमाद्ध अर्थात् प्रकाश की वृद्धि के समय को 'पूर्व-पक्ष'^{५३}, तथा द्वितीयाद्ध अर्थात् प्रकाश की क्रमिक समाप्ति के समय को 'अपर-पक्ष'^{५४} कहा गया है। इन दोनों में से किसी को भी 'अर्द्ध-मास'^{५५} कहा जा सकता है।

^{४९} ८ ४, २, १२, ३, २८, देखिये वाजसनेयि संहिता १४ २६ ३१। तैत्तिरीय संहिता ४. ३, १०, ३ में शब्दों का रूप 'याव' और 'अयाव' है, जिनकी ५ ३, ४, ५ में व्याख्या की गई है।

^{५०} से० तु० ई० ४३, ६९, नोट।

^{५१} बृहदारण्यक उपनिषद् १ १, १, में मास और अर्द्ध-मास यज्ञ-अश्व के 'पर्वाणि' है। तु० की० शतपथ ब्राह्मण १ ६, ३, ३५, २६ २, २, २४, वाजसनेयि संहिता १३ ४३, सेन्ट पीटर्स-बर्ग कोश, व० स्था०, ४, जहाँ आशय को अस्पष्ट छोड़ दिया गया है।

^{५२} १. ९४, ४। तु० की० लुडविग - ऋग्वेद का अनुवाद ३, १८९।

^{५३} तैत्तिरीय संहिता ३ ४, ९, ६; ऐतरेय

ब्राह्मण ४ २५, ३, शतपथ ब्राह्मण ६ ७, ४, ७, ८ ४, २, ११, निरुक्त ५ ११, ११. ५ ६।

^{५४} शतपथ ब्राह्मण ६ ७, ४, ७, ८ ४, २, ११, ११ १, १, ३, बृहदारण्यक उपनिषद्, ३ १, ५, निरुक्त, ५ ११, ११ ६, इत्यादि।

^{५५} शतपथ ब्राह्मण ५ ४, ५, २१, बृहदारण्यक उपनिषद्, १ १, १, ३ ८, ९, इत्यादि, तैत्तिरीय संहिता ७ १, १५, १, तैत्तिरीय संहिता ३ १२, ७, वाजसनेयि संहिता २२ २८।

तु० की० तिसर : आस्टिन्डिशे लेवेन, ३६४ और वाद, थिवो : ऐस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉलोजी, उन्ट मैथमेटिक, ७-९; वेवर - प्रो० अ० १८९६, ३७, और वाद, नक्षत्र, २, और सर्वत्र।

मासर का, यजुर्वेद संहिताओं^१ में एक पेय के रूप में उल्लेख है। इसके निर्माण की विधि का कात्यायन श्रौत सूत्र^२ में पूरी तरह वर्णन किया गया है।

^१ मैत्रायणी संहिता ३ ११, २, ९, वाजसनेयि संहिता १९ १४ ८२, २० ६८, तैत्तिरीय ब्राह्मण २ ६, ११, ४, इत्यादि।

^२ १९ १, २० २१, वाजसनेयि संहिता १९ १ १४, पर महीधर।

तु० की० ग्रिफिथ . वाजसनेयि संहिता, १७२, नोट।

यह सम्भवतः चावल और घास सहित श्यामाक, भूने जौ, इत्यादि का मिश्रण होता था ।

माहकि ('महक' का वंशज) वंश ब्राह्मण^१ में एक गुरु का पैतृक नाम है ।

^१ इन्टिशे स्टूडियन, ४, ३८२ ।

माहा-चमस्य ('महाचमस' का वंशज) उस गुरु का नाम है जिसे तैत्तिरीय आरण्यक^१ में, 'भूर्, भुवस्, स्वर'^२ की त्रयी में महस् संयुक्त करने का श्रेय दिया गया है ।

^१ १ ५, १ ।

| ^२ तु० की० कीथ . ऐतरेय आरण्यक, १८० ।

माहा-रजन (केशर से रंगा हुआ, 'महा-रजन'), बृहदारण्यक उपनिषद् (२. ३, १०) में एक प्रकार के परिधान (वासस्) के लिये व्यवहृत हुआ है ।

माहा-राज्य (एक महान् राजा का वैभव, 'महा-राज') का ऐतरेय ब्राह्मण (८. ६, ५; १२, ४; १५, ३) में उल्लेख है ।

माहित्थि ('महित्थ' का वंशज) एक गुरु का नाम है जिसका शतपथ ब्राह्मण^१ में अनेक वार उल्लेख है । बृहदारण्यक उपनिषद्^२ में इसे वाम-कदायण का शिष्य बताया गया है ।

^१ ६ २, २, १०, ८ ६, १, १६ और | ^२ ६ ५, ४ काण्व ।
वाद, ९ ५, १, ५७, १० ६, ५, ९ ।

माहीन, ऋग्वेद^१ के उस स्थल पर आता है जहाँ एक राजा के रूप में असमाति की प्रशस्ति की गई है । बहुवचन में प्रयुक्त यह शब्द असमाति की प्रशस्ति करनेवाले पुरोहितों का पैतृक नाम हो सकता है, अथवा एक विशेषण भी जिसका अर्थ अनिश्चित है ।

^१ १० ६०, १ । तु० की० लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १३८ ।

मित्र, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में मित्र का द्योतक है । तैत्तिरीय संहिता^३ के

^१ पुल्लिङ्ग १ ५८, १, ६७, १, ७५, ४, १५६, १, १७०, ५, २ ४, १ ३, इत्यादि ।

रीय संहिता ६ ४, ८, १; तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ७, ८, ७, ऐतरेय ब्राह्मण ६ २०, १७, ८ २७, २, शतपथ ब्राह्मण ४ १, ४, ८, ५ ३, ५, १३, ११ ४, ३, २०, इत्यादि ।

^२ पुल्लिङ्ग . अथर्ववेद ५ १९, १५, ११ ९, २, काठक संहिता २७ ४, तैत्तिरीय आरण्यक १० ८०। ऋीव : तैत्ति-

^३ ६ २, ९, २ ।

अनुसार पत्नी मनुष्य की मित्र होती है और शतपथ ब्राह्मण^४ में मित्र के महत्व पर जोर दिया गया है। मित्र के प्रति विश्वासघात की भर्त्सना की गई है।^५

^४ १ ५, ३, १७।

| ^५ तु० की० तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ७, १, ७।

मित्र-भू काश्यप ('कश्यप' का वंशज) वंश ब्राह्मण^६ में विमण्डक काश्यप के शिष्य, एक गुरु का नाम है।

^६ इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७४।

मित्र-भूति लौहित्य ('लोहित' का वंशज) का जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ४२, १) के अन्तिम वंश (गुरुओं की तालिका) में कृष्णादत्त लौहित्य के शिष्य के रूप में उल्लेख है।

मित्र-वर्चस् स्थैरकायण ('स्थिरक' का वंशज) वंश ब्राह्मण^७ में सुप्रतीत औलुण्ड्य के शिष्य, एक गुरु का नाम है।

^७ इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७२।

मित्र-विन्द काश्यप ('कश्यप' का वंशज) वंश ब्राह्मण^८ में सुनीथ के शिष्य, एक गुरु का नाम है।

^८ इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७२।

मित्रातिथि का ऋग्वेद^९ के एक सूक्त में कुरुश्रवण के पिता और उपमश्रवस् के पितामह के रूप में उल्लेख है। प्रत्यक्षतः यह सभी राजा है।

^९ १० ३३, ७। तु० की० लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६५, गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन, २, १५०, १८४, कीथ : ज० ए० सो०, १९१०, ९२२,

९२३, लैनमैन : संस्कृत रीडर ३८४; बृहद्देवता, ७ ३५ ३६, मैकडौनेल के नोट सहित।

मुञ्जीजा ऋग्वेद^{१०} के एक स्थल पर मिलता है जहाँ स्पष्ट रूप से इसका आशय पशुओं के पकड़ने के लिये प्रयुक्त 'जाल' है। तु० की० पदि।

^{१०} १ १२५, २, निरुक्त ५ १९। तु० की० तिसमर . आस्ट्रिन्डिशे लेवेन २४४।

१. मुञ्ज, एक ऐसी घास (*Saccharum munja*) का द्योतक है जो बहुत बढ़ती है और लगभग १० फीट तक ऊँची हो जाती है। इसका

अन्य प्रकार की घासों के साथ ऋग्वेद^१ में विपैले जीवों के निवास-स्थान के रूप में उल्लेख है। इसी ग्रन्थ^२ में मुञ्जा घास को परिष्कारक भी कहा गया है जिसका प्रत्यक्षतः सोम को छानने के लिये प्रयोग किया जाता था। वाट की सहिताओं^३ और ब्राह्मणों^४ में भी इन घास का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण^५ में इसे खोखला (सुपिर) कहा गया है और यह सिंहासन (आसन्दी)^६ के विने हुये भाग के लिये प्रयुक्त होता था।

^१ १ १९१, ३।

^२ १. १६१, ८ ('मुञ्ज-नेजन' जिसकी सायण 'अपगत-वृण' अर्थात् 'हवाई हुई घाम सहित', के रूप में व्याख्या करते हैं।

^३ अथर्ववेद १ २, ४, तैत्तिरीय सहिता ५ १, ९, ५, १०, ५, इत्यादि।

^४ कौशीतकि ब्राह्मण १८ ७, शतपथ ब्राह्मण ४ ३, ३, १६, ६ ६, १, २३, २, १५ २६, इत्यादि। तु० की० सेन्ट-पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था०, 'मौज'।

^५ ६ ३, १, २६।

^६ शतपथ ब्राह्मण १२. ८, ३, ६। तु० की० तिसर आस्टिन्डिशे लेवेन ७०।

२. मुञ्ज साम-श्रवस ('सामश्रवस' का वंशज) एक व्यक्ति, सम्भवतः किसी राजा, का नाम है। इसका जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण^१ और षड्विंश ब्राह्मण^२ में उल्लेख है।

^१ ३ ५, २।

| ^२ ४ १ (इन्डिशे स्टूडियन १, ३९)।

मुण्डिम औदन्य^१ अथवा औदन्यव,^२ शतपथ ब्राह्मण^१ और तैत्तिरीय ब्राह्मण^२ में किसी व्यक्ति का नाम है।

^१ शतपथ ब्राह्मण १३. ३, ५, ४। प्रत्यक्षत यह शब्द एक पैतृक नाम 'उदन्य का पुत्र', है (एन्डिङ्ग - से० वु० ई०, ४४, ३४१, नोट १, यही मानते हैं) अथवा 'ओदन का पुत्र', (सेन्ट-

पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० यही मानता है)।

^२ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ९, १५, ३ ('उदन्यु' का वंशज)।

मुद्ग, जो कि एक प्रकार के बीज (Phaseolus Mungo) का घोटक है, वाजसनेयि सहिता^१ में वनस्पतियों की सूची में आता है। शाङ्खायन आरण्यक^२ और सूत्रों में 'बीजों के साथ पके चावल के रस' (मुद्गौदन) का उल्लेख है। तु० की० सम्भवत मुद्गल।

^१ १८ १२।

^२ १० ८। तु० की० तिसर - आस्टिन्डिशे लेवेन, २४०।

मुद्रल और मुद्रलानी ('मुद्रल' की पत्नी) दोनों ही ऋग्वेद^१ के उग्र सर्वथा अस्पष्ट सूक्त में आते हैं जिसकी पिशल^२, और गेल्डनर^३ तथा फॉन ब्राड्फे^४ ने विभिन्न रूप से यह व्याख्या की है कि यह स्थल एक ऐसे वास्तविक रथ के दौड़ का वर्णन करता है जिसमें कठिनाईयों के विपरीत भी अपनी पत्नी की सहायता से मुद्रल विजयी हुआ था । भारतीय परम्परा में भी उतना ही विभेद है जितना आधुनिक विद्वानों की व्याख्या में । पड्गुरुशिव्य^५ यह व्याख्या करते हैं कि वैल चोरी हो जाने पर मुद्रल ने उन चोरों का केवल एक बचे हुये वृद्ध वैल द्वारा पीछा किया और अपने हथौड़े (द्रु-घण) को फेंककर भागने वाले चोरों को पकड़ लिया । दूसरी ओर, यास्क^६ यह व्यक्त करते हैं कि मुद्रल ने दो वैलों की अपेक्षा एक वैल और एक द्रुघण द्वारा किसी दौड़ को जीत लिया था । यह बहुत कुछ स्पष्ट है कि, जैसा कि रौथ^७ ने व्यक्त किया है, परम्परागत व्याख्या केवल एक अनुमान मात्र है और इस अस्पष्ट से सूक्त की बहुत स्पष्ट व्याख्या भी नहीं करता; औल्डेनवर्ग^८ ने भी इसी दृष्टिकोण को स्वीकार किया है । ब्लूमफील्ड^९ ने इस कथा की, मानवीय नहीं वरन् दिव्य घटना के रूप में, व्याख्या की है । मुद्रल, जो सम्भवतः उस 'मुद्रर'^{१०} का एक विभेदात्मक रूप है जिसका वाद की भाषा में हथौड़ा अथवा इसी समान किसी अस्त्र का अर्थ है, वास्तविक व्यक्ति की अपेक्षा इन्द्र के वज्र का मूर्त्तिकरण हो सकता है ।^{११} वाद^{१२} में मुद्रल एक पौराणिक ऋषि है ।

^१ १० ८०२ ।

^२ वेदिशे स्टूडियन १, १०४ ।

^३ वही १, १३८, २, १-२२ ।

^४ त्सी० गे० ४६, ४४५ और वाद ।

^५ मैकडौनेल का सर्वानुक्रमणीका संस्करण, पृ० १५८ ।

^६ निरुक्त ९, ०३ ०४ ।

^७ ए० नि०, १२९ ।

^८ त्सी० गे० ३९, ७८ ।

^९ वही ४८, ५४७ ।

^{१०} गेल्डनर वेदिशे स्टूडियन, २, १, के अनुसार, १०. १०२, २, में मुद्रलानी का नाम इन्द्रसेना है, किन्तु इसका आशय (इन्द्र का वज्र) कदाचित् इस

स्थल के पौराणिक प्रकृति की ओर संकेत करता है ।

^{११} यदि इस नाम से किसी वास्तविक व्यक्ति का अर्थ है तो इसे मुद्र (माप) के साथ सन्बद्ध किया जा सकता है । देखिये त्सिमर आस्टिन्डिशे लेवेन, २४० ।

^{१२} अथर्ववेद ४, २९, ६, आश्वलायन श्रौत सूत्र १२ १२, बृहद्देवता ६ ४६, ८ १२ ९० ।

तु० की० लुडविग • ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६६, १६७, औल्डेनवर्ग रिर्लीजन देस वेद, २८०, कीय : ज० ए० सो०, १९११, १००५, नोट १

मुनि, ऋग्वेद^१ के एक सूक्त में आता है जहाँ यह दिव्य इष्ट (देवेपित) और अभिचारी शक्तियों से युक्त तपस्वी का द्योतक और वाद के भारत के कुछ विचित्र तपस्वियों का पूर्वगामी प्रतीत होता है। यह इस तथ्य के भी अनुकूल है कि ऐतरेय ब्राह्मण^२ में ऐतश् मुनि को उसका पुत्र मनोविकृत मानता है। ऐतश् प्रलाप^३ के नाम से जो कुछ भी मूर्खतापूर्ण वार्तालाप है वह यदि इसी का है तो उक्त मत अनुपयुक्त भी नहीं। ऋग्वेद^४ इन्द्र को 'मुनियों का मित्र' कहता है और अथर्ववेद^५ में भी एक दिव्य मुनि (देवमुनि) का सन्दर्भ है जिससे इसी समान किसी मुनि का तात्पर्य हो सकता है।

उपनिषदों^६ में मुनि का स्वरूप कुछ अधिक विशिष्ट है : यह अध्ययन, अथवा यज्ञ, अथवा प्रायश्चित्त, अथवा व्रत, अथवा श्रद्धा से ब्रह्म की प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करनेवालों में से एक है। फिर भी, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि प्राचीन और वाद के मुनियों में कोई स्पष्ट विभेद किया गया है : दोनों ही दशाओं में व्यक्ति एक विशेष आह्लादपूर्ण स्थिति में होता है, किन्तु उपनिषदों का आदर्श उस प्राचीनतर मुनि के चित्र से अपेक्षाकृत कम भौतिक है जो एक ऋषि की अपेक्षा 'चिकित्सक' अधिक था। साथ ही वैदिक ग्रन्थों में मुनि के सन्दर्भों की अपेक्षाकृत दुर्लभता द्वारा यह निष्कर्ष भी नहीं निकालना चाहिये कि वैदिक काल में यह एक दुर्लभ व्यक्तित्व था : सत्कारों का पालन करनेवाले पुरोहितों द्वारा सम्भवतः इसे मान्यता नहीं दी गई थी : और पुरोहितों के दृष्टिकोण भी अनिवार्यतः मुनियों के आदर्शों से भिन्न थे क्योंकि मुनिगण सन्तान और दक्षिणा की इच्छा जैसे पार्थिव विचारों से ऊपर थे।^७

^१ १० १३६, २ ८. ५। प्रथम मन्त्र में शनका 'लम्बे केशवालों' के रूप में वर्णन किया गया है।

^२ ६ ३३ ३।

^३ देखिये ब्लूमफील्ड अथर्ववेद, ९८, और वाद।

^४ ८ १७, १४। तु० की० ७ ५६, ८, मैक्स मूलर • से० बु० ई०, ३०, ३७६

^५ ७ ७४, १। तु० की० विहट्ने अथर्व-वेद का अनुवाद ४४०, शतपथ ब्राह्मण ९ ५, २, १५, और मुनिमरण।

^६ बृहदारण्यक उपनिषद् ३ ४, १; ४ ४, २५, तैत्तिरीय आरण्यक २ २०।

^७ तु० की० औल्डेनबर्ग : रिलीजन देस वेद, ४०६, त्सी० गे० ४९, ४८०, बुद्ध, ३६।

मुनि-मरण, उस स्थान का नाम है जहाँ पञ्चविंश ब्राह्मण (१४. ४, ७) के अनुसार वैखानसों का वध किया गया था ।

मुलालिन (पुल्लिङ्ग) अथवा मुलाली (स्त्री०), अथर्ववेद^१ में एक प्रकार के खाने के योग्य कमल (सम्भवतः *Nymphaea esculenta*) के किसी भाग का नाम है ।

^१ ४ ३४, ५ । तु० की० कौशिक सूत्र ६६
१०, वेवर ' इण्डिशे स्टूडियन १८,
१३८, तिसर आल्टिण्डिशे लेवेन

७०, विट्ने : अथर्ववेद का अनुवाद
२०७ ।

मुषीवन्, ऋग्वेद (१. ४२, ३) के एक स्थल पर 'डाकू' का द्योतक है । मुष्कर अथर्ववेद^१ के एक स्थल पर, जैसा कि रौथ^२ का विचार है, सम्भवतः किसी छोटे पशु या कीटाणु के आशय में आता है । फिर भी, रौथ इस स्थल को भ्रष्ट मानते हैं । ब्लूमफील्ड^३ का विचार है कि पैप्पलाद शाखा का 'पुष्करम' (नील कमल) पाठ ही शुद्ध है ।

^१ ६ १४, २ ।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश व० स्था ।

^३ अथर्ववेद के सूक्त, ४६३, ४६४ ।

तु० की० विट्ने . अथर्ववेद का
अनुवाद, २९७ ।

मुष्टि-हन्^१, मुष्टि-हत्या,^२ ऋग्वेद और अथर्ववेद में क्रमशः 'आमने-सामने के युद्ध', अर्थात् रथी के विरुद्ध साधारण योद्धा के बीच युद्ध, और स्वयं 'युद्ध' के भी द्योतक हैं । इसी प्रकार अथर्ववेद^३ में 'रथिन्' के विरुद्ध पैदल सैनिक (पत्ति) हैं, और ऋग्वेद^४ में सैनिकों का एक दल (ग्राम) रथियों का विरोध करता है । यूनानी और अन्य आर्य जातियों के समानान्तर प्रमाणों से ऐसा व्यक्त होता है कि क्षत्रियगण रथों पर बैठ कर युद्ध करते थे जब कि साधारण सैनिक पैदल रहते थे ।

^१ ऋग्वेद ५ ५८, ४, ६. २६, २, ८ २०,
२०; अथर्ववेद ५ २२, ४ ।

^२ ऋग्वेद १७८, २ ।

^३ ७. ६०, १ ।

^४ १ १००, १० ।

तु० की० तिसर आल्टिण्डिशे
लेवेन, २९७ ।

मुसल, वाद की संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में 'मुसल' का द्योतक है ।

^१ अथर्ववेद १०. ९, २६, ११ ३, ३, १२
३, १३, तैत्तिरीय संहिता १. ६, ८,
३, इत्यादि ।

^२ शाङ्खायन आरण्यक १२ ८, अतपथ

ब्राह्मण १२ ५, २, ७, जैमिनीय ब्राह्मण
१. ४२ ४४ (ज० अ० ओ सो०, १५,
२३५, २३७) में 'मुसलिन्' का अर्थ
'गदाधारी व्यक्ति' है ।

मुहूर्त ब्राह्मणों^१ में दिन के तीसरे भाग, अथवा अद्वितालीम मिनट के एक घण्टे जैसी समय की अवधि का द्योतक है। ऋग्वेद^२ में केवल 'क्षण' का ही आशय मिलता है। तु० की० अहन् ।

^१ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ १०, १, १ (नामों के लिये), ९, ७, १०, ९, ६, गतपथ ब्राह्मण १० ४, २, १८ २५ २७; ३, २०, १२ ३ २, ५, १० ४, ४, ४, इत्यादि ।

^२ ३ ३३, ५, ५३, ८ । 'क्षण' का आशय

ब्राह्मणों में भी सामान्य रूप में मिलता है ।

तु० की०, र्त्सी० गे०, १, १३९, जीम वाद, इन्द्रिशे र्द्रीफिन, १, ९२ और वाद ।

मूचीप अथवा मूवीप, एक वर्चर जाति के नाम के रूप में, शाङ्खायन श्रौत सूत्र (१५. २६, ६) में, पेत्रेय ब्राह्मण के मृतिव का विभेदान्मक पाठ है ।

तु० की०, वेवर इन्द्रिशे स्ट्टियन १०, ६७, नोट १ ।

मृजवन्त, एक जाति के लोगों का नाम है जिनका महावृषों, गन्धारियों और वल्हिकों के साथ-साथ उन सुदूर-वासियों के रूप में अथर्ववेद^३ में उल्लेख है जिन पर ज्वर को वहिष्कृत किया जाता था । इसी प्रकार यजुर्वेद संहिताओं^४ में भी मृजवन्तों को एक ऐसे दूरस्थ लोगों के रूप में खूना गया है जिनसे, धनुष सहित और भागे जाने के लिये रुद्र की, स्तुति की गई है । ऋग्वेद^५ में सोम का 'मृजवत' (मृजवन्तों के पाम से आने वाला, अथवा जैसा कि यास्क^६ ने माना है 'मृजवन्त पर्वत से प्राप्त') के रूप में वर्णन किया गया है । मृजवन्त को एक पर्वत के रूप में ग्रहण करने में भारतीय भाष्यकार^७ यास्क से सहमत हैं, और यद्यपि हिलेब्रान्ट^८ यह कहने में ठीक हो सकते हैं कि रिसमर^९ द्वारा कश्मीर की दक्षिण-पश्चिमी निचली पहाड़ियों

^१ ५ २२, ५ ७ ८ १४ । तु० की० वीधायन श्रौत सूत्र २ ५ ।

^२ तैत्तिरीय संहिता १. ८, ६, २, काठक संहिता ९. ७, ३६ १४, मंत्रायणी संहिता १. ४, १०, २०, गजसनेयि संहिता ३. ६१; गतपथ ब्राह्मण २ ६, २, १७ ।

^३ १० ३४, १ ।

^४ निरुक्त ९ ८ ।

^५ वाजसनेयि संहिता उ० स्था० पर मही-धर, ऋग्वेद १ १६१, ८, पर सायण; हिलेब्रान्ट वेदिशे माइथोलोजी, १. ६३ में उद्धृत वीधायन श्रौत सूत्र और प्रयोग ।

^६ उ० पु० १. ६५ ।

^७ आस्टिन्टिशे लेवेन, २९ ।

के साथ मूजवन्त के समीकरण में प्रमाणों का अभाव है, तथापि इस तथ्य को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि मूजवन्त एक ऐसा पर्वत था जिसके आधार पर ही इस जाति के लोगों ने अपना नाम ग्रहण किया था। यास्क^८ यह विचार व्यक्त करते हैं कि मूजवन्त वास्तव में उस मुञ्जवन्त के समान है जो वाद में महाकाव्य^९ में हिमालय के अन्तर्गत एक पर्वत का नाम है।

^८ उ० २।०। तु० की० पाणिनि ४ ४, ११० पर सिद्धान्त कौमुदी, जहाँ ऋग्वेद १० ३४, १ में 'मौजवत' के स्थान पर 'मौञ्जवत' पढ़ा गया है।

^९ महामारत १० ७८५; १४ १८०। तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १९८।

मूत वाद की सहिताओं और ब्राह्मणों^१ में 'विनी हुयी टोकरी' का द्योतक है। 'मूतक' का अर्थ 'छोटी टोकरी' है।^२

^१ काठक सहिता ३६ १४, तैत्तिरीय | श्रौत सूत्र ८ ३, ८। ब्राह्मण १ ६, १०, ५, लाट्यायन | ^२ शतपथ ब्राह्मण २ ६, २, १७।

मूतिव पेत्रेय ब्राह्मण^३ में ऐसी बर्बर जाति के लोगों के रूप में आता है जिनकी विश्वामित्र की जाति-बहिष्कृत संतानों के रूप में गणना करायी गयी है। शाङ्खायन श्रौत सूत्र^४ में इनका नाम मूचीप अथवा मूवीप के रूप में आता है।

^३ ७ १८, २।

^४ १५. २६, ६।

तु० की० मुहर : सस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, ३५८, ४८३।

मूल, मूलबर्हण—देखिये नक्षत्र।

मूस्^१, मूषिका^२, चूहों के नाम हैं जो ऋग्वेद^३ तथा यजुर्वेद सहिताओं^४ में आते हैं।

^३ ऋग्वेद १ १०५, ८ = १०. ३३, ३, निरुक्त ४ ५।

तु० की० तिसमर आल्टिन्डिगे लेवेन ८५, अडर . प्रिहिस्टॉरिक

येन्टिकिटीज, २४८।

^४ मैत्रायणी सहिता ३ १४, १७, वाज-सनेथि सहिता २४. ३६।

१. मृग से ऋग्वेद^५ तथा वाद^६ में 'वन्य-पशु' जैसा एक जातिवाचक

^५ १ १७३, २, १९१, ४, ८ १, २०, ५, ३६; १० १४६, ६ इत्यादि।

^६ अथर्ववेद ४ ३, ६, १० १, २६, १२ १, ४८ (सूकर), १९ ३८, २ पञ्च-

विंश ब्राह्मण ६ ७, १०, २४. ११, २; पेत्रेय ब्राह्मण ३ ३१, २, ८. २३, ३, इत्यादि।

आशय है। कभी-कभी इसके लिये भयानक (भीम)^३ विशेषण का भी प्रयोग किया गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस शब्द से किसी मासाहारी वन्य-पशु का अर्थ है। अन्यत्र जैसे को उस 'महिष'^४ (शक्तिशाली) उपाधि द्वारा व्यक्त किया गया है जो वाद में जैसे का नाम ही बन गया है। अधिक विशिष्टतः इस शब्द से मृग (हिरन) के प्रकार के किसी पशु का तात्पर्य है।^५ कुछ स्थलों^६ पर रौथ^७ ने इस शब्द में 'पक्षी' का भी आशय देखा है। मृग हस्तिन् और पुरुष हस्तिन् भी देखिये।

^३ ऋग्वेद १. १५४, २, १९०, ३; २. ३३, ११, ३४, १, १० १८०, २, इत्यादि।

^४ ऋग्वेद ८ ६९, १५; ९ ९२, ६, १० १०३, ४।

^५ ऋग्वेद १. ३८, ५, १०५, ७, ६ ७५, ११, ९. ३२, ४, अथर्ववेद ५ २१, ४ (निश्चित दृष्टान्त नहीं है), तैत्तिरीय संहिता ६ १, ३, ७, तैत्तिरीय ब्राह्मण

३. २, ५, ६, शतपथ ब्राह्मण ११ ८, ४, ३, इत्यादि।

^६ ऋग्वेद १ १८२, ७; १० १३६, ६, और सम्भवतः १. १४५, ५, ७ ८७, ६।

^७ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०। तु० की० पिशल वेदिशे स्टूडियन १ ९९, २, १२०।

२. मृग, सायण भाष्य के अनुसार ऐतरेय ब्राह्मण^१ में मृगशिरस् नामक नक्षत्र-पुञ्ज का द्योतक है। किन्तु अधिक सम्भव^२ यह प्रतीत होता है कि वास्तव में यहाँ 'मृग' 'कालपुरुष' नामक सम्पूर्ण नक्षत्रपुञ्ज का ही द्योतक है। इससे केवल मृगशिरस् नामक कालपुरुष के शीर्ष भाग में अप्रखर-से तारक-पुञ्ज-मात्र का नहीं वरन् उसके स्कन्ध भाग के अल्फा (α) तारे का जिसे आद्रा के नाम से पुकारा जाता है, और उसके बायें स्कन्ध के γ तारे का भी आशय है। फिर भी तिलक^३ ने 'मृग' अथवा 'मृगशिरस्' को एक भिन्न समूह माना है जिसके अन्तर्गत 'कालपुरुष' के कटिबन्ध के समस्त तारे, घुटने के दो तारे और बायें स्कन्ध का एक तारा आ जाता है। इस प्रकार निर्मित नक्षत्र पुञ्ज को तिलक एक ऐसे मृग की आकृति मानते हैं जिसके सर के भाग में एक तीर विंधा है, किन्तु यह सर्वथा असम्भव और अनुचित मान्यता है। तु० की० मृगव्याध।

^१ ३ ३३, ५।

^२ देखिये विहट्टने : ज० अ० ओ० मो०,

१६, x011।

^३ ओरायन, ९९ और बाद।

२. मृग हस्तिन् (हस्त-युक्त पशु) का ऋग्वेद^१ के दो स्थलों पर उल्लेख है, जहाँ रौथ^२ यह तो मान लेते हैं कि इससे हाथी का अर्थ है, किन्तु यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस शब्द का यौगिक रूप इस वात का प्रमाण है कि वैदिक भारतीयों के लिये हाथी एक नवीन वस्तु था।^३ वाद में हस्तिन् विशेषण अकेले ही इस पशु का नियमित नाम बन गया है (भैसे के लिये महिष की भाँति)। ऋग्वेद में वर्णनात्मक व्याहृति 'मृग वारण'^४ (वन्य अथवा भयानक पशु) द्वारा भी हाथी को ही व्यक्त किया गया है और उक्त विशेषणों की ही भाँति 'वारण' विशेषण भी वाद की भाषा में हाथी का एक नाम बन गया है। पिशल का यह दृष्टिकोण^५ कि ऋग्वेद^६ तक में पालतू हथिनी के माध्यम से हाथी को पकड़ने का सन्दर्भ है, अत्यन्त सन्दिग्ध प्रतीत होता है। ऐतरेय ब्राह्मण^७ में हाथियों का 'काले, श्वेत-दन्त और स्वर्ण अलङ्कृत' होने के रूप में वर्णन किया गया है।

^१ १ ६४, ७, ४ १६, १४।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० म्था०, ए० नि० ७९।

^३ पिशल . वेदिशे स्टूडियन, १, ९९, १००, इस मन का विरोध करते हैं कि हाथी वैदिक भारतीयों के लिये एक नया जीव था, क्योंकि आपके अनुसार भैसे और सूकर को व्यक्त करने के लिये भी क्रमशः 'मृग महिष' तथा 'मृग सूकर' (अथर्ववेद १२ १, ४८) का प्रयोग मिलता है। किन्तु महिष के सम्बन्ध में रौथ का निष्कर्ष ठीक प्रतीत होता है, जब कि सूकर ऋग्वेद में अकेले आता है, और 'मृग सूकर' का अथर्ववेद (१२ १,

४८) के एक स्थल पर उसी मन्त्र में आने वाले वराह के साथ विभेद स्पष्ट करने के लिये प्रयोग किया गया है।

^४ ऋग्वेद ८ ३३, ८, १० ४०, ८।

^५ वेदिशे स्टूडियन, २, १२१-१२३, ३१७-३१९। तु० की० स्ट्रावो, पृ० ७०४, ७०५; अरियन . इन्डिका, १३ १४ (मैगास्थनीज से)।

^६ ८ २, ६, १० ४०, ८।

^७ ८ २३, ३ (हिरण्येन परीवृत्तान् कृष्णा-व्युद्धदत्तो मृगान्)। देखिये पिशल उ० पु० २, १२२।

तु० की० तिसर . आस्टिन्डिशे लेवेन, ८०।

मृगय ऋग्वेद^१ के अनेक स्थलों पर इन्द्र द्वारा पराजित हुये होने के रूप में आता है। इसका एक मानव शत्रु होना, जैसा कि लुडविग^२ का विचार है, असम्भव प्रतीत होता है : अधिक सम्भवतः यह एक दानव था, जैसा कि 'मृग' निःसन्देह है ही।^३

^१ ४ १६, १३, ८ ३, १९, १० ४९, ५।

^२ ऋग्वेद का अनुवाद, ३ १६६।

^३ ऋग्वेद १ ८०, ७, ५ २९ ४, इत्यादि।

मृगयु (व्याध) वाद की सहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में मिलता तो है किन्तु बहुत अधिक वार नहीं । फिर भी, वाजसनेयि सहिता^३ और तैत्तिरीय ब्राह्मण^४ में पुरुषमेध के वलि-प्राणियों की तालिका में अनेक नामों को सम्मिलित किया गया है जो ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रतीत होते हैं जो मछली मारकर अथवा आखेट द्वारा जीविकोपार्जन करते थे, जैसे मार्गार, कैवर्त्त अथवा केवर्त्त, पौञ्जिष्ठ, दाश, मैनाल और सम्भवतः वैन्द, तथा आन्द^५, जो सभी एक न एक प्रकार के मछूये ही प्रतीत होते हैं ।

यह सम्भव नहीं प्रतीत होता कि प्राचीनतम वैदिक काल में किसी भी वैदिक जाति की आजीविका का साधन आखेट था : पशुपालन और कृषि ही निश्चित रूप से उनकी आजीविका के आधार थे । किन्तु आखेट नहीं किया जाता था ऐसा मानना भी अतर्कसङ्गत होगा क्योंकि मनोरञ्जन, भोजन और साथ ही साथ पालतू पशुओं की जङ्गली पशुओं से रक्षा करने के लिये आखेट का आश्रय लिया जाता था । आखेट के सम्बन्ध में विवरण के लिये स्वभावतः ऋग्वेद ही हमारा प्रमुख स्रोत है । कभी-कभी वाण का प्रयोग होता था,^६ किन्तु जैसा कि पुरातन मनुष्यों की दशा में अन्यत्र भी है, पशुओं को पकड़ने के लिये जाल और गद्दे ही सामान्य उपकरण होते थे । पक्षियों को नियमित रूप से जालों (पाश^७, निधा^८, जाल^९) में ही पकड़ा जाता था और पक्षी पकड़नेवाले को 'निधापति'^{१०} कहा गया है । जाल को खूटियों^{११} के सहारे (जैसा कि पक्षी पकड़ने के लिये प्रयुक्त आधुनिक जालों की दशा में भी किया जाता है) तान दिया जाता था । जाल का दूसरा नाम प्रत्यक्षतः मुद्गीजा था ।

मृगों (ऋश्य) को पकड़ने के लिये गड्डों का प्रयोग होता था और इसलिये इन्हें 'ऋश्य-द'^{१२} कहा गया है । जैसा कि प्राचीन यूनानी समय में भी

^१ अथर्ववेद १० १, २६, वाजसनेयि सहिता १६ २७, ३० ७, इत्यादि ।
तु० की० 'मृगण्यु', ऋग्वेद १० ४०, ४ ।

^२ तैत्तिरीय ब्राह्मण, १. ५, १, १; ३ ४, ३, १, पचर्विंश ब्राह्मण १४ ९, १०, इत्यादि ।

^३ ३० ।

^४ ३ ४ ।

^५ वाजसनेयि सहिता ३० १६; तैत्तिरीय सहिता ३ ४, १२, १ ।

^६ ऋग्वेद २ ४२, २ ।

^७ पाशिन् (व्याध), ऋग्वेद ३ ४५, १ ।

^८ ऋग्वेद ९ ८३, ४, १० ७३. ११ ।

^९ अथर्ववेद १० १, ३० ।

^{१०} ऋग्वेद ९ ८३, ४ ।

^{११} अथर्ववेद ८ ८, ५ ।

^{१२} ऋग्वेद १० ३९, ८ ।

होता था, हाथियों को पालतू हथिनियों की सहायता से पकड़ा जाता था (देखिये मृग हस्तिन्) । प्रत्यक्षतः शूकरों को दौड़ाकर और कुत्तों की सहायता से^{१३}, पकड़ा जाता था; किन्तु जिस स्थल के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है उसका विषय-वस्तु अनिश्चित और पुराकथात्मक है । भैंसे (गौर) को पकड़ने का भी एक अस्पष्ट सन्दर्भ^{१४} मिलता है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं कि यहाँ बाण से वध करने का तात्पर्य है अथवा रस्सियों या जाल से पकड़ने का । सिंह को या तो गड्ढों में गिराकर पकड़ा जाता था,^{१५} अथवा अनेक व्याध घेरकर उसका वध कर देते थे ।^{१६} एक अत्यन्त अस्पष्ट स्थल पर, प्रच्छन्न स्थान की सहायता से सिंह को पकड़ने का सन्दर्भ है जिससे सम्भवतः केवल ढँके हुये गड्ढों के ही प्रयोग का तात्पर्य है ।^{१७} मछली पकड़ने की पद्धतियों के सम्बन्ध में बहुत कम विवरण उपलब्ध है क्योंकि जो एक मात्र प्रमाण मिलता है वह यजुर्वेद में वर्णित विभिन्न नामों की व्याख्या पर आधारित है । सायण^{१८} का कथन है कि धैवर उन्हें कहते थे जो किसी तालाब में दो किनारों से जाल लगाकर मछलियाँ पकड़ते थे; दाश और शौष्कल कटिये (बडिश) से मछलियाँ पकड़ते थे; वैन्द, कैवर्त, और मैनाल, जाल की सहायता से पकड़ते थे; मार्गार जल में अपने हाथ से पकड़ते थे; आन्द प्रत्यक्षतः एक छोटा बाँध बनाकर पकड़ते थे; जब कि पर्णाक जल पर विपैली पत्तियों को रखकर पकड़ते थे । किन्तु इनमें से किसी भी व्याख्या को सर्वथा प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता ।

^{१३} ऋग्वेद १० ८६, ४ ।

^{१४} ऋग्वेद १० ५१, ६ ।

^{१५} ऋग्वेद १० २८, १० ।

^{१६} ऋग्वेद ५ १५, ३ ।

^{१७} ऋग्वेद ५. ७४, ४ । तु० की०

त्रिफिथ ऋग्वेद के सूक्त १, ५४२,

नोट ।

^{१८} तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, १२, १, पर ।

तु० की० वेवर . त्सी० गे० १८,

२८१ । तु० की० त्सिमर . आस्टिन्डिशे

लेबेन, २४३-२४५ ।

मृग-व्याध ऐतरेय ब्राह्मण^१ में प्रजापति की पुत्री की कथा में एक नक्षत्र-पुञ्ज का नाम है । प्रजापति (काल पुरुष) अपनी पुत्री रोहिणी का पीछा करता है और हसीलिये धनुर्धर मृग-व्याध उसका वध कर देता है । इसमें

^१ ३. ३३, ५ । तु० की० हिलेब्रान्ट : माइथोलोजी, २, २०५, नोट १, २०८, नोट; ३, तिलक : ओरायन, ९८ और

वाद, सूर्य सिद्धान्त ८ १०, ९ १२, में भी यह नाम सुरक्षित है ।

सन्देह नहीं कि प्रजापति की कथा के आकाश में रथानान्तरण का कारण इस नक्षत्रपुञ्ज की एक धनुर्धर के विचार के साथ समानता ही है ।

मृग-शिरस्, मृग-शीर्ष । देखिये नक्षत्र, १. और २. मृग ।

मृगाखर तैत्तिरीय संहिता (७. ५, २१, १) और ब्राह्मण (३. ९, १७, ३) में 'जङ्गली पशुओं के विवर' का धोतक है ।

मृड यजुर्वेद संहिताओं^१ में केवल समस्त पदों के अन्तर्गत आता है और स्वर्ण की एक छोटी तौल का धोतक प्रतीत होता है । इसका 'मृद' पाठ निश्चित नहीं, जैसा कि व्याकरण परम्परा^२ में है ।

^१ 'उपचाय-मृड हिरण्यम्', काठक संहिता ११ १, 'अष्टा-मृड हिरण्यम्', वही १३. १०, 'अष्टा-प्रुड्-हिरण्यम्', तैत्तिरीय संहिता ३ ४, १, ४ ।

^२ देखिये पाणिनि ३. १, १०३ और उस पर वार्त्तिक, फॉन थ्रोडर : त्सी० ने० ४०, १६४ ।

मृत्तिका (मिट्टी) का वाद की संहिताओं और ब्राह्मणों में उल्लेख है ।^३ तु० की० मृद् ।

^१ वाजसनेयि संहिता १८ १३; ऐतरेय ब्राह्मण ३ ३४, २, छान्दोग्य उप-

निषद् ६ १, ४, तैत्तिरीय आरण्यक १० १, ८. ९ ।

मृत्यु का ऋग्वेद^१ और वाद^२ में एक भयङ्कर वस्तु के रूप में बहुधा उल्लेख मिलता है । मृत्यु के लगभग एक-सौ-एक रूप बताये गये हैं जिनमें से जरावस्था^३ की मृत्यु को सबसे स्वाभाविक माना गया है, जब कि अन्य सौ प्रकार की मृत्यु से बचने^४ का प्रयास करना चाहिये । जरावस्था के पूर्व (पुरा

^१ ७ ५९, १२, १०. १३, ४, १८, १. २, १० ४८, ५, ६०, ५ । इसी प्रकार 'मृत्यु-बन्धु', ऋग्वेद ८ १८, २२, १० ९५, १८ ।

ब्राह्मण १० ६, ५, १, इत्यादि । इसी प्रकार अक्सर 'मृत्यु पाश', अथर्ववेद ८ २, २, ८, १० १६, १७ १, ३०, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ १०, ८, २, काठक उपनिषद् १ १८, इत्यादि ।

^२ तैत्तिरीय संहिता १ ५, ९, ४, जहाँ ससार को 'मृत्यु के साथ सन्नद्ध' (मृत्यु सयुत) कहा गया है, तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ५, ९, ६, ऐतरेय ब्राह्मण ३. ८, २, १४, १ २ ३, शतपथ

^३ अथर्ववेद २. १३, २, २८, २ ।

^४ अथर्ववेद १ ३०, ३; २ २८, १; ३ ११, ५, ८ २, २७, ११. ६, १६, इत्यादि ।

जरसः^५) की मृत्यु को निश्चित अवधि के पूर्व (पुरा आयुषः^६) हुई मृत्यु कहा गया है। जीवन की सामान्य अवधि को वैदिक साहित्य में सर्वत्र सौ वर्ष माना गया है।^७ दूसरी ओर दैहिक शक्ति के हास के रूप में वृद्धावस्था के कष्टों को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है^८ : अश्विनो के चमत्कारी कृत्यों में से एक वृद्ध च्यवान को पुनः यौवन और शक्ति प्रदान करना तथा दूसरा कलि^९ को यौवन दान देना था। मृत्यु से बचने और दीर्घायु (आयुष्य) प्राप्त करने के लिये अथर्ववेद^{१०} में अनेक प्रकार के अभिचार मिलते हैं।

मृतकों के संस्कार के लिये गाढ़ना और अग्नि में जलाना दोनों ही पद्धतियाँ प्रचलित थीं (देखिये अग्निदग्ध)। यह दोनों ही पद्धतियाँ आरम्भिक वैदिक काल में प्रयुक्त होती थीं,^{११} जैसा कि यूनान में भी था,^{१२} किन्तु प्रथम पद्धति अपेक्षाकृत कम प्रचलित थी और इसे बहुत कुछ अमान्यता ही प्रदान की गयी है। मृतकों की अस्थियों पर, चाहे वे जली हों अथवा नहीं, एक श्मशान का निर्माण करा दिया जाता था। शतपथ ब्राह्मण^{१३} में श्मशान के निर्माण की पद्धति के सम्बन्ध में तीव्र मतभेद के अनेक चिह्न वर्तमान हैं। जलते हुये जलयान में मृतकों के शव को समुद्र में छोड़ देने की उत्तरी देशों में प्रचलित पद्धति का ऋग्वेद में कोई संकेत^{१४} नहीं मिलता : एक जलयान^{१५} का सन्दर्भ मृत्यु के पश्चात् के पौराणिक संकेतों की ओर ही संकेत करता है, अन्त्येष्टि की पद्धति की ओर नहीं।

^५ ऋग्वेद ८ ६७, २०, अथर्ववेद ५. ३०, १७, २० २, ३०, १३. ३, ५६।

^६ शतपथ ब्राह्मण २ १, ४, १।

^७ ऋग्वेद १ ६४, १४, ८९, ९, २ ३३, २, इत्यादि। तु० की० लैनमैन . सस्कृत रीडर, ३८४, वेबर, इन्डिशे स्टूडियन १७ १९३, फे० रौ०, १३७।

^८ ऋग्वेद १ ७१, १०, १७९, १।

^९ १० ३९, ८। तु० की० मुहर सस्कृत टेक्स्ट्स ५, २४३।

^{१०} देखिये ब्लूमफील्ड अथर्ववेद, ६२ और वाद।

^{११} देखिये हॉपकिन्स . ज० अ० ओ०

सो०, १६, ०११; विन्टरनिट्स गो लियो, १, ८४, ८५।

^{१२} देखिये लैङ्ग . होमर एण्ड हिज ऐज, ८२ और बाद, तु० की० वरोज . डिस्कावरीज इन क्रीट, २०९-२१३।

^{१३} १३. ८, २, १।

^{१४} तु० की० त्सिमर आस्ट्रिन्डिशे लेवेन ४१०, वीनहोस्ट आस्टर्नॉटिशे लेवेन ४८३ और वाद।

^{१५} ऋग्वेद १० ६३, १०, १३५, ४, अथर्ववेद ७ ६, ३, और तु० की० वेबर प्रो० अ०, १८९५, ८५६।

वैदिक भारतीयों की दृष्टि में मृत्यूपरान्त जीवन इस लोक के जीवन की पुनरावृत्ति मात्र होता था। मृतक दूसरे लोक में 'सर्वतनुः साङ्गः' (समस्त शरीर और अङ्गों के साथ^{१६}) जाता था, और वहाँ उन्हीं सुखों का उपभोग करता था जो उसे इस पृथ्वी पर उपलब्ध थे। ऋग्वेद^{१७} तक में पापियों को दूसरे लोक में कष्ट मिलने के संकेत उपलब्ध हैं, किन्तु यातनात्मक नरकों की कल्पना अथर्ववेद^{१८} और ब्राह्मणों^{१९} के पूर्व नहीं मिलती, और केवल ब्राह्मणों^{२०} में ही ऐसा कथन है कि इस लोक के श्रेष्ठ अथवा दुष्कर्मों के आधार पर ही मृतकों को दूसरे लोक में स्वर्ग अथवा नरक प्राप्त होता है। किन्तु दुष्टों के भाग्य में मृत्यूपरान्त सर्वथा उन्मूलन^{२१} के दण्ड की कल्पना का, जैसा कि शैथ^{२२} मानते हैं, ऋग्वेद में कोई संकेत नहीं है। नैतिक दृष्टि से वैदिक कवियों का चरित्र बहुत उन्नत न होने के कारण उनकी रचनाओं में भी भावी न्याय का कोई ऐसा विशेष समावेश नहीं है जैसा कि पाप में पूर्ण आस्था रखनेवाले व्यक्तियों की रचनाओं में होना चाहिये।

^{१६} अथर्ववेद ५. ६, ११, १८ ४, ६४,
शतपथ ब्राह्मण ५ ६, १, १, ११ १,
८, ६, १२ ८, ३, ३१, और तु० की०
तैत्तिरीय संहिता ५ ३, ५, २, ६, ३,
६, ६, ३, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ८,
२०, ५, १०, ११, १।

^{१७} ऋग्वेद २ २९, ६, ३ २६, ८, ४ ५,
५, २५, ६, ७ १०४, ३. ११ १७,
१० १५२, ४।

^{१८} २ १४, ३, ५ १९, ३, ३०, ११;
८ २, २४, १२ ४, ३६, १८ ३, ३।
तु० की० ५ १९, और वाजसनेयि
संहिता ३० ५, भी।

^{१९} शतपथ ब्राह्मण ११ ६, १, १ और
वाद; वेवर : त्सी० गे०, ९, २४०,
और वाद; जैमिनीय ब्राह्मण १ ४०-
४४ (ज० अ० ओ० सो०, १५, २३६
और वाद)।

^{२०} शतपथ ब्राह्मण ६ २, २, २७, १०.
६, ३, १, कौषीतकि ब्राह्मण १२ ३,
इत्यादि।

^{२१} तु० की० मैकडौनेल : वैदिक माइथो-
लोजी, पृ० १६९।

^{२२} ज० अ० ओ० सो० ३, ३२९-३४७,
वेवर . उ० पु० २३८ और वाद।

मृद्, वाद की संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में 'मिट्टी' का चोतक है (तु० की० मृत्तिका)। ब्राह्मणों^३ में 'सनी मिट्टी' का और मैत्रायणी उपनिषद्^४ में

^१ तैत्तिरीय संहिता ५ ७, ९, २, वाज-
सनेयि संहिता ११ ५५।

^२ शतपथ ब्राह्मण ६ १, १, १३; २, ३४,
३, ३, ३, १, २२ ३२; ३, १;
मैत्रायणी उपनिषद् ६ २७, इत्यादि।

^३ शतपथ ब्राह्मण ६ ४, २, १, ५, २, १,
१४ २, १, ८, छान्दोग्य उपनिषद्
६ १, ४।

^४ २ ६; ३. ३।

एक कुम्हार (मृत्-पच) का भी उल्लेख है । एक 'मृत्पात्र'^५ (मिट्टी का बर्तन) और मिट्टी के बने (मृत्-मय)^६ पात्रों का उल्लेख है । कब्र को 'मिट्टी का गृह'^७ कहा गया है ।

^५ काठक संहिता ३१ २ ।

इत्यादि ।

^६ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ४, १, ३ ४,

^७ ऋग्वेद ८. ८९, १ (मृत्मय गृह) ।

मृध्, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'शत्रु' का द्योतक है ।

^१ १ १३१, ६; १३८, २, १८२, ४,
२ २२, ३, २३, १३, २८, ७, ३
४७, २, ५ ३०, ७ इत्यादि ।

५, ८, १३. १, ५ २७, १८ २, ५९;
तैत्तिरीय संहिता, २ २, ७, ४, ५,
३, १, वाजसनेयि संहिता ५ ३७;
११ १८ ७२, इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद ५ २०, १२; ६ २, २, ८

मृध्र-वाच्, देखिये दस्यु और दास ।

मेघरा, ब्राह्मणों^१ में हवि (चरु) को चलाने के लिये प्रयुक्त लकड़ी के एक चम्मच जैसे उपकरण का द्योतक है ।

^१ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ३, १०, ४, ३ ७, ४, ९, शतपथ ब्राह्मण २. ४, २, १३ इत्यादि ।

मेखला, वाद की संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में करधनी का द्योतक है । ब्रह्मचारिन् करधनी धारण करते थे ।^३

^१ अथर्ववेद ६ १३३, १, तैत्तिरीय संहिता
१ ३, ३, ५, ६ २, २, ७, काठक
संहिता २३ ४, २४. ९, मैत्रायणी
संहिता ३ ६, ७, इत्यादि ।

^२ शतपथ ब्राह्मण ३ २, १, १०, ४ ४,
५, २, ६ २, २, ३९, इत्यादि ।

^३ गृह्यसूत्रों में ब्राह्मणों की करधनी को मुञ्ज की, क्षत्रिय की करधनी को धनुष के प्रत्यम्बा की, और वैश्यों की करधनी को ऊन अथवा सन की बनी बताया गया है । देखिये आश्वलायन गृह्यसूत्र १ १९, १२, इत्यादि ।

मेघ, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में आकाश के वादलों का द्योतक है ।

^१ १ १८१, ८ ।

^२ अथर्ववेद ४ १५, ७, शतपथ ब्राह्मण ३
२, २, ५, १२ ३, २, ६, 'महा-मेघ',
ऐतरेय आरण्यक ३ २, ४; शाङ्खायन
आरण्यक ७. ३, ८ ७ । क्रिया शब्द

'मेघय्' तैत्तिरीय संहिता ४. ४, ५, १
में मिलता है और तैत्तिरीय ब्राह्मण
३ १, ४, १, में 'मेघयन्ती' सात
कृत्तिकाओं में से एक का नाम है;
वेबर : नक्षत्र, २, ३०१, ३६८ ।

मेथि, अथर्ववेद^१ में मिलता है और स्तम्भ का द्योतक है। विवाह-संस्कार^२ के सम्बन्ध में भी यह शब्द मिलता है जहाँ इससे सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश के अनुसार रथ के स्तम्भों को उपस्तम्भित करनेवाले स्तम्भ का आशय है। ऋग्वेद के एक स्थल पर सम्भवतः इससे शङ्खवृत्त के रूप में लगे स्तम्भों का आशय है।^३ पञ्चविंश ब्राह्मण^४ में यह 'मेथी' के रूप में आता है और उस स्तम्भ का द्योतक है जिसमें यज्ञीय गाय बाँधी जाती थी। इस शब्द के विविध अक्षर विन्यास मिलते हैं जैसे 'मेधि', और 'मेठी'।

^१ ८. ५, २०।

^२ अथर्ववेद १४ १, ४०। तु० की० तैत्तिरीय संहिता ६ २, ९, ४, काठक संहिता २५ ८, ऐतरेय ब्राह्मण १ २९, २२, शतपथ ब्राह्मण ३ ५, ३, २१।

^३ ८. ५३, ५ (रौथ. त्सी० गे० ४८, १०९)

द्वारा-'मेधाभि' के स्थान पर 'मित-मेथीभिः' का अनुमान किया गया है।

^४ १३. ९, १७। तु० की० जैमिनीय ब्राह्मण १, १९, १ (ज० अ० ओ० सो०, २३, ३०९)।

मेघ, ऋग्वेद^१ के वालखिल्य सूक्त में आनेवाला एक अनिश्चित आशय का शब्द है। सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश के अनुसार इससे किसी यज्ञकर्ता के व्यक्ति-वाचक नाम का तात्पर्य हो सकता है।

^१ ८. ५०, १० (तु० की० ८. ४९, १०) जहाँ निश्चित रूप से यज्ञ के आशय को पर्याप्त माना गया है।

मेधातिथि^१, मेध्यातिथि^२, दोनों ही शब्द एक ही व्यक्ति के नाम प्रतीत होते हैं। यह व्यक्ति कण्व का वंशज और प्रसिद्ध वैदिक ऋषि था जिसे अनुक्रमणी द्वारा विभिन्न सूक्तों^३ के प्रणयन का भी श्रेय दिया गया है। ऋग्वेद^४ में ऐसा कथन है कि इन्द्र इसके पास एक मेघ के रूप में भाये थे : यह पुराकथा उस सुब्रह्मण्या मन्त्र^५ में भी निहित है जिसका यज्ञ कक्ष में सोम को ले जाते

^१ वाद के ग्रन्थों और ऋग्वेद ८. ८, २० में यही रूप है जहाँ यह कण्व के साथ आता है।

^२ ऋग्वेद १. ३६, १० ११ १७, ८ १, ३०, २, ४०, ३३, ४, ४९, ९, ५१, १, ९ ४३, ३, में यही रूप है।

^३ १. १२-२३, ८ १-३; २२ २३; ९. ४१-४३। विभिन्न उल्लेखों में मेधातिथि और मेध्यातिथि का अस्त व्यस्त प्रयोग मिलता है।

^४ ८. २, ४०। तु० की० १. ५१, १, जहाँ

यद्यपि मेधातिथि का उल्लेख नहीं है।

^५ जैमिनीय ब्राह्मण २ ७९; षड्विंश ब्राह्मण १. १, शतपथ ब्राह्मण ३. ३, ४, १८; तैत्तिरीय आरण्यक १. १२, ३। इनके अतिरिक्त शाट्यायनक में भी इस कथा का वर्णन है। देखिये ऋग्वेद १ ५१, १; ८ २, ४० पर सायण और ऑर्टेल : ज० अ० ओ० सो०, १६, ccxi। कथा की व्याख्या के लिये तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन ९, ३८ और वाद।

समय पुरोहित उच्चारण करते हैं और जिसमें इन्द्र को 'मेधातिथि का मेघ' कहा गया है। यह उस वत्स के प्रतिद्वन्दी के भी रूप में आता है जिस पर इसने हीन कुलत्व का लांछन लगाया था, किन्तु वत्स ने अग्नि परीक्षा द्वारा इसे इसकी इस त्रुटि का विश्वास दिलाया था (तु० की० दिव्य)^६। अथर्ववेद^७ में इसका अनेक ऋषियों के साथ उल्लेख है और यह अन्यत्र^८ भी एक ऋषि के ही रूप में आता है।

^६ पञ्चविंश ब्राह्मण १४ ६, ६।

^७ ४ २९, ६।

^८ विभिन्दुकीयों के यज्ञ में गृहपति के रूप में, जैमिनीय ब्राह्मण, ३ २३३ (ज० अ० ओ० सो०, १८, ३८),

पञ्चविंश ब्राह्मण १५ १०, १, कौषीतकि ब्राह्मण २८ २।

तु० की० लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद ३, १०२, १०५; मैकडौनेल : वैदिक माइथोलोजी, पृ० १४६।

मेध्य, ऋग्वेद^९ के एक सूक्त में किसी प्राचीन यज्ञकर्त्ता का नाम है। शाङ्खायन श्रौत सूत्र^{१०} में इसे प्रस्कण्व काण्व के प्रतिपालक पृषध्र मेध्य मातरिश्चन् के नाम में त्रुटिपूर्वक सम्मिलित कर दिया गया है।

^९ ८ ५२, २।

^{१०} १६ ११, २६।

तु० की० वेवर : ए० रि०, ३९;

लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३ १६३।

मेध्यातिथि—देखिये मेधातिथि।

मेनका—देखिये २. मेना।

१. मेना, ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर 'स्त्री'^१ का द्योतक है। अस्त्री^२ अथवा गाय^३ जैसे मादा पशुओं के आशय में भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है।

^१ ऋग्वेद १ ६२, ७, ९५, ६; २ ३९, २।

^२ ऋग्वेद १ १२१, २।

^३ १० १११, ३।

तु० की० पिशल . इन्डिजे स्ट्रुडियन,

२, ३१६, ३१७।

२. मेना^१, अथवा मेनका^२ का ऋग्वेद^३ और ब्राह्मणों^४ में वृषणश्च की

^१ इस नाम का यही साधारण रूप है।

^२ षड्विंश ब्राह्मण १ १ में यही रूप है जहाँ पुल्लिङ्ग रूप 'मेन' वृषणश्च की एक उपाधि है।

^३ ऋग्वेद १ ५१, १३ जहाँ सायण शाब्दायनक से कथा का उद्धरण देते हैं।

तु० की० ऑर्टेल : ज० अ० ओ०

सो०, १६, ccxl।

^४ षड्विंश ब्राह्मण १ १, शतपथ ब्राह्मण ३ ३, ४, १८ तैत्तिरीय आरण्यक १. १२, ३, लाट्यायन श्रौत सूत्र १ ३, १७

तु० की० एरिलङ्ग . से० बु० ई०,

२६, ८१, नोट।

पुत्री अथवा सम्भवतः पत्नी के रूप में उल्लेख है। इससे सम्बन्ध कथा का अर्थ सर्वथा अज्ञात है। तु० की० मैनाक अथवा मैनाग।

मेष, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में मेदे का द्योतक है, जबकि मेषी का अर्थ भेड़^३ है। मुख्यतः सोमरस छानने के लिये व्यवहृत भेड़ के ऊन^४ को व्यक्त करने के लिये भी इन दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। वाजसनेयि संहिता^५ में एक 'आरण्य' मेष का भी उल्लेख है।

^१ १ ४३, ६, ११६, १६, ८ २, ४०, १० २७, १७ इत्यादि।

^२ अथर्ववेद ६ ४९, २; वाजसनेयि संहिता ३ ५९, १९ ९०, २४ ३०, तैत्तिरीय संहिता ७. ४, १०, १, षट्विंश ब्राह्मण १ १, शतपथ ब्राह्मण ३ ३, ४, १८ इत्यादि।

^३ ऋग्वेद १ ४३, ६, वाजसनेयि संहिता

३ ५९, २४ १, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ६, ४, ४ इत्यादि।

^४ 'मेष', ऋग्वेद ८ ८६, ११, 'मेषी', ९ ८, ५, ८६, ४७, १०७, ११।

^५ २४ ३०।

तु० की० हॉकिन्सः ज० अ० ओ० सो०, १७, ६६, ६७।

मेहलू, ऋग्वेद^१ में नदी स्तुति में एक नदी का नाम है। प्रत्यक्षत यह सिन्धु की एक सहायक नदी थी और क्रुमु तथा गोमती (गोमल) के पहले ही सिन्धु में मिलती थी। अनुमानतः यह क्रुमु की ही सहायक नदी रही होगी।

^१ १० ७५, ६।

तु० की० तिसर • आर्चिन्दिशे

लेवेन, १४, मूडर : सस्कृत टेक्सट्स ५, ३४४।

मैत्रायणीय ब्राह्मण, एक वैदिक ग्रन्थ का नाम है जिसका वीधायन^१ के श्रुत्व सूत्र में उल्लेख है।

^१ वीधायन श्रौतसूत्र ३० ८।

तु० की० कैलेण्ड ऊ० बौ०, ४१,

जो मैत्रायणी संहिता में इसका उल्लेख नहीं पाते।

मैत्रेय, ऐतरेय ब्राह्मण^१ में कौषारव का पैतृक अथवा मातृनामोद्धत^२ नाम है। छान्दोग्य उपनिषद्^३ में यह ग्लाव के लिए भी व्यवहृत हुआ है।

^१ ८ २८, १८।

^२ पाणिनि ६ ४, १७४, ७ ३, २, के अनुसार मित्रयु से निष्कृष्ट पैतृक नाम।
छान्दोग्य उपनिषद् १ १२, १ के

भाष्यकार के अनुसार 'मित्रा' से निष्कृष्ट मातृनामोद्धत नाम।

^३ १. १०, १, गोपथ ब्राह्मण १ १, ३१ और बाद, बल्मकीरह अथर्ववेद ११०।

मैत्रेयी, बृहदारण्यक उपनिषद् (२. ४, १ और बाद; ४. ५, २ और बाद) के अनुसार याज्ञवल्क्य की पत्नियों में से एक का नाम है ।

मैनाक (मेनका का वंशज) तैत्तिरीय आरण्यक^१ में हिमालय के अन्तर्गत एक पर्वत का नाम है । मैनाक के रूप में इसका एक विभेदात्मक पाठ भी मिलता है ।

^१ १ ३१, २ । तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १ ७८, इन्डियन लिटरेचर ९३ ।

मैनाल, यजुर्वेद^१ में पुरुषमेध के वलिप्राणियों की तालिका के अन्तर्गत आता है । जैसा कि सायण^२ और महीधर^३ व्याख्या करते हैं, इसका अर्थ स्पष्टतः मधुआ ('मीन' अर्थात् मछली से निष्कृष्ट) है ।

^१ वाजसनेयि सहिता ३० १६; तैत्तिरीय | ^२ तैत्तिरीय ब्राह्मण, उ० स्था० पर ।
ब्राह्मण ३ ४, १२, १ । | ^३ वाजसनेयि सहिता उ० स्था० पर ।

मौजवत—देखिये मूजवन्त ।

मोद्गल्य (मुद्गल का वंशज), अनेक व्यक्तियों, जैसे नाक^१, शतवलाक्ष^२, और लाङ्गलायन^३ का पैतृक नाम है । ग्लाव मैत्रेय के साथ विवाद करते हुये एक ब्रह्मचारिन् का भी गोपथ ब्राह्मण^४ में इसी नाम से उल्लेख है ।

^१ शतपथ ब्राह्मण १२. ५, २, १, बृहदारण्यक उपनिषद् ६ ४, ४, तैत्तिरीय उपनिषद् १ ९, १ । | ^२ ऐतरेय ब्राह्मण ५. ३, ८ ।
^३ १ १, ३१, बल्लमफील्ड : अथर्ववेद, ११० ।
^४ तु० की० कैलेण्ड • ऊ० वौ०, ३५ ।

^२ निरुक्त ११. ६ ।

मौन ('मुनि' का वंशज) कौषीतकि ब्राह्मण (२३. ५) में अणीचिन् का पैतृक नाम है ।

मौषिकी-पुत्र ('मूषिका' के एक स्त्री-वंशज का पुत्र) माध्यन्दिन शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद् (६. ४, ३०) के अन्तिम वंश में हारिकर्णीपुत्र के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

म्लेच्छ शतपथ ब्राह्मण^१ में बर्बर भाषा के आशय में आता है । इस स्थल पर ब्राह्मणों को बर्बर भाषा के प्रयोग से वर्जित किया गया है । ऐसी भाषा के लिये 'हेऽलवो' का उदाहरण^२ दिया गया है जिसकी सायण ने

‘हेडरयः’ (हे शत्रुओं) के रूप में व्याख्या की है । यदि यह ठीक है—काण्व शाखा में एक भिन्न पाठ^३ है—तो यहाँ उद्दिष्ट वर्वरो से ऐसे आयों का ही तात्पर्य है जो संस्कृत नहीं बरन् प्राकृत भाषा बोलते थे ।^४ तु० की० वाच् ।

^३ देखिये पत्रिलङ्ग : से० बु० ३०, २६, ३१, नोट ३ ।

^४ वेवर : इण्डियन लिटरेचर १८०; तु०

की० कीथ : ऐतरेय आरण्यक १७९, १८०, १९६ ।

य

यक्ष, ऋग्वेद^१ और अथर्ववेद^२ के अनेक ऐसे स्थलों पर मिलता है जहाँ देशीय भाष्यकारों के साथ सहमत होते हुए लुडविग^३ इस शब्द में एक भोजनोत्सव अथवा किसी पवित्र आयोजन का आशय देखते हैं । फिर भी, किसी भी स्थल पर ऐसा आशय अत्यन्त संदिग्ध है ।^४

^१ १ १९०, ४, ४ ३, १३, ५ ७०, ४, ७ ५६, १६; ६१, ५; १०. ८८, १३ ।

^२ ८ ९, २५, १०. २, ३२; ७, ३८; ८, ४३, ११. २, २४ इत्यादि ।

^३ ऋग्वेद का अनुवाद ३, २६० ।

^४ तु० की० सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० और गेल्डनर द्वारा पूर्ण विवेचन : वेदिशे स्टूडियन ३, २२६-१४३ ।

यक्षु का एक बार एकवचन में और एक बार बहुवचन में ऋग्वेद^१ के उस सूक्त में उल्लेख है जिसमें दस राजाओं के विरुद्ध सुदास् के युद्ध की प्रशस्ति की गई है । यह कौन थे और उस युद्ध में इनका क्या योगदान था यह सर्वथा अनिश्चित है । मूलपाठ के शब्द-विन्यास द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने, जैसा कि रिसमर^२ का कथन है, दो सघर्षों में—एक परुष्णी (रवि) और दूसरा यमुना के तटों पर—भेद के नेतृत्व में अर्जों और शिशुओं की सहायता से भाग लिया था । फिर भी कम से कम यह सम्भव है कि प्रथम स्थल पर ‘यक्षु’ के स्थान पर यदु पढ़ा जाय, अथवा जैसा कि हॉपकिन्स^३ का विचार है, निश्चित रूप से प्रसिद्ध यदुओं के नाम के स्थान पर यक्षु को किसी अनार्य अथवा अमहत्त्वपूर्ण जाति (जैसा कि इनके

^१ ७ १८, ६ १९ ।

^२ आस्ट्रिडिशे लेवेन १२६, १२७

^३ ज० अ० ओ० सो० १५, २५९ और वाद । फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि

हॉपकिन्स के विचार से यहाँ यदुओं का ही तात्पर्य है अथवा नहीं, किन्तु ऐसा सम्भव प्रतीत होता है ।

मित्र अज और निग्रुगण स्पष्टतः थे) के भर्त्सनात्मक स्थानापन्न नाम के रूप में ग्रहण कर लिया जा सकता है । तु० की० तुर्वश ।

यत्न, ऋग्वेद^१ और अथर्ववेद^२ में अक्सर सामान्य रूप से एक ऐसी व्याधि का घोटक है जिसमें शरीर अक्षम हो जाता है । वाजसनेयि संहिता^३ में यत्न के सौ प्रकारों का उल्लेख है और काठक संहिता^४ में 'अ-यत्न' का अर्थ 'व्याधि-मुक्त' है । यजुर्वेद संहिताओं^५ में यत्न की उत्पत्ति का विवरण मिलता है जहाँ इसके तीन प्रकार निश्चित किये गये हैं—राज-यत्न, पाप-यत्न और जायेन्य । इन नामों में से द्वितीय अन्यत्र अज्ञात है और इसकी कदाचित् ही परिभाषा की जा सकती है क्योंकि इसका अर्थ केवल 'गम्भीर अथवा घातक व्याधि' मात्र है ।

^१ १ १०२, ९, १०. ८५, ३१, ९७, ११
१२, १३७, ४, १६३, १-६ ।

^२ २ १०, ५ ६, ३ ३१, १, ५ ४, ९,
२०, ६, ८. ७, २, ९. ८, ३ ७. १०,
१२ २, १. २, ४, ८, १९ ३६, १,
३८, १ ।

^३ १२ ९७ ।

^४ १७ ११ ।

^५ तैत्तिरीय संहिता २ ३, ५, २, ५, ६, ५;
काठक संहिता ११ ३, मैत्रायणी
संहिता २ २, ७, शतपथ ब्राह्मण ४
१, ३, ९ ।

तु० की० तिसर : आल्टिन्डिशे
लेवेन ३७५ और वाद, ग्रॉइमैन :
इन्डिशे स्टूडियन ९, ४००, ब्लूमफील्ड
अथर्ववेद ६०, जॉली : मेडिसिन, ८९ ।

यजत, ऋग्वेद^१ के एक सूक्त में आता है जहाँ यह सम्भवतः कोई ऋषि या यज्ञकर्त्ता है ।

^१ ५ ४४, १०. ११ । तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३; १३८ ।

यजुर्वेद (यजुस्) का ब्राह्मणों^१ और उपनिषदों^२ में बहुधा उल्लेख है ।

^१ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ १२, ९, १, ऐतरेय
ब्राह्मण ५ ३२, १, शतपथ ब्राह्मण
११ ५, ८, ३, १२ ३, ४, ९ ।

^२ ऐतरेय आरण्यक ३ २, ३ ५, शाङ्खायन
आरण्यक ८. ३. ८, बृहदारण्यक
उपनिषद् १ ५ ५, २ ४, १०; ४

१, २, ५, ११, छान्दोग्य उपनिषद्
१ ३, ७, ३ २, १ २, १५, ७, ७ १,
२ ४, २, १; ७, १, आश्वलायन
१० ७, २, शाङ्खायन श्रौतसूत्र १६
श्रौतसूत्र २, ६ इत्यादि ।

यजुस् का वैदिक साहित्य^१ में ऋच् और सामन् के साथ बहुधा विभेद किया गया है। यजुस् के अन्तर्गत यज्ञ के समय उच्चरित मन्त्र आते हैं जिनका स्वरूप गद्यात्मक या पद्यात्मक दोनों ही हो सकता है और इस शब्द के द्वारा यह दोनों ही अर्थ व्यक्त होते हैं।

^१ ऋग्वेद १०, ९०, ९, अथर्ववेद ५, २६, १, ९, ६, २, तैत्तिरीय संहिता ५, ५, ३, १, ९, ४; वाजसनेयि संहिता १, ३०, ४, १, १९, २८, ऐतरेय ब्राह्मण १. २९, २१, ८, १३, २, शतपथ ब्राह्मण १, २, १, ७, ६, ५, १, २, ३, ४, इत्यादि। बृहदारण्यक उपनिषद् ६, ४, ३३ में वाजसनेय याज्ञवल्क्य द्वारा प्रतिपादित (शुद्धानि यजूषि) का मन्त्रार्थ मिलता है जिससे ही वाजसनेयि संहिता साधारणतया शुद्ध यजुर्वेद के नाम से प्रचलित है। इसके सम्बन्ध में इस सिद्धान्त को कि

इसका कारण वाजसनेयि संहिता के मन्त्र-भाग के साथ ब्राह्मण २५८ का संयुक्त न होना है यद्यपि वेवरः इण्डियन लिटरेचर १०३, १०४; एलिङ्ग : से० वु० ई० १२, xxxvii तथा अन्य ने स्वीकृत कर लिया है, तथापि अब इसका परित्याग कर देना चाहिये। तैत्तिरीय आरण्यक ५, १०, में 'शुक्-यजूषि' व्याहृति द्वारा इसी आरण्यक के चौथे और पाँचवें भागों का तात्पर्य प्रतीत होता है। तु० की० विन्टरनिज़ . गे० लि० १, १४९ नोट।

यज्ञ-गाथा, किसी भी प्रकार^१ के यज्ञ से सम्बन्धित गाथा का, अथवा जैसा कि महाभारत^२ में इसका वर्णन है, यज्ञ के सम्बन्ध में गाये गये श्लोकों (गाथा यज्ञ-गीता) का द्योतक है।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ३. ४३, ५, आश्वलायन श्रौतसूत्र २. १२, ६, शाङ्खायन श्रौतसूत्र १६, ८, २६; ९, ६, इत्यादि ^२ १२. ७९१. २३१६।

यज्ञ-वचस् राजस्तम्बायन ('राजस्तम्ब' का वंशज) शतपथ ब्राह्मण^१ के अनुसार तुर कावषेय के शिष्य, एक गुरु का नाम है। मैत्रायणी संहिता^२ में भी इसका उल्लेख है।

^१ १०. ४, २, १; ६, ५, ९; बृहदारण्यक उपनिषद् ६, ५, ४ काण्व। ^२ ३. १०, ३; ४, ८, २।

यज्ञ-सेन का यजुर्वेद संहिताओं^१ में चैत्र अथवा चैत्रियायण पौत्रक नाम सहित एक गुरु के रूप में उल्लेख है।

^१ तैत्तिरीय संहिता ५, ३, ८, १ (चैत्रियायण), काठक संहिता २१. ४ (चैत्र)।

यज्ञेषु, तैत्तिरीय ब्राह्मण^१ में किसी व्यक्ति का नाम है। यज्ञ के ठीक-ठीक मुहुर्त से परिचित इसके मात्स्य नामक पुरोहित ने इसे सम्पन्न बनने में सहायता प्रदान की थी।

^१ १ ५, २, १। तु० की० वेवर नक्षत्र, २, ३०६।

यज्ञोपवीत, यज्ञ के समय वायें कंधे पर से 'जनेऊ' धारण करने का द्योतक है और इसका तैत्तिरीय ब्राह्मण^१ जैसे प्राचीन ग्रन्थ तक में उल्लेख मिलता है। फिर भी, तिलक^२ का विचार है कि मूलतः, धागे का यज्ञोपवीत नहीं वरन्, एक प्रकार का वस्त्र (वासस्) अथवा मृग चर्म (अजिन) धारण किया जाता था। यह बहुत कुछ सम्भव प्रतीत होता है।

^१ ३ १०, ९, १२। तु० की० तैत्तिरीय संहिता २ ५, ११, १, गतपथ ब्राह्मण २. ४, २, १, ६, १, १७; और प्राचीनावीत।

^२ तैत्तिरीय आरण्यक २ १, और मीमांसकों (जैमिनीय न्यायमाला-विस्तर, ३ ४, १) के मत को उद्धृत करते हुए,

ओरायन, १४५ और वाद। काल-पुरुष के कटिवन्ध सम्बन्धी उस सर्वथा असंगत विचार से यह मत प्रभावित नहीं हुआ है, जिसका इस ग्रन्थ में उल्लेख है। तु० की० एगिल्डन : से० बु० ई० १७, ३६१, ४२४।

यति, एक प्राचीन कवीले का नाम है जिसे ऋग्वेद^१ के उन दो स्थलों पर भृगुओं के साथ सम्बद्ध किया गया है जहाँ यति-गण निश्चित रूप से वास्तविक व्यक्ति प्रतीत होते हैं। फिर भी, एक अन्य सूक्त^२ में यह प्रायः पौराणिक प्रतीत होते हैं। यजुर्वेद संहिताओं^३ और अन्यत्र^४ भी यतिगण एक ऐसी जाति के लोग हैं जिन्हें इन्द्र ने एक अशुभ मुहुर्त में लकड़बगवों (सालावृक) को दे दिया था : यहाँ ठीक-ठीक क्या तात्पर्य है यह अनिश्चित है। यति का भृगु के साथ सामवेद^५ के एक मन्त्र में भी उल्लेख है।

^१ ८ ३, ९; ६, १८, वेवर : इन्डिशो स्टूडियन ३, ४६५, नोट।

^२ १० ७२, ७।

^३ तैत्तिरीय संहिता २. ४, ९, २; ६. २, ७, ५, काठक संहिता ८ ५; ११ १०, २५ ६, ३६ ७; पञ्चविंश ब्राह्मण ८ १, ४, १३ ४ १६, ऐतरेय ब्राह्मण ७ २८, १, कौषीतकि उपनिषद् १ ३, इत्यादि; मूडर : सस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, ४३७ और वाद।

^४ २ ३०४। अथर्ववेद २. ५, ३, के एक समानान्तर स्थल पर 'यतीर्' पाठ मिलता है जो 'यतीन्' के स्थान पर अथवा स्वतन्त्र रूप से ही एक झुट्टि है। तु० की० मूडर उ० पु० ५, ४९, नोट ९२, विट्टने • अथर्ववेद का अनुवाद, ४४, आश्वलायन श्रौतसूत्र ६ ३, १।

तु० की० मैकडौनेल वैदिक माइयोलोजी, पृ० १४६।

यदु, एक जाति तथा उसके राजा का नाम है। इस जाति के लोगों का ऋग्वेद^१ में बहुधा और सामान्यतया तुर्वश के साथ-साथ उल्लेख है। सुदास् के विरुद्ध महायुद्ध में भी इन लोगों ने भाग लिया था :^२ इस युद्ध में यदु तथा तुर्वश राजा अपनी जान बचाकर भाग निकले थे, जब कि अनु और द्रुहयु राजा मारे गये थे। अनेक स्थलों^३ की कम से कम यही सर्व-स्वाभाविक व्याख्या है, यद्यपि इन स्थलों पर सम्भवतः सरयु के उस पार सफल आक्रमण तथा अर्ण और चित्ररथ^४ नामक दो राजाओं की पराजय का सन्दर्भ है। तुर्वश का एक यदु-राजा होना, जैसा कि हॉपकिन्स^५ मानते हैं, अत्यन्त असम्भाव्य है।

^१ १ ३६, १८, ५४, ६, १७४, ९, ४
३०, १७, ५ ३१, ८, ६ ४५, १;
८ ४, ७, ७, १८, ९, १४, १०,
५, ४२, २७, ० ६१, २, १० ४९,
८, बहुवचन में, १ १०८, ८। देखिये
तुर्वश, और हॉपकिन्स . ज० अ०
ओ० सो० १५, २५८ और वाट।

ऋग्वेद ७ १८, ६, में 'यदु' पठना
चाहिये अथवा नहीं यह निश्चित नहीं,
सम्भवतः 'यदुओं' का अर्थ है। तु०

की० यदु।

^३ ऋग्वेद १ १७४, ९, ४ ३०, १७, ५
३१, ८, ६ २०, २२।

^४ ऋग्वेद ४ ३०, १८।

^५ उ० स्था०।

तु० की० तिसर . आस्टिन्डिशे
लेवेन, १००, १२४, लुडविग ऋग्वेद
का अनुवाद ३, २०५, ४, १४२,
वेवर . ऐ० रि० ३७।

यन्तु, ऋग्वेद^१ और सूत्रों^२ में रथाश्वों को हाँकने वाले अथवा 'सारथी'
का घोटक है।

^१ १ १६२, १९, १० २०, ५।

| ^२ कात्यायन श्रौतसूत्र १५ ६, २९, इत्यादि

यम, यमजों का घोटक है जिनके जन्म का वैदिक साहित्य^१ में अक्सर उल्लेख है। 'यमौ मिथुनौ'^२ व्याहृति से सम्भवतः विषम-लैङ्गिक यमजों का तात्पर्य है। इस विश्वास के भी अनेक चिह्न हैं—नीग्रो तथा अन्य जातियों में भी व्यापक रूप से प्रचलित—कि यमज अद्भुत तथा अशुभसूचक^३ होते हैं,

^१ ऋग्वेद १ ६६, ४, १६४, १५, २ ३९,
२, ३ ३९, ३, ५ ५७, ४, ६ ५९,
२; १० १३, २, ११७, ९, पञ्चविंश
ब्राह्मण १६. ४, १० इत्यादि।

^२ काठक संहिता १३ ४, निरुक्त १२ १०।

^३ अथर्ववेद ३ २८, ऐनरेय ब्राह्मण ७ ९,
८, कात्यायन श्रौत सूत्र २५ ४, ३५;
शाङ्खायन श्रौत सूत्र ३ ४, १४ इत्यादि।
तु० की० यमसु; युक्ताश्व।

किन्तु इसके विपरीत यमजों के शुभ सूचक होने के विश्वास के भी अनेक संकेत मिलते हैं ।

^४ तैत्तिरीय संहिता ७ १, १, ३, पञ्चविंश
ब्राह्मण २४, १२, ३, शतपथ ब्राह्मण
५ ३, १, ८, और तु० की० ऋग्वेद
३ ३९, ३ ।

तु० की० वेबर • इन्डिशे स्टूडियन
१७, २९८ ३००, नक्षत्र, २, ३१४,
नोट ।

यम-नक्षत्र—देखिये नक्षत्र ।

यम-सू (यमजों का वाहक) यजुर्वेद^१ में पुरुषमेध के वलि-प्राणियों में से एक का नाम है ।

^१ वाजसनेयि संहिता ३० १५, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, ११, १ ।

यमुना एक नदी का नाम है जिसे गङ्गा के समानान्तर बहने के कारण इस नाम से पुकारा गया है । इसका ऋग्वेद^१ में तीन बार उल्लेख है और वाद में भी बहुत दुर्लभ नहीं । ऋग्वेद^२ के अनुसार तृत्सुओं और सुदास् ने यमुना के तट पर अपने शत्रुओं पर एक सहान् विजय प्राप्त की थी । हॉपकिन्स^३ के इस विचार को स्वीकार करने का कोई आधार^४ नहीं है कि यहाँ यमुना वास्तव में परुष्णी (रवि) का ही दूसरा नाम है । अथर्ववेद^५ में, उपयोगी होने के रूप में यमुना के आज्ञन का त्रिककुट के आज्ञन के साथ-साथ उल्लेख है । ऐतरेय^६ और शतपथ^७ ब्राह्मणों में यमुना के तट पर भरतों के विजयी होने की प्रसिद्धि है । अन्य ब्राह्मणों^८ में भी इस नदी का उल्लेख है । मन्त्रपाठ^९ में ऐसा कथन है कि साल्व-गण इसी के तट पर रहते थे ।

^१ ५. ५२, १७, ७ १८, १९, १० ७५, ५ ।

^२ ७ १८, १९ । देखिये भरत और कुरु ।

^३ इन्डिया, ओल्ड ऐण्ड न्यू, ५२ ।

^४ तृत्सुओं का क्षेत्र यमुना के पूर्व तथा सरस्वती के पश्चिम के बीच के क्षेत्र में स्थित था ।

^५ ४ ९, १० ।

^६ ८ २३ ।

^७ १३ ५, ४, ११ ।

^८ पञ्चविंश ब्राह्मण ९ ४, ११ । (तु० की०

पारावत), २५ १०, २४, १३, ४, शाङ्खायन श्रौत सूत्र १३ २९, २५ ३३, कात्यायन श्रौत सूत्र २४ ६, १० ३९, लाट्यायन श्रौत सूत्र १०. १९, ९ १०; आश्वलायन श्रौत सूत्र, १२ ६, २८ इत्यादि ।

^९ २. ११, १२ । तु० की० तिसमरः आल्टि-न्डिशे लेबेन, ५, मैक्स मूलर : से० दु० ई० ३२, ३०३ ।

ययाति का ऋग्वेद^१ में एक बार एक प्राचीन यज्ञकर्ता के रूप में और एक बार प्रथमः नहुष नामक राजा के वंशज, नहुष्य के रूप में उल्लेख है। पुरु के साथ इसके सम्बन्ध का, जैसा कि महाकाव्य^२ में है, कोई चिह्न नहीं मिलता। इसलिये महाकाव्य की परम्परा को निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण मानना चाहिये।

^१ १ ३१, १७, १० ६३, १।

^२ तु० का० • लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद

३, १४७, मूडर • संस्कृत टेक्स्ट्स १^२,

२३२।

१. यव, ऋग्वेद^१ में केवल 'जौ' के लिये ही नहीं वरन् किसी भी अन्न के लिये प्रयुक्त जातिवाचक शब्द है। 'जौ' का आशय कदाचित् अथर्ववेद^२ में मिलता है और बाद में सर्वथा प्रचलित हो गया है। जौ की फसल वसन्त^३ ऋतु के बाद ग्रीष्म^४ ऋतु में तैयार होती थी। यद्यपि यह निश्चित नहीं कि ऋग्वेदिक काल^५ में भी जौ की खेती होती थी, तथापि यह बहुत सम्भव^६ प्रतीत होता है।

^१ १. २३, १५, ६६, ३, ११७, २१, १३५, ८, १७६, २, २ ५, ६, १४, ११, ५ ८५, ३, ७ ३, ४, ८. २, ३, २२, ६, ६३, ९, ७८, १० इत्यादि।

^२ २ ८, ३, ६ ३०, १, ५०, १. २, ९१, १, १४२, २, १४२, १ २; ८ ७, २०; ९. १, २२; ६, १४, १२ १, ४२; तैत्तिरीय संहिता ६. २, १०, ३, ४, १०, ५; ७ २, १०, २; काठक संहिता २५ १०, २६ ५, मैत्रायणी संहिता ४. ३, २; वाजसनेयि संहिता ५ ३६, १८ १२, २३ ३०, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ८, ४, १, शतपथ ब्राह्मण १. १, ४, २०, २. ५, २, १, ३ ६, १, ९ १०, ४ २, १, ११; १२ ७, २, ९, छान्दोग्य उपनिषद् ३ १४, ३,

इत्यादि; कौषीतकि ब्राह्मण ४ १२।

^३ कौषीतकि ब्राह्मण ४ १३।

^४ तैत्तिरीय संहिता ७ २, १०, २।

^५ हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० १७, ८६, नोट।

^६ अन्न के बोने (वप) का ऋग्वेद १ ११७, २१ में, अन्न के पकने का १. १३५, ८ में, और जुताई (कृष्) का १ १७६, २ में, उल्लेख है। २. ५, ६ में अन्न के वर्षा में अच्छी तरह उपनने का सन्दर्भ है। देखिये कृषि।

तु० की० श्रेडर : प्रिडिस्टॉरिक ऐन्टीक्विटीज, २८२, कुन : इन्डिशे स्टूडियन १, ३५५, ३५६, तिसमर : आल्टिन्डिशे लेवेन २३८, २३९।

२. यव—देखिये मास।

यवस, ऋग्वेद^१ और चाद^२ में उस घास का द्योतक है जिसे पशु खाते हैं और जो दावाग्नि^३ में भस्म हो जाती है ।

^१ १ ३८, ५, ९१, १३, ३ ४५, ३, ४
४१, १०, ४२, ५; ७ १८, १०, ८७,
२, ९३, २, १०२, १, इत्यादि ।

^२ वाजसनेयि संहिता २१ ४३, इत्यादि ।

^३ तु० की० अग्नि, 'यवसाद्', ऋग्वेद १.
९४, १२ में । तु० की० तिसमर :
आस्टिन्डिशे लेवेन ४७, मैक्समूलर -
से० बु० ई० ३२, ८७ ।

यवागू का अर्थ 'जौ का हलुआ'^१ है । अन्य प्रकार के अन्न^२ से बने क्वाथ के लिये भी इसका प्रयोग किया गया है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ६ २, ५, २, काठक
संहिता ११ २, तैत्तिरीय आरण्यक
२ ८, ८; कौपीतिकि ब्राह्मण ४ १३,

इत्यादि ।

^२ जर्तिल और गवीधुक का, तैत्तिरीय
संहिता ५ ४, ३, २ ।

यवाशिरू, ऋग्वेद^१ में सोम की एक उपाधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ 'अन्न-मिश्रित' है ।

^१ १ १८७, ९, २ २२, १, ३ ४२, ७,
८ ९४, ४ । तु० की० हिलेब्रान्ट

वेदिशे माइथौलोजी, १ २२७, तिसमर :
आस्टिन्डिशे लेवेन २७९ ।

यवाष—देखिये यवाष ।

यव्य, शतपथ ब्राह्मण (१. ७, २, ४६) में माप का द्योतक है (शब्दार्थ, 'प्रथमार्ध से युक्त', देखिये २. यव)

यव्यावती, ऋग्वेद^१ और पञ्चविंश ब्राह्मण^२ में एक नदी का नाम है । हिलेब्रान्ट^३ का विचार है कि यह नदी इर्याव (हलियाव) के निकट स्थित ईरान की जूव (जूव) नदी है, किन्तु इस समीकरण को स्वीकार करने के लिये कोई आधार नहीं है ।

^१ ६ २७, ६ ।

^२ २५ ७, २ ।

^३ वेदिशे माइथौलोजी, ३, २६८, नोट १ ।
तु० की० तिसमर . आस्टिन्डिशे लेवेन

१८, १९, लुडविग : ऋग्वेद का
अनुवाद ३, २०४, केगी : ऋग्वेद,
नोट ३३८, औलेडेनबर्ग : ऋग्वेद-
नोटें, १, १६८, नोट १ ।

यशस्विन् जयन्त लौहित्य ('लोहित' का वंशज) जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ४२, १) में कृष्णारात त्रिवेद लौहित्य के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

यष्टि (ढडा या छड़ी) का ब्राह्मणों के वाद के अर्थों में उल्लेख है ।^१

^१ शतपथ ब्राह्मण २ ६, २, १७ ('वेणु' | उपनिषद् ६ ४, ७, कौपीतिक उप-
अर्थात् वाँस का), बृहदारण्यक | निषद् ४ १९, इत्यादि ।

यस्क एक व्यक्ति का नाम है । गिरिचित् के वंशज (गौरिचिताः) यस्कों का काठक सहिता^२ में उल्लेख है तु० की० यास्क ।

^२ १३ १२ । तु० की० वेवर . इन्डिशे | २४५ और वाद, इन्डियन लिटरेचर
स्टूडियन ३. ४७५ और वाद; ८, | ४१, नोट ३० ।

याज्ञ-तुर ('यज्ञतुर' का वंशज), शतपथ ब्राह्मण^३ में २. ऋषभ का पैतृक नाम है ।

^३ १० ८, ३, ७, १३. ५, ४, १५, शाङ्खायन श्रौत सूत्र १६ ९, ८. १० ।

याज्ञ-वल्क्य ('यज्ञवल्क्य' का वंशज) का शतपथ ब्राह्मण^४ में सांस्क-
रिक समस्या सम्बन्धी एक अधिकारी विद्वान् के रूप में बहुधा उल्लेख है ।
फिर भी बृहदारण्यक उपनिषद्^५ में इसे दार्शनिक समस्याओं का विद्वान होने
का भी श्रेय दिया गया है, यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि औल्डेनबर्ग^६ का यह
विचार ठीक है कि उक्त वाद की स्थिति में याज्ञवल्क्य के उल्लेख को बहुत अधिक
महत्त्व प्रदान नहीं किया जा सकता । इसे उस उद्दालक आरुण्यि^७ का शिष्य
बताया गया है जिसे इसने शास्त्रार्थ में परास्त किया था ।^८ बृहदारण्यक उप-
निषद्^९ में इसकी मैत्रेयी और कात्यायनी नामक दो पत्नियों का भी उल्लेख

^४ १. १, १, ९, ३, १, २१ २६, ९, ३, | में याज्ञवल्क्य की पुनः प्रसिद्धि है—
१६, २ ३, १, २१, ४, ३, २, ५, | उदाहरण के लिये देखिये ११. ३, १,
१, २ (जहाँ इसे ऋग्वेद का विरोधी २, ४, २, १७, ३, २०, ६, २, १,
बताया गया है), ३ १, १, ४, २, ३, १, १२ ४, १, १०, इत्यादि ।

२१, ३, १०, ८, २, २४ (चरक ^२ ३ १, २ और वाद, २, १० और
नामक गुरु द्वारा शापित), ४ २, १, | वाद; ३, १, ४, १, ५, १, ६, १; ७,
७, ६, १, १०, ८, ७, इत्यादि । १ इत्यादि ।

५-५ काण्डों में याज्ञवल्क्य का कोई ^३ बुद्ध^३, ३४, नोट १ ।

उल्लेख नहीं है । इसके विपरीत इन ^४ ६, ४, ३३ (माध्यन्दिन = ६. ५, ४
काण्डों के सिद्धान्तों के निर्माण का काण्व) ।

श्रेय तुर कावपेय तथा शाण्डिल्य को ^५ ३ ७, १ ।

दिया गया है, किन्तु १०-१४ काण्डों ^६ ० ४, १, ४ ५, १ और वाद ।

है। बृहदारण्यक उपनिषद् के निष्कर्ष^७ के अनुसार याज्ञवल्क्य वाजसनेय को शुक्ल यजुर्वेद (शुक्लानि यजूषि) के प्रणयन का भी श्रेय दिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि याज्ञवल्क्य का, शाङ्खायन आरण्यक के अपवाद सहित, शतपथ ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी भी अन्य वैदिक ग्रन्थ में उल्लेख नहीं है। शाङ्खायन आरण्यक^८ में भी जो दो सन्दर्भ मिलते हैं वह शतपथ^९ से ही गृहीत हैं। औल्हेनवर्ग^{१०} तथा अन्य विद्वानों ने यह माना है कि याज्ञवल्क्य विदेह के रहने वाले थे किन्तु जनक द्वारा इन्हें संरक्षण प्रदान करने की कथा के विपरीत भी उद्दालक और कुरु-पञ्चाल के साथ इनका सम्बन्ध इस तथ्य को संदिग्ध बना देता है।

^७ ६ ४, ३३ (माभ्यन्दिन = ६ ५, ४ काण्व)।

^८ ९ ७, १३ १।

^९ वेवर : इन्डियन लिटरेचर १३२, नोट*, कीथ · ज० ए० सी०, १९०८, ३७४।

^{१०} बुद्ध, ३४, नोट १।

तु० की० वेवर : इन्डियन लिटरेचर १२० और वाद, इन्डिशे स्टूडियन १, १७३, १३, २६५-२६९; एग्लिङ्ग : से० बु० ई० १०, xxx और वाद, फॉन श्रोडर · इन्डियन लिटरेचर सन्ट कल्चर, १८८।

याज्या, वाद की संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में यज्ञ के समथ उच्चरित शब्दों का द्योतक है।

^१ तैत्तिरीय संहिता १ ५, २, १, ६, १०, ५, वाजसनेयि संहिता १९ २०, २० १२, इत्यादि।

^२ ऐतरेय ब्राह्मण १ ४, ८; ११, १०, २

१३, २, २६, ३ ५ ६, ४०, ८, ३ ३२, १, शतपथ ब्राह्मण १ ४, २, १९, ३ ४, ४, २, ७ २, ७, ११, इत्यादि।

यातु-धान ऋग्वेद^१ और वाद^२ में एक ऐन्द्रजालिक का द्योतक है। ऋग्वेद^३ का आशय स्पष्टतः इन्द्रजाल के प्रतिकूल है। खीलिङ्ग 'यातुधानी' का भी ऋग्वेद और वाद में उल्लेख है।^४

^१ १ ३५, १०, १० ८७, २ ३ ७ १०, १२०, ४।

^२ अथर्ववेद १ ७, १; ४ ३, ४; ६ १३, ३, ३२, २, ७ ७०, २, १९, ४६, २, काठक संहिता ३७ १४, वाजसनेयि संहिता १३ ७, शतपथ ब्राह्मण ७ ४, १, २९, इत्यादि।

^३ ७ १०४, १५।

^४ १ १९१, ८, १० ११८, ८, अथर्ववेद १ २८, २४, २ १४, ३, ४ ९, ९, १८, १७, १९ ३७, ८, इत्यादि।

तु० की० ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद, २६, ६५ और वाद।

यातु-विद्, जो कि बहुवचन में 'इन्द्रजाल वेत्ताओं' का द्योतक है, शतपथ ब्राह्मण^१ में अथर्ववेद का वाचक है ।

^१ १० ५, २, २० । तु० की० ब्लूमफील्ड . अथर्ववेद का अनुवाद xxii, अथर्ववेद, १ ८, ९, २३ ।

याद्व (यदु का वशज) ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर एक यदु राजा का द्योतक है, जब कि याद्वों^२ की सुक्त-हस्तता का अन्यत्र उल्लेख है । एक अन्य स्थल पर यदुओं अथवा याद्वों के पशु का भी उल्लेख है।^३ तु० की० यदु ।

^१ ७ १९, ८ ।

^२ ऋग्वेद ८ ६, ४३ । तु० की० लुडविग .
ऋग्वेद का अनुवाद ५, १४२ ।

^३ ऋग्वेद ८ १, ३१ ।

तु० की० वेवर : इन्डियन लिट-
रेचर ३, पे० रि०, ३७ ।

यान ऋग्वेद^१ और वाद^२ में किसी भी गाढ़ी का द्योतक है ।

^१ ४ ४३, ६ ।

^२ शतपथ ब्राह्मण ५ ५, ३, ७, पडविंश

ब्राह्मण ६ ३, १०, छान्दोग्य उपनि-
षद् ८. १२, ३, इत्यादि ।

याम बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है और अथर्ववेद^१ के एक स्थल पर रौथ^२ के अनुसार उन नक्षत्रों का द्योतक है जिनके बीच सूर्य (भग) भ्रमण करता है । किन्तु ब्लूमफील्ड^३ और ह्विटने^४ इससे रात के प्रहरियों का तात्पर्य मानते हैं जो वाद की भाषा में इसका नियमित आशय है ।

^१ ६ २१, २ ।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०, १ (व) ।

^३ अथर्ववेद के सूक्त, ३० ।

^४ अथर्ववेद का अनुवाद, ३९६ ।

यामन्, ऋग्वेद^१ में किसी युद्ध में अभियान अथवा चढ़ाई करने का द्योतक है ।

^१ ४ २४, २, ७ ६६, ५, ८५, १, ९ ६४, १०, १० ७८, ६, ८०, ५ ।

यायावर^१ यजुर्वेद संहिताओं^२ में ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जिसका कोई निश्चित आवास न हो ।

^१ 'या' (जाना) से व्युत्पन्न शब्दार्थ
'इधर-उधर फिरना' ।

^२ तैत्तिरीय संहिता ५ २, १, ७, काठक
संहिता १९ १२ ।

याव—देखिये मास ।

यास्क ('यस्क' का वंशज) का बृहदारण्यक उपनिषद्^१ के प्रथम दो वशों (गुरुओं की तालिकाओं) में आसुरायण के सम-सामयिक और भारद्वाज के गुरु के रूप में उल्लेख है । निरुक्त^२ का लेखक, यास्क यही व्यक्ति था अथवा नहीं यह कह सकना असम्भव है ।

^१ ० ५, २१, ४ ५, २७ (माध्यन्दिन = २ ६, ३, ४ ६, ३ काण्व) ।

तु० की० वेवर · इन्डियन लिटरेचर १०८ ।

^२ ऋग्वेद प्रातिशाख्य १७ २५, वेवर :

उ० पु० २५, २६, इत्यादि, इन्डिशे स्टूडियन १ १७, १०३; ३, ३९६, ८, २४३, इत्यादि; इन्डियन लिटरेचर ४१, नोट ३० ।

यु, जो कि द्विवाचक के रूप में आता है, शतपथ ब्राह्मण (३. ७, ४, १०) में जुते हुये या सन्नद्ध पशुओं का द्योतक है ।

युक्त, शतपथ ब्राह्मण (६ ७, ४, ८, १२. ४, १, २) में वैलों के 'जूये' का द्योतक है । तु० की० १. युग ।

युक्ताश्व का, उस व्यक्ति के नाम के रूप में उल्लेख है जिसे पञ्चविंश ब्राह्मण^१ में एक सामन् का द्रष्टा बताया गया है । ऐसा कथन है कि इसने यमजों के एक जोड़े का परित्याग कर दिया था^२, किन्तु हॉपकिन्स^३ का विचार है कि यहाँ शिशुओं के बदलने मात्र का भाशय है ।

^१ ११ ८, ८ ।

^२ तु० की० वेवर : नक्षत्र, २, ३१४, नोट, जिनका इस स्थल के सम्बन्ध में सायण के समान ही विचार है । तु०

की० यम ।

^३ द्रा० सा०, १५, ६१, ६२ ।

तु० की० हिलेब्रान्ट · वेदिशे माइथोलोजी, २, १६० ।

१. युग, ऋग्वेद^१ और ऋग्वेद^२ में 'जूये' (वैलों को सन्नद्ध करने के लिये प्रयुक्त एक उपकरण) का द्योतक है । तु० की० रथ ।

^१ १. ११५, २, १८४, ३, ० ३९, ४, ३. ५३, १७, ८. ८०, ७, १०, ६०, ८, १०१, ३, इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद ४. १, ४०, शतपथ ब्राह्मण ३ ५, १, २४ ३४; तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ५, १, ३ ।

२ युग, ऋग्वेद^१ में अक्सर एक 'पीढ़ी' का द्योतक है; किन्तु एक स्थल^२ पर दीर्घतमस् के लिये व्यवहृत 'दशमेयुगे' व्याहृति का अर्थ जीवन का 'दसवाँ दशक' होना चाहिये ।

प्राचीन वैदिक ग्रन्थों में पाँच-पाँच वर्षों के युग-चक्रों का कोई भी सन्दर्भ नहीं है (देखिये संवत्सर) । सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश में, तथा त्सिमर^३ और अन्य व्यक्तियों द्वारा उद्धृत पञ्चविंश ब्राह्मण^४ का स्थल उसके भाष्य में केवल किसी आधुनिक ग्रन्थ से दिया गया उद्धरण मात्र है ।

प्राचीन वैदिक ग्रन्थ युगों की उन धारणाओं से भी परिचित नहीं जो वाद में सामान्य रूप से मिलती हैं । अथर्ववेद^५ में क्रम से एक सौ वर्ष, एक 'आयुत' (१०,००० ?), और उसके बाद २, ३ अथवा ४ युगों का उल्लेख है : इससे यह निष्कर्ष प्रतीत होता है कि युग आयुत से बड़ा होता था, किन्तु यह बहुत निश्चित नहीं है । त्सिमर^६ ऋग्वेद^७ से एक उद्धरण देते हैं किन्तु उसमें चाहे किसी भी अन्य वस्तु का सन्दर्भ हो^८, किन्तु चार युगों का (तु० की० त्रियुग भी)^९ तो कदापि नहीं । तैत्तिरीय ब्राह्मण^{१०} समय की दीर्घ अवधियों को व्यक्त करता है, जैसे एक स्थल पर १,००,००० वर्षों का उल्लेख है ।

^१ 'युगे-युगे' (प्रत्येक युग में), १. १३९, ८, ३. २६, ३, ६. ८, ५, १५, ८, ३६, ५, ९ ९४, १२, 'उत्तरा युगानि' (मावीयुग), ३ ३३, ८; १०. १०, १०, 'पूर्वाणि युगानि', ७ ७०, ४, 'उत्तरे युगे', १० ७२, १, इत्यादि । १. ९२, ११, १०३, ४, ११५, २, १२४, २, १४४, ४, इत्यादि में 'मनुष्यों की पीढ़ियाँ' (मनुष्या, मानुषा, मनुष., जनानाम्) वाकपद का सदर्थ मिलता है । देखिये मूडर सस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, ४५, ४६ ।

^२ १ १५८, ६ । विलसन के अनुवाद (२, १०४, नोट) में यह विचार व्यक्त किया गया है कि यहाँ युग का अर्थ पाँच वर्षों की एक इकाई है,

किन्तु दसवाँ दशक अधिक सम्भव है क्योंकि दीर्घतमस् को वृद्ध (जुजुवान) कहा गया है ।

^३ १७ १३, १७ ।

^४ आल्टिन्डिशे लेवेन, ३६८ ।

^५ ८. २, २१ ।

^६ उ० पू० ३७१ ।

^७ ८ १०१, ४ = अथर्ववेद १० ८, ३ ।

^८ तु० की० ऐतरेय आरण्यक २ १, १ और उस पर कीय की टिप्पणी, त्रिफिथः ऋग्वेद के सूक्त, २ २५३ ।

^९ ऋग्वेद १० ७२, २ में 'देवाना पूर्व्ये युगे' (देवों के प्राचीन युग में) आता है ।

^{१०} ३ १२, ९, २ । तु० की० मूडर, १^२, ४२, नोट ६६ ।

कलि, द्वापर, त्रेता और कृत नामक चार युगों का वैदिक साहित्य में कोई निश्चित सन्दर्भ नहीं है, यद्यपि वहाँ यह शब्द पासे की फेकों के नाम के रूप में आते हैं (देखिये अक्ष) । ऐतरेय ब्राह्मण^{११} में यह नाम तो आते हैं किन्तु इनसे वस्तुतः युगों का ही तात्पर्य होना निश्चित नहीं । हॉग^{१२} के विचार से यहाँ पासे का अर्थ है : यह दृष्टिकोण भी उतना ही सम्भव है जितनी कि एक अन्य वैकल्पिक व्याख्या जिसे वेवर,^{१३} रौथ,^{१४} विलसन,^{१५} मैक्स मूलर^{१६} और मूडर^{१७} ने स्वीकार किया है । वास्तव में रौथ का विचार है कि यह मन्त्र प्रचलित है : स्थिति जो कुछ भी हो यह स्मरण रखना चाहिये कि यह स्थल ऐतरेय नामक वाद के ग्रन्थ से लिया गया है । पञ्चविंश ब्राह्मण^{१८} में चार युगों—पुण्य, द्वापर, खार्वा और कृत का, और गोपथ ब्राह्मण^{१९} में द्वापर का उल्लेख है ।

^{११} ७ १५, ४ (श्रम के गुणों के वर्णन में)।
'लेटा हुआ आदमी कलि होता है,
अपने को हिलाने पर द्वापर, उठने
पर त्रेता और चलने पर कृत' (कलि
शयानो भवति सजिहानस् तु द्वापर- ।
उत्तिष्ठस् त्रेता भवति, कृत सम्पद्यते
चरन्) ।

^{१२} ऐतरेय ब्राह्मण २, ४६४ जिसकी वेवर
इन्डिशो स्टूडियन ९, ३१९, ९, ने
आलोचना की है ।

^{१३} इन्डिशो स्टूडियन १, २८६, ९, ३१५
और वाद ।

^{१४} इन्डिशो स्टूडियन १ ४६० ।

^{१५} ज० ए० सो०, १८५१, ९९ ।

^{१६} ऐन्ड्रेशेन्ट सस्कृत लिटरेचर ४१२ ।

^{१७} सस्कृत टेक्स्ट्स १^२, ४८, नोट ८६ ।

^{१८} ५ ६ ।

^{१९} १ १, २८, वेवर : इन्डियन, लिटरेचर,
१५१, नोट १६६, विन्डिश . बुद्ध और
मार, १५१ ।

तु० की० तिसर आर्लिन्डिशो
लेवेन ३६७-३७१; वेवर इन्डिशो
स्ट्रीफेन १ ९१ । शामशास्त्री . ग्वाम्
अयन, १४४ और वाद, में युगों के
सम्बन्ध में एक सर्वथा भिन्न सिद्धान्त
प्रस्तुत किया गया है किन्तु यह
सर्वथा असम्भव है । एक बार वेवर
(इन्डियन लिटरेचर ११३, नोट
१२७) ने ऋग्वेद ३. ५५, १८ में
पञ्चवार्षिक युग का उल्लेख देखा है
किन्तु इस स्थल पर पाँच या छ
ऋतुओं का सन्दर्भ है (देखिये
ग्रिफिथ : ऋग्वेद के सूक्त १, ३८२,
नोट), जबकि १. २५, ८ में केवल
मलमास का उल्लेख है । वेवर यह
भी मानते हैं (उ० पु० ७०, २४७)
कि युग चन्द्रमा की विभिन्न कलाओं से
निष्कृष्ट हुये हैं, किन्तु यह दृष्टिकोण
रौथ द्वारा बहुत पहले ही अप्रमाणित
किया जा चुका है ।

युद्ध, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में संघर्ष और युद्ध का द्योतक है। इनके लिये अधिक सामान्य प्राचीन^३ शब्द युध् है।

^१ १०, ५४, २।

^२ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ५, ९, १, ऐतरेय ब्राह्मण ३ ३९, १ २, ६ ३६, २, शतपथ ब्राह्मण १३ १, ५, ६, कौषी-तकि उपनिषद् ३ १, इत्यादि।

^३ ऋग्वेद १ ५३, ७, ५९, १, ५ २-५, ६, ६ ४६, ११, इत्यादि, अथर्ववेद १ २४, १; ४ २४, ७, ६ ६६, १, १०३, ३, इत्यादि; शतपथ ब्राह्मण ५ २, ४, १६, इत्यादि।

युधा-श्रौष्टि औप-सैन्य (उग्रसेन का वंशज) ऐतरेय ब्राह्मण^१ में उस राजा का नाम है जो पर्वत और नारद द्वारा अभिषिक्त हुआ था।

^१ ८ २१, ७। तु० की० वेवर ऐ० रि० ८। इस शब्द का पौराणिक रूप 'युद्ध-मुष्टि' है।

युध्यामघि, प्रत्यक्षतः उस राजा का नाम है जो सुदास् द्वारा पराजित हुआ था। दस राजाओं पर सुदास् की विजय की प्रशस्ति करनेवाले सूक्त^१ के अन्त में सयुक्त मंत्रों में इसका उल्लेख होने के कारण सुदास् के विरोधियों के रूप में इसे बहुत अधिक प्रामाणिकता प्रदान नहीं की जा सकती है।

^१ ७ १८, २४। तु० की० लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद ३, १७३।

युवति, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में युवती स्त्री के लिए प्रयुक्त साधारण शब्द है।

^१ १ ११८, ५, २. ३५, ४, ३ ५४, १४, ४ १८, ८, ५ २, १. २, ९ ८६, १६; १० ३०, ५।

^२ अथर्ववेद १४. २, ६१, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ १, १, ९, २, ४, शतपथ ब्राह्मण १३ १, ९, ६, ४, ३, ८, इत्यादि।

यूथ, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में गायों के समूह या झुण्ड का द्योतक है।

^१ १ १०, २, ८१, ७, ३ ५५, १७, ४ २, १८, ३८, ५, ५ ४१, १९, ९ ७१, ९, इत्यादि।

तु० की० 'यूथ्य', ८ ५६, ४, ९

१५, ४, १० २३, ४।

^२ अथर्ववेद ५ २०, ३, तैत्तिरीय संहिता ५ ७, २, १, इत्यादि।

यूप, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में स्तम्भ और मुख्यतः उस स्तम्भ का द्योतक

^१ ५ २, ७ (शुनःशेष का)।

^२ अथर्ववेद ९ ६, २२, १० १, ३८, १३ १, ४७, तैत्तिरीय संहिता ६. ३, ४,

१, ७ २, १, ३; वाजसनेयि संहिता १९ १७, पञ्चविंश ब्राह्मण ९ १०, ० इत्यादि।

है जिसमें यज्ञ-पशु बाँधा जाता था । यह उस ढण्डे का भी द्योतक है जिससे घर के द्वार को, बन्द करने के लिये, सन्नद्ध किया जाता था (दुर्य)^३ ।

^३ ऋग्वेद १ ५^१, १४ । तु० की० तिस्रः : आल्टिन्डिशे लेवेन १५३ ।

यूपन्, जो कि ऋग्वेद^१ और यजुर्वेद संहिताओं^२ में अश्वमेध यज्ञ के वर्णन के अन्तर्गत आता है, बलि किये गये पशु के मांस से बने यूप का द्योतक है और इसमें सन्देह नहीं कि यह भोजन के रूप में प्रयुक्त होता था । इसे रखने या पकाने के लिये प्रयुक्त पात्र और आसेचन का उल्लेख है । इस शब्द का एक भिन्न रूप 'यूस्' तैत्तिरीय संहिता^३ में मिलता है जो लैटिन 'जुस्' (Jus) के समान है ।

^१ १ १६२, १३ ।

^२ तैत्तिरीय संहिता ६ ३, ११, १ ४,
वाजसनेयि संहिता २५ ९ ।

^३ ६ ३, ११, १ ४ ।

तु० की० तिस्रः . आल्टिन्डिशे
लेवेन २७१, श्रेडर . प्रिहिस्टोरिक
ऐन्टीक्विटीज ३१६ ।

येवाष, अथर्ववेद^१ में किसी विनाशकारी कीटाणु का नाम है । काठक संहिता^२ में इसका 'यवाप' रूप मिलता है । तु० की० वृष ।

^१ ५ २३, ७. ८ ।

^२ ३० १ (इन्डिशे स्टूडियन ३, ४६०) ।
'कुमुदादि' और 'प्रेक्षादि' गणों में
भी इसका यह रूप आता है (पाणिनि
४ २, ८०) । तु० की० मैत्रायणी

संहिता ४ ८, १, जहाँ 'यवाप पढना
चाहिये, कपिष्ठल संहिता ४६ ४ ।

तु० की० तिस्रः : आल्टिन्डिशे
लेवेन ९८, सेन्ट पीटर्सवर्ग कोज,
व० स्था० ।

योक्त्र, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में रथ अथवा गाड़ी को सन्नद्ध करने के लिये प्रयुक्त 'नध्री' का द्योतक है ।

^१ ३ ३३, १३, ५ ३३, २ ।

^२ अथर्ववेद ३. ३०, ६, ७ ७८, १, तैत्ति-
रीय संहिता १ ६, ४, ३, तैत्तिरीय

ब्राह्मण ३ ३, ३, ३, शतपथ ब्राह्मण १.
३, १, १३, ६ ४, ३, ७, इत्यादि ।

योग, अथर्ववेद^१ और बृहदारण्यक उपनिषद्^२ में गाड़ी को खींचने वाले अश्वों अथवा बैलों के जूये का द्योतक है ।

^१ ६ ९१, १ (६ अथवा ८ के जूये),
काठक संहिता १५. २, इत्यादि ।
तु० की० सीर ।

^२ ४. ३, ११ ('रथ-योगा.', अर्थात् रथ
के दल) ।

योजन, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में दूरी के एक नाप^३ के रूप में अक्सर आता है किन्तु इसकी ठीक-ठीक लम्बाई को व्यक्त करनेवाला कोई सन्दर्भ नहीं है। वाद में इसे चार क्रोशों अथवा लगभग ९ मील के बराबर माना गया है।^४

^१ १ १०३, ८, ० १६, ३, १० ७८, ७, ८६, ०, इत्यादि।

^२ अथर्ववेद ४ २६, १, मैत्रायणी संहिता २ ९, ९, ३ ८, ४, तैत्तिरीय ब्राह्मण ० ४, ०, ७, इत्यादि। तु० की० तिसर . आल्टिन्डिशे लेवेन ३६३, जो ऋग्वेद १ १२३, ८, में 'योजन' को मुहुर्त्त के बराबर समय के एक विभाजन के रूप में देखते हैं। किन्तु यह

अत्यन्त असम्मान्य है।

^३ अर्थात् एक बार के सन्नद्ध करने में चली गयी अथवा गाढी से पशु को असन्नद्ध किये बिना ही एक बार में पूरी की गयी दूरी।

^४ कभी-कभी आठ क्रोश अथवा १८ मील के आधार पर गणना की गई है। ढाई मील का भी अनुमान मिलता है।

योध, ऋग्वेद^१ में योद्धा अथवा सैनिक का द्योतक है।

^१ १ १४३, ५, ३. ३९, ४, ६ २५, ५, १०. ७८, ३।

योषन, योषणा, योषा, योषित्, सभी प्रिय होने अथवा विवाह सम्बन्ध स्थापित करने की वस्तु होने के रूप में, कन्या अथवा युवति के द्योतक हैं।^१ इस प्रकार यह शब्द ब्राह्मणों के वृषन् के विरोधी अर्थात् 'पुरुष' के विपरीत 'स्त्री' का सामान्य आशय रखते हैं,^२ किन्तु यह 'पत्नी'^३, अथवा 'पुत्री'^४ अथवा केवल 'पालिका'^५ के आशय में भी आते हैं। देखिये स्त्री।

^१ 'योषन्', ऋग्वेद, ४ ५, ५, 'योषणा',

३ ५०, ३; ५६, ५, ६२, ८, ७ ९५,

३, इत्यादि, 'योषा', १ ४८, ५, ९२,

११, ३ ३३, १०, ३८, ८, इत्यादि,

अथर्ववेद १२. ३, २९, १४ १, ५६,

इत्यादि, 'योषित्', ऋग्वेद ९ २८,

४, अथर्ववेद ६ १०१, १, इत्यादि।

तु० की० डेलब्रुक . डी० व०,

४१८।

^२ शतपथ ब्राह्मण १ २, ५, १५ (योषा), और अक्सर अन्य ब्राह्मणों में भी।

^३ अथर्ववेद १० ३, २९ (योषा)।

^४ इसी प्रकार 'योषा' ऋग्वेद १ ११७, २० में। तु० की० तिसर . आल्टिन्डिशे लेवेन ३१०।

^५ शतपथ ब्राह्मण १ ८, १, ७।

योगंधरि ('युगन्धर' का वंशज), मन्त्र-पाठ (२. ११, १२) में साल्वों के राजा का नाम है।

यौवन, अथर्ववेद (१८. ४, ५०) में मिलता है जहाँ यह वृद्धावस्था का विरोधार्थी है।

र

रक्षितृ ('रक्षा करनेवाला', 'अभिभावक') ऋग्वेद^१ और वाद^२ में साधारणतया लाक्षणिक आशय में आता है ।

^१ १ ८९, १ ५; २ ३९, ६; सोम का रक्षक, ६ ७, ७, यम के कुत्तों का रक्षक, १० १४, ११, इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद ३. २७, १, १२. ३, ५५, १९ १५, ३, शतपथ ब्राह्मण १३ ४, २, ५, इत्यादि ।

रघट्, एक बार बहुवचन में अथर्ववेद^३ में आता है, जहाँ पैप्पलाद शाखा में 'वघटः' पाठ है । रौथ^४ ने एक समय इसका ठीक पाठ 'रघवः' होने का अनुमान किया था । ब्लूमफील्ड^५, जिन्होंने अपने अनुवाद में इस शब्द की 'वाज पक्षियों' के अर्थ में व्याख्या की है, अपनी टिप्पणियों में रौथ के अनुमान को सम्भव मानते हैं । लुडविग^६ इसका अर्थ 'मधुमक्खी' मानने का विचार व्यक्त करते हैं । सम्भवतः किसी प्रकार के पक्षी से ही तात्पर्य है ।^७

^१ ८. ७, २४ ।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०, १ (क)

^३ अथर्ववेद के सूक्त, ५८० ।

^४ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, ५०४ ।

^५ वौटलिङ्क . डिक्शनरी, व० स्था० । तु० की० विहट्ने . अथर्ववेद का अनुवाद, ५०१ ।

रजत, एक विशेषण के रूप में हिरण्य^१ के साथ 'चाँदी' का द्योतक है । चाँदी के आभूषणों (रुक्म)^२, पात्रों^३ और सिक्कों (निष्क)^४ का उल्लेख मिलता है । अकेले भी यह शब्द विशेष्य के रूप में 'चाँदी' के आशय में प्रयुक्त हुआ है ।^५

^१ तैत्तिरीय संहिता १. ५, १, २, काठक संहिता १० ४, शतपथ ब्राह्मण १० ४, ४, ७, १३. ४, २, १०, १६. १, ३, ४, इत्यादि ।

^२ शतपथ ब्राह्मण १२ ८, ३, ११ ।

^३ तैत्तिरीय ब्राह्मण २ २, ९, ७, ३. ९, ६, ५ ।

^४ पञ्चविंश ब्राह्मण १७ १, १४ ।

^५ अथर्ववेद ५ २८, १, १३. ४, ५१,

ऐतरेय ब्राह्मण ७ १२, २, छान्दोग्य उपनिषद् ४. १७, ७, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण ३ १७, ३, षड्विंश ब्राह्मण ६ ६ ।

तु० की० थ्रेडर . प्रिडिस्टॉरिक ऐन्टीक्विटीज, १८०, रिसमर . आल्टिन्डिशे लेवेन, ५६, मैकडौनेल सस्कून लिटरेचर, १५१, १५२, विन्सेन्ट स्मिथ . इन्डियन ऐन्टिक्वेरी, ३४, २३० ।

रज्जु-दाल, शतपथ ब्राह्मण^१ में एक वृक्ष (*Cordia myxa* अथवा *latifolia*) का नाम है ।

^१ १३ ४, ४, ६ । तु० की० एगिलद्ध - से० बु० ई० ४४, ३७३, नोट २ ।

रज्जु-सर्ज, (रस्सी बनानेवाला) को यजुर्वेद^१ में पुरुषमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में सम्मिलित किया गया है ।

^१ वाजसनेथि संहिता ३० ७ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, ३, १ ।

रत्ना, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में उपयुक्त. युद्ध के आनन्द का, और उसके वाद स्वयं 'युद्ध' या 'सघर्ष' का ही द्योतक है ।

^१ १ ६१, १ ९, ७४, ३, ११९, ३, ६. | ^२ अथर्ववेद ५ २, ४, इत्यादि ।
१६, १५, इत्यादि ।

रत्न, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में किसी भी मूल्यवान पदार्थ का द्योतक है, विशिष्टतः 'रत्न' मात्र का नहीं जैसा वैदिकोत्तर साहित्य में है ।

^१ १ २०, ७, ३५, ८, ४१, ६, १०५, १, | ^२ अथर्ववेद ५ १, ७, ७ १८, ४, शतपथ
१४०, ११, १४१, १०, २ ३८, १, | ब्राह्मण ५ ३, १, १ ।
इत्यादि ।

रत्नि, जो कि पञ्चविंश ब्राह्मण (४ . ४) में आता है, अरत्नि का ही भ्रष्ट पाठ है ।

रत्निन् राजकीय दल के व्यक्तियों के लिये व्यवहृत शब्द है जिनके ही घरों पर राजसूय के समय 'रत्न हवि' नामक एक विशेष संस्कार सम्पन्न किया जाता था । तैत्तिरीय संहिता^१ और तैत्तिरीय ब्राह्मण^२ में ऐसे व्यक्तियों की तालिका के अन्तर्गत, ब्रह्मन् (अर्थात् पुरोहित), राजन्य, महिषी (राजा की प्रथम पत्नी), वावात (राजा की प्रिय रानी), परिवृक्ती (राजा की उपेक्षित पत्नी), सेनानी (सेना का नायक), सूत (सारथी), ग्रामणी (ग्राम-प्रधान), क्षत्र (कोशाधिकारी), सग्रहीच (सारथी अथवा कोषाध्यक्ष), भागदुघ (कर सग्रह करनेवाला अथवा भोजन का वितरण करनेवाला), और क्षत्रावाप (पासे का अधीक्षक अथवा पासा फेंकनेवाला), आते हैं । शतपथ ब्राह्मण^३ में इनका क्रम इस प्रकार है, सेनानी, पुरोहित, महिषी, सूत,

^१ १ ८, ९, १ और वाद ।

| ^३ ५ ३, १, १ और वाद ।

^२ १ ७, ३, १ और वाद ।

ग्रामणी, क्षत्र, संग्रहीत, भागदुघ, अक्षावाप, गो-निकर्तन (गायों का वध करनेवाला अथवा आखेटक), और पालागल (संदेशवाहक अथवा दूत); त्यक्त पत्नी को यहां उत्सव के दिन, निर्ऋति के हेतु घर^४ में ही रहने का उल्लेख है। मैत्रायणी संहिता^५ में यह तालिका है: ब्रह्मन् (अर्थात् पुरोहित), राजन्, महिषी, परिवृत्ती, सेनानी, संग्रहीत, क्षत्र, सूत, वैश्यग्रामणी, भागदुघ, तक्ष-रथकारौ (बर्दई और रथ बनानेवाला), अक्षावाप, और गो-विकर्त^६। काठक संहिता^६ में 'गोविकर्त' के स्थान पर 'गो-व्यच' है तथा 'तक्ष-रथकारौ' नहीं आता।

यह स्पष्ट है कि इन तालिकाओं में अनिवार्यतः राजगृह के व्यक्ति तथा शासन से सम्बद्ध राजकीय सेवक ही सम्मिलित किये गये हैं, यद्यपि संग्रहीत, भागदुघ, सूत, ग्रामणी, और क्षत्र का आशय मदिग्ध है, क्योंकि इन नामों का आशय अनिश्चित होने से इनसे व्यक्तिगत सेवकों^७ अथवा सार्वजनिक अधिकारियों में से किसका तात्पर्य है यह नहीं कहा जा सकता। पञ्चविंश ब्राह्मण^८ में राजा के मित्रों के अन्तर्गत आठ वीरों (वीर पुरुषों) की तालिका इस प्रकार है, भ्राता, पुत्र, पुरोहित, महिषी, सूत, ग्रामणी, क्षत्र, और संग्रहीत।

^४ कात्यायन श्रौत सूत्र, १५ ३, ३५ के अनुसार यह ब्राह्मण के घर जाती है और वहाँ ब्राह्मण की अवध्यता तथा राजशक्ति से मुक्तता की भागी होती है।

^५ २ ६, ५, ४ ३, ८।

^६ १५ ४।

^७ इसी प्रकार अक्षावाप या तो वह व्यक्ति होता था जो राजा के लिये पासा खेलता था—अर्थात् एक ब्यसनी पासा खेलनेवाला होता था जो राजा के साथ खेलता, अथवा उसका खेल देखता था—अथवा एक सार्वजनिक

अधीक्षक जो राज्य के धूत-गृहों की देख रेख और लगान वसूल करता था, जैसा कि बाद में इसका कार्य था। प्राचीन इंग्लिश इतिहास में भी राजगृह के अधिकारियों के मंत्री आदि हो जाने के चिह्न मिलते हैं।

^८ १९ १, ४।

तु० की० वेवर . इन्डिश स्टूडि-यन १७, २००, ऊवर, डेन राजसूय ४, हॉपकिन्स . ज० अ० ओ० सो०, १३, १२८, एग्लिङ्ग . से० बु० ई०, ४१, ५८-६५, हॉपकिन्स द्रा० सा० १५, ३०, नोट २।

रथ, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में साधारण गाड़ी अथवा अनसू के विपरीत

^१ १ २०, ३, ३. १५, ५; ४ ४, १०, १६, २०, ३६, २, ४३, २५, इत्यादि।

^२ अथर्ववेद, ५ १४, ५; १० १, ८ : ऐतरेय ब्राह्मण, ७ १२, ३, इत्यादि।

रथ का द्योतक है, यद्यपि दोनों का विभेद निश्चित नहीं। दोनों के आकार के सम्बन्ध में इस बात के अतिरिक्त और कोई विवरण नहीं मिलता कि रथ के पहिये की नाभि का छिद्र अथवा ख गाड़ी के पहिये के छिद्र से बड़ा होता था।^३

नियमित रूप से रथ में दो पहिये (चक्र) ही होते थे, जिनका अक्षर उल्लेख मिलता है।^४ पहिये में एक पवि, एक प्रधि, तीलियाँ (अर)^५ और एक नाभि (नभ्य) होते थे। पवि और प्रधि मिलकर नेमि का निर्माण करते थे। नाभि के छिद्र को ख कहते थे और इसमें धुरे का सिरा घुमा रहता था। किन्तु यह अनिश्चित है कि आरिणि धुरे के उग्र सिरे द्योतक है जो नाभि के छिद्र में घुसा रहता था अथवा उस कील का जिसे धुरे को पहिये में स्थित रखने के लिये धुरे के किनारों में लगाया जाता था। कभी-कभी ठोस पहिये भी व्यवहृत होते थे।^६

कुछ दशाओं में धुरा (अक्ष) अरटु की लकड़ी^७ का बना होता था जिसके किनारों पर पहिया घूमता था। धुरे में ही रथ का ढाँचा (कोश) सन्नद्ध रहता था। धुरे के कोशभाग के लिये वन्धुर शब्द का भी प्रयोग किया गया है जिसका ठीक-ठीक आशय रथ का आसन है। अश्विनों के लिये प्रयुक्त 'त्रि-वन्धुर' उपाधि इसी के लिये प्रयुक्त 'त्रि-चक्र' उपाधि के ही समान है; इसमें सम्भवतः, जैसा कि वेवर^८ का विचार है, ऐसा प्रतीत होता है कि रथ में सामान्यतया तीन पहिये और तीन आसन होते थे; किन्तु तिसर^९ का विचार है कि ऐसा रथ विशुद्धतः पौराणिक ही प्रतीत होता है। गर्त भी रथ में योद्धा के आसन का द्योतक है।

धुरे पर ही रथ का स्तम्भ (ईषा, प्रऽउग) समकोण बनाते हुये सन्नद्ध रहता था। ऐसा प्रतीत होता है कि रथ में एक ही स्तम्भ होता था जिसके

^३ ८ ९१, ७, सायण के भाष्य सहित, वेदिके स्टूडियन २, ३३३।

^४ तु० की० छान्दोग्य उपनिषद् ४. १६, ५, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण ३ १६, ७, कौपीतिक उपनिषद् १ ४।

^५ तु० की० ऋग्वेद १ ३०, १५; १४१, ९, ५ १३, ६, ५८, ५, ८ २०, १४, ७७, ३, १० ७८, ४, काठक सहिता

१० ४, इत्यादि।

^६ तु० की० प्रधि।

^७ ऋग्वेद ८ ४६, २७, तिसर . आस्टि-न्डिशे लेवेन २४७, नोट।

^८ प्रो० अ० १८९८, ५६४, विर्चाओ-त्सी० इ० ५, २००। तु० की० नोट २१।

^९ उ० पु० ८।

दोनों ओर दो अश्व सन्नद्ध किये जाते थे और उनके गले में जूआ अथवा युग पहना दिया जाता था। रथ के स्तम्भ को जूये के छिद्र (जिसे 'ख'^{१०} अथवा 'तर्झन्'^{११} कहते हैं) में घुसा रहता था और जूये तथा स्तम्भ को एक साथ बाँध दिया जाता था।^{१२}

अश्वों के गले (ग्रीवा) को ही सन्नद्ध किया जाता था और उसपर 'जूआ' रक्खा होता था। कभी-कभी उनके स्कन्ध-भाग को भी सन्नद्ध किया जाता था जिसके लिये रथ के स्तम्भ पर बेंड़े-बेंड़े एक लकड़ी का ढण्डा लगा होता था, अथवा रथ के स्तम्भ के किनारे पर दो तिकोने आकार की लकड़ियों का प्रयोग होता था जिनका मुख नीचे की ओर चौड़ा और ऊपर की ओर नुकीला होता था।^{१३} रश्मि और रशना द्वारा ऐसी ही लकड़ियों का आशय व्यक्त होता है। यह शब्द उन वल्गाओं के भी द्योतक हैं जो अश्वों के मुँह में लगी 'शिप्रा' से सन्नद्ध होते थे। सारथी वल्गाओं की सहायता से अश्वों का नियन्त्रण करता था और 'कशा' से उन्हें हाँकता था।^{१४} अश्वों के पेट की गोलाई को 'कषया' कहते थे।^{१५}

रथ में सन्नद्ध अश्वों की संख्या सामान्यतया दो होती थी, किन्तु कभी-कभी तीन^{१६} अथवा चार अश्वों तक का प्रयोग होता था। ऐसी दशा में यह अनिश्रित

^{१०} ऋग्वेद ८ ९१, ७ का यही आशय प्रतीत होता है, किन्तु इसे जूये के उस छिद्र भाग के अर्थ में भी ग्रहण किया गया है जिसमें बैल का सर घुसा होता था (होमर का *ἔβυλλη*)। देखिये विलसन के अनुवाद पर कोवेल की टिप्पणी; त्रिफिथ ऋग्वेद के सूक्त २, २३७, नोट।

^{११} अथर्ववेद १४. १, ४०।

^{१२} ऋग्वेद ३ ६, ६; ५ ५६, ४, १०. ६०, ८।

^{१३} दिसमर. उ० पु० २४९, का विचार है कि ऋग्वेद १. ११९, ५ में 'वाणी' लकड़ी के उन दो लट्टों की द्योतक है जिनमें तिकोने आकार के दो चौकटे सन्नद्ध रहते थे। रौथ सेन्ट पीटर्स-वर्ग कोश व० स्था०, वौटलिङ्क : डिकशनरी, और ग्रासमैन का भी यही मत है। इस शब्द का 'दो वाणियाँ'

१५ वै० इ० द्वि०

अर्थ भी हो सकता है (त्रिफिथ : ऋग्वेद के सूक्त १, १६२)।

^{१४} ऋग्वेद ५ ८३, ३, ६ ७५, ६।

^{१५} ऋग्वेद १० १०, १३; 'कक्ष्य-प्रा' (फूले हुये पेटवाला अर्थात् जिसे अच्छी तरह खिलाया-पिलाया गया हो), १ १०, ३ में इन्द्र के अश्वों की उपाधि है।

^{१६} तीन अश्वों का ऋग्वेद १०. ३३, ५, में उल्लेख है और ऋग्वेद १. ३९, ६, ८ ७, २८, इत्यादि में प्रष्टि से तृतीय अश्व का आशय हो सकता है। देखिये शतपथ ब्राह्मण ५ १, ४, ११, २, ४, ९, इत्यादि, पञ्चविंश ब्राह्मण १६ १३, १२, भी। चार अश्वों के लिये तु० की० ऋग्वेद २. १८, १, शतपथ ब्राह्मण ५ ४, ३, १७, १, ४, ११, एग्लिङ्क : से० बु० ई० ४१, २१, नोट १।

है कि इन दो अतिरिक्त अश्वों को पहले से सशस्त्र अश्वों के आगे लगाया जाता था अथवा दोनों पार्श्वों में, सम्भवतः दोनों ही पद्धतियाँ प्रचलित थीं। कभी-कभी तो पाँच अश्वों तक का प्रयोग होता था।^{१७} रथों में सामान्यतया अश्वों का ही व्यवहार होता था, किन्तु 'गर्दम'^{१८} अथवा 'अश्वतरी' (खच्चर)^{१९} का भी उल्लेख मिलता है। गादियों को खींचने के लिये बैलों का प्रयोग होता था और इसी कारण गाड़ी को 'अनुड्वाह्' कहते हैं। कभी-कभी निर्धन व्यक्तियों को एक ही अश्व से सन्तोष करना पड़ता था और ऐसी दशा में रथ में दो स्तम्भ होते थे जिनके बीच में अश्व सशस्त्र रहता था।^{२०}

रथ में सारथी दाहिने किनारे पर खड़ा रहता था, जब कि योद्धा, जैसा उसके सव्येष्ठ अथवा सव्यष्टा,^{२१} नामों से प्रगट होता है, बाँये किनारे पर रहता था। योद्धा अपनी इच्छानुसार रथ में बैठ भी सकता था क्योंकि रथ में आसन बना होता था, और बाण चलाते समय तो धनुर्धर स्वभावतः बैठना ही अधिक चाहता रहा होगा।

आपस्तम्ब के शुल्ब सूत्र^{२२} में रथ की लम्बाई-चौड़ाई का इस प्रकार वर्णन है : स्तम्भ=१८८ अङ्गुलि, धुरा=१०४ अङ्गुलि, और जूआ=८६ अङ्गुलि। रथ

^{१७} 'रथः पञ्चवाही', काठक संहिता १५
२, मैत्रायणी संहिता २ ६, ३।
तैत्तिरीय संहिता १ ८, ७, २, जैसे
एक समानान्तर स्थल पर 'प्रष्टि-
वाही' है।

^{१८} ऐतरेय ब्राह्मण ४ ९, ४।

^{१९} छान्दोग्य उपनिषद् ४ २, १, ५. १३,
२, ऐतरेय ब्राह्मण ४ ९, १।

^{२०} ऋग्वेद १०. १०१, ११, १३१, ३,
और ६. १५, १९, पञ्चविंश ब्राह्मण
१६. १३, १२; २१. १३, ८, इत्यादि।

^{२१} अथर्ववेद ८. ८, २३ में 'सव्यष्टा'
के साथ यही स्थिति है, और
तैत्तिरीय संहिता १ ७, ९, १ में

'सव्येष्ठ सारथि', एक वैदिक शब्द के
रूप में आता है जिसका अर्थ निश्चित
रूप से 'योद्धा और सारथी' है।
देखिये शतपथ ब्राह्मण ५. ३, १, ८,
और पग्लिह. से० दु० ३०, ४१,
६२, नोट १, भी। यूनानी सन्दर्भों
में दो योद्धाओं और एक सारथी का
विवरण मिलता है। तु० की० तीन
आसनोंवाला अश्विनों का रथ।
देरिये फॉन श्रोडर : इन्डियन लिटरे-
चर उन्ट कल्चर, ४३५।

^{२२} ६ ५ (वर्कः त्सो० गे०, ५६, ३४४,
३४५)।

के निर्माण के लिये पहियों के चक्रधार के अतिरिक्त सर्वत्र लकड़ी का ही व्यवहार होता था।^{२३}

रथ के अनेक अन्य भागों का भी उल्लेख है किन्तु इनके नामों का आशय अक्सर अस्पष्ट है। यह नाम इस प्रकार हैं : अङ्ग, न्यङ्ग, उद्धि, पद्मस्, पातल्य, भुरिज्, रथोपस्थ, रथवाहन।

^{२३} शतपथ ब्राह्मण ५. ४, ३, १६। वधू को ले जाने के लिये प्रयुक्त रथ 'शल्मलि' की लकड़ी का बना होता था, ऋग्वेद १० ८५, २०।
महाभारत कालीन रथों के लिये देखिये, हॉपकिन्स : ज० अ० ओ०

सो०, १३, २३५-२६२; और तु० की० श्रेडर : प्रिहिस्टोरिक ऐन्टीक्विटीज, ३३८, ३३९, रिसमर : आर्लिन्डिशे लेवेन, २४५-२५२; हॉपकिन्स : ट्रा० सा० १५, ३८, नोट १।

रथ-कार का अथर्ववेद^१ में ऐसे व्यक्ति के रूप में उल्लेख है जो राजा की प्रजा के अन्तर्गत आता है और सामान्य रूप से औद्योगिक जनसंख्या का उदाहरण है। यजुर्वेद संहिताओं^२ और ब्राह्मणों^३ में भी इसका उल्लेख है : इन सभी स्थलों पर, और सम्भवतः अथर्ववेद में भी, रथकार एक जाति के ही रूप में आता है। बाद की पद्धतियाँ^४ रथकार को एक 'माहिष्य' (क्षत्रिय पति और वैश्य पत्नी का पुत्र) और एक 'करणी' (वैश्य पति और शूद्र पत्नी की पुत्री) की सन्तान मानती हैं, किन्तु रथकार की ऐसी उत्पत्ति मानना ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं प्रतीत होता। रथकार निश्चित रूप से एक कर्मणा जाति रहे होंगे। हिलेब्रान्ट^५ का विचार है कि अनु जाति ही रथकार वर्ग के निर्माण का आधार थी क्योंकि यह जाति उन ऋभुओं की उपासक थी जो अत्यन्त उत्कृष्ट रथ निर्माता माने गये हैं। किन्तु इस दृष्टिकोण के पक्ष में प्रमाण बहुत कम हैं।

^१ ३ ५, ६।

^२ काठक संहिता १७ १३, मैत्रायणी संहिता २ ९, ५, वाजसनेयि संहिता १६. १७, ३०, ६।

^३ तैत्तिरीय ब्राह्मण १. १, ४, ८, ३ ४, २, १; शतपथ ब्राह्मण १३ ४, २, १७।

^४ याज्ञवल्क्य १, ९५। बाद के सस्कारों में एक जाति के रूप में वैश्यों से हीन

किन्तु शूद्रों से श्रेष्ठ रथकारों की विशेष स्थिति के लिये तु० की० वेवर : इण्डिशे स्टूडियन १०, १२, १३ और तु० की० वर्ण; तु० की० फिक्र : डी० ग्ली० २०९, २१० भी।

^५ वेदिशे माइथोलोजी, ३, १५२, १५३। तु० की० वेवर : इण्डिशे स्टूडियन १७, १९६ और वाद।

रथ-गृत्स, वाजसनेयि संहिता (१५. १५) और ऐतरेय ब्राह्मण (३. ४८, ९) में एक 'प्रवीण सारथी' का द्योतक है ।^१

^१ तु० की० तैत्तिरीय संहिता ४ ४, ३, २, °कृत्स, मैत्रायणी संहिता २. ८, २०, °कृत्स, काठक संहिता १७, ९ ।

रथ-चक्र का ब्राह्मणों^१ में अक्षर उल्लेख है । देखिये रथ और चक्र ।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ३ ४३, ४, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ १, ६, ८, शतपथ ब्राह्मण २ ३, ३, १२, ५ १, ५, २, ११. ८, १, ११, इत्यादि ।

रथ-चर्पणा, एक चार ऋग्वेद^१ में आता है, जहाँ आशय कुछ सन्दिग्ध है । रौथ^२ का विचार था कि इससे रथ के किसी भाग का अर्थ है, किन्तु सम्भवतः इससे केवल 'रथ के पथ' का ही आशय है ।^३

^१ ८ ५, १९ ।

^३ तु० का० निम्न ५, १० पर दुर्ग के भाष्य में उद्धरण और न्याय ।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० ।

रथ-जूति, अथर्ववेद (१९. ४४, ३) में चा तो एक विशेषण है जिसका अर्थ 'तीव्रगति से रथ हॉकने वाला'^१ है, अथवा व्यक्तिवाचक नाम जैसा कि सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश में रौथ ने माना है ।

^१ विद्वन्ने : अथर्ववेद का अनुवाद ९६७, के अनुसार 'रथ के समान तीव्र

गति वाला' । तु० की० इमी स्थल पर उनकी टिप्पणी ।

रथ-नाभि का वाजसनेयि संहिता^१ और उपनिषदों^२ में उल्लेख है ।

^१ ३४, ५ ।

^२ बृहदारण्यक उपनिषद् २ ५, ५, ऐतरेय आरण्यक ३ २, ४, कौपीतिक

उपनिषद् ३, ८, छान्दोग्य उपनिषद् ७ १५, १, इत्यादि ।

रथ-प्रोत दाम्य ('दर्भ' का वंशज) का मैत्रायणी संहिता (२. १, ३) में सम्भवतः एक राजा अथवा कदाचित एक पुरोहित के रूप में उल्लेख है ।

रथ-प्रोष्ठ ऋग्वेद (१०. ६०, ५) में एक राज-परिवार के नाम के रूप में आता है । देखिए सुवन्धु ।

रथ-मुख, चाद की संहिताओं^१ में रथ के अग्रभाग का द्योतक है । तु० की० रथशीर्ष ।

^१ अथर्ववेद ८ ८, २३, तैत्तिरीय संहिता ३ ४, ८, २, ५. ४, ९, ३, इत्यादि ।

रथर्वी, अथर्ववेद (१०. ४, ५) में एक सर्प का नाम है ।

रथ-वाहन, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में रथ को टिकाने के लिए प्रयुक्त एक चलनशील उपकरण का नाम है । रौथ^३ के अनुसार यह यूनानी *βωμος* के समान है जिस पर न प्रयुक्त होने के समय रथ टिका रहता था । 'रथवाहन-वाह' शब्द उन दो अश्वों के आशय में प्रयुक्त हुआ है जो रथवाहन को खींचते थे ।^४ वेबर^५ का विचार है कि इसका प्रयोग युद्ध के रथों को युद्ध स्थल तक ले जाने के लिये किया जाता था ।

^१ ६ ७५, ८ ।

^२ अथर्ववेद ३ १७, ३ = तैत्तिरीय संहिता ४ २, ५, ५ = काठक संहिता १६. ११ = मैत्रायणी संहिता २ ७, १२ = वासिष्ठ धर्मसूत्र २ ३४ ३५ । काठक संहिता २१ १०, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ७, ९, ६, शतपथ ब्राह्मण ५ ४, ३, २३ और वाद भी देखिये ।

^३ के० वौ०, ९५ और वाद, विहटने अथर्ववेद का अनुवाद ११६ ।

^४ तैत्तिरीय संहिता १ ८, २०, ९, तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ८, ४, ३; काठक संहिता

१५ ९; मैत्रायणी संहिता २. २, १ ।

^५ ऊबर डेन वाजपेय, २७, नोट २, जिसका गेल्डनर · वेदिशे स्टूडियन २, २७५ ने भी अनुसरण किया है । फिर भी वेबर यह स्वीकार करते हैं कि रथवाहन होमर के *βωμος* के समान केवल रथ के टिकने मात्र का उपकरण रहा हो सकता है, जब कि गेल्डनर ऐसा मत व्यक्त करते हैं कि इसका कभी भी ऐसा आशय नहीं था । रथवाहनवाह शब्द का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि यह उपकरण भी चलनशील था ।

रथवीति दाम्भ्य ('दभ' का वंशज) का एक वार ऋग्वेद^१ में गायों से परिपूर्ण (गोमतीरू अन्तु) दूरस्थ पर्वतों, सम्भवतः हिमालय पर, रहनेवाले और सूक्त गायक के प्रतिपालक के रूप में उल्लेख है । वाद की परम्परा^२ इसे एक राजा मानती है जिसके श्यावाश्व नामक पुत्र ने अपने पिता और मरुतों की सहायता से अपने लिये एक पत्नी प्राप्त किया था ।

^१ ५ ६१, १७, १९ ।

^२ देखिये सीग. सा० ऋ०, ५० और वाद, ६०, नोट २, और औल्डेनवर्ग ·

ऋग्वेद-नोट्स, १, ३५३, ३५४ में आलोचना । मैक्स मूलर : से० बु० ई० ३२, ३५९, ३६२ ।

रथ-शीर्षि अर्थात् रथ के अग्रभाग का शतपथ ब्राह्मण (९. ४, १, १३) में उल्लेख है ।

रथ-सङ्ग, ऋग्वेद (९. ५३, २) में दो विरोधी रथों के आमने-सामने आ जाने का द्योतक है ।

रथाक्ष, यजुर्वेद संहिताओं^१ में रथ के धुरे का द्योतक है । कात्यायन श्रौत सूत्र^२ के भाष्यकार ने इसकी लम्बाई १०४ अंगुलि बताया है जो आपस्तम्ब शुक्ल सूत्र^३ के वक्तव्य के अनुकूल है । देविये रथ ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ६. ६, ४, १, काठक संहिता २९ ८ ।
^२ ८. ८, ६ ।

^३ ६. ५ (वर्कः त्सी० गे० ५६, ३४४, ३४५) ।

रथाह्वय, शतपथ ब्राह्मण (१२. २, ३, १२) में रथ से पूरी की गयी एक दिन की यात्रा-अवधि का द्योतक है ।

रथिन् और रथी, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में रथ पर चलनेवाले व्यक्ति के द्योतक हैं और इन व्याहृतियों के अन्तर्गत सारथी तथा रथारूढ़ योद्धा दोनों ही आ जाते हैं ।

^१ रथिन्, १. १२२, ८, ५ ८३, ३, ६. ४७, ३१, ८. ४, ९, १०. ४०, ५; ५१, ६, रथी, १ २५, ३, २. ३१, २, ३ ३, ६, ५. ८७, ८, ७. ३९, १,
^२ रथिन्, अथर्ववेद ४ ३४, ४; ७. ६२, १; ७३, १; ११. १०, २४, तैत्तिरीय

संहिता ५. २, २, ३, वाजसनेयि संहिता १६ २६; शतपथ ब्राह्मण ८. ७, ३, ७, इत्यादि; रथी, तैत्तिरीय संहिता ४. ७, १५, ३ ।
तु० की० तिसर . आस्टिन्डिशे लेवेन २९६ ।

रथीतर (श्रेष्ठ रथी) एक गुरु का नाम है जिसका दौधायन श्रौत सूत्र^१ और बृहद्देवता^२ में उल्लेख है ।

^१ २२ ११ ।

^२ १. २६, ३. ४०; ७ १४५ (मैकडोनेल संस्करण)

रथे-ष्ठा, ऋग्वेद^१ में उस योद्धा का द्योतक है जो रथ पर खड़ा होकर युद्ध करता है ।

^१ १ १७३, ४ ५, २ १७, ३, ६ २१, १, २२, ५, २९, १; ८ ४, १३, ३३, १४, ९. ९७, ४९, वाजसनेयि संहिता

२२ ३२, तु० की० तिसर . आस्टिन्डिशे लेवेन २९६ ।

रथोपस्थ, अथर्ववेद^१ और ब्राह्मणों^२ में रथ के उस निचले भाग का द्योतक प्रतीत होता है जिस पर सारथी और योद्धा खड़े होते थे ।

^१ ८ ८, २३ ।

^२ ऐतरेय ब्राह्मण ८ १०, २; शतपथ ब्राह्मण २ ३, ३, १२, इत्यादि ।

तु० की० हॉपकिन्स ज० अ० ओ० सो० १३, २३८ नोट ।

रन्ध्र, ऋग्वेद के एक स्थल (८. ७, २६) पर 'उच्चर्णो रन्ध्र' वाक्यपद में आता है और किसी स्थान का नाम प्रतीत होता है, किन्तु यह आशय अस्यन्त सन्दिग्ध है। पञ्चविंश ब्राह्मण (१३. ९, १३) में 'उच्चर्णो रन्ध्र', एक व्यक्ति का नाम है।

रभि, जो कि ऋग्वेद (८. ५, २९) में एक बार आता है, रथ के किसी भाग का द्योतक है। इस शब्द से सम्भवतः उपस्तम्भित करनेवाली लकड़ियों का अर्थ है।

रम्भ, जो कि ऋग्वेद (८. ४५, २०) के एक स्थल पर आता है, छड़ी अथवा सहारे का द्योतक है। एक अन्य स्थल (२. १५, ९) पर एक व्यक्ति को रम्भिन्न् कहा गया है जो प्रत्यक्षतः इसलिए कि वह वृद्धावस्था के कारण सहारे के लिए छड़ी लेकर चलता है। सायण ने इस शब्द की 'द्वारपाल' (वाद की संस्कृत के 'दन्दिन्', अर्थात् दण्ड लेकर चलनेवाले, का एक आशय) के रूप में व्याख्या की है।

रम्भिणी, ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर मरुतों के स्कन्ध पर स्थित होने के आशय में आता है। सम्भवतः मनुष्य के स्कन्ध से लटके हुये (रम्भू=रम्भ् ; अर्थात् चिपकाना या लटकाना) भाले के अर्थ में इसकी कल्पना की गयी है।

^१ १. १६८, ३। तु० की० १ १६७, ३, और देखिये मैक्स मूलर : से० बु० ई०, ३२, २८३।

रयि, ऋग्वेद^१ और ऋग्वेद^२ में सम्पत्ति के लिये प्रयुक्त साधारण शब्द है। वीर योद्धाओं अर्थात् श्रेष्ठ पुत्रों^३, अश्वों^४ और पशुओं^५ इत्यादि रूपी सम्पत्ति का अक्सर विशेष रूप से उल्लेख मिलता है।

^१ १ ७३, १; १५०, ४, २ २१, ६, ३
१, १९, ४ २, ७, ३४, १०, ३६, ९,
६ ६, ७, ३१, १, इत्यादि।

^२ अथर्ववेद ३ १४, १, ६ ३३, ३, ७
८०, २, तैत्तिरीय संहिता ७ १ ७२,
वाजसनेयि संहिता ९. २२, १४ २२,

२७ ६ इत्यादि।

^३ ऋग्वेद २ ११, १३, ३० ११, ४ ५१,
१०, इत्यादि।

^४ ऋग्वेद ५ ४१, ५, ८ ६, ९, इत्यादि।

^५ ऋग्वेद ५ ४, ११, इत्यादि।

रशना से सामान्यतया 'रस्सी' का अर्थ है। ऋग्वेद में यह शब्द अक्सर अश्वों के विविध प्रकार के बन्धनों को व्यक्त करता है। एक स्थल^१ पर

^१ १ १६२, ८। तु० की० रज्जु।

'श्रीर्षण्या रशना' व्याहृति से सम्भवतः वल्गा का उतना अर्थ नहीं है जितना सर्प बाँधने के लिये प्रयुक्त रस्सी का। अन्य स्थलों^२ पर भी वन्धन का आशय निश्चित प्रतीत होता है, यद्यपि कभी कभी^३ वल्गाओं अथवा वन्धन दोनों का ही आशय हो सकता है। अन्यत्र रस्सी का ही सामान्य आशय सम्भव है।^४

^२ ऋग्वेद १ १६३, २ ५; १० ७२, ७।

^३ ऋग्वेद ४ १, ९, ९ ८७, १, १० १८, १४। तु० की० तैत्तिरीय संहिता १ ६, ४, ३।

^४ ऋग्वेद २ २८, ५, अथर्ववेद ८ ७८, १, १०. ९, २, वाजसनेयि संहिता २१ ४६, २२ २, २८ ३३, तैत्तिरीय

संहिता ६ ६, ४, ३, शतपथ ब्राह्मण ३ ६, ३, १०, इत्यादि।

तु० की० ऋग्वेद १० ४, ६ में 'उँगली' के समानार्थी के रूप में रशना का प्रयोग।

तु० की० तिसरः आस्टिन्टिशे लेवेन २४९।

१. रश्मि, सामान्य रूप से रस्सी^१ के आशय में बहुत दुर्लभ नहीं है; किन्तु अधिक स्वाभाविक रूप से यह वल्गाओं^२ का ही द्योतक है।

^१ ऋग्वेद १ २८, ८, ४ २२, ८, ८ २५, १८, इत्यादि, ऐतरेय ब्राह्मण ४ १९, ३, इत्यादि।

^२ ऋग्वेद ८ ७, ८; १०. १३०, ७, इत्यादि; तैत्तिरीय संहिता १ ६, ४, ३, वाजसनेयि संहिता २३, १४, तैत्ति-

रीय ब्राह्मण १ २, ४, २, इत्यादि।

ऐतरेयब्राह्मण २ ३७, १, में दो आन्तरिक (अन्तरी) वल्गाओं का उल्लेख है।

तु० की० तिसरः आस्टिन्टिशे लेवेन २४९।

२. रश्मि, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में नियमित रूप से सूर्य की किरणों का द्योतक है।

^१ १ ३५, ७; ४ ५२, ७, ७ ३६, १, ७७, ३, इत्यादि।

^२ अथर्ववेद २ ३२, १, १० १, १५;

तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. १, १, १, शतपथ ब्राह्मण १ २, ३, १४, इत्यादि।

रसा, ऋग्वेद^१ के तीन स्थलों पर स्पष्ट रूप से वैदिक क्षेत्र के उत्तर-पश्चिमी

^१ १. ११०, १२, ५ ७३, ९, १० ७५, ६। ५ ५३, ९ में 'रसानितमा' मिलता है। लुडविग. ऋग्वेद का अनुवाद, ३, २०० 'अनितमा' को सम्भवतः 'अमितमा' के स्थान पर 'रसा' की एक उपाधि मानते हैं, किन्तु यह

कदाचिन ही सम्भव है। अनितमा को अन्यथा एक अज्ञात नदी का नाम मानना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। तु० की० मैक्स मूलर इन्डिया, १६६, १७३, नोट।

किनारे पर बहने वाली एक वास्तविक नदी का नाम है। अन्यत्र^२ यह पृथ्वी के अन्त में बहने वाली एक पौराणिक नदी का नाम है जो पृथ्वी और अन्तरिक्ष को अपने अन्तर्गत परिवेष्टित करती है। जैसा कि सरस्वती की दशा में भी है, इसका उक्त प्राचीन आशय ही उपयुक्त है और इसे एक वास्तविक नदी, सम्भवतः मूल रूप से 'अराक्सेस' अथवा 'जक्सार्टेस' का नाम मानना चाहिये क्योंकि वेन्डियाड ने 'रसा' के अवेस्तन रूप 'रडहा' का उल्लेख किया है। किन्तु यह शब्द मूलतः जलों के^३ 'स्वाद' अथवा 'सार' का ही द्योतक प्रतीत होता है, अतः इसे सरस्वती की भाँति किसी भी नदी के लिये व्यवहृत किया जा सकता है।

^२ ऋग्वेद ५ ४१, १५, ९ ४१, ६; १० १०८, १. २ (तु० की० जैमिनीय ब्राह्मण २, ३४८; ज० अ० ओ० सो० १९, २०० और बाद), १२१, ४।

^३ ऋग्वेद ४ ४३, ६, ८ ७२, १३।

तु० की० तिसमर : आस्ट्रिन्डिशे लेवेन १५, १६, मैक्स मूलर से० बु० ई० ३२, ३२३, ब्रुनहॉफर • ईरान उन्ट तूरान, ८६, वेवर • प्रो० अ०, १८९८, ५६७-५६९।

रसाशिर ऋग्वेद^१ में सोम की एक उपाधि है जिम्का अर्थ 'रसमिश्रित', अर्थात् दुग्ध-मिश्रित है।

^१ ३ ४८, १, जहाँ सायण 'रस' की 'दुग्ध' के रूप में व्याख्या करते हैं। तु० की०

हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथोलोजी १, २११, नोट ५।

रह-सू, ऋग्वेद (२.२९, १) के एक स्थल पर अविवाहित माता के लिए व्यवहृत शब्द है। तु० की० पति और धर्म।

रहस्यु देव-मलिस्तुच्, पञ्चविंश ब्राह्मण (१४.४, ७) में उस पौराणिक व्यक्ति का नाम है जिम्ने मुनिमरण में सत-तुल्य वैखानसों का वध किया था।

रहू-गण, एक ऐसे परिवार का नाम है जिसका ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर बहुवचन में उल्लेख है। लुडविग^२ के अनुसार यह लोग, जैसा की गोतम राहूगण नाम से व्यक्त होता है, गोतमों से सम्बद्ध थे।

^१ १ ७८, ५।

^२ ऋग्वेद का अनुवाद ३ ११०। तु० की०

औलडेनवर्ग • त्सी० ने० ४२, २३६ नोट १।

राका, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में एक मूर्त्तिकरण के रूप में पूर्णिमा का द्योतक है ।

^१ ०, ३०, ४, ५, ४२, १० ।

^२ तैत्तिरीय संहिता १ ८, ८, १; ३. ४, ९, १ ६, काठक संहिता १२ ८,

ऐतरेय ब्राह्मण ३ ३७, २. ६, ४७, ४, इत्यादि, पञ्चविंश ब्राह्मण १६ १३, १, इत्यादि ।

राज-कर्तृ,^१ अथवा राज-कृत्^२ (राजा बनानेवाला) अथर्ववेद और ब्राह्मणों में उन व्यक्तियों के लिये व्यवहृत शब्द है जो 'स्वर्य राजा न होते हुये'^३ राजाओं के अभिषेक में सहायता देते थे । शतपथ ब्राह्मण में इससे उद्दिष्ट व्यक्तियों के अन्तर्गत सूत (सारथी) और उस ग्रामणी (ग्राम-प्रधान) को सम्मिलित किया गया है जो एग्लिङ्ग^४ के विचार के अनुसार अभिषेक के स्थान से सर्वाधिक निकट ग्राम का प्रधान प्रतिनिधि होता था । भाष्यकार की व्याख्या के अनुसार ऐतरेय ब्राह्मण^१ में इससे पिता, आता, इत्यादि का अर्थ है । अथर्ववेद^२ में इन व्याहृतियों का प्रयोग तो है किन्तु अर्थ का उल्लेख नहीं है ।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ८ १७, ५ ।

^२ अथर्ववेद ३. ५, ७, शतपथ ब्राह्मण ३ ४, १, ७, १३. २, २, १८ ।

^३ उ० स्था ।

^४ से० तु० ई० ४१, ६०, नोट ।

तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १७, १९९ और वाद ।

राज-कुल का जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३.२८, ४) में उल्लेख है, जहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस प्रकार के परिवार को 'ब्राह्मण कुल' के पहले नहीं वरन् वाद में रखा गया है ।

१. राजन् (राजा) एक ऐसा शब्द है जो ऋग्वेद^१ और वाद के साहित्य^२ में बहुधा आता है । यह सर्वथा स्पष्ट है कि आरम्भिक भारत में यद्यपि सार्व-भौमिक रूप से तो नहीं, तथापि समान्यतया सरकार का रूप राज-सत्तात्मक ही था । इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये कि भारतीय धर्म एक शत्रु प्रदेश पर आक्रामकों के ही रूप में आये थे, ऐसा स्वाभाविक भी है । यूनान पर आक्रमण करनेवाले आर्यों और इंग्लैण्ड के जर्मन आक्रमणकारियों की दशा में भी स्थिति ऐसी ही थी जिन्होंने प्रायः अनिवार्यतः उन देशों में राज-

^१ ३ ४३, ५, ५ ५४, ७, इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद ४ ००, ३ ५; ८ ७, १६, इत्यादि ।

सत्तात्मक विधान के विकास को ही सशक्त किया था।^३ वैदिक राजसत्ता की व्याख्या के लिये केवल समाज का पितृ-सत्ता सम्पन्न संगठन मात्र ही पर्याप्त नहीं है जैसा कि त्सिमर^४ मानते हैं।

राजसत्ता की अवधि—त्सिमर^४ का विचार है कि जहाँ वैदिक राजसत्ता वंशानुगत होती थी, जैसा कि अनेक उन स्थितियों से व्यक्त होता है जिनमें वंशानुक्रम देखा जा सकता है,^६ वहीं अन्य दशाओं में राजसत्ता चुनाव पर आधारित थी, यद्यपि यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि जनता द्वारा केवल राज-परिवार के सदस्यों में से ही किसी एक को राजा चुनना पड़ता था अथवा सभी श्रेष्ठ जातियों के सदस्यों में से। फिर भी इसे स्वीकार करना चाहिए कि चुनाव पर आधारित राजसत्ता के पक्ष में प्रमाण बहुत शक्तिशाली नहीं हैं। जैसा कि गेव्डनर^५ तर्क उपस्थित करते हैं, सभी उद्धृत स्थलों^७ पर विशों द्वारा चुनाव का नहीं वरन् प्रजा द्वारा राजा को स्वीकृति प्रदान करने का सन्दर्भ है : यही अपेक्षाकृत सम्भव आशय प्रतीत होता है। इसमें सन्देह नहीं कि इससे राजसत्ता की चुनावात्मक प्रकृति के विरुद्ध प्रमाण नहीं मिलता। किसी परिवार के एक सदस्य के अयोग्य होने पर उस परिवार के किसी अन्य सदस्य का राजा के रूप में चुनाव का उदाहरण देवापि और शन्तनु नामक कुरु भ्राताओं की यास्क^८ द्वारा उद्धृत कथा में उदाहरण मिलता है जिसका समकालीन दृष्टिकोण के लिये प्रमाण के रूप में महत्व स्वयं इस कथा की सन्दिग्ध प्रकृति और उपयोगिता द्वारा प्रभावित नहीं होता।

राजशक्ति स्पष्टतः असुरक्षित होती थी : राजाओं के अपने राज्य से निष्कासित होने और अपनी प्रभुसत्ता पुनः प्राप्त करने के अनेक सन्दर्भ

^३ तु० की० स्टव्स . कॉन्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैन्ड, ५९ और वाद।

^४ आल्डिन्डिजे लेवेन १६२।

^५ उ० पु० १६२ और वाद। इसी प्रकार वेवर . इन्डिजे स्टूडियन १७, १८८, ब्लूमफील्ड . अथर्ववेद के सूक्त ३३६।

^६ उदाहरण के लिये वध्रथश्च, दिवोदास, पिजवन, सुदास; अथवा पुरुकुत्स, त्रसदस्यु, मित्रातिथि, कुरुश्रवण, उपमश्रवस्, इत्यादि, लैनमैन .

संस्कृत रीडर, ३८६। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण १२ ९, ३, ३, में दस पीढियों के राज्य (दशपुरुषं राज्य) का उल्लेख है, और तु० की० ५ ४, २, ८, ऐतरेय ब्राह्मण ८ १२, १७।

^७ वेदिशे स्टूडियन २, ३०३।

^८ ऋग्वेद १० १२४, ८, १७३, अथर्ववेद १ ९, ३ ४, ४ २०।

^९ निरुक्त २ १०।

मिलते हैं।^{१०} अथर्ववेद में राजा की हितरक्षा के लिये अनेक प्रकार के अभिचारों का वर्णन है।^{११}

युद्ध और राजा—स्वभावतः ऋग्वेद के बाद के वैदिक ग्रन्थों में उन युद्धोपम अभियानों के अपेक्षाकृत कम सन्दर्भ मिलते हैं जो राजकीय कर्त्तव्य के प्रमुख भाग होते थे। किन्तु तैत्तिरीय ब्राह्मण^{१२} में यह वक्तव्य निहित है कि कुरु-पञ्चाल राजा अपनी जाति के ब्राह्मणों की ही भाँति श्रेष्ठ आकृति वाले होते थे और तुहिनार्द्र ऋतु में आक्रमण करते थे। 'निराज' विभेदात्मक रूप सहित उदाज शब्द से भी ऐसा व्यक्त होता है कि युद्ध में प्राप्त सामग्री में राजा भी अपना भाग लेता था। ऋग्वेद^{१३} में वैदिक युद्धों के अनेक सन्दर्भ हैं : यह स्पष्ट है कि क्षत्रिय गण अपने युद्धोपम कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये उत्तने ही तत्पर रहते थे जितने ब्राह्मण लोग अपने यज्ञ सम्बन्धी अथवा अन्य कर्त्तव्यों के लिये। साथ ही साथ आक्रामक युद्ध के अतिरिक्त सुरक्षा भी राजा का प्रधान कर्त्तव्य होता था : उसे स्पष्टतः 'जाति का रक्षक' (गोपा जनस्य), अथवा जैसा कि राजसूय के समय कहा जाता है, 'ब्राह्मणों का रक्षक'^{१४} बताया गया है। राजा के पुरोहित से यह आशा की जा सकती थी कि वह अपने अभिचारों के प्रयोग से राजा के आयुधों को सफल बनाये। इसमें

^{१०} पारिभाषिक शब्द 'अपरुद्ध'।

तु० की० अथर्ववेद ३ ३, ४, काठकसंहिता २८ १, तैत्तिरीय संहिता २ ३, १, मैत्रायणी संहिता ० २, १, पञ्चविंश ब्राह्मण १२ १०, ६, शतपथ ब्राह्मण १० ९, ३, ३, इत्यादि, कौशिक सूत्र १६ ३०, कैलेण्ड • आल्टिन्डिशे त्सावररिन्नुअल, ३७ और वाद।

^{११} विशेषत ३ ३। तु० की० ब्लूम-फील्ड अथर्ववेद के सूक्त, १११ और वाद।

^{१२} १ ८, ४, १।

^{१३} उदाहरण के लिए दाशराज्ञ, ऋग्वेद ७, १८ ३३, ८३, और तु० की० ऋग्वेद ३ ३३ ५३।

^{१४} ऋग्वेद ३ ४३, ५। आदिवासियों

पर आक्रमण के ऋग्वेद में अनेक सन्दर्भ मिलते हैं, उदाहरण के लिए, २ १०, ११, ४ २६, ३, ६ २६, ५, ३३, ४ इत्यादि। युद्ध सम्बन्धी वाद के सन्दर्भों के लिए तु० की० काठक संहिता ९ १७, १०. ३, २८ २, तैत्तिरीय संहिता ६ ४, ८, ३, कौषीतकि ब्राह्मण ५. ५, शतपथ ब्राह्मण २ ६, ४, २ और वाद, और हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० १३, १८७, २१५। राजमूय में ब्राह्मण के रक्षा की 'विश्व' के भोजन से प्रतिपूर्ति की गई और इस द्वितीय कार्य में सुरक्षा प्रदान करने के प्राचीन कर्त्तव्य की अपेक्षा राजा की अधिक रुचि है। देखिये ऐतरेय ब्राह्मण ८. १२ १७।

सन्देह नहीं कि राजा स्वयं उपस्थित होकर युद्ध करता था : इसीलिये कौपी-
तिक उपनिषद्^{१५} के अनुसार प्रतर्दन की युद्ध में मृत्यु हुई थी : और
राजसूय में राजा का 'पुरां भेत्ता' के रूप में भावाहन क्रिया जाता था ।

राजा और शान्ति—अपनी योद्धोपम सेवाओं के प्रतिदान के रूप में
राजा अपनी प्रजा द्वारा आज्ञापालन,^{१६} जो कभी-कभी बलात्^{१७} भी होता था,
और विशेषतः राज्य सञ्चालन के लिये योगदान का अधिकारी होता था ।
राजा को नियमित रूप से 'प्रजा का भक्तक' कहा गया है,^{१८} किन्तु इस
वाक्पद को इस अर्थ में ग्रहण नहीं करना चाहिये कि राजा अपनी प्रजा को
अनिवार्यतः त्रस्त ही करता था । इसकी उत्पत्ति उस प्रथा में निहित है
जिसके द्वारा राजा और उसके पार्षद जनता के करों द्वारा पोषित होते थे ।
इस प्रथा के अन्यान्य समानान्तर उदाहरण मिलते हैं । राजा द्वारा
अपने पोषण के राजकीय अधिकार को किसी अन्य क्षत्रिय का उत्तरदायित्व
बना सकना भी सम्भव था, और इस प्रकार प्रजा द्वारा पोषित समाज में
एक अन्य उच्चवर्ग का भी विकास हो गया । सामान्यतया क्षत्रिय और ब्राह्मण

^{१५} ३ १ ।

^{१६} देखिये, उदाहरण के लिये याज्ञवल्क्य
को जनक द्वारा दासों के रूप में प्रदत्त
विदेह, बृहदारण्यक उपनिषद् ४ ८,
३०, और देखिये वही २ १, २०,
मैत्रायणी संहिता १ ६, १०, इत्यादि,
ऋग्वेद १ ६७, १, ४ ५०, ८ ।

^{१७} ऋग्वेद ९ ७, ५ । तु० की० ७ ६,
५, इत्यादि, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ७,
१८, २ ।

^{१८} देखिये वलि और तु० की० ऋग्वेद
१ ६५, ४, अथर्ववेद ४ २२, ७,
ऐतरेय ब्राह्मण ७ २९, ८ १२ १७,
कौषीतकि ब्राह्मण ४ १२, शतपथ
ब्राह्मण १ ८ २, १७, ४ २, १, ३
१७, ५ ३, ३, १२, ४, २, ३, १०
६, २, १, १३ २, ९, ६ ८, इत्यादि,
वेवर . इन्डिशे स्टूडियन, १८, ९३,
नोट, लुडविग . ऋग्वेद का अनुवाद

३, २४६, पिश्ल और गेल्डनर :
वेदिशे स्टूडियन, १, xvi, विन्टर
निस्स . गे० लि०, १, १७३, १७४,
कीथ . ऐतरेय आरण्यक १६१ । इसी
प्रकार के कर के अन्तर्गत ग्राम का हिस्सा
(ग्रामे), अश्व (अश्वेषु) और गाय
(गोषु) आदि जिनका अथर्ववेद ४.
२२, २ में उल्लेख है, आते हैं । यह
उल्लेखनीय है कि यहाँ गाय और
ग्राम दोनों को एक ही स्तर पर रखा
गया है जो इस तर्क का प्रतिवाद करता
है कि राजा ही सर्वोच्च भूस्वामी
होता था । देखिये नीचे नोट ३१ ।
कर की दर के लिये, जो कि बाद में
षष्ठमांश था, तु० की० हॉपकिन्स :
ज० अ० ओ० सो०, १३, ८५, ८६,
इन्डिया ओल्ड ऐण्ड न्यू, २३८ और
बाद; ३३३, मिसेज रिज डेविड्स :
ज० ए० सो० १९०१, ८६० ।

को कर नहीं देना पड़ता था। वैदिक ग्रन्थों में राजा द्वारा विजित सम्पत्ति के सर्वथा मुक्त होने के अत्यन्त निश्चित विचार मिलते हैं।^{१९} फिर भी राजा की शक्ति प्रजा में ही निहित होती थी।^{२०} देखिये वलि भी।

प्रतिदान में राजा न्यायाधीश के भी कर्त्तव्यों का पालन करता था। वह स्वयं 'अदण्ड्य' होते हुये भी दण्ड धारण करता था।^{२१} यह सम्भव है कि मुख्यतः अपराधों का न्याय करना ही उसका प्रमुख कर्त्तव्य रहा हो क्योंकि सूत्रों^{२२} में अपराधों का निर्णय करने से सम्बद्ध राजा के व्यक्तिगत राजकीय अधिकारों के स्पष्ट चिह्न वर्तमान हैं। सम्भवतः किसी राज्याधिकारी, अथवा यहाँ तक कि किसी प्रतिनिधि द्वारा भी, इस प्रकार की अधिकार-सत्ता का प्रयोग किया सकता था, क्योंकि काठक संहिता^{२३} में किसी शूद्र को दण्ड देने के समय 'अध्यक्ष' के रूप में राजन्य का उल्लेख मिलता है। सम्पत्ति-न्याय में राजा का, अन्तिम निवेदन सुननेवाले न्यायालय के अतिरिक्त कोई और विशेष महत्त्व नहीं होता था : किन्तु इस विषय से सम्बद्ध प्रमाणों का अभाव है। ऋग्वेद का मध्यमशी सम्भवतः राजकीय नहीं वरन् व्यक्तिगत न्यायाधीश अथवा मध्यस्थ था। फिर भी अपराध सम्बन्धी एक विस्तृत अधिकार क्षेत्र की वरुण के दूतों के अक्सर उल्लेख द्वारा कुछ सीमा तक पुष्टि^{२४} होती है, क्योंकि वरुण को मानव-राजा का दिव्य प्रतिरूप माना गया है।^{२५} सम्भवतः युद्ध में भी ऐसे ही दूतों का प्रयोग किया जा सकता था।^{२६}

आरम्भिक वैदिक साहित्य में राजाओं द्वारा विधान सत्ता के उपयोग का कोई सन्दर्भ नहीं मिलता यद्यपि बाद में यह उनके कर्त्तव्यों का अनिवार्य

^{१९} शतपथ ब्राह्मण १३ ६, २, १८, ७, १, १३। ब्राह्मणों के इस अधिकार की कि वह पार्थिव राजा नहीं वरन् राजा सोम की सेवा करेंगे, देखिये ब्राह्मण भी।

^{२०} तु० की० उदाहरण के लिये मैत्रायणी संहिता २. १, ८, ३ ११, ८, ४ ४, ३, शतपथ ब्राह्मण ५. ४, ४, ११, तैत्तिरीय ब्राह्मण २ ६, ५।

^{२१} शतपथ ब्राह्मण ५ ४, ४, ७।

^{२२} उदाहरण के लिये गौतम धर्म सूत्र १२

४३ और बाद।

^{२३} २७ ४। तु० की० चत्रिय, नोट १८।

^{२४} तु० की० ऋग्वेद १ २५, १३, ४. ४, ३, ६ ६७, ५, ७ ६१, ३; ८७, ३, १०. १०, ८ (=अथर्ववेद १८. १, ९) अथर्ववेद ४ १६ ४।

^{२५} देखिये फॉय - डी० गे०, ८० और बाद।

^{२६} तु० की० ऋग्वेद ८. ४७, ११, फॉय : उ० पू० ८४। सन्दर्भ निश्चित नहीं है।

अङ्ग बन गया।^{२७} हम ठीक-ठीक यह भी नहीं कह सकते कि राजाओं में कौन-कौन से प्रशासकीय अधिकार निहित थे।

अपने सभी व्यवहारों में राजा को नियमित रूप से उसका पुरोहित परामर्श देता रहता था; साथ ही राजा को राज्य-मन्त्रियों और अन्य सेवकों द्वारा भी परामर्श प्राप्त करने की सुविधा थी (देखिये रलिन्)। स्थानीय शासन ग्राम प्रधान अथवा ग्रामणी करता था जिसकी नियुक्ति अथवा चुनाव राजा करता था। राजा के वैभव के बाह्य चिह्नों के अन्तर्गत उनके प्रासाद^{२८} और उज्ज्वल परिधान^{२९} आते थे।

भूमि के स्वामी के रूप में राजा—भूमि के सम्बन्ध में राजा की स्थिति बहुत कुछ अस्पष्ट है। यूनानी सन्दर्भों^{३०} में निहित उक्तियों में पर्याप्त भतभेद है और साथ ही उन पर बहुत विश्वास करना भी अनुचित होगा क्योंकि उनका संग्रह ऐसे निरीक्षकों द्वारा किया गया है जो इस प्रकार के अनुसन्धान में अत्यन्त अनभ्यस्त थे और जिनकी उक्तियाँ भी पर्याप्त सूचनाओं पर आधारित नहीं थीं। यह सन्दर्भ अंशतः भूमिकर देने का उल्लेख करते हैं और साथ ही यह भी बताते हैं कि केवल राजा के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति भूमि का स्वामी नहीं हो सकता था। हॉपकिन्स^{३१} का यह दृढ़ मत है कि कर केवल रक्षा करने के लिये ही लिये जाते थे, अर्थात् यह आधुनिक शब्दावली में राज्य कर होता था, किन्तु राजा को ही प्रत्येक भूमि का स्वामी माना जाता था, जब कि ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति अथवा सम्मिलित परिवार भूमि के स्वामी हो सकते थे। भू-स्वामी के रूप में राजा के विचार को अपेक्षाकृत वाद का माननेवाले वैडेन पावेल^{३२} के मत के विरुद्ध भी आप वैदिक काल

^{२७} देखिये फॉय ७० पु०, अध्याय ३।

^{२८} तु० की० वरुण का प्रासाद, ऋग्वेद २ ४१, ५, ७, ८८, ५। सिंहासन अथवा आसन्दी का जनमेजय की राजधानी 'आसन्दीवन्त' के नाम में प्रयोग किया गया है। तु० की० शतपथ ब्राह्मण ५ ४, ४, १ और वाद, तथा ऐतरेय ब्राह्मण ८. १२, ३-५, भी।

^{२९} देखिये उदाहरण के लिये १ ८५, ८, ८ ५, ३८, १०. ७८, १, इत्यादि। इसीलिये राजा धन का महान् अधिपति है (धन पतिर् धनानाम्), अथर्व-

वेद ४ २२, ३, ऐतरेय ब्राह्मण ७ ३१ में राजा की न्यग्रोध वृक्ष के साथ तुलना की गई है।

^{३०} देखिए डियोडोरस २. ४०, अरियन : इन्डिका, ११, स्ट्राबो ५० ७०३ और हॉपकिन्स ज० अ० ओ० सो०, १३, ८७ और वाद।

^{३१} इन्डिया ओल्ड एण्ड 'न्यू २२१ और वाद।

^{३२} विलेज कम्युनिटीज इन इन्डिया, १४५, इन्डियन विलेज कम्युनिटी, २०७ और वाद।

में राजा के भू-स्वामी होने का विश्वास करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप यह मत प्रगट करते हैं कि वैदिक काल में राजा का प्रजाभक्षी के रूप में वर्णन है; ऐतरेय ब्राह्मण^{३३} के अनुसार वैश्य को इच्छानुसार आत्मसात अथवा उसके साथ दुर्ग्व्यवहार किया जा सकता था (किन्तु शूद्र को भौति उसका वध नहीं)। सूत्रों और शास्त्रों के विधि-प्रधान काल के लिये भी राजा के सर्वप्रभुत्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने के मत की पुष्टि में आप बृहस्पति और नारद का उद्धरण देते हैं, साथ ही मानव धर्म शास्त्र^{३४} के उस स्थल का उल्लेख करते हैं जिसमें राजा का 'सर्वाधिपति' के रूप में वर्णन है और जिसकी भूस्वामित्व के प्रमाण के रूप में ही बृहल्लर^{३५} ने व्याख्या की है। फिर भी इस तथ्य को सिद्ध करनेवाले प्रमाण अपर्याप्त हैं। यह अस्वीकृत नहीं किया गया है कि राजा को स्वामित्व की दृष्टि से अस्पष्ट रूप से उत्तरोत्तर भूमि का स्वामी माना जाने लगा था और जैसा कि इंग्लैण्ड का राजा आज भी है, किन्तु इस धारण को आदिम अथवा पुरातन मानने की अपेक्षा हमारे उत्तरोत्तर विकास का सिद्धान्त ही अधिक उपयुक्त है। प्रजा को भक्षण करने की शक्ति एक राजनैतिक शक्ति है स्वामित्व की शक्ति नहीं। विरहुल ऐमी ही स्थिति दक्षिणी अफ्रीका^{३६} में देखी जा सकती है, जहाँ कोई प्रधान बिना किसी आधार के ही किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वञ्चित कर सकता है, यद्यपि भूमि को वास्तविक स्वामी वहाँ के लोग ही होते हैं। इस प्रकार यह विषय कुछ सीमा तक पारिभाषिक शब्दावली से सम्बद्ध है, किन्तु समानान्तर उदाहरण स्वत्वाधिकार और राजा के ऐसे राजनैतिक अधिकारों के बीच विभेद करने के ही पक्ष में हैं जिन्हें किसी को भी हस्तान्तरित किया जा सकता है। हॉप-किन्म^{३७} का विचार है कि पुरोहितों को भूमि का दान, जो भूमि के हस्तान्तरण

^{३३} ७. २९, ३।

^{३४} ८ ३९।

^{३५} मनु • ७० स्था०, से० बु० ३० २५, २५९ में अपनी टिप्पणी में।

^{३६} देखिये कीथ : जर्नल ऑफ दी अफ्रीकन सोसाइटी, ६, २०२ और वाद। जहाँ तक अन्य आर्य जातियों के प्रमाण का प्रश्न है वह राजा के मूल स्वामित्व के विचार की पुष्टि करता है। इस

प्रकार के स्वामित्व का, जहाँ तक एग्लो-सैक्सन काल (इंग्लिश हिस्टोरिकल रिव्यू, ८ २-७), का प्रश्न है कोई अस्तित्व नहीं मिलता और न होमर के यूनान (लैङ्ग • होमर ऐन्ड हिज एज, २३६ और वाद), अथवा रोम में ही इसका कोई प्रमाण है।

^{३७} ७० स्था०।

का ब्राह्मणों में सर्वप्रथम उदाहरण है, वास्तव में भूमि के अधिकार को ही दान होता था। अनेक अन्य दशाओं में भी स्थिति ऐसी रही हो सकती है, किन्तु श्रेष्ठता के दान के रूप में भी इसकी व्याख्या की जा सकती है : महाकाव्यों में दूमरों को प्रदत्त भूमि के उदाहरण किसी भी पक्ष के लिए निर्णायक प्रमाण नहीं हैं।

राजा और उनकी सभा के बीच सम्बन्ध के लिये देखिये सभा, और राज्याभिषेक के लिये राजसूय। 'अ-राज-ता' का अर्थ निरङ्कुशता है।^{३०}

^{३०} तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ५, ९, १, ऐतरेय ब्राह्मण १. १४, ६; लेवी : ल डॉक्ट्रिन डू सैक्रीफाइस, ७४।
तु० की० रिसमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, २१६ और वाद; हॉपकिन्स : ज०

अ० ओ० सो० १३, ८४, और वाद; फॉय : डी० गे०; रिज़ डेविड्स : बुद्धिस्ट इन्डिया, ४६ और वाद, ज० ए० सो०, १९०१, ८६०, ८६१।

२. राजन्, अनेक स्थलों^१ पर 'राजगृह के विशिष्ट सदस्य' अथवा केवल किसी भी विशिष्ट व्यक्ति का द्योतक प्रतीत होता है क्योंकि जहाँ-जहाँ यह आता है उनमें से कोई भी स्थल इसके अर्थ के सम्बन्ध में निर्णायक नहीं है। रिसमर^२ ऋग्वेद^३ के एक स्थल पर इम वात का संकेत देखते हैं कि शान्ति के समय कुछ राज्यों में कोई भी राजा नहीं होता था और ऐसी दशा में राजपरिवार के सभी सदस्य समान अधिकार रखते थे। आप इसकी आरम्भिक जर्मनी की स्थिति से तुलना करते हैं।^४ किन्तु यह स्थल केवल इतना ही व्यक्त करता है कि राजगृह के विशिष्ट व्यक्तियों को राजन् कहा जा सकता था,

^१ तु० की० ऋग्वेद १ ४०, ८; १०८, ७, १० ४२, १०, ९७, ६, तैत्तिरीय संहिता ४. ६, ८, ३, ५ ७, ६, ४, काठक संहिता ४० १३, वाजसनेयि संहिता १८. ४८; ०६ २; अथर्ववेद १९ ६०, १, और सम्भवतः २. ६, ४, इत्यादि, लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, २३६, २३७। सम्भवतः जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण १. ४, ५ में 'राज' को इसी आशय में ग्रहण किया जा सकता है। यहाँ राजा को एक अनार्य बताया गया है किन्तु इसका पाठ अष्ट है और

ऑटेल का अनुमान सम्भव नहीं।
तु० की० राज्यु, नोट २।

^२ आल्टिन्डिशे लेवेन १७६, १७७।

^३ १० ९७, ६। आप भी अथर्ववेद १ ९; ३. ४, ४. २२, की तुलना करते हैं जहाँ राजा को राज-परिवार के अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा श्रेष्ठ कहा गया है।

^४ 'केरसी' और 'आरमोनियस' अपने को राजा बनाना चाहते हैं किन्तु उनके सम्बन्धी राज-परिवार के अन्य व्यक्ति उनके इस प्रयास को विफल कर देते हैं। (देखिये टेसिटस : पेनल्ट २. ८८)।

और यह इसके तिसर द्वारा प्रदत्त आशय को पुष्ट नहीं करता । इसमें मन्टेह नहीं कि इस प्रकार की स्थिति सर्वथा सम्भव थी और वाद के चौदहकाल में इसके उदाहरण भी मिलते हैं ।^१

^१ तु० की० रिज डेविड्स : बुद्धिस्ट इन्डिया, १९ ।

राजनि (रजन का वंशज) पञ्चविंश ब्राह्मण (१४. ३, १७; २३. १६, ११) और तैत्तिरीय आरण्यक (५. ४, १२) में उग्रदेव का पौत्रक नाम है ।

राजन्य, वैदिक साहित्य^१ में राज-परिवार के व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त नियमित शब्द है । इसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति भी आ जाते हैं जो राजपरिवार के सदस्य न होते हुये भी विशिष्ट होते थे, यद्यपि मूलतः इमका अर्थ मदस्यों तक ही सीमित रहा हो सकता है । फिर भी, किसी स्थल द्वारा स्पष्टतः ऐसा प्रगट नहीं होता; यह शब्द मूलतः किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के लिये प्रयुक्त हुआ हो सकता है चाहे उसके पास राजशक्ति रही हो अथवा नहीं । शतपथ ब्राह्मण^२ में राजन्य उस राज-पुत्र से भिन्न है, जो वास्तव में राजा का पुत्र होता था । राजन्य की स्थिति और कार्यों का क्षत्रिय के अन्तर्गत वर्णन किया जा चुका है क्योंकि यही व्याहृति वाद में साधारणतया शासक वर्ग की उपाधि के रूप में राजन्य का स्थान ग्रहण कर लेती है । राजन्य की उच्च स्थिति इस तथ्य द्वारा व्यक्त होती है कि तैत्तिरीय मंहिता^३ में इसे विद्वान ब्राह्मण और ग्रामणी (जो कि वैश्य होता था) के साथ सम्पन्नता की चरम-सीमा (गत-श्री) पर पहुँचनेवाला बताया गया है ।

^१ ऋग्वेद में केवल एक बार वाद के पुरुष सूक्त १०. ९०, १२ में, किन्तु अथर्ववेद में अक्सर, यथा ५. १७, ९, १८, २, ६ ३८, ४; १० १०, १८, १२ ४, ३२ और वाद; १५ ८, १; १९ ३२, ८; तैत्तिरीय मंहिता ० ४, १३, १; ५, ४, ४, १०, १, ५ १, १०, ३ इत्यादि । शतपथ ब्राह्मण तक में जहाँ सम्पूर्ण रूप से क्षत्रिय का प्रयोग ही मिलता है, राजन्य का अक्सर उल्लेख है । तु० की० से० बु० ई० ४४, ५६१ में एनिल्ल की अनुक्रमणिका ।

^२ तु० की० १३. ४. ०, १७ और इसके साथ १३. १, ६, २ ।

^३ २ ५, ४, ४ ।

तु० की० मूरर : सस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, २५८ और वाद, तिसर : आल्टिन्टिशे लेवेन, १९१ । यह सर्वथा स्पष्ट है कि विशिष्ट जनों के वह परिवार जो राज-परिवार से सम्बद्ध नहीं होते थे, ऐसे छोटे राजाओं के परिवार थे जो एक शक्तिशाली जाति के निर्मित होने पर राज-परिवार में विलीन हो गये । प्राचीन जर्मनी की स्थिति ऐसी ही थी ।

राजन्य-बन्धु, सामान्यतया एक भर्त्सनात्मक आशय में राजन्य का ही द्योतक है। इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण^१ में उन ब्राह्मणों ने, जिनको जनक ने पराजित किया था, जनक को राजन्य बन्धु कहा है। इसी समान कारण के लिये बृहदारण्यक उपनिषद्^२ में प्रवाहणा जैवलि के लिये भी यह शब्द व्यवहृत हुआ है। दूसरी ओर एक स्थल^३ पर, जहाँ स्त्रियों से पृथक हट कर पुरुषों के भोजन करने का सन्दर्भ है, ऐसा कथन है कि सभी राजन्य-बन्धु यही करते हैं : यहाँ राजन्य-बन्धु को उस समय तक भर्त्सनात्मक आशय में ग्रहण नहीं किया जा सकता जब तक कि इस व्याहृति को राजाओं के प्रति ब्राह्मणों द्वारा भर्त्सनात्मक आशय में प्रयुक्त शब्द न मान लिया जाय, जैसा कि एक अन्य स्थल^४ पर नग्नजित् के प्रति किये गये व्यवहार द्वारा स्पष्ट प्रतीत होता है। पुनः उस स्थल^५ पर, जहाँ चार जातियों का उल्लेख है, राजन्य-बन्धु वैश्य के पहले आता है, जो कि द्वितीय और तृतीय जाति के नामों का एक कौतूहलवर्धक क्रमान्तरण है।^६

^१ ११ ६, २ ५।

^२ ६ १, ५।

^३ शतपथ ब्राह्मण १० ५, २, १०, जहाँ तु० की० एगिलङ्ग की टिप्पणी, से० तु० ई०, ४३, ३७०, नोट १। १. २, ४, २, में भी प्रत्यक्षतः ऐसी स्थिति

है जहाँ किसी विशेष भर्त्सना का आशय नहीं हो सकता।

^४ ८ १, ४, १०। तु० की० मूडर : सस्कृत टेक्स्ट्स, १२, ५१५।

^५ १ १, ४, १२।

^६ एगिलङ्ग : उ० पु० १२, २८।

राजन्य-र्षि एक ऐसा शब्द है जो पञ्चविंश ब्राह्मण^१ में सिन्धुक्षित् के लिये व्यवहृत हुआ है। फिर भी इससे सम्बद्ध कथा सर्वथा पौराणिक ही है।

^१ १२ १२, ६। तु० की० औरडेनवर्ग : त्सी० गे० ४२, २३५, नोट ३, और देखिये वर्ण।

राज-पति, शतपथ ब्राह्मण (११. ४, ३, ९) में सोम की एक उपाधि के रूप में मिलता है। पार्थिव राजशक्ति की श्रेष्ठता की उपाधि के रूप में यह अन्यत्र कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। देखिये राज्य।

राज-पितृ, ऐतरेय ब्राह्मण (८. १२, ५; १७, ५) के अनुसार राजसूय के समय राजा को दी गई उपाधियों में से एक है। यह सम्भवतः 'राजा के पिता' के रूप में राजा का द्योतक है और राजसत्ता की वंशानुगत प्रकृति की ओर

संकेत करता है। राजसत्ता के साथ राजा के पुत्र को सम्मिलित करने की वाद की पद्धति^१ का सम्भवतः प्राचीन काल में भी अस्तित्व था।

^१ हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० ३१, १३९। 'जिसके पिता राजा हों', ऐसा आशय भी सम्भव है।

राज-पुत्र (राजा का पुत्र, युवराज) की, प्राचीन साहित्य^१ के उन सभी स्थलों पर जहाँ यह आता है, शब्दार्थ के रूप में ही व्याख्या की जा सकती है, यद्यपि अधिक विस्तृत व्याख्या भी सम्भव है।^२ वाद में 'राजपुत्र' का आशय केवल 'भूमि का स्वामी' मात्र रह जाता है।^३

^१ ऋग्वेद १०. ४, ३, ऐतरेय ब्राह्मण ७ १७, ६ (विश्वामित्र का, किन्तु सम्भवतः एक पौराणिक आशय में ही), पञ्चविंश ब्राह्मण १९ १, ४, काठक संहिता १४. ८; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ८, ५, १, शतपथ ब्राह्मण १३. ४, २, ५, ५, २, ५ इत्यादि।

^२ काठक संहिता २८ १ का, राजपुत्र और

राजन्य के बीच समीकरण स्थापित करने के रूप में उद्धरण दिया जा सकता है।

^३ जॉली : त्सां० गे० ७०, ५१४, जो यह संकेत करते हैं कि राजतरङ्गिणी, ७ ३६०, में राजपुत्र की प्राचीन स्थिति के चिह्न वर्तमान हैं।

राज-पुरुष, निरुक्त (२ ३) में 'राजकीय सेवकों' का द्योतक है। तु० की० पुरुष।

राज-भ्रातृ का, पञ्चविंश ब्राह्मण^१ में आठ वीरों अथवा राजसत्ता के पोषकों में से एक के रूप में उल्लेख है। अन्यत्र^२ भी इसका सन्दर्भ मिलता है।

^१ १९ १, ४। तु० की० हॉपकिन्स : द्रा० २ | ^२ ऐतरेय ब्राह्मण, १. १३, १८, इत्यादि। सा० १५, ३०, नोट २।

राज-मात्र कौपीतिक ब्राह्मण (२७. ६) और शाङ्खायन श्रौत सूत्र (१७. ५, ३. ४, १५, ३) में मिलता है जहाँ 'वह सभी व्यक्ति जिन्हें राजन् कहा जा सकता है',—अर्थात् राजपुत्र और राजन्य, इसके अन्तर्गत आ जाते हैं।

राज-यक्ष्म का ऋग्वेद^१ तथा अनेक वार वाद^२ में उल्लेख है। तिसर^३ इसे यक्ष्म के साथ समीकृत करते हैं : यह समीकरण निश्चित प्रतीत होता

^१ १. १६१, १।

^२ अथर्ववेद ११. ३, ३९, १२. ५, तैत्तिरीय संहिता २. ३, ५, २, काठक संहिता

११ ३, २७ ३; मैत्रायणी संहिता २. २, ७।

^३ आस्टिन्टिश्ने लेवेन, ३७५ और वाद।

है और इस व्याधि-सम्बन्धी वाद के दृष्टिकोण^१ से पुष्ट भी होता है। ब्लूम-फोल्ड^२ इससे उपदेश का आशय मानते हैं, किन्तु यह सम्भव नहीं।

^१ तु० की० वाइज सिस्टम ऑफ हिन्दू मेडिसिन, ३२१ और वाद; जॉली : मेडिसिन, ८८, ८९, नोट २, जो 'राजयक्ष्म' को व्याधियों में सबसे खराब व्याधि के अर्थ में ग्रहण करते

हैं, ऐसी व्याधि के रूप में नहीं जिसका उपचार राजा द्वारा सम्भव हो। तु० की० राजास्व।

^२ अथर्ववेद के सूक्त, ६९७। किन्तु तुलना कीजिये, वही, ४१५।

राज-सूय, अथर्ववेद^३ और वाद के साहित्य^४ में 'राजकीय प्रतिष्ठापन' संस्कार के लिये प्रयुक्त शब्द है। सूत्रों^५ में तो इस संस्कार का विस्तार से वर्णन है, किन्तु इसकी प्रमुख विशेषताओं का ब्राह्मणों^६ में भी स्पष्ट उल्लेख है, जब कि इस संस्कार के समय प्रयुक्त मन्त्र यजुर्वेद^७ की संहिताओं में सुरक्षित हैं। पुरोहितीय विस्तारण के अतिरिक्त इस संस्कार में लौकिक समारोह के चिह्न भी वर्तमान हैं। उदाहरण के लिये राजा अपनी मर्यादा के औपचारिक परिधान और सार्वभौमिक सत्ता के प्रतीक के रूप में धनुष और वाण धारण करता है। उसका औपचारिक अभिषेक होता है, और वह अपने किसी सम्बन्धी की गार्यों पर दिखावटी आक्रमण^८ अथवा किसी राजन्य के साथ दिखावटी युद्ध^९ करता है। पासे के खेल का भी आयोजन होता है जिसमें उसे विजयी बनाया जाता है।^८ अपने सार्वभौमिक शासन को व्यक्त

^१ ४ ८, १, ११ ७, ७।

^२ तैत्तिरीय संहिता ५ ६, २, १; ऐतरेय ब्राह्मण ७ १५, ८, शतपथ ब्राह्मण ५ १, १, १२, इत्यादि।

^३ देखिये वेबर : ऊबर डेन राजसूय; हिलेब्रान्ट : रिचुभल लिटरेचर, १४४-१४७, और डेनबर्ग : रिलीजन देस वेद, ४७२, ४९१। शुनःशेष की घटना का वर्णन संस्कार का एक अंग था। इसके आधार पर यह मानना कि पुरुष-वध भी कभी राजसूय-संस्कार का एक अंग था, जैसा कि हिलेब्रान्ट : उ० स्था०, वेबर : ४७, और और डेनबर्ग : ३६६, नोट १, ने माना है,

अत्यन्त सदिग्ध प्रतीत होता है।

तु० की० कीथ ज० अ० ओ० सो०, १९०७, ८४४, ८४५।

^४ विशेषतः शतपथ ब्राह्मण ५ २, ३, १ और वाद में। देखिये मैत्रायणी संहिता ४ ३, १ और वाद, तैत्तिरीय संहिता १ ८, १, १ और वाद, भी।

^५ देखिये तैत्तिरीय संहिता १ ८; काठक संहिता १५, मैत्रायणी संहिता २. ६, वाजसनेयि संहिता १०।

^६ शतपथ ब्राह्मण ५ ४, ३, १ और वाद।

^७ तु० की० तैत्तिरीय संहिता १ ८, १५, तथा भाष्य, एगिलडः से० बु० ई० ४१, १००, नोट १।

^८ देखिये २. अक्ष।

करने के लिये वह प्रतीकात्मक रूप से आकाश की दिशाओं पर चढ़ता है, और सिंह-चर्म पर खड़ा हो कर सिंह की शक्ति तथा विशिष्टता प्राप्त करता है।

अभिषिक्त राजाओं की एक तालिका ऐतरेय ब्राह्मण^१ में दी हुई है जहाँ राजकीय अभिषेक को इन्द्र से सम्बद्ध 'महाभिषेक' कहा गया है। यह तालिका सामान्य रूप से शतपथ ब्राह्मण^२ और शाङ्खायन श्रौत सूत्र^३ में दी हुई अश्वमेधियों की तालिका के ही समान है।

^१ ८ २१-२३। तु० की० वेवर . ए०
रि० ८।

^२ १३ ५, ४।

^३ १६. ९।

तु० की० ण्विल्ङ्ग से० दु० ३०

४१, xxiv, xxv।

राज-स्तम्बायन ('राजस्तम्ब' का वंशज) शतपथ ब्राह्मण^१ में यज्ञवचस् का पैतृक नाम है।

^१ १०. ४, २, १, ६, ५, ९। शतपथ ब्राह्मण के स्वरों पर विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है।

राजाधिराज, जो कि वाद में सर्वोच्च राज-सत्ता की उपाधि है, वैदिक साहित्य में एक दिव्य उपाधि के रूप में केवल एक वाद के ग्रन्थ, तैत्तिरीय भारण्यक (१. ३१, ६) में ही मिलता है।

राजाश्व, अथर्ववेद (६. १०२, २) में केवल एक शक्तिशाली अश्व मात्र का द्योतक है।

राज्ञी (रानी) यजुर्वेद संहिताओं^१ तथा ब्राह्मणों^२ में मिलता है।

^१ तैत्तिरीय संहिता ४ ३, ६, २, ४, २,
१, मैत्रायणी संहिता २ ८, ३ ९,
काठक संहिता १७. ३, ८, वाजसनेयि
संहिता १४ १३, १५ १०।

^२ तैत्तिरीय ब्राह्मण २. २, ६, २, ३. ११,
३, १, ऐतरेय ब्राह्मण ५ २३, २,
इत्यादि।

राज्य, अथर्ववेद^१ तथा वाद^२ में नियमित रूप उस 'राज-शक्ति' का द्योतक है, जिससे शतपथ ब्राह्मण^३ के अनुसार ब्राह्मण मुक्त होते थे।

^१ ३. ४, २, ४ ८, १, ११. ६, १५; १२
३, ३१, १८ ४, ३१।

^२ तैत्तिरीय संहिता २ १, ३, ४, ६, ६,
५, ७ ५, ८, ३, इत्यादि, ऐतरेय
ब्राह्मण ७. २३, इत्यादि, जैमिनीय

उपनिषद् ब्राह्मण १ ४, ५, का जैसा
रौथ . ज० अ० ओ० सो० १६,
ccxlii, ने सशोधन किया है।

^३ ५ १, १, १२।

राज-शक्ति को व्यक्त करने के लिये वैदिक ग्रन्थों में 'राज्य' के अतिरिक्त अन्य शब्द भी मिलते हैं। इसीलिये शतपथ ब्राह्मण^४ का विचार है कि राजसूय राजाओं का और वाजपेय सम्राटों का (सम्राज्) यज्ञ है। यहाँ 'साम्राज्य' का स्तर 'राज्य' की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है। इसी ग्रन्थ^५ में सिंहासन (आसन्दी) पर बैठने को 'सम्राटों' की एक विशिष्टता बताया गया है। अन्यत्र^६ 'स्वाराज्य' (अनियन्त्रित उपनिवेश) को 'राज्य' के विपरीत कहा गया है। राजसूय संस्कार के सन्दर्भ में ऐतरेय ब्राह्मण^७ शब्दों की सम्पूर्ण तालिका ही प्रस्तुत करता है, यथा : राज्य, साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पारमेष्ठ्य और माहाराज्य; जब कि 'आधिपत्य' (सर्वोच्च शक्ति) अन्यत्र^८ मिलता है। किन्तु ऐसा मानने के लिये कोई आधार नहीं कि यह शब्द अनिवार्यतः अधिकार अथवा शक्ति के विविध रूपों को व्यक्त करते हैं। अन्य राजाओं का अधिपति हुये बिना भी किसी राजा को महाराज अथवा सम्राज् कहा जा सकता है; क्योंकि यदि वह एक महत्त्वपूर्ण राजा है तो, अथवा उसके पार्श्वों द्वारा प्रशंसात्मक आशय में ही, उसके लिये इन शब्दों का प्रयोग हो सकता है, जैसा कि विदेह के जनक के लिये किया भी गया है।^९ अशोक अथवा गुप्त-वंश की भाँति किसी महान राजसत्ता का वैदिक काल में अस्तित्व होना नितान्त असम्भव प्रतीत होता है।^{१०}

^४ ५. १, १, ३।

^५ १२ ८, ३, ४।

^६ काठक संहिता १४. ५, मैत्रायणी संहिता १. ११, ५। तु० की० तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ३, २, २।

^७ ८ १२, ४. ५। तु० की० शाङ्खायन श्रौत सूत्र, १७ १६, ३।

^८ पञ्चविंश ब्राह्मण १५. ३, ३५; छान्दोग्य उपनिषद् ५ २, ६।

^९ शतपथ ब्राह्मण ११. ३, १, २ ६, २, २, ३, इत्यादि।

^{१०} तु० की० हॉपकिन्स : द्रा० सा० १५, ३०।

रात्री, ऋग्वेद^१ तथा बाद^२ में 'रात' के लिये सर्वाधिक प्रचलित शब्द है। तु० की० मास।

^१ १ ३५, १, ९४, ७, ११३, १, इत्यादि। | ^२ अथर्ववेद १. १६, १; ५. ५, १ इत्यादि।

राथीतर ('रथीतर' का वंशज) तैत्तिरीय उपनिषद् (१.९, १) में सत्यवचस् का पैतृक नाम है। यह वौधायन श्रौत सूत्र (७. ४, इत्यादि) में भी अनेक बार एक गुरु के नाम के रूप में आता है।

राथीतरी-पुत्र ('रथीतर' के एक स्त्री-वंशज का पुत्र), वृहदारण्यक उप-निषद् के अन्तिम वंश में उस गुरु का नाम है जो काण्व शाखा (६. ५, १) के अनुसार भालुकी-पुत्र का, और माध्यंदिन शाखा (६. ४, ३२) के अनुसार कौश्रिकी-पुत्र का शिष्य था ।

राघ गौतम (गोतम का वंशज) वंश ब्राह्मण^१ में दो गुरुओं का नाम है ।

^१ इन्दिशे स्टूडियन, ४, ३७३, ३८४ ।

राधेय ('राधा' का वंशज) शाङ्खायन आरण्यक (७. ६) में एक गुरु का मातृनामोद्भूत नाम है ।^१

^१ तु० की० कीथ : ज० ए० सो०, १९०८, ३७२ ।

१. राम, ऋग्वेद^१ में किसी व्यक्ति का नाम है । लुडविग^२ का विचार है कि इसका पैतृक नाम मायव^३ था, किन्तु यह सन्दिग्ध है ।

^१ १०. ९३, १४ ।

^३ ऋग्वेद १० ९३, १५ ।

^२ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६६ ।

२. राम औप-तस्विनि ('उपतस्विन' का वंशज) शतपथ ब्राह्मण (४. ६, १, ७) में एक गुरु का नाम है ।

३. राम क्रातु-जातेय ('क्रतु-जात' का वंशज) वैयाघ्र-पद्य ('व्याघ्रपद्' का वंशज) उस गुरु का नाम है जो शङ्ग शाट्यायनि आत्रेय का शिष्य था, और जिसका जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ४०, १; ४. १६, १) के दो वंशों (गुरुओं को तालिकाओं) में उल्लेख है ।

राम मार्ग-वैय ऐतरेय ब्राह्मण^१ में श्यापर्णा के पौरोहितीय-परिवार के एक व्यक्ति का नाम है ।

^१ ७ २७, ३ । तु० की० एग्लिङ्ग से० बु० ई० ४३, ३४५, नोट, मूडर :
संस्कृत टेक्स्ट्स १^२, ४३८ ।

रामकायन—देखिये वस्त ।

रामा से कुछ स्थलों^१ पर एक 'विनीत गणिका' अथवा वेश्या का आशय प्रगट होता है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ५ ६, ८, ३; तैत्तिरीय
आरण्यक ५. ८, १३, काठक संहिता

२२ ७ । तु० की० वेवर : इन्दिशे
स्टूडियन, १०, ७४, ८४ ।

रायो-वाज, पञ्चविंश ब्राह्मण (८ १, ४; १३. ४, १७; तु० की० २४. १, ७) में सामनों के एक द्रष्टा का नाम है ।

राष्ट्र, ऋग्वेद^१ और बाद^२ में 'राज्य' अथवा 'साम्राज्य' का द्योतक है ।

^१ ४ ४२, १; ७ ३४, ११; ८४, २; १०. १०९, ३; १२४, ४, इत्यादि ।
^२ अथर्ववेद १०. ३, १२, १२. १, ८; १३. १, ३५; वाजसनेयि संहिता ९. २३, २०. ८; तैत्तिरीय संहिता १. ६,

१०, ३; ३. ५, ७, ३; ५. ७, ४, ४; तैत्तिरीय ब्राह्मण १. २, १, १३, इत्यादि; मैत्रायणी संहिता ३ ३, ७; ७, ४; ८, ६; ४ ६, ३ ।

राष्ट्र गोप (राष्ट्र का रक्षक) ऐतरेय ब्राह्मण (८ .२५) में उस पुरोहित के लिये व्यवहृत उपाधि है जिसका यह एक विशेष उत्तरदायित्व होता था कि वह अपने अभिचारों तथा संस्कारों की शक्ति से राजा और राष्ट्र की रक्षा करे ।
रासम्, ऋग्वेद^१ तथा बाद^२ में 'गदहे' का द्योतक है ।

^१ १ ३४ ९, ११६, २, १६२, २१; ३. ५३, ५, ८ ८५, ७ ।
^२ तैत्तिरीय ब्राह्मण ५. १, ५, ७, कौषीतकि ब्राह्मण १८. १, शतपथ ब्राह्मण ६. १, १, ११, ३, १, २३, २, ३; ४, ४, ३, इत्यादि ।

तु० की० तिस्रः : आष्टिन्दिशे लेवेन, २३३, गेल्डनरः ऋग्वेद, ग्लॉसर, १४९ जो ऋग्वेद ३. ५३, ५ में इस शब्द से 'खच्चर' के आशय की सम्भावना व्यक्त करते हैं ।

रास्ना, यजुर्वेद संहिताओं^१ तथा शतपथ ब्राह्मण^२ में, रशना और रश्मि की भाँति, 'कमरवन्द' अथवा 'करधनी' का द्योतक है ।

^१ वाजसनेयि संहिता १. ३०; ११. ५९, ३८. १, तैत्तिरीय संहिता १. १, २, २, ४ १, ५, ४, काठक संहिता १

२; १६. ५, १९. ६, इत्यादि ।
^२ ६. २, २, २५; ५, २, ११ १३ । तु० की० 'रास्नाव' ४ १, ५, १९ ।

राहु, अर्थात् सूर्य को ग्रसित करनेवाले दानव का अथर्ववेद^१ के एक स्थल पर सन्दर्भ प्रतीत होता है । यद्यपि यहाँ पाठ कुछ संदिग्ध है, तथापि सम्भवतः राहु का ही अर्थ होना चाहिये ।

^१ १९. ९, १० । तु० की० कौशिक सूत्र, १००; इन्दिशे स्टूडियन, १, ८७, विंटेने . अथर्ववेद का अनुवाद ९१४ ।

राहू-गण (राहू-गण का वंशज) शतपथ ब्राह्मण^१ में गोतम का पैतृक नाम है ।

^१ १ ४, १, १० १८, ११. ४, ३, २० ।
तु० की० ऋग्वेद १ ८१, ३ पर
सायण भी, गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन,

३, १५१, १५२; वेवर : इन्डिओ
स्टूडियन २, ८ ।

रिक्थ, ऋग्वेद^१ तथा वाद^२ में 'उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति'^३ के आशय में मिलता है ।

^१ ३ ३१, २ जिस पर तु० की० निरुक्त
३ ५, गेल्डनर : ऋग्वेद, कमेन्टर,
४९, ५०, औल्डेनवर्ग : ऋग्वेद-नोटिन
१, २३९ और वाद ।

^२ ऐतरेय ब्राह्मण ७. १८, ९ (शुन'शेष
की दुहरी पैतृक सम्पत्ति जो मूलग्रन्थ

के अनुसार गाधिनों की योग्यता
तथा जहुओं की राजसत्ता थी, किन्तु
देखिये वेवर : ७० रि० १६, जिनका
विचार है कि यहाँ उत्तराधिकार
में प्राप्त दो गृह—आङ्गिरस और
कुशिक—थे) ।

रिपु, ऋग्वेद^१ में 'शत्रु' के लिये एक साधारण शब्द है । यह अथर्ववेद^२ में भी आता है ।

^१ १ ३६, १६, १४७, ३; १४८, ५, ७
२३, १६, २७, १६, ३४, ९, इत्यादि ।

^२ १९. ४९, ९ ।

रुक्म, ऋग्वेद^१ में सम्भवतः स्वर्ण के आभूषण का द्योतक है जिसे सामान्यतया वक्ष पर धारण किया जाता था । अनेक स्थलों पर सूर्य के लिये प्रयुक्त होने के कारण इसका आकार सम्भवतः विम्ब के सामान्य रहा होगा । ब्राह्मणों^२ में यह एक स्वर्ण की थाली का द्योतक है । रजत भी देखिये ।

^१ १ १६६, १०; ४ २०, ५, ५ ५३, ४,
५६, १, इत्यादि । इसी प्रकार 'रुक्म-
वक्षस्' (वक्ष पर स्वर्ण आभूषण धारण
किये हुये), २ ३४, ७ ८, ५ ५५,
१, ५७, ५ इत्यादि, रुक्मिन् १.
६६, ६, ९. १५, ५ । तु० की०
तैत्तिरीय संहिता २ ३, २. ३, ५
१, १०, ३, वाजसनेयि संहिता १३
४० इत्यादि ।

^२ शतपथ ब्राह्मण ३ ५, १, २०, ५ २,
१, २१, ४, १, १३, तैत्तिरीय ब्राह्मण

१. ८, २, ३, ९, १ इत्यादि । इसी
प्रकार 'रुक्मिन्', शतपथ ब्राह्मण १३
५, ४, २; और ऐतरेय ब्राह्मण ८.
२१, ३ में ।

तु० की० रिसमर : आल्टिन्डिशे
लेवेन २६०, २६३; गेल्डनर . ऋग्वेद,
ग्लॉसर, १६०, जो 'सोने के सिक्के'
के आशय की सम्भावना व्यक्त करते
हैं, मैक्स मूलर : से० बु० ई० ३२,
११२, २९९ ।

रुक्म-पाश^१ उस रस्सी का द्योतक है जिसपर 'स्वर्ण-पात्र' को लटकाया जाता था ।

^१ शतपथ ब्राह्मण ६. ७, १, ७ २७, ३, ८, ७ २, १, १५ इत्यादि ।

रुद्र-भूति द्राह्यायण, वंश ब्राह्मण^१ में त्रात के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

^१ इन्द्रिओ स्टूडियन ४, ३७२ ।

रुम का ऋग्वेद (८. ४, २) के एक सूक्त में रुशम, श्यावक और कृप के साथ-साथ इन्द्र के प्रिय पात्र के रूप में उल्लेख है ।

रुरु, यजुर्वेद^१ में अश्वमेध के बलि-प्राणियों में से एक है । इससे एक प्रकार के मृग का आशय है । ऋग्वेद^२ में मृगशीर्ष (रु-शीर्षन्) वाणों का उल्लेख है जिनका ऐसे वाणों से तात्पर्य है जिनकी नोंक मृगों की सींग से बनी होती थीं ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ५. ५, १९, १; वाज- सनेयि संहिता, २४. २७ ३९, मैत्रायणी संहिता, ३ १४, ९ ।		^२ ६ ७५, १५ । तु० की० तिसर : आल्टिन्डिशे लेवेन, ८३ ।
--	--	--

रुशम का ऋग्वेद^१ में तीन बार इन्द्र के एक आश्रित के रूप में उल्लेख है । ऋग्वेद^२ के ही एक अन्य स्थल पर रुशम-गण अपने उदार राजा ऋणचय के साथ आते हैं । इनका ही अथर्ववेद^३ के एक स्थल पर इनके कौरम नामक राजा के साथ उल्लेख है ।

^१ ८. ३, १३, ४, २; ५१, ९ ।

^२ ५ ३०, १२-१५ ।

^३ २० १२७, १ ।

तु० की० तिसर : आल्टिन्डिशे

लेवेन, १२९, लुडविग . ऋग्वेद का
अनुवाद ३, १५४, औलडेनवर्ग :
बुद्ध, ४०९, त्सी० गे० ४२, २१४,
ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त ६९० ।

रुशमा का पञ्चविंश ब्राह्मण (२५. १३, ३) में उल्लेख है जहाँ ऐसा कथन है कि यह कुरुक्षेत्र के चारों ओर भागती रही और इस प्रकार इन्द्र को पराजित कर सकी । फलस्वरूप इन्द्र ने पृथ्वी से तात्पर्य सम्बन्धी इसकी चुनौती को समझ लिया था । इस कथा द्वारा रुशमों का कुरुओं के साथ सम्बद्ध होने का संकेत मिलता है ।

रुषती, ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर लुडविग^२ के अनुसार उस कन्या का

^१ १ ११७, ८ ।

| ^२ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५० ।

द्योतक है जो श्याव को विवाहित थी। दूसरी ओर रौथ^३ इस शब्द को 'रुशती' (श्वेत) मानते हैं, जब कि मूल-ग्रन्थ में 'रुशतीम' पाठ है। इस शब्द का क्या अर्थ है और श्याव एक व्यक्तिवाचक नाम है अथवा नहीं, यह सन्दिग्ध है।^४

^३ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश व० स्था० 'रुशन्त्'। 'क्षोण' एक व्यक्ति का नाम हो सकता है।
^४ तु० की० औरडेनवर्ग ऋग्वेद-नोट्स, १, ११० जिनका विचार है कि

रेक्णस्, ऋग्वेद में 'उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति' और सामान्य रूप से किसी भी 'सम्पत्ति' का द्योतक है।

^१ १. ३१, १४; १०१, ५; १५८, १, १६०, २, ६. २०, ७, ७ ४, ७, ४०, २, इत्यादि।

रेणु, ऐतरेय ब्राह्मण (७. १७, ७) और शाङ्खायन श्रौत सूत्र (१५. २६, १) में विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है।

१. रेभ, ऋग्वेद^१ में 'प्रशस्ति गायक' का द्योतक है।

^१ १ १२७, १०; ६ ३, ६; ११, ३, ७, इत्यादि। तु० की० अथर्ववेद २० ६३, ३, ८ ९७, ११; ९ ७, ६, १२७, ४।

२. रेभ, ऋग्वेद^१ में अश्विनों के उस आश्रित के रूप में आता है जिसकी अश्विनों ने वन्दीगृह^२ तथा जलों से रक्षा की थी।

^१ १. ११२, ५; ११६, २४, ११७, ४; ११८, ६, ११९, ६, १०. ३९, ९।

रेवा को, जो कि नर्मदा नदी का नाम है और अन्यथा केवल वैदिकोत्तर साहित्य में ही आता है, वेवर^१ ने उस रेवोत्तरस् शब्द में देखा है जो शतपथ ब्राह्मण^२ में मिलता है और निश्चित रूप से एक व्यक्ति का नाम है।

^१ इन्डियन लिटरेचर १२३ (रेवा के दक्षिण प्रदेश का रहनेवाला एक निवासी)। तु० की० इन्डियन ऐन्टी-करी, ३०, २७३, नोट १७।
^२ १२. ८, १, १७, ९, ३, १।

रेवती—देखिये नक्षत्र।

रेवोत्तरस्, उस पाटव चाक स्थपित^१ का नाम है जिसको दुष्टरीतु पौसायन के साथ-साथ शृङ्ग्यों ने वहिष्कृत कर दिया था, और जिसने

^१ शतपथ ब्राह्मण १२ ९, ३, १ और बाद। तु० की० १२ ८, १, १७।

कुरु राजा बर्हिहक प्रातिपीय के विरोध के विपरीत भी अपने प्रतिपालक के पुनर्प्रतिष्ठापन में अंशतः सहायता प्रदान की थी ।

रेष्मन्, अथर्ववेद (६. १०२, २; १५. २, १), मैत्रायणी संहिता (३. १५, २) और वाजसनेयि संहिता (२५. २) में 'चक्रवात' का द्योतक है ।

रैक्व, एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसका अनेक बार छान्दोग्य उपनिषद् (४. १, ३. ५. ८; २, २. ४) में उल्लेख है ।

रैक्व-पर्ण (पु०, बहु०) छान्दोग्य उपनिषद्^१ के अनुसार महावृष प्रदेश के अन्तर्गत एक स्थान का नाम है ।

^१ ४ २, ५ । तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, १३० ।

रैभी (स्त्री०, बहु०) ऋग्वेद^१ और तैत्तिरीय संहिता^२ में गाथा और नाराशंसी के साथ-साथ साहित्य के एक रूप का नाम है । बाद^३ में रैभी मन्त्रों को अथर्ववेद^४ के कुछ मन्त्रों के साथ समीकृत किया गया है; किन्तु ऋग्वेद और तैत्तिरीय संहिता के भी बीच इस प्रकार के समीकरण का होना^५ अत्यन्त सन्दिग्ध^६ है ।

^१ १० ८५, ६ ।

^२ ७ ५, ११, २, काठक, अश्वमेध ५, २ ।

^३ धेतेरेय ब्राह्मण ६ ३२, १, कौषीतकि ब्राह्मण ३०, ५, इत्यादि ।

^४ २०. १२७, ४-६ = खिल ५ ९ ।

^५ ब्लूमफील्ड अथर्ववेद के सूत्र, ६८९ ।

^६ औरडेनवर्ग . त्सी० गे०, ४२, २३८ ।

रैभ्य (रेभ का वंशज), माध्यन्दिन शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद् (२. ५, २०; ४. ५, २६) के प्रथम दो वंशों में एक गुरु का नाम है । यहाँ इसे पौतिमाध्यायण और कौण्डिन्यायन का शिष्य कहा गया है ।

रोग, अथर्ववेद^१ और बाद^२ में सामान्य रूप से 'व्याधि' का द्योतक है ।

^१ १. २, ४, २. ३, ३, ३ २८, ५, ६ | ९ ८, १. २१ और बाद ।

४४, १, १२०, ३, सर का (शीर्षण्य) | ^२ छान्दोग्य उपनिषद् ७ २६, २ ।

रोपणाका, एक पक्षी का नाम है जिसका ऋग्वेद^१ और अथर्ववेद^२ में

^१ १ ५०, १२ ।

^२ १. २२, ४ । तु० की० तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ७, ६, २० ।

उल्लेख है। इससे किसी गानेवाले पत्नी का आशय है^३; किन्तु कौशिक सूत्र^४ के भाष्यकार केशव इसे एक प्रकार की लकड़ी के अर्थ में ग्रहण करते प्रतीत होते हैं।

^३ 'सारिका', ऋग्वेद उ० स्था०, पर सायण।
अथर्ववेद १. २२, ४ पर आप इसकी
'काष्ठ शुक्र' के रूप में व्याख्या
करते हैं जो सम्भवतः एक प्रकार
का शुक्र है।

^४ २६. २०।

तु० की० रिसमर : आल्टिन्डिशे
लेवेन, ९२, ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के
सूक्त २६६; कैलेण्ड : आल्टिन्डिशे
त्सावररिन्नुअल, ७६, नोट १३,
ब्रिटने : अथर्ववेद का अनुवाद, २३।

रोमशा का वृहद्देवता^१ में राजा भावयव्य की पत्नी के रूप में उल्लेख है और इसे ऋग्वेद के एक मन्त्र^२ के प्रणयन का श्रेय दिया गया है। किन्तु वास्तव में उस मन्त्र में, जिसे इस कथा का स्रोत माना गया है, 'रोमशा' केवल एक विशेषण है जिसका अर्थ 'वालवाला' है।

^१ ३ १५६ और वाद, तथा इस पर
मैकडौनेल की टिप्पणी।

^२ १ १२६, ७।

तु० की० ओल्डेनवर्ग • ऋग्वेद-
नोटेन १, १२८।

१. रोहिणी ऋग्वेद^१ और वाद^२ में लाल रंग की गाय का द्योतक है।

^१ ८ ९३, १३, १०१, १३ (रौध : सेन्ट
पीटर्सवर्ग कोश व० स्था० के साथ
सहमत होते हुये 'रोहिण्या' पाठ
मानते हैं)।

^२ अथर्ववेद ६३. १, २२; तैत्तिरीय संहिता
६ १, ६, २, शतपथ ब्राह्मण २ १,
२, ६, ४ ५, ८, २, इत्यादि।

२. रोहिणी—देखिये नक्षत्र।

रोहित, ऋग्वेद^१ के कुछ स्थलों पर सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश के अनुसार एक 'लाल अश्वी' का द्योतक है, जब कि वाद^२ में इससे एक 'लाल हरिणी' का अर्थ है।

^१ १ १४, १२, १००, १६; ५ ५६, ५,
और ७ ४२, २।

^२ तैत्तिरीय संहिता ६ १, ६, ५, मैत्रायणी
संहिता ३ १४, ११ १८, वाजसनेयि
संहिता २४ ३० ३७, अथर्ववेद ४

४, ७, ऐतरेय ब्राह्मण २ ३३, १
(तु० की० ब्लूमफील्ड ज० अ० ओ०
सो० १५, १७८, नोट)।

तु० की० रिसमर . आल्टिन्डिशे
लेवेन ८२।

१ रोहित, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में एक 'लाल अश्व' का द्योतक है ।

^१ १ ९४, १०, १३४, ९, २५ १०, २, ३.
६, ६, इत्यादि ।

^२ तैत्तिरीय संहिता १. ६, ४, ३, पञ्चविंश
ब्राह्मण १४. ३, १२, इत्यादि । इसी

प्रकार अथर्ववेद १३. १, १ और वाद
में भी रोहित एक लाल अश्व का
द्योतक है ।

२. रोहित, ऐतरेय ब्राह्मण (७. १४) और शाङ्खायन श्रौत सूत्र
(१५. १८, ८) में वर्णित शुनःशोप की प्रसिद्ध कथा में हरिश्चन्द्र का
एक पुत्र है ।

रोहितक, मैत्रायणी संहिता (३. ९, ३) में 'रोहीतक'^१ जैसे एक
विभेदात्मक पाठ सहित एक वृक्ष (*Andersonia Rohitaka*) के नाम
के रूप में आता है ।

^१ इसी प्रकार आपस्तम्ब श्रौत सूत्र १. ५, ८ ।

रोहितक-कूल, पञ्चविंश ब्राह्मण^१ में एक स्थान का नाम है और इसके
नाम पर ही एक सामन् का नामकरण किया गया है ।

^१ १४. ३, १२ । तु० की० १५ ११, ६, लाट्यायन श्रौत सूत्र ६. ११, ४ ।

रोहीतक—देखिये रोहितक ।

१. रौहिण का ऋग्वेद^१ और अथर्ववेद^२ में इन्द्र के एक दानव शत्रु
के रूप में उल्लेख है । हिलेब्रान्ट^३ इस शब्द में किसी नक्षत्र का (तु०
की० रोहिणी) आशय देखना तो चाहते हैं किन्तु बिना किसी स्पष्ट
आधार के ही ।

^१ १ १०३, २, २ १२, १२ ।

^२ २०. १२८, १३ ।

^३ वेदिशे माहथौलोजी ३, २०७ ।

२. रौहिण (रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न) वासिष्ठ (वसिष्ठ का वंशज),
तैत्तिरीय आरण्यक (१. १२, ५) में एक व्यक्ति का नाम है ।

रौहिणायन (रौहिण का वंशज) शतपथ ब्राह्मण (१०, ३, ५, १४)
में प्रियव्रत का पैतृक नाम है । माध्यन्दिन शाखा के वृहदारण्यक उपनिषद्
(२. ५, २०; ४. ५, २६) के प्रथम दो वंशों में भी यह शौनक तथा अन्य
व्यक्तियों के शिष्य के रूप में एक गुरु का नाम है ।

ल

लक्ष्मण, ऋग्वेद^१ में पासे के खेल के पुरस्कार का द्योतक है ।

^१ ०. १०, ४। तु० की० ल्यूडर्स - डॉ० ६०, ४, नोट १; तिसमर : आस्टिन्डिशे लेवेन, २८७।

लक्ष्मण^१ अथवा लक्ष्मन्^२, स्वामिश्व स्पष्ट करने^३ के लिए मवेशियों पर लगाये गये 'चिह्न' का द्योतक है । मैत्रायणी संहिता^३ के अनुसार रेवती नक्षत्र में ही इस प्रकार का चिह्न बनाना चाहिये, जो कि स्पष्टतः इसीलिये कि इस नक्षत्र का नाम सम्पत्ति का द्योतक है । देखिये *अष्टकर्णी* ।

^१ गोभिल गृह्य सूत्र ३. ६, ५। तु० की० शाङ्खायन गृह्य सूत्र ३. १०; वेवर - इण्डिशे स्टूडियन ५, ३५, १३, ४६६।

^२ अथर्ववेद ६ १४१, २; मैत्रायणी संहिता ४. २, ९।

^३ उ० स्था० ।

लक्ष्मण्य, ऋग्वेद^१ के एक मन्त्र में ध्वन्य का पैतृक नाम प्रतीत होता है ।

^१ ५ ३३, १०। तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५५।

लक्ष्मन्—देखिये लक्ष्मण ।

लव (*Perdix chinensis*) यजुर्वेद^१ में अश्वमेध के बलि-प्राणियों में से एक है ।

^१ मैत्रायणी संहिता ३. १४, ५, वाजसनेयि संहिता २४ २४। तु० की० निरुक्त ७ ० जहाँ ऋग्वेद १० ११९ को 'लवसूक्त' कहा गया है, अनुक्रमणी ने भी 'ऐन्द्र लव' को इस सूक्त का

प्रणेता बताया है । तु० की० मैकडौनेल की टिप्पणी सहित बृहद्देवता ८ ४०। तु० की० तिसमर : आस्टिन्डिशे लेवेन ९०।

लम्बन, माध्यन्दिन शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद् (५. १२, १) में आडम्बर (डोल) के स्थान पर काण्व शाखा (५. १०, १) का पाठ है ।

लवण का ऋग्वेद में कहीं भी नहीं, अथर्ववेद^१ में केवल एक बार, और उसके बाद ब्राह्मणों^२ के उन अद्यतन भागों के अतिरिक्त कहीं उल्लेख नहीं

^१ ७ ७६, १।

^२ छान्दोग्य उपनिषद् ४ १७, ७=जैमिनीय उपनिषद् ३ १७, ३। तु० की० छान्दोग्य उपनिषद् ६ १३, १,

बृहदारण्यक उपनिषद् २ ४, १२, शतपथ ब्राह्मण ५ २, १, १६, भी, देखिये स्ट्रावो, १५. १, ३०।

मिलता, जहाँ इसे अत्यन्त महत्वपूर्ण^३ माना गया है। यदि उस समय भारतीयों द्वारा अधिकृत क्षेत्र पंजाब और सिन्धु-घाटी था तो आरम्भिक काल में इस शब्द सम्बन्धी यह मौन कुछ आश्चर्यजनक ही है क्योंकि इन क्षेत्रों में लवण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। किन्तु यदि हम कुरुक्षेत्र^४ को आरम्भिक वैदिक भारतीयों का गृह मान लें तो यह आश्चर्य प्रथम दृष्टि में कुछ कम होगा। फिर भी इसकी कल्पना की जा सकती है कि ऐसे क्षेत्र में जहाँ एक अनिवार्य वस्तु अत्यन्त सुलभ हो वहाँ उसका साहित्य में उल्लेख उपेक्षित रह जाय, किन्तु ऐसे क्षेत्र में उसका उल्लेख मिले जहाँ वह दुष्प्राप्य और इसलिये अत्यन्त मूल्यवान् हो गई हो।

^३ छान्दोग्य उपनिषद् ४ १७, ७ में इसे स्वर्ण से भी उच्च स्थान दिया गया प्रतीत होता है।

^४ तु० की० इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इन्डिया, भाग २६ में मानचित्र सख्या १९, और देखिये हॉपकिन्स ज० अ० ओ० सो० १९, २१ और वाद,

इन्डिया ओल्ड ऐण्ड न्यू, ३०, और वाद।

तु० की० तिसमर आस्ट्रिन्डिशे लेवेन, ५४, ५५, श्रेडर. प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टीक्विटीज ३१८, गीगर ऑस्टर-निशे कल्चर, ४१९; मैकडौनेल : सस्कृत लिटरेचर, १५०।

लवन, निरुक्त (२. २) में फसल की कटाई या 'लवाई' का द्योतक है। लाङ्गा, एक बार एक पौधे के नाम के रूप में अथर्ववेद^५ में आता है।

^५ ५ ५, ७। तु० की० व्हिट्टने अथर्ववेद का अनुवाद, २२९; ब्लूमफाल्ड . अथर्ववेद के सूक्त ३८७, ४२१।

लाङ्गल, ऋग्वेद^६ और वाद^७ में 'हल' ले लिये प्रयुक्त नियमित शब्द है। इसका अनेक स्थलों^८ के क्रम में 'पवीरवत्' अथवा 'पवीरवम्' (नुकीला) 'सुशीमम्'^९ और 'चिकनी सुठिया वाला' (देखिये त्सरु), इत्यादि रूपों में वर्णन किया गया है। सीर भी देखिये।

^६ ४ ५७, ४।

^७ अथर्ववेद २ ८, ४; तैत्तिरीय संहिता ६ ६, ७, ४, निरुक्त ६ २६, इत्यादि, 'लाङ्गलेषा', आपस्तम्ब श्रौतसूत्र २२. ४, ७।

^८ अथर्ववेद ३. १७, ३ = तैत्तिरीय संहिता ४. २, ५, ६ = काठक संहिता १६ ११ = मैत्रायणी संहिता २ ७,

१२ = वाजसनेयि संहिता १२. ७१ = वासिष्ठ धर्मसूत्र २ ३४. ३५।

^९ मूल पाठ में 'सुशेवम्' है, रौथ 'सुशीमम्' का अनुमान करते हैं। देखिये व्हिट्टने अथर्ववेद का अनुवाद १६६। तु० की० तिसमर. आस्ट्रिन्डिशे लेवेन २३६।

लाङ्गलायन ('लाङ्गल' का वंशज) ऐतरेय ब्राह्मण (५. ३, ८) में ब्रह्मन् मौद्गल्य (मुद्गल का वंशज) का पैतृक नाम है ।

लाज (पु० बहु०) वाद की सहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में भुने हुये अन्न का घोटक है ।

^१ मैत्रायणी सहिता ३ ११, २, इत्यादि;	१, १, २; १३ २, १, ५, तैत्तिरीय
वाजसनेयि सहिता १९ १३ ८१;	ब्राह्मण २ ६, ४ ।
२१ ४२, इत्यादि ।	तु० की० तिस्रः : आष्टिन्दिशे
^२ शतपथ ब्राह्मण १० ८, २, ७ १०;	लेवेन २६९ ।

लाजि, वाजसनेयि संहिता (२३. ८) और तैत्तिरीय ब्राह्मण (३. ९, ४, ८) में आने वाला एक अनिश्चित आशय का शब्द है । सायण के अनुसार यह 'लाजिन्' का सम्बोधक रूप है जब कि महीधर के अनुसार यह भुने हुये अन्न के परिमाण का घोटक है ।

लातव्य ('लतु' का वंशज) पञ्चविंश ब्राह्मण^१ में कृशाम्ब स्वायव का पैतृक नाम है ।

^१ ८ ६, ८ । तु० की० पञ्चविंश ब्राह्मण ४. ७, गोपथ ब्राह्मण १ १, २५ (यहाँ एक गोत्र का उल्लेख है) ।

लामकायन ('लमक' का वंशज) का लाव्यायन श्रौत सूत्र^१, निदान सूत्र^२, और द्राह्यायण श्रौत सूत्र^३ में एक आचार्य के रूप में उल्लेख है । वंश ब्राह्मण^४ में यह संवर्गाजित् नाम के साथ भी आता है ।

^१ ४ ९, २२, ६ ९, १८, इत्यादि, वेवर :	उ० पु० १, ४५ ।
इन्दिशे स्टूडियन १, ४९ ।	^३ वेवर : उ० पु० ४, ३८४ ।
^२ ३ १२, १३, ७ ४, ८, इत्यादि, वेवर :	^४ इन्दिशे स्टूडियन ४, ३७३ ।

लाह्यायनि ('लह्य' का वंशज) बृहदारण्यक उपनिषद् (३. ३, १, २) में भुज्यु का पैतृक नाम है ।

लिबुजा, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में पेड़ों पर चढ़नेवाली एक लतिका का नाम है ।

^१ १०. १०, १३ ।	तु० की० तिस्रः : आष्टिन्दिशे
^२ ६ ८, १, पञ्चविंश ब्राह्मण १२. १३,	लेवेन, ७० ।
११, निरुक्त ६ २८, ११. ३४ ।	

लुश को ब्राह्मणों^१ के विभिन्न स्थलों पर इन्द्र की कृपा प्राप्त करने में कुत्स के प्रतिद्वन्दी के रूप में व्यक्त किया गया है। ऋग्वेद की अनुक्रमणी द्वारा 'लुश धानाक' को कुछ सूक्तों^२ के प्रणयन का श्रेय दिया गया है।

^१ पञ्चविंश ब्राह्मण ९. २, २२, जैमिनीय ब्राह्मण १. १२८, ऑटैर्ल : ज० अ० ओ० सो० १८, ३१, और वाद, में शाध्यायनक।

^२ १०. ३५. ३६। तु० की० बृहदेवता

२. १२९; ३ ५५, और इस पर मैकहौनेल की टिप्पणी।

तु० की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइ-थौलोजी, ३, २९१, नोट ३, लेवी . ल डॉकिट्रन डु सैकीफाइस, ३७, ३८।

लुशाकपि स्वर्गलि ('खृगल' का वंशज) का पञ्चविंश ब्राह्मण^१ में कुषीतक और कौषीतकिनों को शाप देनेवाले के रूप में उल्लेख है। काठक सहिता^२ के कथनानुसार यह केशिन दाल्भ्य का समकालीन था।

^१ १७ ४, ३। तु० की० वेवर इन्डिशे स्टूडियन, १०, १४५, नोट ३।

^२ ३० २ (इन्डिशे स्टूडियन, ३, ४७१), कपिष्ठल सहिता ४६. ५।

लोक, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'संसार' का घोटक है। अक्सर तीन लोकों^३ का उल्लेख है और 'अयं लोकः'^४ (यह लोक) का नित्य ही 'असौ लोकः'^५ (दूरस्थ अर्थात् दिव्य लोक) के साथ विभेद किया गया है। कभी-कभी स्वयं लोक शब्द भी छुलोक^६ का घोटक है, जब कि कुछ अन्य स्थलों पर अनेक प्रकार के लोकों का उल्लेख^७ है।

^१ रौय : सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश व० स्था०, २, इस अर्थ को ऋग्वेद के किसी भी स्थल के लिये उद्धृत नहीं करते। आप के अनुसार ऋग्वेद में यह शब्द 'स्थान', 'खुले अथवा विस्तृत क्षेत्र' आदि के आशय में ही आता है। किन्तु ऋग्वेद १०, १४, ९ इसके विस्तृत आशय का बहुत कुछ निश्चित उदाहरण है।

^२ अथर्ववेद ८. ९, १ १५, ४. ३८, ५, ११ ५, ७, ८, १०, इत्यादि, ९ ५, १४, में 'दिव्य' और 'पार्थिव' लोकों का विभेद किया गया है, वाजसनेयि सहिता ३२ १६ और वाद, इत्यादि।

^३ अथर्ववेद १० ६, ३१, १२ ३, २०; ऐतरेय ब्राह्मण १ ५, ८, शतपथ

ब्राह्मण १३ १, ७, ३, इत्यादि।

^४ अथर्ववेद ५ ३०, १७, ८ ८, ८, १२. ५, ३८, १९ ५४, ५; वाजसनेयि सहिता १९. ४६, इत्यादि।

^५ अथर्ववेद १२, ५, ३८ ५७, तैत्तिरीय सहिता १ ५, ९, ४; ऐतरेय ब्राह्मण ५ २८, २, ८ २, ३, इत्यादि।

^६ शतपथ ब्राह्मण २ ६, १, ७, १० ५, ४, १६; ११ २, ७, १९; और सम्भवतः ऐतरेय ब्राह्मण ७ १३, १२ भी।

^७ काठक सहिता २६. ४, कौषीतकि ब्राह्मण २०. १, बृहदारण्यक उपनिषद् ३. ६, १, ४ ३, ३६ और वाद, ६ १, १८, इत्यादि।

लोध, ऋग्वेद^१ के एक अत्यन्त अस्पष्ट मन्त्र में आता है जहाँ रोध^२ का अनुमान है कि इससे किसी लाल रङ्ग के पशु का तात्पर्य है। औल्डेनवर्ग^३ ऐसा विचार करने के लिए तर्क प्रस्तुत करते हैं कि इससे लाल रङ्ग के बकरे का आशय है।

^१ ३ ५३, २३।

^२ सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था०।

^३ ऋग्वेद-नोट्स, १, २५५।

तु० की० तैत्तिरीय संहिता ५ ६, १६, १ में अस्पष्ट पद 'अधी-लोध कर्ण' जिसका अर्थ सम्भवतः 'सर्वथा लाल कान वाला' है। यास्क निरुक्त ४ १२, इस शब्द को 'लुब्ध' के साथ

समीकृत करते हैं। किन्तु यह आशय प्रसङ्ग के अनुकूल नहीं है। इसी प्रकार तिसमर आल्टिन्डिशे लेवेन, ८४, गेल्डनर : वेदिशे न्यूडियन २, १६०, ऋग्वेद, ग्लॉसर, १५१, जो इस शब्द में एक प्रिथिव्य अर्थ को उपाधि का आशय देखते हैं।

लोपा का तैत्तिरीय संहिता^१ में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में उल्लेख है जहाँ सायण इसकी एक प्रकार के पत्नी, सम्भवतः 'मांसमत्तक काग' (श्मशान-शकुनि) के रूप में व्याख्या करते हैं।

^१ ५ ५, १८, १। तु० की० तिसमर : आल्टिन्डिशे लेवेन ९३।

लोपा-मुद्रा, ऋग्वेद^१ के एक सूक्त में आती है जहाँ यह उस अगस्त्य की पत्नी है जिसके आलिङ्गन की यह याचना करती है।^२

^१ १. १७९, ४।

^२ बृहद्देवता ४. ५७ और बाद (मैकडोनेल की टिप्पणी सहित) में यह कथा एक भिन्न रूप से कही गयी है। देखिये औल्डेनवर्ग त्सी० गे० ३९, ६८, गो०, १९०९, ७६ और बाद, सीग.

सा० ऋ० १२० और बाद, विन्टर-निज़ : वि० ज० २०, २ और बाद; फॉन थ्रोडर . मिस्टोरियम उन्ट माइमस, १५६ और बाद, कोथ . ज० ए० सो०, १९०९, २०४, १९११, ९९७, नोट ३।

लोपाश का, जो कि किसी पशु, सम्भवतः 'शृगाल' अथवा 'लोमड़ी' का द्योतक है, ऋग्वेद^१ में उल्लेख है। इसे यजुर्वेद संहिताओं^२ में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में सम्मिलित किया गया है।

^१ १० २८, ४।

^२ तैत्तिरीय संहिता ५ ५, २१, १, मैत्रायणी संहिता ३. १४, १७, वाजसनेयि

महिता २४ ३६।

तु० की० तिसमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, ८४।

लोह, जो प्रमुखतः 'लाल' अर्थ वाला एक विशेषण है, एक धातु, कदाचित् 'ताँवे' अथवा बहुत सम्भवतः 'काँसे' के लिये क्लीब विशेष्य के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसका वाजसनेयि संहिता^१ तथा तैत्तिरीय संहिता^२ में उल्लेख है जहाँ श्याम के साथ इसका विभेद किया गया है। यह ब्राह्मणों^३ में भी अनेक बार आता है। देखिये अयस् ।

^१ १८ १३।

^२ ४. ७, ५, १।

^३ शतपथ ब्राह्मण १३ २, २, १८,

छान्दोग्य उपनिषद् ४. १७, ७, ६

१, ५, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण

४. १, ४, जहाँ अँटेल इसे 'ताँवे' के

अर्थ में ग्रहण करते हैं और उस अयस्

से इसका विभेद करते हैं जिसका

आप 'पीतल' अनुवाद करते हैं।

'लोहे' का आशय कहीं भी आवश्यक नहीं।

तु० की० विसेन्ट रिमथ इन्डियन

एन्टीकैरी, ३४, २३०; और धातुओं

के आरम्भिक इतिहास के लिये,

मोसो : मेडिटरेनियन सिविलिजेशन,

५७-६२।

लोह-मणि, छान्दोग्य उपनिषद् (६. २, ५) में, जैसा कि वौटलिङ्क^१ अनुवाद करते हैं, 'ताँवे' के कवच' का छोटक है, 'स्वर्ण के टुकड़े' का नहीं, जैसा भाष्यकार का अनुसरण करते हुए मैक्स मूलर अनुवाद करते हैं।

^१ तु० की० लिटिल . ग्रामेटिकल इन्डेक्स, १३४।

लोहायस (लाल धातु) का शतपथ ब्राह्मण^१ में उल्लेख है जहाँ अयस् और स्वर्ण के साथ इसका विभेद किया गया है। जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण^२ में इसका 'काष्णायस' के, तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण^३ में 'कृष्णायस' के साथ विभेद किया गया है। इससे 'ताँवे' का अर्थ प्रतीत होता है।

^१ ५. ४, १, १ २।

^२ ३ १७, ३।

^३ ३ ६२, ६, ५।

तु० की० एनिलङ्क : से० बु० ई०

४१, ९०, नोट; श्रेडर : प्रिहिस्टोरिक

एन्टीक्यूज, १८९।

लोहित, जो कि अक्सर 'लाल' अर्थ में विशेषण के रूप में आता है, अथर्ववेद (११. ३, ७) में एक धातु, सम्भवतः 'ताँवे' के लिए क्लीब विशेष्य के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आपस्तम्ब श्रौत सूत्र (२४. ९, ७) में यह एक व्यक्तिवाचक नाम के रूप में आता है।

लोहितायस ('लाल धातु', 'ताँवा') मैत्रायणी (२. ११, ५; ४. ४, ४) और काठक (१८. १०) संहिताओं में लोह का एक विभेदात्मक पाठ है।

लोहिताहि (लाल सर्प) सर्प की एक जाति का नाम है जिसका यजुर्वेद सहिताओं^१ में अश्वमेध के घलि-प्राणियों की तालिका में उल्लेख है ।

^१ तैत्तिरीय सहिता ५. ५, १४, १, | वाजसनेयि सहिता २४. ३१। तु०
मैत्रायणी सहिता ३. १४, १२, | की० तिस्रर . आस्टिन्डिशे लेवेन ९५।

लौहित्य ('लोहित का वंशज) जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण में अनेक गुरुओं का पैतृक नाम है, जिससे ऐसा स्पष्ट होता है कि यह ग्रन्थ लौहित्य परिवार के सदस्यों के लिये विशेष रूप से पठन का विषय रहा होगा । देखिये कृष्णादत्त, कृष्णारात, जयक, त्रिवेद कृष्णारात, दत्त जयन्त, पल्लिगुप्त, मित्रभूति, यशस्विन् जयन्त, विपश्चित् दृढजयन्त, वैपश्चित् दार्ढजयन्ति, वैपश्चित् दार्ढजयन्ति दृढजयन्त, श्यामजयन्त, श्यामसुजयन्त, सत्यश्रवस् । शाङ्खायन आरण्यक^२ में भी एक 'लौहित्य' अथवा 'लौहित्य' का एक गुरु के रूप में उल्लेख है । परिवार से प्रभावित नाम (जयन्त) का रूप तथा अपेक्षाकृत प्राचीन ग्रन्थों का इनके सम्बन्ध में मौन यह सिद्ध करता है यह लोग आधुनिक ही थे ।

^२ ७ २२ । तु० की० . शाङ्खायन आरण्यक, ५०, नोट १ ।

व

१. वंश, जो कि वाँस की घनी घर में लगनेवाली 'धरन' का द्योतक है, इस आशय में ऋग्वेद^१ तथा उसके बाद^२ भी मिलता है । तु० की० तिरश्चीनवंश, प्राचीनवंश, और देखिये गृह ।

^१ १. १०, १ ।

^२ अथर्ववेद ३. १२, ६, ९ ३, ४,
मैत्रायणी सहिता ४. ८, १०; तैत्तिरीय
ब्राह्मण १. २, ३, १, गतपथ ब्राह्मण
९ १, २, २५, 'शाला-वश', ऐतरेय
आरण्यक ३ २, १, शाङ्खायन आर-

ण्यक ८ १, जहाँ कदाचित् घर की
प्रमुख 'धरन' से तात्पर्य है । तु० की०
तिस्रर आस्टिन्डिशे लेवेन, ७१,
१५३, ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त,
३४६ ।

२. वंश (शब्दार्थ 'वाँस'), 'आध्यात्मिक वंश-क्रम'^३ (गुरुओं की तालिका) के आशय में शतपथ ब्राह्मण^४, वंश ब्राह्मण^५ और शाङ्खायन आरण्यक^६ में मिलता है ।

^३ वाँस के एक के बाद दूसरे जोड़ों की
तुलना में । तु० की० 'वश वृक्ष' ।

६ ३, १४ ।

^४ शन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७४ ।

^५ १०. ६, ५, ९; बृहदारण्यक उपनिषद्

^६ १५ १ ।

वंश-नर्तिन् का यजुर्वेद^१ में पुरुषमेध के एक वलि-प्राणी के रूप में उल्लेख है। इससे एक 'नट' अथवा वाँस पर नर्तन करनेवाले का आशय प्रतीत होता है।

^१ वाजसनेयि संहिता ३०. २१; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, १७, १। तु० की० तिसमर . आखिटन्दिशे लेवेन, २९०।

वंसग ऋग्वेद^१ में उस 'वैल' के लिये प्रयुक्त सामान्य शब्द है जो यूथ का नेतृत्व करता था।

^१ १ ७, ८, ५५, १, ५८, ४, ५ ३६, १, इत्यादि, अथर्ववेद १८ ३, ३६।

वक दाल्भ्य ('दल्भ' का वंशज) छान्दोग्य उपनिषद्^१ में एक गुरु का नाम है। काठक संहिता^२ के अनुसार इसका घृतराष्ट्र के साथ सस्कार-सम्बन्धी विवाद हो गया था।

^१ १ २, १३, १२, १। | ^२ ३० २ (इन्दिशे स्टूडियन, ३, ४७१)।

वकल, ब्राह्मणों^१ में वृक्ष की 'भीतरी छाल' का द्योतक है।

^१ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ७, ४, २; कौषीतकि ब्राह्मण १० २।

वक्षणा (स्त्री०, बहु०) ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर नदी की घाटी का द्योतक है।

^१ ३ ३३, १२। तु० की० पिशल वेदिशे स्टूडियन, १, १७५-१८१।

वधा, अथर्ववेद^१ में एक घृणित पशु का नाम है।

^१ ६. ५०, ३; ९ २, २२। तु० की० तिसमर आखिटन्दिशे लेवेन, ९८।

वङ्ग, जो कि आधुनिक बंगाल का नाम है, उस समय तक आरम्भिक वैदिक साहित्य में नहीं मिलता जब तक इसे उस 'वङ्गावगधाः' में ही न हँदा जाय जो ऐतरेय आरण्यक^१ में आता है और जो दो पड़ोसी जाति के नाम के लिये 'वङ्ग-मगधाः' (वङ्ग और मगध जातियाँ) के रूप में संशोधित हुए होने का संकेत करता है। बौधायन धर्म सूत्र^२ में यह नाम निश्चित रूप से मिलता है।

^१ २ १, १। तु० की० कीथ : ऐतरेय आरण्यक, २००, 'मगध-वङ्ग मत्स्या.', अथर्ववेद परिशिष्ट (१. ७, ७) में आता है, किन्तु यह बहुत बाद का

ग्रन्थ है।

^२ १ १, १४। तु० की० औटलेनवर्ग : बुद्ध, ३९४, नोट; कैलेण्ड . त्सी० गे० ५६, ५५३।

वङ्गुद, ऋग्वेद^१ में किसी दानव, अथवा मानव-शत्रु का नाम है ।

^१ १. ५३, ८ । तु० की० लुडविग . ऋग्वेद का अनुवाद ३, १४९ ।

वज्र, ऐतरेय ब्राह्मण^१ में गेहडनर^२ के अनुसार हथौड़े की 'मुठिया' का द्योतक है, जब कि कूट हथौड़े के 'सर' का नाम है ।

^१ ६. २४, १ । | ^२ वेदिशे स्टूडियन, १, १३८ ।

वडवा, चाद की संहिताओं और ब्राह्मणों^१ में 'अश्वी' के लिये प्रयुक्त साधारण नाम है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ७ १, १, २, तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ८, ६, ३; ३ ८, २२, ३, शतपथ ब्राह्मण ६. ५, २, १९, | इत्यादि । इसी से व्युत्पन्न एक पुल्लिङ्ग शब्द 'वडव' है, तैत्तिरीय संहिता, २. १, ८, ३ ।

वरिण्ज, ऋग्वेद^१ और याद^२ में 'वगिक्' अथवा 'व्यवसायी' का द्योतक है । देखिये परिण और क्रय; तु० की० वारिण्ज भी ।

^१ १ ११२, ११, ५ ४५, ६ । | तु० की० तिसर . आस्टिन्डिशे
^२ अथर्ववेद ३. १५, १, इत्यादि । | लेवेन, २५७ ।

वरिण्ज्या, ब्राह्मणों^१ में व्यवसायी (वरिण्ज) के व्यवसाय का द्योतक है ।

^१ शतपथ ब्राह्मण १. ६, ४, २१; पञ्चविंश ब्राह्मण १७ १, २ ।

१. वत्स, 'वड्डे' के आशय में ऋग्वेद^१ तथा याद^२ में अक्सर मिलता है । गाय को दूध देने के लिए प्रवृत्त करने के लिए वड्डों के प्रयोग का^३, तथा निर्दिष्ट समय पर गायों के वड्डों से पृथक् होने का^४, सन्दर्भ मिलता है ।

^१ ३ ३३, ३, ४ १८, १०, इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद ४ १८, २, १२ ४, ७ (मेडिये इन्हें मार डालते हैं), तैत्तिरीय संहिता ६ ४, ११, ४ (जन्म लेने पर वड्डे को गाय प्यार करती है), इत्यादि ।

^३ तैत्तिरीय संहिता २ ३, ६, २, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण २ १३, २ ।

^४ ऋग्वेद ५ ३०, १०; ८ ८८, १ । देखिये गेहडनर : वेदिशे स्टूडियन ३, ११४ ।

२ वत्स ऋग्वेद^१ में अनेक बार आता है जहाँ यह कण्व के वंशज अथवा उसके पुत्र, एक गायक का नाम है । पञ्चविंश ब्राह्मण^२ में ऐसा कथन है कि मेघातिथि नामक अपने एक प्रतिद्वन्दी के सम्मुख अपनी उत्पत्ति की पवित्रता को सिद्ध करने के लिये इसने सफलतापूर्वक अग्नि-परीक्षा दी थी । तिरिन्दर

^१ ८ ६, १, ८, ८, ९, १, ११, ७ । | ^२ १४ ६, ६ ।

पारश्वय से उपहार ग्रहण करनेवाले के रूप में इसका शाङ्खायन श्रौत सूत्र^३ में भी उल्लेख है ।

^३ १६ ११, २० । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र
२४ ५, ११ में भी यह आता है ।
तु० की० लुडविग • ऋग्वेद का

अनुवाद, ३, १०५, वेवर : ६० रि०,
३६-३८ ।

वत्सतर, वत्सतरी, वाद की संहिताओं और ब्राह्मणों^१ में 'नवजात वछ्छे'
का द्योतक है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता १. ८, १७, १, १८,
१, वाजसनेयि संहिता २४ ५; काठक

संहिता २४ २; ऐतरेय ब्राह्मण १
२७, २, इत्यादि ।

वत्स-नपात् वाभ्रव ('वभ्रु' का वंशज) बृहदारण्यक उपनिषद्^१ के प्रथम
दो वंशों में, पथिन् सौभर के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

^१ १. ५, २२, ४. ५, २८ (माध्यंदिन = २. ६, ३, ४. ६, ३ काण्व) ।

वत्स-प्री भालन्दन ('भलन्दन' का वंशज) उस ऋषि का नाम है जो
'वात्सप्र सामन्' का द्रष्टा था । इसका वाद की संहिताओं^१ और पञ्चविंश
ब्राह्मण^२ में उल्लेख है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ५ २, १, ६, काठक
संहिता १९. १२ (इन्डिशे स्टूडियन
३, ४७०), मैत्रायणी संहिता ३

२, २ ।
^२ १२ ११, २५ । तु० की० शतपथ
ब्राह्मण ६. ७ ४, १ ।

वधक, अथर्ववेद^१ और शतपथ ब्राह्मण^२ में एक प्रकार की 'नरकट' का
द्योतक है ।

^१ ८. ८, ३ ।

^२ ५. ४, ५, १४ । तु० की० तिस्रः

आस्टिन्डिशे लेवेन, ७२; सेन्ट पीटर्स-
वर्ग कोश, व० स्था० ।

वधर्, सामान्य आशय में 'आयुध' का द्योतक है । इसका ऋग्वेद में न
केवल दिव्य^१ वरन् मानवीय^२ आयुध के रूप में भी प्रयोग हुआ है ।

^१ १ ३२, ९, इत्यादि ।

^२ ऋग्वेद ४ २२, ९; ८ २२, ८, २४, २७

तु० की० श्रेडर . प्रिहिस्टोरिक
ऐन्टिकिटीज, २२१ ।

१. वधू, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'स्त्री' के लिए व्यवहृत साधारण शब्द

^१ ३७, ३, ४७, ६, ७ ६९, ३, ८.
२६, १३, १० २७, १२, ८५, ३०,
१०७, ९ ।

^२ अथर्ववेद १. १४, २, ४ २०, ३, १०
१, १, १४. २, ९. ४१, इत्यादि ।

है। डेलब्रुक^३ के अनुसार यह या तो विवाहित, अथवा पति की आकांक्षी, या विवाह सस्कार में दूल्हन बनी हुई स्त्री का द्योतक है। 'वहतु' (वारात) की ही भाँति यह शब्द भी 'वह्' (ले जाना) धातु से व्युत्पन्न हुआ है, अतः इसका 'वह जिसे घर ले आना हो' अथवा 'जो घर ले आई गई हो', अर्थ है। फिर भी, त्सिमर^४ इस व्याख्या पर आपत्ति करते हैं और 'वधू' को उस भिन्न धातु से व्युत्पन्न मानते हैं जिसका अर्थ 'विवाह करना' है।

^३ डॉ० व०, ४१६, ४३९।

| ^४ आटिन्डिशे लेवेन, १०८।

२. वधू को ऋग्वेद^५ के एक स्थल पर रौथ^६ ने किसी 'मादा पशु' के अर्थ में ग्रहण किया है, जब कि त्सिमर^३ का विचार है कि इससे एक 'दासी' का अर्थ है। जहाँ तक 'वधू' के प्रयोग का प्रश्न है यह दोनों ही अर्थ असामान्य है, क्योंकि यदि 'वधू' का कहीं भी 'मादा पशु' ('वह्' अर्थात् गाड़ी 'स्त्रीचना' से) अर्थ नहीं है, तो यह कहीं 'दासी' का भी द्योतक नहीं : यत् एक स्थान पर त्रसदस्यु पौरुकुत्स्य द्वारा एक गायक को 'पचास वधुयें' दान देने का उल्लेख है, अतः दासी का अर्थ मान लेने पर इस गायक को अत्यन्त विकसित प्रकार का 'बहुपत्नी सेवक' मानना होगा जिसे पचास पत्नियों की आवश्यकता पड़ती थी। उस 'वधूमन्त्' शब्द के सम्बन्ध में भी यही संदेह उत्पन्न होता है जिसका ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में रथ^७, अश्व^८ और उष्ट्र^९ की उपाधियों के रूप में प्रयोग मिलता है। इन सभी स्थलों पर त्सिमर रथ में अथवा अश्वों सहित 'दासियों' का ही सन्दर्भ देखते हैं : इस व्याख्या की बृहद्देवता^{१०} द्वारा भी पुष्टि होती है। 'अकाल के समय प्रयुक्त' होनेवाले अश्वों अथवा भैंसों के रूप में रौथ की व्याख्या बहुत संतोपजनक नहीं है। यदि 'वधू' का अर्थ वास्तव में 'मादा पशु' है, तो 'वधूमन्त्' का 'अश्वियों के साथ' अथवा 'मादा भैंसों के साथ' अर्थ होगा जो कुछ तर्कसंगत आशय प्रतीत होता है।^{११}

^५ ८ १९, ३६। तु० की० ५ ४७, ६
भी, जिसे पिशल : वेदिशे स्टूडियन
२, ३१९ ने अपने अर्थ में ग्रहण
किया है।

^६ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० ३।

^७ आटिन्डिशे लेवेन, १०८, १०९।

^८ १ १०६, ३; ७ १८, २२।

^९ ८ ६८, १७। तु० की० ६ २७, ८।

^{१०} अथर्ववेद २० १२७, २।

^{११} ३ १४७ और बाद, और इस पर
मैकडोनेल की टिप्पणी।

^{१२} तु० की० ब्लूमफील्ड - अथर्ववेद के सूक्त
१९७, पिशल : त्सी० गे० ३५, ७१२
और बाद; वौटलिङ्क डिक्शनरी,
व० स्था०।

वधिमती (जिसका पति नपुंसक हो) ऋग्वेद^१ में उस स्त्री का नाम प्रतीत होता है जिसके पति को अश्विनों द्वारा पुनः पुनसत्व प्राप्त हुआ था और जिसने हिरण्यहस्त नामक एक पुत्र भी प्राप्त किया था ।

^१ १. ११६, १३, ११७, २४, ६ ६२, ७, १०. ३९, ७; ६५, १२ ।

१. वध्यू-अश्व (वधिया अश्वोंवाला) ऋग्वेद^१ में दिवोदास के पिता, उस राजा का नाम है जो अग्नि-पूजा का प्रबल समर्थक था और जिसका पुत्र भी बाद में ऐसा ही हुआ । इसका अथर्ववेद^२ में नामों की लम्बी तालिका में उल्लेख है ।

^१ ६. ६१, १, १० ६९, १ और बाद ।

सूत्र २४ ६, ६ ।

बाद के सूक्त में सुमित्र कदाचित् ही इसका एक नाम हो सकता है ।

तु० की० हिलेब्रान्ट . वेदिशे माइ-

^२ ४. २९, ४ । तु० की० आपस्तम्ब श्रौत

थौलोजी, १, ९७ ।

२. वध्यू-अश्व आनूप (‘अनूप’ का वंशज) पञ्चविंश ब्राह्मण (१३. ३, १७) में सामनों के एक द्रष्टा का नाम है ।

वन, ऋग्वेद^१ और बाद^२ में केवल वृत्तों के जंगल का नहीं, वरन् ‘अरण्य’ की भाँति, ऊजड और विना बसी भूमि^३ का भी द्योतक है । इससे सोम-संस्कार^४ में प्रयुक्त एक ‘लकड़ी के प्याले’ का, तथा एक स्थल पर रथ के किसी भाग^५ का भी आशय है ।

^१ १. ५४, १, ६५, ८, ३ ५१, ५, ५

^४ ऋग्वेद १. ५५, ४, २. १४, ९, इत्यादि ।

४१, ११, इत्यादि ।

देखिये हिलेब्रान्ट वेदिशे माइथौलोजी

^२ कौशिक सूत्र ७६ ३, इत्यादि ।

१, १६३, १६६, १९३ ।

^३ ऋग्वेद ७ १, १९ (‘दम’ अर्थात् ‘गृह’ के विपरीत) ।

^५ ८ ३४, १८ ।

वन-प (वन का रक्षक) को यजुर्वेद^१ में पुरुषमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में सम्मिलित किया गया है । तु० की० दावप ।

^१ वाजसनेयि सहिता ३० १९, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, ११, १ ।

वनर्गु (वन में जानेवाला) का ऋग्वेद^१ तथा अथर्ववेद^२ में ऐसे ढाकुओं के लिए प्रयोग किया गया है जो वनों में रहते थे । सामवेद^३ में यह शब्द अधिक सामान्य आशय में सम्य मनुष्यों (कवयः) के विपरीत असभ्य लोगों (वनर्गवः) के लिये प्रयुक्त हुआ है ,

^१ १० ४, ६ ।

तु० की० सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश,

^२ ४. ३६, ७ ।

व० स्था० ।

^३ भारण्य सहिता ४. ९ ।

वनस्पति (वनों का अधिपति) प्रमुखतः 'वृक्ष'^१ का और उसके बाद 'स्तम्भ'^२ अथवा 'लट्टे' का द्योतक है । कुछ स्थलों पर यह या तो रथ के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण रूप से रथ के लिये ही व्यवहृत हुआ है ।^३ इससे 'लकड़ी का ढोल'^४ अथवा 'लकड़ी का कवच'^५ अर्थ है, जत्र कि कुछ स्थलों^६ पर यह, पौधों में श्रेष्ठतम, सोम का द्योतक है ।

^१ ऋग्वेद १. १६६, ५, ३ ३४, १०, ५ ७, ४, ४१, ८, इत्यादि, अथर्ववेद ११ ६, १ (वीरुधू और ओषधि से भिन्न होने के रूप में), ९, १४, इत्यादि ।

^२ तैत्तिरीय संहिता ६ २, ८, ४, अथर्ववेद ९ ३, ११, इत्यादि ।

^३ ऋग्वेद ० ३७, ३, ३. ५३, २०, ६.

४७, २६, निरुक्त ९. ११ । देखिये तिस्रः आल्टिन्डिशे लेवेन २५१ ।

^४ वाजसनेयि संहिता ९. १२ । तु० की० अथर्ववेद १२. ३, १५ ।

^५ अथर्ववेद ६. ८५, १, १०. ३, ८. ११ ।

^६ ऋग्वेद १ ९१, ६; वाजसनेयि संहिता १० २३, इत्यादि ।

१. वन्दन, ऋग्वेद^१ में एक व्याधि का नाम है जिसमें प्रत्यक्षतः समस्त शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं ।

^१ ७ ५०, २ । तु० की० २१, ५, अथर्ववेद ७ ११५, २, 'वृष्ट-वन्दना', ७ ११३, १, तिस्रः आल्टिन्डिशे लेवेन,

३९१; ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त ५६४, ५६५; विइत्ने : अथर्ववेद का अनुवाद, ४६९ ।

२. वन्दन, ऋग्वेद^१ में अधिनों के एक आश्रित का नाम है ।

^१ १ ११२, ५; ११६, ११; ११७, ५, ११८, ८, १० ३९, ८ । तु० की० वॉनैक . त्सी० गे० ५०, २६३ और

वाद; औलडेनवर्ग . ऋग्वेद-नोटन. १. १०९ ।

वन्धुर, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में रथ के 'भासन' का द्योतक है । देखिये रथ ।

^१ १ १३९, ४, ३ १४, ३, ६ ४७, ९, इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद १० ४, २ । अधिनों का रथ 'त्रिवन्धुर' है क्योंकि अधिज-गण यमज हैं और उनका सारथी तीसरा व्यक्ति है । तु० की० ऋग्वेद १ ४७, ०; ११८, १ २, १५७, ३, १८३, १;

७ ६९, २; ७१, ४; ८ २२, ५, और तु० की० ९. ६२, १७ । देखिये तिस्रः आल्टिन्डिशे लेवेन ८ २४७, वेवर : प्रो० अ० १८९८, ५६४; मूडर : सस्कृत टेक्स्ट्स, ५, २४१, नोट, ३७१ ।

वप (बोलने वाला) का यजुर्वेद^१ में पुरुषमेघ के वलि-प्राणियों की तालिका में उल्लेख है ।

^१ वाजसनेयि संहिता ३०. ७, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, ३, १ ।

वपन, ब्राह्मणों^१ में केश काटने की क्रिया का द्योतक है । तु० की० चुर और केश ।

^१ तैत्तिरीय संहिता २. ७, १७, १; शतपथ ब्राह्मण ३ २, २, १ ।

वपा, वाद की संहिताओं और ब्राह्मणों^१ में 'वल्मीक' अथवा 'कूलक' का द्योतक है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ५. १, २, ५, तैत्तिरीय ब्राह्मण १. १, ३, ४, शतपथ ब्राह्मण ६ ३, ३, ५ ।

वपृ, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'नाई' अथवा 'वाल काटनेवाले' का द्योतक है ।

^१ १० १४२, ४ ।

^२ अथर्ववेद ८ २, १७, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ५, ६, ३ ।

तु० की० तिसर : आस्टिन्डिशे लेबेन, २६६, मैक्स मूलर : से० बु० ३०, ३२, २३५, नोट ४ ।

वम्र (प्राकार) अथर्ववेद^१ में एक अनुमानात्मक पाठ है ।

^१ ७ ७१, १ । देखिये विहट्ने . अथर्ववेद का अनुवाद, ४३५, ४३६ ।

१. वम्र^१, वम्री^२, ऋग्वेद और वाद में नर और मादा चींटियों के नाम हैं । तु० की० वपा ।

^१ ऋग्वेद १ ५१, ९, ८ १०२, २१ ।

^२ ऋग्वेद ४ १९, ९ (जहाँ एक अवि-वाहित कन्या के पुत्र को चींटियों द्वारा खा लिये जाने के लिये खुला छोड़ दिये जाने का सन्दर्भ है),

वाजसनेयि संहिता ३७ ४; तैत्तिरीय संहिता १. २, १, ३, शतपथ ब्राह्मण १४ १, १, ८ १४, इत्यादि । तु० की० तिसर : आस्टिन्डिशे लेबेन, ९७ ।

२. वम्र, ऋग्वेद^१ में एक ऋषि का नाम है । तु० की० वम्रक ।

^१ १. ५१, ९, ११२, १५, १० ९९, ५ ।

वम्रक का ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर उल्लेख है जहाँ रौथ^२ के विचार से इससे 'चींटी' का तात्पर्य है। किन्तु पिशल^३ अपेक्षाकृत अधिक सम्भावना के साथ इसे वम्र के समकक्ष एक व्यक्तिवाचक नाम और एक अविवाहित कन्या के उस पुत्र का द्योतक मानते हैं जो चींटियों द्वारा भक्षण कर लिये जाने से बचा लिया गया था।^४

^१ १०. ९९, १२।

^३ वेदिशे स्टूडियन १, २३८, २३९।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०।

^४ ऋग्वेद ४. १९, ९, ३०, १३।

१. वयस्, अथर्ववेद^१ और वाद^२ में 'पक्षी' के लिये प्रयुक्त साधारण नाम है।

^१ ३ २१, २, ३. ५९, १; ७. ९६, १, ८
७, २४, इत्यादि।

^२ तैत्तिरीय संहिता ३ १, १, १, ५ २,
५, १, ५, ३, २, इत्यादि।

२. वयस, अथर्ववेद^१ और वाद^२ में मनुष्यों अथवा पशुओं की आयु का द्योतक है।

^१ १२ ३, १।

३ १२, ५, ९; शतपथ ब्राह्मण ३ १,

^२ काठक संहिता ११. २, तैत्तिरीय ब्राह्मण

२, २१; ३, ३, ३, इत्यादि।

वया, ऋग्वेद^१ में वृत्त की 'शाखा' का द्योतक है।

^१ २ ५, ४, ५. १, १, ६ ७, ६, १३, १, ८ १३, ६ १७, इत्यादि।

वयित्री, पञ्चविंश ब्राह्मण (१. ८, ९) में एक 'स्त्री बुनकर' का द्योतक है।

वय्य, ऋग्वेद^१ के अनेक स्थलों पर उस तुर्वीति के सन्दर्भ में आता है, जिसका सायण^२ के अनुसार यह एक स्थल पर पैतृक नाम है। रौथ^३ का विचार है कि 'साथी' का आशय समस्त स्थलों के अनुकूल है।

^१ १ ५४, ६, ११२, ६ (जहाँ 'तुर्वीति'
नहीं आता), २ १३, १२; ४ १९, ६

^३ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०, ऋग्वेद
९ ६८, ८ को उद्धृत करते हुये एक
स्पष्ट उदाहरण है।

^२ ऋग्वेद १ ५४, ६ पर

वर, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में नियमित रूप से 'विवाहाकांक्षी' का द्योतक है।

^१ १ ८३, २, ५ ६०, ४, ९ १०१, १४,
१० ८५, ८ ९।

^२ अथर्ववेद २ ३६, १ ५ ६; ११ ८, १;
ऐतरेय ब्राह्मण ४ ७, १ इत्यादि।

वरण, अथर्ववेद^१ और ब्राह्मणों^२ में एक वृक्ष (Crataeva Roxburghii) का नाम है ।

^१ ६ ८५, १, १०. ३, १ इत्यादि; १९ ३२, ९ ।

^२ पञ्चविंश ब्राह्मण ५ ३, ९ १०; शतपथ ब्राह्मण १३. ८, ४, १ ।

तु० की० तिसर . आल्टिन्डिशे लेवेन, ६०, ६१, ब्लूमफील्ड . अथर्ववेद के मुक्त, ५०५ ।

वरणावती, अथर्ववेद^१ के एक स्थल पर मिलता है । जैसा कि रौथ^२ का विचार है, यह एक नदी का नाम प्रतीत होता है, और लुडविग^३ ने इसे गङ्गा नदी ही माना है । ब्लूमफील्ड^४, सायण के विचार के अनुसार इससे एक पौधे का आशय मानते हुये, यह स्वीकार करते हैं कि नदी का सन्दर्भ होना भी सम्भव है । तु० की० काशि ।

^१ ४ ७, १ ।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० ।

^३ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, २०१ ।

तु० की० तिसर . आल्टिन्डिशे लेवेन, २० ।

^४ अथर्ववेद के सूक्त, ३७६ ।

० तु० क० वेवर . इन्डिशे स्टूडियन १८, २६, २७, विह्टने अथर्ववेद का अनुवाद, १५४ ।

वरत्रा, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में एक 'नध्री' अथवा 'बन्धन' का द्योतक है । बैल को जूये में बाँधने के लिये^३, अथवा सम्भवतः जूये को गाड़ी के स्तम्भ में बाँधने के लिये^४, इसका प्रयोग होता था । अथवा, पुनः, यह उस रस्सी का द्योतक^५ है जिसका कूँये (अ्रवत) से पानी खींचने के लिये व्यवहार होता था ।

^१ ४ ५७, ४ ('हल' का) इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद ११ ३, १०; २०. १३५, १३ ।

^३ ऋग्वेद १० ६०, ८; १०२, ८, गेल्डनरः वेदिशे स्टूडियन, २, १३ ।

^४ १० ६०, ८ के लिये कदाचित्त यही

अधिक स्वाभाविक है, और तिसर आल्टिन्डिशे लेवेन, २४८, २४९ ने ऐसा ही माना है ।

^५ ऋग्वेद १० १०६, ५, तिसरः ३० पु०, १५६ ।

वरशिख एक नेता का नाम है जिसकी जाति का ऋग्वेद^१ में अभ्यावर्तिन् चायमान द्वारा पराजित हुए होने का उल्लेख है ।

^१ ६ २७, ४ ५ । तु० की० लुडविग . ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५६, हिले-ब्रान्ट . वेदिशे माइथोलोजी, १, १०५, तिसर आल्टिन्डिशे लेवेन, १३३, जिनका विचार है कि वरशिख, तुर्वश-वृचीवन्तों का नेता था, किन्तु यह

केवल अनुमानात्मक ही है बहुत सम्भव नहीं । तु० की० पार्थिव । बृहद्देवता ५ १२४ और वाद, में इस नाम का रूप 'वारशिख' ('वरशिख' का वशज) है जो केवल बहुवचन में ही आता है ।

वराह, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में मिलता है। रुद्र देव को 'आकश का वराह'^३ कहा गया है। वराह के आखेट में कुत्तों के प्रयोग का भी एक वार उल्लेख है।^४ इस शब्द का विभेदात्मक रूप 'वराह' देवों के लिये लाक्षणिक आशय के अतिरिक्त और कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ है।^५

^१ १ ६१, ७, ८ ७७, १०, ९ ९७, ७;
१० २८, ४ (तु० की० फ़ोष्ट) इत्यादि।

^२ अथर्ववेद ८ ७, २३; १२ १, ४८,
काठक संहिता ८ २; २५ २ इत्यादि;
मैत्रायणी संहिता ३ १४ १९ इत्यादि।

^३ ऋग्वेद १ ११४, ५। तु० की० तैत्तिरीय
संहिता ६ २, ४, २, ७ १, ५, १
इत्यादि।

^४ ऋग्वेद १० ८६, ४, एक अस्पष्टस्थल है।

^५ ऋग्वेद १ ८८, ५, १२१, ११, तैत्तिरीय
आरण्यक १ ९, ४

तु० की० तिस्रमर · आल्टिन्डिशे
लेवेन, ८१, ८९, हॉपकिन्स ज० अ०
ओ० सो० १७, ६७, जो यह सकेत
करते हैं कि ऋग्वेद तक में इसका
प्रयोग मुख्यतः लाक्षणिक ही है, केवल
१० २८, ४ और १० ८६, ४ ही
वास्तविक आशय के उदाहरण हो
सकते हैं जिनमें भी १० ८६, ४
सदिग्ध है। देखिये गेरडनर वेदिशे
स्टूडियन, ३, ६६ और वाद भी।

वरु को सायण ने ऋग्वेद^१ के अनेक स्थलों पर एक व्यक्तिवाचक नाम माना है जहाँ 'सुपाम्णे' के पहले इस पर एक सम्बोधक जैसा स्वराघात है। रौथ^२ का विचार है कि सन्दिग्ध निर्माण के विपरीत भी इस नाम को 'वरोसुपामन्' ही होना चाहिये।

^१ ८ २३, २८, २४, २८, २६, २।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोष, व० स्था०।

तु० की० औरडेनबर्ग · त्सी०
गे० ३९, ८४, ८५।

वरुण-गृहीत अनेक स्थलों^१ पर जलोदर नामक उस व्याधि से पीड़ित व्यक्ति के वर्णन में आता है, जिसे पाप के दण्ड-स्वरूप^२ वरुण द्वारा उत्पन्न माना गया है।

^१ तैत्तिरीय संहिता २ १, २, १, ६ ४,
२, ३, काठक संहिता १२ ४, शतपथ
ब्राह्मण ४ ४, ५, ११, तैत्तिरीय ब्राह्मण
१ ६, ४, १, इत्यादि।

^२ ऋग्वेद ६. ७४, ४, ७ ८८, ७, अथर्ववेद

२. १०, १, ४. १६, ६ ७, १४ १,
५७, २, ४९, इत्यादि। |

तु० की० औरडेनबर्ग · रिलीजन
देस वेद, २०३, मैकडौनेल : वैदिक
माह्योलोजी, पृ० २९ नोट १६।

वर्चिन्, ऋग्वेद^१ में इन्द्र के एक शत्रु का नाम है। एक दास^२ कहा गया होने, तथा शम्बर के साथ संयुक्त होने के कारण सम्भवतः इसे एक पार्थिव शत्रु ही मानना चाहिये, यद्यपि इसे एक 'असुर'^३ भी कहा गया है। यह बहुत सम्भवतः वृचीवन्तों के साथ सम्बद्ध रहा हो सकता है।

^१ २ १४, ६; ४. ३०, १४. १५; ६. ४७, २१; ७ ९९, ५।

^२ ऋग्वेद ४. ३०, १५; ६ ४७, २१।

^३ ऋग्वेद ७. ९९, ५।

तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५२, हिलेब्रान्ट . वेदिशे माइथौलोजी, १, १०३, नोट ३, ३, २७३, मैकडौनेल . वैदिक माइथौलोजी पृ० १६२ (F)

१. वर्ण (रंग) ऋग्वेद^१ और वाद^२ में एक साधारण शब्द है। वैदिक साहित्य में अनेक रंगों की गणना कराई गई है, किन्तु इस बात का स्पष्ट निश्चय करना सम्भव नहीं कि वैदिक भारतीय कितनी शुद्धता के साथ रंगों का विभेद कर सके थे; और न उस सिद्धान्त को ही जाना जा सकता है जिस पर उनके यह विभेद आधारित थे। ऋग्वेद से ऐसा प्रतीत होता है कि लाल अथवा पीला रंग सर्वाधिक ज्ञात था, किन्तु यह केवल आकस्मिक ही हो सकता है।^३ काले रंग को 'कृष्ण' से और श्वेत अथवा हल्के रंग को 'शुक्ल' शब्द से व्यक्त किया गया है। ऋग्वेद^४ के एक स्थल पर 'श्येनी' से भी काले रंग का ही आशय प्रतीत होता है। 'गाढ़े भूरे' अथवा धुंधले रंग को 'श्याम' से व्यक्त किया गया है।^५ 'नील'^६ का आशय संदिग्ध है, जिससे सम्भवतः 'गाढ़ा-नीला' अथवा 'काला-नीला' आशय हो सकता है। 'हरि', 'हरिण', 'हरित्', 'हरित', आदि शब्दों के क्रम से पीले रंग का ही आशय है, किन्तु इनसे 'हरा' रंग भी उद्दिष्ट हो सकता है क्योंकि यह

^१ १. ७३, ७; ९६, ५; ११३, २; ४. ५, १३, ९. ९७, १५; १०४, ४, १०५, १; १०. ३, ३, इत्यादि।

^२ अथर्ववेद १ २२, १ २; २३, २; ११. ८, १६; वाजसनेयि संहिता ४. २, २६ इत्यादि।

^३ हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० ११, cxxxi और वाद।

^४ १. १४०, ९। तु० की० मैत्रायणी संहिता ४. ३, ८; गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन, २, २५०, २५१।

^५ शतपथ ब्राह्मण ५. १, ३, ७।

^६ छान्दोग्य उपनिषद् ८. ६, १, के 'नील' शब्द के स्थान पर कौषीतकि उपनिषद् ४. १९ में 'कृष्ण' है। तु० की० ऋग्वेद ८ १९, ३१। वैदिकोत्तर साहित्य में 'नील' से 'गाढ़े नीले' पदार्थों, जैसे नीलम, आदि का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में भी इस शब्द से ऐसा ही कुछ आशय रहा हो सकता है क्योंकि अग्नि के धूम के लिये इसका प्रयोग मिलता है।

शब्द मेढक^७ के लिए प्रयुक्त हुए हैं। उस 'वभ्रु' शब्द से निश्चय ही 'भूरे' रंग का आशय है जिसका विभीतक के बीज (देखिये अन्न) के लिए प्रयोग किया गया है। 'कपिल'^८ से कुछ 'रक्तिम-भूरे' रंग (वन्दर जैसे रंग) का आशय है, जब कि 'पिङ्गल' भूरे रंग के ऐसे वर्ण का द्योतक प्रतीत होता है जिसमें पीले रंग की छाया अधिक हो।^९ पीले रंग को 'पीत' और साथ ही 'पाण्डु' शब्द से भी व्यक्त किया गया है।^{१०} बृहदारण्यक उपनिषद्^{११} में केसरिया रंग (माहारजन) के एक परिधान का उल्लेख है। 'रुधिर' और 'लोहित' रक्त-वर्ण के द्योतक हैं, जब कि 'अरुण' लाल रंग व्यक्त करता है। 'कल्माष'^{१२} का अर्थ 'चितकवरा' और 'शिल्प' का 'शबल'^{१३} है, जब कि मिश्रित वर्ण, जैसे 'अरुण-पिशङ्ग' भी आते हैं।^{१४}

^७ ऋग्वेद ७ १०३, ६, और तु० की० ३ ४४ ३, त्रिफिथः ऋग्वेद के सूक्त १, ३६५, नोट १।

^८ ऋग्वेद १०. २७, १६, बृहदारण्यक उपनिषद् ६ ४, १४।

^९ अथर्ववेद ११ ५, २६; काठक संहिता १५ १, तैत्तिरीय संहिता ७ १, ६, २; बृहदारण्यक उपनिषद् ६ ४, १४।

^{१०} बृहदारण्यक उपनिषद् ७ ३, ६।

^{११} उ० स्था०।

^{१२} वाजसनेयि संहिता २९. ५८।

^{१३} वाजसनेयि संहिता २४. ५; २९. ५८; तैत्तिरीय संहिता ५ ५, २२, १; ६, १३, १, २०, १।

^{१४} तैत्तिरीय संहिता ६ ६, ११, ६।
तु० की० श्रेडर प्रिहिस्टोरिक ऐन्टीक्विटीज, ११९ और बाद।

२. वर्ण (शब्दार्थः 'रङ्ग'), ऋग्वेद^१ में मनुष्यों के एक वर्ग को व्यक्त करने के लिए व्यवहृत हुआ है। जैसा कि अन्य स्थलों^२ द्वारा प्रगट होता है,

^१ 'दास', ऋग्वेद ७ १२, ४; 'दस्यु' के विपरीत 'आर्य वर्ण', ३. ३४, ९, 'दास' के विपरीत स्वयं 'वर्ण', १. १०४, २। तु० की० २ ३, ५। तु० की० शाङ्खायन श्रौतसूत्र का एक श्लोक ८ २५, २, पञ्चविंश ब्राह्मण ५ ५, १४। रौथः त्सी० गे० ४८, ११३, ऋग्वेद ५ ६५, ५, में 'वर्णशेषस्' पढ़ते हैं।

^२ देखिये दस्यु, दास; तिस्रः आष्टि-न्दिशे लंवेन, ११३, ११४। वैदिक साहित्य में इस प्रमुख विभेद के अतिरिक्त रङ्ग-भेद का और कोई चिह्न

नहीं है। गोपथ ब्राह्मण १ १, २३, में ब्राह्मण के रंग को 'शुक्ल' बताया गया है। काठक संहिता ११. ६, में वैश्य को 'शुक्ल' और राजन्य को 'धूम्र' कहा गया है, और बाद का दृष्टिकोण चारों जातियों की त्वचा के रंग को क्रमशः काला, पीला, रक्तिम, और शुक्ल, बताता है। देखिये वेवरः इन्डिशे स्टूडियन, १०, १०, ११; मूररः सस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, १५३, इत्यादि, १७६। तु० की० अथर्ववेद ३ ४, ६ भी जहाँ िहट्नेः अथर्ववेद का अनुवाद ९०, कुछ हिचकते हुये 'वर्ण.' पाठ का परामर्श देते हैं।

दासों और भायों का त्वचा के रङ्ग के आधार पर विभेद किया गया है। किन्तु यह प्रयोग केवल दो रङ्गों के विभेद तक ही सीमित है : इस दृष्टि से ऋग्वेद तथा उन वाद की संहिताओं और ब्राह्मणों^३ में आधारभूत अन्तर है जहाँ चार वर्णों (वर्णाः) को पूरी तरह मान्यता दी जा चुकी है।

(क) ऋग्वेद में जातियाँ :—इसमें सन्देह नहीं कि 'वर्ण' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में जातियों के अस्तित्व का निर्णायक प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता। फिर भी, एक आशय में इसे स्वीकार करना चाहिये कि ऋग्वेद में जातियों का अस्तित्व था। दसवें मण्डल का पुरुष सूक्त^४ मनुष्यों के चार वर्गों—ब्राह्मण राजन्य, वैश्य और शूद्र—की स्पष्ट कल्पना करता है। किन्तु यह सूक्त निश्चित रूप से वाद का है,^५ अतः समस्त ऋग्वेद के लिए इसका प्रमाण सङ्गत नहीं है। त्सिमर^६ ने अत्यन्त जोरदार शब्दों में इस मत का प्रतिवाद किया है कि ऋग्वेद का सृजन ऐसे समाज में हुआ था जो वर्ण-व्यवस्था से परिचित था। आप इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ब्राह्मण-ग्रन्थों^७ में वैदिक भारतीयों को वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं वरन् ब्राह्मण धर्म के प्रभाव से रहित, सिन्धु के तट पर बसा हुआ बताया गया है। आप यह तर्क उपस्थित करते हैं कि ऋग्वेद सिन्धु और पञ्जाब के क्षेत्र में रहनेवाली जातियों की कृति है; वाद में इसी जाति के उन लोगों ने, जो और पूर्व की ओर जाकर बस गए थे, जाति-पद्धति की विशिष्ट सभ्यता को विकसित किया था। आप ऋग्वेद के प्रदत्तों

^३ 'चत्वारो वर्णाः', शतपथ ब्राह्मण, ५. ५, ४, ९, ६. ४, ४, १३, 'शौद्र वर्ण', वही ६ ४, ४, ९, बृहदारण्यक उपनिषद् १. २, २५; ऐतरेय ब्राह्मण ८. ४। तु० की० शूद्र के विपरीत 'आर्य वर्ण', काठक संहिता ३४ ५, पञ्चविंश ब्राह्मण ५ ५, १७, और देखिये तैत्तिरीय ब्राह्मण १ २, ६, ७। पालि में भी कभी-कभी 'वण्ण' इसी आशय में आता है। देखिये फिक. डी० ग्ली० २२, नोट ४, रिज डेविड्स : बुद्धिस्ट इन्डिया, ५३।

^४ ऋग्वेद १० ९०, १२ = अथर्ववेद १९.

६, ६ = वाजसनेयि संहिता ३१. ११ = तैत्तिरीय आरण्यक ३ १२, ५। तु० की० मूहर : १^२, ७-१५, और उल्लिखित सन्दर्भ।

^५ मैक्स मूलर : सस्कृत लिटरेचर, ५७०, और वाद, मूहर : ७० स्था०; वेबर : इन्डिशे स्टूडियन, ९, ३ और वाद; कोलब्रुक : एसेज, १, ३०९; आर्नाल्ड वैदिक मीटर, पृ० १६७।

^६ आस्टिडिन्डिशे लेवेन, १८५-२०३।

^७ पञ्चविंश ब्राह्मण १७. १। तु० की० अथर्ववेद १५, और देखिये ब्राह्मण।

के अध्ययन से निष्कृष्ट मूहर^८ के इन तर्कों को ग्रहण करते हैं कि : (१) चार जातियाँ केवल पुरुष सूक्त में ही आती हैं, (२) जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है, वर्ण शब्द के अन्तर्गत केवल वाद की तीन उच्चतम जातियाँ ही आती हैं और उनका दासों से केवल विभेद मात्र किया गया है; (३) यह कि 'ब्राह्मण' ऋग्वेद में दुर्लभ है, 'क्षत्रिय' कभी-कभी ही आता है^९ और राजन्य केवल पुरुष सूक्त में मिलता है, और वैश्य और शूद्र भी केवल यहीं आते हैं; (४) आरम्भ में ब्रह्मन् 'कवि' अथवा 'ऋषि', तथा वाद में पुरोहित का, अथवा उसके भी और वाद पुरोहितों के एक विशिष्ट वर्ग का द्योतक है; (५) उन स्थलों में से, जहाँ यह आता है, केवल कुछ^{१०} में ही 'ब्रह्मन्' व्यवसाय से एक पुरोहित का द्योतक है, जबकि अन्य में यह व्यक्ति की कुछ ऐसी विशिष्टताओं, जैसे योग्यता और पुण्य कर्म को व्यक्त करता है, अथवा ऐसे व्यक्तियों का वाचक है जो दिव्य प्रेरणा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होते थे।^{११} दूसरी ओर, जैसा कि मूहर स्वीकार करते हैं,^{१२} ब्राह्मण शब्द परम्परागत पौरोहित्य करनेवालों का द्योतक है।

दूसरे ऋग्वेद की जाति-विहीन पद्धति से यजुर्वेद के विकसित जाति-व्यवस्था के तथ्य को, वैदिक भारतीयों के पूर्व की दिशा में अग्रसर होने के तथ्य के साथ सम्बद्ध करते हैं और उन जर्मन आक्रमणों के साथ इसकी तुलना करते हैं जिन्होंने जर्मन जाति को गिरजों से घनिष्ट रूप से सम्बद्ध विभिन्न राज-सत्ताओं में परिणत कर दिया था। विजेता जातियों की आवश्यकताएँ ही राजा के पद को उत्पन्न करती हैं जिसमें छोटे-छोटे राजा विशिष्ट व्यक्तियों का रूप ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि आदिवासियों अथवा अन्य आर्य जातियों के आक्रमणों को विफल करने, अथवा अधिकृत जनता के विद्रोह का दमन करने के लिए राज्य को राजा के सशस्त्र पार्षदों के रूप में एक सेना की, और विशिष्ट व्यक्तियों के अतिरिक्त भी कुछ प्रमुख अधिकारियों की आवश्यकता होती थी, जैसा कि ऐंगलों-सैक्सन राजसत्ता में 'गैसिथों' के अतिरिक्त 'थेग्न' होते थे।^{१३} साथ ही साथ, ऐसी स्थिति में सर्वसाधारण, सैनिक कार्यों में भाग

^८ संस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, २३९ और वाद, मुख्यत २५८।

^९ ऋग्वेद ८ १०४, १३, १० १०९, ३, और तु० की० क्षत्रिय।

^{१०} ऋग्वेद १ १०८, ७, ४ ५०, ८ और वाद, ८. ७, २०, ४५, ३९, ५३,

७, ८१, ३०; ९ ११२, १, १०. ८५, २९।

^{११} ऋग्वेद १० १०७, ६, १२५, ५।

^{१२} उ० पु० २, २५९।

^{१३} मेटलैण्ड : होम्सडे बुक, १६४ और वाद।

लेना वन्द कर देते थे और जलवायु के प्रभाव के अनुसार अपने को कृषि, पशुपालन और व्यवसाय में लगा कर युद्ध का सञ्चालन विशिष्ट व्यक्तियों और राजा के पार्षदों पर छोड़ देते थे। किन्तु जनता पर प्राप्त किए गए अधिकारों का विशिष्ट-जन उपभोग करते थे जिसमें उन पुरोहितों का भी भाग होता था जिनकी शक्ति की उत्पत्ति, रौथ^{१४} के अनुसार, पौरोहित्य कर्म में ही हुई थी।

मूलत राजा अपने तथा अपनी प्रजा के लिए स्वयं यज्ञ कर लेता था; किन्तु ऋग्वेद^{१५} भी विश्वामित्र और वसिष्ठ के उदाहरणों द्वारा पुरोहितों की शक्ति का प्रबल उदाहरण प्रस्तुत करता है, यद्यपि पुरोहित के रूप में कार्य करने के विशिष्ट जनों के अधिकार का भी देवापि आर्षिषेण के दृष्टान्त द्वारा उदाहरण मिलता है।^{१६} आक्रामक युद्धों की कठिनाईयों और अस्त-व्यस्तता के बीच ब्राह्मणों ने पौरोहित्य के द्वारा व्यावहारिक शक्ति अर्जित करने का अवसर देखा और उसे प्राप्त भी किया, यद्यपि उन्हें इसके लिए पर्याप्त संघर्ष करना पड़ा जिसका चिह्न महाकाव्य-परम्परा में देखा जा सकता है।^{१७} ब्राह्मणों को त्रस्त करने के कारण सृजियों के पतन के वृत्तान्त में अथर्ववेद^{१८} में भी इस प्रकार के संघर्षों के अवशेष मिलते हैं; और अथर्ववेद के कुछ अन्य सूक्तों (८-, १२) के अतिरिक्त यजुर्वेद के शतरुद्रिय-स्तोत्र^{१९} में भी उस विप्लव और अस्त-व्यस्तता का आभास मिलता है जिसमें आदिवासी जनता असन्तोष से त्रस्त थी और रुद्र की, हर प्रकार के दुष्कर्म करनेवालों के प्रतिपालक देवता के रूप में, उपासना की गई है।^{२०}

जातिवाद के विकास का यह सिद्धान्त अपने मूल रूप में बहुत अंशों तक स्वीकृत किया जा चुका है, अतः हम इसे ही प्रायः सर्वमान्य सिद्धान्त के रूप

^{१४} त्सु० वे० ११७ और वाद।

^{१५} ऋग्वेद ३ ३३, ८, ७ १८; ८३।

^{१६} यास्क . निरुक्त २ १०, ऋग्वेद १० ९८, की व्याख्या करते हुये।

^{१७} लासन : ६० आ० १^२, ७०५ और वाद; मूडर : ३० पु० २^२, २९६-४७९।

^{१८} ५. १७-१९; मूडर . २^२, २८०-२८९।

^{१९} वाजसनेयि संहिता १६ = तैत्तिरीय संहिता ४. ५, १-११ = काठक संहिता १७. ११-१६ = मैत्रायणी संहिता २. ९. १-१०।

^{२०} वेवर : इन्डिशे स्टूडियन २, २२, और वाद, इन्डियन लिटरेचर ११०, १११।

में स्वीकार कर सकते हैं।^{२१} फिर भी कुछ विद्वानों, जैसे हॉग^{२२}, कर्न^{२३}, लुडविग^{२४} और हाल में औल्डेनबर्ग^{२५} और गेल्डनर^{२६} ने इसका विरोध किया है। यह मानकर इस समस्या को कुछ सीमा तक सरल बनाया जा सकता है कि जातिवाद का विकास केवल उत्तरोत्तर ही हुआ होगा और यजुर्वेद तक के जातिवाद को ऋग्वेद में देखना उपयुक्त नहीं है; किन्तु इस बात पर सन्देह करना भी कठिन है कि जाति-व्यवस्था सार्वजनिक स्वीकृति की ओर पूरी तरह अग्रसर हो चुकी थी। सिन्धु और पंजाब के व्रात्यों को अव्राह्मण मानने पर आधारित तर्क उस समय अपनी शक्ति खो देता है जब हम यह स्मरण करें कि ऋग्वेद के अधिकांश भाग, मुख्यतः वह मण्डल^{२७} जिनमें वसिष्ठ और विश्वामित्र के साथ सुदास का उल्लेख है, और पूर्व की ओर मध्य-देश में रचे गये थे, और इस दृष्टिकोण की पिशल^{२८}, गेल्डनर^{२९}, हॉपकिन्स^{३०} और मैकडौनेल^{३१} ने पुष्टि की है। इस बात को सिद्ध करना भी सम्भव नहीं कि ऋग्वेद में ब्रह्मन् का अर्थ केवल 'कवि' अथवा 'ऋषि' मात्र ही है। मूडर ने इसे स्वीकार किया है कि कुछ स्थलों पर इस शब्द से वंशानुगत व्यवसाय का आशय है; वास्तव में उनमें से कोई भी स्थल जहाँ यह आता है, ऐसा नहीं जिसमें 'पुरोहित' का आशय सम्भव न हो, क्योंकि पुरोहित ही गायक भी होता था। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में व्यक्तियों के 'ब्रह्म', 'चत्रम्' और 'विशः' अथवा सामान्य जनता के तीन वर्गों के रूप में त्रिसूत्रीय^{३२} अथवा चतुःसूत्रीय^{३३} विभाजन के चिह्न मिलते हैं। इसी प्रकार वैश्यों को युद्ध में भाग न लेनेवाला

^{२१} देखिये, उदाहरण के लिये, फॉन श्रोडर : इन्डियन्स लिटरेचर उन्ट कल्चर, १५२ और वाद, मैकडौनेल : मस्कृत लिटरेचर, १५९ और वाद, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १०, १ और वाद; केगी : ऋग्वेद, नोट ५८।

^{२२} ब्रह्म उन्ट टी ब्रह्मनेन, १८७१।

^{२३} इन्डिशे थ्योरियन ओवर डे स्टैन्डेनव डील्लिङ्ग, १८७१। तु० की० इस और पिछली कृति के लिये मूडर . उ० पु०, २^२, ४५४ और वाद।

^{२४} डी० गे० व०, ३६ और वाद, ऋग्वेद का अनुवाद, ३, २३७-२४३, इत्यादि

^{२५} रिलीजन देस वेद, ३७३ और वाद,

और तु० की०, त्सी० गे०, ५१, २६७ और वाद।

^{२६} वेदिशे स्टूडियन, २, १४६, नोट।

^{२७} ३ और ७।

^{२८} वेदिशे स्टूडियन, २, २१८।

^{२९} वही ३, १५२।

^{३०} ज० अ० ओ० सो० १९, १८।

^{३१} मस्कृत लिटरेचर, १४५।

^{३२} ऋग्वेद, ८. ३५, १६-१८।

^{३३} ऋग्वेद १. ११३, ६। २ ०७, ८; ६ ५१, २, और ७ ६६, १०, में लुडविग द्वारा देखे गये तीन जातियों के सन्दर्भ अपेक्षाकृत अधिक सन्दिग्ध हैं।

मानने का विचार बाद के काल में भी उतना ही ठीक है जितना ऋग्वेद में । ऋग्वेद प्रत्यक्षतः^{२४} विशिष्ट जन अथवा उनके पार्षदों के लिए युद्ध सम्बन्धी किसी नियन्त्रण से परिचित नहीं, किन्तु बाद के अथर्ववेद^{२५} में सर्वसाधारण को 'बल' के आधार पर वर्गीकृत किया गया है जो 'विश' को उस सभा, समिति और सेना के साथ सम्बद्ध करता है जो क्रमशः व्यक्तियों के समूह और सैनिकों को व्यक्त करते हैं । तिस्र^{२६} इन सन्दर्भों की केवल परम्परा द्वारा उत्पन्न हुए होने के रूप में व्याख्या करते हैं; किन्तु यह तर्क कदाचित ही उपयुक्त है क्योंकि यह इस मिथ्या मान्यता पर आधारित है कि केवल क्षत्रिय ही युद्ध कर सकते थे । किन्तु यह अस्यन्त सन्दिग्ध है (देखिये क्षत्रिय) कि क्षत्रिय का अर्थ विशिष्ट व्यक्तियों की सदस्यता से कुछ अधिक भी था, यद्यपि बाद में महाकाव्य में विशिष्ट जनों के वह पार्षद भी इसके अन्तर्गत आ गये, जिनकी संख्या सैनिक राजसत्ता के विकास के साथ-साथ बढ़ती गयी, यद्यपि यह मानना भी अतिरंजित होगा कि साधारण लोग अनिवार्यतः युद्ध में भाग नहीं ही लेते थे । इसमें सन्देह नहीं कि क्षत्रिय एक वंशानुगत समूह थे, और राजसत्ता पहिले से ही वंशानुगत थी (देखिये राजन्); साथ ही यह भी स्वीकार किया जाता है कि शूद्रों का एक अलग वर्ग था । इस प्रकार जातिवाद के प्रायः सभी तत्व वर्तमान थे । पुरोहित निःसन्देह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, किन्तु जैसा कि औल्डेनवर्ग^{२७} का विचार है, यह बात भी स्पष्ट है कि पुरोहित स्वयं पुरोहितीय शक्ति का स्रष्टा नहीं था । उसका पद और वह प्रभाव जिसका बाद में वह उपयोग करने लगा था इस तथ्य द्वारा ही विकसित हुए थे कि यज्ञ के उपयुक्त सम्पादन के लिए एक ऐसे वंशानुगत पुरोहित की आवश्यकता होनी चाहिये जिसे परम्परागत पवित्र ज्ञान प्राप्त हो ।

देवापि के दृष्टान्त द्वारा भी जातिवाद का अस्तित्व न होने के पक्ष में कोई तर्क विकसित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रथमतः उपनिषदों में पुरोहितीय विद्वत्ता और शिक्षा का कार्य करनेवालों के रूप में राजाओं को व्यक्त किया गया है, और उपनिषद् निःसन्देह विकसित जाति-व्यवस्था के समकालीन थे । दूसरे ऋग्वेद का प्रमाण बहुत ही क्षीण है, क्योंकि देवापि को, जो निश्चित रूप

^{२४} देखिये लुडविग : उ० पु० ३, २३१
और बाद; हॉपकिन्स : ज० अ०
ओ० सो० १३, ९४, ९५, और देखिये
विश्व, वैश्य ।

^{२५} ३ १९, १; ९. ७, ९; १५ ९, २ ३ ।

^{२६} उ० पु०, १९४ ।

^{२७} रिलीजन देस वेद ३८२, ३८३ ।

से पुरोहित का कार्य करता था, ऋग्वेद में राजा कहा ही नहीं गया है, यद्यपि यास्क^{३८} उसे एक 'कौरव्य' कहते हैं। राजाओं को आरोपित, अथवा अन्य सूक्तों को, राजाओं के लिए निश्चित प्रमाण प्रस्तुत करने की दिशा में सर्वथा दोष-युक्त नहीं माना जा सकता, यद्यपि पुनः यहाँ भी, ब्राह्मण ग्रन्थ राजन्यर्षियों के अस्तित्व को स्वीकार करने से नहीं हिचकते। फिर भी उस विश्वामित्र के सम्बन्ध में ऋग्वेद में किसी भी राजकीय प्रकृति का आभास नहीं मिलता जिसे ब्राह्मण ग्रन्थ जह्नु के राजवंश में उत्पन्न हुआ मानने पर जोर देते हैं।^{३९}

(ख) बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों में जाति-व्यवस्था :— जाति-व्यवस्था के आरम्भिक और बाद के वैदिक इतिहास के सम्बन्ध को सम्भवतः प्रमुख रूप से ऋग्वेद में ही निर्मित एक पद्धति के प्रौढ़ होने के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

(१) जातियों के नाम :—ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य, और शूद्र,^{४०} अथवा बाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र,^{४१} ही जातियों के नियमित नाम हैं। फिर भी अनेक अन्य विभेद मिलते हैं, जैसे—ब्रह्मन्, क्षत्र, शूद्रार्यो,^{४२} ब्रह्मन्, राजन्य, शूद्र, आर्य,^{४३} ब्रह्मन्, राजन्य, वैश्य, शूद्र,^{४४} ब्राह्मण, राजन्, विश्व, शूद्र,^{४५} देव, राजन्, शूद्र, आर्य,^{४६} और ब्रह्मन्, क्षत्र, विश्व, और शूद्र।^{४७} अन्य उदाहरणों में चतुर्थ जाति को उसके एक विशेष सदस्य

^{३८} २ १०।

^{३९} देखिये विश्वामित्र और जह्नु।

^{४०} ऋग्वेद १०. ९०, तैत्तिरीय संहिता ७ १, १, ४ ५; ऐतरेय ब्राह्मण ७ १९, १; शतपथ ब्राह्मण १. १, ४, १२, ३. १, १, १०, ५ ५, ४, ९; पञ्चविंश ब्राह्मण ६ १, ६-११।

^{४१} बृहदारण्यक उपनिषद् १. २, २७ (माध्यन्दिन=१. ४, १५ काण्व), शतपथ ब्राह्मण ६ ४, ४, १३, १३ ६, २, १०; वाजसनेयि संहिता ३० ५।

^{४२} तैत्तिरीय संहिता ४. ३, १०, १-३, काठक संहिता १७ ५, वाजसनेयि संहिता १४ २०-३०।

^{४३} अथर्ववेद १९. ३३, ८। तु० की० ६२, १। तु० की० गृह्यतन्त्रे . अथर्ववेद का अनुवाद, ९४९, १००३।

^{४४} काठक संहिता ३७ १।

^{४५} तैत्तिरीय संहिता ५ ७, ६, ४, काठक संहिता ४०. १३, मैत्रायणी संहिता ३. ४, ८, वाजसनेयि संहिता १८. ४८; शतपथ ब्राह्मण ५ ६, ४, ९; इत्यादि।

^{४६} अथर्ववेद १९ ६२, १; वाजसनेयि संहिता २६. २। तु० की० अर्य, आर्य।

^{४७} बृहदारण्यक उपनिषद् १. २, १३ (माध्यन्दिन=१ ४, १५ काण्व)।

द्वारा व्यक्त किया गया है : ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और चाण्डाल।^{४८} अक्सर तीन उच्च वर्गों का ही उल्लेख है, जैसे ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य;^{४९} ब्रह्मन्, क्षत्रम्, विश्, ^{५०} इत्यादि^{५१}। तीन जातियों—ब्राह्मण, राजन्, शूद्र—का अथर्ववेद में उल्लेख है,^{५२} और दो जातियों, जैसे ब्रह्मन् तथा क्षत्र, अथवा क्षत्र तथा विश् का बहुधा उल्लेख मिलता है।^{५३}

(२) जातियों का सम्बन्ध :—संस्कारों से सम्बद्ध साहित्य जातियों के सूचम अन्तरों तक से परिपूर्ण है। इस प्रकार, उदाहरण के लिये, शतपथ ब्राह्मण में चार जातियों के लिये चार पृथक् आकार की अन्त्येष्टि-वेदिकाओं का विधान है।^{५४} चारों जातियों के लिये अलग-अलग सम्बोधनों का भी उल्लेख है^{५५}—जैसे 'एहि', 'भागच्छ', 'भाद्रव', और 'आधाव', जो सभी नम्रता के अनुपात की दृष्टि से परस्पर भिन्न हैं। चार जातियों के प्रतिनिधियों को पुरुषमेध के समय पृथक्-पृथक् देवों को समर्पित किया जाता था।^{५६} सूत्रों में भी ऐसे ही नियम देखे जा सकते हैं।^{५७}

किन्तु कुछ अंशों में तीन उच्च जातियों का, चतुर्थ, शूद्र जाति से स्पष्ट अन्तर

^{४८} छान्दोग्य उपनिषद् ५ १०, ७।

^{४९} अथर्ववेद, ५ १७, ९; मैत्रायणी संहिता ३. १, ५, २, २, ४. ४, ९ (राजन्य के पहले वैश्य), तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. १२, ९, २, तैत्तिरीय संहिता ६. २, ५, २. ३, तैत्तिरीय आरण्यक २. ८, ८।

^{५०} वाजसनेयि संहिता १० १०-१२, ३८ १४, शतपथ ब्राह्मण २. १, ४, ११; ११ २, ७, १५ और बाद, १४ २, २, ३०, तैत्तिरीय आरण्यक ४. १०, १०-१२।

^{५१} तु० की० अथर्ववेद ५ १८, १५, जहाँ दो निचली जातियों (क्षत्रिय और वैश्य) को क्रमशः 'नृ-पति' और 'पशु-पति' के रूप में सम्बोधित किया गया है, विद्वन्नेः अथर्ववेद का अनुवाद २५२; काठक संहिता १२ १, २९

१०, वाजसनेयि संहिता ३८ १९।

^{५२} १० १, १३।

^{५३} देखिये, क्षत्रिय, वैश्य, विश्।

^{५४} १३ ८, ३, ११।

^{५५} शतपथ ब्राह्मण १. १, ४, १२।

^{५६} वाजसनेयि संहिता ३०. ५; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, १, १; शतपथ ब्राह्मण १३ ६, २, १०। ब्राह्मणों में इसी प्रकार के अन्तरों के लिये देखिये तैत्तिरीय संहिता २. ५, १०, १ २; ७ १, १, ४ ५, काठक संहिता १७. ४, ३७ १, ३९ ७, वाजसनेयि संहिता १०. १०; १४. २४, ऐतरेय ब्राह्मण ७. २३ २४, ८. ४ इत्यादि।

^{५७} आश्वलायन गृह्य सूत्र, १ २४, ११ १२, और देखिये वेवर : इन्दिशे स्टूडियन, १०, २० और वाद।

है। शतपथ ब्राह्मण^{५८} में शूद्रों को किसी दीक्षित व्यक्ति द्वारा सम्बोधित किये जाने के योग्य नहीं माना गया है, और कोई भी शूद्र ऐसी गाय का दोहन नहीं कर सकता जिसके दुग्ध को अग्निहोत्र^{५९} के लिये व्यवहृत किया जाना हो; दूसरी ओर कुछ स्थलों पर शूद्रों को सोमयज्ञ में स्थान दिया गया है,^{६०} और तैत्तिरीय ब्राह्मण^{६१} में न केवल तीन उच्च जातियों के लिये ही वरन् रथकारों के लिये भी यज्ञाग्नि स्थापनार्थक मन्त्र मिलते हैं। पुनः, ऐतरेय ब्राह्मण^{६२} में 'हविष्य ग्रहण करनेवालों के रूप में' ब्राह्मणों का अन्य तीन जातियों से विभेद किया गया है।

विभन्न जातियों की विशेषताओं का ब्राह्मण, क्षत्रिय और राजन्, वैश्य, शूद्र, के अन्तर्गत उल्लेख किया जा चुका है जिसका सारांश इस प्रकार है : विश्व उस स्थिति का आधार प्रस्तुत करता है जिस पर ब्रह्मन् और क्षत्र टिके हुये थे;^{६३} ब्रह्मन् और क्षत्र दोनों ही विश्व से श्रेष्ठ थे;^{६४} जब कि यह तीनों ही जातियाँ शूद्रों से श्रेष्ठ थीं। राष्ट्र की वास्तविक सत्ता पार्षदों सहित राजा तथा उसके विशिष्ट व्यक्तियों में निहित होती थी जिन्हें क्षत्रिय कहा जा सकता था। देश की रक्षा, शासन, वैधानिक मामलों का निर्णय, तथा युद्ध इत्यादि कार्यों में रत विशिष्ट व्यक्ति, इसमें सन्देह नहीं कि जनता से वस्तुओं के रूप में प्राप्त लगान पर आश्रित रहते थे; साथ ही उनके पोषण के लिये उन्हें कुछ ग्रामों

^{५८} ३. १, १, १०। तु० की० कात्यायन श्रौत सूत्र ७. ५, ७, पर भाष्य में आपस्तम्ब का उद्धरण; आश्वलायन श्रौत सूत्र १०. ८, ७; वेवर : इन्डिश स्टूडियन्, १०, १२ और वाद। सामान्यतया शूद्र अप्रवित्र माने गये हैं और उन्हें यज्ञ-स्थल पर आने नहीं दिया जाता, शतपथ ब्राह्मण ३. १, १, ९। तु० की० ५. ३, ३, २, तैत्तिरीय संहिता ७. १, १, ६; काठक संहिता ११. १० (मैत्रायणी संहिता २. ४, ८, में यह तथ्य नहीं है)।

^{५९} काठक संहिता ३१. २; मैत्रायणी संहिता ४. १, ३।

^{६०} शतपथ ब्राह्मण ५. ५, ४, ९। तु० की० वही १. १, ४, १२, भी। कात्यायन

श्रौत सूत्र १. १, ६, पर भाष्यकार इन स्थलों पर केवल रथकार के सन्दर्भ का ही उल्लेख करता है; किन्तु यह प्रत्यक्षत गौण महत्व ही रखना है।

^{६१} १. १, ४, ८।

^{६२} ७. १९, १, मैत्रायणी संहिता १. ४, ६, गोपथ ब्राह्मण २. १, ६, लेवी : लॉक्मिन् डु सैक्वीफाइट, ८१।

^{६३} शतपथ ब्राह्मण ११. ७, ७, १६; कौषीतकि ब्राह्मण १६. ४।

^{६४} पञ्चविंश ब्राह्मण २. ८, २; ११. ११, ९; १५. ६, ३, ऐतरेय ब्राह्मण २. ३३, १; काठक संहिता २०. १०, तैत्तिरीय संहिता २. ५, १०, १, शतपथ ब्राह्मण ६. ४, ४, १३, इत्यादि।

का दान दे देते थे (देखिये ग्राम) । जब कि इसमें भी सन्देह नहीं कि कुछ के पास स्वयं अपनी भूमि होती थी जिस पर वह दासों अथवा काश्तकारों से खेती कराते थे । उस समय राज्यों का आकार सम्भवतः छोटा रहा होगा :^{६५} महाराजाओं के उल्लेख के विपरीत भी वस्तुतः बड़े राज्यों के अस्तित्व का कोई चिह्न नहीं मिलता । कृषि, पशुपालन, और वाणिज्य (वणिज्) में रत साधारण लोग राजाओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों को अपनी रक्षा के लिए उपहार देते थे । साधारण लोग स्वयं कृषक नहीं होते थे । ऐसा मानना, जो वैडेन पावेल^{६६} का विचार है, त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे बड़े-बड़े जमींदार रहे हो सकते हैं जो शूद्रों अथवा आर्य काश्तकारों तक से लगान वसूल करते थे; किन्तु समस्त साधारण लोगों का इसी स्थिति में होना अत्यन्त असम्भाव्य है ।^{६७} युद्ध के समय साधारण लोग भी विशिष्ट व्यक्तियों के साथ-साथ संवर्ष में भाग लेते थे क्योंकि उस समय तक विभिन्न जातियों के कर्त्तव्यों का पूर्ण पृथक्करण नहीं हुआ था । पुरोहितों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है : एक तो राजाओं के पुरोहित, जो अपने नियुक्ति-कर्त्ताओं का अपने परामर्श द्वारा पथ-प्रदर्शन करते थे और राज्य पर

^{६५} तु० की० हॉपकिन्स : ट्रा० सा० १५, ३२, पञ्चविंश ब्राह्मण के लिये । शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण के बाद के अंश अपनी अश्वमेध की परम्पराओं और भरतों के वैभव का स्मरण करते हुये नागरिक जीवन के अपेक्षाकृत अधिक विकसित सामाजिक-सम्बन्धों का प्रतिनिधित्व करते हैं, किन्तु यह ग्रन्थ भी वास्तविक रूप से महान साम्राज्यों से अपरिचित हैं ।

^{६६} इन्डियन विलेज कम्युनिटी, और विलेज कम्युनिटीज ऑफ इन्डिया, जहाँ इस बात पर पर्याप्त जोर दिया गया है कि आर्यगण उस भूभाग पर वसे थे जो द्रविड जाति के अधिकार में था; यह विचार उस मत के ही समान है जिसके अनुसार ऐंग्लो-सैक्सन आक्रामकों ने ब्रिटन्स के भूभाग पर अधिकार किया

था और उसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश जाति के लोग दास बन गये, जब कि आक्रमक लोग जमीन्दार वर्ग के विशिष्ट जन ।

^{६७} तु० की० हॉपकिन्स : इन्डिया, ओल्ड एण्ड न्यू, २२२। यहाँ भी स्थिति वैसी ही है जैसी आरम्भिक इंग्लिश इतिहास सम्बन्धी विभिन्न मतों की । क्या आर्यगण भारत में एक जाति के रूप में आये और यहाँ के मूल निवासियों को भगा कर अथवा उनका उन्मूलन करके या उन्हें दास बना कर स्वयं सर्व साधारण जनता की भाँति कार्य करने लगे, अथवा वह केवल थोड़े से उच्च वर्गीय सैनिकों के रूप में ही आये, और क्या क्षत्रियगण ही वास्तविक आर्य हैं ? ऋग्वेद का प्रमाण वास्तव में इस दूसरे विकल्प के लिये घातक है ।

अत्यधिक प्रभाव धार्जित करने की स्थिति में थे, और यह स्पष्ट है कि वह वास्तव में ऐसा प्रभाव डालते भी थे; दूसरे साधारण पुरोहित, जो किसी राजा अथवा सम्पन्न व्यक्ति द्वारा आयोजित महान् उत्सवों मात्र में भाग लेने के अतिरिक्त शान्त जीवन व्यतीत करते थे।^{६८}

जातियों के सम्बन्ध और कार्य को उस ऐतरेय ब्राह्मण^{६९} के एक स्थल पर भली भाँति व्यक्त किया गया है, जो अन्य जातियों का क्षत्रियों से विभेद करता है। ब्राह्मण उपहारों को ग्रहण करनेवाला (भा-दायी), सोमपान करनेवाला (भा-पायी), भोजनेच्छुक (भावसायी)^{७०} और किसी भी समय हटा दिया जानेवाला (यथाकाम-प्रयाप्यः)^{७१} होता था। वैश्य दूसरों का सहायक होता था (अन्यस्य बलिकृत्), जिसके कार्यों का दूसरे उपभोग करते थे (अन्यस्याद्यः) और इसे इच्छानुसार त्रस्त भी किया जाता था (यथा काम-ज्येयः)^{७२}। शूद्र दूसरों का सेवक होता था (अन्यस्य प्रेप्यः)

^{६८} क्षत्रिय अथवा राजन्य की अपेक्षा ब्राह्मण की श्रेष्ठता के लिये देखिये पञ्चविंश ब्राह्मण ११. ११, ३; वाज-सनेयि संहिता २१. ०१; शतपथ ब्राह्मण ५. १, १, १२, ४, ४, १५; १३. १, ९, १, ३, ७, ८; ऐतरेय ब्राह्मण ७. १५, ८, ८. ९, ६; शाङ्खायन श्रौत सूत्र १५. २०, १२। स्वयं ब्राह्मण अपने लिये राजा पर निर्भर है (शतपथ ब्राह्मण १. २, ३, ३; ५. ४, २, ७) और राजसूय के समय राजा के पार्श्व में बैठता है किन्तु फिर भी राजा से श्रेष्ठ है (बृहदारण्यक उपनिषद् १. २, २३)। काठक संहिता २८. ५, में यह कथन है कि क्षत्र, ब्राह्मण के ऊपर है, किन्तु यह सर्वसामान्य विचार नहीं है। तु० की० २७. ४। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय के विना भी रह सकता है, किन्तु क्षत्रिय ब्राह्मण के विना नहीं (शतपथ ब्राह्मण ४. १, ४, ६) और ब्राह्मण के साथ एक राजन्य, अन्य

सभी राजन्यों से श्रेष्ठ होता है (तैत्ति-रीय संहिता ५. १, १०, ३; काठक संहिता १९. १०, २७. ४, इत्यादि)।

^{६९} ७. ०९। देखिये मूहर : ७० पु० १^२, ४३६ और वाद; वेवर : इन्डिशे स्टूडि-यन १०, १४।

^{७०} वेवर : ७० पु० ९, ३२६, १०, १४, सर्वत्र 'भ्रमणशील' अथवा 'रहते हुये' का आशय मानते हैं।

^{७१} मूहर, हॉग, और वेवर 'इच्छानुसार भ्रमण करनेवाला' का सकर्मक आशय ग्रहण करते हैं। किन्तु इसके समानान्तर स्थल और इस शब्द की वनावट इस शब्द में अकर्मक आशय की अपेक्षा रखते हैं। यहाँ सम्भवतः राजा द्वारा पुरोहित पर सामान्य नियन्त्रण का सन्दर्भ है, अर्थात् पुरोहितों को राजा अपनी इच्छानुसार स्थान-स्थान पर भेज सकता था।

^{७२} ऐतरेय ब्राह्मण ७. ०९, ३।

जिसे इच्छानुसार वहिष्कृत (कामोत्थाप्यः) किया जा सकता था, अथवा इच्छानुसार वध (यथाकाम-वध्यः)^{७३} । यहाँ इस दृष्टि से वर्णन किया गया है कि प्रत्येक जाति का राजन्य के साथ सम्बन्ध स्पष्ट हो सके । राजन्य ब्राह्मणों तक को नियन्त्रित कर सकता था, जब कि वैश्य उससे हीन और उसका सहायक होता था जिसे वह विना किसी कारण के ही अपनी भूमि से हटा सकता था ।^{७४} किन्तु इस दशा में भी वैश्य बहुत कुछ स्वतन्त्र होता था और राजन्य उसका निराधार वध कहीं कर सकता था । विशिष्ट व्यक्तियों और राजाओं के सम्मुख शूद्रों को अपनी सम्पत्ति और जीवन से सम्बन्धित कोई अधिकार प्राप्त नहीं था ।

उक्त स्थल बहुत वाद का है और इसीलिये चित्रियों के उच्च स्थान का कुछ सीमा तक इस तथ्य द्वारा समाधान हो जाता है । यह स्पष्ट है कि कालान्तर में जाति-व्यवस्था और पुष्ट होने के साथ-साथ वैश्य की स्थिति में भी उत्तरोत्तर परिवर्तन होता गया । ऐसा विश्वास करने के लिये वेवर^{७५} तर्क प्रस्तुत करते हैं कि वाजपेय यज्ञ को, जिसका एक अन्तरङ्ग कार्यक्रम रथों की प्रतिस्पर्धा होता था,^{७६} शाङ्खायन श्रौतसूत्र^{७७} के कथनानुसार एक समय वैश्य का, और साथ-साथ पुरोहित अथवा राजा का यज्ञ माना जाता था । किन्तु पुरोहितों के प्रभाव के कारण स्वयं राजाओं की शक्ति में पर्याप्त कमी आ गयी : तैत्तिरीय संहिता^{७८} में यह व्यक्त किया गया है कि वाजपेय मूलतः अपेक्षाकृत छोटा यज्ञ होता था, जिसको करने पर राजाओं को छोटे राजाओं के अधिपति के रूप में राजसूय यज्ञ, तथा ब्राह्मणों को बृहस्पति सव (राजपुरोहित के रूप में नियुक्त हो जाने पर पुरोहितों द्वारा किया गया उत्सव) का आयोजन करना पड़ता

^{७३} पेत्रेय ब्राह्मण ७ २९, ४ ।

^{७४} यह 'यथाकामज्येय' का सर्वसम्भव सन्दर्भ प्रतीत होता है । यहाँ वैश्य के वहिष्कार द्वारा यह उद्दिष्ट नहीं कि राजा अथवा क्षत्रिय ही भूमिका स्वामी है, यह केवल राजकीय अधिकार का प्रश्न है, भूस्वामित्व का नहीं । देखिये कोथ . जर्नल ऑफ अफ्रीकन सोसाइटी ६, २०२ और वाद, और तु० की० हॉपकिन्स : इन्डिया, ओल्ड एण्ड न्यू, २२२, २२३ ।

^{७५} ऊवर डेन वाजपेय, १० और वाद ।

^{७६} वही । तु० की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथोलोजी, १, २४७, फे० वौ०, ४० और वाद, रिचुअल लिटरेचर, १४१ ।

^{७७} १६. १७, ४ । तु० की० १५ १, १ ।

^{७८} तैत्तिरीय संहिता ५. ६, २, १; तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ७, ६, १ । तु० की० लाट्यायन श्रौतसूत्र ८ ११, १, आश्वलायन श्रौतसूत्र ९. ९, १९; एग्लिङ्ग : से० तु० ई०, ४१, xxiv, xxv

था । किन्तु दातपथ माह्वण^{७९} उस धानपेय को श्रेष्ठ महत्त्व प्रदान करता है जिसमें एक पेसा पुरोहित यज्ञकर्ता हो सकता है जिसे राजसूय यज्ञ के अधिकार से वंचित कर दिया गया हो। यह ग्रन्थ हम यज्ञ को सृष्ट्यति मन्त्र के साथ समीकृत करता है, जो कि पुरोहितीय तित्त-साधन का एक स्पष्ट उदाहरण है । किन्तु ऐसे स्थलों के महत्त्व अथवा दातपथ और ऐननेय माह्वणों के बाढ़ के अर्थों में पुरोहित की विशिष्ट स्थिति का पुरोहितीय दात के मास्तिक प्रिकास के प्रमाण के रूप में अति मूल्यांकन नहीं करना चाहिये : यह धांदा अपनी शक्ति के सम्बन्ध में स्वयं पुरोहितों के ही दृष्टिकोण का प्रतिनिधिग्रह करने है, और कुछ सीमा तक इनका निर्माण मध्यदेश में हुआ था । वैदिक काल के बाद के पालि साहित्य^{८०} में वस्तुस्थिति का एक दूसरा ही चित्रण मिलता है जहाँ पुरोहितों के पद का निश्चित अवमूल्यन है; जब कि महाकाव्य^{८१} में, जो कि बहुत कुछ बाद के वैदिक काल का ही समसामयिक है, समस्त पुरोहितीय परिस्तरण के विपरीत भी, विशिष्ट व्यक्तियों (पत्रियों) की पार्थिव श्रेष्ठता का स्पष्ट रूप से प्रकाशन किया गया है ।

यद्यपि विभिन्न जातियों में स्पष्ट विभेद किया गया था तथापि बाद की व्यवस्था में लपित होनेवाली उम्र विशेषता का वैदिक साहित्य में कोई चिह्न नहीं है जिसके द्वारा हीन जातियों^{८२} के सम्पर्क में अपवित्रता का सम्भाव निहित है, और जो कि शूद्रों को स्पर्श कर लेने पर प्रायश्चित्त की आवश्यकता द्वारा प्रवृत्तः, और निम्न जातियों के साथ बैठकर भोजन करने के निषेध द्वारा अपरोक्ष रूप से होता व्यक्त है।^{८३} यह सम्य है वैदिक साहित्य में भी अन्य लोगों

^{७९} ५ १, १, १ और बाद, ०, १, १०, कात्यायन श्रौतसूत्र १५, १, १-० । वेवर . उ० पु०, ८, ०, णिल्लु से भिन्न व्याख्या करते हैं ।

^{८०} फिक : टी० ग्लो०, १०७ और बाद, रिज टेविड्स . बुद्धिस्ट इन्डिया, ५३ और बाद, १५८ ।

^{८१} हॉपकिन्स : ज० म० ओ० सो०, १३, ९८४ और बाद ।

^{८२} देखिये, उदाहरण के लिये, मनु ३. २३९, ५ ८५, फिक : उ० पु०, २६ और बाद ।

^{८३} दामिष्ठ धर्मसूत्र १४. १ और बाद, गौतम नृग १७. १७; आपराश्व श्रौतसूत्र, १ ६, १८, २६ और बाद; ० ४, ०, ७ और इस पर मूह्लर का टिप्पणी, मनु ४ ०१० और बाद; विष्णु, ४१, ७ और बाद, फिक : उ० पु० ३०-३३, जो यह सकेत करते हैं कि जातकों में इस प्रचलन का प्रमाण है । सेनार्ट : ले० का०, ४८ और बाद, २१२ और बाद, साथ-साथ बैठकर खाने पर बहुत जोर देते हैं और रोम को 'जेन्स' के

और न पालि साहित्य में।^{८८} जाति-व्यवस्था सम्बन्धी वैदिक विशिष्टताओं के अन्तर्गत वंशानुक्रम, समान व्यवसाय, और अन्तर्विवाह पर नियन्त्रण ही आते हैं।

(३) अन्तरवैवाहिक नियंत्रणः—सम्भवतः मैगास्थनीज़ के प्रमाण के आधार पर अरियन ने अपने इन्डिका^{८९} में उस 'गेने (Γενη) के बीच के विवाह के निषेध को भारतीय जीवन की एक विशिष्टता मान लिया है, जो निश्चित रूप से एक जाति ही थे। पालि साहित्य^{९०} के प्रमाण भी इस दृष्टिकोण के अनुकूल हैं, यद्यपि इनमें ऐसा भी मिलता है कि राजा अपनी इच्छानुसार किसी से भी विवाह कर सकता था और उस पत्नी से उत्पन्न अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बना सकता था। किन्तु इसमें यह भी मिलता है कि कुछ लोग ऐसा मानते थे कि पुत्र की सामाजिक मर्यादा पिता नहीं वरन् माता की श्रेणी से निश्चित होती है। यद्यपि मनु^{९१} ने वैध-पुत्र उत्पन्न करने के लिये अपने से ठीक नीचे की जाति की स्त्री से विवाह करने की सम्भावना को मान्यता प्रदान की है, तथापि वह एक निम्न जाति की स्त्री के साथ आर्यों के विवाह की भर्त्सना करते हैं। पारस्कर गृह्य सूत्र^{९२} एक क्षत्रिय को अपने अथवा अपने से नीचे की जाति में, ब्राह्मण को अपनी अथवा अपने से दो निम्न जातियों में और वैश्य को केवल वैश्य जाति में विवाह करने की स्वीकृति देता है। किन्तु यह ग्रन्थ अन्य लोगों के इस मत को भी स्वीकृत करता है कि उक्त तीन जाति के लोग शूद्र-स्त्री से विवाह कर सकते हैं, जब कि कुछ अन्य प्रमाण कुछ विशेष परिस्थितियों में शूद्र-स्त्री के साथ विवाह की भर्त्सना करते हैं जिसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम कुछ

^{८८} फिक : उ० पु०, २४। सेनार्ट : उ० पु०, २१९, २२०, यूनान, रोम और जर्मनी की पारिवारिक सभाओं की तुलना करते हैं (लीस्ट : आ० सि०, २७३ और वाद, कोवालेन्स्की : फे० प्रि०, ११९; कुलैन्जेस : उ० पु० ११८, ११९), किन्तु यहाँ पुन. यह पद्धति इस प्रचलन के जाति में वाद में दृष्टिगत होने की व्याख्या किये बिना ही गोत्र के लिये व्यवहृत हुई हो

सकती है, और आरम्भिक तथा बाद के साहित्य में समा के उल्लेख की अनुपस्थिति इसके अस्तित्व के विरुद्ध निर्णायक प्रमाण है।

^{८९} १२ ८ ९।

^{९०} फिक : उ० पु० ३४-४०।

^{९१} १० ५; ३. १५।

^{९२} १ ४। तु० की० वेवर : इन्डिसे स्टूडियन्, १०, २१, ७४।

दशाओं में ऐसा विवाह वैध भी हो सकता था।^{९१} आरम्भिक साहित्य से ऐसा आभास मिलता है : किसी ऋषि के वंश में उत्पन्न होने और आनुवंशिक पवित्रता पर अत्यधिक जोर दिया गया है,^{९२} किन्तु इस मत के लिये भी प्रमाण उपलब्ध हैं कि ब्राह्मण के लिये अनुवंशिक पवित्रता आवश्यक नहीं। क्वष ऐल्य पर दासी पुत्र होने का व्यंग किया गया था।^{९३} वत्स पर भी शूद्र-पुत्र होने का आक्षेप किया गया था, किन्तु उसने अपनी पवित्रता का अग्नि परीक्षा द्वारा सफलतापूर्वक परिचय दिया था।^{९४} जो विद्वान (शुश्रुवान्) है, उसे तैत्तिरीय संहिता^{९५} में ब्राह्मण और आर्षेय कहा गया है; जबाला के पुत्र सत्यकाम को हारिद्रुमत गौतम ने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था, यद्यपि वह अपने पिता का नाम नहीं बता सका था।^{९६} काठक संहिता^{९७} का कथन है कि अनुवंशिकता नहीं वरन् ज्ञान ही सर्वाधिक महत्त्व रखता है। किन्तु इन सबसे यही सिद्ध होता है कि जाति की आनुवंशिकता के सम्बन्ध में कुछ ढिलाई थी, यह नहीं कि यह आनुवंशिकता पर आधारित ही नहीं थीं। यजुर्वेद संहिताओं^{९८} में आर्य और शूद्र अथवा शूद्र और आर्य के अवैध सम्बन्ध को

^{९१} गोभिल गृह्य सूत्र ३. २, ४२।

^{९२} देखिये तैत्तिरीय संहिता ६ ६, १ ४, वाजसनेयि संहिता ७ ४६, तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ४, ४, २, शतपथ ब्राह्मण ४ ३, ४, १९, १२ ४, ४, ६, कात्यायन श्रौत सूत्र २५ ३, १७, लाट्यायन श्रौत सूत्र १ १, ७ कौशिक सूत्र, ६७, इत्यादि। इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण ११. ५, ७, १ में ब्राह्मण के एक गुण को 'ब्राह्मण्य' बताया गया है, जिसे वेबर : उ० पु०, १०, ६९ ने आनुवंशिकता के सन्दर्भ में ग्रहण किया है। 'ब्रह्म-पुत्र' आदर की एक उपाधि है, शतपथ ब्राह्मण ११ ४, १, २. ९, आश्वलायन श्रौत-सूत्र २. १८, १२, शाङ्खायन श्रौत सूत्र १२ २१, १ २, और एक बुद्धिमान ब्राह्मण के पुत्र के रूप में जन्म लेना सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य है, बृहदारण्यक

उपनिषद् ६. ४, २९।

^{९३} ऐतरेय ब्राह्मण २. १९, १, कौषीतकि ब्राह्मण १२ ३। तु० की० वेबर : उ० पु० २, ३११; ९, ४२, ४४, ४६।

^{९४} पञ्चविंश ब्राह्मण १४ ६, ६।

^{९५} ६. ६, १, ४।

^{९६} छान्दोग्य उपनिषद् ६ ४, ४, वेबर : उ० पु० १, २६३। शतपथ ब्राह्मण ११. ५, ४, १।

^{९७} ३०. १। तु० की० वेबर : उ० पु० ३, ४६२।

^{९८} तैत्तिरीय संहिता ७ ४, १९, ३ ४; काठक संहिता, अश्वमेध, ४ ७; वाजसनेयि संहिता २४. ३०. ३१। 'आर्य' शब्द से यहाँ केवल एक वैश्य का ही नहीं वरन् सम्पूर्ण रूप से किसी भी आर्य का आशय होना चाहिये, वेबर : उ० पु० १०, ६।

मान्यता दी गई है; अतः यदि अवैध सम्बन्ध होते थे तो इन दोनों जातियों के बीच वैध-विवाह सर्वथा असम्भव नहीं प्रतीत होते। यदि हम पञ्चविंश ब्राह्मण^{१९} में बृहद्देवता^{१००} में मिलनेवाले उशिज् से सम्बद्ध वर्णन को ग्रहण कर लें तो इस उशिज् नामक दासी के पुत्र दीर्घतमस् के दृष्टान्त द्वारा इस प्रकार के विवाह की मान्यता का उदाहरण मिल जाता है। अथर्ववेद^{१०१} के एक सूक्त में इस बात का अत्यन्त समर्थन किया गया है कि केवल ब्राह्मण ही एक मात्र वास्तविक और वैध पति है चाहे उस स्त्री के राजन्य अथवा वैश्य जैसे अन्य पति भी हों; यहाँ शूद्र का उल्लेख नहीं है जो सम्भवतः सोद्देश्य है।^{१०२} राजन्य स्त्रियों के साथ ब्राह्मण के विवाह का शर्यात नामक राजा की पुत्री सुकन्या, जिसने च्यवन के साथ विवाह किया था,^{१०३} और रथवीति की उस पुत्री के दृष्टान्तों द्वारा उदाहरण मिलता है जिसने श्यावाश्व^{१०४} के साथ विवाह किया था।

(४) जाति और व्यवसाय :—यूनानी^{१०५} और जातकों^{१०६} के प्रमाण एक समान यह व्यक्त करते हैं कि प्रत्येक जाति अपने-अपने व्यवसायों तक ही सीमित थी, यद्यपि ब्राह्मण लोग केवल पौरोहित्य के अतिरिक्त अनेक प्रकार के व्यवसाय करते थे। साथ ही श्रमणों अथवा गृह-विहीन तपस्वियों में सभी जाति के लोग हो सकते थे। जातक ग्रन्थों^{१०७} में यह

^{१९} २४ ११, १७, हॉपकिन्स टा० सा०, १५, ५६, नोट। किन्तु यहाँ 'उशिज्' के एक दास होने का कोई उल्लेख नहीं है।

^{१००} ४ २४ २५।

^{१०१} ५ १७, ८ ९। देखिये मूहर, १^२, २८२, नोट ७६, विटने अथर्ववेद का अनुवाद, २४९। ठीक-ठीक आशय स्पष्ट नहीं है किन्तु इस स्थल का उद्देश्य ब्राह्मण की उच्च स्थिति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना ही है।

^{१०२} ५ १७, १८ का आशय अस्पष्ट है, इसकी इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक वार आने पर ब्राह्मण को एक अस्थायी पत्नी प्रदान करना चाहिये (तु० की० विटने,

२५०)। किन्तु यह कदाचित ही सम्भव है। मूहर इसे उसकी अपनी ही पत्नी के आशय में ग्रहण करते हैं।

^{१०३} शतपथ ब्राह्मण ४ १, ५, ७। तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३ २४४, २४५; वेवर ३० पु०, १०, ७३ और वाद, हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो०, १३, ३५२, ३५३।

^{१०४} तु० की० बृहद्देवता ५. ५० और वाद।

^{१०५} अरियन : इण्डिका १२. ८ ९, स्ट्रावो, १५ ४, ४९।

^{१०६} फिक्क ३० पु०, ४० और वाद।

^{१०७} रिज् डेविड्स : ३० पु०, ५४ और वाद।

मान्यता है कि ब्राह्मण लोग हर प्रकार के व्यवसायी, जैसे व्यापारी, कृषक, इत्यादि, होते थे। वैदिक साहित्य में स्थिति कुछ सरल है, जहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय क्रमशः अपने यज्ञादि और सैनिक अथवा प्रशासनिक कार्यों तक सीमित हैं। लुडविग^{१०८} ऋग्वेद^{१०९} में दीर्घश्रवस् को एक ऐसे ब्राह्मण के रूप में देखते हैं जो व्यापारी का कार्य करने के कारण निर्धनता को प्राप्त हो गया था और सूत्रों द्वारा भी आप इसकी पुष्टि मानते हैं; किन्तु यह निश्चित नहीं है यद्यपि ऐसा सम्भव हो सकता है। अपेक्षाकृत अधिक रोचक तो यह प्रश्न है कि क्षत्रिय लोग किस सीमा तक पौरोहित्य-कर्म कर सकते थे; इसके लिए प्रमाणों में परस्पर संघर्ष है। निश्चित रूप से इस दिशा में विश्वामित्र का उदाहरण सर्वप्रसिद्ध है। ऋग्वेद में विश्वामित्र तृत्सुओं के राजा सुवास् के दरबार से सम्बद्ध केवल एक पुरोहित मात्र हैं; किन्तु पञ्चविंश ब्राह्मण^{११०} में इन्हें जहु का वंशज एक राजा कहा गया है, और ऐतरेय ब्राह्मण^{१११} में यह संदर्भ है कि विश्वामित्र द्वारा दत्तक ले लिये जाने के कारण शुनःशेष जहुओं का आधिपतित्व तथा गाथिनों का 'दैव वेद' प्राप्त करने में सफल हो सका था। यद्यपि इस परम्परा का सत्य होना अत्यन्त असम्भाव्य प्रतीत होता है तथापि यह राजवंशीय द्रष्टाओं के अस्तित्व का कम से कम उदाहरण अवश्य प्रस्तुत करता है। पञ्चविंश ब्राह्मण^{११२} में इस प्रकार के व्यक्तित्व एकाधिक वार आते हैं, और यह ग्रन्थ उन राजन्यर्षि, और देवराजन् जैसे पारिभाषिक शब्दों से परिचित है जो बाद के 'राजर्षि' शब्द के ही समान हैं। जैमिनीय ब्राह्मण^{११३} में यह कथन है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी सिद्धान्त का ज्ञाता होता है 'राजा होते हुये भी ऋषि बन जाता है' (राजा सन्न ऋषिर् भवति); और जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण^{११४} में राजन्य शब्द एक ब्राह्मण के लिये व्यवहृत हुआ है।

^{१०८} उ० पु०, ३, २३७ और बाद।

^{१०९} १ ११२, ११।

^{११०} २१, १२, २। देखिये हॉपकिन्स :

ट्रा० सा०, १५ ५४।

^{१११} ७ १८, १९। तु० की० शाह्यायन

श्रौत सूत्र १५ २१, जहाँ पाठ भिन्न

किन्तु और भ्रष्ट है। किन्तु देखिये

वेवर : ए० रि०, १६।

^{११२} १२. १२, ६, १८ १०, ५। तु०

की० औरडेनवर्ग : त्सी० गे०, ४२,
२३५, नोट ३।

^{११३} हॉपकिन्स . ज० अ० ओ० सो०
१३, १५४, नोट, में उद्धृत पाण्डुलिपि
का पृ० ५६२।

^{११४} १ ४, २। तु० की० ऐतरेय ब्राह्मण
७. १७, ६ जहाँ विश्वामित्र को राजपुत्र
के रूप में सम्बोधित किया गया है।

पुनः यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह देवापि आष्टिषेण, जिसने ऋग्वेद^{११५} के अनुसार शन्तनु के लिये पुरोहित के रूप में कार्य किया था, यास्क^{११६} के कथनानुसार या तो एक राजा था, अथवा उसका राजा होना ही प्रतीत होता है।^{११७} किन्तु यास्क की यह मान्यता केवल एक त्रुटि प्रतीत होती है। यतः ऋग्वेद में इन दोनों के बीच किसी प्रकार के बन्धुत्व का प्रमाण नहीं है अतः सीग के इस दृष्टिकोण^{११८} को स्वीकार करना असम्भव है कि ऋग्वेद इन दोनों को आता मानता है, फिर भी यह स्थल राजा द्वारा पुरोहित के रूप में कार्य करने के तर्क को प्रस्तुत करता है, जो असामान्य है तथा व्याख्या की अपेक्षा रखता है। फिर भी, ऋग्वेद में राजाओं सम्बन्धी सीग द्वारा स्वीकृत यह सिद्धान्त बहुत कुछ उपयुक्त प्रतीत होता है। पुनः, मूडर^{११९} ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि, जैसा कि सायण^{१२०} द्वारा भी व्यक्त होता है, हिन्दू परम्परा ऋग्वेद के अनेक सूक्तों को राजाओं द्वारा प्रणीत मानती है; किन्तु आप यह भी स्वीकार करते हैं कि अनेक दशाओं में यह मान्यता त्रुटिपूर्ण है। यहाँ यह भी द्रष्टव्य है कि पृथिवी वैश्य की दशा में जहाँ इसे एक सूक्त^{१२१} के प्रणयन का श्रेय दिया गया है वहाँ स्वयं उस सूक्त द्वारा ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह एक द्रष्टा के अतिरिक्त कुछ और भी है; शतपथ ब्राह्मण^{१२२} इसे एक राजा कहता है किन्तु इसका सम्भवतः उससे अधिक महत्त्व नहीं जितना विश्वामित्र के लिए वाद की परम्परा का। ऐतरेय ब्राह्मण^{१२६} में उल्लिखित विश्वन्तर और श्यापणों को पुरोहितों के बिना ही यज्ञ करने वाले राजाओं के रूप में उद्धृत^{१२४} किया गया है, किन्तु यह व्याख्या सर्वथा अनिश्चित है, जब कि वृत्तान्त के प्रसङ्ग में कश्यपों, असितमृगों और भूतवारों के समानान्तर के रूप में उल्लेख इस बात को असंयत सम्भव बना देता है कि उक्त राजाओं के पास यज्ञ करने के लिये अन्य पुरोहित वर्तमान थे।

^{११५} १० ९८। देखिये त्सिमर . आल्टि-
न्डिशे लेवेन, १९६, सेनार्ट ल० ६०,
१६५, मूडर, १^२, २६९ और वाद।

^{११६} निरुक्त २. १०।

^{११७} यहाँ इतना और जोड़ दिया जा सकता है कि कात्यायन श्रौत सूत्र १ ९, ३ के भाष्य में 'आष्टिषेण' सस्कार विषयक आचार्यों के रूप में आते हैं, वेवर . उ० पु० १०, ९५।

^{११८} सा० ऋ०, १४०।

^{११९} उ० पु०, १^२, २६५ और वाद।

^{१२०} ऋग्वेद १ १००, ४ ४० ४३. ४४;
५ २७, ६ १५, १० ९ ७५. १३३-
१३४ १४८ १७९, इत्यादि, पर।

^{१२१} १ १४८, ५।

^{१२२} ५ ३, ५, ४।

^{१२३} ७ २७ और वाद।

^{१२४} त्सिमर . उ० पु०, १९६।

इनसे कुछ भिन्न दृष्टान्तों का वह क्रम है जो उन उपनिषदों में मिलता है जिनमें राज-पुरुषों को भी ब्रह्मज्ञान का श्रेय दिया गया है। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण^{१२५} में यह कथन है कि जनक ब्राह्मण बन गये थे; अजातशत्रु ने गार्ग्य बालाकि को शिक्षित किया था;^{१२६} प्रवाहरण जैवलि ने श्वेतकेतु आरुरोय^{१२७} को और साथ ही साथ शिलक शालावत्य^{१२८} और चैकितायन दाल्भ्य^{१२९} को शिक्षा दी थी; और अश्वपति कैकेय ने ब्राह्मणों को शिक्षित किया था।^{१२९} ऐसे स्थलों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ब्रह्म का सिद्धान्त क्षत्रियों का उत्पादन था।^{१३०} फिर भी यह निष्कर्ष सर्वथा सन्दिग्ध है^{१३१} क्योंकि राजा लोग दार्शनिक विषयों में अभिरुचि लेनेवालों के रूप में अपने को प्रशंसित कराने के लिये स्वभावतः इच्छुक रहते थे, और अन्यत्र^{१३२} एक राजन्य के विचार को अनादर की दृष्टि से देखा गया है।

यह स्वभावतः एक उचित निष्कर्ष है कि राजकीय जाति पुरोहितों के पवित्र कर्मकाण्ड से बहुत अधिक सम्बद्ध नहीं थी, यद्यपि व्यक्तिगत अपवादों का होना बहुत असम्भव नहीं है; किन्तु योद्धाओं का पुरोहित होना, अथवा जाति का वास्तविक परिवर्तन होना, किसी भी एक उदाहरण से सिद्ध नहीं होता। यह असम्भव था, हम ऐसा नहीं कर सकते, किन्तु प्रतीत होता है कि ऐसा कभी हुआ नहीं। जैसा कि फिक^{१३३} संकेत करते हैं, जाति-परिवर्तन के तथ्य के साथ इसका भी विभेद करना चाहिये कि कम से कम चाद के काल में किसी जाति का सद्मय श्रमण बन सकता था, जिसके सम्बन्ध

^{१२५} ११ ६, २, १०, मूहर, १^१, ४२६-
'४३०।

^{१२६} बृहदारण्यक उपनिषद् २ १, १;
कौषीतकि उपनिषद् ४ १।

^{१२७} बृहदारण्यक उपनिषद् ६ १, १
(माध्यन्दिन = ६ २, १ काण्व),
छान्दोग्य उपनिषद् ५ ३, १।

^{१२८} छान्दोग्य उपनिषद् १ ८, २।

^{१२९} शतपथ ब्राह्मण, १० ६, १, २।

^{१३०} ड्यूसन : भा० गे० १, २, ३५४,
फिलॉसफी ऑफ दि उपनिषद्स, १७,
और वाद; गार्बे . वी० कु० १ और

वाद; फिलॉसफी ऑफ ऐन्शेन्ट इन्डिया,
७३ और वाद, ग्रियर्सन : ज० ए०
सो०, १९०८, ६०२ और वाद;
विन्टर्निट्स : गे० लि० १, २५६
और वाद।

^{१३१} ब्लूमफील्ड . रिलीजन ऑफ वेद,
२१८ और वाद, कीथ : ज० ए० सो०;
१९०८, ८३८, ८६८, ११४२, ऐतरेय
आरण्यक ५०, ५१, २५७, औरडेन-
बर्ग : बुद्ध, ५ ७३ नोट १।

^{१३२} शतपथ ब्राह्मण ८. १, ४, १०।

^{१३३} उ० पु०, ४४, नोट १।

में महाकाव्य में राजाओं के अनेक उदाहरण मिलते हैं।^{१३४} यह प्रचलन वैदिक है अथवा नहीं : यास्क^{१३५} ने इस सम्बन्ध में देवापि का उदाहरण दिया दिया है, किन्तु यह बौद्धमत के आविर्भाव के बहुत पहले के काल के लिये प्रमाण नहीं है।

दूसरी ओर ब्राह्मण, अथवा कम से कम पुरोहित, राजा के साथ युद्ध में भी जाते थे, और सम्भवतः मध्य-युगीन पादरियों की भाँति युद्ध करने के लिये प्रस्तुत भी रहते थे,^{१३६} जैसा कि वसिष्ठ और विश्वामित्र ने किया था और जैसा समय-समय पर महाकाव्य^{१३७} में पुरोहित करते हैं। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार कार्य करने से पुरोहित की जाति परिवर्तित हो जाती थी।

अधिक सामान्य रूप से जाति के परिवर्तित होने की सम्भावना शतपथ ब्राह्मण^{१३८} में देखी जा सकती है जहाँ श्यापर्णा सायकायन को अपनी सन्तानों से इस प्रकार कहते हुये व्यक्त किया गया है, मानो वह सब शस्त्रों के विशिष्ट पार्षद, पुरोहित, अथवा सभासद बन सकते थे। इसी प्रकार पेत्रेय ब्राह्मण^{१३९} में भी एक उदाहरण मिलता है, जहाँ विश्वन्तर को यह बताया गया है कि हवि में त्रुटि आ जाने से उसकी सन्तान तीन अन्य जातियों की हो जायेगी। ऋग्वेद^{१४०} का सुरापान किये हुये एक ऋषि इस प्रकार बोलता है जैसे वह राजा बन सकता है। दूसरी ओर कुछ राजा, जैसे पर आट्णार आदि को, यज्ञ-सत्रों का आयोजक बताया गया है।^{१४१} जाति-परिवर्तन के प्रमाण के लिये इन दृष्टान्तों का कोई विशेष महत्व नहीं है; वाद में एक ब्राह्मण राजा बन सकता था, जब कि ऋग्वेद के उक्त ऋषि को मादकावस्था में बोलता

^{१३४} हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० १३, १७९, और वाद्, जो इसे जाति-परिवर्तन के रूप में ग्रहण करते हैं।

^{१३५} निरुक्त २. १०। वह जगल में जाकर तपस्या करने लगा, जो अनिवार्यत जाति-परिवर्तन नहीं कहा जा सकता।

^{१३६} देखिये ऋग्वेद ३. ५३, १०. १३, १. १०९, ४, १५०, ७; १५७, २, ७. ८३, ४, १०. ३८, १०३, इत्यादि, छुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, २००-२२६, गेल्डनर : वेदिशे स्टूडि-

यन, ०, १३९, नोट ३।

^{१३७} हॉपकिन्स . ८० पु०, १३, १८४।

^{१३८} १०. ४, १, १०।

^{१३९} ७ २९।

^{१४०} ३. ४३, ५।

^{१४१} पञ्चविंश ब्राह्मण २५. १६, ३। तु० की० यज्ञ वेदिका के निर्माण में उनके योगदान के लिये, तैत्तिरीय संहिता ५ ६, ५, ३; काठक संहिता २२ ३ (इन्दिशे स्टूडियन ३ ४७३), वेबर : ८० पु०, १०, २५।

हुआ बताया गया है। महान राजाओं को यज्ञकर्त्ता कहा जा सकता था यदि वह भापाततः दीक्षित रहते थे, और इस प्रकार अस्थायी रूप से ब्राह्मण बन जाते थे।^{१४२} कल्पनात्मक स्थल भी इस दिशा में बहुत कुछ सहायक नहीं हैं। जाति-परिवर्तन की भावना को अस्वीकृत करना अबुद्धिमत्ता होगी, किन्तु किसी लिखित विवरण द्वारा यह स्पष्टतः व्यक्त नहीं होता। सत्यकाम जाबाल जैसे दृष्टान्त भी बहुत अधिक सहायक नहीं हैं, क्योंकि मूलतः यह गुरु नहीं जानता था कि उसका पिता कौन है, और उसका पिता ब्राह्मण ही रहा हो सकता है।

अतः हम यह कह सकते हैं कि पुरोहित और क्षत्रियगण अपने अपने पैतृक व्यवसायों में ही लिस रहते थे, और दोनों ही वर्ग अपने-अपने में ऐसे सीमित थे कि उनमें से किसी में जन्म लेनेवाला व्यक्ति उसी वर्ग का सदस्य होता था। अतः इन दोनों वर्गों को अलग-अलग जातियाँ माना जा सकता है। वैश्यों के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत अधिक कठिनाई है, क्योंकि वह अनेक प्रकार के व्यवसाय करते थे (देखिये वैश्य)। फिक^{१४३} यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ठीक-ठीक ऐसा कोई भी आधार नहीं जिसके अनुसार इन्हें एक जाति कहा जा सके, क्योंकि बौद्ध-साहित्य में यह अनेक वर्गों में विभाजित मिलते हैं, जैसे 'गहपति' अथवा छोटे ज़मींदार, सेट्टि अथवा बड़े व्यवसायी और विभिन्न व्यवसायिक संस्थाओं के सदस्य, तथा यह सभी अन्तर्जातीय विवाह भी करते थे। नीति-ग्रन्थों में इस दृष्टिकोण के स्पष्ट संकेत^{१४४} मिलते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, समाज के अन्य सभी सदस्यों से भिन्न होते थे। किन्तु वैदिक काल के लिये हमें इस दृष्टिकोण को स्वीकार करना आवश्यक नहीं। जब जाति के साधारणतया स्वतंत्र सदस्य वैश्य स्वयं में एक वर्ग अथवा जाति थे, तो हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं कि कौन अपनी स्वतंत्र मर्यादा द्वारा शूद्रों से सेवित होता था, और कौन पुरोहितीय अथवा विशिष्ट रक्त के प्रभाव के कारण राज्य के दो उच्च वर्गों से। यह मानना सम्भवतः उचित है

^{१४२} शतपथ ब्राह्मण १३. ४, १, १३; वेवर . उ० पु०, १०, १७, और तु० की० जनक का दृष्टान्त, शतपथ ब्राह्मण ११ ६, २, १ और बाद।

^{१४३} उ० पु०, १९ और बाद, १६२ और

बाद।

^{१४४} हॉपकिन्स : म्यूचुअल रिलेशन्स ऑफ दि फोर कास्ट्स एकोर्डिङ्ग टु दि मानवधर्मशास्त्र, ७८, ८२ और बाद।

कि कोई भी, वैश्य जाति के किसी भी सदस्य के साथ, विवाह कर सकता था, और वैश्यों के वर्ग के भीतर ही लक्षित होनेवाले वाद के विभाजन उस मूल पद्धति के आधार पर हुये विभाजनों के ही विकास हैं, जिनके द्वारा पुरोहित और विशिष्ट जन अलग-अलग विभागों में बँट गये। आज भी जब कोई नयी जाति वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत आ जाती है तो हम उसमें इस पद्धति की क्रियाशीलता को देख सकते हैं : प्रत्येक वर्ग सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से अपने को ऊँचा रखने के लिये समान आधार पर अपने से निम्न जाति के सदस्य के साथ विवाह करना अस्वीकृत कर सकता है—अतः वह वैश्य, जो व्यवसाय द्वारा सम्पत्ति अर्जित कर लेते थे (श्रेष्ठिन्) अथवा कृषि से सम्पन्न बन जाते थे (पालि 'गृहपति') उपजाति के रूप में साधारण वैश्यों से एक पृथक् वर्ग बन जाते थे। किन्तु वैश्यों को एक सैद्धान्तिक जाति मानना उपयुक्त नहीं। यह तो एक ऐसी प्राचीन जाति है जो व्यवसाय, धर्म, भौगोलिक स्थिति, आदि, के प्रभाव से अनेक उपजातियों में विभक्त होती जा रही है।

फिक^{१४५} इस बात को भी अस्वीकार करते हैं कि शूद्र लोग कभी एक ही जाति थे : आप इस शब्द को मूलतः केवल एक ऐसी विशिष्ट जाति का द्योतक मानते हैं, जिसके अन्तर्गत आक्रामक आर्यों द्वारा पराजित अनेक हीन जातियों के सदस्य आ गये। यह मानना तर्कसंगत है कि 'शूद्र' नाम वैदिक भारतीयों द्वारा अपना विरोध करनेवाले राष्ट्रों को दिया गया नाम है, और ऐसे राष्ट्रों के सदस्य तीन जातियों—विशिष्टजन, पुरोहित और सर्वसाधारण—के अतिरिक्त दासों को कोटि में रखे गये थे। यह वैसा ही था, जैसे कि ऍंग्लो-सैक्सन और आरम्भिक जर्मन-विधान के अन्तर्गत, पुरोहित, विशिष्टजन और साधारण व्यक्ति दास वर्ग के सदस्यों से भिन्न माने जाते थे। दासों के लिये हम प्रकार के एक जातिवाचक शब्द का प्रयोग स्वाभाविक प्रतीत होता है, उसका आरम्भ चाहे जिस प्रकार भी हुआ हो (देखिये शूद्र)। आर्यों की दृष्टि में शूद्रों के विवाह को किसी नियम द्वारा कदाचित् ही नियन्त्रित करना आवश्यक था। कोई भी शूद्र किसी भी अन्य शूद्र के साथ विवाह कर सकता था यदि उसके इस विवाह को वास्तविक अर्थों में एक विवाह कहा जाय, क्योंकि, आरम्भिक नियमों के अनुसार वास्तविक अर्थों में उसे विवाह करने का अधिकारी ही नहीं समझा जाता था। किन्तु जो वैदिक काल के लिये उपयुक्त था, वह इस घाद के काल के लिये

उस समय उत्तरोत्तर कम उपयुक्त होता गया जब अनेक आदिवासी जातियाँ और राजा शान्तिपूर्वक अथवा विजित होकर अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता खोये बिना ही आर्य जाति के अन्तर्गत सम्मिलित हो गये, और जब शूद्र शब्द के अन्तर्गत केवल ऐसे ही व्यक्ति नहीं रह गये जो केवल दास थे, वरन् ऐसे स्वतंत्र व्यक्ति भी आ गये जो, चण्डालों अथवा आर्य नियन्त्रण के अन्तर्गत रहनेवाली जाति, अथवा स्वतंत्र निषादों की ही भाँति, गाँव के लोगों की आवश्यकता पूर्ति करने वाले अनेक निम्न कार्य करते थे ।

किन्तु यह भी सम्भव है कि शूद्रों के अन्तर्गत आर्य जाति के सदस्य भी सम्मिलित रहे हों, क्योंकि वैदिक काल में ही आर्यों का निम्न सामाजिक स्तर पर पतन दिखाई देता है । कम से कम रथकारों के साथ स्थिति ऐसी ही प्रतीत होती है । तैत्तिरीय ब्राह्मण^{१४६} में रथकारों को ब्राह्मणों, राजन्वियों, और वैश्यों के साथ-साथ एक विशेष वर्ग के अन्तर्गत रखा गया है : इसकी इस अर्थ के अतिरिक्त कदाचित ही किसी अन्य रूप में व्याख्या की जा सकती है कि रथकार आर्यवर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं थे, यद्यपि यह सम्भव है कि इनसे वैश्यों के एक उपजाति का तात्पर्य रहा हो । रथकारों को शूद्र मानने का एक अन्य प्रमाण^{१४७} भी है । किन्तु अथर्ववेद^{१४८} में रथकार और कर्मार राजा के चुनाव के सन्दर्भ में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखनेवालों के रूप में आते हैं; वाजसनेयि संहिता^{१४९} में इन दोनों वर्गों का आदरपूर्वक उल्लेख है । शतपथ ब्राह्मण^{१५०} में भी रथकार की एक उच्च पदस्थ व्यक्ति के रूप में चर्चा की गई है । फिक^{१५१} के इस मत को स्वीकार करना असम्भव है कि यह वर्ग मूलतः अनार्य था; हमें यह स्वीकार करना होगा कि आरम्भिक वैदिक काल में अपनी कला-कुशलता के लिये प्रसिद्ध रथकार, बाद में इस भावना के विकास के कारण निम्न कोटि के अन्तर्गत आ गया कि हाथ से मजदूरी करना प्रतिष्ठित नहीं है । इस विचार का विकास आर्य-धारणा से एक विचलन था; फिर भी कितना भी अर्वाङ्मनीय

^{१४६} १, १, ४, ८ ।

^{१४७} तु० की० कात्यायन श्रौत सूत्र १, १, ९, और उस पर भाष्य; ४. ७, ७, ९, ५, वेबर . उ० पु०, १०, १२, १३ ।

^{१४८} अथर्ववेद ४. ५, ६ । यहाँ 'कर्मार' और 'रथकार' शब्दों का अभिधायें होना, जैसा कि वेबर . उ० पु०, १७,

१९८ में व्यक्त करते हैं, सर्वथा असम्भव है ।

^{१४९} ३०. ६ ७ । तु० की० १४. २७, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३, ४, २, १ (रथकार), ३, १ (कर्मार) ।

^{१५०} १३. ४, २, १७ ।

^{१५१} उ० पु०, २०९, २१० ।

होते हुये यह अस्वाभाविक नहीं और इसका एक क्षीण-सा समानान्तर उदाहरण आधुनिक योरप के वर्ग-विभेद में मिलता है। इसी प्रकार कर्मार, तक्षणा^{१५२}, चर्मन्न, वुनकर तथा अन्य व्यवसायियों को, जो ऋग्वेद में सर्वथा प्रतिष्ठित माने गये हैं, पालि ग्रन्थों^{१५३} में शूद्र कहा गया है।

वाद का सिद्धान्त, जो कि धर्मसूत्रों^{१५४} में पूरी तरह विकसित मिलता है, मूलतः चार जातियों से भिन्न, विभिन्न जातियों के अन्तर्विवाह के आधार पर अनेक जातियों का उल्लेख करता है। आरम्भिक वैदिक साहित्य के लिये इस सिद्धान्त का कोई औचित्य नहीं है। कुछ दशाओं में तो यह स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण है; उदाहरण के लिये, सूत को इसी प्रकार की एक जाति कहा गया है, जब कि यह सर्वथा स्पष्ट है कि यदि सूतगण एक जाति थे भी तो वह केवल अपने व्यवसाय के आधार पर ही। किन्तु इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं कि सूत, ग्रामणी तथा कर्मकार-वर्ग के अन्य सदस्य इस आशय में एक जाति थे कि वह आरम्भिक वैदिक साहित्य में अन्तर्जातीय विवाह के कारण उत्पन्न हुये थे। अधिक से अधिक हम यही कह सकते हैं कि उस पद्धति का एक क्रमिक विकास हो चला था जिसके आधार पर एक के बाद दूसरी जाति का निर्माण हो रहा था, और उसका प्रमुख निर्धारक तत्त्व उसी प्रकार उनका व्यवसाय था जिस प्रकार आधुनिक काल में भी गोपाल, कैवर्त्त अथवा धीवर और वणिज् नामक जातियाँ मिलती हैं।^{१५५}

फिक^{१५६} जातक ग्रन्थों में अनेक प्रकार के ऐसे व्यवसायों का उल्लेख देखते हैं जिनके सदस्य किसी भी जाति के अन्तर्गत नहीं आते। इस प्रकार के कार्य करनेवालों के अन्तर्गत राजसेवक, गाँव-गाँव घूमनेवाले अभिनेता और नर्तक, ऐसी जंगली जातियाँ जो पर्वतों पर रहती थीं, मछूये तथा व्याध आदि आते हैं। वैदिक काल में सम्भवतः ऐसे ही लोग शूद्र-कोटि के अन्तर्गत रखे गये थे,

^{१५२} शाङ्खायन श्रौत सूत्र १६ ११, ११ में यह नाम 'बृबु' (ऋग्वेद ६ ४५, ३१) के लिये व्यवहृत हुआ है। वुनहॉफर . ईरान उन्ट तूरान, १२७ के अनुसार यह एक जाति का नाम है, किन्तु यह अत्यन्त असम्भाव्य है। देखिये हिलेब्रान्ट वेदिशे माइथोलोजी, १, १०७।

^{१५३} फिक : उ० पु०, १६०, २१०।

^{१५४} गौतम धर्मसूत्र, ४, वासिष्ठ धर्मसूत्र १८, बौधायन धर्मसूत्र, १ १६ १७।

^{१५५} तु० की जॉली . त्सी० गे०, ५०, ५०७ और वाद; बूह्लर . से० तु०

ई०, १४, xxxviii, xxxix।

^{१५६} उ० पु०, १८४ और वाद।

और वह पर्याक, पौल्कस, वैन्द आदि भी इन्हीं में सम्मिलित थे जिनका वाज-सनेयि संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में पुरुषमेध के बलि प्राणियों की तालिका में अनेक अन्य लोगों के साथ उल्लेख है। दास भी, जिन्हें फिक^{१५७} इसी कोटि के अन्तर्गत रखते हैं, निश्चित रूप से शूद्र शब्द के अन्तर्गत ही सम्मिलित थे।

(५) जातियों का आरम्भ :—जातियों के आरम्भ की समस्या कुछ कठिनाई प्रस्तुत करती है। किसी भी अन्य आर्य समाज की तुलना में यहाँ जाति-व्यवस्था की अत्यन्त अनुलंघनीयता के मूल कारण को सम्भवतः आरम्भ से ही आर्यों और शूद्रों के बीच स्पष्ट विभेद में ढूँढना चाहिये। वास्तव में उसी अन्तर ने, जिसके अस्तित्व का वैदिक-भारतीयों ने अपने तथा विजित जनता के बीच अनुभव किया और जिसका आधार मूलतः कदाचित् उच्च और निम्न वर्ग की त्वचा का रङ्ग था, जन्म, व्यवसाय और स्थान सम्बन्धी उस स्वाभाविक विभेद को प्रखर कर दिया जो भारतीय आर्यों के बीच तो वर्तमान था किन्तु अन्य आर्य-जातियों में भारत की भाँति जाति-व्यवस्था के रूप में विकसित नहीं हो सका। विपम वैवाहिक सम्बन्ध का सिद्धान्त, जो जाति-व्यवस्था की व्यावहारिकता का प्रमुख चिन्ह है, इस भावना का स्पष्ट सकेत करता है कि आर्यगण तो शूद्रा के साथ विवाह कर सकते थे किन्तु शूद्र किसी आर्या के साथ नहीं। यही विभेद सम्भवतः अन्य सभी विभाजनों की पृष्ठभूमि में वर्तमान है : इसकी शक्ति का दृष्टान्त उन मिश्रित विवाहों के प्रति विचित्र भावना में मिलता है जो, उदाहरण के लिये, अमेरिका के दक्षिणी राज्यों और दक्षिणी अफ्रीका में नवीन योरोपीय अक्रामकों तथा वहाँ की उस मिश्रित जनसंख्या के बीच होते थे जिनसे ही यह देश अब बसे हुये है। श्वेत और काली जातियों के बीच विवाह को सिद्धान्ततः मान्यता नहीं है; किन्तु (१) श्वेत जाति के पुरुष का काली जाति की स्त्री के साथ विवाह, (२) इन दोनों के बीच अनौपचारिक सम्बन्ध, (३) श्वेत जाति की स्त्री का काली जाति के पुरुष के साथ विवाह, तथा (४) इन दोनों के बीच अनौपचारिक सम्बन्ध के लिये भर्त्सनाओं की अलग-अलग सीमायें लक्षित होती हैं। सम्पूर्ण रूप से इनमें से प्रत्येक बाद की श्रेणी के प्रति उसके पहिले की अपेक्षा अधिक गरभीर निन्दा का भाव संयुक्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव-जाति के इसी तत्त्व ने सामाजिक विभाजनों को जाति-व्यवस्था में परिणत कर दिया

था। इसलिये रिस्ले^{१५८} द्वारा प्रस्तुत उस सिद्धान्त में सत्य की बहुत अधिक मात्रा है जो जाति को प्रमुख रूप से रक्त का विभाजन मानता है और जिसके द्वारा यह व्याख्या की गयी है कि जो जाति जितनी ही उच्च है उसमें आर्यरक्त की उतनी ही प्रधानता है।

निःसन्देह इसका प्रतिद्वन्दी सेनार्ट^{१५९} द्वारा प्रस्तुत वह सिद्धान्त है जो आर्यों के पारिवारिक संगठन पर सर्वाधिक जोर देता है। सेनार्ट के अनुसार आर्यगण विवाह में बहिर्गोत्रीयता और अन्तर्जातीयता दोनों ही नियमों का अनुसरण करते थे। सेनार्ट और कोवालेस्की ने रोमन कानून की जैसी व्याख्या की है उसके अनुसार एक व्यक्ति को अपने समान स्तर में उत्पन्न स्त्री के साथ तो विवाह करना चाहिये किन्तु अपने ही गोत्र की स्त्री के साथ नहीं;^{१६०} इसी प्रकार एक अथेनियन को अथेनियन स्त्री से ही विवाह करना चाहिये किन्तु अपने ही गोत्र (*Yevoe*) की स्त्री के साथ नहीं। भारतवर्ष में यही नियम इस रूप में व्यक्त हुये हैं कि व्यक्ति को अपने गोत्र के अन्दर तो विवाह नहीं करना चाहिये किन्तु अपनी जाति के बाहर भी नहीं। यद्यपि इस सिद्धान्त को आकर्षक रूप से विकसित किया गया है तथापि यह विश्वसनीय नहीं है; समानान्तर लैटिन और ग्रीक दृष्टान्त सम्भावना के रूप में भी ठीक नहीं,^{१६१} और भारत में गोत्र के अन्दर विवाह को निषिद्ध करने का नियम ऐसा है जिसकी कड़ाई में उसी अनुपात से विकास मिलता है जिस अनुपात से कालान्तर में उसके प्रमाण का^{१६२}।

दूसरी ओर इस बात को अस्वीकृत करने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ गोत्रों (*gentes*, अथवा *Yeve*) की पारिवारिक परम्पराओं द्वारा जातिवाद के विकास में सहायता मिली। रोम के पैट्रीशियन बहुत दिनों तक प्लेबियनों के साथ अन्तर्विवाह करना अस्वीकृत करते रहे; अथेनियन यूपेट्रिडाइ भी अपने जेने (*Yeve*) को निम्न रक्त के सम्बन्ध द्वारा अपवित्र होने से बचाते रहे; और वैदिक भारतीयों में भी ऐसे विशिष्ट परिवार रहे हो सकते हैं

^{१५८} पीपुल्स ऑफ इन्डिया में सबसे अच्छी तरह वर्णित और समन्वित है। देखिये इन्डियन एन्पायर, १, अध्याय ६, में सारांश भी।

^{१५९} ल० ३०।

^{१६०} कै० प्रि०, १९ और बाद।

^{१६१} कीथ : ज० ए० सो०, १९०९, ४७२।

^{१६२} वेवर : इन्डिसे स्टूडियन, १०, ७४ और बाद।

जो केवल अपने बीच ही अन्तर्वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करते थे। टेसिटस^{१९३} को ज्ञात जर्मन, विशिष्टों और सामान्य जनो के रूप में विभक्त थे, और एंग्लो-सैक्सन लोग विशिष्ट तथा अविशिष्ट स्वतंत्र व्यक्तियों में^{१९४}। विशिष्ट वर्ग की उत्पत्ति को वास्तविक वैदिक काल में नहीं ढूँढना चाहिये क्योंकि इस वर्ग का अस्तित्व पहले ने ही वर्तमान रहा हो सकता है। इसका कारण यह तथ्य हो सकता है कि राजा को, जिसे हमें मूलतः जनता द्वारा चुना व्यक्ति मानना चाहिये, राजा के रूप में देवता के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध अथवा देवता का ही अवतार माना जाता था;^{१९५} और वंशानुगत राजसत्ता ने ही विशेष रूप से पवित्र रक्त की परम्परा को विकसित किया होगा : अतः राजपरिवार और उसकी शाखायें अपने रक्त की पवित्रता को सुरक्षित रखने के लिये उत्सुक रही होंगी। भारत में राजा की पवित्रता के साथ-साथ पुरोहितों के पवित्रता की भावना भी वर्तमान थी। यहाँ हम परिवार में राजा और विशिष्ट व्यक्तियों का पृथक्करण, और इसी प्रकार ऐसे पुरोहित वर्ग का भी जो विवाहित नहीं था पृथक्करण देखते हैं। यह ऐसे प्रभाव हैं जो जातिवाद को सम्भव बनाते हैं, विशेषतः उस समय तो और भी जब यह सामान्य लोगों और अधम आदिवासियों के बीच गम्भीर विरोधी भावना के साथ संयुक्त होते हैं।

एक द्वार निर्मित हो जाने पर जाति स्वभावतः विभिन्न दिशाओं में विकसित हो गई। नेसफील्ड^{१९६} ने व्यवसाय को जातिवाद के विकास का एक आधार माना था। जातिवाद की अन्तिम व्याख्या के रूप में इस सिद्धान्त की गम्भीर आलोचना कदाचित् ही आवश्यक है, किन्तु यह निश्चित है कि

^{१९३} जर्मेनिया, ७, १३, इत्यादि।

^{१९४} मेडले इंग्लिश कॉन्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री,^२ २१ और बाद, और इसमें उद्धृत विचार। राज्यों के निर्माण में छोटे प्रधान, अथवा कभी के छोटे राजा, विशिष्ट जन बन जाते हैं।

^{१९५} उदाहरण के लिये, फ्रेजर अर्ली हिस्ट्री ऑफ दि किंगडम, और दि गोल्डेन वाउ (तृतीय संस्करण), खण्ड १, दि मैजिक आर्ट ऐण्ड दि इवोल्यूशन

ऑफ किंग्स। आर्य जाति में इस धारणा के चिह्न स्पष्ट हैं—उदाहरण के लिये रोम का 'रेक्स सैक्रीफिक्यूलस', एथेन्स में आर्कोन वेसिलियस का पवित्र समारोह, तु० की० रिजवे : ओरिजिन ऑफ ट्रेजेडी, पृ० २९।

^{१९६} ब्रीफ व्यू ऑफ दि कास्ट सिस्टम ऑफ नार्थ-वेस्टर्न प्रॉविन्सेज ऐण्ड अवध, एलाहाबाद, १८८५।

व्यवसायियों के अलग-अलग वर्ग जातियों का रूप धारण कर सकते हैं। यद्वं (तक्षन्), रथ बनानेवाले (रथकार), मछली मारने वाले (धैवर) और अन्य ऐसे ही वर्ग स्पष्टतः जातियों के ही प्रकार हैं और इनकी संख्या में समय के साथ-साथ वृद्धि होती जाती है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि मूलतः जाति की उत्पत्ति विशुद्ध और सरलतम रूप से व्यवसायों पर ही आधारित थी, अथवा यह कि केवल ध्यावसायिक अन्तर मात्र ही, धार्यों और दामों अथवा शूद्रों के रक्त और रङ्ग के आधारभूत अन्तरों के हस्तक्षेप के बिना ही जाति-व्यवस्था को उत्पन्न कर सकता था। इस अन्तर ने उम यात को और महत्त्वपूर्ण बना दिया जो आर्य जातियों का इतिहास हमें अवनति की ओर उन्मुख दिखाता है, अर्थात् विशिष्ट और अविशिष्ट स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच का अन्तर, जो निःसन्देह निर्णायक नहीं किन्तु ऐसा अवश्य है जो विभिन्न शाखाओं में विभक्त होने के पूर्व ही आर्यों में विकसित हो चुका प्रतीत होता है।

यह सर्वविदित है कि ईरानी राजतंत्र में वर्गों का ऐसा ही विभाजन मिलता है जिसकी कुछ अंशों^{१९७} में भारतीय राजतंत्र के साथ तुलना की जा सकती है। पुरोहित (अथर्व) और योद्धा (रथापस्ता) निर्विवादात्मक रूप से समानान्तर हैं और दो निम्न जातियाँ भी पालि 'गृहपतियों' और सम्भवतः शूद्रों के बहुत समान हैं।^{१९८} किन्तु यह सब भारतीय आशय में जातियाँ कदापि नहीं। सेनार्ट^{१९९} और रिस्ले^{१९०} के इस दृष्टिकोण में कोई सम्भावना नहीं है कि पुरानी जातियों के नाम बाद में उस जाति-व्यवस्था पर कृत्रिम रूप से आरोपित कर दिये गये थे जिनकी उत्पत्ति उनसे मूलतः भिन्न थी। हम यह नहीं कह सकते कि वर्गों के पहले से ही जातियों का अस्तित्व था और यह कि भारत ने वर्गों की कल्पना ईरान से ग्रहण की थी, जैसा कि चार वर्गों से सम्बद्ध आरम्भिक ब्राह्मण प्रमाणों की अपेक्षा करते हुये और इस स्थानान्तरण को बाद की घटना के रूप में देखते हुये रिस्ले मानते हैं। साथ ही हम सेनार्ट के इस मत से भी सहमत नहीं कि वर्गों और जातियों की उत्पत्ति परस्पर स्वतंत्र है। यदि वर्ण न रहा होता तो जातिवाद सम्भवतः विकसित ही न हुआ होता। अतः जातिवाद की उत्पत्ति का

^{१९७} लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३,
२४३, २४४।

^{१९८} सेनार्ट उ० पु०, १४१।

^{१९९} वही, १४०।

^{१९०} इन्डियन एम्पायर, १, ३३६-३४८।

उपयुक्त समाधान करने के लिये रङ्ग और वर्ग-व्यवसाय दोनों की ही आवश्यकता है ।^{१७१}

^{१७१} जाति की उत्पत्ति से सम्बद्ध भारतीय सिद्धान्त केवल धार्मिक और दार्शनिक हैं, अतः उनका कोई महत्व नहीं। इनके लिये देखिये ऋग्वेद १० ९० (जो अन्य संहिताओं में भी दुहराया गया है), तैत्तिरीय संहिता ७ १, १, ४ और वाद; वही ४ ३, १०, १-३ = काठक संहिता १७ ५ = वाजसनेयि संहिता १४ २८-३०, शतपथ ब्राह्मण ८. ४, ३, १ और वाद। ब्राह्मणों की उत्पत्ति के लिये देखिये अथर्ववेद ४. ६, १, १५. ९, १, राजन्य के लिये, अथर्ववेद १५ ८, १; तैत्तिरीय संहिता २. ४, १३, १ और वाद, मूडर, १^२, ८ और वाद, तिसमरः ७० पु०, २१७-२२०।

जाति सम्बन्धी मूल उद्धरणों का सबसे महत्वपूर्ण संग्रह, मूडर . सस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, और वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, १०, है जहाँ प्रायः ब्राह्मणों में उपलब्ध सभी सन्दर्भ ले लिये गये हैं; यहाँ केवल मैत्रायणी संहिता के विवरण ही और सम्मिलित करने हैं, जो केवल तैत्तिरीय और काठक संहिताओं को पुष्टि मात्र करते हैं। जाति से सम्बद्ध महाकाव्य सम्बन्धी विवरण हॉपकिन्स . ज० अ० ओ० सो०, १३ में दिये हुये

वर्त—देखिये वर्त ।

वर्तनि, रथ के एक भाग के रूप में ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'चक्रधार' का द्योतक है ।

^१ १ ५३, ८, ७. ६९, ३, ८ ६३, ८ ।

^२ ऐतरेय ब्राह्मण ५. ३३, २; यज्ञीय सोम-वाहन के एक भाग के रूप में, तैत्तिरीय

हैं, और इन्होंने ही 'म्यूचुअल रिले-शन्स ऑफ दि फोर कास्ट्स एकोर्डिङ्ग टु दि मानवधर्मशास्त्र' में जातीय-सम्बन्ध सम्बन्धी मानवधर्मशास्त्रीय विवरण का भी विश्लेषण किया है। तु० की०, लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३. २१२ और वाद, तिसमरः आल्टिन्डिशे लेवेन, १८५ और वाद, सेनार्ट . ले० का०, वार्थ : २० रि०, १८९४, ७५ और वाद, जौली : त्सी० गे०, ५०, ५०७ और वाद; औस्टेनवर्ग वही ५१, २६७-२९० जहाँ सेनार्ट के दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण आलोचना है; फॉन श्रोडर : इन्डियन लिटरेचर उन्ट कल्चर, १५२ औ. वाद; ४२५ और वाद, इलेजिनविट : त्सी० गे०, ३३, ५४९, श्रीधर वी० कटकर . हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इन्डिया । जातकों में उपलब्ध प्रमाण फिक : डी० ग्लो० (१८९७) में सप्रहीत हैं, इसका पर्याप्त महत्व है किन्तु इसकी तिथियाँ अत्यन्त सन्दिग्ध हैं और उन्हें निश्चित रूप से कुछ (पाँचवीं शताब्दी, ई० पू०) का समकालीन नहीं माना जा सकता। धर्मसूत्रों में भी पर्याप्त विवरण है, किन्तु इनकी तिथियाँ भी अनिश्चित हैं।

संहिता ६. ४, ९, ५; षड्विंश ब्राह्मण १. ५, इत्यादि ।

वर्तिका (एक पत्नी) का ऋग्वेद^१ में भेदिये के पंजे से अश्विनों द्वारा छुड़ाये गये होने के रूप में उल्लेख है। यजुर्वेद की सहिताओं^२ में इसे अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में भी सम्मिलित किया गया है।

^१ १ ११०, १८, १६, ४, ११७, १६,
११८, ८, १०. ३९, १३।

^२ तैत्तिरीय सहिता ५ ५, ११, १, वाज-
सनेयि सहिता २४ २०, ३०, मैत्रायणी
सहिता ३ १४, १।

शब्द के रूप के लिये तु० की०

पाणिनि ७ ३, ४५ पर वार्त्तिक, जहाँ
इसे पूर्वी 'वर्तिका' के विपरीत 'उत्तरी'
कहा गया है। तु० की० वेवरः
इन्डिशे स्टूडियन, ५, ४५, नोट,
त्सिमर . आस्ट्रिन्डिशे लेवेन ९० भी।

वर्त्र, अथर्ववेद^१ और तैत्तिरीय ब्राह्मण^२ में तालाव के 'वॉध' का छोटक
है। प्रथम स्थान के भाष्य तथा पाण्डुलिपियों में 'वर्त'^३ है।

^१ १ ३, ७।

^२ १ ६, ८, १।

^३ विहटने . अथर्ववेद का अनुवाद, ४।

वर्त्र, एक ऐसी रस्सी अथवा बन्धन का छोटक है जिससे, बिनो हुये मंच
को सन्नद्ध किया जाता था। इसका अथर्ववेद^१ और शतपथ ब्राह्मण^२ में
उल्लेख है।

^१ १४ १, ६०, जहाँ पंपलाद शाखा में | ^२ ५ ५, ४, १।
वरध्रा' पाठ है।

वर्मन, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'कवच', 'वचस्त्राण', इत्यादि का छोटक
है। यह किस पदार्थ का बना होता था, यह अनिश्चित है। सिलाई का
(स्यूत)^३ सन्दर्भ होने के कारण इसे, जैसा कि हेरोडोटस^४ ने उल्लेख किया
है, कपड़े का बना माना जा सकता है, किन्तु वाद में अयस्, लोह अथवा
रजत, के बने कवचों का सन्दर्भ^५ मिलता है, जिस पर अधिक जोर देना
चाहिये अथवा नहीं यह सन्दिग्ध है। फिर भी यह धातु के, अथवा चमड़े पर
धातु लगाकर बने हो सकते थे।

^१ १ ३१, २५, १४०, १०; ६ ७५, १
८ १८ १९, ८. ४७, ८; १०. १०७,
७, इत्यादि।

^२ अथर्ववेद ८ ५, ७ और वाद; ९ ५,
२६, १७ १, २७, इत्यादि।

^३ ऋग्वेद १. ३१, २५, १० २०१, ८।

^४ तु० की० हेन कल्चरफालान्जेन,^६

१६७ और वाद; लैंग . होमर ऐण्ड
हिज़ एज, १५० और वाद।

^५ जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण ४ १, ३।

तु० की० त्सिमर . आस्ट्रिन्डिशे
लेवेन, २९८, श्रेडर . प्रि हिस्टॉरिक
ऐन्टीकिटीज, २२२, फॉन श्रोडर :
इन्डियन लिटरेचर अन्ट कल्चर, ३४।

वर्ष, प्रमुखतः 'वर्षा',^१ और उसके बाद 'वर्षाऋतु'^२ तथा वर्ष अथवा साल^३ का द्योतक है ।

^१ ऋग्वेद ५ ५८, ७, ८३, १०, अथर्ववेद ३ २७, ६, ४. १५, २, इत्यादि ।

^२ स्त्री०, बहु० : अथर्ववेद ६ ५५, २, तैत्तिरीय संहिता १. ६, २, ३, २ ६,

१, १, ५. ६, १०, १; वाजसनेयि संहिता १०. १२ इत्यादि ।

^३ ऐतरेय ब्राह्मण ४. १७, ५; शतपथ ब्राह्मण १ ९, ३, १९, इत्यादि ।

वलग, अथर्ववेद^१ और बाद^२ में एक 'गुप्त अभिचार' का द्योतक प्रतीत होता है ।

^१ ५ ३१, ४, १० १, १८, १९. ९, ९ ।

^२ तैत्तिरीय संहिता १ ३, २, १ जहाँ देखिये सायण का भाष्य, ६ २,

११, १. २, काठक संहिता २. ११;

२५ ९, वाजसनेयि संहिता ५ २३, शतपथ ब्राह्मण ३ ५, ४, २ ।

वलक, बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों^१ में वृत्त की छाल का द्योतक है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता २. ५, ३, ५, ३. ७, ४, २, तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ४, ७, ६ ।

वल्मीक, बाद की संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में पिपीलिका (चींटियों द्वारा बनाया गया मिट्टी का टीला) का द्योतक है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता १ १, ३, ४, काठक संहिता १९ २; ३१ १२, ३५. १९, वाजसनेयि संहिता २५ ८ ।

^२ शतपथ ब्राह्मण २ ६, २, १७, बृहदारण्यक उपनिषद् ४. ४, १०; तैत्तिरीय ब्राह्मण १ १, ३, ४ ।

वलश, 'टहनियों'^१ का द्योतक है और 'शत-वल्श'^२ अथवा 'सहस्र-वल्श'^३ आदि यौगिक शब्दों में मिलता है । यह सब शब्द लाक्षणिक रूप से 'सन्तान'^४ के लिये व्यवहृत हुये हैं ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ७ ३, ९, १ ।

^२ ऋग्वेद ३ ८, ११, अथर्ववेद ६ ३०, २, इत्यादि ।

^३ ऋग्वेद ३ ८, ११; ७. ३३, ९, इत्यादि ।

^४ तैत्तिरीय संहिता १. ३, ५, १; काठक संहिता ३ २, इत्यादि ।

१. वश अश्व्य, ऋग्वेद^१ में अश्विनों के एक आश्रित का नाम है । पृथुश्रवस् कानीत से उपहार ग्रहण करनेवाले के रूप में इसका शाङ्खायन

^१ १ ११२, १०, ११६, २१, ८ ८, २०, २४, १४, ४६, २१. २३, ५०, ९, १० ४०, ७ ।

श्रौत सूत्र^१ में भी उल्लेख है। यह ऋग्वेद के उस सूक्त^२ का भी प्रसिद्ध प्रणेता है, जिसे बहुधा इसके वश^३ नाम द्वारा व्यक्त किया गया है।
तु० की० व्यथ ।

^१ १६, ११, १३ ।

^२ ८ ४६ ।

^३ शतपथ ब्राह्मण ८ ६, २, ३, ९, ३, ३,

१९, ऐतरेय आरण्यक १. ५, १. २;

शाङ्खायन आरण्यक २ १० ११ ।

तु० की० वेङ्गः ७० रि० ३८. ३९ ।

२. वश (बहु०) एक जाति का नाम है जिसे ऐतरेय ब्राह्मण^१ में कुरुओं, पञ्चालों और उशीनरों के साथ-साथ मध्यदेश में घसा हुआ बताया गया है। कौषीतकि उपनिषद्^२ के अनुसार यह लोग मत्स्यों के साथ भी सम्बद्ध थे। गोपथ ब्राह्मण^३ में वशों और उशीनरों को एक दूसरे के साथ सम्बद्ध बताया गया है : यह दोनों नाम^४ भी ऐसा व्यक्त करते हैं कि वश और उशीनर परस्पर सम्बद्ध थे।

^१ ८ १४, ३ ।

^२ ४ १ (पाण्डुलिपियों के 'सवसन्-मत्स्येषु' के लिये 'म-वश-मत्स्येषु' पाठ है, जिसे अन्यथा 'मत्स्यन्-मत्स्येषु' के रूप में संशोधित किया गया है, कौष. शाङ्खायन आरण्यक ३६ नोट २, ज० ७० सो० १९०८, ३६७) ।

^३ १ २, ९, जहाँ मूलपाठ में 'शवस-

उशीनरेषु' है, जो कि निरर्थक है।

तु० की० ऐतरेय ब्राह्मण ८. १४, ३, और नोट २, में 'स-वश उशीनराणाम्' है।

^४ जैसा कि दोनों ही 'वश्' धातु से व्युत्पन्न हैं। तु० की० औरडेनवर्ग. युद्ध, ३९३ नोट, ४०७ नोट ।

वशा, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'गाय' का धोतक है। भाष्यकारों के अनुसार इस शब्द से अद्भुता गाय का अर्थ है, किन्तु कुछ स्थलों^३ को छोड़कर अन्यत्र इस भाशय की आवश्यकता नहीं है।

^१ २ ७, ५, ६ ६३, ९, १० ९१, १४, इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद ४ २४, ४, १० १०, २, १२ ४, १, इत्यादि, तैत्तिरीय संहिता २ १, ४, ४ ५, ३ ४, २, २, काठक संहिता १३ ४, इत्यादि ।

^३ अथर्ववेद ७ ११३, २ जहाँ परिचुक्ता (त्यक्त पत्नी) की 'वशा' से तुलना की गयी है। १२ ४ (जहाँ 'वशा' और 'गो' एकान्तरित होते हैं) में इस बात का कोई संकेत नहीं है (अपवाद, मत्र १६, जिम पर तु० की०

ब्रूमफोल्ड : अथर्ववेद का अनुवाद, ६५६, ६५८) कि वशा का अर्थ अद्भुता गाय है। मत्र १६ में ब्राह्मण लोग अपनी गाय को अद्भुता गाय कहते हैं। 'सूत-वशा' (अर्थात् बड़डे का जन्म देने के पश्चात् अद्भुता हो गयी गाय) का तैत्तिरीय संहिता २. १, ५, ४, इत्यादि में उल्लेख है। तैत्तिरीय संहिता २ १, २, २ और तैत्तिरीय ब्राह्मण १ २, ५, २ में अवि के साथ प्रयुक्त 'सूता' वच्चेवाली भेड का धोतक है ।

वसति, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'आवास' अथवा 'गृह' का द्योतक है ।

^१ १ ३१, १५; ५ २, ६ ।

^२ वाजसनेथि संहिता १८. १५, तैत्तिरीय

ब्राह्मण २. ३, ५, ४, ३ ७, ३, ३,
इत्यादि ।

वसन, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में परिधान या वस्त्र का द्योतक है ।

^१ १ ९५, ७ ।

^२ छान्दोग्य उपनिषद् ८ ८, ५, कौषीतकि

उपनिषद् २ १५, निरुक्त ८. ९,
इत्यादि ।

वसन्त का ऋग्वेद^१ और वाद^२ में उल्लेख है । इसको नियमित रूप से वर्ष के प्रथम मास के साथ समीकृत किया गया है । देखिये ऋतु ।

^१ १० ९०, ६, १६१, ४ ।

^२ अथर्ववेद ६ ५५, २, ८ २, २२, १२

१, ३६, इत्यादि ।

वसावि, ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर रौथ^२ के अनुसार 'कोशागार' का द्योतक है ।

^१ १० ७३, ४ ।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० ।

वसिष्ठ, वैदिक परम्परा के सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरोहितों में से एक का नाम है । ऋग्वेद के सातवें मण्डल का इसे ही श्रेय दिया गया है । यह कथन इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि वसिष्ठों^१ और वसिष्ठ^२ का कभी-कभी अन्यत्र के अतिरिक्त इस मण्डल में बहुधा उल्लेख है । जैसा कि और्वेदेनवर्ग^३ व्यक्त करते हैं, वसिष्ठ किसी एक व्यक्ति का नाम होना अत्यन्त असम्भाव्य है; सामान्यतया वसिष्ठ से 'किसी भी वसिष्ठ' का तात्पर्य होना चाहिये । किन्तु इस बात को अस्वीकृत करना भी आवश्यक नहीं कि एक वास्तविक वसिष्ठ

^१ ऋग्वेद ७ ७, ७, १२, ३, २३, ६, ३३,

और वाद, ३७, ४; ३९, ७, ४०, ७,

७६, ६ ७, ७७, ६, ८०, १, ९०, ७,

९१, ७, १० १५, ८, ६६, १४, १२२, ८ ।

^२ ऋग्वेद ७ ९, ६, १३, ४ २१, २२,

३, २३, १, २६, ५, ३३, ११ और

वाद, ४२, ६, ५९, ३, ७०, ६, ७३,

३, ८६, ५, ८८, १; ९५, ६, ९६, १;

१० ६५, १५; १५०, ५, १. ११२, ९ ।

^३ त्सी० गे० ४२, २०४ और वाद । तु०

की० ७ २३, १ (एकवचन) और

मन्त्र ६, (बहुवचन) ।

का अस्तित्व था, क्योंकि एक सूक्त^४ का प्रणेता होने और दस राजाओं के विरुद्ध सुदास् की सहायता करनेवाले के रूप में इसका स्पष्ट उल्लेख है ।

वसिष्ठ के जीवन की सर्वाधिक विशिष्टता प्रत्यक्षतः विश्वामित्र के प्रति विरोधी भावना थी । ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय विश्वामित्र निश्चित^५ रूप से सुदास् का पुरोहित था, किन्तु इस पद से अपदस्थ हो जाने के पश्चात् उसने सुदास् के शत्रुओं के साथ मिल कर सुदास् के विरुद्ध दस राजाओं के साथ युद्ध में भाग लिया था, क्योंकि सुदास् की विजय का वर्णन करनेवाले सूक्त^६ में विश्वामित्र द्वारा अपने मित्रों^७ पर लाये गये सकट का स्पष्ट सन्दर्भ है । फिर भी, औरडेनवर्ग^८ यह विश्वास करते हैं कि ऋग्वेद में विश्वामित्र और वसिष्ठ के बीच कलह का कोई चिह्न नहीं मिलता । दूसरी ओर, गेल्डनर^९ ऋग्वेद^{१०} में इस बात का एक सक्षिप्त विवरण देखते हुए कदाचित् ही ठीक प्रतीत होते हैं कि यहाँ वसिष्ठ के पुत्र शक्ति की विश्वामित्र के साथ प्रतिद्वन्द्विता, विश्वामित्र द्वारा वाक् शक्ति में विशेष प्रवीणता अर्जित करने, तथा विश्वामित्र द्वारा उस प्रतिशोध लेने का विवरण निहित है जिसके लिये उन्होंने सुदास् के सेवकों द्वारा शक्ति की मृत्यु करायी थी । इस विवरण का पङ्गुत्क्षिप्य^{११} द्वारा, जो कि शाठ्यायनक^{१२} में आता है, अधिक पूर्णता के

^४ ऋग्वेद ७ १८।७ ३३ के सम्बन्ध में औरडेनवर्ग और गेल्डनर में मतभेद है। देखिये वेदिशे स्टूटियन, २, १३०। किन्तु इसे सम्भवतः ७ १८ के समान ही प्राचीन कह सकना अथवा ऐसा कि यह वास्तविक रूप से वसिष्ठ का ही उच्चारण है, कदाचित् सन्दिग्ध है।

^५ देखिये ऋग्वेद ३ ३३ ५३, मूहर सस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, ३२८ और वाद।

^६ हॉपकिन्स . ज० अ० ओ० सो०, १५, २६० और वाद ।

^७ उ० पु०, २०४, नोट ३ ।

^८ उ० पु०, २, १५८ और वाद ।

^९ ३ ५३, १५ १६ २१-२४, यह अन्तिम चार प्रसिद्ध 'वसिष्ठद्वेषिण्य' मन्त्र हैं जिनकी निरुक्त के भाष्यकार दुर्ग

व्याख्या नहीं करते क्योंकि वह स्वयं एक कापिष्ठल वसिष्ठ थे (देखिये मूहर उ० पु०, १^२, ३४८, वृद्धेवता ४ ११७ और वाद, मैकटौनेल का टिप्पणी सहित)। इन मन्त्रों का वास्तविक अर्थ सर्वथा अनिश्चित है । देखिये औरडेनवर्ग ऋग्वेद-नोट्स १, २५४ और वाद ।

^{१०} तु० की० ऋग्वेद ७ ३२ पर सायण और सर्वानुकमणि, १०७, मैकटौनेल का संस्करण, वेवर . इन्डिशे स्टूडियन, १, ११९ ।

^{११} देखिये ७ ३० पर अनुक्रमणी में टिप्पणी जहाँ ताण्डक और शाठ्यायनक दोनों का उद्धरण है (मूहर . उ० पु०, १^२, ३२८) ।

साथ उल्लेख किया गया है और जिसका तैत्तिरीय संहिता^{१२} और पञ्चविंश ब्राह्मण^{१३} में भी संक्षिप्त सन्दर्भ मिलता है जहाँ वसिष्ठ के पुत्र का वध कराये जाने और सौदासों पर वसिष्ठ की विजय का उल्लेख है। किन्तु यहाँ इस बात पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है कि इन स्थलों पर वसिष्ठ का वास्तविक विरोधी होने के रूप में स्वयं सुदास् का कोई उल्लेख नहीं है, जब कि ऐतरेय ब्राह्मण^{१४} में सुदास् पैजवन के पुरोहित और अभिषेककर्ता के रूप में वसिष्ठ का उल्लेख है। यास्क^{१५} ने विश्वामित्र को सुदास् का पुरोहित माना है; यह इस वास्तविकता के अनुकूल है कि विश्वामित्र ही इस पद पर प्रतिष्ठित थे। फिर भी, सम्भव है सुदास् के समाप्त हो जाने पर विश्वामित्र ने अपने पद को पुनः प्राप्त कर लिया हो, और उसके बाद अपने पुत्र के वध के प्रतिशोध-स्वरूप वसिष्ठ ने सौदासों को किसी ऐसे रूप में पराजित कराया हो जिसका उल्लेख नहीं है।^{१६}

स्थिति जो कुछ भी हो, यह मानने की कदाचित् ही आवश्यकता है कि सौदासों और वसिष्ठों की शत्रुता स्थायी थी। इस बात का प्रमाण^{१७} उपलब्ध है कि भरतों के पुरोहित वसिष्ठगण ही थे, जब कि एक अन्य उल्लेख^{१८} में

^{१२} ७ ४, ७, १। ३ १, ७, ३. ५ ४, ११, ३ में विश्वामित्र के शत्रु के रूप में भी वसिष्ठ।

^{१३} ४ ७, ३, ८ २, ३, १९ ३, ८, २१ ११, २। उस प्रथा का कौषीतकि ब्राह्मण ४ ८, और जैमिनीय ब्राह्मण १. १५०; ३ २६ ८३ १४९. २०४ में भी उल्लेख है। २. ३९० में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, जैसा शाङ्खायनक (नोट १०) में भी है, कि शक्ति को सौदासों ने आग में फेंक दिया था।

^{१४} ७ ३४, ९, ८ २१, ११। तु० की० शाङ्खायन श्रौत सूत्र १६ ११, १४।

^{१५} निरुक्त २. २४, शाङ्खायन श्रौतसूत्र २६ १२, १३।

^{१६} रौथ • त्सु० वे०, १२१ और बाद, यह विचार करते हैं कि विश्वामित्र को

सेवा-मुक्त कराने में वसिष्ठ-गण अन्ततोगत्वा सफल हो गये थे। वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, १, १२०, ५० रि०, ३४, ने इस पर सन्देह किया था और मूडर : ७० पु०, १^२, ३७१-३७५ समस्या को समाधान के योग्य नहीं मानते। फिर भी रौथ और मूडर दोनों ने भरतों को त्सुओं का शत्रु मानकर समस्या को और जटिल बना दिया, क्योंकि यह किसी भी प्रकार (देखिये त्सु) सम्भव नहीं है, यद्यपि ब्लूमफील्ड . ज० अ० ओ० सो०, १६, ४१, ४२, का भी यही विचार है।

^{१७} पञ्चविंश ब्राह्मण १५. ४, २४, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, १०, ३४।

^{१८} तैत्तिरीय संहिता ३ ५, २, १, काठक संहिता ३७ १७।

वसिष्ठों को सामान्य रूप से प्रजाओं का पुरोहित माना गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वसिष्ठगण इस नियम को ग्रहण करने के प्रवर्तक थे कि यज्ञ के समय पुरोहित को एक 'ब्रह्मन्'^{१९} के रूप में कार्य करना चाहिए; शतपथ ब्राह्मण^{२०} में यह कथन है कि एक समय केवल वसिष्ठगण ही ब्रह्मन् के रूप में कार्य करनेवाले पुरोहित थे, किन्तु बाद में कोई भी पुरोहित इस रूप में कार्य कर सकता था।^{२१} तैत्तिरीय संहिता^{२२} में जमदग्नि और विश्वामित्र के बीच एक प्रतिद्वन्द्विता का उल्लेख है। ऋग्वेद^{२३} में प्रत्यक्षतः, जैसा कि गोल्डनर^{२४} का विचार है, पराशर और शतयातु को पौत्र और पुत्र के रूप में वसिष्ठ के साथ सम्बद्ध किया गया है। पिशल^{२५} के अनुसार एक अन्य सूक्त^{२६} में वसिष्ठ अपने पिता वरुण की सम्पत्ति चुराने का प्रयत्न करते हैं; गोल्डनर^{२७} भी यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि ऋग्वेद^{२८} में वसिष्ठ के वरुण और अप्सरा उर्वशी के पुत्र होने का स्पष्ट सन्दर्भ है। सम्भवतः यह इस तथ्य की व्याख्या कर देता है कि ऋग्वेद^{२९} के स्थल पर वसिष्ठों को तृत्सु कहा गया है; क्योंकि एक अद्भुत रूप से जन्म लेने के कारण वसिष्ठ को एक गोत्र प्राप्त करने की आवश्यकता थी, और इसीलिये उन्होंने अपने उन प्रतिपालक राजाओं का गोत्र ग्रहण कर लिया जिनसे अगस्त्य ने इनका परिचय कराया था।

^{१९} शुनःशेष के यज्ञ में वसिष्ठ एक ब्रह्मन् थे, ऐतरेय ब्राह्मण ७ १६; शाङ्खायन श्रौत सूत्र १५ २१, ४।

^{२०} १२. ६, १, ४१। तु० की० ४ ६, ६, ५।

^{२१} षड्विंश ब्राह्मण १ ५, वेवर . इन्डिशे स्टूडियन, १०, ३५।

^{२२} ३ १, ७, ३। तु० की० नोट ११।

^{२३} ७ १८, २१।

^{२४} वेदिशे स्टूडियन, २, १३२।

^{२५} वेदिशे स्टूडियन २, ५५ और बाद।

^{२६} ७ ५५। ऑफरोल्त : इन्डिशे स्टूडियन

४ ३३७, ने इस सूक्त में एक कन्या के पास किसी प्रेमी के आगमन का सन्दर्भ माना है। तु० की० लैनमैन : सस्कृत रीडर ३७०, बृहद्देवता ६ ११, मैकडौनेल की टिप्पणी सहित।

^{२७} वेदिशे स्टूडियन, २, १३८। देखिये निरुक्त ५ १३ भी; मूडर : सस्कृत टेक्स्ट्स १^२, २३१, नोट ९७, बृहद्देवता ५ १५० १५१।

^{२८} ७ ३३, ११।

^{२९} ७ ८३, ८।

एक ऋषि के रूप में वसिष्ठ के, वैदिक साहित्य^{३०}, सूत्रों^{३१} और उस महाकाव्य में भी, अनेक सन्दर्भ हैं जिनमें यह और विश्वामित्र अपनी प्रतिद्वन्दिता^{३२} के फलस्वरूप युद्ध करते हैं ।

^{३०} ऋग्वेद १, ११२, ९, ७ ८८, ४, ९६, ३, १० ९५, १७, १८१, १, काठक संहिता १६ १९, २० ९; ३२ २ (इन्डिशे स्टूडियन, ३, ४७८), मैत्रायणी संहिता १. ४, १२, २. ७, ९; ४ २, ९, तैत्तिरीय संहिता ५ २, १०, ५, अथर्ववेद ४ २९, ४, ऐतरेय ब्राह्मण ६ १८, ३; कौषीतकि ब्राह्मण २६ १४, २९ २ ३, ३०. ३, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण ३ ३, १३, १५, २, १८, ६, ऐतरेय आरण्यक २ २, २, बृहदारण्यक उपनिषद् २.

२, ४, इत्यादि ।

^{३१} देखिये वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १०, ८९-९२, ए० रि०, ३५ ।

^{३२} मुहर . सस्कृत टेक्स्ट्स १^२, ३७५-४१४ ।

तु० की० लुडविग . ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १३१ और वाद; वेवर ए० रि० ३१-३४, इन्डियन लिटरेचर ३१, ३७, ५३, ७९, १२३, १६२; औल्डेनबर्ग : त्सी० गे० ४२, २०४-२०७ ।

वसु ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'सम्पत्ति' अथवा 'धन' का द्योतक है ।

^१ ४ १७, ११ १३, २०, ८, ६ ५५, ३, ८ १३, २२, इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद ७ ११५, २; ९ ४, ३; १० ८, २०, १४. २, ८ इत्यादि ।

वसुक्र तथा इसकी पत्नी ऋग्वेद^१ के कुछ सूक्तों के प्रसिद्ध प्रणेता हैं । यह कथन ऋग्वेद के आरण्यक^२ में मिलता है ।

^१ १०, २७-२९ ।

आरण्यक, १ ३ ।

^२ ऐतरेय आरण्यक १. २, २, शाङ्खायन

वसु-रोचिस् एक नाम है जो ऋग्वेद^१ में केवल एक बार इस रूप में आता है कि इसकी या तो एकवचन अथवा बहुवचन में व्याख्या की जा सकती है । प्रथम विकल्प की दशा में यह गायकों के एक परिवार का द्योतक है^२, और द्वितीय में एक प्रतिपालक का ।^३

^१ ८. ३४, १६ ।

^२ लुडविग . ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६२

^३ ग्रिफिथ : ऋग्वेद के सूक्त, २, १७५, नोट ।

वस्तु, समय के वाचक के रूप में, ऋग्वेद^१ में प्रातःकाल का द्योतक है ।

^१ २ ७९, ६, १०४, १, १७९, १, इत्यादि । इसी प्रकार वाजसनेथि संहिता २८,

१२ । तु० की० तिसमर : आस्टिन्डिशे लेबेन, ३६१ ।

वस्त्र ऋग्वेद^१ और वाद^२ में परिधान अथवा पहनने के कपड़ों का द्योतक है । देखिये वासस् ।

^१ १ २६, १, १२४, ४, ३ ३९, २, ५ | ^२ अथर्ववेद ५ १, ३, ९ ५, २५, १२. २९, १५, इत्यादि । | ३, २१, इत्यादि ।

वस्त्र ऋग्वेद^१ और वाद^२ में किसी वस्तु के 'मूल्य' अथवा 'दाम', अथवा क्रय किये जानेवाले पदार्थ के रूप में स्वयं किसी वस्तु का ही द्योतक है ।

^१ ४ २४, ९, जहाँ 'भूयसा वस्त्र अचरत् कनीय' का अर्थ 'उसने अधिक मूल्य पर कम दाम की वस्तु प्राप्त किया' है । ठीक ठीक आशय के लिये तु० की० औल्डेनबर्ग : ऋग्वेद नोट्स, १, ४१९, ४२० ।

जहाँ 'इम उपकरणों की ही माँति भोजन और पेय का विनिमय करें', आशय है ।

तु० की० 'बलिना' (मूल्य के उपयुक्त), पञ्चविंश ब्राह्मण १४ ३, १३ में ।

^२ अथर्ववेद १० २, ३६ (मूल्य)=वाजसनेयि सहिता ३ ४९ = तैत्तिरीय सहिता १ ८, ४, १, काठक सहिता ९ ५, मैत्रायणी सहिता १ १०, २,

तु० की० तिस्र आल्टिन्डिशे लेवेन, २४७, श्रेडर. प्रिहिस्टोरिक एन्टीकितोज, ३८२ ।

वहतु ऋग्वेद^१ और वाद^२ में पिता के घर से पति के घर वधू को ससमारोह ले जाने के संस्कार का नियमित नाम है ।

^१ १ १८४, ३, ४ ५८, ९, १० १७, १ | ^२ अथर्ववेद १०. १, १, १४ २, ९ १०. ६६ ७३, ऐतरेय ब्राह्मण ४ ७ १; तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ५, १, २ ।

वह्नि गाड़ी में जोते जानेवाले किसी भी पशु, जैसे अश्व^१, वकरा,^२ अथवा बैल^३ का द्योतक है ।

^१ ऋग्वेद २ २४, १३, ३७, ३, ३ ६, २, इत्यादि । | ^२ ऋग्वेद ६ ५७, ३ ।

^३ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ८, २, ५, इत्यादि ।

वह्य ऋग्वेद^१ और अथर्ववेद^२ में स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त शय्या अथवा किसी अन्य प्रकार के विश्राम करने के स्थान का द्योतक है ।

^१ ७ ५५, ८ । | ^२ की० तिस्र आल्टिन्डिशे लेवेन, १५४ ।

^२ ४ ५, ३, २०, ३, १४. २, ३० । तु०

वाको-वाक्य (वार्त्तालाप) ब्राह्मणों^१ में वैदिक संहिताओं के कुछ अंशों को दिया गया नाम है। एक स्थान^२ पर ब्रह्मोद्य को एक वार्त्तालाप कहा गया है; सम्भवतः सभी स्थलों पर इस शब्द से ब्रह्मोद्य का ही अर्थ है। गेल्डनर का मत^३ इससे भिन्न है : आप वाकोवाक्य को इतिहास-पुराण का एक अनिवार्य अङ्ग मानते हैं जो उनके वर्णनात्मक अंशों के विपरीत वार्त्तालाप अथवा नाटकीय अंशों को व्यक्त करता है।

^१ शतपथ ब्राह्मण ४ ६, ९, २०, ११ ५,
६, ८, ७, ५, छान्दोग्य उपनिषद्
७ १, २ ४, २, १, ७, १।

^२ शतपथ ब्राह्मण ४ ६, ९, २०।

^३ वेदिशे स्ट्रुडियन, १, २९१।

तु० की० वेवर : इन्डिशे स्ट्रुडियन,

१, २६७, एग्लिङ्ग . से० बु० ई०,
४४, ९८, नोट ३। यह निश्चित है कि
इससे तर्कशास्त्र का अर्थ नही है,
यद्यपि मैक्समूलर छान्दोग्य के अपने
अनुवाद में इसको इसी प्रकार ग्रहण
करते हैं।

वाच्, वैदिक कल्पनाओं में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, किन्तु इससे सम्बद्ध थोड़े से विषयों का पुराकथाशास्त्रीय के अतिरिक्त कुछ और महत्त्व है। शतपथ ब्राह्मण^१ में वाच् को चार प्रकारों में विभक्त किया गया है—मनुष्यों का, पशुओं का, पक्षियों (वयांसि) का और छोटी रेंगनेवाली वस्तुओं का (छुद्रं सरीसृपम्)। संहिताओं^२ में वाच् का विभेद करने अथवा उसे स्फुट बनाने का इन्द्र को श्रेय दिया गया है। तूणव, वीणा, दुन्दुभि^३ आदि वाद्य-यंत्रों का, और एक संहिता^४ में रथ के धुरे की चाणी का भी उल्लेख है। कुरु-पञ्चालों की चाणी^५ की, और कौषीतकि

^१ ४ १, ३, १६। काठक संहिता १४ ५,
मैत्रायणी संहिता १ ११, ५ में सर्वथा
भिन्न विवरण हैं। औल्डेनवर्ग . ऋग्वेद
८ १०० में इस कथा के आरम्भ का
सकेत देखते हैं। किन्तु देखिये फॉन
श्रोडर . मिस्टीरियम उन्ट माइमस,
३३९ और वाद, कीय ज० ए० सो०,
१९११, ९९३ और वाद।

^२ तैत्तिरीय संहिता ६ ४, ७, ३, मैत्रायणी
संहिता ४. ५, ८।

^३ पञ्चविंश ब्राह्मण ६ ५, १०-१३; तैत्ति-
रीय संहिता ६, १, ४, १; मैत्रायणी

संहिता ३. ६, ८, काठक संहिता
२३. ४।

^४ पञ्चविंश ब्राह्मण उ० स्था०।

^५ शतपथ ब्राह्मण ३ २, ३, १५। इस
कठिन वाक्पद ने आशय के सम्बन्ध
में कुछ सन्दिग्धता उत्पन्न कर दी है,
क्योंकि 'उत्तराहि वाग् वदति कुरुपञ्चा-
लत्रा' का सम्भवतः कुरु-पञ्चालों में
उत्तरस्थों की भाषा' अर्थ हो सकता है
और इस अर्थ की एग्लिङ्ग : से० बु०
ई०, १२, xlii, नोट १, में उद्धृत
काण्व शाखा के पाठ द्वारा कुछ पुष्टि

होती है। फिर भी यहाँ यह शाखा केवल अस्पष्ट ही नहीं है वरन् कुरुओं को उत्तरी महावृषों (अतः हमें 'महाविशेषु' के रूप में सशोधन करना चाहिए) सयुक्त करती प्रतीत होती है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। एग्लिङ्ग द्वारा 'उत्तराहि' को 'स्वर में उच्च' आशय में ग्रहण करके कठिनाई दूर करने का प्रयास सतोपजनक नहीं है। सर्वसम्भव समाधान वेवर (इन्डिशे

स्टूडियन, २, १९१) का है जो 'कुरु-पञ्चालप्रा' को 'कुरुपञ्चालों के बीच' अर्थ में ग्रहण करते हैं, जो इसे एक अच्छा आशय प्रदान करता है, मुख्यतः उस समय जब हम यह स्मरण रखें कि उत्तरी लोग सम्भवतः काश्मीर के उत्तर-कुरुस् में बसे थे, जो संस्कृत का गृह प्रतीत होता है (तु० की० फ्राके पालि उन्ट संस्कृत ८९)।

ब्राह्मण^६ के अनुसार उत्तर-देश के लोगों के वाणी की इतनी अधिक प्रसिद्धि थी कि लोग उनकी भाषा सीखने के लिये जाते थे। दूसरी ओर भाषा की असम्भ्यता भी ज्ञात थी जिससे वचना होता था।^७

वाच् का एक विभेद 'दैवी' और 'मानुषी' के रूप में किया गया है जिसके कुछ उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे 'तथा' का दिव्य प्रतिरूप 'ओम्', इत्यादि। ऐसा कथन है कि ब्राह्मण इन दोनों से परिचित होता है;^८ यह संस्कृत और अपभ्रंश के बीच किया गया विभेद नहीं है, जैसा कि सायण^९ मानते हैं, वरन् सूक्तों और संस्कार सम्बन्धी साहित्य की संस्कृत, और साधारण जीवन की संस्कृत के बीच के विभेद का तात्पर्य है।

^६ ७ ६।

^७ शतपथ ब्राह्मण ३. २, १, २३ २४ जहाँ असुरों का, सम्भवतः 'हेऽरय' के स्थान पर 'हेऽलव.' कहनेवालों के रूप में वर्णन किया गया है। किन्तु काण्व शाखा इससे भिन्न है। देखिये एग्लिङ्ग से० बु० ई०, २६, ३१, नोट ३।

^८ देखिये काठक संहिता १४ ५, मैत्रायणी संहिता १ ११, ५ (जहाँ 'यश् च वेद वश् च न', शब्द 'दैवी' और

'मानुषी' के साधारण विभेद के स्थान पर आते हैं; सम्भवतः 'वेदो' पठना चाहिए), शतपथ ब्राह्मण ६ २, १, ३४; ऐतरेय ब्राह्मण ७ १८, २३, ऐतरेय आरण्यक १ ३, १; निरुक्त १३. ९, इत्यादि में एक ब्राह्मण।

^९ काठक संहिता उ० स्था०; मैत्रायणी संहिता उ० स्था०, इत्यादि।

^{१०} देखिये एग्लिङ्ग : से० बु० ई० ४१, २००, नोट ६।

आर्यों^{११} और ब्राह्मणों^{१२} की भाषा का भी उल्लेख है, जिससे अनार्य भाषाओं के विपरीत संस्कृत भाषा का अर्थ प्रतीत होता है। ब्राह्मणों का अ-दीक्षित होते हुये भी दीक्षित-वाच् बोलनेवालों के रूप में उल्लेख है, जो सरलतापूर्वक उच्चारण करने योग्य भाषा को (अ-दुस्क्त) कठिनता से उच्चारण करने वाली भाषा कहते हैं।^{१३} इसका यह अर्थ हो सकता है कि ब्राह्मण-जातियों की अपेक्षा अब्राह्मण भारतीय अधिक शीघ्रता से प्राकृत भाषा की ओर अग्रसर हो रहे थे। यह उस दशा में और भी सम्भव होगा जब हम शतपथ ब्राह्मण^{१४} के अनुसार ब्राह्मणों को वर्बर भाषा बोलनेवालों के साथ सम्बद्ध कर दें।

^{११} ऐतरेय आरण्यक ३ २, ५, शाङ्खायन आरण्यक ८ ९।

^{१२} ऐतरेय आरण्यक १ ५, २।

^{१३} पञ्चविंश ब्राह्मण १७ १, ९।

तु० की० लेवी ल डॉक्ट्रिन डु सैक्रीफाइस, ३४, ३५, वेवर. इन्डियन लिटरेचर, १७५-१८०, कीथ ऐतरेय आरण्यक, १७९, १८०; १९६।

वाचकवी ('वचकनु' का वंशज) एक स्त्री का पैतृक नाम है, जिसके साथ एक और, 'गार्गी' पैतृक नाम भी, जुड़ा है। यह बृहदारण्यक उपनिषद्^१ में ब्रह्मजिज्ञासु के रूप में आती है।

^१ ३ ६, १, ८, १। तु० की० आश्रमलायन गृह्य सूत्र ३ ४, ४, शाङ्खायन गृह्य सूत्र, ४. १०, अथर्ववेद परिशिष्ट ४३. ४, २३।

वाज—अश्वों के लिये प्रयुक्त 'शक्ति' अथवा 'गति' का अर्थ रखनेवाला यह शब्द 'दौढ़'^२, और 'पुरस्कार'^३, अथवा केवल 'सम्पन्नता'^४ का द्योतक है। कहीं भी इससे अश्व का आशय होना नितान्त असम्भव है, क्योंकि यह आशय वाजिन्^५ से व्यक्त होता है।

^२ ऋग्वेद २. २३, १३, ३ ११, ९, ३७, ६, ४३, ६, ५ ३५, १, ८६, २, इत्यादि।

^३ ऋग्वेद १. ६४, १३, २ २६, ३, ३१ ७, ३ २, ३, ८ १०३, ५, इत्यादि।

^४ ऋग्वेद १ २७, ५, ९२, ७, ६ ४५, २१ २३, इत्यादि, अथर्ववेद १३. १,

२२, पञ्चविंश ब्राह्मण १८. ७, १ १२।
^५ देखिये पिशाल : वेदिशे स्टूडियन १, १० और वाद, जहाँ आप अन्यथा सेण्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०, ८, द्वारा उद्धृत सभी स्थलों की इसी आशय में व्याख्या करते हैं।

वाजपेय, एक ऐसे यज्ञ का नाम है जो शतपथ ब्राह्मण^१ और बाद के प्रमाणों^२ के अनुसार केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा ही किया जाता है। इसी ब्राह्मण^३ में यह भी कथन है कि यह यज्ञ राजसूय से श्रेष्ठ है, किन्तु अन्य प्रमाणों^४ ने इसे केवल ब्राह्मण की दशा में वृहस्पतिसव का आरम्भिक यज्ञ और राजा की दशा में राजसूय का आरम्भिक यज्ञ बताया है, जब कि शतपथ^५ वृहस्पतिसव को वाजपेय के साथ समीकृत करने के लिये बाध्य है। इस यज्ञ का अनिवार्य समारोह रथ की दौड़ होता था जिसमें यज्ञ-कर्त्ता विजयी बनाया जाता था। शाङ्खायन श्रौत सूत्र^६ में ऐसा व्यक्त करने के प्रमाण उपलब्ध हैं कि किसी समय यह उत्सव ऐसा होता था जिसे केवल आर्य ही कर सकते थे। वास्तव में हिलेब्रान्ट^७ तो इसकी ओलम्पिक खेलों तक से तुलना करते हैं; किन्तु इसके लिये कदाचित् ही पर्याप्त आधार हैं : यह संस्कार केवल एक रथ की दौड़ की पुरातन प्रथा के आधार पर विकसित होकर ऐसे समारोह में परिणत हो गया था, जिसमें सहानुभूतिक अभिचारों द्वारा यज्ञ-कर्त्ता को विजयी बनाया जाता था। वस्तुतः एग्लिङ्ग^८ इस विचार में ठीक प्रतीत होते हैं कि वाजपेय एक ऐसा आरम्भिक संस्कार होता था, जिसे विधिवत् पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित होने के पूर्व ब्राह्मण को, और अभिषेक के पूर्व राजा को करना होता था। कुरु का वाजपेय विशेष रूप से प्रसिद्ध था।^९

^१ ५ १, ५, २ ३।

^२ देखिये वेवर : ऊवर डेन राजसूय, हिलेब्रान्ट . रिचुअल लिटरेचर, १४७ और बाद।

^३ ५ १, १, १३, कात्यायन श्रौत सूत्र १५ १, १ २।

^४ तैत्तिरीय संहिता ५ ६, २, १, तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ७, ६, १, आश्वलायन श्रौत सूत्र ९ ९, १९, लाट्यायन श्रौत सूत्र

८. ११, १, इत्यादि।

^५ ५ २, १, २। तु० की० कात्यायन श्रौत सूत्र १४ १, २।

^६ १५ १। देखिये वेवर . ३० पु०, ४१ और बाद।

^७ वेदिशे माह्योलोजी, १, २४७।

^८ से० बु० ई०, ४१, xxxiv, xxv।

^९ शाङ्खायन श्रौत सूत्र १५ ३, १४ और बाद, आपस्तम्ब श्रौत सूत्र १८ ३ ७

वाज-वन्धु, ऋग्वेद के एक मंत्र (८. ६८, १९) में एक व्यक्तित्वाचक नाम हो सकता है। फिर भी, यह केवल एक विशेषण ही हो सकता है जिसका अर्थ 'संघर्ष में मित्र' है।

वाज-रत्नायन ('वाजरत्न' का वंशज) ऐतरेय ब्राह्मण (८. २१, ५) में सोमशुष्मन का पैतृक नाम है ।

वाज-श्रवस् का बृहदारण्यक उपनिषद्^१ के अन्तिम वंश (गुरुओं की तालिका) में जिह्वावन्त वाध्योग के शिष्य के रूप में उल्लेख है ।

^१ ६ ४, ३३ (माध्यन्दिन = ६ ५, ३ काण्व) ।

वाज-श्रवस (वाजश्रवस् का वंशज) शतपथ ब्राह्मण^१ में कुश्रि का पैतृक नाम है । यह तैत्तिरीय ब्राह्मण^२ में नचिकेतस् के पिता का भी पैतृक नाम है, जहाँ नाम का रूप प्रत्यक्षतः उशन्त है यद्यपि सायण ने इसे 'इच्छा करना' के आशय वाले एक कृदन्त के रूप में ग्रहण किया है । तैत्तिरीय ब्राह्मण में वाजश्रवसों को ऋषि कहा गया है ।^३ यह लोग गोतम थे ।^४

^१ १० ५, ५, १ ।

^२ ३ ११, ८, १ । तु० की० कठ उपनिषद्
१ १, विभिन्न नामों के साथ, जिस पर
देखिये वेबर : इन्डियन लिटरेचर

१ ५७, नोट ।

^३ १ ३, १०, ३ ।

^४ तु० की० तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ११, ८ ।

वाजसनेय, बृहदारण्यक उपनिषद्^१ और जैमिनीय ब्राह्मण^२ में याज्ञवल्क्य का पैतृक नाम है । इसकी परम्परा, वाजसनेयिनों, का सूत्रों^३ में उल्लेख है ।

^१ ६ ३, १५, ४, ३३ (माध्यन्दिन = ६
३, ७, ५, ३ काण्व) ।

^२ ० ७६ (ज० अ० ओ० सो०, १५.
२३८) ।

^३ अनुपद सूत्र ७ १२, ८ १ । तु० की०

वेबर : इन्डिशे स्टूडियन, १, ४४,
५३, ८३, २८३; २, ९, ४, १४०,
२५७, ३०९; १०, ३७, ७६, ३९३,
इत्यादि ।

वाजिन्, ऋग्वेद^१ के अनेक स्थलों पर सिप्रता और शक्ति के सन्दर्भ में अश्वों का द्योतक है । एक स्थल^२ पर सम्भवतः, जैसा कि लुदविग^३ का विचार है, यह बृहदुक्थ के पुत्र का व्यक्तिवाचक नाम है, किन्तु यह विचार बलात् लादा गया ही प्रतीत होता है ।

^१ २ ५, १, १०, १, ३६, ७, ३ ५३,
२३, ६. ७५, ६, १० १०३, १०,
इत्यादि ।

^२ १०. ५६, २।

^३ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १३३ ।

वाजिन, वाद की संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में गर्भ दूध और दधि के मिश्रण का द्योतक है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता १. ६, ३, १०, वाजस-
नेयि संहिता १९. २१. २३ ।

^२ शतपथ ब्राह्मण २ ४, ४, २१, ३ ३,
३, २, ९ ५, १, ५७ इत्यादि ।

तु० की० एगिल्ल^३ से० बु० ई०,
१०, ३८^४, नोट, गर्बे आपस्तम्ब
श्रौत सूत्र, ३, ४४५, इसे 'दधिमण्ड'
मानते हैं ।

वाज्य ('वाज' का वंशज) वंश ब्राह्मण^१ में केतु का पैतृक नाम है ।

^१ इण्डिशे स्टूडियन, ४, ३७०, ३८३ ।

वाडेयी-पुत्र—देखिये वाडेयीपुत्र ।

वाण, ऋग्वेद^१ और अथर्ववेद^२ में, सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश के अनुसार, 'वाद्य-संगीत' का द्योतक है । किन्तु वाद^३ की संहिताओं^३ और ब्राह्मणों^४ में यह महाव्रत समारोह के समय प्रयुक्त सौ तारों वाली (शत-तन्तु) 'एक प्रकार की वीणा' का द्योतक है । ऋग्वेद^५ में इस वाद्य-यन्त्र की सात 'धातुओं' का स्पष्ट उल्लेख है जिन्हें ही अन्यत्र^६ सात 'वाणियाँ' कहा गया है । यदि इस वाद की व्याहृति से 'छन्द'^७ का आशय माना जाय तो यह प्रथम (धातु) से भिन्न हो सकती है ।

^१ १ ८५, १०, ८ २०, ८, ९ ९७, ८,
१० ३२, ४ । तु० की० हॉपकिन्स .
ज० अ० ओ० सो०, १७, ६७ ।

^२ १० २, १७ ।

^३ तैत्तिरीय संहिता ७ ५, ९, २, काठक
संहिता ३४ ५ ।

^४ पञ्चविंश ब्राह्मण ५ ६, १२, १४ ७, ८,
पैतरेय आरण्यक ५ १, ४, इत्यादि ।

^५ १० ३०, ४ ।

^६ १ १६४, २४, ३. १, ६, ७, १, ९
१०३, ३, इत्यादि ।

^७ मैकटौनेल वैदिक ग्रामर, ६४ ।

तु० की० तिसर आस्टिन्डिशे
लेवेन, २८९, जिनका विचार है कि
ऋग्वेद १. ८५, १०, में इससे 'वशी'
का अर्थ है, किन्तु अनिवार्यत नहीं ।
मैक्स मूलर (से० बु० ई०, ३२, १३८)
इसका १. ८५, १०, ९ ९७, ८, में
'वाणी' और ८ २०, ८, ९ ५०, १,
में 'वाण' अनुवाद करते हैं, और ९
५०, १ के लिए वॉटलिङ्क कोश, व०
स्था० १, 'वाण', में यही आशय
स्वीकार किया गया है ।

वाणिज, यजुर्वेद^१ में पुरुषमेघ के वलिप्राणियों की तालिका में पैतृक व्यवसाय करनेवाले के रूप में 'व्यवसायी' (वाणिज् का पुत्र) का द्योतक है ।

^१ वाजसनेयि संहिता ३० १७, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३ ४, १४, १ ।

वाणी—देणिये वाणी ।

वाणीची, ऋग्वेद के एक मन्त्र (५. ७५, ४) में आता है जहाँ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश ने इसे एक 'वाद्य-यन्त्र' का आशय प्रदान किया है ।

वात, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'वायु' के लिये प्रयुक्त नियमित शब्द है । पाँच 'वातों' का उल्लेख है ।^३ एक स्थल^४ पर त्सिमर^५ ने इसमें उत्तर-पूर्वी वर्षा-वात (मॉनसून) का आशय देखा है । तु० की० सलिलवात ।

^१ १ २८, ६, २, १, ६, ३८, ३, ३, १४, ३ इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद ४ ५, २, ५ ५, ७, १२ १, ५१, इत्यादि ।

^३ तैत्तिरीय संहिता १ ६, १, २; काठक

संहिता ३२ ६ ।

^४ ऋग्वेद ५ ५३, ८ ।

^५ आल्टिन्डिशे लेवेन, ४५, जो ऋग्वेद १० १३७, २ की भी तुलना करते हैं, जहाँ दो वातों का सन्दर्भ है ।

वात-पान (वायु-रक्षक) से तैत्तिरीय संहिता (६. १, १, ३) में प्रत्यक्षतः किसी ऐसे परिधान का द्योतक है जो वायु के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता था ।

वात-रक्षण ऋग्वेद^१ में मुनियों के लिये तथा तैत्तिरीय आरण्यक^२ में ऋषियों के लिये व्यवहृत हुआ है । इससे प्रत्यक्षतः उन नग्न तपस्वियों का आशय है जो वाद के भारतीय धर्म में सर्वत्र ज्ञात हैं ।

^१ १० १३६, २ ।

^२ १ २३, २, २४, ४, २ ७, १ । वेवर • इन्डिशे स्टूडियन १ ७८, यद्यपि

विना पर्याप्त आधार के ही इस शब्द को एक व्यक्तिवाचक नाम मानने के लिए प्रवृत्त थे ।

वातवन्त, पञ्चविंश ब्राह्मण (२५. ३, ६) में एक ऋषि का नाम है । इसने तथा दृति ने किसी यज्ञ-सत्र का आयोजन किया था, किन्तु एक विशेष समय पर ही सत्र को समाप्त कर देने के कारण इसे कष्ट का सामना करना पड़ा और इसके वंशज, वातवत-गण, दार्तेयों की अपेक्षा कम सम्पन्न हो सके ।

वातवत (वातवन्त का वंशज) ऐतरेय ब्राह्मण^१ में वृषशुष्म का पैतृक नाम है । कौपीतकि ब्राह्मण^२ में यह नाम एक विभेदात्मक रूप 'वाधावत' के साथ आता है ।

^१ ५ २९ । तु० की० इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७३ ।

^२ २ ९ ।

वात्सि (वत्स का वंशज) ऐतरेय ब्राह्मण (६. २४, १६) में सर्पिं का पैतृक नाम है ।

वात्सी-पुत्र (वत्स के एक स्त्री-वंशज का पुत्र) का, एक गुरु के रूप में बृहदारण्यक उपनिषद् के अन्तिम वंश में उल्लेख है, जहाँ काण्व शाखा (६. ५, २) के अनुसार यह पाराशरीपुत्र का, और माध्यन्दिन शाखा (६. ४, ३१) के अनुसार भारद्वाजीपुत्र का शिष्य है ।

वात्सी-माण्डवी-पुत्र, बृहदारण्यक उपनिषद् की माध्यन्दिन शाखा (६. ४, ३०) के अन्तिम वंश के अनुसार पाराशरीपुत्र के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

वात्स्य (वत्स का वंशज) एक अथवा अधिक गुरुओं का नाम है । एक का शाखायन आरण्यक^१ में उल्लेख है, जहाँ ऐतरेय आरण्यक^२ के समानान्तर स्थल पर वाध्व है । अन्य का बृहदारण्यक उपनिषद् के वंशों में कुश्चि^३, शाण्डिल्य^४, अथवा एक दूसरे वात्स्य^५ के शिष्य के रूप में उल्लेख है, जब कि शतपथ ब्राह्मण^६ में भी एक वात्स्य का उल्लेख मिलता है ।

^१ ८ ३ ।

^२ ३ २, ३ ।

^३ ६ ५, ४ काण्व ।

^४ २ ५, २२; ४ ५, २८ (माध्यन्दिन =

२ ६, ३, ४ ६, ३ काण्व), शतपथ

ब्राह्मण १०. ६, ५, ९ ।

^५ २ ५, २०, ४ ५, २६ काण्व ।

^६ ९ ५, १, ६२ ।

वात्स्यायन (वात्स्य का वंशज), तैत्तिरीय आरण्यक (१. ७, २) में एक गुरु का नाम है ।

वादन, ऋग्वेद के आरण्यकों^१ में वीणा की 'तंत्रि-वर्षणी' का द्योतक है ।

^१ ऐतरेय आरण्यक ३ २, ५, शाङ्खायन आरण्यक ८ ९, शाङ्खायन श्रौत सूत्र १७, ३, १४, इत्यादि ।

वादित, छान्दोग्य उपनिषद् (८. २, ८) में 'गीत-वादित' (गायन और संगीत) समस्त पद में, तथा कौषीतकि ब्राह्मण (२९. ५) में असमस्त रूप में नृत्य और 'गीत' के साथ-साथ 'सगीत' का द्योतक है । देखिये शिल्प ।

वाधावत, कौषीतकि ब्राह्मण^१ में वातावत का एक विभेदात्मक पाठ है ।

^१ २ ९ । तु० की० वेवर : शब्दशे स्टूडियन, १, २१५, नोट, २, २९३, नोट ।

वाधूय, वधू के उस परिधान का द्योतक है जिसे वह विवाह-संस्कार के समय धारण करती थी, किन्तु जिसे बाद में किसी ब्राह्मण को दे दिया जाता था ।^१

^१ ऋग्वेद १० ८५, ३४; अथर्ववेद १४, २, ४२ । तु० की० कौशिक सूत्र ७९ | २१, आश्वलायन गृह्य सूत्र, १ ८, १०, इत्यादि ।

वाधूयश्च (वधूयश्च के साथ सम्बद्ध) ऋग्वेद (१०. ६९, ५) में प्रत्य-
क्षतः अग्नि की एक उपाधि है ।

वानस्पत्य (पुल्लिङ्ग रूप में) अथर्ववेद^१ के दो स्थलों पर एक 'छोटे-वृत्त'
का द्योतक प्रतीत होता है । अन्यत्र^२ (स्त्रीव रूप में) इसमें 'वृत्त के फल'
(वनस्पति) का आशय निहित है ।

^१ ८ ८, १४, ११ ९, २४ । तु० की० | ^२ शतपथ ब्राह्मण ११ १, ७, २, ३, १, ३;
१० १, २७ । | ऐतरेय ब्राह्मण ८ १६, १ ।

वाम-कक्षायणा, शतपथ ब्राह्मण में वात्स्य^१ अथवा शाण्डिल्य^२ के शिष्य,
एक गुरु का नाम है ।

^१ १० ६, ५, ९ । तु० की० ७ २, १, ११ | तु० की० शतपथ ब्राह्मण १०.
^२ बृहदारण्यक उपनिषद् ६ ५, ४ काण्व । | ४, १, ११ ।

वाम-देव को परम्पराओं द्वारा ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के प्रणयन का
श्रेय^३ दिया गया है, और इसका एक बार इसी मण्डल में उल्लेख^४ भी है ।
इसके अतिरिक्त यजुर्वेद संहिताओं^५ में इसे उक्त मण्डल के चौथे सूक्त के प्रणयन
का श्रेय दिया गया है । यहाँ यह गोतम के पुत्र के रूप में आता है, जब कि
ऋग्वेद^६ के चतुर्थ मण्डल के एक सूक्त में गायक के पिता के रूप में गोतम
का उल्लेख है, तथा एक अन्य^७ में, गोतम गण इन्द्र की स्तुति करते हुये आते
हैं । बृहद्देवता^८ में वामदेव के सम्बन्ध में असगत कथाओं का उल्लेख है । एक
कथा में ऐसा वर्णन है कि जब यह ऋषि कुत्ते की अंतर्द्विया पका रहा था तो
इसके सम्मुख इन्द्र एक श्येन पक्षी के रूप में प्रकट हुये थे, एक अन्य में
इन्द्र के विरुद्ध इसके सफल संघर्ष तथा ऋषियों को इन्द्र का विक्रय कर देने

^१ ऐतरेय आरण्यक २ २, १ इत्यादि ।

^२ ४ १३, १८ ।

^३ काठक संहिता १०. ५, मैत्रायणी संहिता
२ १, १३, ३. २, ६ ।

^४ ४ ४, ११ ।

^५ ४ ३२, ९. १२ ।

^६ ४ १२६, १३१ और बाद, मैकडॉनेल
की टिप्पणी सहित ।

का उल्लेख है। सीग^७ ने इन कथाओं को ऋग्वेद^८ में ढूंढने का प्रयास किया था किन्तु सफलता नहीं मिली। इसके अतिरिक्त, यद्यपि वामदेव का अथर्ववेद^९ और अक्सर ब्राह्मणों^{१०} में भी उल्लेख है, तथापि वह यहाँ कभी भी इन कथाओं के नायक के रूप में नहीं आता।

^७ सा० ऋ० ७६ और वा० ।

^८ ऋग्वेद ४ २७ और ४ २४। प्रथम सूक्त पर देखिये औरडेजदरग ऋग्वेद नोटन १, २९१ और वा०, द्वितीय के लिये वही ४१९ और वा० ।

^९ देखिये अथर्ववेद १८, ३, १५, १६।

^{१०} ऐतरेय ब्राह्मण ४ ३०, २, ६ १८, १ २, ऐतरेय आरण्यक २ ५, १ (= ऐतरेय उपनिषद् २ ५, जहाँ

वामदेव को जन्म के पूर्व की भी बातों के ज्ञान का श्रेय दिया गया है), बृहदारण्यक उपनिषद् १ ४, २२ (नाध्यन्दिन = १ ४, १० काण्व), पञ्चविंश ब्राह्मण १३ ९, २७।

तु० की० लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद ३, १०३, १०४, वेवर प्रो० अ० १८९४, ७८९ और वा०, औरडेन-वर्ग • त्नी० मे० ४२, २५।

वायत ('वयन्त' का वंशज) ऋग्वेद (७. ३३, २) में पाशुघुम्न का पैतृक नाम है। तु० की० व्यन्त ।

वायस, ऋग्वेद^१ और वा०^२ में एक बड़े पक्षी का द्योतक है। 'कौये'^३ का आशय केवल पञ्चविंश ब्राह्मण^४ में मिलता है।

^१ १ १६४, ३० ।

^२ निरुक्त ४ १७ के एक उद्धरण में; और ऋग्वेद ५ ५१ के वा० के खिल का मन्त्र १ ।

^३ वैदिकोत्तर भाषा में इसका एकमात्र यही आशय है।

^४ ६ ८ ।

वायो-विधिक (पक्षी पकड़नेवाला) शतपथ ब्राह्मण^१ में मिलता है।

^१ १३. ४, ३, १३ । तु० की० एरिल्डन : से० बु० ई०, ४४, ३६९, नोट ५ ।

वास्य (वस्य का वंशज) ऋग्वेद (५.७९, १.२) में सत्यश्रवस् का पैतृक नाम है।

वार, ऋग्वेद^१ और वा०^२ में 'जल' के आशय में मिलता है। कुछ स्थलों^३ पर हमसे 'गन्डे पानी' अथवा 'तालाव' का आशय है।

^१ १ ११६, २२, २ ४, ६, १० १२, ३, ९९, ४, १०५, १ इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद ३ १३, ८, शतपथ ब्राह्मण ६

१, १, ९ इत्यादि ।

^३ ऋग्वेद ४ १९, ४, ८ ९८, ८, ९. ११२, ४ ।

वारकि ('वरक' का वंशज) जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ४१, १) में कंस का पैतृक नाम है ।

वारक्य ('वरक' वंशज) जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण में कंस, कुवेर, जनश्रुत, जयन्त, और प्रोष्ठपद् का पैतृक नाम है ।

वारण को ऋग्वेद^१ के दो स्थलों पर रौध^२ ने मृग के साथ एक ऐसे विशेषण के रूप में ग्रहण किया है जिसका अर्थ 'जंगली जानवर' है । किन्तु इससे 'गज' का ही आशय उद्दिष्ट रहा होगा, जो बाद के साहित्य में 'वारण' का सामान्य आशय है । इसी प्रकार सम्भवतः अथर्ववेद^३ में 'वारणी' मादा हाथी का द्योतक है ।

^१ ८ ३३, ८, १० ४०, ४ ।

^२ मेन्ट पीटर्सवर्ग कोश व० स्था० १ (ग) ।

^३ ८ १४, ११ ।

तु० की० पिशल और गेल्डनर

वेदिशे स्टूडियन, १, xxv, १००-१००,

व्हिटने . अथर्ववेद का अनुवाद २९६;

मूहर . संस्कृत टेक्स्ट्स, ५, ४६७,

रिसमर : आस्ट्रिडिशे लेवेन, ८० ।

वारुणि ('वरुण' का वंशज)—यह भृगु^१ का पैतृक नाम है ।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ३ ३५, १, शतपथ ब्राह्मण ११. ६, १, १, तैत्तिरीय उपनिषद् ३. १, इत्यादि ।

वार्कलि ('वृकला' का 'वंशज'), शतपथ ब्राह्मण^१ में एक गुरु का मातृ-नामोद्धत नाम है । इस नाम का 'वार्कलिन्' रूप ऐतरेय आरण्यक^२ में देखा गया है किन्तु अशुद्ध है ।

^१ १० ३, २, ६ ।

^२ ३ २, २, और कीश की टिप्पणी,

शाङ्खायन आरण्यक ८ २ ।

तु० की० वेवर : इंडियन लिटरेचर

३३, १२३, जिनका विचार है कि

'वार्कलि' भी 'वार्कलि' के समान है ।

वार्करुणी-पुत्र, वृहदारण्यक उपनिषद्^१ के अन्तिम वंश में आर्तभागीपुत्र के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

^१ ६ ४, ३१ (माध्यन्दिन = ६ ५, २ काण्व, जहाँ एक दूसरा 'वार्करुणीपुत्र' भी आता है जो प्रथम का शिष्य है) ।

वार्ध्नी-णस,^१ वार्ध्नी-नस,^२ यजुर्वेद संहिताओं में अश्वमेध के वलि-प्राणियों

^१ तैत्तिरीय संहिता ५ ५, २०, १, मैत्रायणी संहिता ३ १४, २० ।

^२ वाजसनेयि संहिता २४ ३१ (प्रातिशाल्य, ३, ८९, ६ २८)

की तालिका में एक पशु का नाम है । जैसा कि सायण^३ ने ग्रहण किया है, इसका सम्भवतः 'गौडा' अर्थ है । एक भिन्न व्याख्या के रूप में व्रीटलिङ्ग^४ 'एक वृद्ध श्वेत चकरा' अथवा एक प्रकार का 'सारस' अर्थ व्यक्त करते हैं ।

^३ तैत्तिरीय संहिता उ० स्था० पर ।

तु० वी० तिसम आल्टिन्डिसे

^४ टिक्शनरी, व० स्था० ।

लेवेन, ८० ।

वार्ष-गण ('वृषगण' का वंशज) बृहदारण्यक उपनिषद्^१ में असित का पैतृक नाम है ।

^१ ६ ४, ३३ (माध्यन्दिन = ६ ५, ३ काण्व) ।

वार्षगणी-पुत्र ('वृषगण' के एक स्त्री-वंशज का पुत्र), बृहदारण्यक उपनिषद् (६.४, ३१) के माध्यन्दिन शाखा के अन्तिम वंश में गौतमी-पुत्र के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

वार्ष-गण्य ('वृषगण' का वंशज) वश ब्राह्मण^२ में एक गुरु का नाम है ।

^२ इन्डिसे स्टूडियन, ४, ३७२, निदान सूत्र
२ ९, ६ ७ इत्यादि ।

तु० की० गावें . सारथ फिलॉसफी,
३६ ।

वार्षा-गिर ('वृषागिर' का वंशज) ऋग्वेद (१.१००, १७) में अम्ब-रीष, ऋजाश्व, भयमान, सहदेव और सुराघसू का पैतृक नाम है ।

तु० की० लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद ३, ११३ ।

वाष्ण ('वृषन्' अथवा 'वृष्णि' अथवा 'वृष्ण', का वंशज), गोवल,^१ वकु^२ और ऐत्नाक^३ का पैतृक नाम है ।

^१ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ११, ९, ३, जैमिनीय
उपनिषद् ब्राह्मण १ ६, १ ।

रण्यक उपनिषद् ४. १, ८, जहाँ काण्व
शाखा (४ १, ४) में वाष्म पाठ है ।

^२ शतपथ ब्राह्मण १ १, १, १०, बृहदा

^३ जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण १ ५, ४ ।

वाष्ण-वृद्ध ('वृष्णिवृद्ध' का वंशज) कौपीतिक ब्राह्मण (७.४) में उल का पैतृक नाम है ।

वाष्णेय ('वृष्णि' का वंशज) तैत्तिरीय ब्राह्मण (३.१०, ९, १५) में शूष का पैतृक नाम है ।

वाष्प्य ('वृष्णि' का वंशज) शतपथ ब्राह्मण^१ में एक व्यक्ति का पैतृक नाम है ।

^१ ३ १, १, ४ । काण्व शाखा में यह नाम नहीं है । तु० की० ण्विलङ्ग से० बु० ई० २६, २, नोट २ ।

वाष्प्य—देखिये वाष्प्य ।

वाल, वाद की महिताओं और ब्राह्मणों^१ में 'वाल की चलनी' का द्योतक है ।

^१ राजमनेथि सहिता १९ ८८, शतपथ ब्राह्मण १२. ७, ३, ११, ८, १, १४, इत्यादि ।

वाल-खिल्य, ब्राह्मणों^१ में ऋग्वेद ८. ४८ के वाद सम्मिलित कुछ अतिरिक्त सूक्तों का नाम है । तैत्तिरीय आरण्यक^२ में इन सूक्तों के ऋषियों के नाम को भी इसी नाम से पुरारा गया है । तु० की० २. खिल ।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ५ २५, १ ३. ४, ६
२४, १ ४ ५ १० ११, कौषीतकि
ब्राह्मण ३० ४, ८, पञ्चविंश ब्राह्मण
१३ ११, ३, १४. ५, ४, ऐतरेय
आरण्यक ५ २, ४, इत्यादि, गोपथ
ब्राह्मण २ ६, ९ ।

तु० की० मैक्स मूलर ऐन्शेन्ट
सस्कृत लिटरेचर, २२०, से० बु० ई०,
३२, xlvi, और वाद, बृहद्देवता ६.
८४ और वाद, मैकडोनेल की टिप्पणी
सहित, शेफ्टेलोवित्स . डी० ऋ०, ३५
और वाद ।

^२ १ २३ ।

वाल-दामन्, शतपथ ब्राह्मण (५. ३, १, १०) में 'घोड़े के वाल के फन्दे' का द्योतक है ।

वालिशिखायनि, शाङ्खायन आरण्यक^१ में एक गुरु का नाम है ।

^१ ७ २१ । तु० की० कीथ शाङ्खायन आरण्यक, ४९, नोट ५ ।

वावाता, ब्राह्मणों^१ में राजा की प्रिय पत्नी का नाम है, जो केवल महिषी से ही हीन होती थी ।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ३ २२, १ ७, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ७, ३, ३, शतपथ ब्राह्मण १३ २, ५, ४ १ ८, ५, २, ६ इत्यादि ।

वाशिता, अथर्ववेद^१ और वाद^२ में गर्भाधान की इच्छुक गाय का द्योतक है ।

^१ ५ २०, २ ।

^२ काठक सहिता १३ ४; तैत्तिरीय ब्राह्मण

१ १, ०, ९, ऐतरेय ब्राह्मण ६ १८,
१०, २१, १४, इत्यादि ।

वाशी का ऋग्वेद में मरुतों^१ के अस्त्र तथा स्वष्टा^२ द्वारा धारण किये गये किसी धातुध का द्योतक है। इसका अन्य पौराणिक पृष्ठभूमियों में भी उल्लेख है।^३ फिर भी अथर्ववेद^४ में यह वदर्ह की छुरी के लिये प्रयुक्त हुआ है; यहाँ यह सायण के दृष्टिकोण के अनुसार 'आरी' का द्योतक हो सकता है।^५

^१ १ ३७, २, ८८, ३, ५ ५३, ४।

स्थल है।

^२ ८ २९, ३।

^४ १० ६, ३ (यहाँ सर्वा पाण्डुलिपियों में

^३ ८ १०, १०, १० ५३, १०, १०१, १०
(उन पत्थरों का जिनसे सोम पीधे को
दबाया जाता है), यह सभी मदिग्ध

'वास्य' है : यह सम्भवतः षष्ठ मिक्ष
शब्द है)।

^५ तिसम आदिगिरी लेवेन, ३०१।

वासः-पल्पूली (कपड़ा धोनेवाला) यजुर्वेद^६ में पुरुषमेध के बलि-प्राणियों में से एक का नाम है।

^६ वाजसनेयि संहिता ३०. १०, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ८, ७, १।

वासस्, ऋग्वेद^७ और वाद^८ में 'वस्त्रों' के लिये प्रयुक्त सर्वाधिक प्रचलित शब्द है। कपड़े अक्सर भेड़ के ऊन से बने जाते थे। (तु० की० ऊर्णा); पूषन् देवता को 'वस्त्रों का बुननेवाला' (वासो-वाय)^९ कहा गया है क्योंकि इनका आकृतियाँ निर्माण करने के साथ सम्बन्ध है। धारण किये जानेवाले परिधान अक्सर कढ़े (तु० की० पेशस्) होते थे, और मरुतों को स्वर्ण से अलंकृत परिधान धारण किये हुये बताया गया है।^{१०} जहाँ वस्त्रों तथा स्वर्ण का दान करनेवालों के साथ 'वस्त्रों का दान करनेवालों'^{११} का उल्लेख है, वहाँ सम्भवतः कढ़े हुये वस्त्रों का ही तात्पर्य है। भारतीयों के अलंकार-प्रेम के ऋग्वेद^{१२} में अनेक सन्दर्भ मिलते हैं, जिसकी मेगास्थनीज़ ने भी अपने समय में

^७ १ ३४, १, ११५, ४, १६०, १६, ८
३, २४, १० २६, ६, १००, २,
इत्यादि।

वस्त्रों का प्रयोग सन्दिग्ध है। तु० की०
'कौस्तुभ परिधान', शास्त्रायन आरण्यक
११ ४।

^८ तैत्तिरीय संहिता ६ १, ९, ७, ११, २,
वाजसनेयि संहिता २ ३०, ११ ४०,
पेतरैय ब्राह्मण १ ३ इत्यादि। अभिषेक
के समय यशकर्त्ता की पत्नी द्वारा कुट्ट
का परिधान धारण करने का ज्ञापन
ब्राह्मण ५ २, १, ८, में उल्लेख है,
किन्तु सामान्य रूप से इस प्रकार के

^९ ऋग्वेद १० २६, ६।

^{१०} ऋग्वेद ५ ५५, ६ (हिरण्ययान अत्कान्)।

^{११} ऋग्वेद १० १०७, २। तु० की० 'वस्त्र-
दा', ५ २४, ८।

^{१२} ऋग्वेद १ ८५, १, ९०, ४, ९ ९६, १,
१० १, ६।

पुष्टि की है।^७ ऋग्वेद में 'सु-वसन' और 'सु-रभि'^८ जैसी उपाधियाँ भी मिलती हैं, जिनसे वस्त्रों के अच्छे लगने अथवा शरीर के ठीक नाप से सिले हुये होने का तात्पर्य है।

अक्सर ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक भारतीय तीन वस्त्र धारण करते थे—एक भीतरी वस्त्र (तु० की० नीवि)^९, एक परिधान,^{१०} और एक ऊपरी परिधान (तु० की० अधीवास),^{११} जो सम्भवतः चोगा होता था और जिसके लिये अत्क और द्रापि का भी प्रयोग किया गया प्रतीत होता है। यही नतपथ ब्राह्मण^{१२} में दिये हुये उल्लेखीय परिधानों के वर्णन के भी अनुकूल है जिसके अन्तर्गत सम्भवतः एक 'रेशमी भीतरी वस्त्र' अथवा तापर्य, बिना रँगा हुआ ऊनी परिधान, और उसके बाद एक चोगा आता है, जब कि पगडी को सर में बाँधने के बाद उसके सिरे को पीछे बाँधकर और फिर सामने लाकर खोस दिया जाता था। यह अन्तिम उल्लेख सामान्य जीवन का कदाचिन् ही प्रचलित प्रयोग रहा होगा, किन्तु संस्कार का एक विशेष कृत्य अवश्य प्रतीत होता है। अथर्ववेद^{१३} और शतपथ ब्राह्मण^{१४} में भी स्त्रियों के एक इत्ती प्रकार के परिधान का आशय मिलता है। ठीक-ठीक यह दिखाने के लिये कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि स्त्रियों और पुरुषों की वेश-भूषा में क्या अन्तर था, और न यही स्पष्ट है कि इन दोनों के वस्त्रों का ठीक-ठीक क्या स्वरूप था।

यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यक्षतः वैदिक भारतीय ऐसा मानते थे कि मुनियों

^७ देखिये स्टावो, पृ० ७०९, अरियन इण्डिका, ५ ९।

^८ ऋग्वेद ९ ९७, ५०।

^९ 'अत्क', ६ २९, ३, १० १२३, ७, के साथ यह शब्द सम्भवतः ऐसा व्युत्पन्न करता है कि वैदिक भारतीयों का वस्त्र 'मिनोअर्नो' के वस्त्र की भाँति ही शरीर में चिपकता हुआ और होमर में उपलब्ध एचियन डग के वस्त्रों से भिन्न होता था (तु० की० लेज़ दि वर्ल्ड ऑफ होमर, ६० और बाद)।

^{१०} अथर्ववेद ८ २, १६, १४ २, ५०।

तु० की० तैत्तिरीय संहिता ६ १, १, ३, वाजसनेयि संहिता ४ १०, इत्यादि।

^{११} सकीर्ण आशय में 'वासस्', अथर्ववेद ८ २, १६।

^{१२} ऋग्वेद १ १४०, ९, १६२, १६, १०. ५, ४।

^{१३} ५ ३, ५, २० और बाद। देखिये एग्लिङ्ग . ने० बु० ई०, ४१, ८ और बाद।

^{१४} ८ २, १६, १४ २, ५०।

^{१५} ५ २, १, ८।

के अतिरिक्त सभी सभ्य व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार का वस्त्र अवश्य धारण करना चाहिये ।^{१६}

देखिये वसन, वस्त्र, ओतु, तन्तु । चर्म-परिधानों के व्यवहार के लिये देखिये, मल ।

^{१६} तु० की० शतपथ ब्राह्मण ११ ५, १, १, और ३ १, २, १३-१५, जहाँ इस तथ्य की कि केवल पुरुष ही वस्त्र धारण करते हैं एक मूर्खतापूर्ण कथा से

पुष्टि की गयी है ।

तु० की० तिसर . आर्द्धिन्दिशे लेवेन २६१, २६२ ।

वासिष्ठ (वसिष्ठ का वंशज) ऋषि की संहिताओं^१ में बहुधा उल्लिखित सात्यहव्य का, तैत्तिरीय आरण्यक^२ में रौहिण्य का, और चैकितानेय^३ का, पैतृक नाम है । इसके अतिरिक्त, यह भी कथन है कि वासिष्ठगण यज्ञ के समय ब्रह्मन् पुरोहित होते थे ।^४ वंश ब्राह्मण^५, और जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण^६ में एक वसिष्ठ का एक गुरु के रूप में भी उल्लेख है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ६. ६, २, २, काठक संहिता ३४ १७ (इन्दिशे स्टूडियन, ३, ४७४), मैत्रायणी संहिता ३ ३, ९, ४ ८, ७ । अत्यराति के साथ इसकी शत्रुता के लिये देखिये ऐनरेय ब्राह्मण ८ २३, ९. १० ।

^२ १ १०, ७ ।

^३ जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण १ ४२, १, षड्विंश ब्राह्मण ४ १, इन्दिशे स्टूडियन, ४, ३८४ । तु० की० गोपथ ब्राह्मण २

२, १० ।

^४ तैत्तिरीय संहिता ३. ५, २, १, काठक संहिता ३७ १७, शतपथ ब्राह्मण १०. ६, १, ४१ । देखिये वेबर : इन्दिशे स्टूडियन, १०, ३४, एग्लिङ्ग से० बु० ई०, ४४, २१२ नोट (डेलब्रुग : आर्द्धिन्दिशे सिन्टैक्स, ५७० में अनुवाद को शुद्ध करते हुये) ।

^५ इन्दिशे स्टूडियन, ४, ३७३ ।

^६ ३ १५, २ ।

वास्तु-पश्य, वीटलिङ्ग^१ के अनुसार एक ब्राह्मण का नाम है, किन्तु यह केवल जैमिनीय ब्राह्मण^२ में 'वास्तुपश्य'^३ का एक विभेदात्मक पाठ है ।

^१ डिक्शनरी व० स्था०, सप्लीमेन्ट, ६ ।

^२ ३ १२० ।

^३ हॉपकिन्स . ज० अ० ओ० सो०, २६,

६१ ।

वाह, ऋग्वेद (४. ५७, ४. ८) और अथर्ववेद (६. १०२, १) में प्रत्यक्षतः हल को 'खींचने' के लिये प्रयुक्त वैल का द्योतक है । देखिये रथवाहन भी ।

वाहन (क्लीव) ब्राह्मणों^१ में 'बोझा ढोनेवाले पशु', अथवा कभी-कभी,^२ 'गाड़ी' का द्योतक है । तु० की० रथवाहन ।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ४. ३, ४, शतपथ ब्राह्मण | ४, १० ।
१ ८, २, ०, २ १, ४, ४, ४ ४, | ^२ शतपथ ब्राह्मण ९. ४, २, ११ ।

वाहस (अजगर) को यजुर्वेद संहिताओं^१ में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में सम्मिलित किया गया है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ५ ५, १३, १, १४, | वाजसनेयि संहिता २४ ३४ । तु०
१, मैत्रायणी संहिता ३ १४, १५, | की० तिसर : आल्टिन्डिशे लेवेन ९४।

वि, ऋग्वेद^१, और कभी-कभी वाद^२ में, 'पक्षी' का द्योतक है ।

^१ ० २९, ५, ३८, ७, ६ ६४, ६, इत्यादि | तु० की० तिसर आल्टिन्डिशे लेवेन,
^२ पञ्चविंश ब्राह्मण ५ ६, १५, इत्यादि । | ८७ ।

वि-ककर, किसी पक्षी का नाम है, जो वाजसनेयि संहिता^१ के अनुसार अश्वमेध का एक बलि-प्राणी है ।

^१ ०४ ०० । तु० का० तिसर • आल्टि- | ०० १४, ५, 'विकिर' ('विकिकिर',
न्डिशे लेवेन ९४, आपस्तम्ब श्रौत सूत्र, | 'विककर विभेदों सहित) पाठ है ।

वि-कङ्कत, एक वृक्ष (*Flacourtia sapida*) का नाम है, जिसका चाद की संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में उल्लेख है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ३ ५, ७, ३, ६ ४, | ^२ शतपथ ब्राह्मण २ २, ४, १०, ५ ०,
१०, ५, काठक संहिता १९ १०, | ४, १८, इत्यादि । तु० की० तिसर :
मैत्रायणी संहिता ३ १, ९ । तु० का० | आल्टिन्डिशे लेवेन, ५९ ।
अथर्ववेद ११ १०, ३ ।

वि-क्रय, अथर्ववेद (३. १५, ४) और निरुक्त (३. ४) में मिलता है और किसी वस्तु के विक्रय का द्योतक है । देखिये क्रय ।

वि-विलन्दु, अथर्ववेद^१ में किसी व्याधि का नाम है । वल्गुमफीरुड^२ इसे 'सीने में कफ जकड़ जाने' की व्याधि मानते हैं ।

^१ ० ४, ५ ।

| ^२ अथर्ववेद के सूक्त, ६५८ ।

वि-घन, तैत्तिरीय संहिता^१ में 'गदा' का द्योतक प्रतीत होता है ।

^१ ३ २, ४, १ । अथर्ववेद ७, २८, १, में 'दुघण' है ।

वि-चक्षण ताण्ड्य, वंश ब्राह्मण^१ में गर्दभीमुख के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

^१ टन्टिओ टूटियन, ४, ३७३ ।

वि-चारिन् कावन्धि (कवन्धि का वंशज) गोपथ ब्राह्मण^२ में एक पौराणिक गुरु का नाम है ।

^२ १, ०, ० १८। तु० को० हिलेब्रान्ट . वेदिके माशुलोजी, २, १७६, नोट ८, ब्रुसफोर्ट अथर्ववेद, १११, ११२ ।

वि-चूत्, द्वन्द्व रूप में अथर्ववेद^३ के तीन स्थलों पर मिलता है, जहाँ रीथ^४ ने इसमें दो तारों के नाम का आशय देखा है, जब कि तैत्तिरीय मंहिता^५ में आप इससे 'मूल' नामक नक्षत्र का तात्पर्य मानते हैं । फिर भी इसमें कोई मन्वेह नहीं कि सभी स्थलों^६ पर उक्त नक्षत्र का ही आशय है ।

^३ ० ८, १, ४ १०, २, १२१, ३, और देविये ३ ७, ४ भी ।

^४ से-ट पीटर्मन्ना कोश, व० स्था० ।

^५ ४ ४, १०, २ ।

^६ तिमर . आल्टिन्टिओ लेवेन ३५६,

विहृत्ने अथर्ववेद का अनुवाद, ३६१, यह व्यक्त करते हैं कि 'विचूत्तौ', λ और υ स्कॉपियोनिम हैं, जब कि 'मूल' के अन्तर्गत वृश्चिक की पूरी पूछ आ जाती है ।

विज्—देविये २ अक्ष ।

वि-जामात्—देविये जामात् ।

वितस्ता का, जो कि पंजाब की पाँच नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है, अथर्ववेद^७ के नदी-स्तुति^८ में उल्लेख है । यह सिकन्दर के इतिहासकारों की 'एटर्पीस' है, जब कि टॉलमी ने इसे अधिक शुद्धतापूर्वक 'विदस्पीस' माना है । यह नाम सुसलमान इतिहासकारों द्वारा 'विहत' अथवा 'विहन' के रूप में अष्ट कर दिया गया है, जब कि इसका आधुनिक कश्मीरी रूप 'वंथ्' है ।

^७ १०, ०, ५, निरुक्त १, २६, तु० को० वागिनि १ ०, ३, पर काशिका इति १। तु० को० तिमर आल्टिन्टिओ लेवेन ३५, इन्डो-सिन्डो-वेदिकर आर्क इतिहास, १४, १५० ।

^८ अथर्ववेद में इस नाम की दुर्लभता यह मन्त्रेन करती है कि वैदिक भारतीयों में से अधिकांश की सक्रियता का क्षेत्र पंजाब नहीं था ।

वित्त, ऋग्वेद^१ और बाद^२ में 'सम्पत्ति' अथवा 'धन' का द्योतक है। तैत्तिरीय उपनिषद्^३ में पृथ्वी को वित्त-पूर्ण (वित्तस्य पूर्णा) कहा गया है। यह मन कि सन्तुष्टि की महानता उसकी सम्पत्ति पर निर्भर करती है, तैत्तिरीय ब्राह्मण^४ जैसे प्राचीन समय तक में मिलना है। बृहदारण्यक उपनिषद्^५ में सम्पत्ति की दृच्छा रखने को (वित्तैषया) ऐसी वस्तु कहा गया है जिसका ऋषिगण परित्याग कर चुके होते हैं।

^१ ५, ४०, ९, १०, ३४, १३।

^२ अथर्ववेद १२, ३, ५२, तैत्तिरीय महिना

१. ५, ९, २, ६, २, ४, ३ वाजसनेयि

महिता १८, २१, १४, इत्यादि।

^३ ७, ८। तु० की० 'वसुमती' नाम जो

कि शाह्यायन आरण्यक १३, १ में आता है।

^४ १, ४, ७, ७।

^५ ३, ४, १, ४, ४, २६।

विदग्ध शाकल्य, बृहदारण्यक उपनिषद्^१, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण^२ और शतपथ ब्राह्मण^३ में उस गुरु का नाम है जो विदेह के राजा जनक के दरवार में याज्ञवल्क्य का समकालीन और प्रतिद्वन्दी था।

^१ ३, ९, १, ४, १, १७ (मान्यन्दिन = ७ काण्व)।

^२ २, ७६ (ज० अ० ओ० सो०, १५, २३९)।

^३ ११, ६, ३, ३।

विदग्ध, एक अस्पष्ट आशयवाला शब्द है और प्रमुखतः ऋग्वेद तक ही सीमित है। रौथ^१ के अनुसार इसका प्रमुख आशय 'आज्ञा', उसके बाद वह व्यक्ति अथवा संस्था जो आज्ञा देती है, और उसके भी बाद लौकिक^२ अथवा धार्मिक^३ उद्देश्यों अथवा युद्ध^४ के लिये आज्ञा देनेवाली 'सभा' है। औल्डेनवर्ग^५ का विचार था कि इसका प्रमुख आशय 'विधान' ('वि-धा', से)

^१ ऋग्वेद १, ३१, ६, ११७, २५, ३, १,

१८, २७, ७, ४, ३८, ४, ६, ८, १,

१०, ८५, २६, ९०, २, अथर्ववेद

४, २५, १, ५, २०, १०, १८, २,

७०, इत्यादि।

^२ ७, ४, २७, १२, १७, ३, ३८, ७,

६, ५, ६३, २, ७, ६६, १०, ८, ३०,

१, १०, १२, ७, अथर्ववेद १७, १

१५। इसी प्रकार अथर्ववेद १, १३,

४ में विदग्ध (अथर्ववेद का अनुवाद,

१५) इस शब्द का 'सात' अनुवाद

करते हैं

^३ ऋग्वेद १, ६०, १, २, ४, ८, ३९, १,

३, १, १; ५६, ८, इत्यादि।

^४ ऋग्वेद १, १६६, २, १६७, ६, ५, ५९,

२, इत्यादि।

^५ से० बु० ई०, ४६, २६ और वाद।

किन्तु त्सी० गे०, ५४, ६०९-६११ में

आप पुनः इसे 'विध्' से व्युत्पन्न

मानते हैं। तु० की० मैकडौनेलः

वैदिक ग्रामर, पृ० २३, नोट १०।

और उसी से व्युत्पन्न 'यज्ञ' अर्थ है। लुडविग^६ का विचार है कि इस शब्द का मूल अर्थ मुख्यतः मघवनो और ब्राह्मणों की 'सभा' है। गेल्डनर^७ यह मत व्यक्त करते हैं कि इस शब्द का प्रथमतः 'ज्ञान', 'विद्वत्ता', 'पुरोहितीय विद्या', अर्थ है और उसके बाद 'यज्ञ' और 'आध्यात्मिक अधिकारी'। दूसरी ओर वल्लमफील्ड^८ इस बात पर जोर देते हैं कि प्रथमतः विदथ से 'गृह'^९ का आशय है ('विद्' अर्थात् 'अर्जित करना' से) और तदुपरान्त गृह से ही सम्बद्ध होने के रूप में 'यज्ञ'; जो कुछ भी हो, यही व्याख्या सब स्थलों के अनुकूल प्रतीत होती है। एक बार^{१०} राजा (सम्राट्) के लिये व्यवहृत 'विदथ्य' शब्द इस दृष्टिकोण के विपरीत सिद्ध हो सकता है, किन्तु इससे राजा के 'गृह-सम्पत्ति से सम्पन्न' होने का आशय माना जा सकता है; और सभा के विपरीत विदथ के साथ स्त्री का सम्बन्ध वल्लमफील्ड की व्याख्या के अनुकूल^{११} है। यह शब्द कहीं भी, ब्राह्मण^{१२} के गृह की भाँति आश्रम का द्योतक है, जैसे कि लुडविग^{१३} का विचार है, अथवा नहीं, यह सन्दिग्ध^{१४} है।

^६ ऋग्वेद का अनुवाद ३, २५९ और वाद।

^७ वेदिशे स्टूडियन, १, १४७, त्सी० ने०, ५२, ७५७, ऋग्वेद, ग्लॉस, १६१।

^८ ज० अ० ओ० सो०, १९ १२ और वाद।

^९ देखिये ऋग्वेद १० ८५, २६ २७ (विवाह सस्कार में स्त्री का), १ १७, २५, २ १, ६, अथर्ववेद १८ ३, ७०।

^{१०} ८ २७, २। १ ९१, २०, १६७, ३, अथर्ववेद २० १२८, १, में 'विदथ्य' (एक गृहस्थी वाला) पर्याप्त प्रतीत होता है।

^{११} तु० की० अथर्ववेद ७ ३८, ४, मैत्रायणी संहिता ४ ७, ४।

^{१२} शतपथ ब्राह्मण ५ ३, १, १३, कात्यायन श्रौत सूत्र १५ ३, ३५, सहित।

^{१३} उ० पु०, ३, २६१।

^{१४} ऋग्वेद १ ३१, ६, ५ ६२, ६, ऐतरेय ब्राह्मण १ ३०, २७ २८, निश्चित रूप से इसे स्पष्ट व्यक्त नहीं करता।

तु० की० तिसर (आस्टिन्डिशे लेवेन, १७७) यह विचार व्यक्त करते हैं कि कभी-कभी 'विदथ' का अर्थ (उदाहरण के लिये, 'विदथेषु प्रशस्तः', ऋग्वेद २ २७, १०, में) 'सम्पत्ति' की अपेक्षा एक 'छोटी सभा' है। किन्तु हमारे पास इस बात का निश्चित निर्णय करने के लिये कोई भी आधार नहीं है कि भारत अथवा अन्य आर्य-जातियों के बीच इतने पहले के समय में भी कभी इस प्रकार की छोटी सभाओं का अस्तित्व था अथवा नहीं।

विदन्वन्तु भार्गव (भृगु का वंशज) का पंचविंश ब्राह्मण^१ और जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण^२ में सामनों के एक द्रष्टा के रूप में उल्लेख है ।

^१ १३ ११, १० ।

^२ ३ १५९ और वा० । (ज० अ० ओ० सो०, २६, ६४) ।

विदर्भ, एक स्थान के नाम के रूप में आरम्भिक वैदिक साहित्य के केवल जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण^१ में आता है, जहाँ इसके माचलों (सम्भवतः कुत्तों की एक जाति) को मिर्हों का चध करनेवाला बताया गया है ।

^१ २ ४४० (ज० अ० ओ० सो०, १९, १०३, नोट ३ ।)

विदर्भी-कौण्डिनेय, बृहदारण्यक उपनिषद्^१ के प्रथम दो वंशों में वत्स-नपात् के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

^१ ० ५, २२, ४ ५, २८ (माध्यन्दिन = २ ६, ३, ४ ६, ३ काण्व) ।

वि-दिश, एक 'मध्यवर्ती दिशा' का द्योतक^१ है । देखिये दिश ।

^१ वाजसनेयि संहिता ६ १९, षड्विंश ब्राह्मण ४ ४ ।

विदीगय, तैत्तिरीय संहिता^१ और तैत्तिरीय ब्राह्मण^२ में एक पशु का नाम है । प्रथम ग्रन्थ के भाष्य में इसे एक प्रकार के कुक्कुट (कुक्कुट-विशेष) के, तथा द्वितीय के भाष्य में एक प्रकार के वगुले (श्वेत-वक) के आशय में ग्रहण किया गया है ।

^१ ५ ६, २२, १ ।

^२ ३ ९, ९, ३, आपस्तम्ब श्रौत सूत्र २०

२२, १३ । तु० की० तिसर . आस्टि-

न्दिशे लेवेन, ९४ ।

विदेघ, शतपथ ब्राह्मण^१ में एक व्यक्ति, माथव, का नाम है । यह मानना उपयुक्त^२ है कि इस व्यक्ति को उन विदेघों के राजा के रूप में यह नाम दिया गया था, जो बाद में विदेहों के रूप में प्रसिद्ध हुये ।

^१ १ ४, १, १० और वाद ।

^२ तु० की० एगिलङ्ग से० बु० ई०, १२, xli, नोट ४, १०४, नोट, वेवर .

इन्डिशे स्टूडियन १ १७०, इन्डिशे

स्ट्रीफेन, १, १३, इन्डियन लिटरेचर १३४ ।

विदेह, एक ऐसी जाति के लोगों का नाम है जिनका ब्राह्मण काल के

पहले उल्लेख नहीं है। शतपथ ब्राह्मण^१ में विदेह माथव की कथा में इन बातों की स्पष्ट परम्परा सुरक्षित है कि विदेह की संस्कृति पश्चिम के ब्राह्मणों से प्राप्त हुई थी, और यह कि कोशल, विदेह के पहले ही ब्राह्मण प्रभाव के अन्तर्गत आ गया था। फिर भी विदेहों ने अपने उम राजा जनक की संस्कृति द्वारा कुछ प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी, जो बृहदारण्यक उपनिषद्^२ में ब्राह्मणवाद के प्रमुख प्रतिपालकों में से एक के रूप में आता है। कौपीतिक उपनिषद्^३ में विदेहों को काशियों के साथ संयुक्त किया गया है, ऐतरेय ब्राह्मण^४ में जातियों की तालिका में विदेहों को छोड़ दिया गया है जो सम्भवतः इसलिये कि इन्हें कोसल और काशि के साथ-साथ प्राच्य शब्द के अन्तर्गत सम्मिलित मान लिया गया है। पुनः, शाङ्खायन श्रौतसूत्र^५ में यह उल्लेख है कि काशि, कोसल, और विदेह इन तीनों राज्यों में एक ही पुरोहित, जल जातृकर्ण्य, था; और इसी ग्रन्थ के एक अन्य स्थल^६ पर विदेह के राजा पर आट्णार और कोसल के राजा हिरण्यनाभ के बीच सम्बन्धों की व्याख्या की गयी है, जब कि शतपथ ब्राह्मण^७ में पर आट्णार को हिरण्यनाभ का वंशज और कोसल का राजा कहा गया है।

विदेह का एक दूसरा राजा नमी साप्य था, जिसका पञ्चविंश ब्राह्मण^८ में उल्लेख है। यजुर्वेद की संहिताओं^९ में 'विदेह की गायों' का सन्दर्भ प्रतीत होता है, किन्तु तैत्तिरीय संहिता का भाष्यकार विशेषण शब्द 'वैदेही' को 'एक श्रेष्ठ शरीर वाला' (विशिष्ट-देह-मन्वन्धिनी) के अर्थ में ग्रहण करता है, और इस व्याहृति में किसी स्थान के नाम का आशय होना बहुत स्पष्ट नहीं है। बौधायन श्रौतसूत्र^{१०} के ब्राह्मण सहस्र स्थलों पर भी विदेह-गण आते हैं।

कोसल और विदेह की सीमा सदानीरा, सम्भवतः आधुनिक गण्डक^{११}

^१ १ ४, १, १० और वाट।

^२ ३ ८, २। तु० की० ४ २, ६, ९ ३०,
शतपथ ब्राह्मण ११ ३, १, २, ६, २,
१, ३, १, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ १०,
९, ९।

^३ ४ १।

^४ ८ १४।

^५ १६ २९, ६।

^६ १६ १ ११ १३।

^७ १३ ५, ४, ४।

^८ २५ १०, १७।

^९ तैत्तिरीय संहिता २ १, ४, ५, काठक संहिता १४ ५।

^{१०} २ ५, २१ १३।

^{११} तु० की० इम्पीरियल गेजेटियर ऑफ इन्डिया, १२, १०१।

तु० की० वेबर इन्डिशे स्टूडियन, १, १७०, इन्डियन लिटरेचर

१०, ३३, ५३, १२७, १०९, इत्यादि,
एग्लिङ्ग से० बु० ई०, १२, xli,
औलडेनवर्ग . बुद्ध, ३९८, ३९९,

रिज डेविड्स : बुद्धिस्ट इन्डिया, २६,
३७, पार्जिटर . ज० ए० सी०, १०१०,
१९ और वाद ।

(यूनानी भौगोलिकों के 'कोण्डोचेटिस') थी, जो नैपाल से निकल कर पटना के पास गंगा में मिलती थी। स्वयं विदेह भी बहुत कुछ आधुनिक तिरहुत क्षेत्र था ।

विद्या, अथर्ववेद^१ और वाद^२ में, मुख्यतः तीन वेदों के उस ज्ञान का द्योतक है, जिसे तैत्तिरीय ब्राह्मण^३ जैसे प्राचीन समय तक में 'त्रयी विद्या' कहा गया है। अधिक विशिष्ट आशय में विद्या शब्द शतपथ ब्राह्मण^४ में अध्ययन के विषयों की सूची में आता है। इस व्याहृति से यहाँ क्या आशय है यह निश्चित नहीं : नायण^५ इससे दार्शनिक पद्धति का आशय मानते हैं, और रोल्डनर^६ प्रथम ब्राह्मणों का; जब कि एग्लिङ्ग^७ अपेक्षाकृत अधिक सम्भावना के साथ सर्पविद्या अथवा विषविद्या जैसे किसी विशेष विज्ञान का आशय मानते हैं ।

^१ ६ ११६, १, १८ ७, १०, ८, ३ ।

^२ तैत्तिरीय संहिता ० १, २, ८, ५ १,
७, २, ऐतरेय ब्राह्मण ८ २३, ८ ९,
इत्यादि ।

^३ ३. १०, ११, ५ । तु० की० शतपथ
ब्राह्मण ५ ५, ५, ६, इत्यादि ।

^४ ११ ५, ६, ८, बृहदारण्यक उपनिषद्
२. ४, १०, ४ ५, ११ ।

^५ शतपथ ब्राह्मण ११ ५, ६, ८ पर ।

^६ वेदिशे स्टूडियन, १, २९०, नोट ४ ।

^७ मे० तु० ई० ४४, ९८, नोट २ ।

विद्रध, अथर्ववेद^१ में फोड़े जैसी एक व्याधि का द्योतक है। तिसमर^२ के अनुसार यह यक्ष के साथ-साथ विकसित होनेवाले एक लक्षण का द्योतक है। वाद में इसे 'विद्रधि' कहा गया है। लुडविग^३ इसकी ऋग्वेद^४ के अस्पष्ट 'विद्रध' के साथ तुलना करते हैं, किन्तु इस स्थल पर इम शब्द का आशय अत्यन्त अनिश्चित है ।^५

^१ ६ १२७, १, ० ८, २० ।

^२ आस्टिन्डिशे लेवेन, ३८६ ।

^३ ऋग्वेद का अनुवाद ५ ०३ । तु० की०
रौथ ए० नि०, ४०, ४३ ।

^४ ४ ३२, २३ ।

^५ औलडेनवर्ग . ऋग्वेद-नोटन, १, २९५ ।

तु० की० वाइज सिस्टम ऑफ
हिन्दू मेडिसिन २१०, ब्लूमफील्ड .
अथर्ववेद के सूक्त ५३१, ६०२, अथर्व-
वेद ६०, ग्रॉइमैन इन्डिशे स्टूडियन,
९, ३९७, इट्टने . अथर्ववेद का
अनुवाद, ३७६ ।

विधवा, 'विधू' धातु से व्युत्पन्न विधवा-स्त्री का द्योतक है। रीध^१ ने ऋग्वेद^२ के एक कठिन स्थल पर पुलिङ्ग 'विधव' की कल्पना की है, जहाँ प्राप्त ग्रन्थ में प्रत्यक्षतः 'विधन्तं विधवाम्' के रूप में एक मिथ्या अन्वय मिलता है और जिसमें आपने 'विधवम्' का ही एक छन्दोमक विस्तारण माना है। लुडविग ने अपने पाठ में 'विधन्तम्' को एक स्त्री के समान माना है, जब कि डेलब्रुक^३ 'विधवा और उपासक' आशय मानते हैं। सम्भवतः 'एक विधुर और एक विधवा' अर्थ हो सकता है; किन्तु हमें उस प्रसङ्ग से सम्बद्ध पौराणिक सन्दर्भों का ज्ञान नहीं, जहाँ इसे अश्विनों का एक ऐमा कृत्य कहा गया है जिससे 'पति-विहीन' के रूप में घोषा का स्वाभाविक सन्दर्भ होना असम्भव है, क्योंकि हमसे सम्बद्ध अश्विनों के कृत्य का इसी सूक्त^४ में कुछ पहले के मन्त्रों में वर्णन किया जा चुका है। 'विधवा' बहुत अधिक मिलनेवाला शब्द नहीं है।^५

^१ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०; इसी प्रकार ग्रासमैन भी।

^२ १० ४०, ८।

^३ डी० व० ४४३।

^४ १०. ४०, ५।

^५ ऋग्वेद ४. १८, १०; १०. ४०, २; पद्विंश ब्राह्मण ३. ७, निरुक्त ३ १५।

विधु, से ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर स्पष्ट रूप से (जैसा कि वैदिकोत्तर भाषा में भी है) 'चन्द्रमा' अर्थ है। इस स्थल पर चन्द्रमा को 'अनेक के बीच अकेले ही भ्रमण करनेवाला' (विधुं दद्राणं समने बहुनाम्) कहा गया है।

^१ १० ५५, ५; निरुक्त १४ १८। तु० की० हिलेब्रान्ट 'वेदिशे मास्थौलोजी, १, ४६५। यहाँ 'अनेक' से नक्षत्रों

का आशय होना न तो निश्चित है और न सम्भव ही। तारों से तात्पर्य होना पर्याप्त व्याख्या है।

वि-नशन, उस स्थान का नाम है जहाँ मरुभूमि के बीच सरस्वती नदी लुप्त हो जाती है। इसका पञ्चविंश ब्राह्मण^१ और जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण^२ में उल्लेख है। यह स्थान पञ्जाब का पटियाला ज़िला प्रतीत होता है।^३ तु० की० प्लक्ष प्राश्रवणा।

^१ २५ १०, ६, कात्यायन श्रौत सूत्र १४ ५, ३०, लाट्यायन श्रौतसूत्र १० १५, १, वीधायन श्रौतसूत्र १ १, २, १२, तु० की० बृहलर से० बु० ई० १४,

२, १४७।

^२ ४ २६।

^३ तु० की० इम्पोरियल गेजेटियर ऑफ इन्डिया, २२, ९७।

विप्, ऋग्वेद^१ के अनेक स्थलों पर रौध^२ के अनुसार उन 'छद्मों' का छोटक है जो सोम-छानने के तल में लगे होते थे और जिनके आधार पर ही छानने के कपड़े को ताना जाता था। किन्तु यह व्याख्या अत्यन्त सन्दिग्ध है।^३

^१ ९ ३, २; ६५, १२, ९९, १।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०।

^३ हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथोलोजी, १, २०३, वर्गेन : रिलीजन वेदिके, १, ५,

औलडेनवर्ग : त्सी० गे० ५४, १७१;

गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन, ३, ९७-११०।

वि-पथ, खराब मड़कों पर चल सकने योग्य गाड़ी का छोटक है, और त्रात्य^१ के वर्णन में आता है। तु० की० अनस्।

^१ अथर्ववेद १५ २, १, पञ्चविंश ब्राह्मण १७ १, १४, लाट्यायन श्रौतसूत्र ८ ६, ९, अनुपठ सूत्र ५ ४, कात्यायन श्रौतसूत्र २० ४, ११,

आपस्तम्ब श्रौतसूत्र २२ ५, ५, तु० की० ७ ३, ८। तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, ४४।

१. विपश्चित् दृढ-जयन्त लौहित्य ('लोहित' का वंशज) का, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ४२, १) में, दक्ष जयन्त लौहित्य के शिष्य के रूप में उल्लेख है।

२. विपश्चित् शकुनि-मित्र पाराशर्य (पराशर का वंशज) जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ४१, १) के एक वंश में अषाढ उत्तर पाराशर्य के शिष्य, एक गुरु का नाम है।

वि-पश् (पाश-रहित) एक नदी का नाम है जिसका ऋग्वेद^१ में दो बार उल्लेख है। यह पंजाब की आधुनिक व्यास और यूनानियों की 'ह्यपेसिम', अथवा 'विपेसिस', नदी ही है। वैदिक भारतीयों के लिये इसकी महत्त्वशून्यता इस तथ्य द्वारा व्यक्त होती है कि ऋग्वेद के दो सूक्तों के अतिरिक्त इसका आरम्भिक वैदिक साहित्य में कहीं भी उल्लेख नहीं है। निरुक्त^२ में यह वर्णन निहित है कि इसका पहले का नाम उरुञ्जिरा था,

^१ ३ ३३, १ ३, ४ ३०, ११। यास्क निरुक्त ११ ४८, इम वाद के स्थल पर 'वि-पाशिन्' विशेषण देखते हैं, किन्तु यह अत्यन्त असम्भाव्य है।

देखिये औलडेनवर्ग : ऋग्वेद-नोटेन, १, २९४।

^२ ९. २६। २. २४, ९ ३६ में भी 'विपाश्' का उल्लेख है।

जब कि गोपथ ब्राह्मण^१ 'वसिष्ठ-शिलाः' को इसके मध्य में स्थित बताता है। पाणिनि^२ भी इसी नाम का उल्लेख करते हैं जो अन्यथा वैदिकोत्तर साहित्य में 'विपाशा' के रूप में ही आता है। प्राचीन काल से अब तक इस नदी की धारा में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है।^३

^१ १ २, ७।

^२ ४ २, ७४।

^३ देखिये इम्पीरियल गेजेटियर ऑफ

इन्डिया, ७, १३८ (ग्यास)।

तु० की० रिसमर : आस्टिन्डिशे

लेवेन ११।

वि-पूजन शौराकि^१, अथवा 'सौराकि'^२, यजुर्वेद संहिताओं में एक गुरु का नाम है।

^१ मैत्रायणी संहिता ३ १, ३।

| ^२ काठक संहिता २७ ५।

विपृथु, शाङ्खायन श्रौत सूत्र (१४. ७२, ३) में प्रत्यक्षतः अन्य ग्रन्थों के विपथ का समानार्थी है। यह सम्भवतः केवल एक त्रुटि मात्र ही है।

विप्र, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में एक 'प्रेरित गायक' का द्योतक प्रतीत होता है। वाद के ग्रन्थों^३ में यह अधिक विशिष्टतः एक विद्वान ब्राह्मण का द्योतक है। महाकाव्य परम्परा में इमका 'ब्राह्मण' से अधिक कुछ और अर्थ नहीं।

^१ १ १०९, २ ११, १६२, ७, ४ २६,

१, इत्यादि। सात की चर्चा है ३.

७, ७, ३१, ५, ४ २, १५ इत्यादि।

^२ तैत्तिरीय संहिता २ ५, २, १; वाजस

नेथि संहिता ९ ४, शतपथ ब्राह्मण

१ ४, २, ७ इत्यादि।

^३ शतपथ ब्राह्मण १ ५, ३, १२ इत्यादि।

विप्र-चित्ति^१ अथवा विप्र-जित्ति^२, बृहदारण्यक उपनिषद् के प्रथम दो चंशों में एक गुरु का नाम है।

^१ २ ६, ३; ४. ६, ३ कण्व।

| ^२ २ ५, २२, ४ ५, २८ माध्यन्दिन।

विप्र-जन सौराकि, काठक संहिता^१ के लिए सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश द्वारा दिया गया विपूजन के नाम का रूप है।

^१ २७ ५, वेबर : इन्डिशे स्टूडियन, ३,

४७७ यह रूप देते हैं, जो कि आधे

'२' को 'ऊ' की मात्रा के रूप में

मिथ्याग्रहण के कारण ही हुआ है।

विवाली, एक वार ऋग्वेद^१ में प्रत्यक्षतः किसी अज्ञात नदी के नाम के रूप में मिलता है।

^१ ४ ३०, १२। तु० की० रिसमर : आस्टिन्डिशे लेवेन, १२, १८।

विभण्डक काश्यप (काश्यप का वंशज) वंश ब्राह्मण^१ में ऋष्यशृङ्ग के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

^१ इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७४ । तु० की०
सेन्ट पॉटर्सबर्ग कोश, व० स्था०,
'विभाण्डक' जो अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध ।

अक्षर-विन्यास है (वौटलिङ्क' डिक्श-
नरी, व० स्था०) ।

वि-भिन्दु, ऋग्वेद (८. २, ९१) में एक तोते का नाम है ।

तु० की० हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० १७, ५९ ।

विभिन्दुक, पञ्चविंश ब्राह्मण^१ में एक ऐसे मनुष्य अथवा दास^२ के नाम के रूप में आता है जिसके लिये मेधातिथि ने गायों को हाँक दिया था । हॉपकिन्स^३ मेधातिथि के पैतृक नाम के रूप में इसे 'वैभिन्दुक' पढ़ना चाहते हैं । तु० की० विभिन्दुकीय ।

^१ १५ १०, ११ ।

^३ ट्रा० सा० १५, ६० नोट १ ।

^२ तु० की० मायण

विभिन्दुकीय पुरोहितों के उस वर्ग का नाम है जिनके 'सत्र' का जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण^१ में उल्लेख है ।

^१ ३ २३३ (ज० अ० ओ० सो०, १८, ३८) ।

विभीतक^१ और विभीदक^२ (जो कि अपेक्षाकृत प्राचीन रूप है), एक ऐसे बड़े वृक्ष (Terminalia bellerica) का द्योतक है जिसके फल के बीज का पासों के रूप में प्रयोग होता था ।^३ इसकी लकड़ी का भी, यज्ञाग्नि को प्रज्वलित रखने के लिये, व्यवहार किया जाता था ।^४

^१ ऋग्वेद के बाद यही रूप प्रचलित है ।

१६, इत्यादि ।

^२ ऋग्वेद ७ ८६, ६; १० ३४, १ ।

तु० की० रिसमर • आल्टिन्डिशे

^३ ऋग्वेद ७ ८६, ६; १० ३४, १ । देखिये २ अक्ष ।

लेवेन, ६२; रीथ : गुरुपूजाकौमुदी,

^४ तैत्तिरीय संहिता २ १, ५, ८, ७, ३ ।

१-४, ल्यूडर्स • डा० ३०, १७-१९ ।

तु० की० शनपथ ब्राह्मण १३. ८, १,

१. वि-म-द को अनुक्रमणी द्वारा ऋग्वेद^१ के अनेक सूक्तों के प्रणयन का ध्येय दिया गया है । इन सूक्तों में इस द्रष्टा^२ के नामोल्लेख, तथा एक बार इसके परिवार, 'विमदों', का भी उल्लेख इस कथन की पुष्टि करता है । साथ

^१ ऋग्वेद १० २०-२६ ।

| ^२ ऋग्वेद १० २०, १०, २३, ७ ।

ही इन सूक्तों^१ में 'वि वो मदे'^२ (तुम्हारे पानोत्सव में) पद भी बहुधा आता है । अक्सर वाद^३ में भी विमद का उल्लेख है ।

^३ ऋग्वेद १० २३, ६ ।

^५ अथर्ववेद ४. २९, ४, ऐतरेय ब्राह्मण

^४ ऋग्वेद १० २१, १-८, २४, १-३ ।

५ ५ १ ।

२. विमद का ऋग्वेद^३ के अनेक स्थलों पर अश्विनों के उस आश्रित के रूप में उल्लेख है जिसे अश्विनों ने कमधु नामक पत्नी प्रदान की थी । गत विमद से इसका समीकरण असम्भाव्य है ।

^१ १ ५१, ३, ११२, १९, ११६, १,

११७, २०, १०. ३९, ७, ६५, १२ ।

८ ९, १५ के आधार पर लुडविग

(ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १०५)

ने यह निष्कर्ष निकाला है कि विमद और वत्स एक ही व्यक्ति हैं ।

वि-मुक्ता (मोती), एक वाद के ग्रन्थ, षड्विंश ब्राह्मण (५. ६) में मिलता है ।

वि-मोक्तृ पुरुषमेध^३ क वलि-प्राणियों की तालिका में 'योक्तृ' (जो रथ में अश्वों को सन्नद्ध करता है) के विपरीत उस व्यक्ति का द्योतक है जो रथ से अश्वों को रोलता है । इससे मिलता-जुलता 'विमोचन' शब्द भी अक्सर मिलता है ।^४

^३ वाजसनेयि संहिता ३० १४, तैत्तिरीय

ब्राह्मण ३. ४, १०, १ (तु० की०

'विमोचनी' जिसे लाक्षणिक आशय में

प्रयुक्त किया गया है, वही, ३

७, १४, १) ।

^२ ऋग्वेद ३ ५३, ५, २०, ४ ४६, ७,

इत्यादि, तैत्तिरीय संहिता, ७. ५, १,

५ इत्यादि ।

वि राज् का, एक राजकीय उपाधि के रूप में ऋग्वेद^३ में अनेक बार, किन्तु केवल लाक्षणिक आशय में ही, उल्लेख है । एक वास्तविक उपाधि के रूप में इसे ऐतरेय ब्राह्मण^२ में उत्तर कुरुओं और उत्तर मद्रों द्वारा प्रयुक्त बताया गया है ।

^१ १ १८८, ५, ९ ९६, १८, १० १६६,

१, इत्यादि, अथर्ववेद १० ३, ११,

१४ २, १५, इत्यादि ।

वि-रूप उस अङ्गिरस का नाम है जिसका ऋग्वेद^३ में दो बार उल्लेख है और जिसे ही अनुक्रमणी^२ द्वारा कुछ सूत्रों के प्रणयन का श्रेय दिया गया है ।

^१ १ ४५, ३, ८. ७५, ६ ।

| ^२ ८ ४३ और वाद, ६४ ।

विलिगी, अथर्ववेद (५. १३, ७) में एक प्रकार के सर्प का द्योतक है ।
विलिष्ट-भेषज, अथर्ववेद (पैप्पलाद, २०. ५, २) में मोंच की एक औषधि का द्योतक है ।

वि-लोहित अथर्ववेद^१ में उल्लिखित एक व्याधि का नाम है । ब्लूमफील्ड^२ का विचार है कि इसमें 'नाक के रक्त-स्राव' का तात्पर्य है । हेनरी^३ इसका 'रक्त-दोष', और व्हिटने^४ 'रक्ताल्पता' अनुवाद करते हैं ।

^१ ९ ८, १, १२ ४, ४ ।

^२ अथर्ववेद के सूक्त, ६५७ ।

^३ ले० १०५, १४० ।

^४ अथर्ववेद का अनुवाद, ५४९ ।

वि-वध अथवा वी-वध, एक ऐसे 'जूये' का द्योतक प्रतीत होता है जिसे चोक्ष ढोने के लिये कन्धे पर धारण किया जाता था । किन्तु यह ब्राह्मणों^१ में ही मिलता है और केवल 'वि-विवध'^२ (असमान रूप से वितरित चोक्ष) और 'स-वीवधता'^३ (चोक्ष की समानता) जैसे पदों में लाक्षणिक रूप से ही प्रयुक्त हुआ है ।

^१ तैत्तिरीय महिता ७ २, ५, २; ७, ३, 'वि-वीवध', पञ्चविंश ब्राह्मण ४. ५, १९, 'उभयतो-वीवध', काठक सहिता ७७ १० ।

^२ ऐतरेय ब्राह्मण ८ १, ४, पञ्चविंश ब्राह्मण १४. १, १०, 'स-वीवध-त्व', ५, १, ११, २१ ५, ७ इत्यादि ।

वि-वयन, ब्राह्मणों^१ में उन 'पट्टियों' का द्योतक है जो सिंहासन (असन्दी) में लगी होती थीं ।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ८ ५, ३, शतपथ ब्राह्मण १० ८, ३, ६ । सूत्रों में 'विवान'

का यही आशय है : लाट्यायन श्रौत-सूत्र, ३ १२, १, इत्यादि ।

वि-वाह (शादी) का अथर्ववेद^१ और वाद^२ में उल्लेख है । देखिये पति ।

^१ १२ १, २४, १४ २, ६५ । इसके लिये ऋग्वेदिक शब्द वहतु है ।

^२ तैत्तिरीय महिता ७ २, ८, ७, काठक

सहिता २५ ३, पञ्चविंश ब्राह्मण ७. १०, ४, ऐतरेय ब्राह्मण ४ २७, ५ और अक्सर सूत्रों में ।

विश्, कुछ सन्दिग्ध आशय का शब्द है । ऋग्वेद^१ के अनेक स्थलों पर 'वस्ती' अथवा 'आवास' का आशय पर्याप्त और सम्भव है, क्योंकि 'विश्'

^१ ४. ४, १३, ३७, १, ५ ३, ५, ६ २१, ४; ४८, ८; ७ ५६, २२, ६१, ३,

७०, ३, १०४, १८, १०. ९१, २, इत्यादि ।

धातु का अर्थ 'प्रवेश करना' अथवा 'बसना' है। अन्य स्थलों पर, जहाँ राजा के सन्दर्भ में विशः आता है, इस शब्द से 'प्रजा' का आशय होना चाहिये,^१ उदाहरण के लिये जहाँ *तृणस्कन्द*^२ अथवा *तृत्सुत्रों*^३ का उल्लेख है वहाँ यही आशय है। पुनः कुछ स्थलों पर^४ सामान्य रूप से एक जाति के लोगों का आशय पर्याप्त है; उदाहरण के लिये जहाँ ऋग्वेद 'आर्य लोगों'^५ अथवा 'दिव्य लोगों'^६ अथवा 'दास लोगों', इत्यादि^७ की चर्चा करता है वहाँ यही आशय है।

फिर भी, कभी-कभी^८ विश् शब्द जन अथवा समस्त जनता के एक उपविभाजन के विशेष आशय में आता है। किन्तु ऐसा प्रयोग बहुत सामान्य

^२ ऋग्वेद ४. ५०, ८; ६ ८, ४, १०
१२४, ८, १७३, ६, अथर्ववेद ३, ४,
१; ४. ८, ४, २२, १३, तैत्तिरीय
सहिता ३. २, ८, ६, वाजसनेयि
सहिता ८ ४६, शतपथ ब्राह्मण १. ८,
२, १७, ४. २, १, ३; ५ ३, ३, १२;
४, २, ३; १०. ६, २, १; १३
६, २, ८, कौषीतकि उपनिषद्
४. १२, इत्यादि। नोट ११ के अन्तर्गत
उद्धृत अनेक स्थलों को भी यहाँ
रक्खा जा सकता है जब कि अथर्ववेद
३ ४, १, इत्यादि, में जनता के उप-
विभाजन के रूप में 'विश' के अन्तर्गत
आनेवाले लोगों द्वारा राजा के निर्वा-
चन का सन्दर्भ देखा गया है, किन्तु
देरिये राजन्, और तु० की० पिश्ल-
वेदिशे स्टूटियन, १, १७९, गेल्डनर
वेदिशे स्टूटियन, २, ३०३, हॉपकिन्स :
ज० अ० ओ० सो०, १३, ११३।

^३ ऋग्वेद १ १७२, ३।

^४ ऋग्वेद ४. ३३, ६; गेल्डनर उ० पु०,
१३६।

^५ उदाहरण के लिये ऋग्वेद ६ १, ८, २६,
१, ८ ७१, ११, 'मनुषो विशः', ६.
१४, २, ८ २३, १३, 'मानुषी' १०.
८०, ६, इत्यादि।

^६ ऋग्वेद १०. ११, ४।

^७ ऋग्वेद ३ ३४, २; अथर्ववेद ६ ९८, २;
वाजसनेयि सहिता १७ ८६।

^८ ऋग्वेद ४ २८, ४, ६ २५, २;
'अदेवीः' ८ ९६, १५; 'असिक्ती',
७ ५, ३, इत्यादि।

^९ ऋग्वेद २ २६, ३, जहाँ इसका जन,
जन्मन्, और पुत्रा. के साथ विभेद
किया गया है, १० ८४, ४, जहाँ युद्ध
में 'विश-विशम्' प्रत्यक्षत. आक्रामकों
के सैनिक दस्तों का द्योतक है (तु०
की० ४ २४, ४, 'विशो युष्मा.', मी);
१०. ९१, २, जहाँ यह 'गृह' और
'जन' से भिन्न है, अथर्ववेद १४ २,
२७, जहाँ 'गृहेभ्यः' के बाद 'अस्यै
सर्वस्यै विशे' आता है, जिसका अर्थ एक
ऐसा दस्ता है जो समस्त जनता से कम
होता है। तिसर : आल्टिन्डिशे लेवेन,
१५९, यहाँ ऋग्वेद १. १७०, ३, ७.
३३, ६, ९ ७, ५, १० १२४, ८,
१७३, २, को सकलित करते हैं, किन्तु
यह स्थल तथा अनेक अन्य, कवीले के
उपविभाजन की अपेक्षा 'प्रजाजनों'
के उदाहरण हैं।

नहीं है, क्योंकि अधिकांश स्थलों पर उपरोल्लिखित प्रथम अथवा द्वितीय आशय ही सर्वथा सम्भव है। इसके अतिरिक्त यह निश्चित करना भी अत्यन्त कठिन है कि 'जन' के एक उपविभाजन के रूप में 'विश्' को स्थानीय उप-विभाजन मानना चाहिये, अथवा रक्त-सम्बन्ध का द्योतक जो कि इस शब्द के विस्तृत आशय में 'कबीले' के समकक्ष होगा, जब कि ग्राम अथवा गोत्र के साथ भी 'विश्' का सम्बन्ध सर्वथा अनिश्चित है। अथर्ववेद^{१०} के एक स्थल पर 'विश.' का 'सवन्धव.' अथवा सम्बन्धियों के साथ-साथ उल्लेख है, किन्तु इस तथ्य से कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। और न तो रोमन 'क्यूरिया' (curia) अथवा ग्रीक 'फ्रेट्रे' (φρηνη) के साथ तुलना ही इसपर कोई विशेष प्रकाश डालता है, क्योंकि स्वयं इन सस्थाओं की प्रकृति अत्यन्त अस्पष्ट है और इनके साथ किसी प्रकार की समानता का सगत होना आवश्यक नहीं। जो कुछ भी हो, कुछ दशाओं में 'विश्', गोत्र अथवा कबीले से अधिक कुछ नहीं, अथवा कभी-कभी विभिन्न गोत्रों के सम्मिलन से भी विश् का निर्माण हुआ हो सकता है, जब कि ग्राम अपेक्षाकृत अधिक निश्चित रूप से, सम्भवतः, एक स्थानीय सजा रहा होगा। किन्तु वैदिक प्रमाण सर्वथा अनिर्णायक हैं।^{११} तु० की० विस्पति।

वाद के काल में कुछ दशाओं^{१२} में 'विश्' का आशय निश्चित रूप से वैदिक

^{१०} १५. ८, २. ३। तु० की० १४ ७, २७ और नोट ९ में ऋग्वेद १० ९१, ७।

^{११} विश् मूलतः किसी एक स्थान पर बसे कबीले का द्योतक रहा हो सकता है : कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जहाँ 'गोत्र' से सम्भवतः सार्थक आशय व्यक्त नहीं होता। ऋग्वेद २ २६, ३ पर 'जन्मन्, और 'विश्' के विभेद के लिये बहुत अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। ऋग्वेद ५ ५३, ११ में 'मरुतो' के लिये प्रयुक्त 'शर्धशर्वम्', 'व्रात व्रातम्', 'गण गणम्' पदों की तुलना कीजिये जहाँ इन शब्दों को कोई भी ठीक ठीक आशय प्रदान नहीं किया जा सकता, यद्यपि रिसमर ने इनमें 'जन',

'विश्', और 'ग्राम' के समान ही आक्रामकों के त्रिस्तरीय विभाजन का आशय देखा है। अतः 'गौ' के रूप में अनुवाद का विशेष आधार नहीं है।

^{१२} सम्भवतः ब्राह्मणों और वाद की संहिताओं के अनेक स्थल इसी आशय के अन्तर्गत आते हैं जहाँ 'विश्', और 'क्षत्र' अथवा कबीले के लोगों और उनके प्रधान, अथवा विशिष्ट जनों और सामान्य ग्रामीणों के बीच, कलह का आशय है—उदाहरण के लिये तैत्तिरीय संहिता २ २, ११, २, मैत्रायणी संहिता २ १, ९, ३ ३, १०; काठक संहिता १९. ९ और अक्सर। पञ्चविंश ब्राह्मण १८. १०, ९, शतपथ^१

ब्राह्मण २. १, ३, ५, ८, ७, २, ३, १३, २, २, १७, १९, ९, ६, १४, १, ३, २७, इत्यादि, छान्दोग्य उपनिषद् ८, १४ ।

तु० की० तिसमरः आस्टिन्डिशे लेवेन, १५ और वाद, श्रेटरः प्रिह्-स्टॉरिक एन्टीक्विटीज, ८०० और वाद; मैकडौनेल सस्कृत लिटरेचर, १५८, फॉन श्रोडर* इन्डियन्म लिटरेचर डण्ट कल्चर, ३०, ३३, सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । रोमन 'व्यूरिया', जो कि प्रत्यक्षत जेन्टिस (Gentes) का सकलन है, के लिये देखिये मॉम-सेन हिस्ट्री ऑफ रोम, १, ७० और वाद, रो० फौ० १, १४०-१५०, रो० स्टा० ३, ९, टेलरः हिस्टी ऑफ रोम

११, १२, स्मिथ* डिक्शनरी ऑफ एन्टीक्विटीज १, ५७६, कक. ल० रो० ३०-३६ । ग्रीक 'फ्रेट्रिया' के लिये, जो सम्भवतः 'जेने' (Γενη) से निर्मित इसी समान सस्था था, देखिये डिक्शनरी ऑफ एन्टीक्विटीज, २, ८७६ और वाद, ग्रीनिज : ग्रीक कॉन्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री १०८ और वाद, वर्ग : हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, ६९, ७०, गिलवर्ट : ग्रीक कॉन्स्टीट्यूशनल एन्टीक्विटीज, १, १०४ और वाद, २१० । 'इग्लिश' 'इन्ड्रेड्स' और उनके साथ टेसिटस के 'पेजी' (Page) की तुलना के लिये देखिये मेड्ले इंग्लिश कॉन्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री, २, ३१८ और वाद ।

राजतंत्र के वर्गों में से विशिष्ट जनों (क्षत्र, क्षत्रिय) और पुरोहितों (ब्रह्मन्, ब्राह्मण) के विपरीत तृतीय वर्ग तक सीमित है । इस वर्ग की स्थिति के लिये देखिये वैश्य ।

वि-शर, अथर्ववेद^१ में एक व्याधि के रूप में आता है । तिसमर^२ का विचार है कि इससे उ्वर के साथ-साथ होनेवाली हाथ पैर की पीड़ा का तात्पर्य यह है (देखिये तक्मन्) । रौथ^३ इस शब्द में किसी दानव का आशय देखते हैं । एक अन्य स्थल^४ पर वलास के साथ-साथ 'विशरीक' के प्रयोग द्वारा तिसमर के दृष्टिकोण की पुष्टि होती है ।

^१ २, ४, २ ।

^२ आस्टिन्डिशे लेवेन, ३९१ ।

^३ सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० ।

^४ १९, ३४, १० ।

तु० की० ब्लूमफील्ड . अथर्ववेद के सूक्त, २८४ ।

वि-शाखे—देखिये नक्षत्र ।

विश्-पति कुछ अनिश्चित आशय का शब्द है और इस दृष्टि से यह बहुत कुछ विश् के ही समान है । तिसमर^१ का विचार है कि अपने निश्चित आशय में यह गोत्र अथवा कबीले के प्रधान का द्योतक है, किन्तु आप यह

^१ आस्टिन्डिशे लेवेन, १७१ ।

भी स्वीकार करते हैं कि किसी भी स्थल पर इस आशय की आवश्यकता नहीं, और जो एकमात्र स्थल आपने^२ उद्धृत भी किया है वह निश्चित रूप से अनिर्णायक है। अधिकांश स्थलों^३ पर इस शब्द से केवल 'आवास के अधिपति' का ही आशय है, चाहे इसका प्रयोग मनुष्य के लिये, अथवा श्रेष्ठतम गृहपति के रूप में अग्नि के लिये, अथवा सम्भवतः सामान्य जनता की सभा की अग्नि के लिये ही किया गया हो। यही आशय ऋग्वेद^४ के उस स्थल के भी अनुकूल है जिसमें 'विश्वपति', तथा साथ ही साथ, एक कन्या^५ के पिता और माता को इसलिये निद्रित कर देने का आशय है जिससे उसका प्रेमी उसके पास जा सके, क्योंकि यहाँ गृहस्थी को एक ऐसा सम्मिलित परिवार माना गया हो सकता है जिसमें कन्या के पिता के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति, जैसे पितामह अथवा चाचा भी विश्वपति रहा हो सकता है। अन्य स्थलों^६ पर 'प्रजाजनों (विशाम्) के अधिपति' के रूप में राजा ही 'विश्वपति' है, यद्यपि यहाँ तिस्र^७ के विचार से राजा^८ के निर्वाचन का सन्दर्भ है। अथवा पुनः^९ सम्भवतः 'प्रजा' के आशय में विश्व के प्रधान को विश्वपति कहा गया है।

^२ ऋग्वेद १ ३७, ८।

^३ ऋग्वेद १ १२, २, २६, ७; १६४, १, २ १, ८, ३ २, १०, ४०, ३, ७ ३९, २, ९ १०८, १०, १० ४, ४, १३५, १, इत्यादि। इसी प्रकार गृह-स्वामिनी के रूप में 'विश्वपती' तैत्तिरीय संहिता ३ १, ११, ४।

^४ ७ ५५, ५ = अथर्ववेद ४ ५, ६।

^५ उसी प्रकार अफरेखत इण्डिशे स्टूडियन, ४, ३३७ और वाद, तिस्र उ० पु०, ३०८। तु० की० लैनमैन-सस्कृत रीडर, ३७०। गेल्डनरः वेदिके स्टूडियन, २, ५५ और वाद, बृहद्देवता ६ ११ और वाद (जहाँ देखिये मैकडौनेड की टिप्पणी) के इस दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं कि इस सूक्त में एक चोर के रूप में वसिष्ठ द्वारा किसी गृह के निकट जाने का सन्दर्भ है। यह व्याख्या विश्वपति के आशय को प्रभावित नहीं करती

जो यहाँ स्पष्ट रूप से किसी कवीले के प्रधान की उपाधि नहीं है। कभी-कभी 'विश्व' सजात के समान हैं, तु० की० तैत्तिरीय संहिता ३. १, ३, २ ३।

^६ अथर्ववेद ३ ४, १, ४ २२, ३। सम्भवतः ऋग्वेद ३ १३, ५ को भी इसी आशय में ग्रहण करना चाहिये; तु० की० ७ ३९, २। तु० की० वेवरः इण्डिशे स्टूडियन, १८, २२।

^७ उ० पु०, १६४, १६५।

^८ किन्तु देखिये राजन्।

^९ उदाहरण के लिये तैत्तिरीय संहिता ३. ३, १, ३ जहाँ विश्व स्पष्टतः प्रजा-वर्ग का द्योतक है, और विश्वपति उनके प्रमुख प्रतिनिधि का। इस प्रकार के स्थल द्वारा हम विश्व के प्रधान तक के रूप में भी विश्वपति के वैधानिक पद के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते।

विश्वप्ता, ऋग्वेद^१ की परम्परा के अनुसार एक ऐसी स्त्री का नाम है जिसे, किसी स्पर्धा में नष्ट हो गये एक पैर के स्थान पर अश्विनों ने एक लोहे का (आयसी) पैर प्रदान किया था। पिशल^२ का विचार है कि यहाँ एक ऐसे दौड़ने वाले अश्व का तात्पर्य है जिसके टूटे हुये एक पैर का अश्विनों ने अद्भुत रूप से उपचार किया था, किन्तु यह एक असम्भाव्य अनुमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं।

^१ १ ११२, १०, ११६, १५, ११७, ११ :
११८, ८ : १० ३९, ८।

^२ वेदिशे स्टूडियन, १, १७१-१७३।

तु० की० मैकडौनेल वैदिक माइ-

थोलोजी, ५२; मूर्शर . सस्कृत टेक्स्ट्स,
५, २४५, ब्लूमफील्ड : रिलीजन ऑफ
वेद, ११३, औल्डेनवर्ग : ऋग्वेद-
नोटन १, ११०, १११।

विश्वक, जिसे ऋग्वेद^१ में 'कृष्णिय' (सम्भवतः कृष्ण का पुत्र) कहा गया है, अश्विनों का एक आश्रित है। अश्विनों ने इसके विष्णापु नामक खोये हुये पुत्र को इसे पुनः प्रदान किया था। देखिये २. कृष्ण।

^१ १ ११६, २३, ११७, ७, ८ ८६, १, १० ६५, १०। तु० की० मैकडौनेल .
वैदिक माइथोलोजी, ५२।

विश्व-कर्मन् भौवन ('भुवन' का वंशज) एक सर्वथा पौराणिक राजा का नाम है। ऐतरेय ब्राह्मण^१ में यह कथन है कि कश्यप ने इमका अभिषेक किया था और इसने कश्यप को दक्षिणा के रूप में पृथ्वी (अर्थात् सम्भवतः भूमि के एक टुकड़े) का दान किया था। शतपथ ब्राह्मण^२ में इसने सर्वमेध यज्ञ किया था और इसी प्रकार की दक्षिणा दी थी। किन्तु इन दोनों ही अवसरों पर पृथ्वी ने अपने इस प्रकार दिये जाने को अस्वीकृत कर दिया था। इस कथा में सम्भवतः भूमि-दान सम्बन्धी आरम्भिक घृणा के भाव का सन्दर्भ प्रतीत होता है,^३ किन्तु निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इसका ऐसा ही अर्थ है।

^१ ८. २१, ८।

^२ १३ ७, १, १५।

^३ रिज डेविड्स . बुद्धिस्ट इन्डिया, ४७।

तु० की० एग्लिङ्ग : से० तु० ई०, ४४,
४०१, नोट १, मूरर सस्कृत टेक्स्ट्स,
१^२, ४५६, ४५७।

विश्वन्तर सौ-षड्मन ('सुषड्मन्' का वंशज) ऐतरेय ब्राह्मण^१ में एक ऐसे राजा का नाम है जिसने अपने पुरोहित श्यापयों को सेवा-मुक्त

^१ ७ २७, ३ ४, ३४, ७ ८। तु० की०
मूरर . सस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, ४३१-

४४०, एग्लिङ्ग से० तु० ई०, ४३,
३४४, नोट।

करके विना उनकी सहायता के ही, सम्भवतः दूसरे पुरोहित द्वारा, यज्ञ कराया था। फिर भी राम मार्गवेय नामक एक श्यापर्ण ने राजा को पुनः श्यापर्णों की नियुक्ति और उन्हें एक सहस्र गाये प्रदान करने के लिये सहमत करने में सफलता प्राप्त कर ली थी।

विश्व-मनस्, उस ऋषि का नाम है जिसका ऋग्वेद^१ के दो स्थलों पर और पञ्चविंश ब्राह्मण^२ में इन्द्र के मित्र के रूप में उल्लेख है। अनुक्रमणी के अनुसार यह व्यश्व का वंशज और कुछ सूक्तों का प्रणेता था।^३

^१ ८. २३, २, २४, ७।

^२ १५, ५, २०।

^३ ऋग्वेद ८ २३-२६।

तु० की० लुडविड . ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १०६।

विश्व-मानुष, ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर व्यक्तिवाचक नाम हो सकता है, किन्तु अधिक सम्भवतः इससे केवल 'अखिल मानव जाति' का अर्थ है।

^१ ८. ४५, २२। तु० की० लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १८७।

विश्व-वार, ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर प्रत्यक्षतः किसी होता के नाम के रूप में आता है।

^१ ५ ४४, ११। तु० की० लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १३८।

विश्व-सृज, कुछ ऐसे पौराणिक व्यक्तियों का नाम है जिन्हें पञ्चविंश ब्राह्मण (२५.१८, १ और बाद) में एक यज्ञ-सत्र के आयोजन श्रेय का दिया गया है।

विश्व-सामन्, ऋग्वेद^१ में एक आत्रेय का नाम है।

^१ ५ २२, १। तु० की० औल्डेनवर्ग। त्सी० ने०, ४२, २१५।

विश्वा-मित्र, उस ऋषि का नाम है जिसका ऋग्वेद^१ में उल्लेख है, और जिसे परम्परा द्वारा ऋग्वेद के तृतीय मण्डल के प्रणयन का श्रेय दिया गया है। एक सूक्त^२ में, जो इसी की कृति प्रतीत होता है, यह विपाश् और शुतुद्री की स्तुति करता है। यहाँ^३ यह अपने को कुशिक का पुत्र कहता है, और

^१ 'कुशिक' के पुत्र के रूप में, ऋग्वेद ३ ३३, ५, में; विश्वामित्र के रूप में ३ ५३, ७ १२ में।

^२ ३ ३३। लुडविड . ऋग्वेद का अनुवाद ३, १२१, इस सूक्त को इतना अधिक

काव्यात्मक मानते हैं कि इस प्रसिद्ध प्रणेता की वास्तविक कृति होना सम्भव नहीं।

^३ ऋग्वेद ३ ३३, ५।

निश्चित रूप से उन भरतों का सहायक प्रतीत होता है जिनका यह यहाँ उल्लेख करता है। आक्रमण में लिप्त जातियाँ प्रत्यक्षतः इन नदियों के तट पर पूर्व की दिशा से आई थीं।^५ इन्हें पार करने की इच्छा रखते हुये भी इन्होंने इन नदियों को अत्यन्त वाद की अवस्था में पाया, किन्तु विश्वामित्र ने अपनी स्तुति से इनके जलों को शान्त कर दिया था। ऋग्वेद^६ के इसी मण्डल के एक अन्य स्थल पर भी इनके इसी महान कार्य का उल्लेख है। यह आश्चर्यजनक है कि सायण^७ ने स्थिति का मिथ्या-ग्रहण किया है : इनके अनुसार, अपने पद द्वारा सम्पत्ति अर्जित कर लेने पर विश्वामित्र दूमरों द्वारा पीछा किये जाने के कारण अपने धन सहित इन नदियों के तट पर भाग आये थे। इस कथा का यास्क^८ द्वारा प्रस्तुत स्वरूप केवल इतना ही व्यक्त करता प्रतीत होता है कि अपने पुरोहित के रूप में कार्य कराने के लिये राजा ने विश्वामित्र को धन दिया था। सुदास् की सेवा के सन्दर्भ में विश्वामित्र और वसिष्ठ के सम्बन्धों के लिये देखिये वसिष्ठ।

ऋग्वेद^९ के अनेक अन्य स्थलों पर भी विश्वामित्रों का उल्लेख है और इन्हें एक परिवार के रूप में कुशिकाः^{१०} शब्द द्वारा व्यक्त किया गया है।

वाद के साहित्य में वसिष्ठ की ही भाँति विश्वामित्र भी एक पौराणिक ऋषि बन जाते हैं जिनका सामान्यतया^{१०} जमदग्नि के सन्दर्भ में उल्लेख है; यह उस शुनःशेष के यज्ञ के समय होच पुरोहित थे जिसे दत्तक लेकर

^५ इसी प्रकार गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन, ३, १५२। रिसमर . आर्लिडन्टिशे लेवेन, १२७, १२८ एक मित्र दृष्टिकोण ग्रहण करते हैं . रीथ तुं० वे०, ९०, के साथ आप यह मानते हैं कि भरतगण तुंसुओं से मित्र थे, और विश्वामित्र के अधीनस्थ पश्चिम से आये, किन्तु पराजित हुये थे (देखिये ७ ३३, ६)। किन्तु देखिये वेवर : ए० रि०, ३४, नोट १, पिशल . वेदिशे स्टूडियन, २, १३६। ब्लूमफील्ड : ज० अ० ओ० सो०, १६, ४१, ४२ भी रीथ के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं।

^५ ३ ५३, ९-११। यह सूक्त सम्भवतः

वाद का है।

^६ ऋग्वेद ३ ३३ पर सायण।

^७ निरुक्त २ २४।

^८ ३ १, २१, १८, ४, ५३, १३, १०, ८९, १७, अथर्ववेद १८. ३, ६, ४, ५४, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण ३. १५, १।

^९ ऋग्वेद ३ २६, १. ३; २९, १५, ३०, २०, ४२, ०, ५३, ९ १०।

^{१०} तुं० को० ऋग्वेद ३, ५३, १५ १६, सर्वानुक्रमणा (पृ० १०७) के मैक-टौनेल के संस्करण में, पद्गुरुशिष्य, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, १, ११७, मूशर . संस्कृत टेक्स्ट्स १^२, ३४३, गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन, ३, १५८ और बाद।

इन्होंने देवरात^{११} नाम प्रदान किया था। यह इन्द्र के एक आश्रित थे और ऋग्वेद के आरण्यकों^{१२} के अनुसार इनका इन्द्र से साक्षात्कार भी हुआ था। इनका एक ऋषि^{१३} के रूप में भी उल्लेख है।

महाकाव्य^{१४} में विश्वामित्र को एक ऐसे राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो ब्राह्मण हो गया था। इसके राजा होने का ऋग्वेद में कोई भी चिह्न नहीं है, किन्तु निरुक्त^{१५} में कुशिक नामक एक राजा को इसका पिता कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण^{१६} में शुनःशेष को जहुत्रों का आधिपत्य, और साथ ही साथ, गाथिनों के 'दैव वेद' को प्राप्त करनेवाला कहा गया है, और पञ्चविंश ब्राह्मण^{१७} में विश्वामित्र का एक राजा के रूप में उल्लेख है। किन्तु विश्वामित्र के इस प्रकार राजा होने का कोई वास्तविक चिह्न नहीं मिलता : इसे केवल एक ऐसी कथा मात्र मानना चाहिये जिसका आधार अधिक से अधिक इतना ही है कि विश्वामित्र एक ऐसे परिवार से सम्बद्ध थे जो कभी राज-वंश था। किन्तु इतना तक भी सन्दिग्ध है।

^{११} ऐतरेय ब्राह्मण ७ १६ और वाद, शाङ्खायन श्रौतसूत्र १५ १७ और वाद।

^{१२} ऐतरेय आरण्यक २, २, ३, शाङ्खायन आरण्यक १ ५।

^{१३} ऐतरेय आरण्यक २ २, १, ऐतरेय ब्राह्मण ६ १८, १, २०, ३, तैत्तिरीय संहिता २. २, १, २, ३. १, ७, ३, ५ २, ३, ४, इत्यादि, काठक संहिता १६ १९, २० ९, मैत्रायणी संहिता २ ७, १९, कौषीतिकि ब्राह्मण १५ १, २६ १४, २८ १ २, २९ ३, पञ्चविंश ब्राह्मण १४ ३, १२, बृहदारण्यक उपनिषद् २ २, ४, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण २ ३, १३, १५, १, इत्यादि। जमदग्नि अक्सर इससे सम्बद्ध है, अथर्ववेद ४ २९, ५, इत्यादि।

^{१४} मूहर . सस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, ३८८

और वाद।

^{१५} २ २४।

^{१६} ७ १८, ९। किन्तु शाङ्खायन श्रौतसूत्र १५ २७ में एक सर्वथा भिन्न वर्णन है, जिसको ही वेबर ए० रि० १६, नोट ३, ग्रहण करते हैं और जिसमें 'जहुत्रों' के आधिपतित्व का कोई भी सन्दर्भ नहीं है। इससे ऐसा व्यक्त होता है कि इस वाद की परम्परा पर बहुत कम जोर दिया जाना चाहिये।

^{१७} २१ १२, २।

तु० की० लुडविग . ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १२१; औल्डेनवर्ग त्सी० मे० ४२, २०९, २१०; मूहर . सस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, ३३७ और वाद, वेबर : उ० पु० १६ और वाद; इन्डियन लिटरेचर, ३१, ३७, ३८, ५३, इत्यादि।

विष, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में नियमित रूप से विषन्न औषधि के रूप में उस 'विष' का द्योतक है जिसके लिये अथर्ववेद^३ में अभिचारों का उल्लेख है।

^१ १ ११७, १६, १९१, ११, ६ ६१, ३, ९०, २।

१० ८७, १८, इत्यादि।

^२ अथर्ववेद ४ ६, ७, ५ १९, १०, ६

^३ ब्लूमफील्ड अथर्ववेद, ६१।

विष-विद्या का आम्बलायन गृह्य सूत्र (१०.७५) में अन्य विद्याओं के साथ उल्लेख है। तु० की० विद्या।

विषाणा, अथर्ववेद^१ और वाद में पशुओं की सींग का द्योतक है।

^१ ३ ७, १ ७; ६, १०१, १, ऐतरेय
ब्राह्मण ७ ११, १०, शतपथ ब्राह्मण
७ ३, २, १७। प्रमुखत एक साम-

यिक पात होनेवाली सींग का ही अर्थ है। देखिये विहट्ने : अथर्ववेद का अनुवाद, ९४।

विषाणाका, अथर्ववेद^१ में एक पौधे का नाम है। फिर भी, ब्लूमफील्ड^२ का विचार है कि इस शब्द का केवल 'सींग' अर्थ ही हो सकता है। इसका 'वातीकार'^३ नामक एक व्याधि की औषधि के रूप में प्रयोग किया गया है। इस व्याधि की प्रकृति सन्दिग्ध है : तिसमर^४ ऋग्वेद^५ में 'अ-वात' विशेषण के साथ तुलना करते हुये ऐसा विचार व्यक्त करते हैं कि यह व्याधि 'घावों' के कारण होती थी; किन्तु ब्लूमफील्ड^६ यह दिखाते हैं कि शरीर में 'वायु' की प्रधानता को ही इस व्याधि का कारण माना गया है।

^१ ६ ४४, ३। तु० की० 'विषाणिका',
वाइज हिन्दू सिस्टम ऑफ मेडिसिन
१४६, में जो सम्भवत. Asclepias
geminata है; ब्लूमफील्ड अ० फा०,
१२, ४०६, तिसमर आस्ट्रिन्डिशे
लेवेन, ६८। किन्तु तु० की० विहट्ने.
अथर्ववेद का अनुवाद, ३१३।

^२ अथर्ववेद का अनुवाद ४८७।

^३ अथर्ववेद ९ ८, २०, 'वाती-कृत', ६.
४४, ३, १०९, ३।

^४ उ० पु० ३८९, ३९०।

^५ ६, १६, २०; ९ ९६, ८।

^६ उ० पु० ४८१ और वाद, ५१६।

विषाणिन् एक बार ऋग्वेद^१ में तृत्सुओं के शत्रुओं की सूची में उल्लिखित एक जाति के नाम के रूप में आता है, तृत्सु के मित्र के रूप में नहीं, जैसा

^१ ७ १८, ७।

रौथ^२ का विचार था। इस शब्द का अर्थ 'सींग-युक्त' है, किन्तु इस आशय में यह अज्ञात है; सम्भवतः इस जाति का शिरस्त्राण सींग के आकार का, अथवा सींगों से अलंकृत रहा होगा। अलिनों, भलानसों, शिवों, और पक्थों आदि इनके मित्रों की ही भाँति, इन्हें भी उत्तर-पश्चिम क्षेत्र का नियासी माना जा सकता है।

^२ तु० वे० ९५, तिस्र आस्टिन्डिशे लेवेन, १२६। किन्तु तिस्र (उ० पु० ४३०, ४३१) ने अपना मत परिवर्तित कर लिया था, अतः इस परिवर्तन की उपेक्षा करते हुये हॉपकिन्स

ज० अ० ओ० सो० १५, २६०, २६१ द्वारा इनकी आलोचना अनुपयुक्त है।
तु० की० लुडविगः ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १७३।

१. विषूवन्त्, अथर्ववेद^१ और वाद^२ में एक वर्ष की अवधि के यज्ञ-सत्र के मध्य-दिन का द्योतक है। तिलक^३ यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि 'विषूवन्त्' का शाब्दिक अर्थ वह दिन है जब रात्रि और दिन की अवधि बराबर होती है—अर्थात् सम्पातिक दिन। आपके अनुसार इस शब्द का वास्तविक आशय भी यही है। किन्तु यह सिद्धान्त सम्भावना से रहित है।^४

^१ ११. ७, १५।

^२ पञ्चविंश ब्राह्मण ४. ५, २, ७, १, ५
९, १०, ऐनरेय ब्राह्मण ३. ४१, ४,
४ १८, १; २२, १ २; ६. १८, ८,
कौषीतकि ब्राह्मण २५ १, २६ १,
तैत्तिरीय ब्राह्मण १. २, ३, २; शतपथ

ब्राह्मण १० १, २, २, ३, १४ २३,
४, २; २, १, ८ इत्यादि।

^३ ओरायन २१, २२।

^४ तु० की० हिट्टने : ज० अ० ओ० सो०
१६, LXXIII, और वाद।

२. विषूवन्त्, अथर्ववेद^१ में गृह के वर्णन में आता है। इससे 'छत की मुढेरी'^२ का अर्थ प्रतीत होता है।

^१ ९ ३, ८।

^२ तु० की० तिस्रः आस्टिन्डिशे लेवेन
१५१ (जिनका विचार है कि यह
वालों के पृथक होने के स्थान से विक-

सित लाक्षणिक प्रयोग है), ब्लूम-
फोल्ड : अथर्ववेद के सूक्त, ५९८;
हिट्टने . अथर्ववेद का अनुवाद ५२६।

विषूचिका, वाजसनेयि संहिता^१ में उल्लिखित एक ऐसी व्याधि है जो अत्यधिक सोम-पान के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न होती थी। यह स्पष्टत-

^१ १९ १० = मैत्रायणी संहिता ३ ११,
७ = काठक संहिता ३७ १८ = तैत्ति-

रीय ब्राह्मण २ ६, १, ५ = शतपथ
ब्राह्मण १२ ७, ३, २।

‘अतिसार’, अथवा जैसा कि वाइज़^१ ने इसका नामकरण किया है, ‘हंज़े’ का द्योतक है। प्रत्यक्षतः इस शब्द से ‘दोनों दिशाओं में विसर्जन क्रिया उत्पन्न करनेवाला’ आशय है।

^१ हिन्दू सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ३३०।

लेवेन, २७५, ३९२।

तु० की० तिसर . आल्टिन्डिशे

वि-ष्कन्ध, अनेक बार किसी व्याधि के नाम के रूप में अथर्ववेद^१ में आता है। इसके विरुद्ध उपचार के लिये एक सीसे के कवच,^२ अथवा पुआल,^३ अथवा एक आँजन,^४ अथवा जङ्गिड पौधे के व्यवहार^५ का विधान है। वेवर^६ का विचार है कि इससे उद्दिष्ट व्याधि ‘गटिया’ अथवा ‘वान रोग’ है, क्योंकि यह कन्धों को अलग-अलग खींच देता है (वि-न्कन्ध), किन्तु ब्लम-फील्ड^७ के विचार से यह भी, ऋग्वेदिक ‘व्यंश’^८ और ‘विग्रीव’^९ की ही भाँति, किसी दानव का नाम है, क्योंकि इन दोनों का रूप इमी के समान है और यह दानवों के नाम भी हैं। सम्भवतः एक सूक्त^{१०} में उल्लिखित ‘कर्शफ’ और ‘विशफ’ ऐसे पौधों के द्योतक हैं जिनका इस व्याधि के उपचार के लिये प्रयोग होता था।

^१ १ १६, ३, २ ४, १ और वाद, ३
९, २ ६, ४ ९, ५, १९ ३४, ५।
तैत्तिरीय संहिता ७ ३, ११, १ में भी
यह मिलता है।

^२ अथर्ववेद १ १६, ३। तु० की० २. ४,
३ ९, ६।

^३ अथर्ववेद २ ४, ५।

^४ अथर्ववेद ४ ९, ५।

^५ अथर्ववेद २. ४, १ ५, १९ ३४, ५,

^६ इन्डिशे स्टूडियन ४, ४१०, १३, १४२,
१७, २१५। देखिये तिसर आल्टि-

न्डिशे लेवेन. ३००, ३९१, ग्रिल :
हुन्डर्ट लीटर^२, ७५।

^७ अथर्ववेद के सूक्त, १८२, २८३।

^८ ऋग्वेद १ ३२, ५ इत्यादि।

^९ ऋग्वेद ८ ४, २४।

^{१०} अथर्ववेद ३ ९, १। तु० की० ब्लम-
फील्ड उ० पु० ३४०। रौथ . सेन्ट
पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०, का विचार
है कि दानवों से ही तात्पर्य है . यही
विचार अधिक सम्भव प्रतीत होता है।

वि-ष्टारिन्, अथर्ववेद^१ में एक विशेष प्रकार के श्रोतन का द्योतक है।

^१ ४ ३४, १ और वाद। हिट्ने अथर्व-
वेद के अनुवाद २०६, के अनुसार
इस नाम (फौला हुआ) का कारण

यह था कि पके चावल के पात्रों को
नाँद में उलटकर ‘रस’ गिरा लिया
जाता था। देखिये कौशिक सूत्र ६६ ६।

विष्ठा-त्राजिन्, शतपथ ब्राह्मण^१ में एक संदिग्ध आशयवाला शब्द है। सायण के अनुसार इसका 'एक ही और उसी स्थान पर रहनेवाला' अर्थ है; यदि यह ठीक है तो सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश और बोटलिङ्क की डिक्शनरी द्वारा किया गया अनुवाद 'जिसका यूथ एक स्थान पर ही स्थित हो' उपयुक्त प्रतीत होगा। किन्तु, जैसा कि एग्लिङ्ग^२ संकेत करते हैं, काण्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण के एक अन्य स्थल^३ पर इस शब्द को किसी व्याधि के अर्थ में ग्रहण किया गया है : इस प्रकार 'विष्ठात्राजिन्' से 'अतिसार-प्रसित' अर्थ हो सकता है।

^१ ५ १, १२।

^२ से० बु० ई० ४१, १२३, नोट १।

^३ वही, ५०, नोट १।

विष्णापु ऋग्वेद^१ में विश्वक का पुत्र है। इसके खो जाने पर अश्विनो ने इसे इसके पिता के पास पहुँचा दिया था।

^१ १. ११६, २३; ११७, ७, ८ ८६, ३; १०. ६५, १२।

विष्फुलिङ्ग, उपनिषदों^१ में भाग की 'चिगनारी' का द्योतक है।

^१ बृहदारण्यक उपनिषद् २. १, २३, ६ १, १२, कौषीतकि उपनिषद् ३ ३; ४. २०, इत्यादि। तु० की० 'विष्फुलिङ्गक' (अग्नि की चिनगारियाँ

विखेरनेवाला), ऋग्वेद १. १९१, १२ में (सायण के अनुसार 'अग्नि की जिहा' अथवा 'गौरैया')।

विष्वक्-सेन, षड्विंश ब्राह्मण के 'अन्त के एक वंश में नारद के शिष्य, एक गुरु का नाम है।

'त्रिसल्य'^१ और 'त्रिसल्यक',^२ अथर्ववेद में एक व्याधि के नाम हैं। यतः शङ्कर पण्डित के गायक^३ इस शब्द का सभी स्थलों पर 'त्रिसल्यक' के रूप में उच्चारण करते हैं, अतः इसे ही शुद्ध पाठ मान लेना चाहिये।^४ इससे किसी प्रकार की वेदना या पीड़ा, सम्भवतः ज्वर की दशा में होनेवाले सर के दर्द से तात्पर्य हो सकता है।

^१ ९ ८, २०।

^२ ६ १२७, १ और वाद; ९ ८, २ ५; १९ ४४, २।

^३ देखिये ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त, ६०१, विहट्ने अथर्ववेद का अनुवाद ३७६। तु० की० तिस्रः आरि-

न्दिशे लेवेन ३७८, ३८४।

^४ ६ १०७ पर भाष्य करते हुये सायण ने 'त्रिसल्यक', और १९. ४५, २, पर भाष्य करते हुये 'त्रिसर्पक.' पाठ माना है।

वि.सस्, वृद्धावस्था की 'जराक्रान्तता', अथवा 'अपाहिजत्व' का द्योतक है।^१

^१ अथर्ववेद १९. ३४, ३, जहाँ षौटलिङ्ग · डिक्शनरी, व० स्था० 'विस्ससस्' के स्थान पर 'विस्तुहस्' पाठ का संशोधन प्रस्तुत करते हैं (तु० की० ऋग्वेद

६. ७, ६), तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ८, २०, ५, ऐतरेय आरण्यक २. ३, ७, ऐतरेय ब्राह्मण ८. २०, ७; काठक उपनिषद्, ६. ४ ।

विहलह, अथर्ववेद^२ में प्रत्यक्षतः एक पौधे के नाम के रूप में मिलता है । विभेदात्मक रूप 'विहल' और 'विहह' भी मिलते हैं ।

^२ ६. १६, २। तु० की० तिसमर आल्टिन्डिशे लेवेन, ७० ।

वीणा वाद की संहिताओं^३ और ब्राह्मणों^४ में एक प्रकार के वाद्य यंत्र का द्योतक है । यजुर्वेद^५ में एक 'वीणा-वाद' (वीणा वादक) को पुरुषमेघ के वलि-प्राणियों की तालिका में सम्मिलित किया गया है और इयका अन्यत्र^६ भी उल्लेख है । ऐतरेय आरण्यक^७ में, जिसमें यह कहा गया है कि यह यन्त्र एक समय केशयुक्त चर्म से ढँका था, इसके विभिन्न भागों की इय प्रकार गणना करायी गयी है · शिरसु, उदर, अम्भण, तन्त्र, और वादन । शतपथ ब्राह्मण^८ में 'उत्तरमन्द्रा' या तो एक राग है अथवा एक प्रकार की वीणा । तु० की० वाण ।

^३ तैत्तिरीय संहिता ६ १, ४, १, काठक संहिता ३४. ५, मैत्रायणी संहिता ३ ६, ८ ।

^४ शतपथ ब्राह्मण ३ २, ४, ६, १३. १, ५, १, 'शत-तन्त्री' (वाण की माँति) महाव्रत सत्कार के समय, शाङ्खायन श्रौतसूत्र १७, ३, १, इत्यादि, जैमिनीय ब्राह्मण १ ४० (ज० अ० ओ० सो०, १५, २३५ ।

^५ वाजसनेयि संहिता ३० २०; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, १५, १ ।

^६ वृहदारण्यक उपनिषद् २ ४, ८; ४. ५, ९ ।

^७ ३ २, ५, तु० की० शाङ्खायन आरण्यक ८. ९ ।

^८ १३ ४, २, ८ । तु० की० एविलङ्ग : से० तु० ई० ४४, ३५६, नोट ३ ।

तु० की० तिसमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, २८९; हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो०, १३, ३२८; फॉन थ्रोडर . इन्टियन लिटरेचर उन्ट कल्चर ७५५ ।

वीणा-गाथिन्, ब्राह्मणों^९ में वीणा-वादक का द्योतक है । शतपथ ब्राह्मण^{१०} में 'वीणागणगिन्' वादकों के समूह के नायक का द्योतक है ।

^९ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ९, १४, १; शतपथ ब्राह्मण १३. १, ५, १, ४, २, ८. ११. १४, ३, ५ ।

^{१०} १३ ४, ३, ३, ४, २, शाङ्खायन श्रौत सूत्र १६ १, २९ ।

वीणा-वाद—देखिये वीणा ।

वीत-हव्य, उस राजा का नाम है जिसका ऋग्वेद^१ में भरद्वाज के साथ-साथ और सुदास्^२ के समकालीन के रूप में उल्लेख है । इन दोनों ही स्थलों पर इस शब्द को केवल एक विशेषण के रूप में ग्रहण करना भी सम्भव है । अथर्ववेद^३ में 'वीतहव्य', जमदग्नि और असित के साथ सम्बद्ध होने के रूप में आता है, किन्तु यह स्पष्ट है कि यहाँ कथा का कोई महत्व नहीं । यद्यपि निश्चित नहीं तथापि सम्भव है कि यह सृजयों का एक राजा रहा हो ।^४ यजुर्वेद संहिताओं^५ में एक वीतहव्य श्रायस राजा के रूप में आता है : यह ऋग्वेद के वीतहव्य के समान अथवा उसी के वंश का एक व्यक्ति हो सकता है । तु० की० वैतहव्य ।

^१ ऋ. १५, २३ ।

^२ ७, १९, १३ ।

^३ ऋ १३७, १ ।

^४ हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथोलोजी, १, १०५ ।

^५ तैत्तिरीय संहिता ५ ६, ५, ३, काठक संहिता २२ ३; पञ्चविंश ब्राह्मण २५ १६, ३। वही ९ १, ९, में इसे

'निरुद्ध' के रूप में प्रत्यक्षत. निर्वासित जीवन व्यतीत करनेवाला बताया गया है, किन्तु भाष्यकार इसकी एक राजा नहीं वरन् एक ऋषि के रूप में व्याख्या करते हैं, जो सर्वथा सम्भव है ।

तु० की० औरडेनबर्ग : त्सी० ग०, ४२, २१२; बुद्ध, ४०५ ।

वीर, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में शक्तिशाली और योद्धा होने के रूप में एक व्यक्ति का द्योतक है । सामूहिक रूप से एकवचन^३ में यह शब्द 'पुरुष-सन्तान' का द्योतक है जो वैदिक भारतीयों की कामना का एक प्रमुख अभीष्ट था (तु० की० पुत्र) । पञ्चविंश ब्राह्मण^४ में राजा के पार्षदों और पोषकों के रूप में आठ 'वीरों' की तालिका मिलती है ।

^१ १ १८, ४, ११४, ८, ४ २९, २, ५. २०, ४; ६१, ५, इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद २. २६, ४, ३ ५, ८, इत्यादि

^३ ऋग्वेद २. ३२, ४, ३ ४, ९, ३६, १०, ७ ३४, २०, इत्यादि, तैत्तिरीय

संहिता ७. १, ८, १, इत्यादि ।

^४ १९ १, ४ । यथा : राजा का भ्राता, उसका पुत्र, पुरोहित, महिषी, सूत, ग्रामणी, चतृ और संग्रहीतृ । देखिये रत्निन् ।

वीरणा, एक वाद के ग्रन्थ, षड्विंश ब्राह्मण (५-२) में, वीरिणा पौधे के नाम का रूप है ।

वीर-हत्या (मनुष्य की हत्या) तैत्तिरीय आरण्यक^१ में वर्णित अपराधों में से एक है। 'वीर हन्' (मनुष्य का वध करनेवाला) प्राचीन ग्रन्थों^२ में आता है। तु० की० वैर ।

^१ १०. ४० ।

^२ तैत्तिरीय संहिता १ ५, २, १, २. २; ५, ५; काठक संहिता ३१ ७; कपि-ष्ठल संहिता ३७ ७, मैत्रायणी संहिता

४. १, ९, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ २, ८, १२, वाजसनेयि संहिता ३० ५; पञ्चविंश ब्राह्मण १२ ६, ८, १६ १, १७, इत्यादि ।

वीरिण, शतपथ ब्राह्मण^१ में एक प्रकार की घास (*Andropogon muricatus*) का द्योतक है। देखिए वीरण ।

^१ १३ ८, १, १५ । तु० की० तिसर : आस्टिन्डिशे लेवेन, ७० ।

वीरुध् से ऋग्वेद^१ और वाद^२ में पौधे का अर्थ है। ओषधि की तुलना में यह हीन कोटि के पौधों का द्योतक है, किन्तु अक्सर इससे भी प्रत्यक्षतः ओषधि जैसा आशय ही व्यक्त होता है।

^१ १. ६७, ९, १४१, ४, २. १, १४, ३५, ८, इत्यादि ।

१, ५ ४, १, १९ ३५, ४, इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद १ ३२, ३, ३४, १, ७, ७,

तु० की० तिसर : आस्टिन्डिशे लेवेन, ५७ ।

१. वृक (भेड़िया) का ऋग्वेद^१ और वाद^२ में अक्सर उल्लेख है। यह भेड़ों^३ और बछड़ों^४ का शत्रु, तथा मनुष्य^५ तक के लिये घातक हो सकता था। इसके रङ्ग को अरुण^६ बताया गया है। ऋग्वेद^७ में 'वृकी' का भी अनेक बार उल्लेख है।

^१ १. ४२, २, १०५, ७, ११६, १४, २ २९, ६, ६ ५१, १४, ७ ३८, ७, इत्यादि ।

६। निरुक्त ५ २१ में, रौध : सेन्टपीटर्स वर्ग कोश, व० स्था० १६, 'कुत्ते' का आशय देखते हैं, किन्तु यह अनावश्यक प्रतीत होता है। तु० की०, ए० नि०, ६७ ।

^२ अथर्ववेद ७ ९५, २, १२ १, ४०, काठक संहिता १० १०, मैत्रायणी संहिता ३. १४, ४, वाजसनेयि संहिता ४ ३६, १९ १० ९० ।

^६ ऋग्वेद १. १०५, १८ ।

^३ ऋग्वेद ८. ३४, ३, उरामथि (भेड़ों को चिन्तित करनेवाला), १० ६६, ८ ।

^७ १ ११६, १६, ११७, १७, १८३, ४; ६ ५१, ६, १० १०७, ६ ।

^४ अथर्ववेद १२ ४, ७ ।

तु० की० तिसर : आस्टिन्डिशे लेवेन, ८१, वेवर • इन्डिशे स्टूडियन, १८, १४ ।

^५ ऋग्वेद १ १०५, ११. १८, ० ०९,

२. वृक, ऋग्वेद^१ के दो स्थलों पर 'हल' का द्योतक है ।

^१ १ ११७, २१; ८ २२, ६; निरुक्त ५. २६ ।

वृक-द्वारस्, ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर मिलता है जहाँ लुडविग^२ इसकी शण्डिकों के राजा, वृकद्वारस् के विरुद्ध युद्ध के सन्दर्भ में व्याख्या करते हैं । किन्तु यह सर्वथा अनिश्चिन है । रौथ^३ और औल्डेनवर्ग^४ इसे 'वृकध्वरस्' पढ़ना चाहते हैं । बिना किसी स्पष्ट आधार के ही, हिलेब्रान्ट^५ इसके ईरान से सम्बद्ध होने का मत व्यक्त करते हैं ।

^१ ० ३०, ४ ।

^२ ऋग्वेद का अनुवाद ३ १५३, ग्रिफिथ .

ऋग्वेद के सूक्त १, २९७, नोट ।

^३ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०, त्सी०

गे०, ४८, ११० ।

^४ ऋग्वेद-नोटें, १, २११ ।

^५ वेदिशे माइथोलोजी, ३, ४४२ ।

वृक्ष, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में एक साधारण शब्द है । अथर्ववेद^३ में यह वृक्ष से बने शव रखने के बक्स का द्योतक है जिसे निःसन्देह वृक्ष के तने को खोखला करके बनाया जाता था । पद्मविंश ब्राह्मण^४ रक्त-स्त्राव करनेवाले एक भ्रमङ्गल-सूचक वृक्ष का उल्लेख करता है ।

^१ १. १६४, २० २२; २. १४, २, ३९, १, ४. २०, ५; ५. ७८, ६, इत्यादि

^२ अथर्ववेद १. १४, १, २. १२, ३. ६ ४५, १; १२. १, २७ ५१, इत्यादि ।

^३ अथर्ववेद १८. २, २५ । तु० की० बृह-

द्वेता ५ ८३, मैकडौनेल की टिप्पणी सहित ।

^४ इन्डिशे स्टूडियन, १, ४०, और तु० की० ज० अ० ओ० सो०, १५, २१४ ।

वृक्ष-सर्पिणी (वृक्ष पर चढ़नेवाला) अथर्ववेद^१ में एक प्रकार के कीड़े अथवा सर्पिणी का द्योतक है ।

^१ ९. २, २२ । तु० की० तिसमर : आस्ट्रिन्डिशे, लेवेन, ९८ ।

वृक्ष, शतपथ ब्राह्मण (१. १, १, १०) में वृक्ष के फल का द्योतक है ।

वृचया का ऋग्वेद^१ में अश्विनों द्वारा कक्षीवन्तु को प्रदान की गयी पत्नी के रूप में उल्लेख है ।

^१ १ ५१, ३ । तु० की० पिश्ल . वेदिशे स्टूडियन, १, ३, २०३, जो दो कक्षीवन्तों का विभेद करते हैं, किन्तु

बिना पर्याप्त आधार के ही, क्योंकि १ ११६, १७ में स्पष्टतः 'वृचया' का ही सन्दर्भ है ।

वृचीवन्त्, ऋग्वेद^१ में एक बार उल्लिखित एक जाति का नाम है जहाँ इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि सृञ्जय-राज दैववात ने तुर्वश-राज और वृचीवन्तों को विजित किया था। तिसर^२ का विचार है कि वृचीवन्त् और तुर्वश लोगों को एक ही मानना चाहिये, किन्तु यह अनावश्यक भी है और असम्भाव्य भी; यही मानना पर्याप्त है कि सृञ्जयों के विरुद्ध^३ यह दोनों एक साथ थे। वृचीवन्त् पुनः केवल पञ्चविंश ब्राह्मण^४ की उम विचित्र कथा में ही आते हैं जिसके अनुसार जह्नुओं और वृचीवन्तों के बीच राजसत्ता प्राप्त करने की प्रतिद्वन्द्विता थी, जिसे जह्नुओं के राजा विश्वामित्र ने अपने किसी संस्कार-सम्बन्धी ज्ञान से प्राप्त कर लिया था। देखिये हरियूपीया भी।

^१ ऋ. २७, ५, और बाद।

^२ आल्टिन्डिशे लेवेन, १२४।

^३ औल्डेनवर्वा . बुद्ध, ४०४; लुडविग :

ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५३,

हिलेब्रान्ट . वेदिशे माइथोलोजी, १,
१०५।

^४ २१. १२, २।

वृजन, रौथ^१ के अनुसार ऋग्वेद^२ के अनेक स्थलों पर 'वस्ती' अथवा 'ग्राम' (जर्मन 'मार्क') तथा उसके निवासियों का द्योतक है। इत मत को स्वीकार करते हुये तिसर^३ वृजन में 'सुरक्षित आवास' (क्षिति-ध्रुवा) जहाँ कबीले के लोग रहते थे,^४ एक ग्रामीण समुदाय (ग्राम की भाँति) के रूप में स्वयं कबीले का, और युद्ध^५ में कबीले के लोगों का, आशय देखते हैं। दूसरी ओर गेरडनर^६ वृजन का शाब्दिक आशय 'जाल' मानते हुये अन्य सब आशयों को इसी विचार के आधार पर विकसित करते हैं, किन्तु परम्परागत दृष्टिकोण ही अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता है।

^१ सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० २।

^२ १ ५१, १५, ७३, २, ९१, २१, १०५,

१९, १२८, ७, १६५, १५; १६६,

१४, इत्यादि।

^३ आल्टिन्डिशे लेवेन, १४२, १५९, १६१।

^४ ऋग्वेद १. ५१, १५, ७३, २ (तु० की०
१ ७३, ४)।

^५ ऋग्वेद ७ ३२, २७, १०. ४२, १०।

^६ वेदिशे स्टूडियन, १, १३९ और बाद।

वृत्र-घ्न, ऐतरेय ब्राह्मण^१ के एक स्थल पर आता है जहाँ भरत के पराक्रम का वर्णन करनेवाली एक गाथा में ऐसा कथन है कि इसने यमुना और गङ्गा के तट पर अश्वों को बाँधा था। यहाँ आनेवाले 'वृत्रघ्ने' शब्द का एक स्थान

^१ ८ २३, ५।

के नाम के रूप में सायण 'वृत्रघ्न' अनुवाद करते हैं । फिर भी, रौथ^१ इसके रूप को चतुर्थी (सम्प्रदान) मानकर 'वृत्र का वध करनेवाले के लिये', अर्थात् इन्द्र, के आशय में व्याख्या करते हुये ठीक प्रतीत होते हैं ।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० । तु० की० ऑफरेख्त : ऐतरेय ब्राह्मण, ४२५

वृत्र शङ्कु, शतपथ ब्राह्मण^३ में मिलता है जहाँ कात्यायन श्रौत्र सूत्र^२ के भाष्यकार ने इसे पाषाण-स्तम्भ का द्योतक माना है । यह असम्भाव्य व्याख्या इसी ब्राह्मण^३ के एक अन्य स्थल पर आधारित है ।

^१ १३. ८, ४, १ ।

^२ २१. ३, ३१ ।

^३ ४. २. ५, १५ । तु० की० एग्लिङ्ग :
से० बु० ई०, ४४, ४३७, नोट १ ।

वृद्ध-घुम्न अभिप्रतारिणा ('अभिप्रतारिन्' का वंशज) ऐतरेय ब्राह्मण (३.४८, २) में 'एक राजा (राजन्य) का नाम है, जहाँ इसके पुरोहित शुचिवृद्ध गौपलायन की प्रशस्ति की गयी है । इसके विपरीत, शाङ्खायन श्रौत सूत्र (१५.१६, १०-१३) में यह कथन है कि इसने यज्ञ में एक त्रुटि कर दी थी जिस पर किसी ब्राह्मण ने यह भविष्यवाणी की कि इस त्रुटि के परिणाम-स्वरूप कुरुओं को कुरुक्षेत्र से निष्कासित होना पड़ेगा, और यह घटना वास्तव में सत्य भी हुई ।

वृद्ध-वाशिनी, निरुक्त (५.२१) में 'माँदा शृगाल' का द्योतक है ।

१. वृश—देविये वृष ।

२. वृश जान ('जन' का वंशज) उस प्रसिद्ध पुरोहित का नाम है जिमने अपने प्रतिपालक राजा त्र्यरुणा के साथ, राजा द्वारा अत्यधिक तीव्र गति से रथ चलाते समय एक बालक के रथ से दब जाने के दृश्य का दुर्भाग्यपूर्ण अवलोकन किया था । इस घटना के पश्चात इसने बालक को पुनरुज्जीवित कर दिया था । इस कथा का पञ्चविंश ब्राह्मण,^१ शाङ्खायनक^२ और ताण्डक^३ में संक्षिप्त उल्लेख मिलता है; भास्त्रवि ब्राह्मण^४ में भी इसका

^१ १३ ३, १२ ।

^२ देखिये ऋग्वेद ५ २ पर सायण, और जैमिनीय के वर्णन को, ज० अ० ओ० सो०, १८, २० में ।

^३ देखिये सायण उ० स्था० ।

^४ प्रत्यक्षत- निदान में उद्धृत होने के रूप में बृहद्देवता ५ २३ में सन्दर्भ है । यह स्थल निदान सूत्र के वर्तमान पाठ में नहीं मिलता । देखिये सीग : सा० ऋ०, ६५, नोट ५ ।

वर्णन है, और यह वृहद्देवता^५ में भी सुरक्षित है। सीग^६ ने इस कथा के कुछ अंशों को ऋग्वेद^७ में भी हृदने का प्रयास किया है, किन्तु विद्वानों के मत^८ इस प्रकार के दृष्टिकोण की शुद्धता के विरुद्ध हैं।

^५ ५ १४ और बाद, जहाँ देखिये मैकडीनेल की टिप्पणी।

^६ उ० पु० ६४-७६।

^७ ५. २।

^८ लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद, ४, ३२४, हिलेब्रान्ट - त्सी० गे०, ३३, २४८

और बाद; औरटेनवर्ग . से० पु० ई०, ४६, ३६६ और बाद; ऋग्वेद नोट्स, १, ३१२। हूमरी और, गेव्टनर : के० री०, १०० परम्परा की पुष्टि करते हैं। तु० की० वेवर : इन्टिशे स्टूडियन १०, ३२।

वृश्चिक, ऋग्वेद^९ और अथर्ववेद^{१०} में 'धिच्छू' का द्योतक है। सर्प की ही भाँति इसके विष को भी भयकर माना जाता था।^{११} जाड़े की ऋतु में इसके भूमि के अन्दर निश्चेष्ट पड़े रहने का वर्णन किया गया है।^{१२}

^९ १ १९१, १६।

^{१०} ४, ९. १५, १२ १, ४६; शाह्यायन आरण्यक १२ २७।

^{११} ऋग्वेद उ० स्था०, अथर्ववेद १०. ४,

९. १५।

^{१२} अथर्ववेद १२. १, ४६। तु० की तिसमर. आल्टिन्टिशे लेवेन, ९.८।

वृष, काठक संहिता^{१३} में एक पोथे का नाम है। बाद में Gendaiussa vulgaris को इस नाम से पुकारा गया है। मैत्रायणी संहिता^{१४} में 'वृश' पाठ है जिसे चौटलिङ्क^{१५} एक छोटे पशु के आशय में ग्रहण करते हैं, जो सर्वथा सम्भव है। तु० की० येवाष।

^{१३} ३०. १।

^{१४} ४ ८, १।

^{१५} डिक्शनरी, सप्लीमेन्ट्स का जेनरल इन्डेक्स, ३७६।

वृष-खादि, ऋग्वेद^{१६} में मरुतों की एक उपाधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसका आशय सन्दिग्ध है : वॉलेनसेन^{१७} का विचार है कि इस शब्द से कानों में चालियाँ पहनने का आशय है, मैक्स मूलर^{१८} इसका 'शक्तिशाली चालियाँ' अनुवाद, और चक्र के साथ इनकी तुलना करते हैं।

^{१६} १. ६४, १०।

^{१७} ओरियन्ट उन्ट ऑक्सिडेन्ट, २, ४६१, नोट।

^{१८} से० पु० ई०, ३२, १०७, १२०। तु० की० तिसमर : आल्टिन्टिशे लेवेन, २६३।

वृष-गण, ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर उल्लिखित गायकों के एक परिवार का नाम है ।

^१ ९. ९७, ८ । तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १३२ ।

वृषण-अश्व, ऋग्वेद^१ के उस स्थल पर एक मनुष्य का नाम है जहाँ इन्द्र को सम्भवतः इसकी पत्नी अथवा पुत्री के रूप में मैना कहा गया है । जैमिनीय ब्राह्मण,^२ शतपथ ब्राह्मण,^३ पट्विंश ब्राह्मण^४ और तैत्तिरीय भारण्यक^५ में भी इस कथा का उल्लेख है, किन्तु यह स्पष्ट है कि जो कुछ कहा गया है उसके सम्बन्ध में इनमें से किसी भी ग्रन्थ में वास्तविक परम्परा नहीं है ।

^१ १ ५१, १३ ।

^२ २ ७९ (ज० अ० ओ० सो०, १८, ३७) ।

^३ ३ ३, ४, १८ ।

^४ १ १, १६ ।

^५ १. १२, ३ । तु० की० एग्लिङ्ग : से०

तु० ई०, २६, ८१, नोट २ ।

वृष-दंश (शक्तिशाली दाँतवाला) यजुर्वेद संहिताओं^१ में बिल्ली का नाम है जहाँ यह अश्वमेध के एक बलि-प्राणी के रूप में आती है । पञ्चविंश ब्राह्मण^२ में भी इसका उल्लेख है; यहाँ बिल्ली की छींक के उल्लेख का तथ्य इस बात को सम्भव बना देता है कि यह पशु उस समय भी पालतू था । गोट्टडनर^३ ने अथर्ववेद^४ के एक सूक्त में 'वृषदती' सहित अन्य विचित्र उपाधियों से व्यक्त पशु में एक पालतू बिल्ली का भाशय देखा है; किन्तु गिहटने^५ ने इस सूक्त में पालतू बिल्ली का सन्दर्भ मानने के विचार को निश्चित रूप से अस्वीकृत कर दिया है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ५. ५, २१, १; मैत्रायणी संहिता ३ १४, १२; वाजसनेयि संहिता २४ ३१ ।

^२ ८ २, २ ।

^३ वेदिशे स्टूडियन, १, ३१३-३१५ ।

^४ १ १८ ।

^५ अथर्ववेद का अनुवाद, १९, २०, ब्लूमफील्ड : ज० अ० ओ० सो०, १५, १५३, नोट; अथर्ववेद के सूक्त ७६१ ।

तु० की० रिसमर : आस्टिन्डिशे लेवेन, ८६ ।

वृषन्, ऋग्वेद^१ के दो स्थलों पर एक व्यक्ति का द्योतक प्रतीत होता है । इनमें से एक स्थल पर यह पाथ्य पैतृक नाम के साथ आता है ।

^१ १ ३६, १०, ६ १६, १४ १५ । तु० की० मैक्स मूलर : से० तु० ई०, ३२,

१५२, १५३, लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १०४ ।

वृषभ, ऋग्वेद^१ में नियमित रूप से, किन्तु सामान्यतया लाक्षणिक भाष्य में, 'वैल' का द्योतक है ।

^१ १. ९४, १०, १६०, ३, ६ ४६, ४; पर्वण्य का, ७ १०१, १ ६, इत्यादि । रौथ, २ १६, ५ में 'वृषभान्न' का 'शक्तिवर्धक भोजन करनेवाला'

अनुवाद करते हैं; किन्तु इसका शब्दार्थ 'वृषभ जिसका भोजन है', है । तु० की० मांस ।

वृषल, ऋग्वेद^१ के अक्ष सूक्त में एक 'जाति-वहिष्कृत' का द्योतक है; बृहदारण्यक उपनिषद्^१ में भी यही भाष्य प्रतीत होता है जहाँ वृषल अथवा वृषली के स्पर्श को वचाने का उल्लेख है ।

^१ १० ३४, ११ । तु० की० निरुक्त | ^२ ६ ४, १२ माध्यन्दिन । ३ १६ ।

वृष-शुष्म वातावत ('वातावन्त' का वंशज) जातूकर्ण्य, ऋग्वेद के ब्राह्मणों^१ में एक पुरोहित का नाम है । वंश ब्राह्मण^२ के वृषशुष्म से भी कदाचित् इसी नाम का भाष्य है ।

^१ पेत्रेय ब्राह्मण ५ २९, १; कौपीतिकि ब्राह्मण २ ९ । ('वाधावत' पाठान्तर सहित : इन्डिशे स्टूडियन, १, २१५,

नोट १) । ^२ इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७३ ।

वृषा-रव ('वृषभ' की भाँति गर्जन करनेवाला) ऋग्वेद^१ में किसी पशु का नाम है । शतपथ ब्राह्मण^२ में यह शब्द द्विवचन में आता है जहाँ इसका सम्भवतः 'हथौड़ा' अथवा 'ढोल बजाने की लकड़ी' अर्थ है ।

^१ १० १४६, २ = तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ५, ५, ६ । ^२ १२ ५, २, ७ ।

तु० की० ब्लूमफील्ड . अथर्ववेद के सूक्त, ४२६, तिस्रः आस्टिन्डिशे लेब्रेन, ९० ।

वृष्टि, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'वर्षा' के लिये एक साधारण शब्द है ।

^१ १ ११६, १२, २ ५, ६, इत्यादि । ^२ अथर्ववेद ३ ३१, ११; ६, २२, ३, इत्यादि ।

वृष्टि-हव्य, ऋग्वेद^१ में एक ऋषि का नाम है जिसके पुत्र उपस्तुत-गण थे ।

^१ १० ११५, ९ । तु० की० मैक्स मूलर । से० बु० ई०, ३२, १५२, १५३; लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १०८, १०९ ।

वेणु, अथर्ववेद^१ और वाद^२ में बाँस के एक टुकड़े का द्योतक है। तैत्तिरीय संहिता^३ में इसे खोखला (सु-घिर) बताया गया है। ऋग्वेद^४ में यह केवल एक बालखिल्य सूक्त की दान स्तुति में आता है, जहाँ रौध^५ के विचार से 'नरकट की वंशियों' से तात्पर्य है, और वाद के ग्रन्थों में 'वेणु' का यही आशय है। कौषीतकि ब्राह्मण^६ वेणु को सस्य के साथ रखते हुये यह कहता है कि यह वसन्त में पकते थे। यहाँ प्रत्यक्षतः बाँस के समान नरकट का भी आशय है।^७

^१ १ २७, ३।

^२ तैत्तिरीय संहिता ५. २, ५, २; ७ ४, १९, २; काठक संहिता १३. १२, शतपथ ब्राह्मण १ १, ४, १९, २. ६, २, १७, इत्यादि।

^३ ५ १, १, ४।

^४ ८. ५५, ३।

^५ सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० २।

^६ ४. १२।

^७ तु० की० कात्यायन श्रौत सूत्र ४ ६, १७, भाष्य संहित; वेवर. इन्डिशे स्टूडियन, १०, ३४३।

तु० की० तिसर आस्टिन्डिशे लेवेन, ७१।

वेतस, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में एक जलीय पौधे (Calamus Rotang) अथवा इसी प्रकार की किसी नरकट का द्योतक है। इसे 'हिरण्यय'^३ और 'अप्सुज'^४ कहा गया है।

^१ ४ ५८, ५।

^२ अथर्ववेद १० ७, ४१; १८. ३, ५, तैत्तिरीय संहिता ५ ३, १२, ७, ४, ४, २; वाजसनेयि संहिता १७ ६; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ८, ४, ३, इत्यादि।

^३ ऋग्वेद, उ० स्था०; अथर्ववेद १०, ७, ४१।

^४ तैत्तिरीय संहिता ५ ३, १२, २, इत्यादि। तु० की० तिसर : आस्टिन्डिशे लेवेन, ७१।

वेतसु एक ऐसा नाम है जो ऋग्वेद^१ के दो स्थलों पर एकवचन में और एक बार बहुवचन^२ में आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह इन्द्र द्वारा पराजित हुआ था, किन्तु ऐसा मानने के लिये कोई आधार नहीं कि यह एक दानव था। तिसर^३ का विचार है कि 'वेतसु' उस जाति का द्योतक है जिसका एक सदस्य दशद्यु था, और इन्हीं लोगों ने तुर्यों को पराजित किया था। यह स्थल इतने अधिक अस्पष्ट हैं कि किसी भी व्याख्या को असम्भव बना देते हैं।

^१ ६ २०, ८; २६, ४।

^२ १०, ४९; ४।

^३ अस्टिन्डिशे लेवेन, १२८। तु० की०

केगी : डर ऋग्वेद, नोट ३३७।

तु० की० औरडेनवर्ग त्सी०

गे० ५५, ३२८।

वैतस्वन्त् (नरकट से परिपूर्ण) पञ्चविंश ब्राह्मण^१ में किसी स्थान का नाम है । जैसा कि वेवर^२ कभी मानते थे, यह एकयावन् गादम के नाम का एक अक्ष नहीं ।

^१ २१. १४, २० ।

^२ इन्डिशे स्टूडियन, १, ३२ । तु० की०

हॉपकिन्स : ट्रा० सा० १५, ६९ ।

वेद, अथर्ववेद^३ और वाद^२ में 'पवित्र विद्या' का द्योतक है । बहुवचन^३ में यह अधिक निश्चित रूप से ऋक्, यजुस् और सामवेद का नाम है ।

^१ अथर्ववेद ७. ५४, ७, १०, ८, १७, १५
३, ७ ।

^२ 'त्रय', शतपथ ब्राह्मण ५ ५, ५, १०,
१३ ४, ३, ३, निरुक्त, १ २. १८
२०, इत्यादि ।

^३ अथर्ववेद ४ ३५, ६, १९ २, १०;
तैत्तिरीय संहिता, ७. ५, ११, २,
ऐतरेय ब्राह्मण ५ ३०, १, ६. १५,

११, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ १०, ११,
४, शतपथ ब्राह्मण ११. ३, ३, ७,
१० ३, ४, ११, इत्यादि । इसमें
सन्देह नहीं कि ब्राह्मणों में इस शब्द
से सामान्यतया उन वर्तमान संहिताओं
का आशय है जो आरण्यकों में
स्वीकृत अपने ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद, नाम से आती हैं ।

वेदाङ्ग, ऋग्वेद के उपाङ्ग के रूप में कुछ ग्रन्थ-विशेष का नाम है । यह सर्वप्रथम निरुक्त^१ और ऋग्वेद प्रातिशाख्य^२ में मिलता ।

^१ १. २० ।

^२ १२ ४० ।

तु० की० रौथ • निरुक्त, १५ ।

और वाद, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन,
९, ४२ ।

१. वेन ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर एक उदार दाता के नाम के रूप में आता है । इसी स्थल पर मिलनेवाला पृथवान नाम इसका ही दूसरा नाम हो भी सकता है और नहीं भी । इस सूक्त की एक वाद की ऋचा में पार्थ्य सम्भवतः इसका पैतृक नाम है ।

^१ १० ९३, १४ । तु० की० लुडविग • ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६६ ।

२. वेन को ऋग्वेद^१ में तिलक^२ शुक्र-ग्रह मानते हैं । किन्तु यह निश्चित रूप से असम्भव है ।

^१ १० १२३ ।

^२ ओरायन, १६३ और वाद ।

तु० की० व्हिट्ने : ज० अ०
ओ० सी० १६, xciv ।

१. वेश कुछ सन्दिग्ध आशयवाला शब्द है। कुछ स्थलों^१ पर यह प्रत्यक्षतः 'काशतकार' या 'असामी' का, और रौथ^२ के अनुसार एक 'आश्रित पढोसी' का द्योतक है।

^१ ऋग्वेद ४. ३, १३, ५ ८५, ७, सम्भवतः १० ४९, ५; किन्तु तु० की० २ वेश; काठक संहिता १२ ५ ('वेशत्व'), ३१ १२; ३२ ४; वाजसनेयि संहिता, काण्व, २. ५, ७, मैत्रायणी संहिता १. ४, ८, २.-३, ७; ४. १, १३। तु० की० वेवरः इन्दिशे स्टूडियन, १३, २०४, जो 'वेशस्' को अथर्ववेद २. ३२, ५, में, जहाँ 'परि-वेशस्' भी आता है, इसी आशय में ग्रहण करते हैं, और तैत्तिरीय संहिता २ ३, ७, १, के 'वैश्य' (दासता, सेवा) के साथ तुलना करते हैं।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० १, 'वेश' और 'वेशत्व'। तु० की० विहटने : अथर्ववेद का अनुवाद, ७५, जो अथर्ववेद २ ३२, ५, में 'वेषस्' पाठ मानना चाहते हैं; किन्तु 'सेवक' के आशय की उत्पत्ति-सम्बन्धी वेवर की व्याख्या पर्याप्त है। मेल्डनर-वेदिशे स्टूडियन, ३, १३५, नोट ४, 'वेश' में या तो एक 'पढोसी' का अथवा उसी ग्राम-समुदाय के एक सदस्य का आशय देखते हैं। तु० की० सजात।

२. वेश, ऋग्वेद^१ के दो स्थलों पर व्यक्तिवाचक नाम हो सकता है; यदि ऐसा है तो यह सर्वथा अनिश्चित है कि इससे किसी दानव का ही आशय है अथवा नहीं।

^१ २. १३, ८, १०. ४९, ५। तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५२, १६४।

वेशान्ता^१, वेशन्ती^२, वेशान्ता^३, सभी 'तालाव' अथवा 'सरोवर' के द्योतक हैं। तु० की० वेशन्त :

^१ अथर्ववेद ११ ६, १०, २०. १२८, ८
९, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, १२, १।

^२ अथर्ववेद १ ३, ७।

^३ बृहदारण्यक उपनिषद् ४. ३, ११।

वेशस्—देखिये १. वेश।

वेशान्ता—देखिये वेशान्ता।

वेशी, ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर 'सूई' का द्योतक प्रतीत होता है।

^१ ७ १८, १७। तु० की० हॉपकिन्स ज० अ० ओ० सो०, १५, २६४, नोट।

वेश्मन् (गृह) ऋग्वेद^१ और वाद^२ में आता है । यह उस स्थान के रूप में गृह का द्योतक है जहाँ मनुष्य 'वसा' (विश्) होता है ।

^१ १० १०७, १०; १४६, ३ ।
^२ अथर्ववेद ५. १७, १३, ९. ६, ३०,
 ऐतरेय ब्राह्मण ८ २४, ६, इत्यादि ।
 शतपथ ब्राह्मण १. ३, २, १४, में

राजा के एक गृह (एक-वेश्मन्) का प्रजा के असंख्य आवासों के साथ विभेद किया गया है ।

वैश्य ऋग्वेद (४. २६, ३; ६. ६१, १४) के दो स्थलों पर 'पड़ोस' की अपेक्षा 'निर्भरता' के सम्बन्ध का द्योतक प्रतीत होता है । तु० की० १. वैश ।

वैष्ण, शतपथ ब्राह्मण (३. ८, १, १५) में यज्ञ-पशु का गला बाँधने के लिये प्रयुक्त 'फदे' का द्योतक है । देखिये ज्लोष्क ।

वेहत्, ऐमी गाय का द्योतक प्रतीत होता है जिसका गर्भपात हो गया हो । इसका अथर्ववेद^१ और वाद^२ में उल्लेख है ।

^१ १२ ४, ३७ और वाद । ३ २३, १,
 में एक स्त्री को 'वेहत्' कहा गया है ।
^२ वाजसनेयि संहिता १८ २७, २४ १,
 इत्यादि, तैत्तिरीय संहिता २ १, ५,
 ३, इत्यादि । शतपथ ब्राह्मण १०.

४, ४, ६, में एग्लिङ्ग (से० बु० ई०, ४४, १९५) 'गर्भित होने की आकांक्षा रखनेवाली गाय' के आशय में ग्रहण करते हैं, किन्तु तु० की० विहदने : अथर्ववेद का अनुवाद, १२७ ।

वैकर्ण्य ऋग्वेद^१ में केवल एक बार उस दाशराज्ञ के वर्णन में आता है जिसमें यह कथन है कि सुदास् ने दो वैकर्ण्य राजाओं की इक्कीस जातियों (जनान्) अथवा प्रजाजनों का उन्मूलन कर दिया था । तिस्र^२ का अनुमान है कि यह कुरु-क्रिवि नामक सम्मिलित जातियाँ थीं : यह बहुत सम्भव है । एक जाति के नाम के रूप में 'विकर्ण' महाभारत^३ में मिलता है, और एक कोशकार^४ विकर्णों को कश्मीर में वसा बताता है, जो इस देश में ही 'कुरुओं' की वास्तविक वस्ती का स्मरण दिलाता है । तु० की० उत्तर कुरु ।

^१ ७ १८, ११ ।
^२ आल्टिन्डिशे लेनेन, १०३ ।
^३ ६ २१०५ ।
^४ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० ।

तु० की० हॉपकिन्स . ज० अ० ओ० सो०, १५, २६१ और वाद, जो 'वैकर्ण्य' में दो 'वैकर्ण्य' राजाओं का का आशय देखते हैं ।

वैखानस, उन पौराणिक ऋषियों के एक समूह का नाम है जिनका

पञ्चविंश ब्राह्मण^१ के अनुसार रहस्यु देवमलिस्तुच् ने मुनिमरण में वध किया था । इनका तैत्तिरीय आरण्यक^२ में भी उल्लेख है । पुरुहन्मन्^३ एक वैखानस व्यक्ति था ।

^१ १४ ४, ७ ।

^३ १४. ९, २९ ।

^२ १ २३, ३ (इन्डिशे स्टूडियन, १, ७८) ।

वैजान ('विजान' का वंशज), पञ्चविंश ब्राह्मण^१ में सायण के अनुसार वृश का पैतृक नाम है । जैसा कि वेवर^२ ने व्यक्त किया है इसका वास्तविक पाठ 'वै जानः' है ।

^१ १३. ३, १२ ।

| ^२ इन्डिशे स्टूडियन, १०, ३२ ।

वैट्ठमटी-पुत्र, बृहदारण्यक उपनिषद् (६. ५, २) की काण्व शाखा में कार्शकेयीपुत्र के शिष्य, एक गुरु का नाम है । तु० की० वैदमृतीपुत्र ।

वैडव (वीडु का वंशज) पञ्चविंश ब्राह्मण (११. ८, १४) में वसिष्ठ का पैतृक नाम है, जहाँ इसे सामानों का द्रष्टा बताया गया है ।

वैदूर्य, सर्वप्रथम एक वाद के ग्रन्थ, अद्भुत ब्राह्मण^१ में मिलता है ।

^१ वेवर . इन्डिशे स्टूडियन, १, ४०; ओमिना उन्ट पोर्टेन्टा, ३२५ और वाद ।

वैतरण एक वार ऋग्वेद^१ में आता है । रौथ^२ का विचार है कि यह शब्द एक पैतृक नाम है; किन्तु यह कदाचित्^३ 'वैतरण के' के आशय में एक विशेषण प्रतीत होता है जिसका भरत अथवा वध्र्यश्व की अग्नि की ही भाँति 'वैतरण की' अग्नि के लिये प्रयोग किया गया है ।

^१ १० ६१, १७ ।

१६५; त्रिफिथ : ऋग्वेद के सूक्त, २,

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० २ ।

४५७, नोट ।

^३ लुडविग . ऋग्वेद का अनुवाद, ३, |

वैतहव्य (वीतहव्य का वंशज) उस परिवार का नाम है जिसका अथर्ववेद^१ में एक ब्राह्मण की गाय का भक्षण कर लेने के कारण पतन हो गया बताया गया है । इसे सृञ्जय कहा गया है, किन्तु यतः यहाँ उद्धृत कथा का ठीक-ठीक रूप अन्यत्र नहीं मिलता, अतः इसकी प्रामाणिकता पर सन्देह किया जा सकता है ।^२ रिसमर^३ के अनुसार 'वैतहव्य' केवल 'सृञ्जयों'

^१ ५ १८, १० ११, १९, १ ।

| ^३ आस्ट्रिन्डिशे लेवेन, १३२ ।

^२ ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त ४३४ ।

की उपाधि मात्र है, किन्तु एक 'वीतहृग्य' के अस्तित्व को दृष्टि में रखते हुये यह सम्भव नहीं ।^१

^१ तु० की० औल्डेनवर्ग : बुद्ध, ४०५, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, १८, २३३ ।

वैद ('विद' का वंशज) ऐतरेय ब्राह्मण^१ और ऐतरेय आरण्यक^२ में हिरण्यदन्त का पैतृक नाम है। यह शब्द 'वैद' के रूप में भी लिखा जाता है ।

^१ ३, ६, ४, आश्वलायन श्रौत सूत्र, १२. | ^२ २. १, ५ ।
१०, ९ ।

वैदथिन ('विदथिन्' का वंशज) ऋग्वेद (४. १६, ११; ५. २९, १३) में ऋजिश्चन् का पैतृक नाम है ।

वैद-अश्वि ('विददश्व' का वंशज) ऋग्वेद^१ में तरन्त का पैतृक नाम है । पञ्चविंश ब्राह्मण^२ और जैमिनीय ब्राह्मण^३ में 'वैददश्वियों' को 'तरन्त' और पुरुमीळह बताया गया है । पुरुमीळह ऋग्वेद में एक 'वैददश्वि' नहीं है, जो कि इन दो व्यक्तियों की ब्राह्मणों में मिलनेवाली कथा की निरर्थकता का स्पष्ट चिह्न है ।

^१ ५, ६१, १० ।

^२ १३, ७, १२ । तु० की० शाठ्यायनक, ऋग्वेद ९, ५८, ३ पर सायण में ।

^३ १. १५१; ३. १३९, जहाँ 'वैतदश्वि' रूप है । तु० की० आप्येय ब्राह्मण पृ० ५४ (बुर्नेल का सस्करण) ।

तु० की० मैक्स मूलर : से० बु० ई० २३, ३६०, औल्डेनवर्ग : त्सी० गे० ४२, २३२, नोट; ऋग्वेद-नोट्स, १, ३५४, सीग . सा० ऋ० ६२ और वाद ।

वैदभृती-पुत्र ('वेदभृत्' के एक स्त्री-वंशज का पुत्र) बृहदारण्यक उपनिषद् की माध्यन्दिन शाखा (६. ४, ३२) के अन्तिम वंश में एक गुरु का नाम है । तु० की० वैदभृतीपुत्र ।

वैदर्भ ('विदर्भ' का राजा) ऐतरेय ब्राह्मण (७. ३४, ९) में भीम के लिये व्यवहृत हुआ है ।

वैदर्भि (विदर्भ का वंशज) प्रश्न उपनिषद् (१. १; २. १) में भार्गव का पैतृक नाम है ।

वैदेह ('विदेह' का राजा), जनक और नमी साप्य की उपाधि है ।

वैधस ('वेधस्' का वंशज) ऐतरेय ब्राह्मण (७. १३, १) और शाठ्यायन श्रौत सूत्र (१५. १७, १) में हरिश्चन्द्र का पैतृक नाम है ।

वैन्य (वैन का वंशज), पौराणिक पृथि, पृथा, अथवा पृथु^१ का पैतृक नाम है ।

^१ ऋग्वेद ८. ९, १०, पञ्चविंश ब्राह्मण १३ ५, २०, शतपथ ब्राह्मण ५. ३, ५, ४, इत्यादि ।

वैपश्चित (विपश्चित् का वंशज) दार्ढ-जयन्ति (दृढजयन्त का वंशज) गुप्त लौहित्य (लोहित का वंशज) जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३.४२, १) के एक वंश में वैपश्चित दार्ढजयन्ति दृढजयन्त लौहित्य के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

वैश्व (व्यश्व का वंशज) ऋग्वेद (८.२३, २४, २४, २३; २६, ११) में विश्वमनस् का पैतृक नाम है ।

वैयाघ्रपदी-पुत्र ('व्याघ्रपद्' के एक स्त्री-वंशज का पुत्र) काण्व शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद् (६.५, १) के अन्तिम वंश में काण्वी-पुत्र के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

वैयाघ्र-पद्य ('व्याघ्रपद्' का वंशज) शतपथ ब्राह्मण^१ और छान्दोग्य उपनिषद्^२ में इन्द्रद्युम्न भाल्लवैय का, छान्दोग्य उपनिषद्^३ में बुडिल आश्व-तराश्व का, तथा इसी उपनिषद्^४ और शङ्खायन आरण्यक^५ में गोश्रुति का पैतृक नाम है । जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण^६ में यह पैतृक नाम राम कातुजातेय के लिये व्यवहृत हुआ है ।

^१ १० ६, १, ८ ।

^२ ५ १४, १ ।

^३ ५ १६, १ ।

^४ ५ २, ३ ।

^५ ७ ('गोश्रुत-वैयाघ्रपद्य', समस्त पद के रूप में) ।

^६ ३. ४०, १, ४. १६, १ ।

वैयास्क, ऋग्वेद प्रातिशाख्य^१ के एक स्थल पर ऋग्वेद के छन्दों के एक आचार्य के नाम का पाठ है । रौथ^२ यह मानते हुये स्पष्टतः ठीक है कि इससे वैयास्क का ही तात्पर्य है ।^३

^१ १७ ०५ ।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० ।

^३ यह 'वैयास्क' से व्युत्पन्न पैतृक नाम ।

नहीं, वरन् 'वै यास्कः' का रूप है ।
तु० की० वैज्ञान ।

वैर^१ और वैर-देय^२ का, बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों में निश्चित और पारिभाषिक आशय ऐसा धन है जो किसी व्यक्ति का वध कर दिये जाने पर उसके परिवार अथवा सम्बन्धियों को प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाता था। आपस्तम्ब^३ और वौधायन^४ सूत्रों द्वारा इस दृष्टिकोण की पुष्टि होती है। इन दोनों में ही क्षत्रिय के लिये १,००० गायें,^५ वैश्य के लिये १००, शूद्र के लिये १०, तथा प्रत्येक दशा में इन गायों के अतिरिक्त एक बैल देने का विधान है। यह सब कैसे देना चाहिये, इस बात को आपस्तम्ब ने अस्पष्ट छोड़ दिया है, किन्तु वौधायन में राजा को समर्पित करने का उल्लेख है। यह मानना तर्कसंगत है कि गायें तो सम्बन्धियों के लिये होती थीं और बैल राजा को इस इसलिये दे दिया जाता था कि वह क्षत्रियस्त सम्बन्धियों को अपराधी का जीवन लेने के आग्रह का परित्याग करने के लिये अपने हस्तक्षेप द्वारा विरत करता था। आपस्तम्ब श्रौतसूत्र^६ स्त्री के लिये भी 'वैरदेय' का उक्त मापदण्ड ही निश्चित करता है, किन्तु गौतम सूत्र^७ स्त्रियों को शूद्र जाति के समकक्ष रखता है, जिसका केवल एक विशेष दशा में ही अपवाद है। इस प्रकार 'वैरदेय' का उद्देश्य 'वैर-यातन' अथवा 'वैर-निर्यातन' (प्रायश्चित्त) होता था।

ऋग्वेद^८ में यह महत्वपूर्ण तथ्य भी अंकित है कि मनुष्य का वैरदेय एक सौ (गायें) है क्योंकि इसके लिये 'शत-दाय' (जिसका वैरदेय एक सौ है) उपाधि का प्रयोग हुआ है। इसमें सन्देह नहीं कि इन मूल्यों में अन्तर था,

^१ पञ्चविंश ब्राह्मण १६ १, १२।

तु० की० तैत्तिरीय संहिता १ ५, २, १; काठक संहिता ९ २, कपिष्ठल संहिता ८. ५, मैत्रायणी संहिता १ ७ ५, जिन सब में सम्भवतः अशुद्ध रूप से ही 'वैरम्' के स्थान पर 'वीरम्' है।

^२ ऋग्वेद ५ ६१, ८ (जिसके ठीक-ठीक आशय के लिये तु० की० मैक्समूलर : से० बु० ६०, ३२, ३६१, हिलेब्रान्ट : वेदिशे माथ्योलोजी, १, ९०, औल्डेन-वर्ग • ऋग्वेद-नोट्स १, ३५४),

काठक संहिता २३ ८; २८ २ ३६।

^३ १० ९, २४, १-४।

^४ १ १०, १९, १. २।

^५ ब्राह्मण का वध करना इतना जघन्य अपराध है कि वैरदेय से उसका प्रायश्चित्त नहीं हो सकता। देखिये आपस्तम्ब १. ९, २४, ७ और बाद; वौधायन १ १०, १८, १८।

^६ १ ९, २४, ५।

^७ १ १०, १९, ३।

^८ ० ३२, ४।

किन्तु ऐतरेय ब्राह्मण^१ में शुनःशेष के लिये सौ गायों के मूल्य का उल्लेख है । यजुर्वेद संहिताओं^{१०} में 'शत-दाय' पुनः आता है ।

मूल्य का इस प्रकार निर्देश यह व्यक्त करता है कि ऋग्वेदिक काल तक में जनमत और राजसत्ता दोनों ही व्यक्तिगत प्रतिशोध के क्षेत्र को सीमित मानने लगे थे, दूसरी ओर, इस पद्धति का अस्तित्व यह भी व्यक्त करता है कि राजा का दण्डात्मक अधिकार कितना क्षीण था (तु० की० धर्म) ।

^१ ७ १५, ७ ।

^{१०} देखिये नोट १ । तैत्तिरीय में यह शब्द नहीं मिलता ।

तु० की० रौथ . त्सी० गे० ४१,
६७२-६७६, बूहलर और फॉनश्रोडर :
फे० रौ०, ४४-५२; बूहलर : से०

बु० ई०, २, ७८, ७९, १४, २०१;
श्रेडर : प्रिहिस्टोरिक ऐन्टिक्विटीज,
४०२, जॉली : रेख्त उन्ट सिट्टे
१३१, १३२, डेलब्रुक : आल्टिशे जुस
जेन्शियम, २९७ ।

वैर-हृत्य (मानव-वध) का वाजसनेयि संहिता (३०. १३) और तैत्तिरीय ब्राह्मण (१. ५, ९, ५) में उल्लेख है । तु० की० वीरहन् ।

वै-राज्य—देखिये राज्य ।

वैरूप ('विरूप' का वंशज) पञ्चविंश ब्राह्मण (८. ९, २१) में अष्टा-दंष्ट्र का पैतृक नाम है ।

वैशन्त, ऋग्वेद^१ में एक ऐसे राजा का नाम है जिसकी हवि को इन्द्र ने, वसिष्ठों की सहायता से सुदास के पक्ष में, अस्वीकृत कर, दिया था । लुडविग^२ का विचार है कि इस नाम का रूप 'वेशन्त' है और यह पृथु-पर्शुस् का पुरोहित था, ग्रिफिय^३ का कथन है कि सम्भवनः इससे एक नदी का आशय है; किन्तु इन दोनों में से कोई भी दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं ।

^१ ७ ३३, २ ।

^२ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १७३ ।

^३ ऋग्वेद के सूक्त २, २४ नोट । तु० की०
गेलडनर : वेदिशे स्टूडियन, २, १३० ।

वैशपायन ('विशंप' का वंशज) एक गुरु का नाम है जो वाद में तो अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ, किन्तु आरम्भिक वैदिक साहित्य में केवल तैत्तिरीय आरण्यक (१. ७, ५) और गृह्य सूत्रों में ही आता है ।

वै-शालेय ('विशाल' का वंशज), अथर्ववेद (८. १०, २९) में पौराणिक तक्षक का पैतृक नाम है ।

वैशी-पुत्र (एक वैश्य पत्नी का पुत्र) का ब्राह्मणों^१ में उल्लेख है ।

^१ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ९, ७, ३, शतपथ ब्राह्मण १३. २ ।

वैश्य, एक ओर आर्य समुदाय के शासक-वर्ग (क्षत्रिय) और ब्राह्मण जैसे उच्च वर्ग, और दूसरी ओर आदिवासी शूद्रों से भिन्न प्रजावर्ग के एक व्यक्ति का द्योतक है । यह नाम सर्वप्रथम ऋग्वेद^१ के पुरुष-सूक्त में, और उसके बाद अथर्ववेद^२ तथा चाद^३ में मिलता है । इसका रूप कभी-कभी 'विश्य'^४ भी है ।

वैदिक साहित्य में, जहाँ क्षत्रिय और ब्राह्मण की पर्याप्त चर्चा है, अकेले वैश्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं है । इसकी चारित्रिक विशेषताओं को अत्यन्त उत्कृष्ट रूप से ऐतरेय ब्राह्मण^५ के इन विशेषणों द्वारा प्रस्तुत किया गया है : 'अन्यस्य बलि-कृत्' (दूसरे का सहायक), 'अन्यस्याद्य' (जिसका दूसरे लोग उपभोग करें), और 'यथाकामज्येयः' (जिसे इच्छानुसार व्रत किया जा सके) । यह निर्विवाद है कि राजा (राजन्) इनसे कर लेता था । इसमें भी सन्देह नहीं कि राजा लोग अपने पार्षदों को साधारण लोगों द्वारा पोषित होने का अधिकार देते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि क्षत्रिय लोग वैश्यों की सेवा पर उत्तरोत्तर निर्भर रहने लगे । किन्तु वैश्य दास नहीं होते थे : राजा अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा इनका वध नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इनके वध करनेवाले को प्रायश्चित्त-स्वरूप वैर देना पड़ता था जिसे ब्राह्मण ग्रन्थों में १०० गायों तक निश्चित किया गया है । इसके अतिरिक्त, यद्यपि राजा इच्छानुसार वैश्य को बहिष्कृत भी कर सकता था, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि वह किसी राज्य में सम्पत्ति-हीन होता था । हॉपकिन्स^६ के विचार से यह मानना निरर्थक है कि जब इसे इच्छानुसार हटाया जा सकता था तो यह वास्तव में भूमि का स्वामी भी रहा हो सकता था; किन्तु यह मान्यता इस तथ्य की उपेक्षा करती है कि सामान्यतया राजा भूमि के स्वामी को हटा नहीं सकता था, और इसकी कि राजा लोग अन्ततोगत्वा अपने प्रजाजनों पर ही निर्भर रहते थे, जैसा कि अनेक बहिष्कृत राजाओं की कथाओं द्वारा स्पष्ट है ।

^१ १० ९०, १० । ^२ ५ १७, ९ ।

^३ वाजसनेयि संहिता ३०. ५, इत्यादि ।
देखिये वर्ण ।

^४ अथर्ववेद ६ १३, १, वाजसनेयि संहिता
१८. ४८, इत्यादि ।

^५ ७. २९ । तु० की० मूडर संस्कृत
टेक्स्ट्स, १^२, ४३९ ।

^६ इन्डिया, ओल्ड ऐण्ड न्यू, २२२ और
वाद ।

दूसरी ओर, यह मानते हुये हॉपकिन्स^७ का विचार स्पष्टतः ठीक है कि वैश्य वास्तव में कृषक होता था, और यह भी कि वैदिक समाज आदिवासी कृषकों के ऊपर केवल जमीन्दार-वर्ग द्वारा ही निर्मित था, जैसा कि वैडेन पावेल^८ का भी आग्रह है। इस तथ्य के सम्भावना की उपेक्षा न करते हुये भी कि द्रविड़ लोग कृषक थे, यह अस्वीकार करने के लिये भी कोई आधार नहीं कि आर्यगण भी ऐसे ही नहीं थे, और हल चलानेवाले का अंकुश वैश्य के जीवन^९ और मरण^{१०} का चिह्न था। यह मानना निरर्थक है कि आर्य-वैश्य उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्रों में कार्य नहीं करते थे (तु० की० परिण, वरिण्ज्); फिर भी पशुपालन और कृषि इनके सामान्य व्यवसाय रहे होंगे। युद्ध में क्षत्रिय-नेतृत्व के अन्तर्गत (देखिये क्षत्रिय) अधिकांश मैनिक वैश्य होते थे। किन्तु होमर के सामान्य व्यक्तियों की ही भाँति, वैश्य-गण गम्भीर युद्ध में बहुत कम योगदान देते रहे होंगे, क्योंकि इनके पास न तो कवच होते थे और न श्रेष्ठ आक्रामक शस्त्र ही। यह तथ्य भी, कि वैश्यगण उस काल के बौद्धिक जीवन में भाग लेते थे, असम्भाव्य है। इस बात की कोई परम्परा नहीं है, जैसी कि क्षत्रियों की दशा में निश्चित रूप से है, कि उस काल की महान उपलब्धि, ब्रह्मवाद, में भी वैश्यों ने कोई भाग लिया था। तैत्तिरीय संहिता^{११} के अनुसार वैश्य की आकांक्षा का उद्देश्य ग्रामणी अथवा ग्राम-प्रधान बनना होता था, जो पद राजा द्वारा ऐसे धनी वैश्यों को प्रदान किया जाता था जिनकी सख्या निःसन्देह कम नहीं थी। यह कह सकना कठिन है कि वैदिक काल में वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण भी बन सकता था या नहीं। इस प्रकार के दृष्टिकोण^{१२} की पुष्टि के लिये निर्विवाद रूप से एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यद्यपि इस प्रकार के परिवर्तन हुये हो सकते हैं (देखिये क्षत्रिय और वर्या)।

फिफ^{१३} इस बात को ही अस्वीकार करते हैं कि वैश्य कभी एक जाति

^७ ८० पु०, २१० और बाद।

^८ इण्डियन विलेज कम्यूनिटी, १९० और बाद।

^९ काठक संहिता ३७ १।

^{१०} कौशिक सूत्र, ८०।

^{११} २ ५, ४, ४।

^{१२} रिज डेविड्स : बुद्धिस्ट इण्डिया, ५५ और बाद, बौद्ध प्रमाणों के आधार पर

इसके विपरीत तर्क प्रस्तुत करते हैं; किन्तु वैदिक काल के लिये इसका कोई औचित्य नहीं है, और इनके प्रमाणों में से यदि सब नहीं तो अधिकांश का इस विषय से कदाचित ही सम्बन्ध है।

^{१३} डी० ग्लो०, १६३ और बाद।

भी थे । इस अस्वीकृति के लिये उस दशा में श्रेष्ठ आधार भी हो सकता है जब हम यह मान लें कि जाति का अर्थ एक ऐसा समूह है जिसके अन्तर्गत ही विवाह करना आवश्यक है, और जो एक पैतृक व्यवसाय ही करता है (तु० की० वर्ण) । किन्तु यह मानना त्रुटिपूर्ण^{१४} होगा कि केवल सैद्धन्तिकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों के लिये वैश्य शब्द व्यवहृत हुआ है जो विशिष्ट जन अथवा पुरोहित नहीं होते थे । वास्तव में यह एक ऐसे निश्चित वर्ग की आरम्भिक अभिधा रही होगी जो अन्य वर्गों से भिन्न था । इसके अतिरिक्त, यदि वैश्यों में भी अनेक विभेद थे, तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों में भी ऐसा अन्तर उपलब्ध है; और यदि अन्य दो को जाति मान लिया जाय तो वैश्यों को भी एक जाति अथवा वर्ग मानने के तथ्य को अस्वीकृत करना असम्भव होगा ।

^{१४} तु० की० इण्डियन एम्पायर, १, ३४७ ।

तु० की० रिसमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, २१३ और वाद, वेवर : इण्डिशे स्टूडियन, १०, १ और वाद,

मूडर : सस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, ७ और वाद, लुडविग . ऋग्वेद का अनुवाद, ३, २४२, २४३; हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो०, १३, ७६ और वाद (महाकाव्य के वैश्य के लिये) ।

वैश्वामित्र (विश्वामित्र का वंशज) एक ऐसा शब्द है जिससे ऐतरेय-ब्राह्मण (७. १७ और वाद) में इस प्रसिद्ध पुरोहित के वंशजों को व्यक्त किया गया है ।

वैष्ट-पुरेय ('विष्टपुर' का वंशज) माध्यन्दिन शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद् (२. ५, २०, ४. ५, २५) के प्रथम दो वंशों में एक गुरु का नाम है । यह शाण्डिल्य और रौहिणायन का शिष्य था ।

व्यञ्ज, जो कि 'शो-व्यञ्ज' के रूप में यजुर्वेद^१ में पुरुषमेध के वलि-प्राणियों में से एक का नाम है, अनिश्चित आशयवाला शब्द है । सायण^२ के अनुसार भौगिक शब्द 'गायों को भगानेवाले' का द्योतक है । जैसा कि सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश ने ग्रहण किया है, इससे सम्भवतः 'गायों को त्रस्त करनेवाले' का आशय है । वेवर^३ ने इसे 'गायों की सेवा करनेवाले', और एग्लिङ्ग^४ ने 'गायों के निकट आनेवाले' के अर्थों में ग्रहण किया है ।

^१ वाजसनेयि संहिता ३० १८; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, १६, १ । तु० की० काठक संहिता १५ ४ ।

^२ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३० स्था० पर ।

^३ इन्डिशे स्ट्रीफेन, १, ८२, नोट ११ । इस

शब्द के काठक संहिता के प्रयोग द्वारा इस व्याख्या की पुष्टि होती है, जहाँ यह अन्य ग्रन्थों के गोविकतन के स्थान पर आता है । देखिये रत्निन् ।

^४ से० बु० ई०, ४४, ४१६ ।

व्य-अध्वर,^१ व्य-अध्वरी,^२ अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण में 'कुतरने वाले' ('अध्', खाना) पशु के नाम हैं । तु० की० व्यध्वर भी, जिसे ही सेन्ट पीटर्सबर्ग ने सर्वत्र पढ़ा है ।

^१ शतपथ ब्राह्मण ७ ४, १, २७ । तु० की० अथर्ववेद ६ ५०, २ ।

^२ अथर्ववेद ३ २८, २, जहाँ निश्चित रूप से कीटाणु का आशय नहीं है ।

व्यध्वर (छिद्र करनेवाला) अथर्ववेद^१ के एक स्थल पर किसी कीटाणु का छोटक है, जहाँ इसके पाठ को 'व्यध्वर' के रूप में परिणत कर देने के लिये कोई विशेष आधार प्रतीत नहीं होता, यद्यपि विहटने^२ का विचार है कि इसे 'व्यध्'^३ (भेदन करना) धातु की अपेक्षा 'वि-अध्वन्'^४ के साथ सम्बद्ध करना अधिक उपयुक्त है । मशक (मक्खी) के साथ यह शब्द हिरण्यकेशि गृह्य सूत्र^५, और मग्भवत. अथर्ववेद^६ के भी एक स्थल पर आता है, जहाँ, फिर भी, विहटने^७ और शंकर पण्डित व्यध्वर पढ़ते हैं ।

^१ २. ३१, ४ ।

^२ अथर्ववेद का अनुवाद, ७४ ।

^३ पठपाठ इस शब्द का 'वि-अध्वर' के रूप में विग्रह करता है ।

^४ इसका अर्थ 'पथ से विरत होना' अथवा 'पथ से अलग जाना' है ।

^५ २. १६, ३ ।

^६ ६ ५० ३ ।

^७ उ० पु०, ३१८ । तु० की०, १३५ ।

तु० की० ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त, ३१६, ३६१, ४८७, विहटने : उ० पु०, ३१८, में लैनमैन भी ।

व्यल्कशा, ऋग्वेद^१ में एक पौधे का नाम है ।

^१ १० १६, १३ । तु० की० तिस्रर . आस्टिन्डिशे लेवेन, ७० ।

व्य-अश्व, अश्विनो^१ के आश्रित, उस ऋषि का नाम है जिसका धाठवें मण्डल^२ के अनेक सूक्तों में उल्लेख है । ये सूक्त इसके विश्वमनस् नामक शिष्य की कृति हो सकते हैं । दो अन्य स्थलों^३ पर इसका केवल एक प्राचीन ऋषि के रूप में उल्लेख है, और औल्डेनबर्ग^४ ऐसा संकेत करते हैं कि इस संहिता में इसकी कोई भी कृति नहीं मिलती । ऋग्वेद में 'व्यश्वो' का भी उल्लेख^५ है, जिसके साथ लुडविग^६ वश अश्व्य को सम्बद्ध करना चाहते हैं । पञ्चविंश ब्राह्मण^७ में-सामनों के दृष्टा के रूप में एक आङ्गिरस व्यश्व का उल्लेख है ।

^१ ऋग्वेद १. ११२, १५ ।

^२ ८ २३, १६ २३; २४, २२, २६, ९ ।

^३ ऋग्वेद ८. ९, १०, ९, ६५, ७ ।

^४ त्सी० गे०, ४२, २१७ ।

^५ ऋग्वेद ८ २४, २८ ।

^६ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १०६ ।

^७ १४. १०, ९ ।

व्य-अष्टि, बृहदारण्यक उपनिषद्^१ के प्रथम दो वंशों में एक पौराणिक गुरु का नाम है ।

^१ ४ ५, २२, ४ ५, २८ माध्यन्दिन ।

व्या-ख्यान, शतपथ ब्राह्मण^१ के एक स्थल पर स्पष्टतः केवल एक वृत्तान्त (कद्रू और सुपर्णी के बीच विवाद से सम्बद्ध) का द्योतक है । अन्य स्थलों^२ पर यह शब्द केवल 'भाष्य' अथवा 'टीका' का द्योतक है । बृहदारण्यक उपनिषद्^३ में यह बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है और प्रत्यक्षतः 'भाष्य' जैसे किसी ग्रन्थ का द्योतक है, यद्यपि अनुव्याख्यान के साथ इसका ठीक-ठीक सम्बन्ध अस्पष्ट ही रह जाता है । सीग^४ का विचार है कि व्याख्यान भी अनुव्याख्यान और अनुव्याख्यान की ही भाँति वृत्तान्त का द्योतक है ।

^१ ३ ६, २, ७ ।

^२ ६ १, २७ ३३, ७ २, ४, २८ ।

^३ २ ४, १०, ४ १, ६ (माध्यन्दिन =

^२ काण्व), ५, ११ ।

^४ सा० ऋ०, २१. ३४ ।

व्याघ्र (चीता या बाघ) ऋग्वेद में कहीं नहीं मिलता, किन्तु 'सिंह' और यह शब्द अथर्ववेद^१ में अक्सर आते हैं । इस तथ्य को उचित रूप से ही इस बात का द्योतक मान लिया गया है कि अथर्ववेद का उस काल में निर्माण हुआ था, जब वैदिक भारतीय वंगाल क्षेत्र तक पहुँच कर बस चुके थे । बाद^२ में भी व्याघ्र का बहुधा उल्लेख मिलता है । तैत्तिरीय संहिता^३ में सोये हुये व्याघ्र के पास से होकर जाने के संकट का संदर्भ सुरक्षित है । इस पशु की घातक प्रकृति का अक्सर उल्लेख है,^४ और नरभक्षी व्याघ्रों (पुरुषाद्)^५ का भी वर्णन मिलता है । सिंह की ही भाँति व्याघ्र भी शक्ति का प्रतीक है ।^६ यह विचार इस तथ्य द्वारा व्यक्त होता है कि राजसूय के समय राजा इस

^१ ४ ३, १, ३६, ६, ६ ३८, १, १०३, ३; १४०, १, १२. १, ४९, २, ४३, १९ ४६, ५, ४९, ४ ।

^२ तैत्तिरीय संहिता ६. २, ५, ५, काठक संहिता १७ २, मैत्रायणी संहिता २ १, ९, वाजसनेयि संहिता १४ ९, १९. १०, पेत्रेय ब्राह्मण ७ ५, ३; शतपथ ब्राह्मण १२. ७, १, ८;

छान्दोग्य उपनिषद् ६ ९, ३, १०, २, इत्यादि ।

^३ ५ ४, १०, ५ ।

^४ तु० की० अथर्ववेद ४ ३६, ६, ८. ५, ११, और देखिये शशयु ।

^५ अथर्ववेद १२. १, ४९ ।

^६ अथर्ववेद ४ ८, ४ ७ । तु० की० यास्क : निरुक्त ३ १८ ।

पशु की शक्ति को विजित करने के लिये इसके चर्म पर खड़ा होता था ।^७ तु० की० शार्दूल, पेट्र भी ।

^७ अथर्ववेद ४ ८, ४ । तु० की० एग्लिङ्ग ।
से० तु० ई० ४१, ९२ । वह चर्म-
परिधान धारण नहीं करता जैसा कि
त्सिमर • आल्टिन्डिशो लेवेन, ७९,

का विचार है ।

तु० की० श्रेडर : प्रिहिटोरिक
ऐन्टीकिटीन, २४९, २५० ।

व्याघ्र-पद्य, छान्दोग्य उपनिषद् (५. १६, १) में वैव्याघ्रपद्य का एक मिथ्या-पाठ है ।

व्याधि, वैदिक साहित्य^१ में अनेक बार आता है । अलग-अलग व्याधियों का उनके अलग-अलग नामों के अन्तर्गत वर्णन किया गया है । किन्तु वैदिक ग्रन्थों में असंख्य शारीरिक दोषों का भी उल्लेख है । पुरुषमेध के बलि-प्राणियों^२ की तालिका के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार के व्याधियों को सम्मिलित किया गया है : वामन, कुब्ज (बौना, कुबड़ा), खलति^३ (गजा), अन्ध,^४ वधिर,^५ मूक,^६ पीवन् (मोटा व्यक्ति), सिध्मल, किलास^७ (कुष्ठ रोगी), हर्य-अक्ष (पीली आँखोंवाला व्यक्ति), पिद्धान्, पीठ सर्पिन् (लुब्धा), त्राम (लँगड़ा), जागरण (निद्रा रहित व्यक्ति), स्वपन (सोनेवाला व्यक्ति),^८ अति-दीर्घ, अति-ह्रस्व, अति-स्थूल अथवा अत्यंसल, अति-कृश, अति-शुक्ल, अति-कृष्ण, अति-कुत्सव, और अति-लोमश ।

सैत्रायणी संहिता^९ में दिधिषूपति जैसे पापियों के साथ-साथ बुरे नख

^१ छान्दोग्य उपनिषद् ४ १०, ३,
षड्विंश ब्राह्मण ५ ४, शाङ्खायन
श्रौत सूत्र ३ ४, ८ ।

^२ वाजसनेयि संहिता ३०. १० १७ २१,
तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, ६, १; १४,
१, १७, १ ।

^३ तु० की० शतपथ ब्राह्मण १३ ३, ६, ५ ।

^४ तु० की० बृहदारण्यक उपनिषद् ६
२, ९; छान्दोग्य उपनिषद् ५ १, ९,
१३, २; ८ ४, २, ९, १; १०, १;
कौषीतकि उपनिषद् ३ ३ ।

^५ बृहदारण्यक उपनिषद् ६. २, १०;
छान्दोग्य उपनिषद् ५. १, १०;

कौषीतकि उपनिषद् ३० स्था० ।

^६ कौषीतकि उपनिषद् ३० स्था० ।

^७ पञ्चविंश ब्राह्मण १४ ३, १७; २३ १६,
११, इत्यादि में भी 'किलास' ।

^८ वाजसनेयि संहिता ३०. २२; तैत्तिरीय
ब्राह्मण ३. ४, १९, १ जहाँ इन
व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया
गया है : 'अति-मिर्मिर', 'अति-
दन्तुर' अथवा 'अति-किरिट', और
'अति-मेमिप' । तु० की० वेवर :
इन्डिशो स्ट्रीफेन, १, ८४, नोट ४ ।

^९ ४ १, ९; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ २, ८,
९ । तु० की० अथर्ववेद ७. ६५, ३ ।

तथा भूरे दाँत वाले व्यक्तियों का भी उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण^{१०} में 'एक शुक्ल-धन्वों, बड़े-बड़े दाँतों (विक्रिध) और लाल भूरी आँखों वाले व्यक्ति' का उल्लेख है। कुछ मनोरञ्जक-सा खिसमर^{११} का यह विचार है कि वाजसनेयि संहिता^{१२} में मिलनेवाले 'किर्मिर' शब्द का जातियों के मिश्रण के रूप में 'शत्रुल' अर्थ है, किन्तु यह केवल एक अनुमान मात्र है जो इस शब्द के 'कृ' के साथ मान लिये गये सम्बन्ध पर आधारित है। वाजसनेयि संहिता^{१३} और तैत्तिरीय ब्राह्मण^{१४} में स्त्रियों के लिये अनेक उपाधियाँ व्यवहृत हुई हैं। जिनमें से कुछ व्याधियों की भी द्योतक प्रतीत होती हैं। और अथर्ववेद^{१५} में स्त्रियों के लिये प्रयुक्त विशेषण, जैसे 'ऋश्य-पदी' और 'वृष दती' सम्भवतः शारीरिक दोषों के ही द्योतक हैं।

- ^{१०} १३ ३, ६, ५। देखिये एतिलङ्ग : से० तु० ई०, ४४, ३२३, नो. १।
^{११} आल्टिन्डिशे लेवेन, ४२८।
^{१२} ३० २१।
^{१३} ३०, १५, 'अवतोका' और 'पर्याधिणी' के अतिरिक्त विशेषतः 'अविजाता' और 'विजर्जरा', सम्भवत 'अतीत्वरी' और 'अतिष्कद्वारी' को भी इसी प्रकार समझना चाहिये। तु० की०

- वेवर. इन्डिशे स्ट्रीफेन, १, ८०।
^{१४} ३ ४, ११, १, जहाँ 'अपस्कद्वारी' और 'पर्याधिणी' पाठ है।
^{१५} १. १८, ४। गेल्डनर. वेदिशे स्टूडियन, १, ३१४, इस सूक्त में पालतू विल्ली का सन्दर्भ देखने हैं, किन्तु इसमें उपयुक्तता का अभाव है। यहाँ आनेवाली अन्य उपाधियों का आशय सर्वथा स्पष्ट है।

व्यु-आन, प्राण-वायुओं में से एक का नाम है। देखिये प्राण।

व्याम, संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में लम्बाई के नाप के रूप में फैले हुये हाथों की दूरी का द्योतक है। इसे ६ फीट अथवा एक फैदम के बराबर माना जा सकता है।^३

- ^१ अथर्ववेद ६ १३७, २, तैत्तिरीय संहिता ५ १, १, ४: २, ५, १, इत्यादि।
^२ शतपथ ब्राह्मण १० २, ३, १. २, १ २, ५, १४, ७ १, १, ३७ जहाँ भाष्यकार इसे ४ अरत्तियों के बराबर मानता है (जब कि आश्वलायन गृह्य सूत्र ९ १, ९ का भाष्यकार इसे ५

- अरत्तियों के बराबर मानता है)।
 वौधायन के शुक्ल सूत्र के अनुसार अरत्ति = २४ अङ्गुल (= ३ इंच)।
 देखिये फ्लिट : ज० ए० सो०, १९१२, २३१, २३३, २३४।
^३ देखिये एतिलङ्ग. से० तु० ई०, ४१, ३०९, नोट ५।

व्यास पाराशर्य (पराशर का वंशज) एक पौराणिक ऋषि का नाम है

जो वैदिक काल में केवल विष्वक्सेन के शिष्य के रूप में सामविधान ब्राह्मण के अन्त के एक वंश और तैत्तिरीय आरण्यक^१ में आता है ।

^१ १. ९, २। तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, १, १५६; ४, ३७७, इन्डियन लिटरेचर, १८४, नोट १९९।

ब्र, रौथ^१ के अनुसार ऋग्वेद^२ और अथर्ववेद^३ में 'सैनिक दस्ते' का द्योतक है । तिसर^४ ने इस शब्द को (स्त्रीलिङ्ग 'त्रा' के रूप में) एक स्थल पर ग्रामीणों के उस समूह का द्योतक माना है जो विशू का एक अंश और सम्बन्धियों (सु-वन्धु) से मिलकर बना होता था । दूसरी ओर पिशल^५ का विचार है कि यह सभी स्थलों पर 'स्त्रीलिङ्ग' का द्योतक है, चाहे इसका पशुओं^६ के लिये, अथवा समन^७ में जानेवाली स्त्रियों, अथवा वेश्याओं (विश्या)^८ के लिये, अथवा लाक्षणिक^९ आशय में ही प्रयोग किया गया हो । ये आशय सम्भवतः पर्याप्त हैं ।

^१ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश व० स्था०। तु० की० वेख्तेल : न० गो०, १८९४ ३९३।

^२ १ १२४, ८; १२६, ५, ४. १, १६, ८. २, ६, १०. १२३, २। आप १ १२१, २ को छोड़ देते हैं, जहाँ वौटलिङ्ग : लिक्शनरी, व० स्था० में इस शब्द को स्त्रीलिङ्ग (त्रा) मानते हैं ।

^३ २ १, १, एक अस्पष्ट स्थल है, जिस पर देखिये विहटने : अथर्ववेद का अनुवाद ३७, ३८।

^४ आस्टिन्डिशे लेवेन, १६२।

^५ वेदिशे स्टूडियन, २, १२१, ३१३ और वाद ।

^६ ऋग्वेद १ १२१, २, ८ २, ६ (माँदा हाथी)।

^७ ऋग्वेद १. १२४, ८।

^८ ऋग्वेद १ १२६, ५।

^९ ऋग्वेद ४ १, १६, १०. १०३, २, अथर्ववेद, उ० स्था०।

ब्रज, प्रथमतः, ऋग्वेद^१ में 'चरागाह' अथवा उस स्थान का द्योतक है जहाँ दूध-देनेवाले पशु प्रातःकाल ग्राम से निकल कर जाते^२ ('ब्रज्', जाना से) थे जब कि कुछ पशु चौबीस घंटे^३ ग्राम में ही रहते थे । द्वितीयतः,

^१ ऋग्वेद ३. ३८, ८, १०. २६, ३, और सम्भवत ९७, १०; १०१, ८। तु० की० मनु ४. ४५ पर मेधातिथि और महाभारत १ ४१, १५ जहाँ 'गो-ब्रज' बराबर है १. ४०, १७ के

'गवा प्रचारा.' (पशुओं के चरागाह)के।

^२ ऋग्वेद २. ३८, ८।

^३ तु० की० ऐतरेय ब्राह्मण १ १८, १४ पर सायण।

यह स्वयं 'यूथ'^४ का ही द्योतक है। गेल्डनर^५ का यही मत है, जो रौथ^६ के उस मत से स्पष्टतः अधिक श्रेष्ठ है, जिसके अनुसार वह (रौथ) 'व्रज' को प्रमुखतः 'घेरा' ('वृज्' से) अथवा वन्द स्थान, और 'यूथ' अर्थ को इससे ही निकृष्ट मानते हैं; क्योंकि 'व्रज' का सामान्यतया 'घेरा' अथवा 'वन्द स्थान' अर्थ कहीं भी नहीं मिलता : वैदिक पशुओं को कभी भी गोष्ठों में ही बाँधकर नहीं रक्खा जाता था। फिर भी, कुछ स्थलों पर 'अवरोध'^७ और कुछ पर 'गोष्ठ'^८ अर्थ भी निश्चित है। पशुओं के अपहरण की पुराकथा में भी यह शब्द अक्सर प्रयुक्त हुआ है।^९ कभी-कभी यह 'नाँद' या 'हौज़' का भी द्योतक है।^{१०}

^४ ऋग्वेद ५ ३५, ४; ७ २७, १, ३०,
१०, ८. ४६, ९; ५१, ५।

^५ वेदिशे स्टूडियन, २, २८२ और वाद;
ऋग्वेद, ग्लॉसर, १७४। तु० की०
हॉपकिन्स. ज० अ० ओ० सो०,
१३, ७७।

^६ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व०स्था०। किन्तु तु०
की० वौटलिङ्ग : डिक्शनरी, व०स्था०।

^७ अथर्ववेद ३ ११, ५, ४. ३८, ७,
शाङ्खायन आरण्यक २ १६। बृह-
दारण्यक उपनिषद् ६ ४, २२
(माध्यदिन) में यह लाक्षणिक
आशय में 'सार्गल' और 'सपरि-
श्रय' है। ऋग्वेद १० ९७, १०,
१०१, ८ में भी 'अवरोध' अथवा
'गोष्ठ' का अशय सम्भव है जो 'व्रज'
से भिन्न नहीं है, क्योंकि 'व्रज' उस
स्थान का द्योतक है जहाँ भवेशियों

को खाना खिलाया जाता है, अतः
यह उन गोष्ठों के लिये व्यवहृत हो
सकता है जहाँ रात्रि के समय पशु-
गण रहते हैं। तु० की० गोष्ठ।

^८ ऋग्वेद १० ४, २, जहाँ एक ऐसे 'गरम
व्रज' का सन्दर्भ है जहाँ गायें जाती हैं,
और ४ ५१, २, जहाँ उपस्^१अन्धकार
रूपी 'व्रज' के द्वारों को खोलती है,
तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ८, १२, २ जहाँ
'व्रज' को अश्रुत्थ की लकड़ी का
वना बताया गया है। वाजसनेयि
सहिता १ २५, में भी 'गोष्ठ' का
आशय सम्भव है।

^९ देखिये गेल्डनर. उ० पु० २, २८३
और वाद।

^{१०} वाजसनेयि सहिता १० ४ = तैत्तिरीय,
ब्राह्मण १. ८, ११, १ = मैत्रायणी
सहिता, २ ६, ७।

व्रत से वाद की संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में ऐसे 'दुग्ध' का कुछ विचित्र

^१ अथर्ववेद ६ १३३, २; तैत्तिरीय
सहिता ६. २, ५, ३. ४, वाजसनेयि
सहिता ४. ११, इत्यादि।

^२ शतपथ ब्राह्मण ३ २, २, १० १४. १७,
४, २, १५, ९ २, १, १८। तु० की०

'घृत व्रत', पचविंश ब्राह्मण १८ २,
५ ६, और 'व्रत-दुग्धा' (वह गाय जो
व्रत-दुग्ध प्रदान करती है), शतपथ
ब्राह्मण ३. २, २, १४, १४. ३, १,
३४, इत्यादि।

आशय है जिसका व्रत या प्रायश्चित्त की अवधि में व्यक्ति एकमात्र भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करता है ।

व्रतति, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में एक 'लता' अथवा 'चढ़नेवाले पौधे' का द्योतक है ।

^१ ८ ४०, ६, निरुक्त ? १४, ६. २८ । | ^२ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ५, १, ३ इत्यादि ।

व्राज-पति ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर मिलता है जहाँ ऐसा कथन है कि जब इन्द्र वाहर जाते हैं तो मित्र-गण 'व्राजपति' कुलपों की भौति उनकी सेवा करते हैं । त्सिमर^२ का विचार है कि इससे युद्ध के समय परिवार के व्यक्तियों का ग्रामणी के अधीनस्थ रहने का सन्दर्भ है; किन्तु विहट्ने^३ सम्भवतः यह मानते हुये ठीक प्रतीत होते हैं कि इससे अनिवार्यतः केवल ग्राम-प्रधान का नहीं वरन् ऐसे प्रधान का आशय है जो परिवार-प्रधान, अथवा कुछ प्रमुख व्यक्तियों से घिरा हो । अथर्ववेद^४ के एक स्थल पर क्रियाविशेषणात्मक 'सैनिक दस्तों में' के आशय में अकेले 'व्राज' भी आता है ।

^१ १० १७९, २ = अथर्ववेद ७ ७२, २ । | ^४ १. १६, १ । तु० की० विहट्ने : उ० पु० १७ ।
^२ आस्टिन्डिशे लेवेन, १७१ ।
^३ अथर्ववेद का अनुवाद, ४३६ ।

व्राज-बाहु का कौपीतिक ब्राह्मण (२ ९) में मृत्यु के 'ग्रसित करनेवाले बाहुओं' के आशय में प्रयोग किया गया है । 'व्राज' से यहाँ प्रत्यक्षतः, व्रज की भौति, एक 'अवरोध' अथवा 'गोष्ठ' का आशय है ।

व्रात, ऋग्वेद^१ के अनेक स्थलों पर तथा वाद^२ में भी, 'गण' या 'समूह' के आशय में आता है । ऋग्वेद^३ के एक स्थल पर मरुतों के गणों को तीन अलग-अलग शब्दों—'शर्ध', 'व्रात', और 'गण'—, से व्यक्त किया गया है । इस तथ्य के आधार पर त्सिमर^४ ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वैदिक सेनायों

^१ १ १६३, ८, ३ २६, २, ५. ५३, ११, ९ १४, २ (सम्भवतः पाँच जातियों का सन्दर्भ है), १० ३४, ८ १० (पासे का) । १० ५७, ५, में 'जीव व्रात' का सन्दर्भ है ।
^२ अथर्ववेद २ ९, २ (जीवितों का समूह), तैत्तिरीय संहिता १ ८, १०, २, वाजसनेयि संहिता १६ २५, पञ्चविंश ब्राह्मण ६ ९, २४, १८ १, ५ १०, इत्यादि ।
^३ ५ ५३, ११ । तु० की० ३ २६, २, जहाँ 'शर्ध' का उल्लेख नहीं है ।
^४ आस्टिन्डिशे लेवेन, १६२ ।

विश्व, ग्राम, और परिवार के अनुसार युद्ध करती थीं; किन्तु यह निष्कर्ष कदाचित् ही उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ त्रिभाजनों को स्पष्ट क्रमों में व्यक्त करने के उद्देश्य का कोई चिह्न नहीं मिलता। इस शब्द से कभी भी 'नंघ' का पारिभाषिक आशय होना, जैसा रौ४ का विचार है, सम्भव नहीं। तु० की० व्रातपति।

^५ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश में, जहाँ यही आशय माना गया है, पञ्चविंश ब्राह्मण ६ ९, २५, १७. १, ५ १०, वाज-

सनेयि संहिता १६. २५, तैत्तिरीय संहिता १ ८, १०, २।

व्रात-पति (समूहों का अधिपति) एक ऐसी उपाधि है जिसे यजुर्वेद संहिताओं^१ में 'गण-पति' के साथ-साथ, रुद्र के नामों के अन्तर्गत रक्खा गया है। इसका ठीक-ठीक आशय सर्वथा अनिश्चित है, किन्तु इससे, जैसा कि रिसमर^२ का विचार है, डाकुओं के दल के प्रधान से तात्पर्य हो सकता है।

^१ तैत्तिरीय संहिता ४ ५, ४, १; काठक संहिता, १७ १३; मंत्रायणी संहिता २

९, ४, वाजसनेयि संहिता १६ २५।
^२ आस्टिन्टिशे लेवेन, १७९।

व्रात्य को यजुर्वेद^१ में पुरुषमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में सम्मिलित किया गया है, जहाँ, फिर भी, इस नाम की कोई व्याख्या नहीं मिलती। इसके सम्बन्ध में अपेक्षाकृत पूर्ण विवरण अथर्ववेद,^२ पञ्चविंश ब्राह्मण^३, और सूत्रों^४ में मिलता है, जो व्रात्यों के व्यवहार के लिये एक सस्कार-विशेष का विस्तार से वर्णन करते हैं। पञ्चविंश ब्राह्मण के अनुसार 'जाति-वहिष्कृतों' के चार प्रकार हैं—यथा (१) 'हीन', जिनका केवल निम्न अथवा 'दलित' के रूप में वर्णन है, (२) जो किसी पाप के कारण जाति-वहिष्कृत हो जाते हैं (निन्दित), (३) जो आरम्भिक अवस्था में ही, प्रत्यक्षतः जाति-वहिष्कृतों के बीच रहने के कारण जाति-वहिष्कृत हो जाते हैं; और (४) ऐसे बृद्ध व्यक्ति जो नपुंसक हो जाने के कारण जाति-वहिष्कृतों के साथ रहने लगते हैं (शम-नीचमेद्)। अन्तिम तीन कोटियाँ किसी भी प्रकार उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं जितनी कि प्रथम। चतुर्थ कोटि का उद्देश्य समझना कठिन

^१ वाजसनेयि संहिता ३० ८, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, ५, १।
^२ १५ १, १ और वाद।
^३ १७ १-४।
^४ कात्यायन श्रौतसूत्र १२ १; २२. ४,

लाट्यायन श्रौतसूत्र, ८ ६; आपस्तम्ब श्रौतसूत्र, २२ ५, ४-१४। देखिये हिलेब्रान्ट . रिचुअललिटरेचर, १३९, १४०।

है : राजाराम रामकृष्ण भागवत्^४ के अनुसार यह ऐमे लोग होते थे जो जाति-वहिष्कृतों के देश में स्त्रियों के साथ अनुचित सभोग करते रहने के कारण अपने शरीर को क्षीण बना लेते थे, और अपाहिजों के रूप में ही अपने देश चापस आते थे । किन्तु मूल ग्रन्थों में यह कथन नहीं मिलता ।

यह सम्भव प्रतीत होता है कि वास्तव में महत्त्वपूर्ण 'ब्रात्य' वही होते थे जिन्हें 'हीन' कोटि के अन्तर्गत रखा गया है, जब कि अन्य कोटियाँ केवल गौण ही हैं । राजाराम^५ के अनुसार प्रथम कोटि के अन्तर्गत दो वर्ग आते हैं : (क) ऐसे 'हीन' जो अनार्य होते थे; और (ग) च्युत आर्य (गर-गिर्) । फिर भी यह केवल एक अनुमान मात्र और सम्भावना से रहित है । ऐसा प्रतीत होता है कि 'ब्रात्यों' का केवल एक वर्ग था । इनका अनार्य होना सम्भाव्य नहीं, क्योंकि स्पष्ट रूप से ऐसा कहा^६ गया है कि यह अदीक्षित होते हुये भी दीक्षितों की भाषा बोलते थे : इस प्रकार यह प्रत्यक्षतः आर्य थे । इस वक्तव्य द्वारा भी इस कथन की पुष्टि होती है कि 'यह लोग उच्चारण में सरल को उच्चारण में कठिन कहते थे' : सम्भवतः इनकी भाषा का रूप कुछ प्राकृत जैसा ही था (तु० की० वाच्) । सूत्रों से इनके अर्हन्तों और यौधों को वर्णाश्रम धर्म के ब्राह्मणों और क्षत्रियों के समान बताया गया है ।

अन्य विवरण इस दृष्टिकोण के अनुकूल हैं कि यह ब्राह्मण-धर्म की सीमा के बाहर के आर्य थे । इसीलिये ऐसा कथन^७ है कि कृषि और वाणिज्य इनमें प्रचलित नहीं था (यह वनजारों जैसे जीवन का सकेत करता है), और यह ब्रह्मचर्य, अर्थात् ब्राह्मण-धर्म के अनुसार जीवन के नियमों का, पालन नहीं करते हैं । निर्दिष्ट स्स्कारों के आयोजन द्वारा ब्राह्मण-समुदाय में सम्मिलित हो जाने की इनको स्वीकृति थी, जो अनार्यों की दशा में कदाचित ही स्वाभाविक हो सकती है ।

ब्रात्यों की वेश-भूषा और जीवन के सम्बन्ध में भी कुछ विवरण मिलते हैं । इनके सिद्धान्त ब्राह्मणों के विपरीत थे : इनमें अपरिष्कार्य व्यक्तियों को पीटने की प्रथा थी ।^८ इनके गृहपति पगडी (उष्णीष) बाँधते थे, एक कोड़ा (प्रतोद) और एक प्रकार का धनुष (ज्याहोड) रखते थे, काले और श्वेत

^४ ज० ए० सी०, बम्बई शाखा, १९, १६० ।

^५ वही, ३५९ ।

^६ पञ्चविंश ब्राह्मण १७ १, ९ ।

^७ वही १७ १, २ ।

^८ वही १७ १, १४ ।

(कृष्ण-वल्लभ) रंग के दो चर्मों (अजिन) का, अथवा काले रंग (कृष्ण) का ही परिधान धारण करने थे, और इनके पास पटरों में टँकी (फलकामूर्ति) एक गाड़ी (विपथ) होती थी । नेता के अधीनस्थ अन्य व्यक्ति^{१०} लाल किनारे वाले परिधान (वल्लभान्तानि दामनूपाणि) धारण करते थे, जिनमें से प्रत्येक वस्त्र पर दो-दो किनारे लगे होते थे । इनके पास दोहरे मुँड़े हुए चर्म (द्विपंहितान्य् अजिनानि) तथा चप्पलें (उपानह्) भी होते थे । नेता चाँदी का एक आभूषण (निष्क) धारण करता था, जिसे राजाराम^{११} चाँदी के सिक्के में परिणत कर देते हैं । दीक्षित होने पर व्रात्यों को अपनी समस्त सामग्री पुरोहित को दे देनी पड़ती थी । सूत्रों में अनेक अन्य विवरण मिलते हैं (जैसे, इनके जूते या चप्पले नुकीले और धिर्भ्रंश प्रकार के काले रंगों के होते थे), किन्तु यह विवरण पञ्चविंश ब्राह्मण द्वारा प्रमाणित नहीं होते ।

व्रात्यों के निवास-क्षेत्र को निश्चित रूप से व्यक्त नहीं दिया जा सकता, किन्तु इनका खानाबदोश जीवन^{१२} कुछ ऐसा संकेत करता है कि यह तस्म्यती के उस पार स्थित पश्चिमी जाति के लोग थे । किन्तु इनका पूर्व में स्थित होना भी उतना ही सम्भव है : यह सम्भावना हम तथ्य द्वारा पुष्ट होती है कि सूत्रों में एक ब्राह्मण द्वारा मगध के निवासी व्रात्य के व्यक्तिगत उपकरणों का दान ग्रहण करने का सन्दर्भ है । अथर्ववेद^{१३} के विवरणों से कोई सहायता नहीं मिलती क्योंकि यहाँ व्रात्य का इतने रहस्यवादी ढङ्ग से वर्णन है कि इसे सभी दिशाओं में रहनेवाले के रूप में प्रस्तुत किया गया है । वास्तव में रौथ^{१४} के विश्वास के अनुसार यहाँ पञ्चविंश ब्राह्मण के व्रात्य का नहीं वरन् एक अमणशील परिव्राजक अथवा पवित्र बनजारे के रूप में 'व्रात्य' की प्रशस्ति है । यह दृष्टिकोण स्पष्टतः त्रुटि-पूर्ण है, जैसा कि 'उष्णीस', 'विपथ', और 'प्रतोद' आदि शब्दों के व्यवहार से व्यक्त होता है । यह सम्भव

^{१०} वही, १७ १, २५ । इस स्थल का ठीक-ठीक आशय अस्पष्ट है, और जैसा कि लाट्यायन द्वारा व्यक्त होता है, इसके समय तथा उसके पूर्व भी अस्पष्ट ही था, इसके सभी अनुवाद भी अस्पष्ट ही हैं । तु० की० वेवर . इन्डिये स्टूडियन, १, ३२ और वाद, इन्डियन लिटरेचर ६७, ६८, हॉप-किन्स : द्रा० सा० १५, ३१, ३२,

रानाराम, उ० स्था० ।

^{११} उ० पु० ३६१ ।

^{१२} जो इनके नाम से व्यक्त होता है ('व्रात' अथवा इधर-उधर भटकने-वाला) ।

^{१३} देखिये गिह्टने : अथर्ववेद का अनुवाद ७७० और वाद, लैनमैन की टिप्पणी सहित ।

^{१४} सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० ।

है कि अथर्ववेद के पन्द्रहवें काण्ड में, जिसकी प्रकृति कुछ रहस्यात्मक है और जो ब्राह्म्य से सम्बद्ध है, एक पूर्ण ब्रह्मचारिन् के उदाहरण-स्वरूप परिदत्तित ब्राह्म्य की, और इसी दृष्टि से उसकी एक देवता के रूप में प्रशस्ति हो।^{१५}

^{१५} ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद, ९४ ।
तु० की० वेवर . इन्डिशे
स्टूडियन, १, ३३, ५२, ४४५, नोट,
इन्डियन लिटरेचर, ६७, ७८, ११०-
११२, १४१, १४६, ऑफरेख्त

इन्डिशे स्टूडियन, १, १३० और वाद;
लुडविग . ऋग्वेद का अनुवाद, ३
xxvi और वाद, तिसमर : आल्टिन्डिशे
लेबेन, २१६ ।

त्रीहि, (चावल) का ऋग्वेद^१ में तो कहीं भी नहीं किन्तु अथर्ववेद^२ और वाद^३ में अक्सर उल्लेख मिलता है। चावल सम्भवतः भारत के दक्षिण-पूर्व की सामग्री प्रतीत होता है :^४ यह तथ्य ऋग्वेद में इसके उल्लेख के अभाव का भलीभाँति समाधान कर देता है। काले और श्वेत चावल का तैत्तिरीय संहिता^५ में विभेद किया गया है, जहाँ ही^६ काले, शीघ्रता से बढ़नेवाले (आशु), और बड़े चावल (महा-त्रीहि) के विभेद भी मिलते हैं। शीघ्रता-पूर्वक बढ़नेवाला प्रकार सम्भवतः वही है जिसे वाद में 'पष्टिक' (साठ दिनों में पकनेवाला) कहते थे। मूल ग्रन्थों^७ में त्रीहि और यव सामान्यतया संयुक्त रूप से आते हैं। तु० की० प्लाशुक ।

^१ ऋग्वेद ५ ५३, १३, में 'धान्य बीज' को 'चावल का बीज' मानना अनावश्यक और अत्यन्त असम्भाव्य है, और न अथर्ववेद २ २६, ५, में 'धान्य रस' को 'चावल का पेय' मानना ही किसी प्रकार तर्कसंगत है।

^२ ६ १४०, २, ८ ७, २०, ९ ६, १४ इत्यादि ।

^३ तैत्तिरीय संहिता ७ २, १०, ३, जहाँ इसे शरदकाल में पकने वाला बताया गया है, काठक संहिता १० ६, ११ ५, मैत्रायणी संहिता ३ १०, २, ४ ३, २, वाजसनेयि संहिता १८ १२, पेत्रेय ब्राह्मण २ ८, ७, ११, २,

८ १६, ३ ४, अतपथ ब्राह्मण ५. ५, ५, ९, बृहदारण्यक उपनिषद् ६ ३, २२ (माध्यदिन = ६ ३, १३ काण्व), छान्दोग्य उपनिषद् ३ १४ ३ ।

^४ २ ३, १, ३ । तु० की० तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ७, ३, ४, काठक संहिता १२ ४ ५ ६, इत्यादि ।

^५ १ ८, १०, १ ।

^६ अथर्ववेद ११ ४, १३, जमिनीय ब्राह्मण १ ४३, छान्दोग्य उपनिषद् ५ १०, ६, इत्यादि ।

तु० की० तिसमर : आल्टिन्डिशे लेबेन, २३९ ।

क्लैक—देखिये क्लैक ।

२५ वै० इ० द्वि०

श

शयु, बृहस्पति के पुरु पौराणिक पुत्र का नाम है। यजुर्वेद^१ की संहिताओं
आदि, में यह पुरु गुरु के रूप में उद्धृत है।

^१ तैत्तिरीय संहिता २ ६, १०, १, ५, २, ६, ८, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ३, ८, ११, शतपथ ब्राह्मण १ ९, १, २४,		तैत्तिरीय आरण्यक १ ५, २। तु० की० लेवी : ल टॉविट्टन टु सैकी- फाईस, ११३।
--	--	--

शकट,^१ शकटी,^२ प्राचीन साहित्य में 'गाड़ी' के लिये दुर्लभ शब्द हैं।
ऋग्वेद^३ में गाड़ी की चरमराहट को रात में वनों में सुनाई पड़नेवाली ध्वनि
के समान बताया गया है।

^१ निरुक्त ६ २०, ११. ४७, छान्दोग्य उपनिषद् ४ १, ८।		^२ ऋग्वेद १०. १४६, ३; पञ्चविंश ब्राह्मण ४ ७।
---	--	---

शक-धूम, अथर्ववेद^३ के एक सूक्त में मिलता है, जहाँ हमकी नक्षत्रपुञ्ज
के राजा के रूप में प्रख्याति है। इस शब्द में 'जलते हुये गोधर के ढपलों से
उठता हुआ धुआँ' अथवा 'ताजे गोधर से उठना हुआ धुआँ' अर्थ प्रतीत होता
है : जैसा कि वेवर^४ का विचार है, हमें ऋतु का घोटक माना गया हो सकता
है। फिर भी, ब्लूमफील्ड^५ के विचार से इस शब्द का 'ऋतु भविष्यद्दत्ता'
अनुवाद करना चाहिये जिनसे ऐसे व्यक्ति का तात्पर्य है जो अग्नि के धूँये के
आधार पर ऋतु की भविष्यवाणी करता है। ह्विट्ने^६ तर्कपूर्वक इस दृष्टिकोण
का विरोध करते हैं। जैसा कि रौथ^७ का विश्वास था, हममें किसी नक्षत्रपुञ्ज,
सम्भवतः 'आकाश गङ्गा', का तात्पर्य होना असम्भाव्य नहीं।

^१ ६ १२८, १ ३ ४, और नक्षत्र कल्प में।		सूक्त, ५३२, ५३३।
^२ ओमिना उन्ट पोर्टेन्टा, ३६३, इन्डिओ स्टूडियन, ५, २५७, १०, ६५, नक्षत्र, २, २७२, नोट, २९३।		^४ अथर्ववेद का अनुवाद, ३७७, ३७८।
^३ अ० फा०, ७, ४८४ और वाद; ज० अ० ओ० सो०, १३, cxxxiii, अथर्ववेद के		^५ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०। तु० की० तिसर - आस्टिन्डिशे लेवेन, ३५३; कैलैन्ड . आस्टिन्डिशे त्सावर- रिचुअल, १७५, नोट ३।

शकन्—देखिये शकत् ।

शक-पूत (गोधर द्वारा पवित्र) ऋग्वेद के एक सूक्त (१०. १३२, ५)
में प्रत्यक्षतः किली राजा का नाम है।

शकं-भर, अथर्ववेद^१ के एक स्थल पर मिलता है, जहाँ इसका आशय सन्दिग्ध है। लुडविग^२ और ग्रिल^३ ने इसमें किसी जाति का नाम और ब्लूम-फील्ड^४ ने अतिमार का मूर्त्तिकरण देखा है, जब कि ह्विटने^५ के विचार से इससे उन महावृषों का तात्पर्य है जो अपने देश में लकड़ी के अभाव में इंधन के लिये गोबर एकत्र करने के कारण घृणित माने गये हैं।

^१ ५ २२, ४।

^२ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, ५१०।

^३ हुन्डर्ट लीडर, २, १५४।

^४ अथर्ववेद के मूक्त, ४४५, ४४६।

^५ अथर्ववेद का अनुवाद, २५९।

तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडि-

यन १८, २५३।

शका, यजुर्वेद सहिताओं^१ में अश्वमेध के बलि-प्राणियों में से एक का नाम है। यह अनिश्चित है कि इससे किसी प्रकार के पक्षी^२, अथवा मक्खी^३, अथवा लम्बे कान वाले पशु^४, किसका तात्पर्य है।

^१ तैत्तिरीय सहिता ५ ५, १२, १, १८, १, मैत्रायणी सहिता ३ १४, १३, वाजसनेयि सहिता २४ ३२।

^२ वाजसनेयि सहिता, ३० स्था० पर महीधर।

^३ तैत्तिरीय सहिता ५ ५, १२, १, पर सायण, १८, १।

^४ तैत्तिरीय सहिता ५ ५, १२, १ पर सायण। तु० की० तिसमर आस्ट्रिन्डिशे लेवेन, ९९।

शकुन (पक्षी) का ऋग्वेद^१ और वाद^२ में अक्सर उल्लेख है। यह सामान्यतया एक विशाल पक्षी^३ अथवा शकुन-सूचक^४ पक्षी का द्योतक है। तिसमर^५ इगकी उस 'कुक्कोस' (KUKKOS) के साथ तुलना करते हैं, जो स्वयं भी एक शकुन-सूचक पक्षी है।

^१ ४ २६, ६, ९ ८५, ११, ८६, १३, १०७, २०, ११२, २, १० ६८, ७, १०६, ३, १२३, ६, १६५, २।

^२ अथर्ववेद १२ १, ५१, ३, १३, २० १२७, ४, तैत्तिरीय सहिता ३ २, ६, २, वाजसनेयि सहिता १८ ५३,

इत्यादि।

^३ तु० की० अथर्ववेद, ११. २, २४, वयस् की तुलना में, निरुक्त ३ १८।

^४ तु० की० कौपीतिकि ब्राह्मण ७ ४; मैत्रायणी उपनिषद् ६ ३४, इत्यादि।

^५ आस्ट्रिन्डिशे लेवेन, ४३०।

शकुनि (पक्षी) का, शकुन की ही भाँति, किन्तु शकुन-सूचक भद्रियवाणी के अधिक स्पष्ट आशय में प्रयोग हुआ है। यह श्येन अथवा सुपर्णा^१ से छोटा,

^१ ऋग्वेद २. ४२, २।

और शकुन^२ तथा अपशकुन^३ की भविष्यवाणी करता था। जहाँ इसका अश्वसेध के बलि-प्राणियों की तालिका में उल्लेख^४ है वहाँ इससे एक विशेष प्रकार के पक्षी की जाति का तात्पर्य होना चाहिये। बाद में वाज्र पक्षी को इस नाम से पुकारा गया है, किन्तु 'काग' से तात्पर्य हो सकता है; तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकार के विचार से यह 'काग' ही है। इसका अन्यत्र^५ भी अनेक वार उल्लेख है।

^२ ऋग्वेद ७ ४०, २; ४३, ३।

^३ अथर्ववेद १० ३, ६।

^४ तैत्तिरीय संहिता ५ ५, १९, १, वाज-
सनेयि महिना २४ ४०, मैत्रायणी
संहिता ३ १४, २१।

^५ अथर्ववेद २ २५, २, ७ ६४, १, ११
९, ९; काठक संहिता २५ ७, ऐनरेय

ब्राह्मण २. १५, १०, ४. ७, ३;
शनपथ ब्राह्मण १६. १, २, ३१;
छान्दोग्य उपनिषद् ६ ८, २,
इत्यादि।

तु० की० तिसर : आल्टिन्टिसे
लेबेन, ८८, ४३०।

शकुनि-मित्र, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ४१, १) में विपश्चित् पाराशय के नामों में से एक है।

शकुन्त, अथर्ववेद (११. ६, ८) में 'पक्षी' का एक नाम है।

शकुन्तक,^१ शकुन्तिका^२, ऐसे अल्पार्थक शब्द हैं जिनका संहिता में 'छोटा पक्षी' अर्थ है।

^१ ऋग्वेद ७ ४३, के वाद खिल, वाजसनेयि संहिता २३ २३।

^२ ऋग्वेद १ १९१, १, वाजसनेयि संहिता २३ २०।

शकुन्तला, शतपथ ब्राह्मण^३ के अनुसार एक अप्सरा का नाम है, जिसने नाडपितृ के तट पर भरत को जन्म दिया था। वेबर^४ सन्दिग्ध रूप से 'नाडपितृ' को शकुन्तला की एक उपाधि के रूप में 'नाडपिती' पढ़ते हैं।

^१ १३ ५, ४, १३।

| ^२ १० रि० ६।

शकुन्ति, ऋग्वेद (२. ४०, ३, ४३, १) में मिलता है और शकुन-सूचक 'पक्षी' का द्योतक है।

शकुल, बाद की संहिताओं^५ में एक अज्ञात प्रकार की मछली का द्योतक है।

^५ अथर्ववेद २०. १३६, १, वाजसनेयि संहिता २३ २८। तु० की० तिसर : आल्टिन्टिसे लेबेन, ९७।

शकृत्,^१ शकन्,^२ ऋग्वेद और वाद में पशुओं के 'गोवर' का द्योतक है। यह स्पष्ट है कि खाद के महत्त्व को बहुत पहले ही स्वीकार किया जा चुका था (देखिये करीप)। ऋतु की भविष्यवाणी करने के लिये उपलों के धूँये अथवा गोवर के धूँये के प्रयोग के लिए देखिये शकघूम ।

^१ केवल प्रथमा और द्वितीया में प्रयुक्त
ऋग्वेद १ १६१, १०, अथर्ववेद
१० ४, ९, तैत्तिरीय संहिता ७ १,
१९, ३, इत्यादि :

अथर्ववेद १२ ४, ४, तैत्तिरीय संहिता
५ ७, २३, १, वाजसनेयि संहिता
३७ ९ ।

तु० की० तिसर आल्टिन्डिगे
लेबेन, २३६ ।

^२ असरल दशाओं में 'शकन्' आधार है,

१. शक्ति को जैमिनीय ब्राह्मण^१ में वसिष्ठ का वह पुत्र बताया गया है जिसे विश्वामित्रों ने आग में फेंक दिया था। पद्गुरुशिष्य^२ के अनुसार, जो शाठ्यायनक^३ का अनुसरण करते प्रतीत होते हैं, शक्ति की कथा इस प्रकार है : शक्ति द्वारा एक प्रतिद्वन्दिना में पराजित होने पर विश्वामित्र ने जमदग्नि का आश्रय लिया था। जमदग्नि ने विश्वामित्र को ससर्परी सिखाया जिसके पश्चात् विश्वामित्र ने शक्ति को वन में भस्म कराकर अपना प्रतिशोध लिया था। बृहद्देवता^४ में इस कथा का प्रथम अंश ही मिलता है। गेल्डनर^५ ने ऋग्वेद^६ में शक्ति के मृत्यु-संघर्ष का वर्णन देखा है, किन्तु यह व्याख्या अत्यधिक सन्दिग्ध^७ है।

^१ २ ३९० (ज० अ० ओ० सो०, १८,
४७) ।

^२ सर्वानुक्रमणी (मैकडौनेल सस्करण) पृ०
१०७, और ऋग्वेद ७ ३२ पर ।

^३ गेल्डनर वेदिशे स्टूडियन, २, १५९,
नोट ३ ।

^४ ४ १२२ और वाद, मैकडौनेल की

टिप्पणी सहित ।

^५ उ० पु०, २, १५९ और वाद, अधिक
सन्दिग्धतापूर्वक ऋग्वेद, कमेंटर,
८९ ।

^६ ३. ५३, २२ ।

^७ औल्डेनवर्ग ऋग्वेद-नोट, १, २५४ ।

२ शक्ति आज़िरस (अज़िरस् का वशज) पञ्चविंश ब्राह्मण^१ में सामनों के एक द्रष्टा का नाम है ।

^१ १२. ५, १६ । तु० की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथोलोजी, २, १६० ।

शकवरी (स्त्री० बहु०) उन शकवरी मंत्रों का द्योतक है जिन्हें महानास्त्री

मंत्र भी कहते हैं, और जिससे शक्वर सामन का गायन होता है। ऋग्वेद^१ में यही आशय प्रतीत होता है, और वाद^२ में तो यह निश्चित है।

^१ ७ ३३, ४, १० ७१, १४, निरुक्त
१ ८।

^२ अथर्ववेद १३ १, ५, तैत्तिरीय संहिता
२ २, ८, ५, ६, २, ३, ३ ४, ४, १,
५ ४, १०, २, काठक संहिता २६
४, पञ्चविंश ब्राह्मण १० ६, ५, १२

१३, १२; तैत्तिरीय ब्राह्मण २ १,
५, ११, शतपथ ब्राह्मण ३ ३, १, १;
९. २, १७, इत्यादि।

तु० की० की० : ऐतरेय
आरण्यक, २५८ और वाद।

शङ्खु, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'लकड़ी की खूँटी' का द्योतक है। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण^३ में यह उन खूँटियों के लिए प्रयुक्त हुआ है जिनसे किसी चमड़े को ताना जाता था। पड्वीश^४ को बाँधने के लिये प्रयुक्त खूँटियाँ भी इसी नाम से पुकारी गई हैं। छान्दोग्य उपनिषद्^५ में इससे 'काण्ड'^६ अथवा 'पत्तियों के तन्तुओं'^७ का अर्थ हो सकता है।

^१ १. १६४, ४८।

^२ शतपथ ब्राह्मण ३ ५, १, १, २, २, ६,
१, ३, १३. ८, ४, १, ऐतरेय ब्राह्मण
३ १८, ६, इत्यादि।

^३ २ १, १, १०।

^४ बृहदारण्यक ६ २, १३ (माष्यन्दिन =
६. १, १३ काण्व), इत्यादि।

^५ २ २३, ४।

^६ मैक्समूलर से० तु० ई० १, ३५।

^७ लिटिल. ग्रामेटिकल इन्डैक्स, १४९।
किन्तु तु० की० ऑर्टेल ज० अ०
ओ० सो०, १६, २०८ जो जैमिनीय
ब्राह्मण २. १० में 'शूची' की तुलना
करते हैं, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण
१ १०, ३।

१. शङ्खु, अथर्ववेद^१ में कृशुन उपाधि के साथ कवच के रूप में प्रयुक्त मोती के शङ्खु का द्योतक है। वाद के साहित्य^२ में यह फूँक कर बजाये जाने वाले 'शङ्खु' का द्योतक है।

^१ ४ १०, १। देखिये विहटने अथर्ववेद
का अनुवाद, १६१ में लैनमैन।

^२ बृहदारण्यक उपनिषद् २ ४, ९, ५.
५, १०।

२. शङ्खु कौष्य का उस गुरु के रूप में उल्लेख जिसकी काठक संहिता (२२. ७, तु० की० ६) में जात शाकायन्य ने आलोचना की थी।

३. शङ्खु वाभ्रव्य (वभ्रु का वंशज) जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ४१, १; ४. १७, १) में राम के शिष्य, एक गुरु का नाम है।

शङ्ख-धम (शङ्ख बजानेवाला) को यजुर्वेद^१ में पुरुषमेध के वलि-प्राणियों के अन्तर्गत रक्खा गया है । इसका वृद्धहारण्यक उपनिषद्^२ में भी उल्लेख है ।

^१ वाजसनेयि संहिता ३०. १९, तैत्तिरीय | ^२ २ ४, ९, ४ ५, १० ।
ब्राह्मण ३. ४, १३, १ ।

शङ्ख शाठ्यायनि ('शाठ्यायन' का वंशज) आत्रेय (अत्रि का वंशज) जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ४०, १) में नगरिन् के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

शचीवन्त्, प्रत्यक्षतः ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर, जहाँ सम्बोधक 'शचीवः' आता है, किसी व्यक्ति का नाम है । किन्तु रौथ^२ इसके स्थान पर 'शची च' पढ़ना अधिक उपयुक्त समझते हैं ।

^१ १० ७४, ५ । | ^३ १०८, त्रिपिथ . ऋग्वेद के सूक्त,
^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० । तु० | ^२ ४८९, नोट ।
की० लुटविग : ऋग्वेद का अनुवाद,

शरा, एक प्रकार के 'सन्' (Cannabis sativa अथवा Crotonia juncea) का द्योतक है । अथर्ववेद^१ में इसे वन में उगनेवाला और जङ्गल की ही भाँति विष्कन्ध के विरुद्ध प्रयुक्त ओषधि बताया गया है । यह शतपथ ब्राह्मण^२ में भी आता है ।

^१ ० ४, ५ । | तु० की० तिसमर : आस्टिन्डिसे
^२ ३. ०, १, ११, ६. ६, १, २४, २, १५ । | लेवेन, ६८ ।

शण्ड को यजुर्वेद संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में असुरों के पुरोहित के रूप में मर्क के साथ सम्मिलित किया गया है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ६ ४ १०, १, मैत्रायणी | ^२ शतपथ ब्राह्मण ४ २, १, ४, तैत्तिरीय
संहिता ४ ६, ३, वाजसनेयि संहिता | ब्राह्मण १ १, १, ५ । तु० की० हिले-
७ १२ १३ (१६. १७, में मर्क) । | ब्रान्ट . वेदिशे माइयोलोजी, १, ००३ ।

शण्डिक, बह्वुवचन में ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर मिलता है । लुटविग^२ के अनुसार यह सूक्त शण्डिकों और उनके राजा पर विजय की स्तुति है ।

^१ ३ ३०, ८ । | ^२ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५३ ।

शत-द्युम्न, उस व्यक्ति का नाम है जिसे यज्ञेषु के साथ-साथ, तैत्तिरीय ब्राह्मण (१ ५, २, १) के अनुसार, मात्स्य ने यज्ञ करने के ठीक-ठीक ऋण के अपने ज्ञान द्वारा सम्पन्न बनाया था ।

शत-पति, मैत्रायणी संहिता^१ के एक मन्त्र और तैत्तिरीय ब्राह्मण^२ में इन्द्र की एक उपाधि के रूप में आता है। इन्द्र को मनुष्यों में 'एक सौ का अधिपति' कहा गया है। इस व्याहृति की 'शत देवों के अधिपति' के रूप में व्याख्या करना, जैसा कि तैत्तिरीय ब्राह्मण के भाष्य में किया गया है, स्पष्टतः अशुभभव है। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यहाँ एक ऐसे मानव अधिपति— शत ग्रामों का अधिपति जो कि नाड के विधानों में ज्ञान है^३—का मन्दर्भ है जो एक साथ ही राजा का नैयायिक सहायक और कर-संग्राहक दोनों ही होता था।

^१ ४ १४, १०।

^३ देखिये फॉय . टी० गे०, ७४।

^२ २ ८, ४, २।

शत-बलाक्ष मौद्गल्य (मुद्गल का वंशज) निरुक्त (१३. ६) में एक वैयाकरण का नाम है।

शत मान्—देसिये मान और कृष्णाल।

शत-यातु (शत-अभिचारीय शक्तियों वाला) ऋग्वेद^१ में एक ऋषि का नाम है। इसका पराशर के बाद और वशिष्ठ के पहले उल्लेख है। गेल्डनर^२ के विचार से यह वसिष्ठ का एक पुत्र रहा हो सकता है।

^१ ७ १८, २१।

^२ वदिसे स्टुडियन, २, १३२। तु० की०

लुडविग . ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १३९।

शत रुद्रिय,^१ शत-रुद्रीय,^२ यजुर्वेद^३ के उम अंश का नाम है जो रुद्रदेव के शत-पत्नों और उनकी अनेक उपाधियों का उल्लेख करता है।

^१ काठक संहिता २१ ६, शतपथ ब्राह्मण ९ १, १, १, २, १, १० १, ५, ३ ५।

^२ तैत्तिराय संहिता ५ ४, ३, १, ५, ९, ८, ७, ३, ३, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ११, ९, ९, इत्यादि।

^३ तैत्तिरीय संहिता ४ ५, १-११; काठक संहिता १७. ११-६६, मैत्रायणी

संहिता २ ९, १ और बाद, वाज-सनेधि संहिता १६ १ और बाद।

तु० की० तिसर : आस्टिन्डिशे लेवेन २०२; वेवर इन्डियन लिटरे-चर, १०८, १११, १५९, १६९, १७०, एगिलङ्ग . से० बु० ई० ४३, १५० और बाद।

शत-शारद, ऋग्वेद^१ और अथर्ववेद^२ में 'सौ शरद्-ऋतुओं' अथवा 'वर्षों' का घोटक है।

^१ ७. १०१, ६, १० १६१, २।

| ^२ १ ३५, १; ८. २, २; ५, २१।

शतानीक शात्राजित का ऐतरेय ब्राह्मण^१ और शतपथ ब्राह्मण^२ में एक महान राजा के रूप में उल्लेख है, जो काशि के राजा घृतराष्ट्र को पराजित करके उसके यज्ञाश्व को अपने साथ ले गया था। यह स्पष्टतः एक भरत था। अथर्ववेद^३ में भी इसका उल्लेख है।

^१ ८ २१, ५।

^२ १३ ५, ४, ९-१३।

^३ १ ३५, १ = वाजसनेयि सहिता ३४.

५०, दाक्षायणों के सन्दर्भ में।

शत्रि अग्नि-वैशि ('अग्निवेश' का वंशज), ऋग्वेद^१ में एक उदार दाता का नाम है।

^१ ५ ३४, ९। तु० की० लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५५।

शत्रु, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में शत्रु या वैरी का घोटक है।

^१ १ ३३, १३ ६१, १३, ० ०३, ११,

३०, ३ और वाद, ३ १६, ०, ४ २८,

४, इत्यादि।

^२ अथर्ववेद ४ ३, १, ६ ४, ०, १० ३,

१, इत्यादि।

शं-तनु, यास्क^१ द्वारा वर्णित एक कथा का नायक है, जो अक्सर वाद^२ में भी मिलता है। यह अपने भ्राता देवापि के स्थान पर स्वयं कुरुओं का राजा बन गया था। जब इसके पाप-कर्मों ने इसके राज्य को दीर्घ काल तक अकाल-ग्रस्त रक्खा तब यह अपने भ्राता से राजमत्ता ग्रहण करने का निवेदन करने के लिये विवश हुआ; किन्तु देवापि ने इसे अस्वीकृत करते हुये, इसके लिये एक ऐमा यज्ञ किया जिससे वर्षा हो गई। सीग^३ ने ऋग्वेद^४ में इस कथा को हूँदने का प्रयास किया है, किन्तु यहाँ केवल इतना ही कहा गया है कि देवापि आर्षिषेण ने (इसमें सन्देह नहीं कि एक पुरोहित के रूप में) शंतनु (इसमें सन्देह नहीं कि यह एक राजा है) के लिये वर्षा करायी थी। यहाँ इन दोनों के सम्बन्ध का कोई सकेत नहीं है।

^१ निरुक्त २. १०।

^२ बृहद्देवता ७ १५५ और वाद, मैकडौनेल

की टिप्पणी सहित, सीग . सा० ऋ०,

१२९ और वाद।

^३ ७० स्था०।

^४ १०. ९८।

शपथ, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'शाप' का घोटक है, किमी नैयायिक पद्धति

^१ १० ८७, १५, निरुक्त ७ ३।

^२ अथर्ववेद ३ ९, ५, ४ ९, ५; १८. ७, १९, ७, इत्यादि।

के रूप में शपथ लेने का नहीं। किन्तु इस प्रकार की शपथ का भी सम्भव होना, जैसा कि वाद में है, कम से कम ऋग्वेद^३ के उस स्थल द्वारा व्यक्त होता है जहाँ वक्ता, सम्भवतः वसिष्ठ, इस बात की शपथ लेते हैं कि यदि वह ऐन्द्रजालिक हों तो उनको मृत्यु ग्रसित कर ले और यदि नहीं तो उनके शत्रुओं की मृत्यु हो।

^३ ७ १०४, १५।

तु० की० मूहर : सस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, ३०६, ३०७।

१ शफ (खुर) 'अष्टमांश' का द्योतक है, क्योंकि गाय के खुर इसी प्रकार विभक्त होते हैं। इसी आधार पर एक चतुष्पाद पशु के एक पाद को 'चतुर्थांश' के बराबर माना गया है। यह आशय ऋग्वेद^३ जैसे प्राचीन समय तक में मिलता है और वाद^२ में भी दुर्लभ नहीं है।

^१ ८ ४७, १७।

^२ अथर्ववेद ६ ४६, ३, १९, ५७, १,
तैत्तिरीय महिता ६ १, १०, १,
शतपथ ब्राह्मण ३ ३, ३, ३, इत्यादि।

तु० की० हॉपकिन्स • ज० अ० ओ०
सो०, १६, २७८, १७, ४७, तिस्रः
आस्टिन्डिशे लेवेन, २५९।

२. शफ, ब्राह्मणों^१ में लकड़ी के एक ऐसे उपकरण का नाम (द्विवचन में प्रयुक्त) है जिसका किसी लोहे के पात्र को आग से उठाने के लिये सँदसी के रूप में प्रयोग होता था। इसे सम्भवतः इसीलिये ऐसा कहा गया है कि दो भागों में विभक्त होने के कारण खुर के साथ इसकी समानता थी।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण १ २२, १४, शतपथ
ब्राह्मण १४. २, १, १६। तु० की०

एग्लिङ्ग • से० बु० ई०, ४४, ४५८,
नोट ४, ४७६।

शफक, अथर्ववेद^१ में किसी पौधे का नाम है। आपस्तम्ब श्रौत सूत्र^२ में भी इसका उल्लेख है जहाँ यह किसी खाने के योग जलीय पौधे अथवा फल, सम्भवतः कमलगट्टे, का द्योतक है। इसकी पत्तियों का अकार खुर (शफ) की भाँति होने के कारण इसे ऐसा कहा गया प्रतीत होता है।

^१ ४. ३४, ५।

^२ ९ १४, १४।

तु० की० वेवर इन्डिशे स्टूडियन,

१८, १३८, तिस्रः • आस्टिन्डिशे
लेवेन, ७०, विट्ने • अथर्ववेद का
अनुवाद, २०७।

शफाल, बौधायन श्रौत सूत्र^१ में ऋतुपर्णा के राज्य का नाम है।

^१ २० १२। तु० की० कैलैन्ड • ऊ० वी०, २१, ३६।

शबर, एक जंगली जाति का नाम है, जिसे ऐतरेय ब्राह्मण^१ में दस्युत्रों के रूप में अन्ध्रों, पुलिन्दों, मूतिवों, और पुण्ड्रों के साथ वर्गीकृत किया गया है।

^१ ७. १८, २; शाङ्खायन श्रौतसूत्र १५. २६, ६। तु० की० मूहर : संस्कृत टेक्स्ट्स १^२, ४८३।

शमितृ, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में उस व्यक्ति का द्योतक है जो वध किये गये पशु को काटता था। कभी-कभी इससे केवल एक 'रसोईये' का ही आशय व्यक्त होता है।

^१ १ १६२, ९ और वाद, २. ३, १०; ३ ४, १०, ५ ४३, ४, इत्यादि।	१७ ५७, २१ २१, २३ ३९; ऐतरेय ब्राह्मण २ ६, २, ७, १०-१२, ७ १, २, पञ्चविंश ब्राह्मण २५ १८, ४, इत्यादि।
^२ अथर्ववेद १० ९, ७ ('शतौदन' पकाने वाला), वाजसनेयि सहिता	

शमी, अथर्ववेद^३ और वाद^२ में एक वृक्ष का नाम है। अथर्ववेद^३ में इसका केशों के लिये विनाशकारी होने,^४ मादकता उत्पन्न करनेवाले, और चौड़ी पत्तियों वाले के रूप में वर्णन है। *Prosopis spicigera* अथवा *Mimosa sumb* नामक उन दो वृक्षों में इन गुणों का सर्वथा अभाव है, जिनके साथ 'शमी' को सामान्यतया समीकृत किया गया है।^५ यज्ञाग्नि प्रज्वलित करने के लिये अरणी की दो लकड़ियों में से निचली का निर्माण शमी की नर्म लकड़ी से होता था,^६ जबकि ऊपरी लकड़ी अश्वत्थ की बनी होती थी। इस वृक्ष के फल को शमीधान्य^७ कहा गया है।

^१ अथर्ववेद ६ ११, १, ३०, ० ३।

^२ तैत्तिरीय सहिता ५ १, ९, ६, ४, ७,
४ (निचली 'अरणी' के लिये),
काठक सहिता ३६ ६, तैत्तिरीय
ब्राह्मण १ १, ३, ११ और वाद, ६,
४, ५, शतपथ ब्राह्मण २ ५, २, १२,
९ २, ३, ३७, इत्यादि।

^३ अथर्ववेद ६ ३०, २ ३।

^४ धन्वन्तरीय निषण्ड, पृ० १८८ (पूना
संस्करण) में शमी और उसके फल

को केशों का नाश करनेवाला बताया
गया है।

^५ विहट्ने. अथर्ववेद का अनुवाद, ३०२
में देखिये रौथ।

^६ अथर्ववेद ६ ११, १, शतपथ ब्राह्मण
११ ५, १, १५, तु० की० १३, ३
४, १, २२, तैत्तिरीय सहिता ५ १,
९, ६, ४, ७, ४।

^७ शतपथ ब्राह्मण १ १, १, १०। तु०
की० तिसमर. आस्टिन्डिशो लेवेन
५०, ६०।

शम्बर ऋग्वेद^१ में इन्द्र के एक शत्रु का नाम है। इसका शुष्मा, पित्रु, और वचिन् के साथ उल्लेख है, और एक स्थल पर इसे 'कुलितर'^२ का पुत्र, एक दास कहा गया है। एक अन्य स्थल^३ पर ऐसा कथन है कि यह अपने को 'देवक' मानता था। इसके नव्वे^४, निन्द्यान्वे^५, अथवा एक सौ^६ दुगों का सन्दर्भ मिलता है, और एक वार^७ क्लीव बहुवचन में यह शब्द स्वयं 'शम्बर के दुगों' का द्योतक है। इसका एक महान् शत्रु दिवोदास अतिथिग्य था जिमने इन्द्र की सहायता से इस पर अनेक वार विजय प्राप्त की थी।^८

यह कह सकना असम्भव है कि शम्बर एक वास्तविक व्यक्ति था अथवा नहीं। हिलेब्रान्ट^९ दृढ़तापूर्वक इस सिद्धान्त के पक्ष में मत व्यक्त करते हैं कि दिवोदास के शत्रु के रूप में यह एक वास्तविक प्रधान था : इसके नामोल्लेख के आँकड़ों^{१०} के आधार पर यह दिखाते हैं कि, जहाँ दिवोदास के समसामयिक सूक्तों में इसे एक वास्तविक शत्रु माना गया है, वहाँ वाट के स्थलों, जैसे सातवे मण्डल में घटना-स्थल के अर्कोसिया से भारत में स्थानान्तरित हो जाने के कारण, इसे एक दानव बना दिया गया है। इस सिद्धान्त के अनिश्चित भी, वास्तव में बहुत सम्भवतः शम्बर भारत में पर्वतों पर रहने वाला एक आदिवासी शत्रु था।^{११}

^१ १ ५१, ६, ५४, ४, ५९, ६, १००, २, १०३, ८, ११०, १४, १३०, ७, २ १०, ११, १४, ६, १९, ६, ४ २६, ३, ३०, १४, ६ १८, ८, २६, ५, ३१, ४, ४३, १, ४७, २ २१, ७ १८, २०, ९९, ५।

^२ ऋग्वेद ६ २६, ५।

^३ ऋग्वेद ७ १८, २०।

^४ ऋग्वेद १ १३०, ७।

^५ ऋग्वेद २. १९, ६।

^६ ऋग्वेद २ १४, ६।

^७ ऋग्वेद २ २४, २।

^८ ऋग्वेद १ ५१, ६, १३०, ७, २ १९, ६, ४ २६, ३, इत्यादि।

^९ वेदिशे माइथोलोजी, १, १०३, १०८, ३, २७३।

^{१०} मण्डल १, में सात वार, २, में चार वार, ४, में दो वार; ६, में छह वार; ७ में दो वार। प्रत्यक्षत. यह सन्दर्भ अन्यत्र की अपेक्षा मण्डल ६ में अधिक वास्तविकता सिद्ध करते हैं। २, के सन्दर्भ निश्चित रूप से पौराणिक हैं, और ७, के भी बहुत कुछ ऐसे ही।

^{११} ऋग्वेद १ १३०, ७, ४. ३०, १४; ६. २६, ५।

तु० की० लुडविगः ऋग्वेद का अनुवाद ३, १७७, मैकडौनेलः वैदिक माइथोलोजी, पृ० १६१, औल्डेनवर्गः त्सी० गे० ४०, २१०; गेल्डनरः ऋग्वेद ग्लॉसर, १७८।

शम्बिन्, जो कि केवल एक बार ही आता है, अथर्ववेद (९. २, ६) में 'पार उतारने वाले नाविक' का द्योतक प्रतीत होता है। इसका शब्दार्थ कदाचित् 'लठ्ठे वाला व्यक्ति' है ('शम्ब' से, जो ऋग्वेद १०. ४२, ७ में मिलने वाला एक सन्दिग्ध आशय का शब्द है) ।

शमद् अज्जिरस (अज्जिरस का वंशज), पञ्चविंश ब्राह्मण (१५. ५, ११) में सामनों के एक द्रष्टा का नाम है।^१

^१ तु० की० हिलेब्रान्ट · वेदिशे माइथोलोजी २, १६० ।

शम्या, ऋग्वेद^२ और बाद^३ में एक 'खूटी', और अधिक विशिष्टतः, 'मील के पथर' का द्योतक है।^३ जूये^४ के सन्दर्भ में यह उन कीलों का द्योतक है जो जूये में बैल के गले को ठीक स्थान पर रखने के लिये जूये के दोनों किनारों पर लगी होती थीं।^५ लम्बाई के एक नाप के रूप में भी 'शम्या' का प्रयोग होता था।^६

^१ १० ३१, १० ।

^२ अथर्ववेद ६ १३८, ४, २०, १३६, ९, तैत्तिरीय संहिता ६. २, ७, १, पञ्चविंश ब्राह्मण २५ १०, ४, शतपथ ब्राह्मण १२ ५, २, ७, इत्यादि ।

^३ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ६, १, १, शतपथ ब्राह्मण १ १, १, २२, २, १, १६ और बाद, ५ २, ३, २ इत्यादि ।

^४ ऋग्वेद ३ ३३, १३, शतपथ ब्राह्मण ३ ३, ४, २५, तैत्तिरीय संहिता १ ६, ८, ३ ।

^५ पञ्चविंश ब्राह्मण ६. ५, २० । तु० की० ११ १, ६, १५ ७, ६, ग्रियर्सन : विहार पीजेन्ट लाइफ, १९४, और पृ० ३३ का चित्र, कनिह्वम स्तूप ऑफ वरहुत, प्लेट २८, कैल्लेण्ड और हेनरी : ल' अग्निष्टोम, ४९ ।

^६ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ०, ६, २ । कात्यायन श्रौतसूत्र ५ ३, २० के भाष्य के अनुसार इसकी लम्बाई ३२ अङ्गुल थी । यह २ फीट के बराबर होगा, तु० का० फ्लोट ज० ए० सो० १९१२, २३२ ।

शयाण्डक—देखिये शयाण्डक ।

शयन, अथर्ववेद^१ और बाद^२ में 'पर्यङ्क' अथवा 'मच' का द्योतक है । तु० की० तल्प, वह्य ।

^१ ३ २५, १, ५ २९, ८ ।

^२ शतपथ ब्राह्मण ११ ५, १, २, ७, ४ ।

शयाण्डक तैत्तिरीय संहिता^१ में उस पशु के नाम का रूप है जिसे मैत्रायणी^२ और वाजसनेयि^३ संहिताओं में 'शयाण्डक' लिखा गया है । शैथ^४ के

^१ ५ ५, १४, १ ।

^२ ३ १४, १४ ।

^३ २४ ३३ ।

^४ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० ।

तु० की० तिसमर : आस्ट्रिन्डिगे लेवेन, ९५ ।

अनुसार इगमे एक प्रकार के पक्षी का तात्पर्य है, किन्तु तैत्तिरीय मंहिता का भाष्यकार इसे कृकलास के गाय समीकृत करता है ।

शयु, ऋग्वेद^१ में अश्विनों के एक आश्रित ऋ नाम है । अश्विनों ने इसकी गाय को दुग्धा बनाया था ।

^१ १ ११०, १६, ११६, २०, ११७, २०, ११८, ८, ११९, ६, ६, ६२, ७, ७ ६८, ८; १० ३९, १३, ४०, ८ ।

१. शर, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में एक प्रकार की 'नरकट' (Saccharum Saba) का द्योनक है । बाण के काण्ड के लिये इसके प्रयोग^३, और इसके शीघ्रतापूर्वक टूटने का^४, अथर्ववेद में स्पष्ट उल्लेख है । तु० की० शर्य ।

^१ १ १९१, ३ ।

^२ अथर्ववेद ४ ७, ४, तैत्तिरीय संहिता ५.

२, ६, २, ६ १, ३, ३, काठक संहिता

११ ५, २३ ४, शतपथ ब्राह्मण १

२, ४, १, ३ १, ३, १३, वृहदारण्यक

उपनिषद् ६. ४, ११, इत्यादि, निरुक्त
५. ४, इत्यादि ।

^३ अथर्ववेद १ २, १, ३, १ ।

^४ अथर्ववेद ८ ८, ४ ।

तु० की० तिसरः आस्टिन्दिशे
लेवेन, ७१ ।

२. शर आर्चत्क (ऋचत्क' का वंशज) ऋग्वेद^१ में एक ऋषि का नाम है । फिर भी, 'आर्चत्क' का पैतृक नाम होना अत्यन्त सन्दिग्ध है ।

^१ १ ११६, २०, तु० की० सम्भवत १

११०, १६, औलडेनवर्ग ऋग्वेद-

नोटेन, १, २०३ । तु० की० लुडविग .

ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५० ।

३ शर शौर-देव्य ('शूरदेव' का वंशज) ऋग्वेद^१ में उस उदार दाता का नाम है जिसने तीन गायकों को एक ही वल्लुड़ा दान में दिया था । इस दानस्तुति का व्यगात्मक होना निश्चित प्रतीत होता है ।^२

^१ ८ ७०, १३-१५ ।

^२ पित्राल वेदिशे स्टूडियन, १, ५-७,

लुडविग . ऋग्वेद का अनुवाद, ३,

१६३, ५, १७५ ।

शरद्—देखिये ऋतु ।

१. शरभ, अथर्ववेद^१ और वाद^२ में किसी जगली पशु का नाम है । वाद के संस्कृत साहित्य में यह आठ पैरोंवाला एक पौराणिक पशु है जो हिम-

^१ ९ ५, ९ । तु० की० शलभ ।

^२ तैत्तिरीय संहिता ४ २, १०, ४, वाजस-

नेयि संहिता १३ ५१, ऐतरेय ब्राह्मण

२ ८, ५, शतपथ ब्राह्मण १ २, ३, ९,

इत्यादि ।

मण्डित पर्वतो में रहता है और सिंहों तथा हाथियों का शत्रु है : भाष्यकार महीधर ने वाजसनेयि संहिता में भी यही आशय देखा है किन्तु निराधार रूप से ही । इस पशु को बकरे से मिलता-जुलता बताया गया है;^३ यह सम्भवतः एक प्रकार का मृग था ।

^३ अथर्ववेद, उ० स्था०, शतपथ ब्राह्मण, उ० स्था० । एग्लिङ्ग : से० तु० ई० १२, ५२, नोट १, परम्परागत मान्यता

को ही स्वीकार करते हैं । तु० की० रिसमर : आस्ट्रिन्डिशे लेवेन, ८९ ।

२. शरभ, ऋग्वेद^३ में एक ऋषि का नाम है ।

^३ ८. १००, ६। तु० की० लुडविग. ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६३ ।

शरव्या (वाण-प्रहार), ऋग्वेद^३ और वाह^२ में मिलनेवाली एक व्याहृति है ।

^१ ६ ७५, १६, १० ८७, १३ ।

११. १०, ६, १२ ५, २५. २९, तैत्ति-

^२ अथर्ववेद १ १९, १ ३; ५ १८, ९,

रीय संहिता ४ ५, १, १, इत्यादि ।

शराव ब्राह्मणों^३ में अन्न का एक नाम है ।

^३ 'सप्तदश-शराव' तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ३, ४, ५; ६, ८, शतपथ ब्राह्मण ५. १, ४, १२ ।

शरीर वैदिक साहित्य^३ में बहुधा ही मिलनेवाला शब्द है । ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर की आन्तरिक रचना की समस्या की ओर वैदिक भारतीयों का ध्यान बहुत पहले ही आकर्षित हुआ था । इसीलिये अथर्ववेद^२ के एक सूक्त में शरीर के अनेक अंगों की गणना कराई गई है जिसमें शुद्धता और व्यवस्था दोनों ही मिलती है^३ । इस स्थल पर एड़ियाँ (पाणियाँ), मांस, टखने की हड्डियाँ (गुरुफौ), उँगलियाँ (अङ्गुलीः), छिद्र (ख), दो उच्छ्रलक, प्रतिष्ठा (पैर और टखनों के मध्य का भाग), दो घुटने की टोपियाँ (अष्टी-वन्तौ), दो जाँघे (जङ्घे), दो घुटने के जोड़ (जानुनोः सन्धी), का उल्लेख है । इनके बाद दोनों घुटनों के ऊपर चौकोर (चतुष्टय) सरलता से सुड़नेवाला (शिथिर) धड (कवन्ध) आता है । दोनों 'श्रोणी' और दो

^३ ऋग्वेद १. ३२, १०, १० १६, १,

रीय ब्राह्मण १ २, १, ८ ।

इत्यादि; अथर्ववेद ५ ९, ७, १८ ३,

^२ १०. २ ।

९, इत्यादि, वाजसनेयि संहिता ३४ ५५, तैत्तिरीय संहिता १ ७, २, १,

^३ तु० की० हार्नले ज० ए० सो० १९०७, १०-१२, ऑस्ट्रॉलोजी, १०९-१११, २४२ ।

येतरेय ब्राह्मण २ ६, १३, १४, २,

शतपथ ब्राह्मण १० १, ४, १; तैत्ति-

जाँघों (ऊरु) पर 'कुसिन्ध' टिका हुआ है। इनके बाट वक्षस्थल की अस्थियाँ (उरस्), ग्रीवायें, वक्ष के दोनों भाग (स्तनी), दो 'कफोड' स्कन्ध, रीढ़ की हड्डियाँ (पृष्ठीः), हँसलियाँ (अंसौ), बाहें (बाहू), शीर्ष-भाग के नात छिद्र (सप्त खानि शीर्षणि), कान (कर्णौ), नासिका रन्ध्र (नासिके), आँखें (चक्षणी), मुख, जबड़े (हनु), जिह्वा, मस्तिष्क, ललाट, मुख की हड्डियाँ (कर्नाटिका), कपाल, जबड़ों का ढाँचा (चित्या हन्वो), आते हैं।

यह पद्धति बाद के उम्र चरक और सुश्रुत^४ पद्धतियों के साथ अत्यन्त समानता व्यक्त करती है और हार्नले द्वारा अनेक जन्तों को दिये गये आशय को निश्चित बना देती है। 'कफोडों' का, जिसे पाण्डुलिपियों^५ में विभिन्न प्रकार से पढ़ा गया है, हिट्टने ने 'हँसली की हड्डी', किन्तु सेन्ट पीटर्मवर्ग कोश ने 'कुहनी' अनुवाद किया है। बहुवचन में स्कन्ध नियमित^६ रूप में 'गले की हड्डियों' अथवा अधिक ठीक-ठीक आशय में गले के उम्र भाग को व्यक्त करता है जिसे बहुवचन में 'उष्णिहा'^७ द्वारा भी व्यक्त किया गया है। 'पृष्ठी'^८ उन 'पसलियों' का द्योतक नहीं है जिन्हें 'पर्शु'^९ द्वारा व्यक्त किया गया है, वरन् मेरुदण्ड का निर्माण करनेवाली कशेरुकाओं और इमी आधार पर सम्पूर्ण मेरुदण्ड का द्योतक है। मेरुदण्ड के धड़-भाग में सत्रह कशेरुकाएँ होती हैं जिनमें दोनों ओर निकले अनुप्रस्थ-प्रवधों की संख्या ३४ है। कशेरुकाओं को बहुवचन में 'कीकसा' द्वारा भी व्यक्त किया गया है,^{१०} जो शब्द कभी-कभी^{११} मेरुदण्ड के ऊपरी भाग का, और कभी-कभी^{१२} मीने के

^४ ऑस्ट्रॉलोजी, ११०।

^५ हिट्टने अथर्ववेद का अनुवाद, ५६८।
अथर्ववेद १० ७, ३ (जहाँ 'स्कन्धों' की 'कृत्तिकाओं' के साथ तुलना की गयी है जो कदाचित् असलिये कि इन दोनों की संख्या सात थी, किन्तु यह निश्चित नहीं है), ९, २०, ६ १३५, १, १२ ५, ६७, टॉर्नले जर्नल, १९०६, ९१८, १९०७, १, २।

^७ अथर्ववेद ६, १३८, १, ऋग्वेद ६ १६३, २ = अथर्ववेद २ ३३, २, अथर्ववेद ९ ८, २१, १० १०, २०।

^६ ऋग्वेद १० ८७, १० = अथर्ववेद ८ ३, १०, अथर्ववेद ९ ७, ५ ६, १० ९, २०, १२ १, ३४, १८ ४, १०, शतपथ ब्राह्मण ७ ६, २, ७, देखिये हार्नले, १९०७, २ और बाद, हिट्टने : ७० पु० ५४८, एग्लिङ्ग : से० बु० ई० ४४, १६४, नोट २।

^९ अथर्ववेद ९ ७, ६ इत्यादि।

^{१०} अथर्ववेद ९ ७, ५, ८, १४।

^{११} अथर्ववेद ११ ८, १५।

^{१२} अथर्ववेद २ ३३, २, शतपथ ब्राह्मण ७ ६, २, १०।

पीछे के भाग के मेरुदण्ड को व्यक्त करता है। 'अनूक' भी मेरुदण्ड का,^{१३} अथवा अधिक विशिष्टतः 'कटि'^{१४} और वक्ष के पीछे के भाग^{१५} के मेरुदण्ड का द्योतक है। शतपथ ब्राह्मण^{१५} में यह कथन है कि मेरुदण्ड के कटि-भाग (उदर) में २० अनुप्रस्थ-प्रवर्ध होते हैं और वक्ष भाग में ३२, जिनके आधार पर मेरुदण्ड की समस्त कशेरुकाओं की संख्या २६ होती है। यही मेरुदण्ड के कशेरुकाओं की वास्तविक संख्या है, किन्तु आधुनिक विभाजन के अनुसार इनमें से सात गले में, चारह वक्ष के पृष्ठ-भाग में, पाँच कटि-भाग में होती हैं, और दो मिथ्या कशेरुकाएँ जिन्हें 'सेक्रम' और 'कोकिक्स' कहते हैं। 'करुकर'^{१६} द्वारा भी मेरुदण्ड को व्यक्त किया गया है, किन्तु यह शब्द सामान्यतया बहुवचन^{१७} में ही आता है और अनुप्रस्थ-प्रवर्धों का द्योतक है, जो आशय 'कुन्ताप'^{१८} द्वारा भी व्यक्त किया गया है।

'ग्रीवा' बहुवचन में उन ग्रैवेय-कशेरुकाओं का द्योतक है, जिनकी संख्या शतपथ ब्राह्मण^{१९} में सात बताई गई है। किन्तु सामान्यतया^{२०} इस शब्द का अर्थ केवल 'श्वास-नालिका', अथवा अधिक शुद्धरूप से, त्वचा के नीचे स्थित अंगूठियों के समान कोमल अस्थि तन्तुओं से निर्मित नालिका है। बहुवचनमें जत्रु भी कोमल-ग्रैवेय अस्थि तन्तुओं,^{२१} अथवा गले के पृष्ठ-भाग में स्थित उन कोमल अस्थियों का द्योतक है जिन्हें शतपथ ब्राह्मण^{२२} में निश्चित रूप से इसी नाम से पुकारा गया है और जिनकी संख्या आठ बताई गई है।

^{१३} अथर्ववेद ४ १४, ८। तु० की० ९ ८, २१ (धड-भाग का मेरुदण्ड)।

^{१४} अथर्ववेद २ ३३ २।

^{१५} शतपथ ब्राह्मण १२ २, ४, १२ १४। तु० की० अथर्ववेद ११ ३, ९ में 'ईषे अनूक्ये' पद, जहाँ गाढी के दो काण्डों की कशेरुका के अनुप्रस्थ-प्रवर्धों के साथ तुलना की गई है।

^{१६} अथर्ववेद ११ ९, ८, व्न्मफील्ड • अथर्ववेद के सूक्त १०४।

^{१७} शतपथ ब्राह्मण १० २, ४, १० १४।

^{१८} वही, १२ २, ४, १२।

^{१९} वही, १२ २, ४, १०।

^{२०} ऋग्वेद ६ १६३, २ = अथर्ववेद २. ३३ २; अथर्ववेद ६ २३४, १; ९ ७, ३, १० ९, २०; ११ ८, १५; हॉर्निले: जर्नल, १९०६, ९१६ और वाद।

^{२१} ऋग्वेद ७ १, १० = अथर्ववेद १४. २, १२।

^{२२} १२ २, ४, ११। तु० की० ७. ६, २, १०, हॉर्निले: जर्नल, १९०६, ९२२ और वाद।

'मंसस्', जो कि अथर्ववेद^{२३} में तीन बार आता है, नितम्ब के अग्रभाग की दो वक्राकार अस्थियों का घोटक है, स्वयं नितम्बों का नहीं जैसा कि छिहटने^{२४} ने माना है ।

शतपथ ब्राह्मण^{२५} में मानव-शरीर की अस्थियों की संख्या ३६० बताई गई है । सर और धड़ की अस्थियों की संख्या का एक अन्य स्थल^{२६} पर इस प्रकार उल्लेख है : सर के तीन भाग हैं जिनके अन्तर्गत त्वचा, अस्थि और मस्तिष्क आते हैं, गले में १५ अस्थियाँ होती हैं : १४ अनुप्रस्थ-प्रवर्ध (करुकर) और एक मध्य में स्थित शक्ति (वीर्य) की अस्थि जिसे पन्द्रहवाँ माना गया है; वक्ष-भाग में १७ अस्थियाँ हैं : १६ जत्रु और सत्तरहवीं उरस्; मेरुदण्ड के उदर-भाग में २१ : २० अनुप्रस्थ-प्रवर्ध (कुन्ताप) और इक्कीसवाँ उदर-भाग; दोनों पार्श्वों में २७ : २६ पसलियाँ (पशु) और सत्ताईसवें के रूप में दोनों पार्श्व; मेरुदण्ड के वक्ष-भाग (अनूक) में ३३ हैं : ३२ अनुप्रस्थ-प्रवर्ध और तैतीसवें के रूप में वक्ष का भाग ।

यजुर्वेद संहिताओं^{२७} में केवल अस्थि-पंजर की ही नहीं वरन् शरीर के अन्य भागों की भी अनेक गणनायें हैं । इनके अन्तर्गत लोम, त्वचा, मांस, अस्थि, मज्जन यकृत, क्लोमन् (फेफड़ा), मतस्ने (गुर्दे), पित्त, आन्त्राणि, गुदा, प्रीहा, नाभि, उदर, वनिष्ठु, योनि, प्लाशि अथवा क्षेप, मुख, शिरस्, जिह्वा, आसन्, पाशु, बाल, चक्षु, पद्मणि, उतानि (भौंहें) नासिका, व्यान, नस्यानि (नाक के भीतर के बाल), कर्ण, श्रू, शरीर अथवा धड (आत्मन्),

२३ अथर्ववेद २ ३३, ५, ९ ८, २१, जिसका अधिक पूर्ण विवरण पैम्पलाद शाखा में मिलता है (छिहटने . अथर्ववेद का अनुवाद, ७७, ५५१) । ८ ६, ५ में यह योनि का घोटक है हॉर्नले, १६-१८ ।

२४ उ० स्था० ।

२५ १० ५, ४, १२, १२. ३, २, ३ ४, हॉर्नले : ऑस्ट्रॉलोजी, २३८, २३९ और १०६-१०९ में आलोचना जो

यह व्यक्त करता है कि वैज्ञानिक पद्धति से शतपथ ब्राह्मण कितना दूर है । तु० की० कीथ : त्सी० गे० ६०, १३५ और बाद ।

२६ १२ २, ४, ९-१४, हॉर्नले : ऑस्ट्रॉलोजी, २४० ।

२७ वाजसनेयि संहिता १९ ८१-९३, मैत्रायणी संहिता ३ ११, ९, काठक संहिता ३८ ३, तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ६, ४ ।

उपस्थ, श्मश्रूणि और केश आते हैं। एक अन्य गणना^{२८} में शिरस्, मुख, केशाः, श्मश्रूणि, प्राण, चक्षुस्, श्रोत्र, जिह्वा, वाच्, मनस्, अङ्गुलीः, अङ्गानि, वाहू, हस्तौ, कर्णौ, आत्मा, उरस्, पृष्ठीः, उदर, अंसौः, ग्रीवाः, श्रोणी, ऊरू, अरली, जानूनि, नाभि, पायु, भ्रमत्, आण्डौ, पसस्, जंघा, पद्, लोमानि, त्वच्, मांस, अस्थि, मज्जन्, का उल्लेख है। नामों^{२९} की एक अन्य तालिका के अन्तर्गत वनिष्ठु, पुरीतत्, लोमानि, त्वच्, लोहित, मेदस्, मांसानि, स्नावानि, अस्थीनि, मज्जानः, रेतस्, पायु, कोश्य (हृदय के निकट का मांस) पार्श्व्य, इत्यादि आते हैं।

यजुर्वेद संहिताओं^{३०} में अश्व के अस्थि पंजर की अस्थियों का उल्लेख है।

ऐतरेय आरण्यक^{३१} में मानव शरीर को एक सौ एक अङ्गों से मिलकर बना बताया गया है; पच्चीस-पच्चीस अवयवों के शरीर के चार-भाग होते हैं और स्वयं धड़ १०१ वाँ भाग है। दो उपरी भागों में चार जोड़ों वाली^{३२} उङ्गलियाँ, दो कत्तसी (अर्थ निश्चित नहीं),^{३३} वाहु (दोस्), हँसली की हड्डी (अक्ष), और अस-फलक आते हैं। सायण के भाष्य के अनुसार, दो निम्नस्थ भागों के अन्तर्गत चार जोड़ों वाली पाँच पैरों की उँगलियाँ, जाँघ, पैर, और तीन जोड़ आते हैं।

शाङ्खायन आरण्यक^{३४} में सर की तीन अस्थियाँ,^{३५} गले के तीन जोड़ (पर्वाणि),^{३६} हँसली की हड्डियाँ (अक्ष),^{३७} उँगलियों के तीन जोड़,^{३८} और मेरुदण्ड के २१ अनुप्रस्थ-प्रवर्ध (अन्नूक)^{३९} का उल्लेख है। मैत्रायणी

^{२८} वाजसनेयि संहिता २० ५-१३, मैत्रायणी संहिता ३ ११, ८, काठक संहिता ३८ ४, तैत्तिरीय ब्राह्मण २ ६, ५।

^{२९} वाजसनेयि संहिता ३९ ८ ९ १०।

^{३०} वाजसनेयि संहिता २५ १-९, मैत्रायणी संहिता ३ १५। तु० की० ऐतरेय ब्राह्मण ७. १।

^{३१} १ २, २।

^{३२} यह तथ्य के विपरीत है। हॉर्नले ऑस्ट्रॉलोजी, १२२, १२३।

^{३३} सम्भवतः बगल (कौंख) को किसी प्रकार से दुहरा माना गया है; कीथ : ऐतरेय आरण्यक, १७५।

^{३४} २ २।

^{३५} तु० की० हॉर्नले : आस्ट्रॉलोजी, १७२ और वाद; शतपथ ब्राह्मण १२. २, ४, ९।

^{३६} ३। देखिये कीथ : शाङ्खायन आरण्यक, ९, नोट ४।

^{३७} २ ४, हॉर्नले ऑस्ट्रॉलोजी, २०२ और वाद, कीथ : उ० पु० ९, नोट ५।

^{३८} २ ५। तु० की० नोट ३०। यहाँ वाद का शाङ्खायन, ऐतरेय के अस्थिशाल में कुछ सुधार करता है।

^{३९} २ ६। देखिये कीथ : उ० पु० १०, नोट ४।

संहिता^{१०} में सर के चार-भागों (प्राण, चक्षु, श्रोत्र और वाच्) का उल्लेख है, किन्तु इस सम्बन्ध में अनेक विभेद मिलते हैं और एक गणना^{११} में तो १२ भागों तक का उल्लेख है। तैत्तिरीय उपनिषद्^{१२} की एक गणना के अन्तर्गत चर्म, मांस, स्नावन्, अस्थि और मज्जा आते हैं, जब कि ऐतरेय ब्राह्मण^{१३} में लोमानि, मांस, त्वच्, अस्थि, मज्जन्; और ऐतरेय आरण्यक^{१४} में मज्जानः, स्नावानि और अस्थीनि हैं। शरीर से सम्बद्ध अन्य शब्द इस प्रकार हैं : कङ्कूप^{१५} जो सम्भवतः कान^{१६} का एक भाग है, योनि, कक्ष,^{१७} दन्त, नख, प्रपद,^{१८} और हलीक्षण^{१९}।

^{१०} ३ २, ९।

^{११} देखिये कीथ . ऐतरेय आरण्यक १८५, १९२, १९७ में सन्दर्भ। सख्यायै भिन्न और कार्पनिक हैं, अतः इनका वैज्ञानिक महत्त्व नहीं है।

^{१२} १ ७, १।

^{१३} ६. २९, ४।

^{१४} ३ ७, १. २, शाङ्खायन आरण्यक ८ १, २।

^{१५} अथर्ववेद ९ ८, २ जहाँ पैपलाद शाखा में 'कङ्कूप' है।

^{१६} तिसरः आस्टिन्डिशे लेवेन, ३७८।

^{१७} अथर्ववेद ६ १२७, २। तु० की० 'काक्षी', मैत्रायणी संहिता ४. ५, ९।

^{१८} अथर्ववेद ७. ३३, ५ जिस पर विट्टने के अनुवाद, पृ० ७७ में लैनमैन, कीथः ऐतरेय आरण्यक, ७०४। इस आरण्यक में ७. १, ४, पैर के अँगूठे के आशय को असम्मान्य बना देता है।

^{१९} अथर्ववेद ७ ३३, ३, विट्टने ३० पु० ७६। तु० की० हॉर्नले . ज० ए० सो० १९०६, ९१६ और वाद, १९०७, १ और वाद ऑस्ट्रॉलोजी में सर्वत्र।

शरु, ऋग्वेद^१ और अथर्ववेद^२ में एक प्रचेष्ट्यास्त्र का द्योतक है। इससे निश्चित रूप से 'घाण'^३ का और सम्भवतः कभी-कभी 'भाले' या 'तोमर'^४ का आशय है।

^१ १ १००, १८; १७७, २, १८६, ९, २.

१७, १०, ४. ३, ७, २८, ३ इत्यादि।

^२ १ ७, ३, १९, २, ६ ६५, २, १२ २, ४७।

^३ उदाहरण के लिये ऋग्वेद १०. १२५ ६, और १० ८७, ६।

^४ सम्भावन ऋग्वेद ४. ३, ७, जहाँ इसके

लिये 'वृहती' व्यवहृत हुआ है, और जहाँ लाक्षणिक प्रयोग तथा 'तोमर' ही सर्वोपयुक्त आशय प्रतीत होता है।

तु० की० श्रेडर . प्रिदिस्टॉरिक ऐन्टीक्विटीज, ७७३, तिसरः आस्टिन्डिशे लेवेन, ३०१।

शर्करा (स्त्री० बहु०) वाद की संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में 'वालू के कण' और 'कंकड़' का द्योतक है ।

^१ अथर्ववेद ११. ७, २१; तैत्तिरीय संहिता
५. १, ६, २; २, ६, २, ६, ४, ४,
इत्यादि ।

^२ तैत्तिरीय ब्राह्मण १. १, ३, ७, २, १, ४;
३. १२, ६, २; शतपथ ब्राह्मण २. १,
१, ८, इत्यादि ।

शर्कराख्य—देखिये शर्कराक्ष ।

शर्कोट, अथर्ववेद^१ में एक पशु का नाम है । यह या तो एक 'सर्प' है, जैसा कि रौथ^२ तथा रिसमर^३ का विश्वास था, अथवा 'बिच्छू' जैसा कि ग्रिल,^४ हेनरी,^५ और ब्लूमफील्ड^६ मानते हैं ।

^१ ७ ५६, ५ ।

^२ सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था०, वाद के
'कर्वोटक' की तुलना करते हुये ।

^३ अलिटन्डिशे लेवेन, ९५ ।

^४ हुन्डर्ट लीडर, ^२ १८३ ।

^५ ले०, ८२ ।

^६ अथर्ववेद के सूक्त, ५५४, ५५५ ।

शर्य—देखिये व्रात ।

शर्य को ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर रौथ^२ ने सम्भवतः रथ के किसी भाग के द्योतक के रूप में ग्रहण किया है । फिर भी, इसका आशय सर्वथा अनिश्चित है ।

^१ १ ११९, ५ ।

| ^२ सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० ।

शर्य,^१ शर्या,^२ ऋग्वेद में 'बाण'^३ के द्योतक प्रतीत होते हैं । सम्भवतः 'शर्या'^४ और 'शर्य'^५ (छ्ठीव) सोम की चलनी की विनावट के भी द्योतक हैं, किन्तु इन स्थलों का ठीक-ठीक आशय संदिग्ध^६ है ।

^१ १. ११९, १०, जहाँ आशय निश्चित नहीं है ।

^२ १ १४८, ४, १३० १७८, ३ । तु० की० निरुक्त ५. ४, १०. २९ ।

^३ १. शर से निष्कृष्ट, और शब्दार्थ 'नरकट से बना', होने के रूप में ।

^४ ऋग्वेद ९. ११०, ५, १०. ६१, ३ ।

^५ ऋग्वेद ९. १४, ४, ६८, २ ।

^६ हिलेब्रान्ट : वेदिशे माहथौलोजी, १, ५२, ऋग्वेद ९. ६८, २ में 'शर्याणि' को सोम-पौधे की वाह्य छाल के अर्थ में ग्रहण करते हैं। देखिये गेल्लनर : वेदिशे स्टूडियन, २, २५५, नोट १, भी ।

शर्यणावन्त् ऋग्वेद^१ के अनेक स्थलों पर आता है, जहाँ सर्वत्र सायण

^१ १. ८४, १४; ८ ६, ३९; ७, २९; ६४, ११; ९. ६५, २२, ११३, १, १०. ३५, २ । देखिये जैमिनीय ब्राह्मण ३. ६४

(ज० अ० ओ० सो० १८, १७), ऋग्वेद १ ८४, १३, पर सायण में शाठ्यायनक ।

ने इसमें एक स्थानीय नाम का आशय देखा है। सायण के विवरण के अनुसार, 'शर्यणाः' (पु०, बहु०) कुरुक्षेत्र का एक जिला, और 'शर्यणावन्त्' एक झील है जो कुरुक्षेत्र के पिछले भाग (जघनार्ध) में इस जिले से बहुत दूर नहीं। इस विषय पर सायण की उक्तियों की असामान्य संगति इस शब्द के एक स्थान-नाम होने के अनुकूल है; इसे भी ध्यान में रखना चाहिये कि अन्यतःलक्षा नामक झील कुरुक्षेत्र में ही थी। फिर भी, रौथ^२ का विचार था कि दो स्थलों^३ पर यह शब्द केवल किसी झील का, जिसका शब्दार्थ 'नरकट (शर्यण) की झाड़ी से ढँका (जल)' है, एक और अन्य पर सोम-पात्र का द्योतक है। तिसर^४ इसी आशय के पक्ष में हैं। दूसरी ओर पिशल^५ सायण के मत को ग्रहण करते हैं। हिलेब्रान्ट^६ ने भी इस शब्द को स्थान-नाम माना है, किन्तु आप इसे 'पाँच जातियों'^७ के बीच स्थित करते हैं, जिसकी इसके कुरुक्षेत्र में होने के तथ्य के साथ असंगति नहीं है क्योंकि पूरुओं का वाद के कुरुओं के साथ सम्बन्ध^८ ज्ञात है; अथवा आप यह भी विचार व्यक्त करते हैं कि 'शर्यणावन्त्' सम्भवतः करमीर के उस बूलर सागर का ही एक प्राचीन नाम है जिसकी वैदिक काल में एक स्मृति ही थी। यह सम्भाव्य नहीं; और इससे भी कम सम्भव लुडविग की यह मान्यता^९ है कि 'शर्यणावन्त्' वाद की पूर्वी सरस्वती है। वर्गेन^{१०} ने इसे एक दिव्य सोम-निर्माता का नाम माना है।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० ।

^३ १ ८४, १४, १० ३५, २ ।

^४ आल्टिन्डिशे लेवेन, १९, २० ।

^५ वेदिशे स्टूडियन, २, २१७। इसी प्रकार मैक्स मूलर . से० दु० ई० ३२, ३९८ ३९९ ।

^६ वेदिशे माइथोलोजी, १, १२६ और वाद ।

^७ यह ऋग्वेद ९ ६५, २२ से किसी निश्चित रूप से निष्कृत नहीं होता ।

^८ हिलेब्रान्ट . उ० पु०, १, १४२, नोट ४; लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद, ३, २०५ ।

^९ उ० पु० ३, २०१ ।

^{१०} रिलीजन वेदिके, १, २०६ ।

शर्यात का ऋग्वेद^१ में एक वार अश्विनो के एक आश्रित के रूप में उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण^२ और जैमिनीय ब्राह्मण^३ में इसके सम्बन्ध में यह कथा है कि किस प्रकार शर्यातों से च्यवन रुष्ट, और शर्यात की पुत्री सुकन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करने पर प्रसन्न हो गये थे, और इसके बाद अश्विनो ने

^१ १ १२२, १७ ।

^२ ४ १, ५, २ ।

^३ ३. १२०-१२२ (ज० अ० ओ० सो० ११, cxlv) ।

च्यवन को पुनः यौवन-दान दिया था । इसे मानव ('मनु' का वंशज) कहा गया है । यह एक यज्ञकर्त्ता, शर्यात मानव, के रूप में जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण^४ में भी आता है ।

^४ ४ ७, १; ८, ३. ५ ।

तु० की० मूडर. सस्कृत टेक्स्ट्स,
५, २५० और वाद; एमिलङ्ग : से० बु०

ई० २६, २७२ और वाद, ऑट्टेल :
ज० अ० ओ० सो० १६, २३६, २३७ ।

शर्व-दत्त (शर्व-देव द्वारा प्रदत्त) गार्ग्य (गर्ग का वंशज), वंश ब्राह्मण^१ में एक गुरु का नाम है ।

^१ इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७२, ।

शल की अथर्ववेद,^१ काठक संहिता^२ और तैत्तिरीय ब्राह्मण^३ में सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश ने 'लम्बाई के एक नाप के रूप में व्याख्या की है । व्हिट्ने^४ यह आपत्ति करते हैं कि इन सभी स्थलों^५ का आशय इस अर्थ के अनुकूल नहीं है ।

^१ ८ ७, २८ ।

^२ १२ १० (इन्डिशे स्टूडियन, ३, ४६४) ।

^३ १ ५, १०, १ (जहाँ भाष्य की यही व्याख्या है) ।

^४ अथर्ववेद का अनुवाद, ५०१ ।

^५ आप काठक पर ध्यान नहीं देते । इनकी

आलोचना के विरुद्ध यह ध्यान देना चाहिये कि इन स्थलों में से प्रत्येक पर एक सख्यानाचक शब्द को 'शल' के साथ समस्त किया गया है, जैसे 'विशल', इत्यादि ।

शलभ (टिड्डी) अथर्ववेद^१ की पैप्पलाद शाखा में सरभ के लिये आता है और व्हिट्ने^२ इसे अधिक सार्थक मानते हैं ।

^१ ९ ५, ९ ।

^२ अथर्ववेद का अनुवाद, ५३४ । किन्तु इस स्थल पर बकरे का उल्लेख 'सरभ' की

प्रबल पुष्टि करता है । देखिये, शतपथ ब्राह्मण १ २, ३, ९ ।

शलली, साही के काँटे का द्योतक है जिसका वालों को पृथक् करने तथा आँखों में आँजन लगाने के लिये प्रयोग होता था ।^१

^१ काठक संहिता २३ १, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ५, ६, ६, शतपथ ब्राह्मण २. ६, ४, ५ ।

शलुन अथर्ववेद^१ में मिलता है और एक 'कीड़े' का द्योतक है । पैप्पलाद शाखा में 'शल्ल' पाठ है और सायण ने 'शल्लग' माना है ।

^१ २. ३१, २ । तु० की० व्हिट्ने : अथर्ववेद का अनुवाद, ७३; ब्लूमफील्ड : अथर्व-

वेद के सूक्त ३१५, तिस्रर : आल्टिन्डिशे लेवेन, ९८ (शलुन) ।

शल्क, वाद की संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में अग्नि इत्यादि प्रज्वलित करने के लिये प्रयुक्त लकड़ी के छोटे-छोटे टुकड़ों या छिलकों का द्योतक है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ५. २, ९, ३; ४, २, ३; काठक संहिता २०. ८, २७. ७, इत्यादि ।

^२ पेत्रेय ब्राह्मण २. १४, ४, तैत्तिरीय ब्राह्मण १. १, ९, ९, २, १, १५ ।

शल्मलि, सेमल के वृक्ष (*Salmalia Malabarica*) का द्योतक है । ऋग्वेद^१ में इसके फल को विपैला माना गया है, किन्तु घर की गाड़ी इसी लकड़ी^२ की होती थी । इसे वृक्षों में सबसे ऊँचा बताया गया है ।^३

^१ ७. ५०, ३ ।

^२ १०. ८५, २० ।

^३ तैत्तिरीय संहिता ७. ४, १२, १, वाजसनेयि संहिता २३. १३, शतपथ ब्राह्मण

१३. २, ७, ४; पञ्चविंश ब्राह्मण ९. ४, ११, इत्यादि ।

तु० की० एग्लिङ्क : से० बु० ई०, ४४, ३१७, नोट २ ।

शल्य—देखिये इधु ।

शल्यक, वाजसनेयि संहिता^१ और वाद^२ में 'साही' (एक काटेंदार जीव) का द्योतक है ।

^१ २४. ३५ ।

^२ पेत्रेय ब्राह्मण ३. २६, ३ । तु० की० तिस्रः : आस्टिन्डिशे लेवेन, ८२ ।

शवर्त, अथर्ववेद^१ और तैत्तिरीय संहिता^२ में कीड़े की एक जाति का नाम है ।

^१ ९. ४, १६, एक विभेदात्मक पाठ 'स्ववर्त' के साथ, विहट्ने . अथर्ववेद का अनुवाद, ५३१ ।

^२ ५. ७, २३, १ ।

तु० की० तिस्रः : आस्टिन्डिशे

लेवेन, ९८ । सम्भवतः रीथ यह मानते हूये ठीक प्रतीत होने हैं कि यह शब्द = 'शव-वर्त', अर्थात् 'सड़ा हुआ मांस खानेवाला' एक कीड़ा ।

शवस्, वंश ब्राह्मण^१ में अग्निभू काश्यप के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

^१ इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७३ ।

शवस, गोपथ ब्राह्मण, (१. २, ९) में केवल एक वार 'स-वशोशीनरेषु' के लिये मिथ्या पाठ 'शवस-उशीनरेषु' में आता है । देखिये वश ।

शविष्ठ, लुडविग^१ के अनुसार ऋग्वेद^२ में एक उदार दाता का नाम है ।

^१ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६३ ।

^२ ८. ७४, १४ १५ ।

शश (खरगोश) ऋग्वेद^१ में केवल एक बार मिलता है, जहाँ इसके द्वारा एक छुरा निगल लिये जाने का उल्लेख है। बाद^२ में भी इस पशु का उल्लेख है।

^१ १०. २८, २। बाद में इस विचित्र कथा में खरगोश के स्थान पर बकरा आ जाता है। देखिये वॉटलिङ्क : प्रोसीडिंग्स ऑफ सैक्सन एकेडमी, १८९४ और बाद।

^२ वाजसनेयि संहिता २३. ५६; २४. ३८;

मैत्रायणी संहिता ३. १४, १५; चन्द्रमा ही खरगोश है, शतपथ ब्राह्मण ११. १, ५, ३।

तु० की० तिसर : आल्टिन्डिशे लेबेन, ८४।

शशयु (शश का पीछा करनेवाला) अथर्ववेद^३ में कुछ पशुओं (मृग) की उपाधि है। तिसर^४ का विचार है कि इससे वाघ का आशय है, किन्तु यह सम्भाव्य नहीं। रौथ^५ की दृष्टि से किसी हिंसक पक्षी का तात्पर्य है, जब कि भाष्यकार का अनुसरण करते हुये विहट्ने^६ इसका, 'छिप कर प्रतीक्षा करनेवाला' अनुवाद करते हैं।

^३ ४. ३, ६।

^४ आल्टिन्डिशे लेबेन, ७९, ८४।

^५ विहट्ने के अथर्ववेद के अनुवाद, १४९, में।

^६ उ० स्था०।

तु० की० लूमफील्ड : अथर्ववेद

का अनुवाद, १६८।

शश्वती—देखिये आसङ्ग।

शष्य, बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों^७ में 'घास के अंकुर' का द्योतक है।

^७ वाजसनेयि संहिता १९. १३, ८१, २१. २९; ऐतरेय ब्राह्मण ८. ५, ३; ८, ४;

शतपथ ब्राह्मण १२ ७, २, ८; ९, १, २, इत्यादि।

शस्तृ, ऋग्वेद (१. १६२, ५) और अथर्ववेद (९. ३, ३) में पशु का चघ करनेवाले का द्योतक है।

शस्त्र, उद्गातृ के स्तोत्र के विपरीत, होतृ पुरोहित के 'गायन' के लिये पारिभाषिक शब्द^८ है। प्रातःकालीन सोमार्पण के समय के गायनों को 'आज्य' और 'प्रउग', मध्याह्न के समय के गायनों को 'मरुत्वतीय' और 'निष्केवल्य', तथा सायंकालीन को 'वैश्वदेव' और 'आग्निमारुत', कहते हैं।

^८ तैत्तिरीय संहिता ३. २, ७, २, इत्यादि, काठक संहिता २९ २, इत्यादि; वाजसनेयि संहिता १९. २५. २८, इत्यादि; शतपथ ब्राह्मण ४. २, ४. २०, इत्यादि।

तु० की० वेबर : इन्डिशे स्टूडियन, १०, ३५३, और कैलेण्ड तथा हेनरी : ल अग्निष्टोम में सर्वत्र, जहाँ 'शस्त्रों' का विस्तार से विवेचन है।

शाकटायन ('शकट' का वंशज) एक वैयाकरण का नाम है जिसका यास्क^१ ने उल्लेख किया है और जो प्रातिशाख्यों^२ तथा अक्सर वाद में भी मिलता है ।

^१ निरुक्त १. ३ १२ औद वाद ।

^२ ऋग्वेद प्रातिशाख्य, १. ३; १३ १६,
वाजसनेयि प्रातिशाख्य, ३ ८, इत्यादि ।

तु० की० वेवर : इन्डियन
लिटरेचर १४३, १५१, १५२, २१७ ।

शाक-दास भाडितायन ('भडित' का वंशज) का वंश ब्राह्मण^१ में विचक्षणा ताण्ड्य के शिष्य के रूप में उल्लेख मिलता है ।

^१ इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७३ ।

शाक-पूरिा ('शकपूण' का वंशज) एक वैयाकरण का नाम है, जिसका निरुक्त^१ में अक्सर उल्लेख मिलता है ।

^१ ३ ११, ८. ५. ६ १४, १०. १०, १३ १०. ११ । तु० की० वेवर : इन्डियन
लिटरेचर, ८५ ।

शाकल, ऐतरेय ब्राह्मण^१ में सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश के अनुसार शाकल्य के सिद्धान्तों का द्योतक है । इस स्थल पर इसे एक प्रकार से सर्प के आशय में ग्रहण करते हुये वौटलिङ्क^२ ठीक प्रतीत होते हैं ।

^१ ३ ४३, ५ (वेवर • इन्डिशे स्टूडियन, ९, | लिटरेचर, ३३, नोट ।
२७७) । तु० की० वेवर : इन्डियन | ^२ डिक्शनरी, व० स्था० ।

शाकल्य ('शकल' का वंशज), शतपथ ब्राह्मण^१ में विदग्ध का, और ऐतरेय^२ तथा शाङ्खायन^३ आरण्यकों में स्थविर का पैतृक नाम है । इन्हीं आरण्यकों,^४ निरुक्त^५ तथा अक्सर वाद में भी, एक अपारिभाषित 'शाकल्य' का ऋग्वेद की विवेचना करनेवाले एक आचार्य के रूप में उल्लेख है । वेवर^६ 'विदग्ध' को उस 'शाकल्य' के साथ समीकृत करना चाहते हैं जो ऋग्वेद के पद-पाठ के रचनाकार के रूप में ज्ञात है, किन्तु और्वेनवर्ग^७ के विचार से यह 'शाकल्य' ब्राह्मण काल के भी वाद में हुआ था । गोल्डनर^८ दोनों को समीकृत करते हैं, फिर भी यह दृष्टिकोण बहुत सम्भाव्य नहीं है ।^९

^१ ११ ६, ३, ३, बृहदारण्यक उपनिषद् ३

९, १, ४ १, ७, इत्यादि ।

^२ ३ २, १, ६ ।

^३ ७ १६, ८ १ ११ ।

^४ ऐतरेय ३ १, १, शाङ्खायन ७ १ ।

^५ ६ २८ ।

^६ इन्डियन लिटरेचर, ३२, ३३ ।

^७ प्रोलिगोमेना, ३८०, नोट ।

^८ वेदिशे स्टूडियन, ३, १४४-१४६ ।

^९ कीथ : ऐतरेय आरण्यक २३९, २४० ।

शाकायनिन्, बहुवचन में शतपथ ब्राह्मण (१०. ४, ५, १) में शाकायन्य के अनुगामियों का द्योतक है ।

शाकायन्य ('शाक' का वंशज) काठक संहिता^१ में जात का पैतृक नाम है ।

^१ २२. ७ (इन्दिशे स्टूडियन, ३, ४७२) । तु० की० मैत्रायणी उपनिषद् १ २, ६ २९ ।

शाकिन् (बहु०), को लुडविग^२ ऋग्वेद^३ में उदार दाताओं के समूह का द्योतक मानते हैं ।

^३ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५५, ग्रिफिथः ऋग्वेद के सूक्त, १, ५२१, नोट ।

^२ ५ ५२, १७ ।

शाक्त्य (शक्ति का वंशज), गौरिवीति^३ का पैतृक नाम है ।

^३ ऐतरेय ब्राह्मण ३. १९, ४; शतपथ ब्राह्मण		२, आपस्तम्ब श्रौतसूत्र, २३ ११. १४;
१२ ८, ३, ७; पञ्चविंश ब्राह्मण ११		२४ १०, ६ ८ ।
५, १४, १२ १३, १०; २५. ७,		

शाकर—देखिये शकरी ।

शाखा, ऋग्वेद^३ और वाद^२ में वृत्त की शाखा का द्योतक है । ऋग्वेद में इस आशय में वया का अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग मिलता है ।

^३ १ ८, ८, ७ ४३, १, १० ९४, ३ ।

^२ अथर्ववेद ३ ६, ८, १०. ७, २१, ११ २, १९, इत्यादि ।

शाङ्खायन का एक गुरु के नाम के रूप में कौपीतिक ब्राह्मण में तो उल्लेख नहीं, किन्तु यह शाङ्खायन आरण्यक^३ के अन्त के वंश में आता है जहाँ इस कृति के आचार्य के रूप में 'गुणाख्य' का उल्लेख है । श्रौत सूत्रों^२ में 'शाङ्खायन' नाम कहीं नहीं आता, किन्तु गृह्य सूत्रों^३ में सुयज्ञ शाङ्खायन को गुरु के रूप में मान्यता दी गई प्रतीत होती है । वाद के समय^४ में यह मत-सम्प्रदाय उत्तरी

^३ १५ १ । औलडेनवर्ग (से० वु० ई० ३९ ४, ५) का यह विचार कि गुणाख्य को सूत्रों का रचयिता माना गया है, अत्यन्त अनावश्यक है, कीध : ऐतरेय आरण्यक ३२८ ।

^२ हिलेब्रान्ट · शाङ्खायन श्रौतसूत्र, १, viii और वाद ।

^३ शाङ्खायन गृह्यसूत्र ४ १०, ६. १०,

इन्दिशे स्टूडियन, १५, १५४, में शाम्बव्य गृह्यसूत्र, आश्वलायन गृह्यसूत्र ३. ४, ४ । तु० की० शाङ्खायन गृह्यसूत्र, १ १, १०, पर नारायण में कारिका; शाङ्खायन श्रौतसूत्र १. २, १८, पर आनर्तीय ।

^४ बृहलर : से० वु० ई०, २, xxxi ।

गुजरात में प्रचलित था। शाठ्यायन, तैत्तिरीय प्रतिशाख्य^१ में 'काण्डमायन' के साथ आता है।

^१ १५ ७।

तु० की० वेवर : इन्डियन लिट-
रेचर ३२, ४४, ५० और वाद; ८०,

३१३, ३१४; मैकडौनेल : सस्कृत लिट-
रेचर, ४५, १९१, २०५, २४५, २४९।

शाठ्यायन ('शाठ्य' का वंशज) एक गुरु का पैतृक नाम है, जिसका दो बार शतपथ ब्राह्मण^२ में तथा अक्सर जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण^३ में उल्लेख है। इस द्वितीय ग्रन्थ^३ के एक वंश में इसे ज्वालायन का शिष्य कहा गया है, जब कि सामविधान ब्राह्मण के अन्त के वंश में यह वादरायण के शिष्य के रूप में आता है। इसके अनुगामी, शाठ्यायनियों का सूत्रों^४ और शाठ्यायनि ब्राह्मण^५ में अक्सर उल्लेख है, साथ ही इनमें शाठ्यायनक^६ का भी उल्लेख है। आर्टेल^७ ने यह दिखाया है कि यह ब्राह्मण जैमिनीय ब्राह्मण के अत्यन्त समान तथा सम्भवतः इसका ही समकालीन है।

^२ ८ १, ४, ९; १० ४, ५, २।

^३ १ ६, ७, ३०, १, ७ २, ८, ४, ३, ९,
१०; ३ १३, ६, २८, ५।

^४ ४. १६, १।

^५ लाठ्यायन श्रौतसूत्र, ४ ५, १८, अनुपद
सूत्र, १. ८, २ ९, ३ ७ ११, ४ ८,
इत्यादि; वेवर : इन्डिश स्टूडियन,
१, ४४।

^६ आपस्तम्ब श्रौतसूत्र, ५ २३, ३।

^६ वही, १० १२, १३ १४, लाठ्यायन
श्रौतसूत्र १ २, २४; आश्वलायन श्रौत-
सूत्र, १ ४, १३।

^७ ज० अ० ओ सो०, १६, ccxli, १८, ७०
और वाद।

तु० की० मैकडौनेल : सस्कृत
लिटरेचर, २०३, ऑफरेख्त : त्सी०
गे० ४२, १५१, १५२।

शाण्ड (शाण्ड का वंशज) ऋग्वेद^१ में एक व्यक्ति का नाम है जिसके उदारता की प्रशस्ति की गई है। इसे दूसरे ही मन्त्र में उल्लिखित पुरुषन्था के साथ समीकृत किया जाना सम्भव नहीं।

^१ ६ ६३, ९। तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५८।

शाण्डिल (पु०, बहु०) एक ऐसा शब्द है जो तैत्तिरीय भारण्यक (१. २२, १०) में 'शाण्डिल्य' के वंशजों के लिये व्यवहृत हुआ है।

शाण्डिली-पुत्र ('शाण्डिल' के एक स्त्री-वंशज का शिष्य) वृदारण्यक उपनिषद्^१ के अन्तिम वंश में, राथीतरीपुत्र के शिष्य, एक गुरु का नाम है।

^१ ६ ४, ३२ (माष्यदिन = ६ ५, २ काण्व)।

शाण्डिल्य ('शाण्डिल' का वंशज) अनेक गुरुओं का पैतृक नाम है (देखिये उदर और सुयज्ञ) । सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शाण्डिल्य अनेक वार शतपथ ब्राह्मण^१ में एक अधिकारी के रूप में उद्धृत है, जहाँ इसकी अग्नि अथवा 'यज्ञाग्नि' को 'शाण्डिल'^२ कहा गया है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह अग्नि से सम्बद्ध उन संस्कारों का एक प्रमुख आचार्य था जिसका शतपथ ब्राह्मण के पाँचवें तथा उसके बाद के काण्डों में उल्लेख है । दसवें काण्ड^३ के अन्त के वंश में इसे कुश्रि का शिष्य तथा वात्स्य का गुरु बताया गया है । काण्व शाखा^४ अन्तिम काण्ड के अन्त की एक तालिका में इसे 'वात्स्य' के, और वात्स्य को कुश्रि के शिष्य के रूप में व्यक्त किया गया है । बृहदारण्यक उपनिषद् के द्वितीय और चतुर्थ अध्यायों के अस्तव्यस्त तथा निरर्थक^५ वंशों में इसे विभिन्न व्यक्तियों, जैसे कौशोर्य काप्य,^६ वैष्टपुरेय,^७ कौशिक,^८ गौतम,^९ वैज्रवाप,^{१०} और आनभिस्लात,^{११} का शिष्य बताया गया है । इसमें सन्देह नहीं कि यहाँ विभिन्न शाण्डिल्यों से ही तात्पर्य हो सकता है, किन्तु यह तालिकायें इतनी अस्तव्यस्त हैं कि इन पर गम्भीरतापूर्वक विचार भी नहीं किया जा सकता ।

^१ १ ४, ४, १७, ५, २, १५, १०. १, ४,

१०, ४, १, ११; ६, ३, ५, ५, ९ ।

तु० की० छान्दोग्य उपनिषद् ३ ११, ४ ।

^२ १ १, १ ४३, ३, ३, १८; ५, १, ६१

६८, इत्यादि ।

^३ १० ६, ५, ९ ।

^४ ६ ५ ४ ।

^५ एग्लिङ्ग • से० बु० ई०, १०, xxxiv, नोट २ ।

^६ २ ५, २२, ४ ५, २८ (माध्यंदिन = २ ६, ३, ४ ६, ३ काण्व) ।

^७ २ ५, २०; ४. ५, २६ माध्यंदिन ।

^८ २ ६, १, ४ ६, १ काण्व ।

^९ २. ५, २०; ४ ५, २६ (माध्यंदिन = २. ६, १; ४ ६, १ काण्व) ।

^{१०} २. ५, २०; ४. ५, २६ माध्यंदिन ।

^{११} २ ६, २ काण्व ।

तु० की० एग्लिङ्ग : से० बु० ई०, १२, xxxi और बाद, ४३, xviii और बाद, वेवर : इन्डियन लिटरेचर, ७१, ७६ और बाद, १००, १३१, १३२; मैकडौनेल . सस्कृत लिटरेचर, २१३ ।

शाण्डिल्यायन (शाण्डिल्य का वंशज) शतपथ ब्राह्मण^१ में एक गुरु का पैतृक नाम है । प्रत्यक्षतः चेलक के साथ इसकी समानता है, और इसी ग्रन्थ^२ में इम वात का उल्लेख भी है । अतः यह मानना तर्क संगत है कि

^१ १ ५, १, ६४ ।

^२ १० ४, ५, ३ । 'शाण्डिल्य' की ही भाँति 'शाण्डिल्यायन' नाम भी सूत्रों में

सामान्यरूप से मिलता है । देखिये वेवर : इन्डिगे स्टूडियन, १, ४५ और बाद ।

चैलकि जीवल^३ इसका पुत्र था । यह अपेक्षाकृत अधिक मंदिग्ध है कि यह उस प्रवाहरण जैवल का पितामह था या नहीं, जो एक ब्राह्मण की अपेक्षा राजा था ।^४

^३ शतपथ ब्राह्मण २. ३, १, ३४ ।

^४ वेवर : ३० पु० १, २५९ ।

तु० की० वेबर . इण्डियन लिट-

रेचर, ५३, ७६, १२० ।

शात-पर्ण्य ('शतपर्ण' का वंशज) शतपथ ब्राह्मण (१०. ३, ३, १) में धीर का पैतृक नाम है ।

शाद, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'घास' का द्योतक है ।

^१ ९. १५, ६ ।

| ^२ वाजसनेयि संहिता २५. १, इत्यादि ।

शाप, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में नदी में बहकर आये हुये 'पदार्थ' का द्योतक है, जिसकी सम्भवतः जलों के 'अभिशाप' के रूप में कल्पना की गई है ।^३

^१ ७. १८, ५, १०. २८, ४ ।

^२ अथर्ववेद ३. २४, ३, शाङ्खायन आरण्यक १२. ११ ।

| ^३ तु० की० गेल्डनर ऋग्वेद, ग्लॉसर

१७८, वेदिशेस्टूडियन, ३, १८४, १८५ ।

शामुल्य, ऋग्वेद^१ के विवाह-सूक्त में रात्रि के समय पहने जानेवाले एक 'ऊनी परिधान' का द्योतक है ।

^१ १०. ८५, २९ । तु० की० रिसमर : आर्चिन्डिशे लेवेन, २६२ ।

शामूल का भी जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण^१ में बहुत कुछ शामुल्य (ऊनी वस्त्र) जैसा ही सामान्य आशय है । रौध^२ इसे 'शमील' (समी की लकड़ी के टुकड़े) के रूप में संशोधित करते हैं ।

^१ १. ३८, ४ । तु० की० ऑर्टेल . ज० अ० ओ० सो०, १६, ११६, २३३, लाट्या-

यन श्रौतसूत्र, ९. ४, ७, कौशिक सूत्र ६९. ३ ।

| ^२ ज० अ० ओ० सो०, १६, ccxliii ।

शाम्बर—देखिये शार्करात्त ।

शाम्बर, उपयुक्ततः 'शम्बर से सम्बन्ध' के आशय में एक विशेषता के रूप में ऋग्वेद (३. ४७, ४) के एक स्थल पर आता है । इसे विशेष्य के रूप में 'शम्बर के साथ प्रतिस्पर्धा' के द्योतक के अर्थ में ग्रहण करना चाहिये ।

शाम्बु अथर्ववेद^१ के एक स्थल पर आङ्गिरसों के साथ बहुवचन के रूप में आता है। यह निःसन्देह प्राचीन आचार्यों के एक परिवार का नाम है। शाम्बुव्यों^२ के एक गृह्य सूत्र की पाण्डुलिपि भी उपलब्ध है।

^१ १९ ३९, ५, जहाँ विहट्ने : अथर्ववेद का अनुवाद, ९६०, में मूल ग्रन्थ के संशोधन 'भृगुभ्यः' को 'शाम्बुभ्यः' के पक्ष में परिवर्तित कर देते हैं।

^२ औल्डेनवर्ग : इण्डिशे स्टूडियन, १५, ४, १५४।
तु० की० ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त, ६७८।

शायस्थि, वंश ब्राह्मण^३ में एक गुरु का नाम है।

^३ इण्डिशे स्टूडियन, ४, ३७२।

शारद—देखिये पुर।

१. शारि, यजुर्वेद संहिताओं^१ में अश्वमेध के बलिप्राणियों की तालिका में आता है। यतः इसे 'पुरुष-त्राच्' वाला कहा गया है, अतः ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह एक प्रकार का पत्नी, सम्भवतः जैसा कि तिसमर^२ का विचार है, वाद का 'शारिका' ही रहा होगा। देखिये शारिशाका भी।

^१ तैत्तिरीय संहिता ५ ५, १०, १, मैत्रायणी संहिता ३ १४, १४, वाजसनेयि संहिता

२४. ३३।

^२ आल्डिन्डिशे लेवेन, ९०, ९१।

२. शारि का, जो ऋग्वेद^३ के एक स्थल पर आता है, सायण 'वाण' अर्थ करते हैं। यह अनिश्चित है, किन्तु शर अथवा १. शारि के साथ सम्बन्ध सर्वथा सम्भव है।^४

^३ १ ११२, १६।

^४ औल्डेनवर्ग : ऋग्वेद-नोट्स, १, १०३

शारिशाका, अथर्ववेद^१ के एक स्थल पर मिलनेवाला अस्यन्त अस्पष्ट आशय का शब्द है। वेवर^२ का विचार है कि इसका अर्थ 'शारि पत्नी का वीट (शकन्)' अर्थ है; ग्रिल^३ इस शब्द में 'शारिका' का आशय देखते हैं; रौथ^४ इसका 'शक इव' के रूप में संशोधन (शारिः=शालिः) का परामर्श देते हैं; और ब्लूमफील्ड^५ 'शारि-शुकेव' के रूप में संशोधन करते हैं।

^१ ३ १४, ५।

^२ इण्डिशे स्टूडियन १७, २४६।

^३ हुन्डर्ट लीडर, ११०।

^४ विहट्ने के अथर्ववेद के अनुवाद, ११०, में।

^५ अथर्ववेद के सूक्त, ३५१। किन्तु देखिये विहट्ने ३० स्था० पर लैनमैन की टिप्पणी।

शार्कराक्ष, वंश ब्राह्मण^१ में एक गुरु, शाम्ब, का पैतृक नाम है, जो सम्भवतः शार्कराक्ष्य ('शर्कराक्ष' का वंशज) की ही एक त्रुटि है। काठक संहिता^२ में एक गुरु, 'शर्कराख्य', आता है जो पुनः कदाचित् स्वयं 'शर्कराक्ष' के स्थान पर ही एक त्रुटि है। 'शार्कराक्षि' पैतृक नाम आश्वलायन श्रौत्र सूत्र^३ में मिलता है।

^१ इन्दिशे स्टूडियन, ४, ३७२। | ^२ २२. ८। | ^३ १२ १०, १०।

शार्कराक्ष्य ('शर्कराक्ष' का वंशज) शतपथ ब्राह्मण^४ और छान्दोग्य उपनिषद्^५ में जन का पैतृक का नाम है। बहुवचन में यह लोग ऐतरेय आरण्यक^६ और तैत्तिरीय आरण्यक^७ में आते हैं। इसके रूप को 'शार्कराक्ष' के स्थान पर एक अशुद्धि मानना आवश्यक नहीं।

^१ १० ६, १, १।

^२ ५. ११, २; १५, १।

^३ २ १, ४।

^४ इन्दिशे स्टूडियन, ४, ३८२।

तु० की० कीथः ऐतरेय आरण्यक

२०४; वेबरः इन्दिशे स्टूडियन, १,

३८८; ३, २५९।

शाङ्ग, यजुर्वेद संहिताओं^८ में अश्वमेध के बलिप्राणियों की तालिका में एक पक्षी का नाम है। तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य करते हुये सायण इसे 'जंगली चटक' बताते हैं।

^१ तैत्तिरीयसंहिता ५ ५, १९, १; मैत्रायणी संहिता ३ १४, १४, वाजसनेयिसंहिता

२४. ३३। तु० की० तिसरः आख्तिन्दिशे लेबेन, ९३।

शाङ्ग—ऋग्वेद की अनुक्रमणी^९ में शाङ्गों, जरित्, द्रोण, सारिसृक्, और स्तम्बमित्र को ऋग्वेद के ही एक सूक्त^{१०} के प्रणयन का श्रेय दिया गया है। महाभारत^{११} में एक कथा आती है जिसमें यह वर्णन है कि ऋषि मन्दपाल के पुत्र, चार शाङ्ग-गण, खाण्डवदाह के समय स्तुतियों द्वारा किस प्रकार बच गये थे। इस कथा के आधार पर सीग^{१२} ने उक्त सूक्त की व्याख्या करने का प्रयास किया है, किन्तु उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। जैसा कि औस्डेनवर्ग^{१३} का कथन है, यह कथा स्वयं उक्त सूक्त पर आधारित है, सूक्त इस कथा पर नहीं।

^१ देखिये ऋग्वेद १० १४०, पर सायण भी, सर्वानुक्रमणी (मैक्डोनेल संस्करण), पृ० १६३, पर पट्टगुरुशिष्य।

^२ १० १४०।

^३ १ ८३१४ और वाद।

^४ सा० ऋ०, ४४-५०।

^५ त्सी० गे० ३९, ७९।

शार्दूल (व्याघ्र) का वाद की संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में उल्लेख है ।
तु० की० व्याघ्र ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ५ ५, ११, १, काठक
संहिता १२. १०; मैत्रायणी संहिता ३
१४, ११; वाजसनेयि संहिता २४. ३०।
^२ शतपथ ब्राह्मण ५ ३, ५, ३, ४. १, ९,
११, ५, ४, १०, ११ ८, ४, १,

तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ७, ८, १; ८, ५,
२, कौषीतकि उपनिषद् १. २, इत्यादि।
तु० की० तिस्रः : आल्टिन्डिशे
लेवेन, ७९।

शार्यात (शार्यात का वंशज) ऋग्वेद^१ में एक गायक का नाम है ।
मानव पैतृक नाम के साथ एक 'शार्यात' ऐतरेय ब्राह्मण^२ में भी ऋग्वेद
के एक सूक्त^३ के द्रष्टा हैं । च्यवन^४ द्वारा अभिषिक्त^५ और जैमिनीय ब्राह्मण^६
में च्यवन की कथा में आनेवाले 'शार्यात' से प्रत्यक्षतः इसी व्यक्ति का तात्पर्य
है । इन दोनों ही स्थलों पर शार्यातों का इसके वंशजों के रूप में उल्लेख है
और इसकी पुत्री को 'शार्याती' कहा गया है ।

^१ १. ५१, १२, ३ ५१, ७।
^२ ४ ३२, ७।
^३ १०. ९२।
^४ ८ २१, ४।

^५ ४. १, ५, १ और वाद ।
^६ ३ १२१ और वाद (विहट्ने : ज० अ०
ओ० सो०, ११, cxlv, हॉपकिन्स :
वही, २६, ५८।

शालङ्कायन ('शलङ्कु' का वंशज) वंश ब्राह्मण^१ में एक गुरु का
पैतृक नाम है ।

^१ इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३८३, आश्वलायन
श्रौतसूत्र १२ १०, १०; आपस्तम्ब
श्रौतसूत्र २४ ९, १। तु० की० वेवर :

इन्डियन लिटरेचर, ७५; इन्डिशे
स्टूडियन, १, ४९।

शालङ्कायनी-पुत्र ('शलङ्कु' के एक स्त्री-वंशज का पुत्र) माध्यंदिन शाखा
के बृहदारण्यक उपनिषद् (६. ४, ३१) के अन्तिम वंश में, वार्षगणीपुत्र के
शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

शाला, अथर्ववेद^१ और वाद^२ में एक विस्तृत आशय में 'गृह' का द्योतक
है जिसमें पशुओं के 'गोष्ठ' तथा 'अन्नागार' इत्यादि तक का तात्पर्य निहित
है ।^३ देखिये गृह । अथर्ववेद^४ में गृहस्थ को 'शाला-पति' (गृह का अधिपति)
कहा गया है ।

^१ ५. ३१, ५; ६. १०६, ३; ८. ६, १०;
९. ३, १ और वाद, १४ १, ६३।

^३ अथर्ववेद ३. १०, १ और वाद, और
तु० की० ९ ३, १ और वाद ।

^२ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ २, ३, १, शतपथ
ब्राह्मण ३. १, १, ६, इत्यादि ।

^४ ९. ३, १२

शास्तावत्य ('शलावन्त' का वंशज), छान्दोग्य उपनिषद् (१. ८, १) में शिलक का, और जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (१. ३८, ४) में गलूनस आर्क्षाकायण का पैतृक नाम है ।

शालि का, जो कि वाद में 'चावल' के लिये प्रयुक्त शब्द है, रौथ ने अथर्ववेद के शारिशाका शब्द में 'शारि' के समकक्ष होने का अनुमान किया है ।

शालूक, अथर्ववेद^१ में कमल की भक्ष्य-योग्य जड़ों का द्योतक है ।

^१ ४. ३४, ५ । तु० की० तिसर आल्टिन्डिशे लेवेन ७०, द्विटने : अथर्ववेद का अनुवाद, २०७ ।

शाल्व एक जाति के लोगों का नाम है, जो गोपथ ब्राह्मण^१ में मत्स्यों के साथ संयुक्त मिलते हैं ।

^१ १ २, ९ । तु० की० शल्व ।

शावसायन ('शवम्' का वंशज) वंश ब्राह्मण^१ में देवतरस् का पैतृक नाम है ।

^१ इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७३ ।

शास, ब्राह्मणों^१ में 'तलवार' या 'छुरी' का द्योतक है ।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ७ १७, ५; शाह्यायन शतपथ ब्राह्मण ३. ८, १, ४ ५; श्रौत सूत्र १५ २५, १ (शुनःशेष का का वध करने के लिये प्रयुक्त चाकू), १३. २, ३, १६ ।

शिशपा, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में एक वृक्ष (Dalbergia Sisu) का नाम है । यह एक ऊंचा और सुन्दर वृक्ष है ।

^१ ३ ५३, १८ (खदिर महिन) । का अनुवाद, ३७८ ।
^२ अथर्ववेद २० १२९, ७ । तु० की० ६ तु० की० तिसर आल्टिन्डिशे १०९, १ में 'शांशप', द्विटने अथर्ववेद लेवेन, ६१ ।

शिशु-मार^१ अथवा शिशु-मार,^२ ऋग्वेद तथा वाद की संहिताओं में एक

^१ ऋग्वेद १. ११६, १८, तैत्तिरीय संहिता ५ ५, ११, अथर्ववेद ११ २, २५ । मैत्रायणी संहिता ३ १४, २, वाजसनेयि संहिता २४. ३०, और अथर्ववेद, उ० १०, पैप्लाद शाखा, तैत्तिरीय आरण्यक २ १९ ।

जल-जन्तु का नाम है। यह या तो 'मगर' अथवा 'घड़ियाल',^३ अथवा 'सूँस'^४ (Delphinus Gangeticus) हो सकता है।

^३ वेदर . इण्डिशे स्टूडियन ५, ३२५, और ऋग्वेद, उ० स्था०, पर सायण; अथर्ववेद, उ० स्था०, तैत्तिरीय संहिता उ० स्था०।

^४ सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० 'शिशुमार', ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त,

१५७, द्विट्ने . अथर्ववेद का अनुवाद, ६२४।

तु० की० रिसमर : आस्ट्रिन्डिशे लेबेन, ९६, गेल्डनर ऋग्वेद, ग्लॉसर, १७९।

शिक्य का अथर्ववेद^१ और वाद^२ में लटका कर ले चलने वाली रस्सी का 'फन्दा'^३ अर्थ प्रतीत होता है।

^१ ९. ३, ६, जहाँ द्विट्ने यह व्यक्त करते हैं कि यह एक प्रकार का लटकाया जानेवाला अलकरण रहा होगा। द्विट्ने . अथर्ववेद का अनुवाद, ५२६, में देखिये लैनमैन। द्विट्ने द्वारा किया गया एक वैकल्पिक अनुवाद 'लटकाने का फन्दा' अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। देखिये ब्लूमफील्ड . अथर्ववेद के

सूक्त, ५९७। तु० की० सम्भवतः अथर्ववेद, १३ ४, ८।

^२ तैत्तिरीय संहिता ५ २, ४, २ ३, ६, ९, १, इत्यादि।

^३ शतपथ ब्राह्मण ५. ५, ४, २८ में यही बहुत कुछ स्पष्ट अर्थ है, ६ ७, १, १६। तु० की० एगिलन् से० बु० ई० ४१, २६८, नोट ३।

शिख और अनुशिख उन दो पुरोहितों के नाम हैं जिन्होंने पञ्चविंश ब्राह्मण^१ में वर्णित सर्पोत्सव के समय नेष्टु और पोतु के रूप में कार्य किया था।

^१ २५ १५, ३। तु० की० वेदर . इण्डिशे स्टूडियन १, ३५।

शिखण्ड, वाद की संहिताओं और ब्राह्मणों^१ में केश-सजा की पद्धति के रूप में 'लट' या 'जूड़े' का द्योतक है।

^१ तैत्तिरीय संहिता ७ ३, १६, २ (बहु-वचन में), 'चतुः शिखण्ड', तैत्तिरीय ब्राह्मण १ २, १, २७, ३ ७, ६, ४ (ऋग्वेद १० ११४, ३, के 'चतु-

कपर्द' के समान)। इसी प्रकार 'शिखण्डिन्' का अर्थ 'जूड़ा रखनेवाला' है, और अथर्ववेद ४. ३७, ७, ११. २, १२, इत्यादि में मिलते हैं।

शिखण्डिन् याज्ञसेन ('यज्ञसेन' का वंशज) का कौपीतिक ब्राह्मण (७. ४) में केशिन् दालभ्य के पुरोहित के रूप में उल्लेख।

शिखर, पर्वत-शिखर आशय में कौपीतिक ब्राह्मण (२६. १) तथा अक्सर महाभारत में मिलता है।

शिखा, शतपथ ब्राह्मण^१ में सर पर रखी जानेवाली वालों की बधी हुई शिखा का द्योतक है। विना बधी शिखा को स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों की दशा में शोक-सूचक माना गया है।^२

^१ १. ३, ३, ५।

^२ आश्वलायन गृह्य सूत्र, ४ २, ९। तु०
की० ब्लूमफील्ड. अ० फा० ११, ३४०,

अथर्ववेद के सूक्त, ६३४, अथर्ववेद ९,
९, ७, पर।

शियु एक जाति का नाम है। यह ऋग्वेद^१ के उस स्थल पर आता है जहाँ अजों और यक्षुओं के साथ इन्हें भी तृत्सुओं तथा राजा सुदास् द्वारा पराजित हुआ बताया गया है। यह लोग भेद के ही नेतृत्व में थे, जैसा कि लुडविग^२ व्यक्त करते हैं, अथवा नहीं, यह कह सकना असम्भव है। यदि यह 'शिग्रु' वाद के 'शिग्रु' (सहिजन-वृक्ष, *Moringa pterygosperma*) के साथ सम्बद्ध है, जो सर्वथा सम्भव भी है, तो इस जाति का अनाय होना सम्भव हो सकता है, किन्तु यह केवल एक अनुमान का ही विषय है।^३

^१ ७ १८, १९।

^२ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १७३।

^३ तु० की० औल्डेनवर्ग . रिंजीन देस वेद,
८५, मैकडोनेल . वैदिक माइथोलोजी,
१५३, हॉपकिंस ज० अ० ओ० सो०,

१६, cliv, कीथ . ज० ए० सो०,
१९०७, ९०९ और वाद , पेटरेय
आरण्यक, २००, नोट।
तु० की० तिसमर : आस्टिन्डिशे
लेवेन, १२७।

शिखार एक ऋषि का नाम है जिसका ऋग्वेद^१ में दो बार काण्व, प्रियमेघ, उपस्तुत, और अत्रि के साथ-साथ उल्लेख है। गोल्डनर^२ इस शब्द को या तो अत्रि का नाम अथवा एक विशेषण मानते हैं।

^१ ८. ५, २५, १०. ४०, ७। तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १३९।

^२ ऋग्वेद, ग्लॉसर, १७९।

शिति-कक्षी का, तैत्तिरीय संहिता^१ में सायण ने 'श्वेत वक्षवाले' (पाण्डरोदर) गृह्य के रूप में व्याख्या की है। फिर भी, यह शब्द केवल एक विशेषण ही हो सकता है।^२

^१ ५ ५, २०, १। तु० की० वाजसनेयि संहिता २४ ४, अथर्ववेद ५. २३, ५।

^२ तु० की० तिसमर : आस्टिन्डिशे लेवेन, ९३।

शिति-पृष्ठ, पञ्चविंश ब्राह्मण^१ में वर्णित सर्पोत्सव के 'मैत्रावरुण' पुरोहित का नाम है।

^१ २५ १५, ३। तु० की० वेवर इन्डिशे स्टूडियन, १, ३५।

शिति-बाहु ऐषकृत नैमिशि, जैमिनीय ब्राह्मण^१ में एक यज्ञकर्त्ता का नाम है, जहाँ यह कथन है कि एक वन्दर इसकी यज्ञीय 'अपूप' को लेकर भाग गया था ।

^१ १ ३६३ (ज० अ० ओ० सो० २६, १९२) ।

शित्पुट, तैत्तिरीय संहिता^२ में भाष्यकार के अनुसार एक प्रकार की विल्ली का द्योतक है ।

^१ ५ ५, १७, १ । तु० की० तिसरः : आल्टिन्डिशे लेबेन, ८६ ।

शिपद, केवल ऋग्वेद^३ में 'अ-शिमिद्' के साथ नकारात्मक 'अ-शिपद्' के रूप में ही आता है । 'शिपद्' और 'शिमिद्' दोनों ही सम्भवतः अज्ञात व्याधियों के नाम हैं ।^४

^१ ७ ५०, ४ ।

| ^२ तिसरः : आल्टिन्डिशे लेबेन, ३९४ ।

शिपविलुक अथर्ववेद^५ में एक प्रकार के कीट का द्योतक प्रतीत होता है ।

^१ ५ २०, ७ । तु० की० तिसरः : आल्टिन्डिशे लेबेन, ९८, हिट्ने : अथर्ववेद का अनुवाद, २६२ ।

शिप्रा कुछ अनिश्चित आशयवाला शब्द है : अनेक स्थलों^६ पर इससे 'कपोल' अर्थ प्रतीत होता है; अन्य स्थलों^७ पर यह शिरस्त्राण के 'कपोल रक्त भाग' अथवा अश्वों के कपोल भाग पर लगे 'टुकड़ों'^८ का द्योतक है । अश्विनों^९ के लिये प्रयुक्त 'अयः-शिप्रा' तथा अन्य समस्त पदों, जैसे 'हिरण्य-शिप्रा',^{१०} 'हरि-शिप्रा',^{११} और 'हिरि-शिप्रा',^{१२} में इस शब्द से सम्भवतः 'शिरस्त्राण' का ही आशय है जिसका 'लोहे', 'स्वर्ण' अथवा 'पीतरंग' का बना होने के रूप

^१ ऋग्वेद ३, ३२, १, ५ ३६, २, ८ ७६, १०, १० ९६, ९, १०५, ५, सभी रौथ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० के अनुसार । गेल्डनर (ऋग्वेद, ग्लॉसर, १७९), जो इस शब्द को छोव (शिप्रा) मानते हैं, ऋग्वेद १. १०१, १०, में 'अधर' के आशय में, (तु० की० तिसरः : आल्टिन्डिशे लेबेन, २४९, नोट), और ३ ३०, १; ८ ७६, १०, १०. ९६, ९, में 'मूछों' के आशय में ग्रहण करते हैं । यास्क (निरुक्त, ६.

१७) 'जबडा' और 'नासिका' के रूप में आशय का एक विकल्प प्रस्तुत करते हैं ।

^२ ऋग्वेद ५. ५४, ११, ८ ७, २५ । गेल्डनर : उ० स्था०, यहाँ 'शिप्रा' को शिरस्त्राण के रूप में ग्रहण करते हैं ।

^३ ऋग्वेद १. १०१, १०; तिसरः : उ० स्था० ।

^४ ऋग्वेद ४. ३७, ४ ।

^५ ऋग्वेद २ ३४, ३ ।

^६ ऋग्वेद १०. ९६, ४ ।

^७ ऋग्वेद २. २, ३, ६. २५, ९ ।

में वर्णन है । इसी प्रकार 'शिभिन्' का 'शिरस्त्राण धारण करनेवाला' अर्थ होगा ।

^८ ऋग्वेद १. २९, २, ८१, ४, ६. ४४, १४, इत्यादि ।

तु० की० मैक्स मूलर . से० बु०

ई०, ३२, ३०१; गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन, २, ३९, नोट २ ।

शिफा ऋग्वेद^९ के एक स्थल पर मिलता है, जहाँ सायण इस शब्द की एक नदी के नाम के रूप में व्याख्या करते हैं जो सर्वथा सम्भव है ।

^१ १ १०४, ३ । तु० की० त्सिमर : आस्ट्रिन्डिशे लेवेन, १८, पेरी : ज० अ० ओ० सो० ११, २०१ ।

शिवि का, जो उशीनर का पुत्र था, वौधायन श्रौत्र सूत्र^१ में इन्द्र के आश्रित के रूप में उल्लेख है । इन्द्र ने इसके लिये 'वशिष्ठिय' के मैदान में यज्ञ किया और इसे विदेशियों के आक्रमण के भय से बचाया था ।

^१ २१ १८ । तु० की० कैलेण्ड . ज० वी० २८ ।

शिमिद्, जो कि ऋग्वेद^१ में 'अ-शिमिद्' समस्त पद में आता है, सम्भवतः किसी व्याधि का द्योतक है । इसका स्त्रीलिङ्ग रूप 'शिमिदा' अथर्ववेद^२ और शतपथ ब्राह्मण^३ में एक दानवी के नाम के रूप में आता है । तु० की० शिपद ।

^१ ७ ५०, ४ । तु० की० त्सिमर . आस्ट्रि- ^२ ४ २५, ४ ।

न्डिशे लेवेन, ३९४ ।

^३ ७ ४, १, २७ ।

शिम्वल, सायण के अनुसार ऋग्वेद^१ में 'शात्मलि' (=शल्मलि) के पुष्प का द्योतक है ।

^१ ३ ५३, २२ । तु० की० गेल्डनर . ऋग्वेद, र्लॉसर, १७९, औस्ट्रेनवर्ग . ऋग्वेद-नोटेन, १, २५४ ।

शिम्बु ऋग्वेद^१ में आता है और उन लोगों अथवा उनके राजाओं में से एक का नाम है जिनको दाशराज्ञ में सुदास् ने पराजित किया था । यतः अन्य स्थल^२ पर शिम्बु-गण दस्युओं के साथ संयुक्त है, अतः त्सिमर^३ उपयुक्तः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अनार्य थे ।

^१ ७ १८, ५ ।

^२ १ १००, १८, जहाँ रौथ . सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०, का विचार है कि इस शब्द से केवल 'शत्रु' का ही अर्थ है ।

^३ आस्ट्रिन्डिशे लेवेन, ११८, ११९ ।

तु० की० हॉपकिन्स ज० अ० ओ० सो०, १५, २६१ ।

शिरिम्बिठ ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर आता है, जहाँ यह सम्भवतः किसी व्यक्ति का नाम है। जिस सूक्त में यह नाम आया है उसके प्रणयन का अनुक्रमणी द्वारा इसे ही श्रेय दिया गया है। फिर भी, यास्क^२ इस शब्द का 'मेघ' अनुवाद करते हैं।

^१ १० १५५, १।

^२ निरुक्त, ६, ३०। तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६७।

शिलक शालावत्य ('शलावन्त्' का वंशज) एक गुरु का नाम है, जो छान्दोग्य उपनिषद् (१ ८, १) में चैकितायन दाल्भ्य और प्रवाहरा जैवल का समकालीन था।

१. शिल्प का अर्थ 'कला' है। कौषीतकि ब्राह्मण (२९. ५) में इसके तीन प्रकार बताये गये हैं—'नृत्य', 'गीत' और 'वादित' (वाद्य-सगीत)।

२ शिल्प कश्यप का, बृहदाण्यक उपनिषद्^१ के अन्तिम वंश में कश्यप नैध्रुवि के शिष्य, एक गुरु के रूप में उल्लेख है।

^१ ६ ४, ३३ (माध्यदिन=६ ५, ३ काठव)।

शिव ऋग्वेद^१ में एक बार एक जाति के नाम के रूप में आता है। यहाँ इन्हें अलिनों, पक्थों, भलानसों, और विपाणिनों के साथ-साथ सुदास् द्वारा पराजित बताया गया है। यह सुदास् के मित्र नहीं थे, जैसा कि रौथ^२ मानते हैं। उन यूनानी 'सिबै' (Σιβαι)^३ अथवा 'सिबोइ' (Σιβοι)^४ के साथ इसके समीकरण के सम्बन्ध में कदाचित ही सन्देह है जो सिकन्दर के समय में सिन्धु और 'अकेसिनेस' (असिकी) के बीच बसे थे। पाणिनि^५ पर भाष्यकार द्वारा उत्तरी देश में स्थित होने के रूप में उल्लिखित 'शिव-पुर' नामक ग्राम में भी यह नाम सुरक्षित हो सकता है। तु० की० शिवि।

^१ ७ १८, ७।

^२ तु० वे० ९५, और वाद, जिसे कभी तिसमर . आस्टिन्डिशे लेवेन, १०६, ने भी स्वीकार किया था।

^३ अरियन इन्डिका, ५ १२।

^४ डियोडोरम, १७. ९६।

^५ ४ २, १०९। वेमर . इन्डिशे स्टूडियन।

१३, ३७६, द्वारा 'शिव' के साथ सम्बद्ध।

तु० की० सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व०स्था०।

तु० की० तिसमर . उ० पु०

४३१, लुडविग . ऋग्वेद का अनुवाद,

३, १७३, हॉपकिन्स . ज० अ० ओ०

सो०, १५, २६० और वाद।

शिशिर—देखिये ऋतु।

शिशु आङ्गिरस (आङ्गिरस् का वंशज) पञ्चविंश ब्राह्मण^१ में सामनों के एक द्रष्टा का नाम है ।

^१ १३ ३, २४ । तु० की० हिलेब्रान्ट वेदिशे माइथोलोजी, २, १६० ।

शिशुक, अथर्ववेद^२ में एक विशेषण प्रतीत होता है जिसका 'युवा' अर्थ है । ब्लूमफील्ड^३ के अनुसार इससे 'अश्वपोत' का आशय है । भाष्यकार सायण ने इसका 'शुशुक' पाठ माना है और यह व्याख्या की है कि एक प्रकार के जंगली पशु को इस नाम से पुकारा गया है । तु० की० आशुग ।

^२ ६ १४, ३ । तु० की० व्हिट्ने . अथर्ववेद-का अनुवाद, २९१ ।

^३ अथर्ववेद का अनुवाद, ४६४ ।

१. शिशुमार — देखिये शिशुमार ।

२. शिशुमार पञ्चविंश ब्राह्मण (१४. ५, १५) में शर्कर के लिये व्यवहृत शब्द है, जहाँ इसे 'सिशुमारर्षि' भी कहा गया है । 'सिशुमारर्षि' शब्द की भाष्यकार ने 'सिशुमार' के रूप में एक ऋषि के अर्थ में व्याख्या की है ।

शिश्र-देव का, जो कि ऋग्वेद^१ में दो बार बहुवचन में आता है, 'जिनका देवता लिङ्ग है' अर्थ है । इस शब्द से बहुत सम्भवतः आदिवासियों की शिक्षोपासना का तात्पर्य है ।

^१ ७ २१, ५, १० ९९, ३ । तु० की० तिसर . आल्टिन्डिशे लेवेन, ११८, हॉपकिन्स . रिलीजन्स ऑफ इन्डिया, १५०, फॉन श्रोडर . वि० ज०, ९,

२३७, मैकडौनेल : वैदिक माइथोलोजी, १५५, कीथ : ज० ए० सो०, १९११, १००२, नोट ५ ।

शीपाल ऋग्वेद^१ में उल्लिखित एक जलीय पौधे (*Blyxa Octandra*) का नाम है । इसका वाद का नाम 'शैवल' है ।

^१ १० ६८, ५ । तु० की० इससे व्युत्पन्न विशेषण 'शीपर्य' (जहाँ 'शीपाल पौधों की प्रचुरता हो), पञ्चविंश ब्राह्मण ३.

१ । तु० की० तिसर . आल्टिन्डिशे लेवेन, ७१ ।

शीपाला एक बार अथर्ववेद^१ में मिलता है जहाँ या तो इससे 'शीपाल-पौधे से परिपूर्ण तालाव' अर्थ है, अथवा यह किसी नदी या झील का व्यक्तिवाचक नाम हो सकता है ।

^१ ६. १२, ३ । तु० की० तिसर . आल्टिन्डिशे लेवेन, ७१, व्हिट्ने : अथर्ववेद

का अनुवाद २८९, २९०, ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त, ४६२ ।

शीपुद्गु अथर्ववेद^१ में केवल चीपुद्गु का एक अशुद्ध पाठ-मात्र है ।

^१ ६ १२७, १ । देखिये विहट्टने : अथर्ववेद आ अनुवाद ३७६ ।

शीर्षक्ति अथर्ववेद^१ में 'सर-दर्द' के लिये एक सामान्य शब्द है ।

^१ १ १२, ३; ९ ८, १; १२ २, १९; ५, २३ । तु० की० ब्लूमफील्ड : ज० अ० ओ० सी० १६, xxxv, अथर्ववेद के सूक्त २५२, अ० फा० १७, ४१६, जो इसमें 'शीर्ष-शक्ति' देखते हैं (तु० की० मैकडौनेल : वैदिक ग्रामर ६४, २) । वीटलिङ्ग, प्रोसीडिंग्स आफ सैक्सन

एकेडमी, १८९७, ५०, का विचार है है कि इस शब्द से 'गला कड़ा और सर तिरछा' अर्थ है । देखिये विहट्टने : अथर्ववेद का अनुवाद, १४, में लैनमैन । अथर्ववेद १९. ३९, १०, 'शीर्ष-शोक' का 'सर-दर्द' के लिये प्रयोग हुआ है ।

शीर्षण्य ब्राह्मणों^१ में आसन्दी के शीर्ष-भाग का द्योतक है ।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ८ ५, ३, १२, ३, १७, २, कौषीतकि उपनिषद् १. ५; शाह्वायन श्रौतसूत्र, १७ २, ८ ।

शीर्षामय (सर की एक व्याधि) का अथर्ववेद (५. ४, १०; ९. ८, १) में उल्लेख है ।

शीष्ट केवल ऋग्वेद^१ के वालखिल्य सूक्त में आता है, जहाँ यह किसी महत्त्वपूर्ण जाति का नाम प्रतीत होता है ।

^१ ८ ५३, ४ । तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६३ ।

शुक (तोता) का ऋग्वेद^१ में उल्लेख है, जहाँ पीत-रोग के पीलेपन को 'शुक' रोपणाका पर स्थानान्तरित करने की इच्छा व्यक्त की गई है । यजुर्वेद संहिताओं^२ में इस पक्षी को अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में सम्मिलित किया गया है । इसे पीतवर्ण और 'पुरुष-वाच्' (मानव भाषा बोलनेवाला कहा गया है ।^३ ब्लूमफील्ड^४ के अनुसार यह अथर्ववेद^५ के अस्मष्ट शब्द शारिशाका के उत्तरार्द्ध का शुद्ध पाठ है ।

^१ १. ५०, १२ ।

^२ तैत्तिरीय संहिता ५ ५, १२, १; मैत्रायणी संहिता ३ १४, १४; वाजसनेयि संहिता २४ ३३; और तु० की० 'शुक-धनु' (शुक की भाँति लाल), वही ४२ २ ।

^३ तैत्तिरीय और मैत्रायणी संहिता में, उ० स्था० ।

^४ अथर्ववेद के सूक्त, ३१२ ।

^५ ३. १४, ५ ।

तु० की० तिसर : आस्टिन्डिशे लेबेन, ९० ।

शुक्ति आङ्गिरस (आङ्गिरस् का वंशज), पञ्चविंश ब्राह्मण (१२. ५, १६) में सामनों के एक द्रष्टा का नाम है ।

१. शुक्र, तिलक^१ के अनुसार ऋग्वेद^२ के दो स्थलों पर एक 'ग्रह' के आशय में आता है । यह अत्यन्त असम्भाव्य है । तु० की० मन्थिन् ।

^१ ओरायन, १६२ ।

| ^२ ३. ३२, २; ९. ४६, ४ ।

२. शुक्र जाबाल ('जबाला' का वंशज) जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ७, ७) में एक गुरु का नाम है ।

शुक्ल—देखिये यजुस् ।

शुक्ल-दन्त का ऐतरेय ब्राह्मण (८. २३, ३) में मृग ('जंगली पशु') की उपाधि के रूप में व्यवहार हुआ है । इससे हाथियों का ही तात्पर्य होना चाहिये ।

शुच और शुचा ऋग्वेद के एक अस्पष्ट मन्त्र (८. २६, ६) में आता है जहाँ एक पुरुष और एक स्त्री का आशय हो सकता है ।

शुचन्ति, ऋग्वेद^१ में अश्विनों के एक आश्रित का नाम है ।

^१ १. ११२, ७ । तु० की० लुडविगः ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६५ ।

शुचि-वृक्ष गौपालायन ('गोपाल' का वंशज) ऐतरेय ब्राह्मण^१ में वृद्धघुम्न अभिप्रतारिण के पुरोहित का नाम है । मैत्रायणी सहिता^२ में भी इसका उल्लेख है ।

^१ ३. ४८, ९ (ऑफरेख्त के सस्करण में 'गौपालायन') ।

^२ ३. १०, ४ ।

शुतुद्री, जिसका ऋग्वेद^१ में दो बार उल्लेख है, पञ्जाब की सबसे पूर्वी नदी, आधुनिक सतलज, और टॉलमी तथा अर्रियन^२ की 'ज़रद्रोस' का, नाम है । वैदिकोत्तर साहित्य में इस नदी के नाम का 'शतद्रु' के रूप में परिवर्तन हो गया प्रतीत होता है । ऐतिहासिक काल के भीतर ही सतलज नदी की धारा में पर्याप्त परिवर्तन हो चुका है ।^३

^१ ३. ३३, १, १० ७५ ५, निरुक्त ९. २६ ।

^२ अर्रियन के समय में सतलज नदी स्वतंत्र रूप से 'रन ऑफ कच्छ' में गिरती थी इम्पीरियल गेजेटियर, २३, १७९ ।

^३ वही ।

तु० की० तिसर आल्टिन्डिशे लेबेन, १०, ११ ।

शुनः-पुछ (कुत्ते की पूँछ), शुनःशेष के एक भ्राता का नाम है ।^१

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ७ १५, ७, शाङ्खायन श्रौतसूत्र, ५. २०, १ ।

शुनःशेष (कुत्ते की पूँछ) एक व्यक्ति का नाम है, जिसका पैतृक नाम आजगति है । ऐतरेय ब्राह्मण^१ और शाङ्खायन श्रौत सूत्र^२ में वर्णित एक कथा के अनुसार राजा हरिश्चन्द्र के पुत्र रोहित ने इसे एक बलि-प्राणी के रूप में क्रय कर लिया था क्योंकि रोहित के पिता अपने पुत्र की बलि देने के लिये वरुण को वचन दे चुके थे । शुनःशेष को वस्तुतः बलि-स्तम्भ में बाँध भी दिया गया था किन्तु यह अपनी उन प्रार्थनाओं के द्वारा समय रहते मुक्त हो गया था जिन्हें ऋग्वेद^३ के कुछ सूक्तों में सुरक्षित माना जाता है । इसे विश्वामित्र ने, जिनके परामर्श से ही यह देवों से अपनी मुक्ति की प्रार्थना करने के लिये प्रेरित हुआ था, दत्तक ले लिया था और यह उनका देवरात नामक पुत्र बन गया । इस पर विश्वामित्र के कुछ अन्य पुत्र रूष्ट हो गये जिसके फलस्वरूप विश्वामित्र ने उन पुत्रों को ज्ञाप दे दिया था । फिर भी ऋग्वेद में दिव्य सहायता द्वारा शुनःशेष के मृत्यु से वच जाने मात्र का ही उल्लेख निहित है, और यजुर्वेद की संहिताओं^४ से केवल इतना ही कथन है कि इसे वरुण ने प्रसित कर लिया था (सम्भवतः 'जलोदर' नामक व्याधि द्वारा),^५ किन्तु इसने वरुण के पाशों से अपने को मुक्त कर लिया ।

^१ ७ १३-१८ ।

^२ १५. २०, १ और बाद । तु० की० १६ ११, २ ।

^३ १. २४ और बाद । तु० की० ५. २, ७ ।

^४ तैत्तिरीय संहिता ५. २, १, ३; काठक संहिता १९. ११ । मैत्रायणी संहिता ३ २, १, में यह कथा नहीं मिलती ।

^५ तु० की० वरुण गृहीत ।

तु० की० मैक्स मूलर • ऐन्शेन्ट सस्कृत लिटरेचर, ४०८ और बाद,

५७३ और बाद, रीथ : इन्डिश स्टूडि यन १, ४५७, २. ११२ और बाद, वेवर : इन्डियन लिटरेचर ४७, ४८, ५० रि० १०-१६, मूडर : सस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, ३५५ और बाद, मैकडौ-नेल . सस्कृत लिटरेचर २०७; लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १४६, कीय : ज० ए० सो०, १९११, ९८८, ९८९ ।

शुनस्-कर्ण एक राजा^१ का नाम है, जो शिवि अथवा 'वणिकह' का पुत्र था,^२ और जिसने 'सर्वस्वार' नामक एक कृत्य सम्पन्न करके विना किसी व्याधि के ही मृत्यु को प्राप्त किया था ।

^१ बौधायन श्रौतसूत्र २१. १७, कैलेण्ड : ऊ० वी० २८ ।

^२ पञ्चविंश ब्राह्मण १७. १२, ६ ।

शुन-होत्र, बहुवचन में ऋग्वेद (२. १८, ६; ४१, १४. १७) में द्रष्टाओं के एक परिवार का द्योतक है ।

शुना-शीर, द्विवाचक रूप में ऋग्वेद^१ और वाद^२ में उन दो कृषि देवताओं के नाम के रूप में आता है, जो रीथ^३ के विचार से सम्भवतः 'अंश और हल' के मूर्त्तीकरण थे ।

^१ ४ ५७, ५ ८ ।

^२ अथर्ववेद ३. १७, ५, मैत्रायणी सहिता १ ७, १२; वाजसनेयि सहिता १२ ६९, इत्यादि ।

^३ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० । देशीय व्याख्याओं के लिये देखिये वृहद्देवता,

५ ८ और वाद, (मैकडोनेल की टिप्पणी सहित)। व्हिट्ने^४ अथर्ववेद का अनुवाद ११६, ११७, 'शुनम्' का क्रियाविशेषण मानते हुये 'सफलतापूर्वक' अनुवाद करते हैं ।

शुनो-लाङ्गूल (कुत्ते की पूँछ), शुनः शोप^१ के भ्राता का नाम है ।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ७ १५, १, शाङ्खायन श्रौतसूत्र, १५. २०, १ ।

शुम्बल, शतपथ ब्राह्मण^२ में मिलता है । इस शब्द का अर्थ अनिश्रित है : अपने भाष्य में हरिस्वामी इसे 'वृण' मानते हैं; एलिङ्ग^३ का मत है कि सूखी रूई का धागा अथवा बीज-कोश अर्थ हो सकता है । जो कुछ भी हो, इससे किसी ऐसे पदार्थ का ही तात्पर्य है जिसमें सरलता से भाग लग सकती है ।^३

^१ १२ ५, ० ३ ।

^२ से० बु० ई० ४४, २०२, नोट ३, कात्यायन श्रौतसूत्र २५. ७, १२ की तुलना करते हुये ।

^३ रीथ : सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० ।

शुल्क से ऋग्वेद^१ में स्पष्ट रूप से 'मृत्य' का आशय है । धर्म सूत्रों^२ में यह 'कर' का द्योतक है, जिस आशय को मुहर^३ ने अथर्ववेद^४ के उस स्थल पर भी देखा है जहाँ आशय के लिये अत्यधिक घातक 'शुक्ल' पाठ है । व्लूमफील्ड^५ और व्हिट्ने^६ ने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया है । एक अन्य स्थल पर वेवर^७ द्वारा किये गये इसी संशोधन को व्हिट्ने^८ ने तो स्वीकार ही नहीं किया है, और व्लूमफील्ड^९ सन्दिग्ध मानते हैं ।

^१ ७. ८०, ६, ८ १, ५ ।

^२ देखिये फॉय डी० गे० ३९ और वाद ।

^३ सस्कृत टेक्स्ट्स ५, ३१० ।

^४ ३. २९, ३ ।

^५ अथर्ववेद के सूक्त ४३४ ।

^६ अथर्ववेद का अनुवाद, १३६ ।

^७ इन्डिशे स्टूडियन, १७, ३०४ ।

^८ उ० पु०, २५३ ।

^९ उ० स्था० ।

तु० की० तिसर : गार्लिन्डिशे

लेबेन, ४१३ ।

शुशुक—देखिये आशुंग और शिशुक ।

शुशुक ऋग्वेद^१ में एक दानव के नाम 'शुशुक-यातु' समस्त पद में मिलता है । सायण के अनुसार इसका अर्थ 'छोटा-उल्लूक' है । 'शुशुका' स्त्रीलिङ्ग रूप में यह मैत्रायणी संहिता^२ में अश्वमेध के वलिप्राणियों की तालिका में आता है ।

^१ ७ १०४, २२ ।

^२ ३ १४, १७ । तु० की० तिसर • आस्टिन्डिशे लेवेन, ९३ ।

शुष्क-भृङ्गार, कौषीतकि उपनिषद्^१ में एक गुरु का नाम है ।

^१ २ ६ । तु० की शाङ्खायन श्रौतसूत्र, १७ ७ १३ ।

शुश्मिणा ऐतरेय ब्राह्मण (८. २३, १०) में शिवियों के राजा अमित्रतपन का नाम है ।

शूद्र वैदिक समाज की चतुर्थ जाति का नाम है (देखिये वर्या) । दसवें मण्डल के उस पुरुष सूक्त^१ के अतिरिक्त यह ऋग्वेद में सर्वथा अज्ञात, जहाँ जातियों की उत्पत्ति से सम्बन्धित सबसे प्राचीन विवरण में सर्वप्रथम शूद्र भी मिलता है । दूसरी ओर ऋग्वेद उस दस्यु और दास से परिचित है जो दोनों ही आर्य-नियन्त्रण से स्वतन्त्र अथवा अधीनस्थ दासों के रूप में आने वाले आदिवासी हैं : यह मानना तर्क संगत है कि वाद के ग्रन्थों का शूद्र वह आदिवासी था जो आर्यों द्वारा पराधीन बना लिया गया था । उपयुक्त आशय में, पराजित आदिवासियों को निश्चित रूप से दास बना लिया गया होगा । यह स्पष्ट है कि अक्सर ही अधिकांश आदिवासियों का युद्ध में वध कर दिये जाने के अवसरों के विपरीत भी इनमें से बहुत से लोग बच जाते होंगे और दासों के रूप में व्यक्तिगत स्वामियों द्वारा प्रयुक्त होते रहे होंगे । आदिवासियों के ग्राम निश्चित रूप से वर्तमान, किन्तु आर्यों की अधीनता अथवा नियन्त्रण के अन्तर्गत ही, रहे होंगे : कम से कम इतना सत्य तो बैठेन पावेल के उस सिद्धान्त में हो ही सकता है जो प्रत्यक्षतः भारत की सभी आरम्भिक कृपक-ग्रामों की उत्पत्ति का स्रोत द्रविड़ों को मानते हैं । दूसरी ओर शूद्र शब्द के अन्तर्गत वह असभ्य पर्वतीय जातियाँ भी आ जाती हैं, जो आखेट और मछली मारकर अपना जीवनयापन करती थीं, और जिनमें से अनेक ने अपने पड़ोसी आर्यों की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया होगा :

^१ १०. ९०, १२ । देखिये मूडर : सस्कृत टेक्स्ट्स, १^१, ८ और वाद ।

वास्तव में यह शब्द आर्य-क्षेत्र की सीमा के बाहर स्थित सभी लोगों के लिये व्यवहृत हो सकता है ।

शूद्र सम्बन्धी यह दृष्टिकोण इनकी स्थिति को व्यक्त करनेवाले उन वैदिक मन्त्रों के सर्वथा अनुकूल है जो केवल परिवारों में रहनेवाले दामों के लिये ही पर्याप्त रूप से व्यवहृत नहीं हो सकता । शूद्र सदैव आर्यों के विपरीत हैं,^१ और शूद्रों की स्वचा के रङ्ग की आर्यों के साथ उसी प्रकार तुलना की गई है,^२ जिस प्रकार इनके रहन-सहन के बीच विभेद किया गया है ।^३ ऐतरेय ब्राह्मण^४ अपने जाति सम्बन्धी विवरण में शूद्रों को 'अन्यस्य प्रेप्य' (दूसरों का सेवक); 'कामोत्थाप्य' (जिसे इच्छानुसार बहिष्कृत किया जा सके), और 'यथाकामवध्य' (जिसका इच्छानुसार वध किया जा सके), कहा गया है । यह सभी शब्द विजित होने के परिणाम-स्वरूप दासों की स्थिति का बहुत कुछ पर्याप्त रूप से वर्णन करते हैं : यह उपाधियाँ नॉर्मनों द्वारा विजित हुये इंगलिश दासों के लिये भी, विशेषतः उस दशा में थोड़ी अशुद्धता के साथ प्रयुक्त हो सकते हैं, जब नॉर्मनों को अपने राजा से अधिकार प्राप्त होते थे । पञ्चविंश ब्राह्मण^५ में यह उल्लेख है कि सम्पन्न ('बहु-पशु', अनेक गायोंवाला) होने पर भी शूद्र दास के अतिरिक्त कुछ और नहीं हो सकता . उसका कार्य अपने श्रेष्ठों का 'पादावनेज्य' (पादप्रक्षालन) है । महाभारत^६ में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शूद्र की कोई सम्पत्ति नहीं होती (न हि स्वम् अस्ति शूद्रस्य) । दूसरी ओर, ठीक उसी प्रकार, जैसे इंग्लैण्ड

^१ अथर्ववेद ४ २०, ४, १९ ३२, ८, ३२,

१, वाजसनेयि संहिता १४. ३०, २३

३० ३१, तैत्तिरीय संहिता ४ २, १०,

२, ७ ४, १९, ३; काठक संहिता,

अश्वमेध, ४ ७, १७ ५, मैत्रायणी

संहिता २ ८, ६, ३ १३, १, इत्यादि ।

देखिये आर्य और अर्य भी । तैत्तिरीय

संहिता १ ८, ३, १; वाजसनेयि संहिता

२०, १७, काठक संहिता ३८ ५, में

शूद्र आर्यों के विपरीत है ।

^२ काठक संहिता ३४ ५, पञ्चविंश ब्राह्मण

५ ५, १७ । तु० की० शतपथ ब्राह्मण

६ ४, ४, ९, बृहदारण्यक उपनिषद्,

१ ४, २५, ऐतरेय ब्राह्मण ८ ४, ५,

तैत्तिरीय ब्राह्मण १. २, ६, ७, वेबर :

इन्डिशे स्टूडियन, १०, ४, मूहर . उ०

पु०, १^२, १४०, महाभारत १२.

१८८, ५ ।

^४ ऐतरेय ब्राह्मण ७ १७, ३. ४, शाङ्खायन

श्रौत सूत्र १५ २४ ।

^५ ७ २९, ४, मूहर सस्कृत टेक्स्ट्स, १^२,

४३९ ।

^६ ६. १, ११ ।

^७ १२ ३०, ७ (हॉकिन्स . ज० अ० ओ०

सो०, १३, ७३) । इसी ग्रन्थ का १२.

२९४, २१ (वही ७४, नोट) इसके

सेवा के कर्त्तव्य पर बल देता है ।

में राजकीय-न्याय दासों के जीवन और शरीर की रक्षा करता था,^६ यहाँ भी ऐसा प्रतीत होता है कि शूद्र का वध करने पर बौधायन^७ और आपस्तम्ब^{१०} के अनुसार दस गायों का वैरदेय देना पड़ता था। यहाँ वास्तव में यह माना जा सकता है कि स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वध करने पर ही यह वैरदेय लिया जाता था; किन्तु इस प्रकार की सीमा का कहीं उल्लेख नहीं है।

धार्मिक कृत्यों में धार्यों और शूद्रों का विभेद निःसन्देह विशेष रूप से स्पष्ट था। मूलग्रन्थ^{११} शूद्रों की उपेक्षा करते हुये यह घोषणा करने में संकोच नहीं करते कि उच्च जातियाँ ही 'सब कुछ' हैं। अग्निहोत्र के लिये आवश्यक दुग्ध के लिये गाय दुहने से शूद्रों को वर्जित^{१२} किया गया है; और शतपथ ब्राह्मण^{१३} यज्ञ के लिये दीक्षित किसी भी व्यक्ति को यज्ञ के समय शूद्र से बोलने का निषेध करता है; यद्यपि शाठ्यायनक^{१४} इस नियम को कुछ शिथिल करते हुये ऐसे ही शूद्रों को वर्जित करता है जो किसी पाप के अपराधी होते थे। स्वयं यज्ञ के समय शूद्र यज्ञ-शाला में उपस्थित नहीं हो सकता था; शतपथ ब्राह्मण^{१५} और पञ्चविंश ब्राह्मण^{१६} में इसे निश्चित रूप से यज्ञ के अयोग्य (अयज्ञिय) कहा गया है; और काठक संहिता^{१७} में ऐसी उक्ति है कि इसे सोमपान के लिये स्वीकृति नहीं देनी चाहिये। 'प्रवर्य्य संस्कार' के समय यज्ञ-कर्त्ता को शूद्र के सम्पर्क में आने की स्वीकृति नहीं है^{१८} क्योंकि यहाँ, जैसा कि काठक संहिता^{१७} में भी

^६ पोलक और मेटलैन्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लॉ, १, ३५०, ३५५ इत्यादि।

^७ धर्मसूत्र १. १०, १९, १।

^{१०} धर्मसूत्र १. ९, २४, ३।

^{११} शतपथ ब्राह्मण २. १, ४, २, ४ २, २, १४, इत्यादि। तु० की० एगिल्लन : से० तु० ई०, १२, xvii और वाद; २६, २९२। तु० की० हॉपकिन्स : उ० पु०, १३, ७३, ७५, नोट।

^{१२} काठक संहिता ३१, २, मैत्रायणी संहिता ४. १, ३। इसी प्रकार 'स्थाली' (पकाने का पात्र) किसी आर्य द्वारा ही बनाई जानी चाहिये, मैत्रायणी संहिता १. ८, ३।

^{१३} ३. १, १, १०। तु० की० ५, ३, २, २।

^{१४} कात्यायन श्रौतसूत्र ७. ५, ७ पर भाष्य में उद्धृत आपस्तम्ब। आशय बहुत निश्चित नहीं, किन्तु मूलग्रन्थ में जो कुछ है वह तर्कसंगत प्रतीत होता है। तु० की० वेवर : उ० पु० १०, ११।

^{१५} ३. १, १, १०। मैत्रायणी संहिता ७. १, १, ६, भी देखिये, लेवी : लॉकिट्टन डु सैक्सीफाइस, ८०।

^{१६} ६. १, ११।

^{१७} ११. १०, जहाँ यह करीरों को ग्रहण नहीं करता।

^{१८} शतपथ ब्राह्मण, १४. १, १, ३१।

है, शूद्र को सोमपान में भाग लेने से वर्जित माना गया है। दूसरी ओर यजुर्वेद^{१९} में शूद्र को पुरुषमेघ के वलि-प्राणियों में से एक माना गया है, और एक आर्य तथा शूद्र के बीच द्वन्द्व महाव्रत संस्कार का एक अंग है जिसमें निःसन्देह प्रथम की ही विजय होती है; यह सम्भवतः भारतीय नाटक का पूर्वरूप है।^{२०}

फिर भी, इस प्रकार के संकेतों का भी अस्तित्व है जिनके अनुसार शूद्रों के वास्तविक महत्व की उपेक्षा करना अवांछनीय माना जाता था। यह तथ्य हमें उन दासों की स्थिति का पुनः स्मरण दिलाते हैं जो, यद्यपि वैधानिक दृष्टि से वंचित होते हुये भी, क्रमशः स्वतंत्र व्यक्तियों के रूप में अपना स्थान बना सकने में ममर्थ हो गये। आरम्भिक ग्रन्थों^{२१} में उसी प्रकार धनी शूद्रों का उल्लेख है, जिस प्रकार बौद्ध ग्रन्थों में 'गहपति' के रूप में और वैधानिक साहित्य^{२२} में राजाओं के रूप में शूद्र आते हैं। आर्य और शूद्र के विरुद्ध पाप का उल्लेख है।^{२३} तथा साथ ही साथ अन्य जातियों के वैभव के लिये स्तुतियाँ भी मिलती हैं।^{२४} शूद्र, तथा साथ ही साथ, आर्यों का प्रिय बनने की इच्छा को भी व्यक्त किया गया है।^{२५}

सूत्र भी, श्रेष्ठों के समीप बैठने इत्यादि की हीनता,^{२६} वेदाध्ययन से

^{१९} वाजसनेयि संहिता ३०. ५; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, १, १; शतपथ ब्राह्मण १३ ६, २, १०। यह राजसूय के समय भी उपस्थित है, काठक संहिता ३७ १।

^{२०} कीथ : त्सी० गे० ६४, ५३४।

^{२१} मैत्रायणी संहिता ४. २, ७, १०, पञ्चविंश ब्राह्मण ६ १, ११। राजा के कुछ मन्त्री शूद्र थे : शतपथ ब्राह्मण ५ ३, २, २, सायण की टिप्पणी सहित।

^{२२} फॉय : डी० गे० ८, फिक : डी० ग्लो० ८३, ८४। देखिये मनु, ४ ६१, विष्णु ७१ ६४, सम्भवतः जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण १ ४, ५। किन्तु देखिये रौथ का सशोधन, ज० अ० ओ० सो०, १६, ccxliii।

^{२३} काठक संहिता ३८. ५, तैत्तिरीय संहिता

१. ८, ३, १, वाजसनेयि संहिता २० १७।

^{२४} तैत्तिरीय संहिता ५ ७, ६, ४; काठक संहिता ४० १३, मैत्रायणी संहिता ३. ४, ८, वाजसनेयि संहिता १८ ४८। दूसरी ओर, शूद्र भी आर्यों की भाँति अभिचारों का प्रयोग करते हैं, अथर्ववेद, १० १, ३।

^{२५} अथर्ववेद १९ ३२, ८; ६२, १, वाजसनेयि संहिता, २६, २, इत्यादि।

^{२६} गौतम धर्म सूत्र १० ७, आपस्तम्ब धर्म सूत्र २. १०, २७, १५। इसी प्रकार इसका अपमान करना भी अदण्ड्य है, गौतम, १२ १३, और किसी का अपमान करने पर इसे दण्ड दिया जाता है, वही, १२ १, आपस्तम्ब २ १०, २७, १४।

वर्जित होने,^{२७} तथा शूद्रों^{२८} अथवा उनके भोजन^{२९} के सम्पर्क के संकट से सम्बद्ध ऐसे सामान्य नियमों पर जोर देते हुये जिनका ऊपर उल्लेख नहीं है, यह स्वीकार करते हैं कि शूद्रगण व्यवसायी^{३०} बन कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार व्यापार^{३१} कर सकते थे ।

- इनके अतिरिक्त सूत्रों^{३२} में सभी जाति के व्यक्तियों को शूद्रा स्त्री के साथ विवाह की स्वीकृति दी गई है । यद्यपि वत्स^{३३} और कवष^{३४} पर यह आक्षेप था कि यह लोग क्रमशः एक शूद्रा और एक दामी के पुत्र थे, तथापि इस प्रकार के आक्षेपों की सम्भावना यह व्यक्त करती है कि ऐसे विवाह होते थे । इसके अतिरिक्त, आर्य और शूद्रा, अथवा शूद्र और आर्या के बीच अवैध सम्बन्धों का यजुर्वेद की संहिताओं^{३५} में उल्लेख है ।

‘शूद्र’ शब्द की उत्पत्ति सर्वथा अस्पष्ट है, किन्तु रिसमर^{३६} यह व्यक्त करते हैं कि टॉलमी^{३७} ने एक जाति के रूप में सुड्रोए (Συδροι) का उल्लेख किया है जिससे आपके विचार से ‘ब्राहुई’ का तात्पर्य है । इस समीकरण^{३८} पर

^{२७} गौतम, १२. ४-६ ।

^{२८} आपस्तम्ब, १. ५, १७, १; २. २, ३, ४, इत्यादि ।

^{२९} आपस्तम्ब, १. ५, १६, २, इत्यादि ।

^{३०} गौतम, १०. ६० । तु० की० १०. ५०-६७, सैद्धान्तिक रूप से शूद्रों के कर्तव्यों के विस्तृत विवरण के लिये । अपने स्वामी के साथ इनका परस्पर सहयोग का सम्बन्ध होता है ।

^{३१} विष्णु २. १४ ।

^{३२} पारस्कर गृह्यसूत्र १. ४, ११ । इसके विपरीत नियम (जैसे गोभिल गृह्यसूत्र ३. २, ५२) विशेष अवसरों के लिये हैं । देखिये वेबर उ० पु० १०, ७४ । दूसरी ओर शूद्र और आर्य स्त्री के बीच अवैध समोग के लिये सूत्रों में कठिन दण्ड का विधान है । देखिये आपस्तम्ब १. १०, २६, २०, २७, ९; गौतम १०. २. ३ ।

^{३३} पञ्चविंश ब्राह्मण १४. ६, ६ ।

^{३४} ऐतरेय ब्राह्मण २. १९, १ ।

^{३५} आर्य और शूद्रा : वाजसनेयि संहिता २३. ३०; तैत्तिरीय संहिता ७. ४, १९, ३; मैत्रायणी संहिता ३. १३, १, काठक संहिता, अश्वमेध, ४. ८ । शूद्र और आर्या : वाजसनेयि संहिता २३. ३१ । इस मंत्र की शतपथ ब्राह्मण, निःसन्देह जानबूझ कर उपेक्षा करता है ।

^{३६} आस्टिन्डिशे लेवेन, २१६, ४३५ ।

^{३७} ६. २० ।

^{३८} अब जातिविज्ञान शास्त्र की दृष्टि से ‘ब्राहुई’ को द्रविड नहीं वरन् टर्को-ईरानियन माना जाता है (इन्डियन एम्पायर, १, २९२, ३१०) । ऐसा कहा गया है (वही १, ३८२) कि यह मूल द्रविडों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भारत में ‘मुण्डा’ जाति में विलीन हो गये थे; किन्तु यह मत इस तथ्य द्वारा अप्रमाणित हो जाता है कि ऋग्वेद में दस्युओं को ‘अनास’

(नासिका विहीन तु० की० दस्यु, नोट ७) कहा गया है, जो शब्द द्रविडों के लिये तो भली प्रकार व्यवहृत हो सकता है किन्तु टर्को-ईरानियन प्रकार के लोगों के लिये इसका व्यवहार हास्यास्पद ही होगा। यह

मानना अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त है कि 'ब्राहुइ' एक मिश्रित जाति के लोग थे जिनके कालान्तर में अधिकांश द्रविड-गुण लुप्त हो गये। द्रविडों और मुण्डा भाषा भाषियों के सन्बन्ध पर वैदिक ग्रन्थ कोई प्रकाश नहीं डालते।

किसी प्रकार का जोर दिये बिना ही इस मत^{३९} को ग्रहण कर लेना तर्क-संगत होगा कि मूलतः यह शब्द एक ऐसी विस्तृत जाति के लोगों का नाम था जो आर्य-आक्रमण के विरोधी थे। देखिये निषाद भी।

^{२९} देखिये वेवर. इन्डिशे स्टूडियन १८, ८५, २५५, लुडविड. ऋग्वेद का अनुवाद, ३, २१२, फिक डी० ग्ली०, २०१, २०२।

तु० की०, फॉन थ्रोडर. इन्डियन लिटरेचर उन्ट कल्चर, ११४, १५५, जॉर्जी. त्सी० ने० ५०, ५१५, फिक डी० ग्ली०, २०१ और वाद, रिज डेविट्स बुद्धिस्ट इन्डिया ५४,

हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० १३, ७३, और वाद (महाकाव्य में शूद्र के लिये), रिसमर आस्ट्रिन्डिशे लेवन १९१ और वाद, वेवर. इन्डिय लिटरेचर, १८, ७७, १११, ११२, २७६, इन्डिशे स्टूडियन, १०, ४ और वाद; मूडर : सस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, ८ और वाद।

शूद्रा अथर्ववेद^१ और वाद^२ में शूद्र-स्त्री का द्योतक है।

^१ ५ २२, ७ (= दासी ५ २२, ६)।

^२ तैत्तिरीय संहिता ७ ४, १०, ३, काठक संहिता, अश्वमेध, ४ ८, मैत्रायणी संहिता ३ १३, १, वाजसनेयि संहिता

२३. ३०, इत्यादि; 'शूद्रा-पुत्र' (शूद्र-स्त्री से उत्पन्न पुत्र), पञ्चविंश ब्राह्मण १४ ६, ६।

शूर, नियमित रूप से ऋग्वेद^१ तथा अक्सर वाद^२ में 'वीर' अथवा 'योद्धा' का द्योतक है।

^१ १ ७०, ११, १०२, ६, १४१, ८; १५८, ३, २ १७, २, ३०, १०, इत्यादि।

^२ अथर्ववेद ८ ८, १, वाजसनेयि संहिता

१६ ३४, २० ३७, इत्यादि (देवों, इन्द्र और अग्नि के लिये), 'शूर-वीर', अथर्ववेद, ८ ५, १।

शूर-वीर माण्डूक्य ('माण्डूक्य' का वंशज) ऋग्वेद के आरण्यकों^१ में एक गुरु का नाम है।

^१ ऐतरेय आरण्यक ३. १, १ ३ ४, शाङ्खायन आरण्यक ७ २ ८ ९ १० (जहाँ इस नाम का पाठ 'शौर-वीर' है)।

शूर्प अथर्ववेद^१ और वाद^२ में भक्ष 'ओसाने' के लिये प्रयुक्त एक विनी हुई टोकरी का द्योतक है। इसे अथर्ववेद^३ में 'वर्ष-वृद्ध' (वर्षा से फूला हुआ) कहा गया है, जिससे, जैसा कि तिसमर^४ का कथन है, ऐसा व्यक्त होता है कि यह अक्सर सूखी लकड़ी की नहीं वरन् नरकट की बनी होती थी।

^१ ९, ६, १६, १०, ९, २६; ११. ३, ४, १२, ३, १९ और वाद, २०, १३६, ८।

^२ तैत्तिरीय संहिता १, ६, ८, ३, तैत्तिरीय ब्राह्मण १, ६, ५, ४, ३, २, ५, ११, इत्यादि।

^३ १२. ३, १९।

^४ आष्टिन्दिशे लेवेन, २३८।

तु० की० विट्ने : अथर्ववेद का अनुवाद, ६८६, में लैनमैन, ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त ६४९।

शूल, जो कि माँस भूनने के लिये प्रयुक्त शलाका का द्योतक है, ऋग्वेद^१ तथा वाद के ब्राह्मणों^२ में मिलता है।

^१ १, १६२, ११।

^२ शतपथ ब्राह्मण ११. ४, २, ४, ७, ३, २, ४, ३, छान्दोग्य उपनिषद् ७. १५, ३ (अन्त्येष्टि के समय प्रयुक्त तथा, भूनने को व्यक्त करता हुआ)। रुद्र के आयुध के रूप में 'शूल' एक वाद के ग्रन्थ,

षड्विंश ब्राह्मण ५, ११, से पहले नहीं मिलता। वैदिकोत्तर भाषा में 'त्रि-शूल' शिव का नियमित आयुध है।

तु० की० तिसमर : आष्टिन्दिशे लेवेन, २७१।

१. शूष वाष्णी ('वृष्णि' का वंशज) का तैत्तिरीय ब्राह्मण (३. १०, ९, १५) में 'भादित्य' के साथ अभिषिक्त हुये होने का सम्मान प्राप्त करनेवाले के रूप में उल्लेख है।

२. शूष वाहेय ('वह्नि' का वंशज) भारद्वाज (भरद्वाज का वंशज), वंश ब्राह्मण^१ में अराड दात्रेय शौनक के शिष्य, एक गुरु का नाम है। तु० की० श्रुष।

^१ इन्दिशे स्टूडियन, ४, ३७३।

शृङ्ग ऋग्वेद^१ और वाद^२ में किली प्रकार के पशु की 'सींग' का द्योतक है। इसीलिये अथर्ववेद^३ में वाण के 'शूलाग्र' को उसकी सींग कहा गया है।

^१ १, १४०, ६; १६३, ११, २. ३९, ३, ३, ८, १०, इत्यादि।

^२ अथर्ववेद २, ३२, ६, ८. ६, १४, ९

४, १७, इत्यादि।

^३ ४. ६, ५। तु० की० विट्ने : अथर्ववेद का अनुवाद, १५४।

शृङ्ग-वृष् ऋग्वेद^१ के एक सूक्त में किसी मनुष्य का नाम है। लुडविग^२ के अनुसार यह पृदाकुसानु का पिता था।

^१ ८. १७, १३।

तु० ग्री० ग्रिफिथ : ऋग्वेद के

^२ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६१।

सूक्त, २, १४२, नोट।

शेरभ और शेरभक अथर्ववेद^१ में सर्पों अथवा दानवों के नाम हैं।

^१ २. २४, १। तु० की० विहट्टने : अथर्ववेद का अनुवाद, ६४।

शेव-धि, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'कोश' अथवा 'निधि' का द्योतक है।

^१ २. १३, ६, ७. ५३, ५; ९ ३, १५

^२ अथर्ववेद ५. २२, १४, वाजसनेयि संहिता

(लाक्षणिक आशय में)। तु० की० ८

१८. ५९, इत्यादि।

५२, ९।

शेवृघ और शेवृघक अथर्ववेद^१ में सर्पों अथवा दानवों के नाम हैं।

^१ २. २४, १। तु० की० विहट्टने : अथर्ववेद का अनुवाद, ६४।

शेषणा से, अथर्ववेद (७. १०९, ५) में पासों को फेंकने के लिये उठाने (ग्लहन, ग्रहण करने) के विपरीत, पासों को 'फेंकने' या 'छोड़ने' का अर्थ है। तु० की० ग्लह।

शेषस् ऋग्वेद^१ में 'सन्तान' का द्योतक है।

^१ १ ९३, ४, ५. १२, ६, ७०, ४, ६ २७, ४ ५, ७. १, १२, ४, ७; १०. १६, ५।

शैब्य (शिवियों का), ऐतरेय ब्राह्मण (८. २३, १०) में राजा अमित्रतपन शुष्मिणा की उपाधि है। प्रश्न उपनिषद् (१. १; ५. १) में 'शैब्य' एक गुरु, सत्यकाम, का पैतृक नाम है।

शैलन, बहुवचन में जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (१. २, ३; २. ४, ६) में आचार्यों के एक सम्प्रदाय का नाम है।

शैलालि ('शिलालिन्' का वंशज) शतपथ ब्राह्मण^१ में एक सांस्कारिक गुरु का नाम है। आपस्तम्ब श्रौत सूत्र^२ में एक 'शैलानि' ब्राह्मण का उल्लेख है और 'शैलालिनों' का मत-सम्प्रदाय सूत्रों^३ में अक्सर आता है।

^१ १३ ५, ३, ३।

^२ ६ ४, ७।

^३ अनुपद सूत्र, ४ ५, इत्यादि।

तु० की० वेवर . इन्डिशे स्टूडि-

यन १, १५६, इन्डियन लिटरेचर १९७, जो 'शिलालिनों' को आरोपित नट सूत्र की, पाणिनि ४ २, ११०, १११ के साथ तुलना करते हैं।

शैलिन अथवा शैलिनि ('शिलिन' का वंशज) शतपथ ब्राह्मण^१ में जित्वन् का पैतृक नाम है । सम्भवतः इसके साथ शैलिन की तुलना करनी चाहिये ।

^१ 'शैलिन', बृहदारण्यक उपनिषद् ४. १, ५, माध्यदिन, में; 'शैलिनि' बृहदारण्यक उपनिषद् ४ १, २, काण्व में ।

तु० की० मैक्समूलर : से० तु० ई०, १५, १५२, नोट २ ।

शैलूष को यजुर्वेद^१ में पुरुषमेध के वलि-प्राणियों की तालिका में सम्मिलित किया गया है । इससे एक 'अभिनेता' या 'नर्तक' का आशय हो सकता है । सायण के अनुसार यह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पत्नी की वैश्यावृत्ति पर निर्भर रहता है ।

^१ वाजसनेयि संहिता ३० ६, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, २, १, तु० की० तिस्र आष्टिन्दिशे लेवेन, २९०, वेवर. इन्डियन लिटरेचर, १११, १९६, १९७ । 'शैलूष' का ठीक-ठीक आशय इस बात

पर निर्भर करता है कि भारत में नाटक कितना प्राचीन है । इसके लिये तु० की० इतिहास; कीथ : ज० ए० सो०, १९११, ९९५ और बाद ।

शोण सात्रासाह का, जो एक पञ्चाल राजा और कोक का पिता था, शतपथ ब्राह्मण^१ में अश्वमेध करनेवाले रूप में उल्लेख है । इसके अश्वमेध में तुर्वश लोग भी उपस्थित थे ।

^२ १३. ५, ४, १६-१८ । तु० की० एग्लिङ्ग : से० तु० ई० ४४, ४०० ।

शौङ्गायनि ('शौङ्ग' का वंशज) वंश ब्राह्मण^१ में एक गुरु का नाम है ।

^१ इन्दिशे स्टूडियन, ४, ३७२, ३८३ । आश्वलायन श्रौतसूत्र, १२ १३, ५,

इत्यादि, में 'शुङ्ग-गण' आचार्यों के रूप में शत हैं ।

शौङ्गी-पुत्र ('शुङ्ग' के एक स्त्री-वंशज का पुत्र) बृहदारण्यक उपनिषद्^१ के अन्तिम वंश में साकृती-पुत्र के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

^१ ६. ४, ३१ (माध्यदिन=६ ५, २, काण्व)।

शौच ('शुचि' का वंशज) उग्र आह्वेय नामक मनुष्य का नाम है जिसका तैत्तिरीय भारण्यक (२. १२) में एक गुरु के रूप में उल्लेख है ।

शौचद्-रथ ('शुचद्-रथ' का वंशज) ऋग्वेद (५. ७९, २) में सुनीथ का पैतृक नाम है ।

शौचेय ('शुचि' का वंशज) प्राचीनयोग्य ('प्राचीनयोग' का वंशज) शतपथ ब्राह्मण (११. ५, ३, १. ८) में एक गुरु का नाम है । 'शौचेय', तैत्तिरीय संहिता (७. १, १०, २) में सार्वसेनि का पैतृक नाम भी है ।

शौनक ('शुनक' का वंशज) एक सामान्य पैतृक नाम है । यह इन्द्रोत्^१ और स्वैदायन^२ के लिये व्यवहृत हुआ है । बृहदाण्यक उपनिषद्^३ में रौहिर्यायन के गुरु के रूप में एक शौनक आता है । कौपीतिक ब्राह्मण^४ में एक 'शौनक-यज्ञ' का उल्लेख है । छान्दोग्य उपनिषद्^५ में अतिघन्वन् शौनक एक गुरु के रूप में आता है । इसी उपनिषद्^६ तथा जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण^७ में शौनक कापेय का उल्लेख है जो उस अभिप्रतारिन् काक्षसेनि का समकालीन था, जिसका इस द्वितीय उपनिषद् के एक अन्य स्थल^८ के अनुसार शौनक ही पुरोहित था । सूत्रों और बृहद्देवता, इत्यादि में, व्याकरण, संस्कार, तथा अन्य विषयों के एक महान आचार्य के रूप में भी एक शौनक आता है ।^९

^१ शतपथ ब्राह्मण १३ ५, ३, ५; ४, १ ।

^२ वही, ११ ४, १, २ ।

^३ २ ५, २०, ४ ५, २६ माध्यदिन ।

^४ ४. ७ ।

^५ १ ९, ३ ।

^६ ४ ३, ५ ७ ।

^७ ३ १, २१ ।

^८ १. ५९, २ ।

^९ तु० कौ० वेदर. इन्डियन लिटरेचर, २४, ३२-३४, ४९, ५४, ५६, ५९, ६०, ८५, १४३, मैकडौनेल. बृहद्देवता, १, xxiii, कीथ : ऐतरेय आरण्यक, १८, २९, २९७ ।

शौनकी-पुत्र ('शुनक' के एक स्त्री-वंशज का पुत्र) माध्यदिन शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद् (६. ४, ३०. ३१) के अंतिम वंश में काश्यपीवाला-क्यामाठरीपुत्र के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

शौर्ष-शाख्य ('शूर्षणाय' का वंशज) माध्यदिन शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद् (२. ५, २०; ४. ५, २६) के प्रथम दो वंशों में गौतम के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

शौल्वायन अथवा शौल्वायन ('शुल्ब' का वंशज) एक गुरु, उदङ्क^१, का पैतृक नाम है । शतपथ ब्राह्मण^२ के अनुसार एक शौल्वायन उन लोगों का अध्वर्यु पुरोहित था जिनके गृहपति (होता की उपाधि, जो कि यज्ञ-सत्र के समय अग्रगामी होता है) त्रयस्थूण थे ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ७ ४. ५, ४, ५, ४ २, बृहदारण्यक उपनिषद् ४ १, २ माध्यदिन ।

^२ ११. ४, २, १७ और वाद ।

शौष्कल, यजुर्वेद^१ में पुरुषमेध के वलिप्राणियों में से एक का नाम है। इसका मेन्ट पौटर्सवर्ग कोश के अनुसार 'सूखी मछली अथवा सूखे मांस पर निर्भर रहनेवाला',^२ अथवा देशीय कोशकारों के अनुसार 'सूखी मछली बेचने वाला', अर्थ है, जब कि तैत्तिरीय ब्राह्मण के सायण-भाष्य में 'कंटियों' से मछली पकड़नेवाले के रूप में इसकी व्याख्या की गई है।

^१ वाजसनेयि संहिता ३० १६, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, १२, १। तु० की० वेवर . इन्डिशे स्ट्यूफेन, १, ८', नोट

७, एग्लिङ्ग . से० तु० ई०, ४४, ४१५।
^२ इसका शब्दार्थ, 'सूखी (शुष्कल) वस्तु से सम्वद्ध', है।

श्रुष्टि अज्जिरस (अज्जिरस् का वंशज) पञ्चविंश ब्राह्मण^१ में सामनों के एक द्रष्टा का नाम है।

^१ १३ ११, २१। तु० की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथोलोजी, २, १६०, हॉप-किन्स . ट्रा० सा०, १५, ६८।

श्मशान उस समाधि का नाम है जिसके भीतर मृतक की अस्थियों को गाढ़ा जाता था (तु० की० अनग्निदग्ध)। इसका अथर्ववेद,^१ तथा अक्सर वाद^२ में भी उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण^३ में ग्राम की सीमा से ओझल, उत्तर की ओर झुके, सुन्दर और शान्त अथवा वज्र स्थान पर, दक्षिण-पूर्वाभिमुख चतुष्कोणीय समाधि बनाने का विधान है। अग्निचित् द्वारा अग्नि-वेदिका के ही समान अन्त्येष्टि-वेदिक का निर्माण करने का विधान है। प्राच्यों की समाधियाँ गोलाकार होती थीं।

^१ ५ ३१, ८, १० १, १८।

^२ तैत्तिरीय संहिता ५ २, ८, ५, ४, ११, ३, काठक संहिता २१ ४, मैत्रायणी संहिता ३ ४, ७, शतपथ ब्राह्मण ४. ५, २, १५, इत्यादि।

^३ १३ ८, १, १ और वाद। तु० की०

एग्लिङ्ग : से० तु० ई०, ४४, ४२४ और वाद।

तु० की० रिसमर आस्ट्रिन्डिशे लेवेन, ४०७, हॉपकिन्स ज० अ० ओ० सो०, १६, clui।

श्मश्रु का ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'दाढ़ी' और 'मूँछ' अर्थ हैं। कभी-कभी इसका केश^३ (सर का बाल) के साथ विभेद भी किया गया है। दाढ़ी

^१ २ ११, १७, ८ ३३, ६, १०, २३, १ ४, २६, ७, १४२, ४।

^२ अथर्ववेद ५ १९, १४, ६. ६८, २;

वाजसनेयि संहिता १९ ९२; २० ५,

इत्यादि। पशुओं के लिये व्यवहृत, वही, २५ १; शतपथ ब्राह्मण १२. ९, १, ६ इत्यादि।

^३ शतपथ ब्राह्मण २. ५, २, ४८, इत्यादि।

घनवाना (देखिये वसू और दूर) ज्ञात था । तैत्तिरीय संहिता^१ के अनुसार दाढ़ी रखना पुरुषत्व का द्योतक माना जाता था, और यह मेगास्थनीज़^२ के इस विवरण के सर्वथा अनुकूल है कि भारतीय मृत्यु के दिन तक अपनी दाढ़ी को भली प्रकार सजा कर रखते थे ।

^१ ५. ५, १, १ ।

^२ डियोडोरस, ३ ६३, में ।

तु० की० तिसर : आस्टिन्डिशे

लेवेन, २६५-२६७ ।

श्यापर्ण सायकायन उस अन्तिम व्यक्ति का नाम है जिसके लिये शतपथ ब्राह्मण^१ के अनुसार यज्ञ-वेदिका के निर्माण के समय पाँच बलि-प्राणियों का बध किया गया था । हमी ग्रन्थ^२ में इसका पुनः यज्ञ-वेदिका का निर्माण करनेवाले के रूप में उल्लेख है । यह किसी न किसी प्रकार सत्वों^३ से सम्बद्ध रहा होगा । इसके परिवार, श्यापर्णों, का ऐतरेय ब्राह्मण^४ में उल्लेख है, जहाँ ये उस आत्माभिमानी पुरोहित-परिवार के रूप में आते हैं जिन्हें राजा विश्वन्तर ने अपना यज्ञ कराने से वंचित कर दिया था, किन्तु इनका एक नायक, राम मार्गवेय, इन्हें पुनः ग्रहण कर लेने के लिये राजा को मना सकने में सफल हो गया था । श्यापर्ण किसी न किसी रूप में कुन्तियों द्वारा पञ्चालों की पराजय से भी सम्बद्ध था ।^५

^१ ६. २, १, ३९ ।

^२ ९ ५, २, १ ।

^३ १०. ४, १, १० ।

^४ ७ २७ । तु० की० एग्लिङ्ग : से० तु० ई०,

४३, ३४४-३४५, मूरर : सस्कृत टेक्स्ट्स,

१^२, ४३७ और वाद, वेवर : इन्डिशे

स्टूडियन, १, २१५, २१६ ।

^५ वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, ३, ४७१ ।

श्याम भी अयस् के साथ सम्भवतः अथर्ववेद^१ में 'लोहे' का द्योतक है । अथर्ववेद^२ और वाद^३ में 'श्याम' से अकेले भी यही आशय है ।

^१ ११ ३, ७ ।

^२ ९ ५, ४ ।

^३ तैत्तिरीय संहिता ४ ७, ५, १, काठक संहिता १८ १०, मैत्रायणी संहिता

२ ११, ५; वाजसनेयि संहिता १८ १३ ।

तु० की० तिसर : आस्टिन्डिशे

लेवेन, ५२, ५४, श्रेडर : प्रिडिस्टॉरिक

एन्टीक्विटीज १८९ ।

श्याम-जयन्त लौहित्य ('लोहित' का वंशज) जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ४२, १) के एक वश में जयन्त पाराशर्य के शिष्य, एक गुरु का नाम है । इस स्थल पर इसी नाम का एक अन्य व्यक्ति मित्रमूर्ति लौहित्य के शिष्य के रूप में आता है ।

श्याम-पर्ण काठक^३ और मैत्रायणी^२ संहिताओं में उस व्यक्ति का नाम है जिसे सोमदत्त कौश्रेय ने शिष्या दी थी ।

^३ २० ८ (इन्डिशे स्टूडियन, ३, ४७२) । | ^२ ३. २, ७ ।

श्याम-सुजयन्त लौहित्य ('लोहित' का वंशज) जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ४२, १) के एक वंश में कृष्णधृति सात्यकि के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

श्यामाक, वाद की संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में एक प्रकार के कृषित प्रियंगु (*Panicum frumentaceum*) का नाम है । अथर्ववेद^३ में इसके बीज के हल्केपन का उल्लेख है, और यहीं यह कहा गया है कि यह हवा में उड़ जाता है । यहाँ कपोतों के भोजन के रूप में भी इसका उल्लेख है ।^४ श्यामाक तथा इसके बीज (तण्डुल) को छान्दोग्य उपनिषद्^५ में अत्यन्त छोटा बताया गया है; जहाँ मैक्समूलर^६ ने इसका 'कनारी नामक पक्षी को खिलाया जानेवाला बीज' (Canary seed) अनुवाद किया है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता १ ८, १, २; २. ३, २, ६, ४. ७, ४, २; मैत्रायणी संहिता २, ११, ४, वाजसनेयि संहिता १८ १२; काठक संहिता १०. २ ।

^२ शतपथ ब्राह्मण १०. ६, ३, २; १२ ७, १, ९, इत्यादि; कौषीतकि ब्राह्मण ४. १२ ।

^३ १९ ५०, ४ ।

^४ २०. १३५, १२ ।

^५ ३. १४, ३ ।

^६ से० बु० ई० १, ४८ ।

तु० की० तिसर : आस्ट्रिन्डिशे

लेवेन २४१, २७५ ।

१. श्याव, ऋग्वेद^१ में अश्विनों के एक आश्रित का नाम है । हिरण्यहस्त के साथ इसका समीकरण किया जा सकता है ।

^१ १. ११७, २४; १० ६५, २ । तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५०; मैकडौनेल · वैदिक माइथोलोजी, पृ० ३२ ।

२. श्याव का ऋग्वेद^१ में सुवास्तु नदी के तट पर रहनेवाले एक उदार दाता के रूप में उल्लेख है ।

^१ ८ १९, ३७ । तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६१ ।

३. श्याव ऋग्वेद के एक स्थल (५. ६१, ९) पर स्पष्टतः, जैसा कि सायण का विचार है, श्यावाश्व का द्योतक प्रतीत होता है ।

श्यावक का ऋग्वेद (८. ३, १२; ४, २) में एक यज्ञकर्ता तथा इन्द्र के मित्र के रूप में उल्लेख है। १. श्याव के साथ इसे समीकृत किया जा सकता है।

श्यावसायन, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ४०, २) में देवतरस् का पैतृक नाम है। इसका रूप सम्भवतः शावसायन का ही एक अशुद्ध रूप है।

श्यावाश्व एक व्यक्ति का नाम है, जिसका ऋग्वेद^१ में अनेक बार उल्लेख है। अनुक्रमणी द्वारा इसे पाँचवें, आठवें, और नवें मण्डल के कई सूक्तों के प्रणयन का श्रेय दिया गया है।^२ इनमें से एक सूक्त^३ में श्यावाश्व ने, प्रत्यक्षतः अपने प्रतिपालकों के रूप में, तरन्त (विददश्व का पुत्र) और पुरुमीळह, तथा साथ ही साथ, रथवीति का उल्लेख किया गया है। इसी सूक्त पर वृहद्देवता^४ में मिलनेवाली यह कथा आधारित है कि यह उस अर्चनानस् का पुत्र था जिसने रथवीति दाक्षिण्य के लिये यज्ञ किया था। इसका पिता अपने पुत्र के विवाह के लिये राजा की पुत्री को प्राप्त करना चाहता था; किन्तु यद्यपि राजा तो तैयार हो गया तथापि उसकी पत्नी यह चाहती थी कि उसका दामाद एक ऋषि हो। इस प्रकार निराश होकर पिता और पुत्र जब अपने घर लौट रहे थे तब मार्ग में उनकी तरन्त और पुरुमीळह से भेंट हो गई जो राजा के पिता के पूर्व-प्रतिपालक थे। इन दोनों ने उनके प्रति आदर भाव प्रदर्शित किया तथा तरन्त की पत्नी 'शशीयसी' ने श्यावाश्व को प्रचुर धन का दान दिया। इसके पश्चात् पुत्र की सौभाग्य से वन में मरुतों से भेंट हो गई और वह इनकी (मरुतों की) स्तुति करके ऋषि बन गया। परिणाम-स्वरूप उक्त राजा ने अन्ततोगत्वा स्वयं अपनी पुत्री श्यावाश्व को समर्पित कर दी। सीग^५ यह दिखाने का प्रयास करते हैं हम कथा की पूर्व-मान्यता ऋग्वेद से ही मिलती है, किन्तु इस मत को स्वीकार करना कठिन है क्योंकि ऋग्वेद के सन्दर्भ अत्यन्त अस्पष्ट हैं, और 'शशीयसी' एक उपाधि से अधिक

^१ ५ ५२, १, ६१, ५ ९ (इस नाम का एक लघु रूप 'स्याव' यहाँ प्रयुक्त हुआ है), ८१, ५, ८ ३५, १९, ३६, ७, ३८, ८ ।

^२ ५ ५०-६१, ८१, ८०, ८ ३५-३८, ९ ३० ।

^३ ५ ६१ ।

^४ ५ ४९ और वाद । देखिये ऋग्वेद ५

६१ पर अनुक्रमणी (मैकडोनेल संस्करण, पृ० ११७ और वाद) में पड्युरुशिष्य, ऋग्वेद ५ ६१, १७-१९, सीग सा० ऋ०, ५० और वाद, में नोतिमजरी ।

^५ उ० पु० ५०-६० । तु० की० गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन, ३, १४८ ।

और कुछ नहीं।^६ इस सूक्त के पीछे कोई इतिहास है, यह स्पष्ट है; किन्तु क्या है इसका अर्थ कदाचित्त ही निर्णय किया जा सकता है।

श्यानाश्व द्वारा 'वैददश्वि' से उपहार प्राप्त करने का शाङ्खायन श्रौत सूत्र^७ में भी सन्दर्भ मिलता है। अथर्ववेद^८ में व्यक्तियों के नाम की दो तालिकाओं में इसका नाम आता है जिनमें से प्रथम में 'पुरुमीढ', और द्वितीय में अर्चनानस् तथा अत्रि भी सम्मिलित हैं। पञ्चविंश ब्राह्मण^९ में इसे एक सामन् आरोपित किया गया है और तैत्तिरीय आरण्यक^{१०} में भी सम्भवतः इसका ही सन्दर्भ है। शाङ्खायन श्रौत सूत्र और पञ्चविंश ब्राह्मण^{११} में इसे 'आर्चनानस' ('अर्चनानस्' का पुत्र), और वाद^{१२} में 'आत्रेय' ('अत्रि' का वंशज) कहा गया है।

^६ ५ ६१, ६। रौथ : सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश,, व० स्था०, और वेवर ऐ० रि० २७, ने इस शब्द को एक उपाधि के रूप में ही ग्रहण किया है।

^७ १६ ११, ७-९।

^८ ४ २९, ४; १८ ३, १५।

^९ ८ ५, ९। वेवर : ए० रि०, २७, नोट ४, इस असम्मान्य अनुमान पर आधारित हैं कि यह एक क्षत्रिय था।

^{१०} १ ११, २। किन्तु तु० की० सीग. उ० पु० ६१, नोट ४, जो इस शब्द को विशेषण के रूप में ग्रहण करते हैं जैसा अथर्ववेद ११. २, १८ में है, शाङ्खायन

श्रौतसूत्र १४ ३३, ०६।

^{११} ८ ५, ९।

^{१२} अनुक्रमणी में इसे और इसके पिता को आत्रेय कहा गया है। नोट १ के अन्तर्गत ऋग्वेद के ८वें मण्डल से उद्धृत स्थल पर अत्रि का इसके साथ उल्लेख है।

तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १२६, १२७, औरडेनवर्ग : त्सी० गे० ४२, २१८, ऋग्वेद-नोट, १, ३५४, मैक्स मूलर 'से० तु० ई० ३२, ३५९, और वाद, लेवी 'ल' डाक्ट्रिन डु सैक्रीफाइस, १२२।

श्येन, ऋग्वेद^१ में एक शक्तिशाली हिंसक पक्षी, बहुत सम्भवतः वाद के 'गरुड' या 'गृद्ध' का नाम है। वाद^२ में (जैसा कि वैदिकोत्तर साहित्य में भी है) इससे 'वाज्र' या 'चीरह' का अर्थ प्रतीत होता है। यह पक्षियों में तीव्र गतिवाला^३ और छोटे-छोटे पक्षियों के लिये भयकारक होता था।^४ यह पक्षियों में सर्वाधिक शक्तिशाली भी होता था,^५ और पशुओं तक पर आक्रमण कर

^१ १ ३२, १४, ३३, ०, ११८, ११; १६३, १, १६५, २, इत्यादि।

^२ अथर्ववेद ३ ३, ४, ७ ४१, २, ११. ९, ९, इत्यादि।

^३ तैत्तिरीय संहिता २. ४, ७, १; ५ ४, ११, १; पञ्चविंश ब्राह्मण ३. ८।

^४ ऋग्वेद ० ४०, २; अथर्ववेद ५ २१, ६।

^५ काठक संहिता ३७. १४।

सकता था ।^६ यह मनुष्यों पर दृष्टि रखता था (नृ-चक्षुस्),^७ जिससे निःसन्देह इससे आकाश में अत्यधिक ऊँचाई पर उड़ने का सन्दर्भ है । यह आकाश से सोम को लाता था ।^८

^६ ऋग्वेद ४ ३८, ५ । यह श्येन द्वारा भेद के छोटे बच्चों को उठा ले जाने के तथ्य के सर्वथा अनुकूल है ।

^७ अथर्ववेद ७ ४१, २ ।

^८ देखिये ब्लूमफील्ड : ज० अ० ओ० सो० १६, १-२४, जो सभी सम्बद्ध स्थलों

को उद्धृत करते हैं ।

तु० की० रिसमर : आस्ट्रिन्डिये लेवेन, ८७, ८८, यह व्यक्त करते हैं कि श्येन के लिये व्यवहृत 'ऋजिप्य' (ऊँचा उड़ना) उपाधि, ईरानियन में श्येन का वास्तविक नाम ही है ।

अपयितृ (भोजन पकानेवाला) शतपथ ब्राह्मण (१. २, २, १४) में आनेवाला एक शब्द है ।

श्रमण (भिक्षुक सन्यासी) सर्वप्रथम उपनिषदों^१ में मिलता है । फिक^२ के अनुसार, कोई भी श्रमण बन सकता था । मेगास्थनीज़ के समय के लिये यह मेगास्थनीज़ के प्रमाणों द्वारा ही व्यक्त होता है, जो, फिर भी, वास्तविक मध्यदेश की सीमा के बाहर पूर्वी भारत में ही सम्बद्ध है ।^३ इसका वैदिक प्रमाण केवल इसका नाम तथा यह तथ्य है कि बृहदारण्यक उपनिषद् और तैत्तिरीय आरण्यक में इसके बाद तापस शब्द आता है ।

^१ बृहदारण्यक उपनिषद्, ४. ३, २२; तैत्तिरीय आरण्यक २ ७ (इन्डिजे स्टूडियन, १, ७८ में) ।

^२ डी० ग्ली० ३९ और बाद ।

^३ स्ट्रावो, १५. १, ४९, ६०; अरियन : इन्डिका १२ ८. ९ ।

तु० की० वेवर : इन्डियन लिटरेचर, २७, २८, १२९, १३८ ।

श्रवण—देखिये नक्षत्र ।

श्रवण-दत्त (श्रवण द्वारा प्रदत्त) कौहल ('कोहल' का वंशज) वंश ब्राह्मण^१ में सुशारद शालङ्कायन के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

^१ इन्डिजे स्टूडियन, ४, ३७२ ।

श्रविष्ठ—देखिये नक्षत्र ।

आर्यस, तैत्तिरीय संहिता^१ और काठक संहिता^२ में कण्व का पैतृक नाम है, जहाँ यह एक गुरु के रूप में आता है । तैत्तिरीय संहिता^३ के एक अन्य स्थल तथा पञ्चविंश ब्राह्मण^४ में यह वीतहव्य का पैतृक नाम है ।

^१ ५ ४, ७, ५ ।

^२ २१. ८ ।

^३ ५ ६, ५, ३ ।

^४ ९ १, ९; २५. १६, ३ ।

श्री, 'सम्पन्नता' के लिये नियमित शब्द है जो ऋग्वेद^१ में एक बार और वाद^२ में अक्सर मिलता है। देखिये श्रेष्ठिन् ।

^१ ८, २, १९, में यही आशय प्रतीत होता है।

^२ अथर्ववेद ६. ५४, १; ७३, १; ९ ५, ३१, २० ६, २६; ११ १, १२ २१, १२ १, ६३, ५, ७, तैत्तिरीय संहिता २ २, ८, ६; ५ १, ८, ६, ६. १, १०, ३; ७ २, ७, ३, इत्यादि। शतपथ ब्राह्मण (११. ४, ३) तक में इसे एक देवी

मान लिया गया है। देखिये रिज डेविड्स : बुद्धिस्ट इन्डिया, २१७ और वाद। यह प्राचीनतम बौद्ध मूर्तियों में ऐमे दो हाथियों के बीच बैठी मिलती है जो इस पर जल डाल रही हैं। इस प्रकार की देवी भारत में आज तक प्रचलित है।

श्रुत-कक्ष का ऋग्वेद^१ में एक बार उस सूक्त के ऋषि के रूप में उल्लेख है जिसके प्रणयन का अनुक्रमणी द्वारा इसे ही श्रेय दिया गया है। इसके एक सामन् का पञ्चविंश ब्राह्मण^२ में उल्लेख है।

^१ ८. ९२, २५। तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १०८।

^२ ९ २, ७ (श्रौत-कक्ष)।

श्रुत-रथ ऋग्वेद^१ में एक युवक राजा का नाम है। यह कक्षीयन्त सहित पञ्ज परिवार का प्रतिपालक भी था।^२

^१ १ १२२, ७।

^२ ऋग्वेद ५ ३६, ६। तु० की० लुडविग ।

ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५५; पिशल : वेदिशे स्टूडियन, १, ९७।

श्रुतर्य, ऋग्वेद (१. ११२, ९) में एक बार, अश्विनों के एक आश्रित के नाम के रूप में आता है।

श्रुतर्वन् आर्क्ष ('ऋक्ष' का वंशज) एक राजा का नाम है। ऋग्वेद (८. ७४, ४. १३) के एक सूक्त में इसकी उदारता की प्रशस्ति, और एक अन्य (१०. ४९, ५) में मृगय पर इसकी विजय का उल्लेख है।

श्रुतर-विद् ऋग्वेद^१ में एक मनुष्य का नाम है।

^१ ५ ४४, १०। तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १३८, १३९।

श्रुत-सेन का, शतपथ ब्राह्मण (१३. ५, ४, ३) और शाङ्खायन श्रौतसूत्र (१६. ९, ४) में जनमेजय के आताओं में से एक के रूप में उल्लेख है।

श्रुप वाहेय ('वह्नि' का वंशज) काश्यप (कश्यप का वंशज) जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ४०, १) में देवतरस् के शिष्य, एक गुरु का नाम

है। 'श्रुप' शब्द का शूष के स्थान पर एक मिथ्यपाठ होना अपेक्षाकृत अधिक सम्भव है।

श्रुष्टि-गु, ऋग्वेद^१ के वालखिल्य सूक्त में एक मनुष्य का नाम है।

^१ ८ ५१, १। तु० की० छुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १४०, १४१; हॉपकिन्स ज० अ० ओ० सो०, १७, ९०।

श्रेष्ठा से पत्तियों,^१ अथवा अश्वों,^२ अथवा रथों,^३ इत्यादि की पंक्ति का अर्थ है।

^१ ऋग्वेद ५ ५९, ७।

^२ ऋग्वेद १ १२६, ४।

^३ ऋग्वेद ४ ३६, ६, छान्दोग्य उपनिषद्

५ १४, १।

श्रेष्ठिन् ब्राह्मणों^१ के अनेक स्थलों पर आता है, जहाँ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश द्वारा इस शब्द को 'धनी व्यक्ति' का आशय प्रदान किया गया है। फिर भी, ऐसा सम्भव है कि इस शब्द में 'व्यापारियों की पंचायत के मुखिया' अथवा आधुनिक 'सेठ' का आशय वर्तमान रहा हो।^२ 'श्रैष्ठ्य'^३ के प्रयोग के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का सन्देह है, जो, जैसा कि सामान्यतया माना गया है, केवल 'श्रेष्ठतम स्थान' मात्र का नहीं वरन् निश्चित रूप से पंचायत की अध्यक्षता का द्योतक है।

सर्वां अथवा पंचायतों का धर्म सूत्रों^४ में उल्लेख और चौद्ध ग्रन्थों^५ तथा महाकाव्य^६ में महत्व है। किन्तु वैदिक प्रमाण यह सिद्ध कर सकने के लिये अपर्याप्त है कि वैदिक काल में भी इस प्रकार के संघटनों का अस्तित्व था।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ३ ३०, ३, कौपीतिक ब्राह्मण २८ ६, कौशितिक उपनिषद् ४. २०। 'भग' देवों के 'श्रेष्ठिन्' है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ १, ४, १०।

^२ हॉपकिन्स . इन्डिया ओल्ड ऐण्ड न्यू, १६८ और वाद।

^३ अथर्ववेद १ ९, ३ = तैत्तिरीय संहिता ३. ५, ४, २ = काठक संहिता ५ ६ = मैत्रायणी संहिता १ ४, ३। देखिये इस शब्द के लिये अथर्ववेद १० ६, ३१, ऐतरेय ब्राह्मण ४ २५, ८, ७ १८, ८, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ८, ९, १; शतपथ ब्राह्मण १३ ७, १, १,

छान्दोग्य उपनिषद् ५ २, ६, कौपीतिक उपनिषद् २. ६, ४. १५ २०, इत्यादि। सम्पूर्ण रूप से 'श्रेष्ठ्य' का प्रयोग इस सिद्धान्त के पक्ष में नहीं कि यह एक पारिभाषिक शब्द है।

^४ गौतम धर्मसूत्र, ११ २० २१ इत्यादि। फॉय . डी० गे० १४, नोट, २, इत्यादि।

^५ रिज डेविड्स . बुद्धिस्ट इन्डिया ८८, और वाद।

^६ हॉपकिन्स . ज० अ० ओ० सो० १३, ८१ और वाद।

श्रोत्रिय अथर्ववेद^१ और वाद^२ में 'वेद-वेदाङ्ग में निष्णात ब्राह्मण' का द्योतक है ।

^१ ९, ६, ३७, १०, २, २० और वाद ।

^२ काठक संहिता २३, ४, २८, ४, ऐतरेय ब्राह्मण १, २-१, १५; शतपथ ब्राह्मण ५, ४, ४, ५, १३, ४, ३, १४,

तैत्तिरीय उपनिषद् २, ८, इत्यादि ।

तु० की० 'महा-श्रोत्रिय' छान्दोग्य उपनिषद् ५. ११, १, में

श्रोत-ऋषि^१ अथवा श्रोतर्वि^२ ('श्रुतिऋषि' अथवा 'श्रुतर्वि' का वंशज), देवभाग का पौत्रक नाम है ।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ७. १, ६ ।

^२ शतपथ ब्राह्मण २. ४, ४, ५, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. १०, ९, ११ ।

श्रोमत्य ('श्रुमन्त्' का वंशज) शतपथ ब्राह्मण (१०. ४, ५, १) में एक गुरु का नाम है ।

श्लेष्मन् सामान्य रूप से उसका द्योतक है जिससे किसी वस्तु के भागों को आपस में जोड़ा जाता है ('श्लिप्', जोड़ना से) : चर्म^३ के सन्दर्भ में किसी प्रकार के फोतों से तात्पर्य हो सकता है; रथ^२ की दशा में सम्भवतः 'रस्सियों' या 'बन्धनों' का अर्थ है, और लकड़ी^३ की दशा में सम्भवतः 'गोंद' का आशय है ।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ५, ३२, ६, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण ३. १७, ३, छान्दोग्य उपनिषद् ४, १७, ४ ।

^२ काठक संहिता ३४, ९ । तु० की० पञ्चविंश ब्राह्मण १६, १, १३, जहाँ एक रथ को 'श्लेष्मवन्त्' (रस्सियों

से बँधा हुआ) कहा गया है ।

^३ कौषीतकि ब्राह्मण ६, १२ । तु० की० नोट १ में उद्धृत उपनिषद् और शाङ्खायन आरण्यक २. १, जो जैमिनीय के उद्धृत स्थल का ही एक अष्ट पाठ प्रतीत होता है ।

श्लोक की, बहुवचन में, बृहदारण्यक उपनिषद्^१ में दिये हुये साहित्यिक प्रकारों के अन्तर्गत उपनिषदों के वाद और सूत्रों के पहले गणना कराई गई है । तैत्तिरीय उपनिषद्^२ में 'श्लोक-कृत्' आता है । जैसा कि मैक्स मूलर^३ ने अनुवाद किया है, यह 'कवि' का ही द्योतक है, केवल 'मन्त्रोच्चारण'

^१ २, ४, १०; ४, १, ६ (माध्यन्दिन = ४. १, २ काण्व), ५, ११ ।

^२ ३. १०, ६ ।

^३ से० तु० ई० १५, ६९ ।

करनेवाले मात्र का नहीं जैसा कि सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश ने माना है ।^१ ठीक ठीक क्या अर्थ है यह कहा नहीं जा सकता : सामान्य रूप से ऐसे 'मन्त्रों' से तात्पर्य हो सकता है जिनके अनेक प्रकार ब्राह्मणों में सुरक्षित हैं और जिन्हें श्लोक कहा गया है ।^२

^४ अथर्ववेद ५ २०, ७, में कोश द्वारा इस शब्द को वही आशय प्रदान किया गया है ।

^५ उदाहरण के लिये शतपथ ब्राह्मण ११ ३, १, ५, ५, ४, १२; १३. ७, १,

१५, ऐतरेय ब्राह्मण ८. २२, ३; ऐतरेय आरण्यक २. ३, ८; पञ्चविंश ब्राह्मण २४ १८, ४; तैत्तिरीय आरण्यक ८. १; कौपीतकि उपनिषद् १. ६, इत्यादि ।

श्लोण्य, तैत्तिरीय ब्राह्मण^३ में 'लङ्गदेपन' का द्योतक है, 'श्वचा की व्याधि' (त्वग्-दोष) का नहीं जैसा कि भाष्यकार ने माना है ।

^३ ३ ९, १७, २ । तु० की० 'श्लोण'(लङ्गडा), अथर्ववेद १०. ४, ३; तैत्तिरीय संहिता ६ १, ६, ७, इत्यादि ।

श्व-मिन् से, ऋग्वेद^४ तथा अथर्ववेद^५ में स्पष्टतः 'घृतकार' अथवा 'घृत का व्यवसनी' अर्थ है । मूलतः यह 'आखेट करनेवाले' का द्योतक रहा हो सकता है ।^६

^४ १. ९२, १०; २ १२, ४, ४. २०, ३, | ^२ ४. १६, ५ ।

८ ४५, ३८ ।

^३ वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १८, ७१ ।

श्वन् ऋग्वेद^४ और वाद^५ में 'कुत्ते' के लिये प्रयुक्त शब्द है जिसका स्त्रीलिङ्ग 'शुनी'^६ है । कुत्ता पालतू जानवर होता था,^७ और चोरों तथा अन्य प्रकार के 'बलात् प्रवेशकों' के विरुद्ध गृह की रक्षा करने के लिये इसका प्रयोग होता था ।^८ वराह (वराह-यु)^९ के आखेट के लिये भी इसका व्यवहार होता था, किन्तु सिंह के विपरीत इसे नगण्य माना जाता था ।^{१०} वालखिल्य सूक्त^{११} की एक दान-स्तुति में सौ कुत्तों के उपहार का उल्लेख है ।

^१ १ १६१, १३ (जहाँ आशय अस्यन्त स्पष्ट है), १८२, ४, २. ३९, ४, इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद ६. ३७, ३, ११. २, २, पञ्चविंश ब्राह्मण ८ ८, २२, इत्यादि ।

^३ अथर्ववेद ४. २०, ७ (चतुर्-अपी),

शतपथ ब्राह्मण ६ ५, २, १९ ।

^४ ऋग्वेद २ ३९, ४ ।

^५ ऋग्वेद ७ ५५, ५ ।

^६ ऋग्वेद १० ८६, ४ ।

^७ अथर्ववेद ४ ३६, ६ ।

^८ ऋग्वेद ८ ५५, ३ ।

अन्यत्र, अस्वच्छ^९ होने के कारण, कुत्ते को बलि के लिये उपयुक्त नहीं माना गया है। और इसे यज्ञ स्थलसे भगा दिया जाता था।^{१०} कुत्ते के माँस का भक्षण नैराश्य तथा छुधा की अन्तिम दशा में ही किया जाता था।^{११} भोजनोत्सव के पश्चात् हड्डियाँ कुत्तों को दे दी जाती थीं।^{१२} एक कथा में इन्द्र के विश्वासपात्र कुत्ते^{१३} के रूप में 'सरमा' का उल्लेख है जो गायों को हूँदता है। यजुर्वेद^{१४} में रुद्र कुत्तों के अधिपति (श्व-पति) हैं; इसी संहिता^{१५} में पुरुषमेघ के बलि-प्राणियों की तालिका में 'कुत्तों की रखवाली करनेवाले' (श्वनिन्) का उल्लेख है। कुछ ग्रन्थों^{१६} में उल्लिखित चार आँखोंवाले (चतुर्-अक्ष) कुत्ते निःसन्देह पौराणिक^{१७} हैं। तु० की० कुर्कुर ।

^९ जैमिनीय ब्राह्मण १ ५१, ४; शतपथ ब्राह्मण १२. ४, १, ४।

^{१०} ऋग्वेद ९. १०१, १।

^{११} ऋग्वेद ४ १८, ३। बाद में 'श्व-पच' (कुत्ते का मास पकानेवाला) एक पतित जाति का द्योतक है।

^{१२} अथर्ववेद ६. ३७, ३। तु० की० ९ ४, १६।

^{१३} १ ६२, ३, ७२, ८, इत्यादि। देखिये मैकडौनेल वैदिक माह्यबौली, पृ० १५१।

^{१४} वाजसनेयि संहिता १६ २८, काठक संहिता १७ १३, मैत्रायणी संहिता २ ९, ५।

^{१५} वाजसनेयि संहिता १६. २७, ३०. ७, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, ३, १, इत्यादि।

तु० की० 'श्व नी' (कुत्ते का नायक), मैत्रायणी संहिता २ ९, ५।

^{१६} तु० की० ऋग्वेद १०. १४, १० ११; अथर्ववेद १८ २, ११. १२, तैत्तिरीय आरण्यक ६ ३, १; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ८, ४, १, शतपथ ब्राह्मण १३. १, २, ९, इत्यादि।

^{१७} ब्लूमफील्ड . ज० अ० ओ० सो० १५, १६५ और बाद, अथर्ववेद के सूक्त, ५००, का त्रिचार है कि सूर्य और चन्द्रमा ही यम के दो कुत्ते हैं (तु० की० दिव्य श्वन्)।

तु० की० तिसर . आरिडन्टिश् लेवेन, २३३, हॉपकिन्स . अ० फा० १५, १५४-१६३।

श्व-पद, अथर्ववेद (८. ५, ११; १९. ३९, ४) में 'हिंसक पशु' का द्योतक है।

श्वयथ से शतपथ ब्राह्मण^१ में 'सूजन' का अर्थ है। चौधायन श्रौत सूत्र^२ के अनुसार विदेह में व्यास 'शीयथु' नामक व्याधि भी सम्भवतः एक प्रकार की 'सूजन' (? 'गड्ड') थी।

^१ ४. २, १, ११ (एक पुराकथा में आँख की)।

^२ २ ५, कैलेण्ड . ऊ० वी० ३५, ३६।

श्व-वर्त (कुत्तों में मिलनेवाला) कुछ पाण्डुलिपियों के अनुसार अथर्ववेद (९. ४, १६) में कीड़े की एक जाति का नाम है । देखिये श्वर्त ।

श्वशुर, ऋग्वेद तथा उसके बाद^१ से पत्नी के श्वसुर (पति के पिता) का द्योतक है । सूत्र के पूर्व इसके अन्तर्गत पति के श्वसुर (पत्नी के पिता) का भाष्य सम्मिलित नहीं है ।^२ जब तक श्वसुर वास्तविकता तथा अवस्था दोनों ही दृष्टि से पति के परिवार का प्रधान रहता था तब तक पुत्र-वधू (स्नुषा) के लिये श्वसुर का आदर करना अनिवार्य था ।^३ जब वृद्ध श्वसुर परिवार का नियन्त्रण करने में असमर्थ हो जाता था तब पुत्र-वधू श्वसुर और सास के ऊपर स्वयं गृह-स्वामिनी (सत्राज्ञी) बन जाती थी ।^४ बहुवचन^५ में यह शब्द श्वसुर और सास दोनों का ही द्योतक है ।

^१ १० २८, १, ८५, ४६, ९५, ४; अथर्ववेद
८. ६, २४, १४. २, २६, इत्यादि ।
^२ पारस्कर गृह्यसूत्र ३. १०, ४६ ।
देखिये ऋग्वेद १०. ९५, ४, अथर्ववेद
८. ६, २४, मैत्रायणी संहिता २ ४,
२, काठक संहिता १२ १० (इन्डिसे
स्टूडियन, ५, २६०), ऐतरेय ब्राह्मण
३ २२, ७ । इसी प्रकार अथर्ववेद १४
२, २६, में पुत्रवधू को श्वसुर की सेवा

करनी चाहिये ।

^४ ऋग्वेद १०. ८५, ४६ । देखिये पति ।

^५ ऋग्वेद १० ९५, १२, अथर्ववेद १४.
२, २७, काठक संहिता, ८० त्या० ।
यह एक बहुवचन होते हुये भी
बहुमर्तृत्व का चिह्न नहीं है ।

तु० की० डेलमुक : डी० व०,
५१५, ५१६ ।

श्वश्रू, पति^१ और पत्नी^२ दोनों के ही 'सासों' का द्योतक है । इसका पति यदि परिवार की व्यवस्था कर सकने में असमर्थ^३ हो जाता था तो उसके साथ यह भी पुत्र-वधू के अधीनस्थ हो जाती थी, अन्यथा आदर की अधिकारणी होती थी ।^४ ऋग्वेद^५ में एक जूये का व्यसनी इस बात के लिये असन्तोष व्यक्त करता है कि उसके लिये अक्ष-क्रीड़ा के दुष्परिणामों में से एक अपनी सास की कृपा से वंचित हो जाना भी है ।

^१ ऋग्वेद १० ८५, ४६, अथर्ववेद १४
२, २६ ।

^२ ऋग्वेद १० ३४, ३ ।

^३ ऋग्वेद १० ८५, ४६ ।

^४ अथर्ववेद १४ २, २६ ।

^५ ऋग्वेद १०. ३४, ३ ।

तु० की० डेलमुक : डी० व०,

५१६ ।

श्वाजनि, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ५, २) में एक वैश्य का नाम है ।

श्वापद भी, श्वपद् की ही भाँति, एक 'हिंसक पशु' का द्योतक है। इसका ऋग्वेद,^१ अथर्ववेद,^२ तथा अक्सर वाद^३ में भी उल्लेख है।

^१ १० १६, ६।

^२ ११ १०, ८।

^३ शतपथ ब्राह्मण ५ ५, ४, १० (जहाँ इनमें से प्रमुख के रूप में शार्दूल

का उल्लेख है), १२. २, ४, १६;

बृहदारण्यक उपनिषद् १. ४, २९;

शाङ्खायन आरण्यक १२. १६, इत्यादि।

श्व-विध् (कुत्ते का भेदन करनेवाला) अथर्ववेद^१ तथा वाद^२ में 'साही' (एक काँटेदार पशु) का नाम है। इसे लम्बे कानवाला (कर्ण)^३ कहा गया है। शल्यक भी देखिये।

^१ ५. १३, ९।

^२ तैत्तिरीय संहिता ५ ५, २०, १; मैत्रायणी संहिता ३. १४, १४, वाजसनेयि संहिता २३. ५६, २४ ३३, इत्यादि।

^३ अथर्ववेद, उ० स्था०।

तु० की० तिसर : आस्टिन्डिशे

लेवेन, ८२।

श्विक, एक जाति के लोगों का नाम है जिनका शतपथ ब्राह्मण^१ में दो बार इनके राजा ऋषभ याज्ञतुर के सन्दर्भ में उल्लेख है। तु० की० श्वैक।

^१ १२ ८, ३, ७, १३. ५, ४, १५। तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, २०९, २१०।

१. श्वित्र, अथर्ववेद^१ तथा वाद^२ की संहिताओं^३ में सर्प की एक जाति का नाम है।

^१ ३ २७, ६ (जहाँ एक विभेदात्मक रूप 'चित्र' मिलता है), १० ४, ५ १३।

^२ तैत्तिरीय संहिता ५ ५, १०, २; मैत्रायणी संहिता २ १३, २१, के सामान्तर स्थल पर, सम्भवत बुटिवश 'चित्र' हो गया है।

तु० की० तिसर : आस्टिन्डिशे लेवेन, ९५, गिट्टने अथर्ववेद का

अनुवाद १३४। वाजसनेयि संहिता

२४. ३९ में अश्वमेध के बलिप्राणियों

की तालिका में आनेवाले 'श्वित्र' का

सम्भवत यही आशय है; किन्तु सेन्ट-

पीटर्सवर्ग कोश इसकी 'एक प्रकार के

पालतू पशु' अथवा सामान्य आशय में

'श्वेत-पशु' के रूप में व्याख्या करता है।

२. श्वित्र, पञ्चविंश ब्राह्मण (१२. ११, ११) में विशेषण के रूप में मिलता है जिसका 'श्वेत कुष्ठ से पीड़ित' आशय है।

श्वित्र्य—देखिये श्वत्रैय।

श्वेत-केतु आरुण्य^१ (अरुण का वंशज) अथवा श्रीहालकि^२ (उदालक का वंशज) का शतपथ ब्राह्मण और छान्दोग्य उपनिषद् में बहुधा उल्लेख है। कौपीतिक उपनिषद्^३ में यह आरुणि के पुत्र श्वेतकेतु तथा एक गौतम के रूप में आता है। कौपीतिक ब्राह्मण^४ में इसका कौपीतिकियों के यज्ञ-संस्कार के समय सदस्य अथवा सत्रहवें पुरोहित के कर्त्तव्य की जटिल समझा के अधिकारी विद्वान और यज्ञ की त्रुटियों को बतानेवाले के रूप में उल्लेख है; यहीं इसके पिता आरुणि का भी उल्लेख है। यह कुछ मौलिक विचार रखने वाला व्यक्ति था क्योंकि ब्रह्मचारियों के लिये मधु खाने का सामान्य निषेध होने पर भी इसने मधु खाने पर ज़ोर दिया था।^५ यह पञ्चाल राजा प्रवाहरा जैवल का समकालीन तथा उनके द्वारा शिक्षित हुआ था।^६ यह विदेह के जनक का भी समकालीन था और इस राजा के दरबार में शास्त्रार्थ करनेवाले ब्राह्मणों में इसका उल्लेख है।^७ शाङ्खायन श्रौतसूत्र^८ में इसके सम्बन्ध में यह कथा मिलती है : जल जातूकर्ण्य को काशि, कोसल, और विदेह के तीन राजाओं का पुरोहित होने का सौभाग्य प्राप्त था। इसे देखकर श्वेतकेतु ने रुष्ट होकर अपने पिता की यज्ञ में अत्यधिक आस्था के लिये भर्त्सना की थी क्योंकि उनके यज्ञों ने दूमरों को ही सम्पन्न किया उन्हें नहीं। इसके

^१ शतपथ ब्राह्मण ११ ०, ७, १२, ५, ४, १८, ६, ०, १, १०. २, १, ९, बृहदारण्यक उपनिषद् ३ ७, १, ६ १, १ (माध्यदिन = ६ २, १ काण्व), छान्दोग्य उपनिषद् ५ ३, १, ६ १, १, ८, १।

^२ शतपथ ब्राह्मण ३ ४, ३, १३, ४. २, ५, १४।

^३ १ १।

^४ २६ ४।

^५ शतपथ ब्राह्मण ११ ५, ४, १८।

^६ बृहदारण्यक उपनिषद् ६ १, १ (माध्यदिन = ६ २, १ काण्व), छान्दोग्य उपनिषद् ५ ३, १।

^७ शतपथ ब्राह्मण ११ ६, २, १ (इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि अन्य

ब्राह्मणों के साथ यात्रा करने हुये ही यह जनक के दरबार में पहुँच गया था यह विदेह के देश में कभी भी बसा नहीं या वरन् स्पष्टत, अपने पिता की ही भौति, एक कुरु-पञ्चाल था), बृहदारण्यक उपनिषद् ३ ७, १, जहाँ यह भी शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य से पराजित हुआ है।

^८ १६ ०७, ६ और बाद। 'कृत्स्नके ब्रह्मवन्धौ व्यजिज्ञासिपि' का ठीक-ठीक आशय बहुत निश्चित नहीं है। किन्तु आरुणि ऐसा कहते प्रतीत होते हैं कि उनके जीवन का लक्ष्य ज्ञान से प्रेम करना है, पुरोहितों को मिलनेवाले भौतिक सुखों को प्राप्त करना नहीं।

पिता ने इसे ऐमा कहने से वर्जित करते हुये उत्तर दिया कि उसने यज्ञ की वास्तविक विधि का ज्ञान प्राप्त किया है और उसके जीवन की यही आकांक्षा रही है कि वह अन्य ब्राह्मणों के साथ अपने इस ज्ञान का आदान-प्रदान करे ।

श्वेतकेतु सम्बन्धी सभी सन्दर्भ अर्वाचीन वैदिक काल में ही मिलते हैं । अतः आपस्तम्ब धर्म सूत्र^१ द्वारा इसे 'अवर' अथवा वाद के काल का एक ऐसा व्यक्ति कहा जाना आश्चर्यजनक नहीं जो अपनी विशेष योग्यता के कारण ही ऋषि बन गया था । फिर भी इसका काल-निर्धारण बहुत वाद में नहीं करना चाहिये क्योंकि शतपथ ब्राह्मण, जिसमें इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, नि सन्देह पाणिनि के पूर्व का तथा इस वैयाकरण के समय में भी एक प्राचीन काल का ग्रन्थ माना गया है । अतः श्वेतकेतु के एक आनुमानिक काल के रूप में ५०० ई० पू० का समय अत्यन्त प्राचीन की अपेक्षा अत्यन्त वाद का ही मानना चाहिये ।^२

^१ १, २, ५, ४-६ ।

^२ इस पर देखिये बूहलर : से० बु० ई० २, xxxvii और वाद, एग्लिङ्ग • से० बु० ई० १२, xxxv और वाद, मैक्स-मूलर • ऐन्शेन्ट सस्कृत लिटरेचर : ३६० और वाद, वेवर इन्डिशे

स्टूडियन, ५, ६५; १३, ४४३, कीथ : ऐनरेय आरण्यक २२ और वाद ।

तु० की० मूदर • सस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, ४३३, मैक्स मूलर : ऐन्शेन्ट सस्कृत लिटरेचर, ४२१ और वाद; औल्डेनवर्ग • बुद्ध, ३९७ नोट ।

श्वेत्या, एक नदी-स्तुति^३ में आता है और सम्भवतः सिन्धु की एक सहायक नदी^४ का नाम है ।

^५ १० ७९, ६ ।

^२ तिसर : आल्टिन्डिशे लेवेन, १४, १५, लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३,

२००, इसका रूप 'श्वेती' मानते हैं; गेल्डनर • ऋग्वेद, ग्लॉसर, १८४, दोनों ही रूप देते हैं ।

श्वैक (श्विकों का राजा) उस प्रतीदर्श की उपाधि है जो, शतपथ ब्राह्मण^१ के अनुसार, 'दाक्षायण' यज्ञ करनेवालों में से एक था । इसने सुलन् सार्जय को भी इस यज्ञ की शिक्षा दी थी : अतः वेवर^२ ने श्विकों और सृजयों के परस्पर सम्बन्ध होने का निष्कर्ष निकाला है ।

^३ २ ४, ४, ३ ।

| ^२ इन्डिशे स्टूडियन, १, २०९, २१० ।

श्वेत्रेय ऋग्वेद^३ के दो स्थलों पर आता है जहाँ सायण ने इस शब्द को 'श्वित्रा' के वंशज, एक व्यक्ति का नाम माना है । उक्त प्रथम स्थल ऋग्वेद^४

^१ १. ३३, १४, ५ १९, ३ ।

| ^२ ६. २६, ४ ।

के ही छठवें मण्डल के एक ऐसे स्थल के समान है जहाँ दशद्यु का श्वेत्रेय के विना ही उल्लेख है । लुडविग^३ ने दशद्यु को 'श्वेत्रेय' ('श्वित्री' का पुत्र) के साथ समीकृत करते हुये उसे कुत्स का पुत्र माना है ।^४ वर्गेन^५ और वॉनेक^६ के विचार से यह वास्तव में एक भुज्यु था । गेल्डनर^७ के विचार से यह 'श्वित्रा' नामक गाय^८ का पुत्र एक वैल था जिसका युद्ध के लिये प्रयोग होता था; किन्तु यह अत्यन्त सन्दिग्ध है, यद्यपि अन्यत्र 'श्वेत्रेय' शब्द एक वैल के लिये भी व्यवहृत हुआ है ।^९ 'श्वित्र्य'^{१०} का भी श्वेत्रेय के ही समान आशय प्रतीत होता है ।

^३ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १४७ ।

^४ तु० की० ऋग्वेद १ ५१, ६, ६. २६,
३ ४ ।

^५ रिलीजन वेदिके, ३ ११ ।

^६ कुन . त्सी० ३५, ५२७ ।

^७ ऋग्वेद, ग्लॉसर, ७, ८ ।

^८ तु० की० 'श्वैतरी', ऋग्वेद ४. ३३, १ ।

^९ कीय . ज० ए० सो० १९१०, ९३५ ।

^{१०} ऋग्वेद १ ३३, १५, जहाँ रीथ : सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०, 'श्वित्र्यम्' को 'श्वित्री' का 'कर्मपद' (द्वितीया-रूप) मानते हैं ।

ष

षण्ड, पञ्चविंश ब्राह्मण^१ में वर्णित सर्पोत्सव के समय के एक पुरोहित का नाम है । तु० की० कुषण्ड ।

^१ २५ १५, ३ । तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, १, ३५ ।

षण्डिक का, मैत्रायणी संहिता^१ में केशिन् के एक समकालीन के रूप में उल्लेख है । सम्भवतः अन्यत्र खण्डिक को यथावत ही पढ़ना चाहिये ।

^१ १ ४, १२, जहाँ फॉन श्रोडर कोई विभेद नहीं देते । किन्तु पाण्डुलिपियों में 'ष' और 'ख' निरन्तर ही एकान्तगत हुये हैं ।

स

सं-रुघ् और सं-लिखित, अज्ञात आशयवाले पारिभाषिक शब्द हैं जिनका अथर्ववेद (७. ५०, ५) में पासे के सन्दर्भ में प्रयोग हुआ है ।

सं-वत्सर (वर्ष) का ऋग्वेद और उसके बाद से बहुधा उल्लेख मिलता है ।^१

^१ ऋग्वेद १. ११०, ४, १४०, २, १६१,
१३, ७ १०३, १ ७, इत्यादि,
अथर्ववेद १ ३५, ४; २ ६, १; ३

१०, २, ४. ३५, ४, ६ ५३, ३,
इत्यादि ।

संहिताओं और ब्राह्मणों के समान प्रमाणों के आधार पर इसकी अवधि १२ मासों में विभक्त ३६० दिनों के बराबर थी, और यह निःसन्देह मोटे रूप से एक ऐसा चान्द्र-संयुति वर्ष था जिससे इसकी अवधि यद्यपि ६ दिन^२ अधिक थी। सौर वर्ष के रूप में यह केवल सामवेद के निदान सूत्र^३ में ही आता है, जहाँ ऐसा कथन है कि २७ नक्षत्रों में से प्रत्येक में सूर्य १३½ दिन व्यतीत करता है।

वर्ष की सौर वर्ष (चाहे नाक्षत्र अथवा अयनवर्तिन्) के साथ असंगति के कारण, स्वीकृत तथा प्राकृतिक वर्ष के बीच सामञ्जस्य स्थापित करने के निश्चिन प्रयास किये गये थे। जैसा कि हम देख चुके हैं (देखिये मास) प्रमाण इसी बात की प्रबल पुष्टि करते हैं कि ब्राह्मण-काल में मलमास-पद्धति का समावेश सरल कार्य नहीं था, यद्यपि ऐसे चिह्न अवश्य हैं जिन्हें हम पञ्चवर्षीय अथवा षष्ठवर्षीय मलमास-पद्धति मान सकते हैं। किन्तु इस बात का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है कि वास्तव में इन अवधियों का पालन किया ही जाता है।

वास्तव में, तिसरों का विचार है कि इसके लिये आवश्यक प्रमाण उन वर्षों की तालिकाओं में उपलब्ध हैं जिनकी संख्या अक्सर पाँच गिनाई गई है : संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इद्वत्सर, और वत्सर;^४ अथवा संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इदुवत्सर, वत्सर,^५ अथवा संवत्सर, इदावत्सर, इदुवत्सर, इद्वत्सर, वत्सर;^६ अथवा संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर, उद्वत्सर;^७ अथवा संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर; इद्वत्सर।^८ किन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि न केवल नामों में ही पर्याप्त अन्तर है, वरन् कुछ स्थलों पर केवल चार का,^९ कुछ पर^{१०} तीन का, और

^२ देखिये मास

^३ ५ १०, २ ५। तु० की० वेवर : नक्षत्र, ०, २८४।

^४ आस्ट्रिन्डिशो लेवेन ३६९, ३७०, और तु० की० सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० . 'संवत्सर', २।

^५ वाजसनेयि संहिता २७ ४५।

^६ तैत्तिरीय संहिता ५ ५, ७, ३. ४।

^७ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. १०, ४, १।

^८ काठक संहिता १३. १५, ३९ ६; ४०. ६।

^९ ज्योतिष, १०, पर भाष्य में उद्धृत, गर्ग।

^{१०} 'सं-', 'परि-', 'इदा-', 'अनु-वत्सर', पञ्चविंश ब्राह्मण १७ १३, १७; तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ४, १०, १।

^{११} 'इदा-', 'परि-', 'स-वत्सर', अथर्ववेद ६. ५५, ३, 'इदु-', 'परि-', 'स-वत्सर', तैत्तिरीय संहिता ५. ७, २, ४।

कुछ पर^{१२} दो का ही, तथा कुछ अन्य^{१३} पर छह तक का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इनमें से किसी भी गणना में नामों के मलमास-पद्धति के साथ सम्बद्ध होने का कोई मन्दर्भ नहीं है। सर्वप्रभाव्य यही प्रतीत होता है कि यहाँ केवल 'वत्सर' (वर्ष) के ही अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन और वास्तविक विभेद के रूप में 'सवत्सर' तथा 'परिवत्सर' पर आधारित 'वत्सर' के ही पुरोहितीय विभेद की तालिकाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इन तालिकाओं के आविष्कार की कुक्षी सरभवतः पञ्चविंश ब्राह्मण^{१४} जैसे स्थलों पर मिल सकती है जहाँ अनेक चातुर्मास्य यज्ञों को विभिन्न वर्षों के साथ समीकृत किया गया है।^{१५} दो वर्षीय तालिका में तिसर द्वारा, द्वितीय वर्ष में मलमास सहित प्रत्येक ३५४ दिनों के दो वर्षों की तालिका का आशय देखने का प्रयास भी विशेष रूप से अनुपयुक्त है, क्योंकि इस प्रकार का ३५४ दिनों के वर्ष का सूत्र के पूर्व अस्तित्व होना ज्ञात नहीं।

तिसर^{१६} ने उन प्रसिद्ध १२ दिनों में भी मलमास-पद्धति के समावेश का प्रयास देखा है जिनमें ऋभुगण भगोछ^{१७} के गृह में प्रसुप्त बताया गया है। आपका विचार है कि यह उन १२ दिनों को व्यक्त करते हैं जिन्हें ३५४ दिनों के चान्द्र वर्ष को ३६६ दिनों के सौर वर्ष के बराबर करने के लिये मकर संक्रान्ति के समय उसमें संयुक्त कर दिया जाता था, और प्राचीन जर्मनी में '१२ रात्रियों' के प्रति आदर व्यक्त किया गया होने के आधार पर आप यह भी निष्कर्ष निकालते हैं कि मलमास की यह पद्धति इन्डो-जर्मन है।^{१८} इन

^{१२} 'सं-', 'परि-वत्सर', अथर्ववेद ८. ८,

२३, तैत्तिरीय आरण्यक १०. ८०।

^{१३} 'स-', 'परि-', 'इदा-', 'अनु-', वत्सर,

सं-वत्सर, वाजसनेयि संहिता ३०.

१५, 'स-', 'परि-', 'इदा-', 'इदु-',

इदत्सर, तैत्तिरीय आरण्यक ४. १९,

१। तु० की० वेवर . नक्षत्र, २,

२९८, नोट १, मैक्स मूलर : ऋग्वेद,

४^२, xxxv, नोट १।

^{१४}

१७ १३, १७।

^{१५}

तु० की० वेवर इन्डिशे स्ट्रीफेन, १,

९१, थियो ऐस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉलोजी,

उन्ट मैथमेटिक, १२; हॉपकिन्स : ज०

अ० ओ० सो० २४, ४२।

^{१६}

उ० पु० ३६६, ३६७, तिलक : ओरायन,

१६, और वाद, हिलेब्रान्ट वैदिशे माथ्यौलोजी, ३, १४५।

^{१७} ऋग्वेद ४. ३३, ७। तु० की० १.

११०, १२, १६१, १३। देखिये इस

कथा के लिये : मैकडौनेल . वैदिक

माथ्यौलोजी, पृ० १३३, औल्टेनवर्ग :

रिलीजन देस वेद, २३६।

^{१८} देखिये वेवर . इन्डिशे स्टूडियन १०,

२४२ और वाद; १७, २२३, २२४;

१८, ४५, ४६; प्रो० अ०, १८९४,

८०९; थियो उ० पु० १०, श्रेडर :

प्रिहिस्टोरिक ऐन्टीक्विटीज ३०८, ३१०;

विह्टने : ज० अ० ओ० सो० १६,

xciv।

दृष्टिकोण के त्रुटिपूर्ण होने में कदाचित्त ही सन्देह है, और यह १२ दिन केवल इसी भाष्य में 'वर्ष की प्रतिमा' (संवत्सरस्य प्रतिमा)^{१९} हैं कि यह वारह मासों को व्यक्त करते हैं, काल-गणना के साथ इनका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

शामसास्त्री^{२०} ने बौधायन श्रौत सूत्र^{२१} के कुछ स्थलों पर एक विचित्र तिथिक्रम में वर्ष-चक्र के पाँचवें वर्ष के रूप में केवल संवत्सर के प्रयोग का सन्दर्भ देखा है । किन्तु यह दृष्टिकोण असम्भाव्य^{२२} है ।

^{१९} काठक संहिता ७ १५, तैत्तिरीय ब्राह्मण
१ १, ९, १०, कौषीतकि ब्राह्मण २५
१५ । देखिये अथर्ववेद ४ ११, ११,
वेवर ओमिना उन्ट पोर्टेन्टा, ३८८ ।
^{२०} ग्वाम् अयन, १३७, १३८ ।
^{२१} २ १२, ३ १, २६ १८; ३०. ३ ।

देखिये कौषीतकि ब्राह्मण १ ३, शतपथ
ब्राह्मण ११. १, १, ७ ।
^{२२} कैलेण्ड : ऊ० वी० ३६, ३७, इस
असंगति की एक कहीं अधिक तर्क-
सगत व्याख्या करते हैं ।

संवरण, ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर वर्णित किसी ऋषि का नाम है ।

^१ ५ ३३, १० । तु० की० औल्डेनवर्ग : त्सी० गे० ४२, २१५ ।

संवर्ग-जित् लामकायन, वंश ब्राह्मण^१ में, शाकदास के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

^१ इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७३ ।

१. सं-वर्त एक वार ऋग्वेद^१ में कृश के साथ प्राचीन यज्ञकर्ता के रूप में आता है । इसे इस द्वितीय नाम के साथ ही समीकृत किया जा सकता है ।

^१ ८. ५४, २ । तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १४१, १६४ ।

२. सं-वर्त आङ्गिरस (आङ्गिरस् का वंशज) के संबन्ध में ऐतरेय ब्राह्मण^१ में यह कथन है कि इसने मरुत्त को अभिषिक्त किया था ।

^१ ८. २१, १२ । तु० की० ल्यूमैन : त्सी० गे० ४८, ६७ और बाद ।

सं-श्रवस् सौवर्चनस एक गुरु का नाम है जिसने तैत्तिरीय संहिता (१. ७, २, १) के अनुसार तुमिञ्ज के साथ एक सांस्कारिक विषय पर वार्ता की थी ।

सं-श्रावयितृ, कौषीतकि उपनिषद् (२. १) में उस सेवक (द्वारपाल) का द्योतक है जो आगन्तुकों की सूचना देता है ।

सं-श्लिष्टका^१ अथवा संश्लिष्टिका^२ एक पशु का नाम है जिसका गोधा के साथ-साथ जैमिनीय ब्राह्मण और शाक्यायनक में उल्लेख है ।

^१ ऋग्वेद ८. ९१, पर सायण में शाक्या-यनक । ^२ जैमिनीय ब्राह्मण १. २२१ (ज० अ० ओ० सो०, १८, २९) ।

स-सर्प—देखिये मास ।

स-स्कन्ध एक व्याधि का नाम है जिसका अथर्ववेद^१ में विष्कन्ध के साथ-साथ उल्लेख है । फिर भी, विहट्ने^२ का विचार है कि यह एक विशेषण है जिसका आशय 'विष्कन्ध नामक व्याधि को रोकनेवाला' है ।

^१ १९ ३४, ५, सायण की टिप्पणी सहित ।
^२ अथर्ववेद का अनुवाद ९५२ ।
तु० की० तिसर . आल्टिन्डिशे

लेवेन, ६५, ३९१, ब्लूमफील्ड :
अथर्ववेद के सूक्त २८३ ।

सं-होत्र एक बार ऋग्वेद^१ में आता है जहाँ गेल्डनर^२ के विचार से संस्कार की शिक्षा पानेवाले शिष्यों के विद्यालय को व्यक्त करते हुये इसका 'विद्यालय' आशय सर्वोपयुक्त प्रतीत होता है ।

^१ १० ८६, १० ।

| ^२ वेदिशे स्टूडियन २, ३८ ।

सक्तु वाद की सहिताओं और ब्राह्मणों^१ में 'मोटे पिसे भोजन', अथवा विशेषतः 'जौ के आटे के भोजन' का द्योतक है । ऋग्वेद^२ में, जहाँ यह शब्द केवल एक बार आता है, इससे तितउ द्वारा चाले जाने के पूर्व की दशा के अन्न का अर्थ प्रतीत होता है । यदि यह वाद का शब्द 'चलनी' का द्योतक है, तो भी 'सक्तु' से श्रेष्ठ अथवा महीन भोजन के विपरीत 'मोटा भोजन' (सक्तु) अर्थ हो सकता है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ६ ४, १०, ६,
वाजसनेयि संहिता, १९ २१ और वाद;
शतपथ ब्राह्मण १ ६, ३, १६, ९ १,
१, ८ (तु० की० गवेधुका), इत्यादि,
काठक संहिता, १५ २ (तु० की०
अपामार्ग) । तु० की० कुवल, कर्कन्धु,

घदर : शतपथ ब्राह्मण ५. ५, ४, २२,
इत्यादि ।

^२ १० ७१, २ ।

तु० की० तिसर . आल्टिन्डिशे
लेवेन, २३८ ।

सखि (मित्र) ऋग्वेद^१ तथा उसके बाद^२ से शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों ही आशयों में एक प्रचलित शब्द है ।

^१ १ १६४, २० (पक्षियों का), ३ ४३,
४ (अश्वों का); २ १, ९; ५ १२,
५, ६ ७५, ३, इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद ५ ४, ७, ११, ९; १३, ५,
इत्यादि । इसी प्रकार 'सखित्व' और

'सख्य' (मित्रता) भी प्रचलित हैं—
उदाहरण के लिये ऋग्वेद १ १०, ६;
३ १, १५, ४ २५, २, इत्यादि, और
ऋग्वेद १ १७८, २, २ १८, ८; ७
२२, ९, इत्यादि ।

सघ्न, तैत्तिरीय संहिता^१ और तैत्तिरीय ब्राह्मण^२ में एक पक्षी, सम्भवतः 'श्येन' अथवा 'गृद्ध' का नाम है ।

^१ ३ २, १, १ ।

^२ २. ८, ६ १, बौटलिङ्ग : डिक्शनरी, व०
स्था० (गृद्ध) ।

तु० की० तिस्रर : आस्टिन्डिशे

लेवेन, ८८ ।

सङ्ग प्रयोगि का मैत्रायणी संहिता (३. १, ९) में एक गुरु के रूप में उल्लेख प्रतीत होता है ।

सं-गति से ऋग्वेद (१०. १४१, ४) के एक स्थल पर समिति (लोगों की सभा) का आशय प्रतीत होता है ।

सं-गव उस समय का द्योतक है जब कि चरनेवाली गायों को दुहने के लिये हाँक कर ले जाया जाता था । दिन के विभाजन में यह मध्याह्न के पूर्व के समय का द्योतक है, और ऋग्वेद^१ में तथा अक्सर बाद^२ में मिलता है ।

तु० की० गो और अहन् ।

^१ ५ ७६, ३ ।

^२ अथर्ववेद ९ ६, ४६; मैत्रायणी संहिता
४ २, ११; तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ४,
९, २, ५, ३, १; २ १, १, ३; शतपथ
ब्राह्मण २ २, ३, ९, छान्दोग्य उप-

निषद् २. ९, ४, जैमिनीय उपनिषद्
ब्राह्मण १ १२, ४ ।

तु० की० सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश,
व० स्था०, गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन,
३, ११२ और वाट ।

सं-गविनी ऐतरेय ब्राह्मण^१ में मिलता है जहाँ यह कथन है कि भरतों के पशु सध्न्या के समय गोष्ठ में रहते थे किन्तु मध्याह्न के समय 'सगविनी' में चले आते थे । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि सगविनी एक प्रकार का छायादार स्थान होता था जहाँ मध्याह्न की धूप से चचाकर पशुओं का दोहन किया जाता था ।

^१ ३ १८, १४ । तु० की० गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन ३, ११०, ११३;
तिस्रर : आस्टिन्डिशे लेवेन, ३६२ ।

सं-ग्रहीतृ, वाद की संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में मिलता है। यह एक पदाधिकारी होता था जिसको राजा के रत्नियों के अन्तर्गत रक्खा गया है। प्रत्येक स्थल पर इससे 'सारथी' का ही आशय पर्याप्त है; किन्तु सायण^३ कुछ स्थलों पर इसमें राजा के 'कोशाभ्यक्ष' का आशय मानते प्रतीत होते हैं।

^१ तैत्तिरीय संहिता १ ८, ९, २, काठक संहिता १५ ४, मैत्रायणी संहिता २. ६, ५, ४ ३, ८ (एक 'रत्निन्' के रूप में), शतरुद्रिय में बहुवचन में : तैत्तिरीय संहिता ४ ५, ४, २, काठक संहिता १७ १३, मैत्रायणी संहिता २. ९, ४, वाजसनेयि संहिता १६ २६।

^२ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ७, ३, ५, ९, ६, ३ ८, ५, ३, ऐतरेय ब्राह्मण २ २५,

६, शतपथ ब्राह्मण ५ ३, १, ८, ४, ३, ०३।

^३ तैत्तिरीय संहिता १ ८, ९, २, पर, और वैकृत्पिक रूप से १ ८, १६, पर भी; किन्तु १. ८, १५, तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ७, १०, ६ पर सारथी के रूप में ही।

तु० की० एग्लिङ्ग से० बु० ई० ४१, ६३, नोट १।

सं-ग्राम—ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसुद्धतः या तो शान्ति^४ अथवा युद्ध^५ के समय की 'सभा' का द्योतक है और इससे 'एकत्रित सशस्त्र सैनिकों' का ही तात्पर्य है। अथर्ववेद^६ और वाद^७ में इसका सामान्य आशय 'युद्ध' है।

वैदिक युद्ध-कला के सम्बन्ध में अत्यन्त कम विवरण मिलता है किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी प्रकृत सरल थी। रथियों के साथ कुछ पैदल सैनिक ही सेना का निर्माण करते थे और यह दोनों ही साथ-साथ युद्ध में जाते थे।^८ पैदल सैनिक अक्सर रथियों द्वारा पराजित हो जाते थे।^९ रथी प्रायः क्षत्रिय, और पैदल सैनिक उनके अनुचर होते थे। जरक्सेस ने जिस सेना को ले कर यूनान पर आक्रमण किया था उसकी भारतीय सैनिक टुकड़ी के सम्बन्ध में हिरोडोटस के विवरण द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि पैदल सैनिक सम्भवतः अत्यन्त साधारण कवच धारण करते थे और आक्रमण के लिये उनके पास केवल धनुष और बाण ही होते थे।^{१०} दूसरी ओर सेना के विशिष्ट

^१ अथर्ववेद १२ १, ५६, जहाँ यह समिति के साथ सयुक्त है। इस तथा नोट २ में उद्धृत स्थल पर हम इसमें लोगों की बड़ी सभाओं के विपरीत छोटी ग्राम-सभाओं के नाम का पारिभाषिक आशय देख सकते हैं; किन्तु ऐसा मानने के लिये श्रेष्ठ आधार नहीं है।

^२ अथर्ववेद ४ २४, ७, जहाँ 'सग्रामान्' पाठ माना गया है, किन्तु सामान्तर

स्थलों (तैत्तिरीय संहिता ४ ७, १५, २, मैत्रायणी संहिता ३ १६, ५) पर 'सग्रामम्' है।

^३ ५ २१, ७, ११. ९, २६।

^४ तैत्तिरीय संहिता २ १, ३, १; ८, ४, इत्यादि।

^५ ऋग्वेद २ १२, ८।

^६ अथर्ववेद ७ ६२, १। तु० की० मुष्टिहन्।

^७ हिरोडोटस ७. ६५।

जन वर्मन् और शिप्रा, तथा धनुष की प्रत्यक्षा के घर्षण से हाथों को सुरक्षित रखने के लिये हस्तधन, धारण कर रखते थे। रथ पर उसका चालक तथा उसकी बायीं ओर योद्धा (सारथि, सव्यष्टा) होता था। युद्ध में अश्वारोहण का कहीं भी उल्लेख नहीं^८ और यह वैदिक विचारों के कदाचित ही अनुकूल रहा होगा, क्योंकि योद्धा प्रमुखतः अपने धनुष पर ही निर्भर रहता था जिसका घोड़े के पीठ पर बैठ कर प्रभावशाली ढंग से प्रयोग कठिन है। व्यवहारतः प्रमुख आक्रामक आयुध धनुष होता था, तोमर, तलवार, और कुठार कभी कभी ही प्रयुक्त होते थे।

जैसा कि होमर की कविताओं में है,^९ और जिसे टेसिटस^{१०} ने जर्मनी के सम्बन्ध में माना है, आक्रमकों का कवीलों के आधार पर मंगठन होता था अथवा नहीं यह अनिश्चित है (तु० की० व्रात); किन्तु महाकाव्य में सम्बन्धीजन (ज्ञाति) साथ-साथ युद्ध करते थे^{११}, और इसमें सन्देह नहीं कि न्यूनाधिक मात्रा में वैदिक काल के लिये भी यही नियम व्यवहृत हो सकता है।

नगरों पर आक्रमण और अधिकार ('उप-सद्', 'प्र-भिद्')^{१२} करने के लिये सम्भवतः नियमित रूप से अवरोध का ही आश्रय लिया जाता था क्योंकि उस समय के आक्रमण की विधियों की प्रभावहीनता के कारण सीधा आक्रमण कठिन और व्यय-साध्य रहा होगा। हिलेब्रान्ट^{१३} का विचार है कि ऋग्वेद^{१४} का 'पुर चरिष्णू' एक प्रकार का रथ था, यह किसी नगर पर आक्रमण करने की रोमनों की पद्धति—ट्रोजनों की भौति—का भारतीय रूप हो सकता है।

सुरक्षा तथा विजय सम्बन्धी साधारण युद्धों के अतिरिक्त आस-पास के

^८ टिसमर . आस्ट्रिन्डिशे लेवेन, २९६, जहाँ आप यह स्वीकार करते हैं कि अन्यत्र अश्वारोहण का उल्लेख है, विह्टने . ज० अ० ओ० सो० ३, ३१२।

^९ इलियड २ ३६२।

^{१०} जर्मनिया, ७।

^{११} हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो०, १३, १९३।

^{१२} तु० की० तैत्तिरीय संहिता ६. २, ३, १, शतपथ ब्राह्मण ३ ४, ४, ३-५; ऐतरेय ब्राह्मण १. २३, २, इत्यादि; गोपथ ब्राह्मण २ २, ७, हिलेब्रान्ट . वेदिशे माइथोलोजी, १, ३००, नोट।

^{१३} उ० पु० ३, २८९, नोट।

^{१४} ८ १, २-८, जहाँ इसे 'शुष्ण' नामक दानव का बताया गया है।

चेत्रों पर आक्रमण, एक अक्षर होनेवाली तथा सामान्य घटना थी।^{१५} इनका उद्देश्य युद्ध-विजित सम्पत्ति (उदाज, निराज) प्राप्त करना होता था, जिममें से, लोगों के साथ-साथ, राजा भी हिस्सा लेता था।

युद्ध में ध्वज भी रक्खे जाते थे और सैनिक विभिन्न प्रकार के वाद्य यन्त्र (दुन्दुभि, बकुर)^{१६} बजाते थे।

^{१५} तु० की० ऋग्वेद १० १४०, ४, की जैसी सायण ने तथा हिलेब्रान्ट : उ० पु०, २, ६४, नोट ५, ने व्याख्या की है, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ८, ४, १ (कुरु राजाओं के दृष्टान्त के समान)।

^{१६} वाद में ऐसी ही है, अरियन : इन्डिका, ७ ९। टोनों दलों की तीव्र ध्वनियों 'क्रन्दस्' शब्द से व्यक्त होती हैं (ऋग्वेद २ १०, ८, तु० की० ६. २५, ६, १० १२१, ६) जिसका अर्थ 'शोर मचाता हुआ आक्रामक' है। तु० की० टेसिटस • जर्मेनिया २, भी।

तु० की० मूशर : संस्कृत टेक्सट्स, ५, ४६९-४७२, वेवर : प्रो० अ०, १८९८, ५६४; रिसमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, २९३-३०१। देखिये इयु, धन्वन्, रथ, भी। हॉपकिन्स . ज० अ० ओ० सो० १३, २८१ और वाद, महाकाव्य के कवच तथा युद्ध-कला का पूरा विवरण प्रस्तुत करते हैं। देखिये वही १५, २६५, २६६, में भी आपका नोट। युद्ध के समय गद्ग के लिये, तु० की० पुरोहित।

सं-घात से कुछ स्थलों^{१७} पर 'युद्ध' का आशय प्रतीत होता है।

^{१७} काठक संहिता २९ १, वाजसनेयि संहिता १. १६, शतपथ ब्राह्मण १. १, ४, ४८।

सचिव ('साधी', 'सेवक'; 'सच्' अथवा 'अनुगम करना' से) जो कि वाद में राजा के साथी अथवा मंत्री के लिये साधारण शब्द है, वैदिक साहित्य में ऐतरेय ब्राह्मण (३. २०, १) में मिलता है जहाँ इसका मरुतों के लिये इन्द्र ने प्रयोग किया है। आशय में यह जर्मन शब्द 'comes' अथवा अंग्रेजी शब्द 'gesith'^{१८} के समान प्रतीत होता है।

^{१८} स्टव्स • सेलेक्ट चार्टर्स, ५७।

स-जात एक चार ऋग्वेद^{१९} में, तथा वाद^{२०} में अक्षर मिलता है। इस शब्द का स्पष्टतः 'सम्बन्धी' और तदुपरान्त विस्तृत रूप से समान स्तर या

^{१९} १ १०९, १।

^{२०} अथर्ववेद १, ९, ३; १९, ३, २ ६, ४, ३ ३, ६, ६ ५, २, ७३, १, ११ १, ६ ७, तैत्तिरीय संहिता २. १, ३, २, २, १, २, ६, ९, ७, मैत्रायणी संहिता

२ १, ८, काठक संहिता ११. १२. १३, १२. १, वाजसनेयि संहिता ५. २३, १०, २९, २७ ५, और अक्षर ब्राह्मणों में।

पद का व्यक्ति अर्थ होना चाहिये; किन्तु इसके आशय का विभेद नहीं किया जा सकता क्योंकि यह दोनों ही आशय बहुधा एक दूसरे में सन्निविष्ट मिलते हैं। निःसन्देह राजा के 'सजात' राजा,^३ साधारण व्यक्ति के 'वैश्य',^४ और सैनिकों के 'क्षत्रिय' रहे होंगे। किन्तु इससे उस प्रकार जाति का सन्दर्भ नहीं है जैसा वाद के 'सजाति'^५ (एक जाति के व्यक्ति) शब्द से व्यक्त होता है। सजातियों के विवाद को अपकारक कहा गया है।^६

^३ अथर्ववेद ३. ३, ४ ६, वेबर : इन्डिशे
स्टूडियन १७, १८८।

^४ शतपथ ब्राह्मण ५ ४, ४, १९ (ग्रामणी
के सजात)।

^५ मनु ९ ८७, १० ४१, इत्यादि। इसका
'सजात्य' रूप ऋग्वेद २ १, ५; ३.

५४, १६; ८. १८, १९; २०, २१;
२७, १०, १० ६४, १३, में मिलता
है। किन्तु इससे किसी जाति का
आशय नहीं है।

^६ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ७, १२, २।

सं-चर से, तैत्तिरीय संहिता^१ में, पशुओं के पथ का आशय है। सामान्य-तया यह शब्द यज्ञ-भूमि के उस 'स्थान' अथवा 'कक्ष' का द्योतक है जहाँ संस्कार में भाग लेनेवाले अनेक व्यक्ति विराजमान होते थे।^२

^१ ५. ४, ३, ५।

^२ शतपथ ब्राह्मण १ ९, २, ४; ३. १, ३,
२८, लाट्यायन श्रौत सूत्र ३. ७, ११,

कात्यायन श्रौत सूत्र १. ३, ४२,
इत्यादि।

सं-ज्ञान ('सहमति', 'समवेतता') का ऋग्वेद^१ तथा उसके बाद^२ से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होने के रूप में उल्लेख है। इस स्थिति के निर्माण के लिये अथर्ववेद में अनेक अभिचार मिलते हैं। वैदिक ग्रामों के आकार की लघुता तथा उनके निवासियों की परस्पर आर्थिक निर्भरता के कारण उन ग्रामों में शान्ति का अभाव प्रायः अवश्य ही रहा होगा। तु० की० आनृत्य।

^१ १०. १९, ६।

^२ अथर्ववेद ३ ३०, ४, ७ ५२, १, ११
१, २६, इत्यादि, तैत्तिरीय संहिता

५ २, ३, २; ३, १, १४; वाजसनेयि
संहिता २६. १, ३०. ९, निरुक्त ४.
२१, इत्यादि।

सत, संस्कारों^१ के सन्दर्भ में उल्लिखित एक प्रकार के 'पात्र' का नाम है।

^१ वाजसनेयि संहिता १९ २७ ८८, शतपथ-ब्राह्मण १२ ७, २, १३, ८, ३, १४।

सतीन-कङ्कत,^१ ऋग्वेद^२ में किसी पशु का नाम है जिसे सायण 'जलीय सर्प'^३ मानते हैं ।

^१ इसका शब्दार्थ 'वास्तविक कधीवाला' प्रतीत होता है ।
^२ १ १९१, १ ।
^३ तु० की० तिसर . आखिण्डशे लेवेन, ९८ ।

सत्य-काम (सत्य का प्रेमी) जावाल (जवाला का वंशज) एक गुरु का नाम है जो किसी अज्ञात पिता द्वारा उत्पन्न एक दासी का पुत्र था । छान्दोग्य उपनिषद्^१ के अनुसार गौतम हारिद्रुमत ने इसे एक ब्रह्मचारिन् के रूप में दीक्षित किया था । इस उपनिषद्^२ तथा बृहदारण्यक उपनिषद्^३ में इसका अधिकारी विद्वान के रूप में अक्सर उल्लेख है । बृहदारण्यक उपनिषद्^४ में यह जानकि आयस्थूरा द्वारा किसी सिद्धान्त का ज्ञान प्राप्त करता है । ऐतरेय^५ तथा शतपथ^६ ब्राह्मणों में भी इसका उल्लेख है ।

^१ ४ ४, १ और बाद ।
^२ ४ ५, १, ६, २; ७, २; ८, २; ९, १०, १०, १, ५ २, ३ ।
^३ ४ १, १४ (माध्यन्दिन = ४. १, ६)
 काण्व) ।
^४ ६ ३, १९ (= ६. ३, १२) ।
^५ ८ ७, ८ ।
^६ १३ ५, ३, १ ।

सत्य-यज्ञ (वास्तविक यज्ञकर्ता) पौलुषि (पुलुष का वंशज) प्राचीन-योग्य ('प्राचीनयोग' का वंशज), शतपथ ब्राह्मण,^१ छान्दोग्य उपनिषद्^२ और जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण^३ में एक गुरु का नाम है । इस अन्तिम ग्रन्थ में इसे पुलुष प्राचीनयोग्य का शिष्य कहा गया है ।

^१ १० ६, १, १ ।
^२ ५. ११, १ ।
^३ ३. ४०, २ (एक वश में) ।

सत्य-वचस् (सत्यवादी) राथीतर (रथीतर का वंशज) तैत्तिरीय उपनिषद् (१. ९, १,) में एक ऐसे गुरु का नाम है जिसने सत्य के महत्त्व पर विशेष जोर दिया था ।

सत्य-श्रवस् (वास्तविक ख्यातिवाला) वाय्य ('वय्य' का वंशज) ऋग्वेद^१ में एक ऋषि का नाम है । लुडविग^२ का विचार है कि यह सुनीथ शौचद्रथ का पुत्र था ।

^१ ५ ९, १७ और बाद ।
^२ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५६ ।

सत्य-हविस्, मैत्रायणी संहिता (१. ९, १, ५) में एक पौराणिक 'अध्वर्यु' का नाम है ।

सत्याधिवाक चैत्ररथि (चित्ररथ का वंशज) जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (१. ३९, १) में एक मनुष्य का नाम है ।

सत्वन् से, ऋग्वेद^१ में तथा वाद^२ में अक्सर, 'योद्धा' का आशय है ।

^१ १ १३३, ६, १७३, ५, २. २५, ४; | ^२ ५. २०, ८; ६ ६५, ३; वाजसनेयि ३०, १०, ३ ४९, २, इत्यादि | संहिता १६ ८ २०, इत्यादि ।

सत्वन्तु एक जाति के लोगों का नाम है, जिन्हें ऐतरेय ब्राह्मण^३ में दक्षिण में बसा बताया गया है । शतपथ ब्राह्मण^४ में सत्वन्तों की भरत द्वारा पराजय तथा उसके (भरत) द्वारा इनके अश्वमेध के लिये सुसज्जित अश्व के छीन लिये जाने का उल्लेख है : यह सन्दर्भ इस बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है कि ऐतरेय ब्राह्मण^३ के एक अन्य स्थल पर मूल पाठ के 'सत्वनाम' को उस 'सत्वताम्' (सत्वन्तों का) के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिये जिन पर, ऐसा प्रतीत होता है कि, भरत-गण बहुधा आक्रमण किया करते थे । सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, कोवेल, तथा मैक्स मूलर ने कौपीतिक उपनिषद्^५ में भी यह नाम देखा है, किन्तु यह निश्चित^६ है कि यहाँ मूल पाठ 'सत्वन्-मत्स्येषु' नहीं वरन् 'स-वश-मत्स्येषु' है ।

^१ ८ १४, ३ ।

^२ १३. ५, ४, २१

^३ २ २५ ६ ।

^४ ४ १ ।

^५ औल्डेनवर्ग . बुद्ध, ३९९, नोट, जो कि

मैक्स मूलर . से० बु० ई० १, lxxvii को शुद्ध करते हैं ।

तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, २११, २१२, ४१९; ९, २५४; कीथ : ज० ए० सो० १९०८, ३६७ ।

सदन—देखिये गृह ।

सदंदि—देखिये तवमन् ।

सदस्—देखिये गृह ।

सदस्य—देखिये ऋत्विज् ।

सदा-नीरा एक नदी का नाम है जो शतपथ ब्राह्मण^१ के अनुसार कोसलों और विदेहों के बीच की सीमा थी । देशीय कोशकारों ने इस नदी को 'करतोया'^२ के साथ समीकृत किया है, किन्तु यह बहुत अधिक पूर्व में स्थित

^१ १. ४, १, १४ और वाद ।

^२ देखिये इम्पीरियल गेलेटियर ऑफ इन्डिया, १५, २४ ।

प्रतीत होती है। वेवर^३ द्वारा इसका 'गण्डकी'^४ के साथ समीकृत किया जाना सम्भवतः ठीक है; क्योंकि, यद्यपि महाभारत^५ में इन दोनों नदियों में विभेद किया गया है, तथापि ऐसा दिखाने के लिये कोई आधार नहीं कि यह विभेद किसी श्रेष्ठ परम्परा पर ही आधारित है।

^३ इन्डिओ स्टूडियन्, १, १७२, १८१।

^४ २. ७९४।

^५ देखिये व० स्था०। बड़ी गण्डक,
इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इन्डिया
१२, १२५।

तु० की० औरडेनवर्ग : बुद्ध
३९८, नोट।

सदा-पृण, ऋग्वेद^१ में एक ऋषि का नाम है।

^१ ५. ४४, १०। तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १३९।

सघन्, तैत्तिरीय ब्राह्मण (२. ८, ६, १) में सघन् का मिथ्या पाठ है।
सध्नि, ऋग्वेद^२ में एक ऋषि का नाम है।

^२ ५. ४४, १०। तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १३८।

सनक, दो काप्यों (दूसरा नवक था) में से एक का नाम है जिन्होंने विभिन्दुकीयों के उस यज्ञ में भाग लिया था जिसका जैमिनीय ब्राह्मण^३ में उल्लेख है। लुडविग^२ का विचार है कि ऋग्वेद^३ के एक स्थल पर 'सनकों' का यज्ञ करनेवालों के रूप में उल्लेख है, किन्तु यह अत्यन्त सन्दिग्ध है।^४

^३ ३. २३३ (ज० अ० ओ० सो० १८, ३८)।

^४ १. ३३, ४।

^२ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १४७।

^५ गेल्डनर : ऋग्वेद, ग्लॉसर, १८९।

सनग—देखिये सनातन।

सनत्-कुमार, छान्दोग्य उपनिषद् (७. १, १; २६, २) में एक पौराणिक ऋषि का नाम है।

सन-श्रुत (प्राचीनकाल से प्रसिद्ध) अरिंदम (शत्रुओं का दमन करनेवाला) का ऐतरेय ब्राह्मण (७. ३४, ९) में एक महाराज के रूप में उल्लेख है।

सनाच्-छव, सम्भवतः काठक संहिता^१ में एक गुरु का व्यक्तिवाचक नाम है। कपिष्ठल संहिता^२ में 'शहनाशिछव' है। बहुत सम्भवतः दोनों ही ग्रन्थों का पाठ अष्ट है।

^१ ०० १।

^२ ३१. ३ (फॉन श्रोडर • काठक संहिता २, १८, नोट ५)।

सनातन, तैत्तिरीय संहिता^१ में एक पौराणिक ऋषि का नाम है। बृहदारण्यक उपनिषद्^२ के प्रथम दो वंशों में यह सनग के शिष्य तथा सनारु के गुरु के रूप में आता है, जो दोनों भी पौराणिक व्यक्तित्व ही है।

^१ ४, ३, ३, १।

^२ २. ५, २२, ४, ५, २८ (माध्यदिन = २, ६, ३, ४. ६, ३ काण्व)।

सनारु—देखिये सनातन।

सनिस्रस—देखिये मास।

सं-दंश—देखिये गृह।

सं-दान, ऋग्वेद^१ तथा वाद^२ में एक 'वन्धन', 'अवरोधक', अथवा 'पाश' का द्योतक है।

^१ १. १६२, ८, १६।

^२ अथर्ववेद ६, १०३, १; १०४, १,
११. ९, ३, तैत्तिरीय संहिता २, ४,

७, २; शतपथ ब्राह्मण १४. ३, १,
२२, इत्यादि।

सं-धा, वाद की संहिताओं तथा ब्राह्मणों^१ में 'सन्धि' अथवा 'समझौते' का द्योतक है।

^१ अथर्ववेद ११, १०, ९, १५, तैत्तिरीय
संहिता १, ७, ८, ४; तैत्तिरीय ब्राह्मण

१, ७, १, ६, २. १, १, ३; कौपीतिक
उपनिषद् ३, १।

सं-धि, शतपथ ब्राह्मण^१ में पृथिवी और आकाश के संधि-स्थल, अथवा क्षितिज का द्योतक है। प्रकाश तथा अन्धकार के संधि-स्थल के रूप में इससे 'गोधूलि'^२ का भी आशय है।

^१ ३, २, १, ५, १०, ५, ४, २।

^२ वाजसनेयि संहिता २४, २५; तैत्तिरीय
ब्राह्मण १. ४, ५, १, २, २, ९, ८;

दिवचन : शतपथ ब्राह्मण १, ६, ३,
५५, ९. ४, ४, १३, इत्यादि। वाद
में प्रचलित शब्द 'सध्या' है।

सं-नहन, वाद की संहिताओं और ब्राह्मणों में 'वन्धन' या 'रस्सी' का द्योतक है।^१

^१ तैत्तिरीय संहिता १, १, २, २, अथर्ववेद १, ३, ३, ६; २, ६, १, १५, इत्यादि।

स-पत्र (प्रतिद्वन्दी) वाद की संहिताओं^१ में मिलनेवाला एक साधारण

^१ अथर्ववेद १, १९, ४, १०, ६, ३०; १०, २, ४६; तैत्तिरीय संहिता १. ६, २,
२, ३. २, ८, ५, इत्यादि।

शब्द है जो ऋग्वेद^२ के दसवें मण्डल में भी आता है। यह सं-पत्नी ('स-पत्नी', और इसलिये 'सौत') के समान आधार पर ही बना एक विचित्र पुल्लिङ्ग शब्द है।

^२ १० १६६, १, इत्यादि, 'सपत्न-हन्' यौगिक शब्द में भी, १० १५९, ५, इत्यादि, अथर्ववेद १ २९, ५, इत्यादि।

सं-पत्नी, ऋग्वेद^१ में 'सह-पत्नी' के आशय में आता है। प्रथम तथा अन्तिम मण्डल में इसका 'प्रतिद्वन्दी' के रूप में 'सह-पत्नी' अर्थ है।^२ वैदिकोत्तर संस्कृत में यह शब्द 'प्रतिद्वन्दी' का पर्याय बन गया है।

^१ ३ १, १०, ६, ४।

^२ १ १०५, ८, १० १४५, १-५ (तु०

की० मन्त्र २ में 'पति मे केवलम् कुरु',

अर्थात्, 'मेरे पति को सर्वथा मेरा ही बनाओ')।

सप्त-गु, ऋग्वेद के उस सूक्त^१ का प्रसिद्ध प्रणेता है जिसके एक मन्त्र में ही इसका उल्लेख भी है।

^१ १० ४७, ६। तु० की० ब्लूमफील्ड • अ० फा० ३७, ४२३।

सप्त सिन्धवः, एक निश्चित देश^१ के नाम के रूप में केवल एक बार ही आता है, जब कि अन्यत्र^२ इससे स्वयं सात नदियों का ही आशय है। मैक्स मूलर^३ का विचार है कि इससे पंजाब की पाँच नदियों के साथ-साथ सिन्धु तथा सरस्वती का तात्पर्य है; अन्य लोगों^४ का विचार है कि या तो सरस्वती के स्थान पर कुभा मानना चाहिये अथवा मूलतः 'ऑक्सस'^५ भी सात नदियों में से एक रहनी होगी। इनमें से किसी भी समीकरण पर जोर न देते हुये स्विमर^६ सम्भवतः ठीक प्रतीत होते हैं; क्योंकि ऋग्वेद और वाद में 'सात' एक प्रिय सख्या है।

^१ ८. २४, २७।

^२ ऋग्वेद १ ३२, १२, ३४, ८, ३५, ८, ७१, ७, १०२, २, ४ २८, १, ८ ९६, १, इत्यादि, वाजसनेयि संहिता ३८ २६, अथर्ववेद ४ ६, २, तैत्तिरीय संहिता ४ ३, ६, १, इत्यादि।

^३ चिप्स, १, ६३। तु० की० मूलर संस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, ४९०, नोट।

^४ लुडविग. ऋग्वेद का अनुवाद, ३,

सप्त सूर्याः का, जिनका संहिताओं^१ में उल्लेख है, तैत्तिरीय आरण्यक^२ में

^१ अथर्ववेद १३ ३, १०, काठक संहिता ३७ ९।

^२ १ ७। तु० की० अग्नि की 'सप्तसिन्धवो' जिनका ऋग्वेद में उल्लेख है, और

२००, लासन • इ० आ० १^२, ३; व्हिट्ने • ज० अ० ओ० सो० ३, ३११।

^३ तु० की० थॉमस : ज० ए० सो० १८८३, ३७१ और वाद।

^६ आल्डिन्डिशे लेबेन, २१।

तु० की० हॉपकिन्स ज० अ० ओ० सो०, १६, २७८; इन्डिया, ओल्ड ऐन्ड न्यू, ३३।

वाद में जिनमें से प्रत्येक का पृथक्-पृथक् नामकरण किया गया है : मैक-डौनेल : वैदिक माइथोलोजी, पृ० ८९।

‘आरोग’, ‘आज’, ‘पटर’, ‘पतङ्ग’, ‘स्वर्णर’, ‘ज्योतिषीमन्त’, और ‘विभास के रूप में नामकरण किया गया है, किन्तु, अत्यन्त दुर्लभ रूप से ही, यह वाद^३ में भी आते हैं। एक समय^४ वेधर का विचार था कि इस वाक्यपद से सात ग्रहों (देखिये ग्रह) का तात्पर्य है, किन्तु वाद में आपने अपने इस विचार का परित्याग कर दिया।^५ सम्भवतः ऋग्वेद^६ की ‘सात रश्मियों’ का तात्पर्य है।

^३ कोथ • ऐतरेय आरण्यक २६६, हॉपकिन्स :
ग्रेट इपिक ऑफ इन्डिया ४७५।

^४ इन्डिशो स्टूडियन १, १७०, २, २३८।

^५ वही १०, २७१, नोट, जहाँ आप ऋग्वेद
९, ११४, ३ के ‘सप्त दिशो नाना-सूर्या.’

(विभिन्न सूर्य और सातदिशयें) के साथ इसकी तुलना करते हैं।

^६ ऋग्वेद १ १०५, ९, ८. ७२, १६;
हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो०
१६, २७७।

सप्त-मानुष, ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर अग्नि की एक उपाधि (सात जातियों के) रूप में मिलता है। हॉपकिन्स^२ का विचार है कि इससे ऋग्वेद के सात ‘गृह्य’ मण्डलों (२.-८.) का आशय है, किन्तु यह रौथ^३ के इस विचार की अपेक्षा कम सम्भव प्रतीत होता है, कि ‘सप्तमानुष’, ‘वैश्वानर’ के समान है।

^१ ८. ३९, ८।

^२ ज० अ० ओ० सो० १६, २७८।

^३ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०।

सप्त-वध्रि, अश्विनों के उस आश्रित का नाम है जिसकी, ऋग्वेद^१ के अनेक स्थलों के अनुसार, अश्विनों ने एक वृक्ष से बँध जाने पर रक्षा की थी। अथर्ववेद^२ में भी इसका उल्लेख है। गेव्हनर^३ के अनुसार इसे अत्रि के साथ समीकृत किया जा सकता है।

^१ ५. ७८, ५; ८ ७३, ९; १० ३९, ९।

^२ ४. २९, ४।

^३ ऋग्वेद, ग्लॉसर, १९०।

तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का
अनुवाद ३, १५६; वॉनेक : त्सी० गे०
५०, २६८।

सप्ति ऋग्वेद^१ तथा वाद^२ में एक ‘द्रुतगामी अश्व’ का द्योतक है।

^१ १. ८५, १. ६; १६२, १; २ ३४, ७, ३. २२, १, इत्यादि।

^२ वाजसनेयि संहिता २२ १९. २२।

सप्त्य, ऋग्वेद (८. ४१, ४) के एक स्थल पर ‘दौड़ के मैदान’ का द्योतक प्रतीक होता है।

स-वन्धु, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में ‘सम्बन्धी’ का द्योतक है।

^१ ३ १, १०, ५ ४७, ५; ८. २०, २१,
इत्यादि।

^२ अथर्ववेद ६. १५, २; ८. २, २६; १५.
८, २. ३, इत्यादि।

सभा से, वैदिक भारतीयों की सभा तथा 'सभा-भवन' का तात्पर्य है। इसका ऋग्वेद^१ तथा याद^२ में अक्सर उल्लेख है, किन्तु इसकी ठीक-ठीक प्रकृति निश्चित नहीं। जब सभा कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सम्पन्न कर रही होती थी, तब, सम्भवतः, सभा-भवन का स्पष्टतः धूत-कक्ष^३ के रूप में भी प्रयोग किया जाता था : एक धूतकार को निश्चित रूप से इसलिये 'सभा-स्थाणु' (सभा-भवन का स्तम्भ) कहा गया है कि वह वहाँ मदैव उपस्थित रहता था।^४ होमर के 'लेमचे' (λεμχη) की भाँति, सामाजिक सम्पर्कों, गायों इत्यादि से सम्बन्धित सामान्य वार्तालाप,^५ तथा याद-विवाद और शाब्दिक प्रतिस्पर्धाओं,^६ इत्यादि के लिये भी सभा-भवन का प्रयोग होता था।

^१ ऋ २८, ६; ८. ४, ९; १० ३४, ६।

तु० की० 'सभा सद्', १०. ७१, १०।

^२ अथर्ववेद ५ ३१, ६, ७ १२, १. २, ८. १०, ५, १०. १, ५६, १९ ५५, ६; तैत्तिरीय संहिता १. ७, ६, ७, मैत्रायणी संहिता ४. ७, ४, वाजसनेयि संहिता ३ ४५; १६. २४, २० १७, तैत्तिरीय ब्राह्मण १. १, १०, ६; शतपथ ब्राह्मण २. ३, २, ३, ५ ३, १, १०, कौपीतिक ब्राह्मण ७. ९, इत्यादि।

^३ ऋग्वेद १० ३४, ६; अथर्ववेद ५. ३१, ६, १२ ३, ४६ (यहाँ सभा के स्थान पर 'धूत' का प्रयोग किया गया है)।

^४ वाजसनेयि संहिता ३० १८; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, १६, १, सायण की टिप्पणी सहित। तिस्र (आल्टिन्डिशे लेवेन, १७२) नेमन्त्र (वाजसनेयि संहिता ३. ४५, २० १७; तैत्तिरीय संहिता १ ८, ३, १, काठक संहिता ९ ४, मैत्रायणी संहिता १ १०, २) में 'ग्राम, वन, और सभा में हमने क्या पाप किया है' का

आशय देरते हैं जिसमें मदानों पर आक्रमण (वज्रमनेयि संहिता ३. ४५ पर महीधर) अथवा धूत-सम्बन्धी विवादों के निर्णय में पक्षपात (वही २० १७ पर महीधर) का सन्दर्भ है। किन्तु इससे धूत अथवा अन्य-अ-राजनैतिक कार्यों का सन्दर्भ हो सकता है, जैसा कि एरिल्डः से० वु० ई० १०, ३९८, ने इसका कुछ भिन्न अनुवाद (वही ४४, २६५) करते हुए माना है।

^५ ऋग्वेद ६ २८, ६। तु० की० ८ ४, ९। इसी प्रकार अथर्ववेद ७ १०, २ में सभा को 'नरिष्ठा' कहा गया है। किन्तु इसी सूक्त (७ १२, ३) में सभा में गम्भीर भाषण का भी सन्दर्भ मिलता है। गम्भीर राजनैतिक कार्यों तथा मनोरजन के परस्पर सन्निवेश के लिए देखिये टेसिटस • जर्मेनिया, २२।

^६ तिस्र • उ० पु० १७४, ने ऋग्वेद २ २४, १३ में 'सभेय' को इसी आशय में ग्रहण किया है।

लुडविग^७ के अनुसार 'सभा' समस्त प्रजाजनों की नहीं, वरन् ब्राह्मणों और मधवनों (सम्पन्न दाताओं) की होती थी। इस दृष्टिकोण की ब्राह्मणों के लिये व्यवहृत 'सभेय', 'रयिः सभावान्'^८ इत्यादि उपाधियों द्वारा पुष्टि भी होती है। किन्तु इन स्थलों पर ब्लूमफील्ड^९ ने, उपयुक्ततः, 'सभा' को फौट्टिग्विक आशय में प्रयुक्त माना है, और सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश भी अनेक स्थलों^{११} पर इसे किसी सार्वजनिक सभा से नहीं वरन् गृह से ही सम्बद्ध मानता है। स्मिथ^{१२} 'सभा' को इतना ही मानते हैं कि यह ग्रामणी की अध्यक्षता में एकत्र ग्राम-परिषद् के आयोजन-स्थल का द्योतक है। हिलेब्रान्ट^{१३} यह मानते हुये ठीक प्रतीत होते हैं कि 'सभा' और समिति का विभेद नहीं किया जा सकता, तथा इसमें सु-जातों^{१४} के सत्र के आयोजन के उल्लेख द्वारा आर्यों के एक वर्ग के विपरीत दूसरे वर्ग की सभा का नहीं वरन शूद्रों

^७ ऋग्वेद का अनुवाद ३, २५३-२५६। इस दृष्टिकोण के लिए आप ने ऋग्वेद ८ ४, ९; १० ७, १० (जो अस्पष्ट स्थल हैं) का उद्धरण दिया है। तु० की० ऋग्वेद ७ १, ४, अथर्ववेद १९ ५७, २।

^८ ऋग्वेद २. २४, १३। तु० की० १. ९१, २०, अथर्ववेद २०. १२८, १, वाजसनेयि संहिता २२. २२, इत्यादि। मैक्स मूलर • से० बु० ३२, २७६, ने 'सभेय' मे 'दरवारी शिष्टाचार' का आशय माना है, किन्तु यह कुछ सन्दिग्ध ही है, वेदों में आचारों पर उतना स्पष्ट जोर नहीं है जितना होमरिक समाज में था।

^९ ऋग्वेद ४ २, ५; १. १६७, ३, में 'सभावती' सम्भवतः वाच् अथवा 'योपा' के लिए व्यवहृत हुआ है।

^{१०} ज० अ० ओ० सो०, १९, १३।

^{११} अथर्ववेद ८ १०, ५ (फिर भी, जहाँ स्पष्टतः 'सभा' का ही आशय है; देखिये ८. १०, ६), तैत्तिरीय संहिता

३. ४, ८, ६, तैत्तिरीय ब्राह्मण १. १, १०, ३; छान्दोग्य उपनिषद् ८ १४, (किन्तु यहाँ निश्चित रूप से 'सभा-भवन' का आशय है, देखिए ५ ३, ६, जहाँ सभा-भवन में जाते हुए राजा का वर्णन है : 'समान्')। सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश ने इसका ठीक ठीक आशय आवास-गृह में स्थित 'सभा-भवन' दिया है।

^{१२} आस्टिन्डिशे लेवेन, १७४। किन्तु आप शतपथ ब्राह्मण ३. ३, ४, १४; छान्दोग्य उपनिषद् ५ ३, ६, की उपेक्षा करते हैं, जहाँ यह दिखाया गया है कि राजा किसी सभा में उतना ही सम्मिलित होता था जितना समिति में भी, आपने किसी भी ऐसे स्थल का उद्धरण नहीं दिया है जिसमें यह स्पष्ट हो कि ग्रामणी अध्यक्षता करता था।

^{१३} वेदिशे माइथोलोजी, २, १०३-१२५।

^{१४} ऋग्वेद ७. १, ४।

अथवा दासों के विपरीत आर्यों की सभा का ही सन्दर्भ है। हिलेब्रान्ट ने 'सभ्य अग्नि' में भी सभा-सत्र के समय प्रयुक्त यज्ञाग्नि के सन्दर्भ का चिह्न देखा है।^{१५}

स्त्रियाँ सभा में नहीं आती थीं,^{१६} क्योंकि राजनैतिक कार्यों से इन्हें प्रायः पृथक ही रक्खा जाता था। न्यायालय के रूप में 'सभा' के लिये तु० की० ग्राम्यवादिन्। सभा द्वारा सम्पन्न कार्यों के सम्बन्ध में एक भी विवरण नहीं मिलता।

^{१५} अग्नि 'सभ्य' हैं, अथर्ववेद ८. १०, ५,
१९ ५५, ६। ऋग्वेद के लिये देखिये
३. २३, ४, ५. ३, ११; ७. ७, ५।

^{१६} मैत्रायणी संहिता ४. ७, ४।
तु० की० रिसमर : आस्टिन्डिशे
लेवेन, १७०-१७४।

सभा-चर, यजुर्वेद^१ में पुरुषमेध के वलि-प्राणियों में से एक है। सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश का विचार है कि यह 'सभा-ग' का समानार्थी और एक विशेषण है। यतः इसे 'धर्म' को समर्पित किया गया है अतः इसमें न्यायालय के रूप में सभा के एक ऐसे सदस्य का आशय देखना चाहिये जो सम्भवतः किसी विवाद पर निर्णय देने के लिये बैठा हो : यह दिखाने के लिये कोई आधार नहीं है कि सम्पूर्ण सभा निर्णय देती थी अथवा उसके कुछ चुने हुये सदस्य। 'सभाचर' का विशेष प्रयोग इस वाद के विकल्प की ओर ही संकेत करता है। देखिये सभासद् भी।

^१ वाजसनेयि संहिता ३०. ६; तैत्तिरीय^२
ब्राह्मण ३. ४, २, १, सायण की

टिप्पणी सहित। तु० की० वेबर :
इन्डिशे स्ट्रॉफेन, १, ७७, नोट १।

सभा-पति, शतरुद्रिय^३ में भानेवाली एक उपाधि है।

^३ वाजसनेयि संहिता १६ २४, तैत्तिरीय संहिता ४. ५, ३, २; काठक संहिता
१७. १३, इत्यादि।

सभा-पाल, तैत्तिरीय ब्राह्मण (३. ७, ४, ६) में मिलता है, जहाँ इससे 'सभा-भवन के रक्षक' का आशय हो सकता है।

सभाधिन्, तैत्तिरीय ब्राह्मण (३. ४, १६, १) में भाष्यकार सायण के अनुसार 'घृत-कक्ष के रक्षक' का द्योतक है।

सभा-सद्, सम्भवतः उन पञ्चों का पारिभाषिक नाम है जो सभा में बैठ कर विवादग्रस्त समस्याओं पर निर्णय देते थे (तु० की० सभाचर)।

यह शब्द, जो अथर्ववेद^१ तथा वाद^२ में मिलता है, सभा के केवल किसी एक सदस्य को बहुत भली प्रकार व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसा भी सम्भव है कि सभासदों से, जो कदाचित् परिवारों के प्रधान होते थे, साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक समय और अधिक चार उपस्थित रहने की आशा की जाती रही हो। सामान्य वाद-विवाद और निर्णय की अपेक्षा सभा की बैठक का न्यायार्थ आयोजन ही अधिक चार होता रहा होगा।

^१ ३. २९, १ (यम का); ७. १२, २,
१९ ५५, ६।

१ ६, ११; तैत्तिरीय ब्राह्मण १ २,
१, २६, ऐतरेय ब्राह्मण ८. २१, १४।

^२ काठक संहिता ८. ७; मैत्रायणी संहिता

सभा-स्थाणु—देखिये सभा।

समेय—देखिये सभा।

सम्-ञ्जङ्ग एक अस्पष्ट आशय का शब्द है जो अथर्ववेद^१ के दो स्थलों पर आता है। व्लूमफील्ड^२ ने प्रथम स्थल पर इसका 'अंकुश' अनुवाद किया है, और दूसरे पर इसे एक अज्ञ-नाशक कीटाणु के अर्थ में ग्रहण करते हैं।

^१ १ १२, २; ६. ५०, १।

^२ अथर्ववेद के सूक्त ७. १४२। तु० की० सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था०।

समन, ऋग्वेद में कुछ सन्दिग्ध आशयवाला शब्द है। रौथ^१ ने इसका या तो 'युद्ध'^२ अथवा 'उत्सव'^३ अनुवाद किया है। पिशल^४ का विचार है कि यह एक प्रकार का ऐसा सामान्य उत्सव होता था जिसमें स्त्रियां अपने मनोरंजन के लिये,^५ कविगण प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिये,^६ धनुर्धर धनुर्विद्या का पुरस्कार प्राप्त करने के लिये,^७ और अश्व दौड़ के लिये^८ जाते थे। यह उत्सव प्रातःकाल^९ तक चलता था, अथवा उस समय तक जब तक कि रात

^१ सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था०।

^२ ऋग्वेद ६ ७५, ३ ५; ९ ९६, ९; १०.

१४३, ४, अथर्ववेद ६. ९२, २;

वाजसनेयि संहिता ९. ९।

^३ ऋग्वेद २ १६, ७, ६ ६०, २, ७ २,

५, ८ १०, ९; ९ ९७, ४७; १०

५५, ५, ८६, १०; अथर्ववेद २.

३६, १।

^४ वेदिशे स्टूडियन, २, ३१४।

^५ ऋग्वेद १. १२४, ८ (तु० की० घा),

४. ५८, ८, ६ ७५, ४, ७ ०, ५;

१०. ८६, १०, १६८, २।

^६ ऋग्वेद २. १६, ७, ९ ९७, ४७। तु०

की० गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन

२, ३८।

^७ ऋग्वेद ६ ७५, ३ ५।

^८ ऋग्वेद ९ ९६, ९, अथर्ववेद ६. ९०, २।

^९ ऋग्वेद १. ४८, ६ जिसे रौथ ने व्यवसाय

के लिये जानेवाले व्यक्तियों के आशय

में ग्रहण किया है।

भर जलनेवाली अग्नि से प्रज्वलित अग्निकाण्ड ही उत्सव में भाग लेनेवालों को हृधर-उधर नहीं भगा देता था।^{१०} युवतियों^{११} और अधेदु स्त्रियों^{१२} यहाँ पति हूँदने का प्रयास करती थीं, जब कि नर्तकियाँ अवसर से लाभ उठाकर अर्थोपार्जन करती थीं।^{१३}

^{१०} ऋग्वेद १० ६९, ११। तु० की०
७ ९, ४।

^{११} अथर्ववेद २ ३६, १।

^{१२} ऋग्वेद ७ २, ५।

^{१३} ऋग्वेद ४ ५८, ८, जहाँ ६ ७५, ४,
१० १६८, २ के समान ही रौथ ने
'आलिङ्गन' का आशय देखा है।

इसकी यूनान के उन उत्सवों के साथ

अत्यन्त समानता है जिनमें युवतियों
मुक्त रूप से अपरिचितों से मिलती थीं
तथा जो वाद की परम्परा के अनेक
सुखान्त नाटकों की पृष्ठभूमि प्रस्तुत
करते हैं (तु० की० महर्षि . ग्रीक
लिटरेचर, १, २, २५९ और वाद)।

तु० की० गेल्डनर : ऋग्वेद,
ग्लॉसर १९०।

समर—'युद्ध' के आशय में यह कौपीतिक ब्राह्मण^१ में, और गेल्डनर^२ के अनुसार ऋग्वेद^३ में मिलता है।

^१ ७ ९, शाङ्खायन श्रौत सूत्र, १५ १५, १२।

^२ ऋग्वेद, ग्लॉसर, १९०।

^३ ६ ९, २ (यज्ञ के समय, तु० की०
'समर्य', ४ २४, ८, इत्यादि)।

समा मूलतः 'ग्रीष्म' का द्योतक प्रतीत होता है, और अथर्ववेद^१ के कुछ स्थलों पर इसे इसी आशय में देखा भी जा सकता है। इसीलिये अपेक्षाकृत अधिक सामान्यतः यह 'ऋतु' का भी द्योतक है, किन्तु यह प्रयोग दुर्लभ है।^२ अधिकतर यह केवल 'वर्ष'^३ का द्योतक है; किन्तु एक स्थल पर शतपथ ब्राह्मण^४ ने वाजसनेयि संहिता^५ में इसकी 'मास' के अर्थ में व्याख्या की है, जो सन्दिग्ध ही है।

^१ १ ३५, ४, २ ६, १, ३. १०, ९।

तु० की० व्हिट्टने : अथर्ववेद का
अनुवाद, ३६।

^२ ऐतरेय ब्राह्मण ४. २५, ७, निरुक्त
९ ४१।

^३ ऋग्वेद ४. ५७, ७, १०. ८५, ५; १२४,
४, अथर्ववेद ५ ८, ८; ६ ७५, २,
इत्यादि।

^४ ६. २, १, २५।

^५ २७. १, महीधर की टिप्पणी सहित।
देखिये एगिलङ्ग : से० बु० ई०, ४१,
१६८, नोट १।

तु० की० तिसमर . आल्टिन्डिशे
लेवेन ३७२; श्रेडर . प्रिडिस्टोरिक
एन्टीक्विटीन, ३०१।

समान—देखिये प्राण।

समान-गोत्र^१ और समान-जन^२ का घ्राहणों में क्रमशः 'एक ही परिवार का सदस्य' और 'वर्ग' अर्थ है। समान-बन्धु शब्द ऋग्वेद^३ में मिलता है।

^१ कौषीतकि ब्राह्मण २५. १५।

^२ पञ्चविंश ब्राह्मण १६ ६, ९, लाट्यायन श्रौत सूत्र ८ २, १०।

^३ १. ११३, २, शतपथ ब्राह्मण ३ ५, १, २५।

समान्त (एक ही सीमावाला), अर्थात्, 'पड़ोसी', और पूतदर्थ 'शत्रु', मैत्रायणी संहिता (२. १, २४) में आता है।

सम्-इति, वैदिक जाति की एक 'सभा' का द्योतक है। इसका ऋग्वेद,^१ और अक्सर^२ वाद में, तथा कभी-कभी, सभा^३ के सम्बन्ध में भी उल्लेख है। लुडविग^४ का विचार है कि 'समिति' के अन्तर्गत सभी लोग, मुख्यतः 'विशः' (प्रजाजन), आते थे। इसमें मघवन् और ब्राह्मण भी इच्छानुसार सम्मिलित हो सकते थे, यद्यपि इनकी विशेष सभा को 'सभा' शब्द से ही व्यक्त किया गया है। यह दृष्टिकोण सम्भाव्य नहीं, और न त्सिमर^५ का यही मत कि 'सभा' ग्राम-वासियों की सभा होती थी। यह मानते हुये हिलेब्रान्ट^६ ठीक प्रतीत होते हैं कि 'समिति' और 'सभा' बहुत कुछ एक ही हैं जिनमें से एक शब्द वास्तविक सभा का द्योतक है और दूसरा मुख्यतः सभा के स्थान का।

राजा उसी प्रकार किसी समिति^७ में भी जाता था जिस प्रकार किसी 'सभा' में। राजा का चुनाव भी यहीं होना, जैसा कि त्सिमर^८ का विचार है, उतना ही अनिश्चित है जितना स्वयं उसके निर्वाचित होने का ही तथ्य

^१ १ ९५, ८; ९ ९२, ६; १०. ९७, ६; १६६, ४, १९१, ३:

^२ अथर्ववेद ५ १९, १५, ६ ८८, ३, ७ १२, १; १२ १, ५६, इत्यादि।

^३ अथर्ववेद ७. १२, १, १२ १, ५६, १५ ९, २. ३, ८ १०, ५ ६।

^४ ऋग्वेद का अनुवाद ३ २५३ और वाद।

^५ आस्टिन्डिशे लेवेन, १७२ और वाद।

^६ वेदिशे माइथौलोजी, २, १२४, नोट ६।

^७ ऋग्वेद ९. ९२, ६; १० ९७, ६ (जहाँ,

जैसा कि त्सिमर, १७६, १७७, का विचार है, अल्पजनसत्ता का कदाचित ही आशय है। इससे केवल एक ही रक्त सम्बन्ध वाले राजाओं का शेष लोगों के साथ समिति में जाने का तात्पर्य है।)

^८ ऋग्वेद १० १७३ के साथ अथर्ववेद ६ ८७ ८८ को तथा अथर्ववेद ३. ४, ६ के साथ अथर्ववेद ५. १९, १५ को उद्धृत करते हुये उ० पु० १७५।

(देखिये राजन्) । किन्तु इस बात के स्पष्ट चिह्न हैं कि सभा तथा राजा के बीच सहमति राजा की समृद्धि के लिये आवश्यक होती थी ।^१

यह मानना तर्क-सगत है कि सभा का कार्य सामान्य रूप से सभी प्रकार की नीतियों पर विचार-विनिमय करना, जिस सीमा तक वैदिक भारतीय विधान बनाने पर ध्यान देते थे उस सीमा तक विधान बनाना, और नैय्यायिक कार्य सम्पन्न करना होता था (तु० की० सभासद्) । किन्तु सम्भवतः मूल स्थलों की प्रकृति के परिणाम-स्वरूप इन कार्यों में से किसी के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं ।

देवों की भी समिति होती थी, अतः उसे 'दैवी'^{१०} कहते थे । इसी प्रकार देवों की 'सभा'^{११} भी होती थी ।

वौद्ध ग्रन्थों,^{१२} महाकाव्यों^{१३} और नीति-ग्रन्थों^{१४} में शासन के प्रभावशाली अंग के रूप में 'समिति' का अस्तित्व समाप्त हो गया है ।

^१ अथर्ववेद ६ ८८, ३ । रौथ : सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० २५० २, 'समिति' को यहाँ और ५ १९, १५; ऋग्वेद १० १६६, ४; १९१, ३, में 'सध' के अर्थ में ग्रहण करते हैं, किन्तु यह न तो आवश्यक है और न सम्भव ही ।

^{१०} ऋग्वेद १०. ११, ८ ।

^{११} जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण २ ११, १३. १४,

^{१२} तु० की० बूह्लर : त्सी० गे०, ४८, ५५, 'परीस' पर ।

^{१३} हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० १३, १४८-१५२ जो प्राचीन समिति के हास का कारण अभिजात युद्ध-परिषद् और गुप्त पुरोहितीय सभा को मानते

हैं । नि.सन्देह, यह अत्यन्त सम्भव है कि किसी भी समय 'समिति' ऐसा स्थानन रद्दा हो जहाँ साधारण मनुष्यों के दृष्टिकोणों पर कुछ अथवा कोई ध्यान दिया जाता था । राजा तथा महान व्यक्ति ही भाषण देते थे, शेष लोग केवल उसको अपनी मान्यता-अमान्यता प्रदान करते थे, जैसा कि होमर के काल में तथा जर्मनी में भी था (तु० की० लैङ्ग : पेन्थ्रोपॉलोजी ऐण्ड क्लासिक्स, ५१, और वाद, टेसिटस. जर्मनिया, ११ १२, जहाँ, उनके सामान्य कर्त्तव्यों तथा दण्डात्मक अधिकारों का उल्लेख है) ।

^{१४} फॉय : डी० गे० ६, ७, १० ।

सम्-इध्, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में अग्नि प्रज्वलित करने के लिये प्रयुक्त

^१ ४ ४, १५, ६ १५, ७, १६, ११, ७ १४, १, १०. १२, २, इत्यादि ।

^२ वाजसनेयि संहिता ३ ४; २० २५, इत्यादि ।

ईधन का द्योतक है। गेल्डनर^३ एक स्थल^४ पर इसमें एक पुरोहित, वाद के 'अग्निध्', के नाम का आशय देखना चाहते हैं।

^३ ऋग्वेद, ग्लॉसर, १९१।

| ^४ ऋग्वेद १० ५२, २।

समुद्र, ऋग्वेद तथा वाद में एक बहु-प्रयुक्त शब्द है। इसका इस दृष्टि से महत्त्व है कि इससे यह पता चलता है कि वैदिक भारतीय समुद्र से परिचित थे। इसे यद्यपि विवियन सेन्ट मार्टिन^५ ने अस्वीकृत किया है, तथापि न केवल मैक्स मूलर^६ और लासन^७ ने ही इसे माना है, वरन् समुद्र-सम्बन्धी वैदिक भारतीयों के ज्ञान को यथा-साध्य सीमित करनेवाले रिसमर^८ भी ऋग्वेद^९ के एक स्थल पर तथा निःसन्देह वाद^६ के लिये इसे स्वीकार करते हैं। आप यह व्यक्त करते हैं कि समुद्र की सीमा तथा उसका बहाव अज्ञात है, सिन्धु के मुहाने का कहीं भी उल्लेख नहीं है, भोजन के रूप में मछली भी ऋग्वेद में ज्ञात नहीं (तु० की० मत्स्य), और अनेक स्थलों पर लाक्षणिक आशय में समुद्र का दो महासागरों,^९ अर्थात् एक उच्च और निम्न,^६ के रूप में उल्लेख है, इत्यादि। अन्य स्थलों पर आपके विचार से समुद्र वास्तव में अन्य सब सहायक नदियों के मिल जाने के पश्चात् सिन्धु नदी का ही द्योतक है।^९ इसके द्वारा वैदिक भारतीयों के समुद्र-सम्बन्धी ज्ञान को संकीर्ण सिद्ध करने का प्रयास किया गया हो सकता है, जब कि वास्तव में सिन्धु नदी से परिचित इन लोगों को समुद्र का ज्ञान होना निश्चित है। समुद्र की

^३ ऐ० वे०, ६० और वाद। तु० की० विलसन : ऋग्वेद १, ३११।

^४ से० तु० ई० ३२, ६१ और वाद, जो ऋग्वेद १ ७१, ७, १९०, ७, ५ ७८, ८, ७ ४९, २, ९५, २, १०. ५८, को उद्धृत करता है।

^५ इ० आ० १^२, ८८३।

^६ आस्टिन्डिशे लेवेन, २२ और वाद। तु० की० मैकडौनेल. सस्कृत लिटरेचर १४३, १४४।

^७ ७ ९५, २।

^८ अथर्ववेद ४ १०, ४ (सीप), ६ १०५, ३, (समुद्र का 'वि-क्षर'),

१९ ३८, २, तैत्तिरीय संहिता ७ ४, १३, १, इत्यादि।

^९ ऋग्वेद १०. १३६, ५। तु० की० अथर्ववेद ११ ५, ६।

^६ ऋग्वेद ७. ६, ७, १० ९८, ५।

^९ देखिये, उदाहरण के लिये, ऋग्वेद १. ७१, ७, ३ ३६, ७, ४६, ४, ५ ८५, ६, ६ ३६, ३; ७ ९५, २, ८ १६, २; ४४, २५, ९ ८८, ६, १०७, ९, १०८, १६ (जहाँ जलधाराओं का सन्दर्भ है); अथवा ऋग्वेद १. १६३, १, ४ २१, ३, ५ ५५, ५, ८. ६, २९, जहाँ समुद्र और भूमि का विभेद किया गया है।

निधियों,^{१०} सम्भवतः मोतियों, अथवा व्यावसायिक लाभ^{११} के भी सन्दर्भ मिलते हैं। भुज्यु की कथा भी जलीय परिवहन की ओर संकेत करती प्रतीत होती है।

वेवीलोनियाँ के साथ वैदिक काल में सागर के मार्ग से व्यापार होता था या नहीं इसे सिद्ध करना कठिन है : द्विब्रू भापा के 'बुक ऑफ किंग्स'^{१२} में 'फोफ' और 'तुखीम', वन्दर (कपि) और मोर, के उल्लेख पर दिया गया ज़ोर,^{१३} इस 'बुक ऑफ किंग्स' की काल-सम्बन्धी संदिग्धता के कारण अप्रमाणित हो जाता है। साथ ही साथ, उस व्यापार को बहुत आरम्भिक समय का मानने के लिये विशेष कारण भी नहीं है जो वाद में निःसन्देह ७०० ईसा पूर्व के लगभग विकसित हो गया था।^{१४}

वाद के ग्रन्थों में समुद्र द्वारा बहुधा सागर का ही आशय है।^{१५}

^{१०} तु० की० ऋग्वेद १ ४७, ६, ७ ६, ७, ९ ९७, ४४।

^{११} तु० की० ऋग्वेद १ ४८, ३, ५६, २; ४ ५५, ६, और 'हायोस्त्रयूरी' और अश्विनों की सामान्य समानता।

^{१२} १ किंग्स, १० २२।

^{१३} उदाहरण के लिये वेवर द्वारा इन्डियन लिटरेचर ३, में।

^{१४} देखिए केनेडी : ज० ए० सो०, १८९८, २४१, २८८, बूहलर : इन्डिशे स्टूडियन ३, ७९ और वाट, इन्डिशे पालियोग्राफी १७-१९, जो इस सम्बन्ध की प्राचीनता को अत्यन्त अतिरजित कर देते हैं, विनसेन्ट स्मिथ : अर्ली हिस्ट्री आफ इन्डिया, २५ नोट।

^{१५} तैत्तिरीय संहिता २. ४, ८, २; ७ ५, १, २। इसे ऐतरेय ब्राह्मण ५ १६, ७ में कभी न समाप्त होनेवाला कहा गया है (तु० की० ३. ३९, ७ भी), यह पृथ्वी के चारों ओर स्थित है, वही ८ २५, १। शतपथ ब्राह्मण १ ६, ३, ११ (तु० की० १० ६, ४, १) में पूर्वी और पश्चात्य समुद्र यद्यपि लाक्षणिक हैं तथापि यह सम्भवतः दोनों समुद्रों, हिन्द महासागर और अरब सागर, के ज्ञान की ओर संकेत करते हैं।

तु० की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथोलोजी ३, १४-१५, पिशल और गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन १, xxiii।

सम्राज्, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में, राजा (राजन्) की अपेक्षा शक्ति में बड़े और श्रेष्ठ शासक अथवा सम्राट का द्योतक है। शतपथ ब्राह्मण^३ में, वाजपेय और राजसूय सम्बन्धी विचित्र सिद्धान्त के अनुसार, सम्राज् को

^१ ३ ५५, ७, ५६, ५, ४ २१, १, ६ २७, ८, ८ १९, ३०, १

^२ वाजसनेयि संहिता ५ ३०, १३ ३५,

२० ५, इत्यादि।

^३ ५ १, १, १३। तु० की० १० ८, ३, ४, १४ १, ३, ८।

अवध की एक नदी, आधुनिक सरजू^१, का नाम है। सिसमर^२ ने सभी वैदिक स्थलों पर इससे इसी नदी का आशय माना है। एक स्थल^३ पर, जिसे सरयु को पंजाब में स्थित करने के लिये भी प्रयुक्त किया जा सकता है, आपने उत्तर-पूर्वी, तथा साथ-साथ, पश्चिम की सामान्य मानसून का सन्दर्भ देखा है। हॉपकिन्स^४ के विचार से सरयु को पश्चिम में हूँदना चाहिए, और लुडविग^५ इसे कुरुम् (कुमु) के साथ समीकृत करते हैं। विवियन ड सेन्ट मार्टिन ने इसे शुतुद्री (सतलज) और विपाश् की सम्मिलित धारा के साथ समीकृत किया है।

^१ यह अवध की महान नदी घाघरा की बाँई ओर से आकर मिलनेवाली सहायक नदी है। सरजू नाम बहराम घाट के नीचे स्वयं घाघरा नदी के लिये भी व्यवहृत होता है। निचली घाघरा नदी की एक शाखा को, जो कि उसकी दाहिनी ओर से निकलती हुई और घाघरा की एक प्राचीन घाटी से बहती हुई बलिया के बाद गंगा नदी में गिरती है, छोटी सरजू कहा गया है।

तु० की० इम्पेरियल गेजेटियर ऑफ इन्डिया, २०, १०९; १२, ३०२ (घाघरा), २३, ४१८ (पूर्वी टोंस); २६, प्लेट ३१।

^५ आस्टिन्डिशे लेवेन, १७, ४५। तु० की० मूडर. सस्कृत टेक्स्ट्स २^२, xxx; मैक्स मूलर. से० तु० ई० ३०, ३०३।

^६ रिलीजन्स ऑफ इन्डिया, ३४।

^७ ऋग्वेद का अनुवाद ३, २८०।

सरस्, वाद क्री संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में सरोवर का द्योतक है।

^१ वाजसनेयि संहिता २३. ४७ ४८; ३० १६।

१३ ५, ४, ९; छान्दोग्य उपनिषद् ८. ५, ३।

^२ ऐतरेय ब्राह्मण ३ ३३, ६; शतपथ ब्राह्मण

सरस्वती^३ एक नदी का नाम है जिसका ऋग्वेद और वाद में अक्सर उल्लेख है। वाद की संहिताओं के अनेक स्थलों^२ पर इससे उद्दिष्ट नदी निश्चित रूप से आधुनिक सरस्वती है जो पटियाला की मरुभूमि में बिलीन हो जाती है

^३ शब्दार्थ, 'सरोवरों से परिपूर्ण', जिससे सम्भवतः इसकी उस स्थिति का सन्दर्भ है जब जल अत्यन्त कम हो जाता था। ध्वन्यात्मक दृष्टि से यह नाम ड्रानियन 'हरकैति' (आधुनिक 'हेल्मान्ड' के समान है।

ब्राह्मण २५. १०, १, कौपीतिक ब्राह्मण १२ २. ३; शतपथ ब्राह्मण १. ४, १, १४; ऐतरेय ब्राह्मण २. १९, १. २; सम्भवतः अथर्ववेद ६ ३०, १। यह तालिका सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० ३ (ग) के रौथ के दृष्टिकोण के अनुसार प्रस्तुत की गई।

^२ तैत्तिरीय संहिता ७ २, १, ४; पञ्चविंश

(देखिये विनशुन) । रौथ^३ तक यह स्वीकार करते हैं कि ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर इसी नदी का तात्पर्य है । दृषद्वती^४ के साथ यह ब्रह्मावर्त (देखिये मध्यदेश) की पश्चिमी सीमा का निर्माण करती थी । आरम्भिक वैदिक भारत की यह एक पवित्र नदी थी । इसके तट पर किये गये यज्ञों को सूत्रों^५ में अत्यन्त महत्वपूर्ण और पवित्र कहा गया है ।

ऋग्वेद^६ के अनेक अन्य स्थलों पर और वाद^७ में भी रौथ ने ऐसा माना है कि इससे वास्तव में एक अन्य, सिन्धु, नदी का तात्पर्य है : केवल इसी प्रकार ही इन्म बात की व्याख्या की जा सकती है कि सरस्वती को 'नदियों में श्रेष्ठ' (नदीतमा),^८ मागर तक जाने वाली^९, और ऐसी महान नदी क्यों कहा गया है जिसके तट पर अनेक राजाओं^{१०}, और वास्तव में पाँच जातियों को बसा बसाया गया है ।^{११} इस मत को रिसमर^{१२} तथा अन्य विद्वानों^{१३} ने स्वीकार किया है ।

दूसरी ओर, लासन^{१४} और मैक्स मूलर^{१५} वैदिक सरस्वती और वाद की

^३ ऋग्वेद ३ २३, ४ (जहाँ 'दृषद्वती' आता है), १०. ६४, ९; ७५, ५ (जहाँ सिन्धु का भी उल्लेख है) ।

^४ कटाचित आधुनिक 'चौतङ्ग' जो अनेसर के पूर्व से हो कर बहती है । तु० की० ओल्डम : ज० ए० सो० २५, ५८, इम्पीरियल गेजेटियर ऑफ इन्डिया, २६, प्लेट ३२ ।

^५ कात्यायन श्रौत सूत्र १२ ३, २०, २४ ६, २२, लाट्यायन श्रौत सूत्र १० १५, १, १८, १३; १९, ४, आश्वलायन श्रौत सूत्र १२ ६, २. ३, शाङ्खायन श्रौत सूत्र १३. २९ ।

^६ १ ८९, ३, १६४, १९; २ ४१, १६ और वाद, ३०, ८; ३२, ८; ३. ५४, १३; ५ ४२, १७, ४३, ११, ४६, ७, ६ ४९, ७, ५०, १२, ५२, ६, ७ ९, ५, ३६, ६; ३९, ५, ४०, ३, ८ २१, १७, ५४, ४, १० १७, ७, ३०, १२; १३१, ५, १८४, २ ।

^७ अथर्ववेद ४ ४, ६, ५ २३, १, ६. ३ २; ८९, ३, ७ ६८, १, १४ २, १५, २०, १६ ४, ४, १९. ३२, ९, तैत्तिरीय संहिता १. ८, १३, ३, वाजसनेयि संहिता १९. ९३; ३४ ११; शतपथ ब्राह्मण १ ६, २, ४, ११ ४, ३, ३; १२ ७, १, १७, ७, ५, बृहदारण्यक उपनिषद् ६. ३, ८ । इन सभी स्थलों को नोट २ में रक्खा जाना चाहिये ।

^८ ऋग्वेद २ ४१, १६ ।

^९ ऋग्वेद ६ ६१, २ ८, ७ ९६, ७ ।

^{१०} ऋग्वेद ८ २१, १८ ।

^{११} ऋग्वेद ६ ६१, १७ ।

^{१२} आस्टिन्टिन्से लेवेन ५-१० ।

^{१३} उदाहरण के लिये, ग्रिफिथ . ऋग्वेद के सूक्त, १, ६०, ७, ९०, इत्यादि; लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, २०१, २०२ ।

^{१४} इ० आ० १२, ११८ ।

^{१५} से० वु० ई० ३०, ६० ।

सरस्वती^{१८} के समीकरण को ही स्वीकार करते हैं। मैक्स मूलर का मत है कि वैदिक काल में यह सतलज की ही भाँति एक विशाल नदी थी, जो या तो सिन्धु में मिलकर अथवा स्वयं सागर तक पहुँचती थी, और शेष भारत के साथ पंजाब की पश्चिमी सीमा के रूप में एक 'लौह दुर्ग' के समान थी। सरस्वती के आकार अथवा धारा के किसी महान परिवर्तन का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है, यद्यपि इस बात को अस्वीकार करना कि इसका आकार क्षीण हो गया होगा असम्भव है। किन्तु, सर्वत्र, वाद की और पहले की सरस्वती के समीकरण को स्वीकार करने के पक्ष में प्रबल आधार उपलब्ध हैं। उस सूक्त^{१९} तक में, जिसमें इसे पाँच जातियों का पोषक कहा गया है, इसकी दिव्य प्रकृति पर जोर दिये गये होने के चिह्न वर्तमान हैं, और यह इसकी वाद की पवित्रता के बहुत कुछ अनुकूल है। इसके अतिरिक्त इस सूक्त में, यदि सरस्वती का अर्थ सिन्धु है तो, उस पारावत जाति के लोगों को अपने निवास स्थान से बहुत दूर बताया गया है, जो वाद के पञ्चविंश ब्राह्मण^{२०} के प्रमाण द्वारा पूर्व में स्थित मिलते हैं। पुनः, उन पूरुत्रों को, जो सरस्वती के तट पर बसे थे^{२१}, बहुत कठिनाई के साथ ही सुदूर पश्चिम में स्थित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पाँच जातियों को उस दशा में सरलतापूर्वक सरस्वती के तट पर बसा हुआ माना जा सकता है जब कि उन्हें, जैसे कि वह प्रतीत होते हैं, कुरुक्षेत्र के भरतों का पश्चिमी पड़ोसी मान लिया जाय; और ऐसी दशा में सरस्वती को सरलतापूर्वक

^{१८} ऋग्वेद १० ७५, ५ में नदियों की गणना में (प्रत्यक्षतः पूर्व से आरम्भ करते हुये पश्चिम की ओर) गङ्गा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, के नामों में से 'सरस्वती' जमुना और सतलज के बीच आती है, जो स्थान उस आधुनिक 'सर्पूति' (सरस्वती) का है जो थानेसर के पश्चिम में बहती हुई पटियाला क्षेत्र में एक और पश्चिमी नदी, घग्गर, से मिलकर सिरमा के आगे जाने के पश्चात् भटर्नर के निकट मरुभूमि में विलीन हो जाती है, किन्तु इस स्थान से लेकर सिन्धु तक एक सूखी नदी की

घाटी ('हक्र' अथवा 'घग्गर') का चिह्न देखा जा सकता है। देखिये इम्पीरियल गेजेटियर ऑफ इन्डिया, २६, प्लेट ३२। तु० की० ओल्डम ज० ए० सो०, २५, ४९-७६, भी।

^{१९} ऋग्वेद २. ४१, १६ ('देवितमे')।

^{२०} देखिये पारावात, और तु० की० बृसय।

^{२१} ऋग्वेद ७ ९५ ९६। लुडविग। उ० पु० ३, १७५, यह स्वीकार करते हैं कि यहाँ सिन्धु से तात्पर्य नहीं हो सकता। देखिये हिलेब्रान्टः वेदिशे माथ्योलोजी १, ११५।

पंजाब की सीमा माना जा सकता है। पुनः, एक स्थल^{२०} पर 'सप्तनद' स्पष्टः एक नगर का द्योनक है : यह बहुत सम्भव है कि यह सिन्धु और कुमा सहित पाँच नदियाँ नहीं वरन् सिन्धु और सरस्वती सहित पाँच नदियाँ हों। और न इसका कारण ही। जानना कठिन है कि इस नदी को समुद्र में मिलने वाली क्यों कहा गया है : या तो वैदिक कवियों ने इस नदी की धारा का उसके अन्त तक कभी अनुगमन नहीं किया, अथवा यह या तो पूर्णरूप से या बहुत दूर तक वस्तुतः मरुभूमि में प्रविष्ट कर गई थी और केवल ब्राह्मण काल में आकर ही इसके मरुभूमि में विलीन हो जाने के तथ्य का पता लग सका। वास्तव में वाजसनेयि संहिता^{२१} में ऐसा कहा गया है कि पाँच नदियाँ सरस्वती में मिलती हैं; किन्तु यह स्थल न केवल वाद का है (जैसा कि देश शब्द का प्रयोग व्यक्त करता है) वरन् यहाँ यह नहीं कहा गया है कि उद्दिष्ट पाँच नदियों में पंजाब की नदियों का तात्पर्य है। इसके अतिरिक्त इस स्थल की न तो किसी अन्य संहिता में समानता मिलती है और न इसे एक आरम्भिक सृजन ही कहा जा सकता है, यदि यह वाद का है तो इससे वाद की सरस्वती का ही सदर्थ होना चाहिए।

सम्पूर्ण रूप से हिलेश्रान्ट^{२२} सरस्वती-सम्बन्धी इसी दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं,^{२३} किन्तु आप इसमें एक पौराणिक नदी के नाम का आशय देखने के अतिरिक्त वाद की वैतरणी^{२४}, तथा साथ ही साथ, अर्कोसिया^{२५} की

^{२०} ऋग्वेद ८. २४, २७। सरस्वती तथा सप्तनदों का सम्बन्ध कुछ अस्पष्ट ही है। ऋग्वेद ८. ५४, ४, में सरस्वती तथा सात नदियों का पृथक् पृथक् आवाहन किया गया है, किन्तु ६. ६१, १०-१२ में इसका 'सात भगिनियों वाली' (सप्त स्वसा) के रूप में उल्लेख है। ७. ३६, ६ में इसको 'सातवीं' कहा गया है जो सरस्वती को इन नदियों में से ही एक बना देता है। यदि उक्त पहले के स्थलों को उनके ठीक-ठीक अर्थ में ग्रहण कर लिया जाय तो 'सप्त स्वसा' को यह व्यक्त करता हुआ माना जा सकता है कि सरस्वती नदी पद्धति के बाहर थी (जिस दशा में यहाँ सिन्धु, कुमा, और पंजाब की

अन्य पाँच नदियों का तात्पर्य होगा; देखिये सप्त सिन्धवः), किन्तु मोटे रूप से इस शब्द से यहाँ सात वहनों में से एक का तात्पर्य हो सकता है।

^{२१} ३४. ११।

^{२२} वेदिशे माहथौलोजी, १, ९९, और वादः ३, ३७२-३७८।

^{२३} आप केवल नोट २४ और २५ में उद्धृत स्थलों को छोड़ कर ऋग्वेद में सर्वत्र यही आशय देखते हैं।

^{२४} ७. ९५, ६; १०. १७, ७, अथर्ववेद ७. ६८, २; १४. २, २०; पञ्चविंश ब्राह्मण ३५. १०, ११।

^{२५} ऋग्वेद ६. ४९, ७, ६१, सम्भवतः वाजसनेयि संहिता ३४. ११।

अर्धन्द्व का भी आशय देखते हैं। यह मत अनिवार्यत इस सिद्धान्त पर आधारित है कि ऋग्वेद का छठवाँ मण्डल, सातवें के विपरीत, ईरानी भूमि को अपनी क्रिया-कलाप का क्षेत्र मानता है : यह उतना ही अनुपयुक्त है जितना कि स्वयं यह सिद्धान्त।^{२६} ग्रुनहॉफर^{२७} ने एक समय इस ईरानी समीकरण को स्वीकार कर लिया था, किन्तु बाद^{२८} में उन्होंने उस अक्सम के पक्ष में अपना मत परिवर्तित कर लिया जो यहाँ सर्वथा अप्रासङ्गिक है। देखिए लक्ष्मण प्रामाण्य भी।

^{२६} देखिये दिवोदास।

^{२७} बेजेनवर्गर : वीडेज, १०, २६१, नोट २।

^{२८} ईरान उन्ट तूगान, १२७।

तु० की० मूडर : स्स्कन टेक्स्ट्म,
५, ३३७ और वाद, मैकडौनेल।

सस्कन लिटरेचर, १४१, १४२; वैदिक
माथ्योलोजी, पृ० ८६-८८, फॉन
थोडर. इन्डियन्स लिटरेचर उन्ट
कल्चर, ८४, १६४।

सरह्, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'मधुमक्खी' का द्योतक है। तु० की० सरघ।

^१ १ १८०, २१।

^२ तैत्तिरीय संहिता ५ ३, १०, १२, शतपथ
ब्राह्मण १३ ३, १, ४। धातु का
उणादि सूत्र १ १३३, में 'सरट्' रूप
दिया गया है, किन्तु सरघ यह
व्यक्त करता है कि 'सरह्' से ही

तात्पर्य होना चाहिये (तु० की०
मैकडौनेल : वैदिक ग्रामर, पृ० २३८,
नोट २)।

तु० की० तिसमर. आस्टिन्टिसे
लेवेन, ९७।

सरित्, ऋग्वेद और वाद में 'जलधारा' का द्योतक है।^१

^१ ४ ५८, ६, ७ ७०, २, अथर्ववेद १० २, ४१, वाजसनेयि संहिता ३४/११;
तैत्तिरीय ब्राह्मण १.२, १, ११, इत्यादि।

सरीसृप, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में अक्सर किसी भी 'रेंगनेवाले पशु', अथवा
'सर्प' का द्योतक है।

^१ १० १६२, ३।

^२ अथर्ववेद ३. १०, ६, १९ ७, १, ४८, ३, इत्यादि।

सर्प, ऋग्वेद^१ में, जहाँ इसके लिये सामान्य शब्द अहि है, केवल एक
वार, किन्तु वाद^२ में अक्सर आता है।

^१ १० १६, ६।

^२ अथर्ववेद १० ४, २३; १६ ३, ४७,

तैत्तिरीय संहिता १ ५, ४, १, ३ १,
१, १, इत्यादि।

सर्प-राज्ञी को तैत्तिरीय संहिता^१ के अनुसार ऋग्वेद के एक सूक्त^२ की ऋषि बताया गया है ।

^१ १. ५, ४, १; ७ ३, १, ३, तैत्तिरीय | ऐतरेय ब्राह्मण ५. २३, १. २ ।
ब्राह्मण १ ४, ६, ६; २ २, ६, १, ^२ १० १८९ ।

सर्प-विद्या की शतपथ ब्राह्मण^१ में विद्याओं की एक शाखा के रूप में गणना कराई गई है । इसे निश्चित रूप से निर्धारित नियमों का आकार प्रदान कर दिया गया होगा, क्योंकि इसके एक 'पर्व' के अध्ययन का सन्दर्भ है । गोपथ ब्राह्मण^२ में इसका 'सर्प-वेद' रूप मिलता है ।

^१ १३ ४, ३, ९ । तु० की० शाह्यायन श्रौत | २, १, ४, १; ७, १) में 'सर्प-देवजन-
सूत्र १६ २, २५ । आश्वलायन श्रौत | विद्या' है ।
सूत्र १० ७, ५, में विप-विद्या, और | १ १, १० । तु० बी० एग्लिङ्ग : से०
छान्दोग्य उपनिषद् (७. १ २ ४, | तु० ई० ४४, ३६७, नोट ३ ।

सर्प वात्सि (वत्स का वंशज) ऐतरेय ब्राह्मण^१ में एक गुरु का नाम है ।

^१ ६. २४, १-५ । ऑफरेख्त : ऐतरेय ब्राह्मण | सदिग्ध है, क्योंकि यह शब्द केवल
४२४, इन नाम को 'सर्पिर्' के रूप | 'प्रथमा' रूप में ही आता है ।
में ग्रहण करते हैं । यह निसन्देह

सर्पिस्, चाहे गले अथवा जमे रूप में, घृत का घोटक है । सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश के अनुसार भी यह घृत से भिन्न नहीं है । यहाँ रौथ ने सायण द्वारा अपने ऐतरेय ब्राह्मण^१ के भाष्य में उद्धृत इस परिभाषा को अस्वीकृत कर दिया है कि 'सर्पिस्' गले हुये और 'घृत' जमे हुये रूप का घोटक है । इस शब्द का ऋग्वेद^२ तथा वाद^३ में बहुधा उल्लेख है ।

^१ १ ३, ५ । | ९, १२, १२. ३, ४५; तैत्तिरीय संहिता
^२ १. १२७, १, ५ ६, ९; १० १८, ७ । | २. ३, १०, १, इत्यादि ।
^३ अथर्ववेद १. १५, ४, ९ ६, ४१, १०

सर्व-चरु ऐतरेय^१ और कौपीतिक^२ ब्राह्मणों में मिलता है जहाँ देवों द्वारा एक 'सर्वचरौ' यज्ञ के आयोजन का उल्लेख है । सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश के अनुसार यह शब्द एक व्यक्ति का नाम है; किन्तु इससे किसी स्थान^३ के नाम का अथवा केवल विशेषणात्मक^४ आशय ही हो सकता है ।

^१ ६ १, १ । | ^४ ऑफरेख्त - ऐतरेय ब्राह्मण ४२५, नोट
^२ २९. १ । | १, जो यह व्यक्त करते हैं कि यहाँ
^३ ऐतरेय ब्राह्मण, उ० स्था० पर सायण । | 'यज्ञे' की पूर्ति करनी चाहिये ।

सर्व-वेदस्, वाद की संहिताओं और ब्राह्मणों में या तो एक ऐसे यज्ञ का जिसमें यज्ञकर्त्ता अपना सर्वस्व ऋत्विजों को दे देता है,^१ अथवा किसी व्यक्ति की सम्पूर्ण सम्पत्ति का,^२ द्योतक है ।

^१ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ४, ७, ७, कौषीतकि ब्राह्मण २५ १४, पञ्चविंश ब्राह्मण ९ ३, १ ।

ब्राह्मण ३ २, ८, १, पञ्चविंश ब्राह्मण ६ ७, १-१, शतपथ ब्राह्मण ४ ६, १ १५, इत्यादि ।

^२ तैत्तिरीय संहिता ७ १, १, ३, तैत्तिरीय

सर्षप, जो कि 'सरसों' का द्योतक है, वैदिक ग्रन्थों में केवल कुछ वार ही आता है ।^३

^१ छान्दोग्य उपनिषद् ३ १४, ३ । तु० की० षड्विंश ब्राह्मण ५ २, शाङ्खायन

श्रौत सूत्र ४ १५, ८, इत्यादि । वाद के संहित्य में यह प्रचलित हो गया है ।

सला-वृकी—देखिये सालावृक ।

सलिल-वात, यजुर्वेद संहिताओं^१ में एक विशेषण के रूप में आता है जिसका 'जलों से आ रही वायु की कृपा',^२ अर्थ है । इससे, कदाचित्, समुद्र से आनेवाली दक्षिण-पश्चिमी मानसून^३ का तात्पर्य है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ४. ४, १२, ३, काठक संहिता २४ ४, मैत्रायणी संहिता ३ १६, ४ ।

कदाचित् ही अन्य सन्दर्भ है कि मरुतों को समर्पित सूक्तों को मानसून का वर्णन करने वाला माना जा सकता है ।

^२ अथवा भाष्यकार के अनुसार 'सलिलाख्येन वात विशेषेण अनुगृहीत' ।

देखिये ऋग्वेद १ १९, ७, ३७, ६ और वाद, ३८, ८, ६४, ८, ८८, ५,

^३ इन्डियन एम्पायर १, ११० । वैदिक संहिताओं में इस तथ्य के अतिरिक्त

५, ८३, १ और वाद, ८५, ४, तिसर-आस्टिन्डिगे लेवेन, ४०-४४ ।

सत्व, एक जाति के लोगों के नाम के रूप में शतपथ ब्राह्मण^१ के उस स्थल पर मिलता है जहाँ श्यापर्णा सायकायन की इस दम्भपूर्ण उक्ति का उल्लेख है कि यदि उसका एक संस्कार-विशेष पूर्ण हो जाता तो उसकी जाति के लोग न केवल सर्वों के विशिष्ट जन, ब्राह्मण, और कृपक बन जाते, वरन् उसकी जाति के लोग सर्वों से भी आगे बढ़ जाते । मन्त्र पाठ^२ में भी इसी जाति का उल्लेख प्रतीत होता है जहाँ इनकी इस घोषण की चर्चा की गई है

^१ १० ४, १, १० ।

| ^२ २ ११, १२ ।

कि जब इन लोगों ने यमुना के तट पर अपने रथ^३ रोके थे तो उस समय यौगन्धरि इनके राजा थे । वाद का प्रमाण^४ यह है कि 'सात्व' अथवा 'शात्व' लोग कुरु-पञ्चालों के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध थे और इनमें से कुछ प्रत्यक्षतः यमुना तट के निकट विजयी भी हुये थे । इन्हें वैदिक काल में उत्तर-पश्चिम में स्थित करने के लिये श्रेष्ठ प्रमाण नहीं है ।^५

^३ विन्टरनिज : मन्त्र-पाठ, xlv. xlvii, इस

इस मंत्र में एक सात्व स्त्री द्वारा चक्र (? चरखा) घुमाने का आशय देखते हैं । किन्तु एक युद्धोपम आक्रमण का सन्दर्भ अधिक उपयुक्त प्रतीत होना है ।

^४ महाभारत, ४ १, १०, ८. ४४ (४५, १४ । पाणिनि ४ १, १७३, पर

काशिका वृत्ति में उद्धृत एक कारिका में भी युगन्धरों का सन्दर्भ है ।

^५ तु० की० वेवर . इन्डिशे स्टूडियन, १, २१५ । वाद में यह राजस्थान में मिले हो सकते हैं, लासन : ३० भा०, १^२, ७६० ।

सव्य-ष्टा,^१ सव्य-ष्टु,^२ सव्ये-ष्ट,^३ और सव्य-स्थ^४—यह सभी सारथि के विपरीत रथी के लिये प्रयुक्त शब्द के ही विभिन्न रूप हैं, जो, जैसा कि स्वाभाविक है, यह व्यक्त करते हैं कि चोड़ा रथ हॉरनेवाले के बायें ओर खड़ा होता था । भाष्यकार^१ 'सव्यष्टा' में केवल एक अन्य 'सारथी' का ही आशय देखना चाहते हैं, किन्तु यह सर्वथा अनुपयुक्त है,^२ और सम्भवतः शूद्र-सारथी के विरुद्ध वाद की जातीय घृणा की भावना को ही व्यक्त करता है ।

^१ अथर्ववेद ८ ८, २३ ।

^२ शतपथ ब्राह्मण ५. २, ४, ९, ३, १, ८, ४, ३, १७. १८ ।

^३ तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ७, ९, १ ।

^४ शतपथ ब्राह्मण की काण्व शाखा, एग्लिङ्ग . से० वु० ई० ४१, ६२, नोट १; मंत्रायणी संहिता ४. ३, ८ ।

^५ शतपथ ब्राह्मण ५ ३, १, ८; और तैत्तिरीय ब्राह्मण, उ० स्था० पर ।

^६ एग्लिङ्ग : उ० स्था०, हॉपकिन्स : ज० अ० ओ सो०, १३, २३५ ।

तु० की० तिसर . आर्लिन्डिशे लेवेन, २९६ ।

सप्त, ऋग्वेद^१ में 'घास'^२ का द्योतक है । यह शब्द सोम-पीधे^३ तथा यज्ञीय 'कुश'^४ के लिये भी व्यवहृत हुआ है ।

^१ १ ५१, ३; १० ७९, ३ ।

^२ ३ ५ ६, ४ ५, ७, इत्यादि ।

^३ ५. २१, ४ ।

ससर्परी एक ऐसा शब्द है जो ऋग्वेद^१ के दो कौतूहलवर्धक मन्त्रों में आता है। वाद की व्याख्या^२ के अनुसार यह एक विशेष प्रकार की वाणी-सम्बन्धी उस प्रवीणता का द्योतक है जिसे विश्वामित्र ने जमदग्नि से प्राप्त किया था। यह क्या थी यह सर्वथा अनिश्चित है।

^१ ३ ५३, १५. १६।

^२ बृहद्देवता ३ ११३, मैकडौनेल की टिप्पणी सहित।

तु० की० गेल्डनर वेदिशे स्टूडियन, २, १५९।

सस्य, अथर्ववेद^१ और वाद^२ में नित्य ही समान रूप से 'अन्न' का द्योतक है। यह अवेस्ता के 'हह्य' के ही समान है। देखिये कृषि।

^१ ७ ११, १; ८ १०, २४।

^२ नैत्तिरीय संहिता ३. ४, ३, ३, ५ १, ७, ३, ७ ५, २०, १, मैत्रायणी संहिता

४ २, २, इत्यादि।

तु० की० थ्रेडर : प्रिहिस्टोरिक ऐन्टीक्विटीज, २८४।

सह, अथर्ववेद^१ में, रौध^२ के अनुसार तो एक पौधे का नाम है, किन्तु ब्लूमफील्ड^३ का विचार है कि यह शब्द केवल एक विशेषण है जिसका 'शक्तिशाली' अर्थ है।

^१ ११ ६, १५। तु० की० सामविधान ब्राह्मण ० ६, १०।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० २ (ख)

^३ अथर्ववेद के सूक्त, ६४८।

तु० की० ह्विट्ने . अथर्ववेद का अनुवाद ६४०, रिसमर . आल्डिन्डिशे लेबेन, ७२।

सह-देव ऋग्वेद^१ में एक राजा का नाम है, जहाँ इसे सिम्युत्रों और दस्युत्रों पर विजयी बताया गया है। उमा राजा सहदेव सार्क्ष्य के साथ इसका समीकरण सर्वथा सम्भाव्य है जिसका शतपथ ब्राह्मण^२ में एक बार सुलन् सार्क्ष्य कहे गये होने तथा दाक्षायण यज्ञ सम्पन्न कर सकने में सफल हो जाने के कारण अपना नाम परिवर्तित करनेवाले के रूप में उल्लेख है। ऐतरेय ब्राह्मण^३ में इसका उस सोमक साहदेव्य के साथ उल्लेख है जो ऋग्वेद^४ में भी आता है।

^१ १ १००, १७।

^२ ० ४, ४, ३ ४। तु० की० १० ८, ०, ३।

^३ ७ ३४, ९।

^४ ४ १५, ७ और वाद।

तु० की० रिसमर : आल्डिन्डिशे लेबेन, ११२, हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइ-वीलोजी, १, १०५, १०६।

सह-देवी, भाष्य के पाठ के अनुसार अथर्ववेद^१ में एक पौधे का नाम है ।

^१ ६ ५१, २ । तु० की० ग्रिल : हुन्डर्ट
लीडर,^२ १६३, ग्रिन्ने : अथर्ववेद का
अनुवाद, ३००, ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद
के सूक्त, ४९०, जो इन पाठ की स्त्रीकार

नहीं करते । 'सहदेव' नामक एक
पौधा सामविधान ब्राह्मण २. ६, १०,
में आता है ।

सहमान, अथर्ववेद (२. २५, २; ४. १७, २; ८. २, ६; ७, ५) में एक
पौधे का नाम है :

सहो-जित्—देखिये जैत्रायण, ।

सावरणि, ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर मिलता है जहाँ यह स्वभावतः मनु
का पैतृक नाम ('संवरण' का वंशज) प्रतीत होता है । ब्लूमफील्ड^२ के
अनुसार यह उस सावरणि का एक अष्ट रूप है जिससे 'सवर्णा' के गर्भ से
मनु के जन्म का सन्दर्भ है (कथा के अनुसार 'सवर्णा' से उस समान स्त्री
का तात्पर्य है जिसे 'सरण्यू' का स्थानापन्न बना दिया गया था; देखिये
मनु) । यह सम्भव तो है किन्तु निश्चित नहीं । शेफ्टेलोवित्स^३ का विचार है
कि ऋग्वेद की काश्मीर-पाण्डुलिपि में, जहाँ 'सांवरणम्' है, इसे सोम की
एक उपाधि मानना ही अधिक उपयुक्त होगा । किन्तु यह सर्वथा असम्भाव्य
प्रतीत होता है ।^४ या तो हमें 'मनु सांवरणि' नामक एक वास्तविक व्यक्ति
को मानना चाहिये, अथवा यह कि 'मनु सांवरणि' केवल 'मनु' है जिसने
किसी अज्ञात कथा के आधार पर यह पैतृक नाम धारण कर लिया था ।

^१ ८ ५१, १ ।

^२ ज० अ० ओ० सो०, १५, १८०, नोट ।

^३ डी० ऋ० ३८ ।

^४ देखिये औल्डेनवर्गः गो०, १९०७, २३७ ।

साकम्-अश्व देवरात, शाङ्खायन आरण्यक (१५. १) के अन्तिम वंश में
विश्वामित्र के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

साकृती-पुत्र ('सकृत' के एक स्त्री-वंशज का पुत्र) बृहदारण्यक उपनिषद्
के अन्तिम वंश में आलम्बायनीपुत्र^१ अथवा आलम्बीपुत्र^२ के शिष्य, एक
गुरु का नाम है ।

^१ बृहदारण्यक उपनिषद् ६ ५, २ काण्व । | ^२ वही ६ ४, ३२ माध्यन्दिन ।

साकृत्य ('संकृति' का वंशज) उस गुरु का नाम है जिसका, बृहदारण्यक
उपनिषद्^१ की माध्यन्दिन शाखा के अन्तिम वंश में, पाराशर्य को शिष्य
बताया गया है ।

^१ २ ५, २०, ४ ५, २६ । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य ८. २१, १०. २१, १६ १६,
में भी सांकृत्य आता है ।

साची-गुण का ऐतरेय ब्राह्मण^१ में आनेवाले एक मंत्र में भरतों के क्षेत्र के अन्तर्गत किसी स्थान के नाम के रूप में उल्लेख है। फिर भी व्यूमेन^२ के अनुसार इससे इन्द्र की एक उपाधि, 'शाचीगु', का तात्पर्य है।

^१ ८ २३, ४।

^२ त्सी० गे०, ४८, ८०, नोट ५। यह अनुमान असम्भाव्य प्रतीत होता है।

सांजीवी-पुत्र ('सांजीवी' का पुत्र) एक गुरु का नाम है जो शतपथ ब्राह्मण^१ के दसवें काण्ड के अन्त के और काण्व शाखा^२ के चौदहवें काण्ड के अन्त के वंशों में माण्डूकायनि के शिष्य के रूप में आता है। दोनों शाखाओं^३ के बृहदारण्यक उपनिषद् के अन्त के वंशों में इसे प्राश्नीपुत्र आसुरिवासिन् का शिष्य बताया गया है। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसमें आचार्यों की दो परम्परायें संयुक्त थीं—एक शाण्डिल्य की अग्नि-पूजक परम्परा, और दूसरी याज्ञवल्क्य की परम्परा।

^१ १० ६, ५, ९।

^२ बृहदारण्यक उपनिषद् ६ ५, ४ काण्व।

^३ वही ६ ४, ३२ (माध्यन्दिन = ६ ५, २ काण्व)।

तु० की० एंग्लिङ्ग से तु० ई०

१२, xxxiv और बाद, वेबर :

इन्डियन लिटरेचर, १३१।

साति औष्ठाक्षि ('उष्ठाक्ष' का वंशज) वंश ब्राह्मण^१ में एक गुरु का नाम है।

^१ इन्डिशा स्टूडियन्, ४, ३७२।

सात्य-कामि (सत्यकाम का वंशज) तैत्तिरीय संहिता (२. ६, २, ३) में केशिन् का पैतृक नाम है।

सात्य-कीर्त, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ३२, १) में उल्लिखित आचार्यों की एक परम्परा का नाम है।

सात्य-यज्ञ ('सत्ययज्ञ' का वंशज) शतपथ ब्राह्मण (३ १, १, ४) में एक गुरु का नाम है।

१. सात्य-यज्ञि ('सत्ययज्ञ' का वंशज) शतपथ ब्राह्मण (११. ६, २, १. ३; १३. ४, २, ४; ५, ३, ९) में सोमशुष्म का पैतृक नाम है।

२ सात्य-यज्ञि, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (२. ४, ५,) में शैलनों और कारीरदियों के साथ उल्लिखित आचार्यों की एक परम्परा का नाम है।

सात्य-हव्य ('सत्यहव्य' का वंशज) उस वासिष्ठ का पैतृक नाम है जिसका ऐतरेय ब्राह्मण (८. २३, ९) में अत्यराति जानंतपि के, तथा तैत्तिरीय संहिता (६. ६, २, २) में देवभाग के समकालीन के रूप में उल्लेख है ।

सात्रीजित ('सत्राजित्' का वंशज), शतानीक^१ का पैतृक नाम है ।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ८. २१, ५, शतपथ ब्राह्मण १३. ५, ४, १९. २१ ।

सात्रा-साह ('सत्रासाह' का वंशज), शोण^१ का पैतृक नाम है ।

^१ शतपथ ब्राह्मण १३. ५, ४, १६ १८ ।

सादिन्, अथर्ववेद^१ में पैदल चलने वाले (अ-साद्) के विपरीत एक 'अश्वारोही' का द्योतक है । एक 'अश्व-सादिन्' से वाजसनेयि संहिता^२ भी परिचित है । तैत्तिरीय ब्राह्मण^३ तथा स्वयं ऋग्वेद^४ में अश्वारोहण के सन्दर्भ हैं, जब कि ऐतरेय आरण्यक^५ में एक वेंद्रे-वेंद्रे अश्वारोहण का उल्लेख है । आश्वलायन^६ एक भारवाही पशु (वय) के विपरीत 'सवारी के अश्व' (साद्य) से परिचित है ।

^१ ११. १०, २४ ।

^२ ३० १३ ।

^३ ३. ४, ७, १ ।

^४ १ १६२, १७; ५ ६१, ३ । तु० की०

१ १६३, ९ ।

^५ १. २, ४; शतपथ ब्राह्मण ७ ३, २, १७ ।

^६ सूत्र ९ ९, १४ ।

तु० की० तिसमर . आस्टिन्डिशे

लेवेन, २३०, २९५, २९६, मैक्स

मूलर . से० वु० ई० ३२, ३५८, कीथ :

ऐतरेय आरण्यक १७७, वेवर : प्रो०

अ० १८९८, ५६४ ।

साधारणी, ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर, जैसा कि मैक्स मूलर^२ मानते हैं, महाकाव्य की द्रौपदी की भाँति एक uxor communis का नहीं, वरन् एक नर्तकी का द्योतक है ।

^१ १. १६७, ४ ।

^२ से० वु० ई० ३२, २७७ ।

तु० की० तिसमर ' आस्टिन्डिशे

लेवेन ३३०, मूलर . सस्कृत टेक्स्ट्स,

५, ४६१; पिशाल और गेल्डनर: वेदिशे

स्टूडियन, १, xxxv ।

साप्त ऋग्वेद^१ में एक व्यक्तिवाचक नाम हो सकता है, किन्तु इसका आशय सर्वथा अनिश्चित ही है ।

^१ ८ ५५, ५ । तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ५, ५५२ ग्रिफिथ : ऋग्वेद के सूक्त २, २६६ ।

साप्तरथ-वाहनि ('सप्तरथवाहन' का वंशज) शतपथ ब्राह्मण^१ में शाण्डिल्य के शिष्य, एक गुरु का पैतृक नाम है ।

^१ १० १, ४, १० ११ । तु० की० वेवरः इन्डिशे स्टूटियन १, २५९, नोट ।

साय्य अथवा साय्य, ऋग्वेद (६. २०, ६) में नमी का पैतृक नाम है ।

साम-वैद, सामनों के संग्रह का नाम है, जिसका ब्राह्मण-ग्रन्थों^१ में अक्सर उल्लेख है । स्वयं 'सामन्' का ऋग्वेद^२ में बहुधा उल्लेख है, और ऋक्, यजुः तथा सामन् की त्रयी अथर्ववेद तथा उसके वाट^३ से सर्वथा प्रचलित है । यह संहितायें उस 'साम-ग'^४ (सामनों के गायक) से भी परिचित हैं जो वाट^५ में आता है ।

^१ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. १२, ९, १, ऐतरेय ब्राह्मण ५ ३२, १, शतपथ ब्राह्मण ११ ५, ८, ३, १२. ३, ४, ९; ऐतरेय आरण्यक ३ २, ३, बृहदारण्यक उपनिषद् १ ५, १३ (माध्यन्दिन = १ ५ ५ काण्व), २ ४, १०, ४ १, ६ (= ४ १, २), ५, ११, छान्दोग्य उपनिषद् १ ३, ७, ३ ३, १ २, १५, ७, ७ १, २ ४, २, १, ७, १, इत्यादि ।

^२ १ ६२, २; १०७, २, १६४, २४, इत्यादि ।
तु० की० औल्डेनवर्ग . त्सी० ने० ३८, ४३९ और वाट ।

^३ १० ७, १४, ११. ७, ५; वाजननेथि सहिता ३४ ५, इत्यादि ।

^४ ऋग्वेद २ ४३, १; १० १०७, ६; अथर्ववेद २ १२, ४ ।

^५ ऐतरेय ब्राह्मण २ २२, ३; ३७, ४, ३. ४, १ ।

साम-श्रवस्, बृहदारण्यक उपनिषद्^१ में मिलता है । मैक्स मूलर^२ के अनुसार यह शब्द याज्ञवल्क्य की उपाधि है, किन्तु वौटलिङ्क^३ इसे इस आचार्य के एक शिष्य का नाम मानते हैं ।

^१ ३ १, ३ ।

^२ से० बु० ई० १५, १०१ ।

^३ अनुवाद, ३६ ।

साम-श्रवस् (सामश्रवस् का वंशज), शतपथ ब्राह्मण (१७. ४, ३) में कुपीतक का पैतृक नाम है ।

सामुद्रि (समुद्र का वंशज), शतपथ ब्राह्मण (१३. २, २, १४) में एक पौराणिक ऋषि, 'अश्व', का नाम है ।

सामद ('संमद' का वंशज) शतपथ ब्राह्मण (१३. ४, ३, १२) में पौराणिक 'मत्स्य' का पैतृक नाम है ।

साम्राज्य—देखिये । सम्राज् और राज्य ।

साय^१ बहुधा क्रियाविशेषणात्मक 'सायम्'^२ (सन्ध्या-समय) के रूप में आता है, और ऋग्वेद तथा बाद में 'सन्ध्या' का द्योतक है । तु० की अहरर् ।

^१ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ५, ३, ३; कौषीतकि
ब्राह्मण २ ८, शतपथ ब्राह्मण ७ ३,
२, १८ ।

^२ ऋग्वेद ५ ७७, २, १०. १४६, ४,
अथर्ववेद ३ १२, ३, ४ ११, १२,

८ ६, १०, इत्यादि । तु० की० 'सायं-
प्रातर्' (प्रातःकाल और सन्ध्या),
अथर्ववेद ३. ३०, ७, १९ ३९, २,
इत्यादि ।

१. सायक, ऋग्वेद (२. ३३, १०; ३. ५३, २३; १०. ४८, ४) में द्यौण का द्योतक है ।

२. सायक जान-श्रुतेय ('जनश्रुत' का वंशज) काण्डिव्य, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ४०, २) में जनश्रुत काण्डिव्य के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

सायकायन (सायक का वंशज) शतपथ ब्राह्मण^१ में श्यापर्णा का, तथा बृहदारण्यक उपनिषद्^२ के द्वितीय वंश में कौशिकायनि के शिष्य एक गुरु का, पैतृक नाम है ।

^१ १० ३, ६, १०, ५, २, १ ।

^२ ४ ५, २७ (माध्यन्दिन = ४ ६, ३ काण्व) ।

साय्य—देखिये साप्य ।

सारथि, ऋग्वेद^१ तथा बाद^२ में, योद्धा (सव्यष्टा) के विपरीत रथ के सारथी का द्योतक है ।

^१ १. ५५, ७, १४४, ३, २ १९, ६, ६
२०, ५, ५७, ६, १० १०२, ६ ।

^२ अथर्ववेद १५ २, १, तैत्तिरीय ब्राह्मण
१ ७, ९, १, मैत्रायणी संहिता ४

३, ८, इत्यादि ।

तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे

लेवेन, २९६ ।

सारमेय ('सरमा' का वंशज) ऋग्वेद^१ में पृथ्वी के एक कुत्ते के लिए, तथा यम^२ के कुत्तों के लिये भी न्यवहृत हुआ है ।

^१ ७ ५५, २ (यदि इस स्थल पर मृतकों की आत्मा का सन्दर्भ न माना जाय) ।

^२ १० १४, १० ,

सार्क्ष्य, ऋग्वेद^१ की एक दानस्तुति में मिलता है जहाँ यह शब्द सम्भवतः 'सृञ्जय' के वंशज की अपेक्षा एक 'सृञ्जय राजा' का द्योतक है। शाङ्खायन श्रौतसूत्र^२ के अनुसार यह इसी सूक्त में उल्लिखित एक प्रस्तोक था, किन्तु यह निष्कर्ष बहुत उपयुक्त नहीं है। यह स्पष्टतः भरद्वाजों का प्रतिपालक था^३। सहदेव सुप्लन के लिये भी यही उपाधि व्यवहृत हुई है।

^१ ६ ४७, २५। ^२ १६ ११, ११।

^३ शतपथ ब्राह्मण २ ४, ४, ४, १२ ८,
२, ३।

तु० की० हिलेब्रान्ट 'वेदिशे
माशुलोजी १, १०४, १०५।

सार्प-राज्ञी, पञ्चविंश (४. ९, ४) और कौपीतिक (२७. ४) ब्राह्मणों में सर्पराज्ञी के समान है।

सार्व-सेनि ('सर्वसेन' का वंशज) तैत्तिरीय संहिता (७ १, १०, ३) में शौचेय का पैतृक नाम है।

साला-वृक, ऋग्वेद^१ में दो वार मिलता है जहाँ यह प्रत्यक्षतः 'लङ्क-चग्ने' या 'जगली कुत्ते' का द्योतक है। यही आशय इन्द्र^२ द्वारा यतियों के विनाश की उस कथा के भी अनुकूल है जिसमें इन्द्र द्वारा यतियों को सालावृकों को समर्पित कर देने का उल्लेख है। 'सालावृकेय'^३ भी इसी शब्द का एक विभेदात्मक पाठ है जिसका शब्दार्थ 'सालावृक का वंशज' है। इसका स्त्रीलिङ्ग रूप 'सालावृकी'^४ है, किन्तु तैत्तिरीय संहिता^५ में यह 'सलावृकी' के रूप में आता है। तु० की तरजू।

^१ १० ७३, २, ९५, १५।

^२ तैत्तिरीय संहिता ६ २, ७, ५, एतरेय
ब्राह्मण ७ २८, १, कौपीतिक उपनिषद
३ १ (पाठ भेद)।

^३ पञ्चविंश ब्राह्मण ८ १, ४; १३ ४, १६,
१४ ११, २८, १८ १, ९, १९. ४,
७, जैमिनीय ब्राह्मण १ १८५ (ज०
अ० ओ० मो० १९, १२३), काठक
संहिता ८ ५, ११ १०, २५ ६, ३६.
७ (इन्द्रिश्चे स्टूडियन, ३, ४६५, ४६६),
कौपीतिक उपनिषद ३ १ (शकरानन्द
की शाखा के अनुसार)। अथर्ववेद

२ २७, ५ में इन्द्र को सालावृकों का
शत्रु कहा गया है।

^४ काठक संहिता २८ ४।

^५ ६ २, ७, ५, मैत्रायणी संहिता ३ ८,
३ भी; आपस्तम्ब धर्म सूत्र १ १०,
१७, ११, ३३।

तु० की० रिसमर : आल्डिन्डिशे लेवेन,
८१, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, १३,
१९२, हिट्टने : अथर्ववेद का अनुवाद
६८, ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के
सूक्त, ३०६, जो 'शृगाल' के पक्ष में
अपना निर्णय देते हैं।

सावयस ('सवयस' का वंशज), शतपथ ब्राह्मण (१. १, १, ७) में 'अपाढ' अथवा 'आपाढ' का पैतृक नाम है ।

सा-वर्णि, ऋग्वेद^१ में 'सावर्ण्य'^२ के साथ-साथ एक पैतृक नाम के रूप में मिलता है । यह स्पष्ट है कि 'सवर्ण' नाम के किसी भी व्यक्ति का कभी भी कोई अस्तित्व नहीं था; किन्तु रौथ^३ ने इस दृष्टिकोण तथा इस बात को स्वीकार कर लिया है कि यहाँ उस 'स-वर्णा' नामक स्त्री के वंशज, पौराणिक मनु सावर्णि, का सन्दर्भ है जिसने कथा^४ के अनुसार सरण्यू का स्थान ग्रहण किया था ।

^१ १० ६२, ११ ।

^२ १० ६२ ९ ।

^३ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० । तु०

की० मूडर : सस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, १७ ।

^४ ब्लूमफील्ड : ज० अ० ओ० सी०, १५,

१७१ और वाद ।

सिंह, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में सिंह का ही द्योतक है । सिंह के गर्जन (नद) का अक्सर उल्लेख है^३, और इसे 'स्तनथ'^४ कहा गया है । यह इधर-उधर भ्रमण करता (कु-चर) और पहाड़ों पर रहता है (गिरि-ष्ट)^५ । यही स्पष्टतः वह 'भयंकर वव करने वाला जंगली पशु' (मृगो भीम उपहत्नु.)^६ है जिसके साथ रुद्र की तुलना की गई है । जब जलों में प्रविष्ट अग्नि की सिंह से तुलना की गई है,^७ तब पानी पीने के स्थानों पर पशुओं पर आक्रमण करने की सिंह की आदत का तात्पर्य है । शृगाल द्वारा सिंह को पराजित करने को आश्चर्यजनक कहा गया है ।^८ सिंह को, जो कि मनुष्यों के लिए भयंकर होता था,^९-फँसाया,^{१०} अथवा छिपे हुये स्थान से घायल किया जाता था,^{११} अथवा शिकारियों द्वारा घेर कर मारा जाता था ।^{१२}

^१ १. ६४, ८, ९५, ५, ३ २, ११, ९, ४, २६, ५; ४. १६, १४, इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद ४. ३६, ६; ५. २०, १ २; २१, ६, ८ ७, १५; तैत्तिरीय संहिता ५ ५, २१, १. काठक संहिता १२. १०, इत्यादि; मैत्रायणी संहिता २ १, ९; कौषीतकि उपनिषद् १ २ ।

^३ देखिये ऋग्वेद १ ६४, ८, ३. २६, ५ । इसके साथ ढोल की ध्वनि की तुलना की गई है, अथर्ववेद ५ २०, १ ।

^४ ऋग्वेद ५ ८३, ३; अथर्ववेद ५. २१, ६; ८. ७, १५ ।

^५ ऋग्वेद १ १५४, २, १० १६०, २ ।

^६ ऋग्वेद २ ३३, ११ ।

^७ ऋग्वेद ३. ९, ४ ।

^८ ऋग्वेद १० २८, ४ ।

^९ ऋग्वेद १०. १७४, ३ ।

^{१०} ऋग्वेद १० २८, १० ।

^{११} ऋग्वेद ५. ७४, ४ ।

^{१२} ऋग्वेद ५ १५, ३ । तु० की० स्ट्राबो १५. १, ३१ ।

किन्तु कुत्ते सिंह से भयभीत रहते थे।^{१३} सिंहिनी भी अपने साहस के लिये प्रसिद्ध थी, अत्यधिक शत्रुओं के विपरीत सुदास् को इन्द्र द्वारा दी गई सहायता की जंगली मेप (पेटव) द्वारा सिंहिनी की पराजय के साथ तुलना की गई है।^{१४} मनुष्यों पर आक्रमण करने के समय सिंहिनी के खुले हुये जबड़ों का ऐतरेय ब्राह्मण^{१५} में उल्लेख है। यजुर्वेद संहिताओं और ब्राह्मणों में भी सिंहिनी का उल्लेख है।^{१६} देखिए हलीद्गा भी।

^{१३} अथर्ववेद ५ ३६, ६।

^{१४} ऋग्वेद ७ १८, १७।

^{१५} ६ ३५, १।

^{१६} तैत्तिरीय संहिता १. २, १२, २, ६

२, ७, १, वाजसनेयि संहिता ५ १०,

शतपथ ब्राह्मण ३ ५, १, २१;

मैत्रायणी संहिता ३ ८, ५।

तु० की० तिसर • आल्टिन्डिशे

लेवेन, ७८, ७९।

१. सिच्, परिधान के 'किनारे' का द्योतक है। ऋग्वेद में एक ऐसे पुत्र का सन्दर्भ है जो अपने पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिये उसके परिधान के किनारे को पकड़ कर खींचता है।^१ एक ऐसी माता का भी उल्लेख है जो अपने वस्त्र के किनारे से अपने पुत्र को ढँकती है।^२ यह शब्द वाद^३ में भी आता है।

^१ ३ ५३, २।

^२ १० १८, ११।

^३ अथर्ववेद १४ २, ५१; शतपथ ब्राह्मण

३ २, १, १८।

२ सिच्, द्विवाचक में सेना^१ की एक टुकड़ी का, अथवा बहुवचन^२ में 'सेना-पंक्ति' का द्योतक है।

^१ ऋग्वेद १० ७५, ४।

^२ अथर्ववेद ११ ९, १८, १०, २०।

तु० की० पिशल • वेदिशे स्टूटियन २,

६५, गेरह्नर • वही, ३, ३१।

३. सिच् ऋग्वेद के एक स्थल (१. ९५, ७) पर, जहाँ यह द्विवाचक में प्रयुक्त हुआ है, 'क्षितिज' (शब्दार्थ 'दो सीमार्यें; अर्थात् आकाश और पृथिवी की सीमार्यें) का द्योतक प्रतीत होता है।

सिध्मल (कोढ़ी) वाजसनेयि संहिता (३०. १७) और तैत्तिरीय ब्राह्मण (३ ४, १४, १) में पुरुषमेध के वलि-प्राणियों में से एक का नाम है। तु० की० किलास।

सिनीवाली अभावस्था तथा उसकी अधीनक देवी का नाम है, जो चन्द्रमा और वनस्पति के सम्बन्ध से सम्बन्धित व्यापक विचार के अनुसार

उर्वरता और विकास की देवी है। यह ऋग्वेद^१ तथा उसके बाद^२ से बहुधा मिलती है।

^१ ७. ३७, ७ ८; १०. १८४, २।

^२ अथर्ववेद २ २६, ७; ६. ११, ३; ९.

४, १४, १४ २, १५; १९ ३१, १०,

तैत्तिरीय संहिता २ ४, ६, ७, ३.

४, ९, १. ६, ५. ५, १७, १; ६, १८,

१; काठक संहिता ३५. २, इत्यादि।

तु० की० तिस्रः : आल्टिन्डिशे
लेवेन ३५२, मैकडौनेल : वैदिक
माइथोलोजी, पृ० १२५।

सिन्धु का ऋग्वेद^३ और अथर्ववेद^४ में अक्सर केवल 'जलधारा' (तु० की० सप्त सिन्धवः) अर्थ है; किन्तु इससे अपेक्षाकृत अधिक ठीक-ठीक 'सर्वश्रेष्ठ जलधारा' (सिन्धु नदी) का भी^५ तात्पर्य हो सकता है। फिर भी, संहिता-काल^६ के पश्चात् यह नाम दुर्लभ और इस रूप में धाता है जैसे इसका अर्थ 'दूरी' हो। सिन्धु के (सैन्धव) अश्व प्रसिद्ध थे।^७ देखिये सैन्धव। तु० की० सरस्वती भी।

^१ १ ९७, ८, १०५, ५, २ ११, ९, २५,
३. ५, ३ ७३, ९, इत्यादि।

^२ ३ १३, १; ४ ७४, ७, १०. ४, १५,
१३ ३, ५०, इत्यादि।

^३ ऋग्वेद १ १२०, ६, १२६, १; ४ ५४,
६; ५५, ३, ५ ५३, ९, ७ ९५, १,
८. १२, ३; २५, १४, २०, २५, २६,
१८, १० ६४, ९, अथर्ववेद १२ १,
३, १४ १, ४३, सम्भवतः ६ २४,
१, ७ ४५, १; १९. ३८, २, वाजस-

नेयि संहिता ८. ५९, भां।

^४ 'सिन्धु-सौवीर' बौधायन वर्म सूत्र १ ७,
१४ में आते हैं। तु० की० बृहल्लरः
से० बु० ३०, १४, १४८, औरडेनवर्गः
बुद्ध, ३९४, नोट।

^५ बृहदारण्यक उपनिषद् ६ २, १५
(माध्यदिन = ६ १, १३ काण्व)।

तु० की० तिस्रः : अल्टिन्डिशे
लेवेन, १६, १७, २७।

सिन्धु-क्षित्, पञ्चविंश ब्राह्मण^१ में एक दीर्घकाल तक निर्वासित किन्तु अन्तोगत्वा प्रतिष्ठित राजन्यर्षि का नाम है, जो सम्भवतः सर्वथा पौराणिक^२ व्यक्ति ही प्रतीत होता है।

^१ १२. १७, ६।

^२ औरडेनवर्गः : त्सी० मे० ४२, २३५, नोट ३।

सिरी, ऋग्वेद (१०. ७१, ९) में एक 'बुनकरी' का छोटक प्रतीत होता है।

३२ वै० इ० द्वि०

सिलाची अथर्ववेद^१ में एक ओषधिक पौधे का नाम है, जिसे लाक्षा भी कहते हैं ।

^१ ५, ५, १ ८ । तु० की० ब्लूमफील्ड . अथर्ववेद के सूक्त ४१९, हिट्ने : अथर्व-वेद का अनुवाद, २०८ ।

सिलाञ्जाला, जिसे भाष्यकार 'शलाञ्जाला' पढ़ता है, अथर्ववेद^१ में एक पौधे, सम्भवतः किसी 'अन्न की लतिका' का नाम है । कौशिक सूत्र^२ में इस शब्द का 'शिलाञ्जाला' पाठ है । तु० की० सिलाची ।

^१ ६ १६, ४ ।

^२ ५१. १६ । तु० की० ब्लूमफील्ड : अथर्व-

वेद के सूक्त ४६६, हिट्ने . अथर्ववेद का अनुवाद, २९२, २९३ ।

सीचापू, यजुर्वेद^१ में अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में एक प्रकार के पक्षी का द्योतक प्रतीत होता है ।

^१ मैत्रायणी संहिता ३ १९, ६, वाजसनेयि संहिता २४ २५ । तु० की० तिसरः आल्टिन्डिशे लेवेन, ९४ ।

सीता (फाल-रेखा) ऋग्वेद^१ तथा अक्सर वाद^२ में आता है ।

^१ ४ ५७, ६ ७ (जो कि ऋग्वेद में कृषि से सर्वाधिक सम्बन्धित तथा सम्भवतः एक वाद का सूक्त है) ।

^२ अथर्ववेद ११ ३, १२, तैत्तिरीय संहिता

५ २, ५, ४. ५, ६, २, ५, काठक संहिता २० ३, इत्यादि ।

तु० की० हॉपकिन्स ज० अ० ओ० सो० १७, ८६, नोट ।

सीमन्, अथर्ववेद^१ और वाद^२ में घालों में कढ़ी माँग का द्योतक है ।

^१ ९ ८, १३ ।

^२ ऐतरेय ब्राह्मण ५ ७, ४, पञ्चविंश ब्राह्मण १३ ४, १, १५ ५, २०,

शतपथ ब्राह्मण ७. ४, १, १४ । तु० की० अथर्ववेद ६. १३४, ३, तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ७, १७, ३, में 'सीमन्त' ।

सीर (हल) का ऋग्वेद^१ तथा अक्सर वाद^२ में उरलेख है । जैसा कि

^१ ४ ५७, ८, १० १०१, ३ ४ ।

^२ अथर्ववेद ६ ३०, १, ९१, १; ८. ९, १६, इत्यादि, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ७,

१, २, २ ५, ८, १२; वाजसनेयि संहिता १८ ७, मैत्रायणी संहिता २ ११, ४ ।

इसको खींचने के लिये प्रयुक्त छह बैलों,^३ अथवा आठ,^४ अथवा बारह,^५ अथवा, यहाँ तक कि चौबीस बैलों^६ के उल्लेख द्वारा व्यक्त होता है, यह विशाल तथा भारी होता था। हल को खींचने वाले पशु 'वैल' होते थे जिन्हें, निःसन्देह, वरत्राओं^७ से सन्नद्ध किया जाता था। वैल को हलवाहे की अर्पणा अथवा अंकुश से हाँका जाता था (तु० की० वैश्य)^८। हल के विभिन्न भागों के सम्बन्ध में अत्यन्त कम ज्ञात है। देखिये लाङ्गल और फाल।

^३ अथर्ववेद ६ ९१, १; ८ ९, १६, तैत्तिरीय संहिता ५. २, ५, २; काठक संहिता १५ २, २० ३, शतपथ ब्राह्मण ७. २, २, ६, १३. ८, २, ६।

^४ अथर्ववेद ६ ९१, १।

^५ तैत्तिरीय संहिता १ ८, ७, १; ५ २, ५, २, काठक संहिता १५ २, मैत्रायणी संहिता २ ३, २, इत्यादि।

^६ काठक संहिता १५. २। तु० की० वेबर इन्डिशे स्टूडियन १३, २४४, नोट १।

^७ वरत्रा, ऋग्वेद ४ ५७, ४, (मुद्गल की कथा के वैल का) और १०. १०२, ८, में मिलता है। इससे हल की अपेक्षा जूये में ही 'वरत्रा' के माध्यम से वैल को सन्नद्ध करने का सन्दर्भ हो सकता है।

^८ तु० की० ऋग्वेद ४. ५७, ४, १०. १०२, ८।

तु० की० रिसमर • आस्ट्रिन्डिशे लेवेन २३६, २३७।

सील (हल), कपिष्ठल संहिता (२८. ८) में मिलता है।

सीलमावती, ऋग्वेद^१ में लुडविग^२ के अनुसार एक नदी का नाम है, किन्तु यह अत्यन्त असम्भाव्य है।^३ सायण इस शब्द का 'पुआल से परिपूर्ण' अर्थ मानते हैं।

^१ १० ७५, ८।

^२ ऋग्वेद का अनुवाद ३, २००।

^३ रिसमर : आस्ट्रिन्डिशे लेवेन ४२९,

वीटलिङ्क : डिक्शनरी, व०, स्था०;

गेल्डनर : ऋग्वेद, ग्लॉसर, १९५।

सीस (सीसा) सर्वप्रथम अथर्ववेद^१ में आता है, जहाँ इसके कवच^२ के लिये प्रयुक्त होने का उल्लेख है। बाद में यह शब्द प्रचलित हो गया है।^३

^१ १० २, १ १९ और वाद, ५३।

^२ १. १६ २ ४।

^३ मैत्रायणी संहिता २ ४, २, वाजसनेयि संहिता १८, १३; तैत्तिरीय ब्राह्मण

३ १२, ६, ५; शतपथ ब्राह्मण ५ १,

२, १४, ४, १, ९; १२. ७, १, ७, २,

१०, छान्दोग्य उपनिषद् ४ १७, ७,

इत्यादि।

एक भार के रूप में बुनकरों द्वारा भी सम्भवतः सीसे के प्रयोग का सन्दर्भ मिलता है ।^४

^४ वाजसनेयि संहिता १९ ८०, मैत्रायणी संहिता ३ ११, ९, तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ६, ४ 1. रौथ. सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० और तिसमर . आल्डिन्डिशे लेवेन, ५३, का यही दृष्टिकोण है । किन्तु ग्रिफिथ वाजसनेयि संहिता का अनुवाद, १८३, नोट, का विचार

है कि १९ ८० में सीसे का भार के रूप में नहीं वरन् भूत-प्रेत इत्यादि के विरुद्ध एक अभिचार के रूप में उल्लेख है ।

तु० की० ब्लूमफील्ड : ज० अ० ओ० मो०, १५, १५७, १५८ ।

सु-कन्या, शतपथ ब्राह्मण^१ के अनुसार शर्यात की उस पुत्री का नाम है जिसने च्यवन के साथ विवाह किया था ।

^१ ४ १, ५, ६, १०, १३, जैमिनीय ब्राह्मण ३ १२१ और वाद ।

सु-कपर्द—देखिये कपर्द ।

सु-कुरीर, मैत्रायणी संहिता (२. ७, ५) में 'सु-कुरीर' का एक मिथ्या-पाठ है । देखिये कुरीर ।

सु-कीर्ति काक्षीवत (कक्षीवन्त का वंशज) उस ऋषि का नाम है जिसे ऋग्वेद^३ के ब्राह्मणों में एक वैदिक सूक्त^२ का द्रष्टा होने का श्रेय दिया गया है ।

^३ ऐतरेय ब्राह्मण ५ १५, ४, ६ २९, १, कौषीतकि ब्राह्मण ३० ५ ।

^२ १० १३१ ।

सु-केशिन् भारद्वाज (भरद्वाज का वंशज) प्रश्न उपनिषद् (१. १) में एक गुरु का नाम है ।

सु-कुरीर—देखिये कुरीर ।

सु-ख—देखिये ख ।

सुगन्धि-तेजन, वाद की संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में एक प्रकार की सुगन्धित घास का द्योतक है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ६ २, ८, ४, काठक संहिता २५ ६ ।

^२ ऐतरेय ब्राह्मण १. २८, २८; शतपथ

ब्राह्मण ३. ५, २, १७, पञ्चविंश ब्राह्मण २४ १३, ५ ।

सु-चित्त शैलन, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (१. १४, ४) में एक गुरु का नाम है ।

सु-जात एक उपाधि है जो ऋग्वेद^१ के कुछ स्थलों पर मनुष्यों के लिये व्यवहृत मिलती है। इसके आशय को इतना दवाना कि इसे साधारण लोगों की तुलना में 'विशिष्ट जनों' का द्योतक मान लिया जाय, सम्भवतः एक त्रुटि होगी।

^१ २. २, ११; ५ ६, २; ७ १, ४. १५; ८. २०, ८।

सुतंभर को अनुक्रमणी में ऋग्वेद^१ के कुछ सूक्तों का द्रष्टा होने का श्रेय दिया गया है। यह शब्द इन सूक्तों में नहीं आता, किन्तु अन्यत्र^२ यह एक विशेषण के रूप में मिलता है। एक दूसरे स्थल^३ पर अनुमानतः^४ इसे एक मनुष्य का नाम माना जा सकता है।

^१ ५ ११-१४।

^२ ५ ४४, १३।

^३ ९ ६, ६।

^४ जैसा कि रौथ ने सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० पर व्यक्त किया है, यदि इसे स्वरभेद के साथ पढा जाय तो।

सुत्वन् कैरिशि भार्गयणा, ऐतरेय ब्राह्मण (८. २८, १८) में उस राजा का नाम है जो मैत्रेय कौषारव से एक अभिचार की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् पाँच राजाओं का वध करके महान वन गया था।

सु-दक्षिण जैमि ('जैम' का वंशज) जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ६, ३; ७, १ और चाद, ८, ६) में एक गुरु का नाम है।

सु-दत्त पाराशर्य (पराशर का वंशज) जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ४१, १; ४. १७, १) में उस आचार्य का नाम है जो जनश्रुत वारक्य का शिष्य था।

सु-दामन्, पञ्चविंश ब्राह्मण (२२. १८, १) में एक नदी का नाम है।

सु-दास उस तृत्सु राजा का नाम है जिसने ऋग्वेद^१ के एक सूक्त में वर्णित दस राजाओं पर प्रसिद्ध विजय प्राप्त की थी। एक समय विश्वामित्र इनके पुरोहित, और विपाश् (व्यास) और शुतुद्री (सतलज) पर इनके विजयी अभियानों में इनके साथ थे।^२ अश्विनो ने इन्हें एक सुदेवी^३

^१ ७ १८। देखिये ऋग्वेद ७ २०, २, २५, ३, ३२, १०, ३३, ३, ६४, ३, ८३, १ और बाद भी।

^२ ऋग्वेद ३ ५३, ९. ११। देखिये विश्वामित्र और वसिष्ठ भी।

^३ ऋग्वेद १ ११२, १९।

नामक रानी और एक अन्य अवसर^४ पर इन्हें सहायता प्रदान की थी। एक वाद के सूक्त में यह त्रसदस्यु के साथ प्रतिद्वन्दिता के किसी चिह्न के बिना ही आते हैं,^५ किन्तु अन्यत्र ऐसा प्रतीत होता है कि त्रसदस्यु के पिता पुरुकुत्स ने इन्हें पराजित किया था।^६ ऐतरेय ब्राह्मण^७ में इन्हें एक महान राजा स्वीकार किया गया है जिनके पुरोहित वसिष्ठ थे। शाङ्खायन श्रौत सूत्र^८ में भी इनका इसी प्रकार वर्णन है जहाँ अपने पुरोहित के प्रति इनकी उदारता का उल्लेख है।

इनकी ठीक-ठीक पैतृकता कुछ अनिश्चित है क्योंकि इन्हें पैजवन ('पिजवन' का पुत्र, इस पैतृक नाम की यास्क ने इसी प्रकार व्याख्या की है) कहा गया है। यदि यह व्याख्या ठीक है तो दिवोदास इनका पितामह रहा होगा। यदि यह दिवोदास के पुत्र थे तो पिजवन को अपेक्षाकृत और प्राचीन पूर्वज मानना होगा। प्रथम विकल्प अधिक सम्भव प्रतीत होता है। तु० की० तुर्वश, दाशराज्ञ । पैजवन, भरत, सोदास ।

^४ ऋग्वेद १ ४७, ९ जहाँ, फिर भी, रीथ - सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश व० स्था०, १, 'सु दास' को एक विशेषण (भली भाँति उपासना करने वाला) के रूप में ग्रहण करते हैं।

^५ ऋग्वेद ७. १९, ३।

^६ ऋग्वेद १. ६३, ७, लुडविग . ऋग्वेद का अनुवाद ३ १७४, के साथ 'सुदासे' के स्थान पर 'सुदासम्' पाठ मानते

हैं। तु० की० हिलेब्रान्ट . वेदिशे माइथोलोजी १, ११२, नोट १; गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन, १, १५३, औरडेनवर्ग ऋग्वेद-नोटें, १, ६३।

^७ ७ ३४, ९।

^८ १६, ११, १४।

तु० की० हिलेब्रान्ट . वेदिशे माइथोलोजी, ३, १०७ और वाद, वेवर . ए० रि० ३१, और वाद।

१. सु-देव, लुडविग^१ के अनुसार ऋग्वेद^२ के एक सूक्त में एक यज्ञ-कर्त्ता का व्यक्तिवाचक नाम है।

^१ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६०।

| ^२ ८ ५, ६।

२. सु-देव काश्यप (काश्यप का वंशज) तैत्तिरीय आरण्यक^३ में उस गुरु का नाम है जिसने ब्रह्मचर्य भंग हो जाने के प्रायश्चित्त का विधान किया था।

^३ २ १८। तु० की० १० १, ८, वेवर . इन्दिशे स्टूडियन १, १८८, नोट, १०, १०३।

सु-देवला, बौधायन श्रौतसूत्र (२०. १२) के अनुसार एक स्त्री के रूप में ऋतुपर्णी का नाम है ।

सु देवी—देखिये सुदास् ।

सु-धन्वन् आङ्गिरस (आङ्गिरस् का वंशज) बृहदारण्यक उपनिषद् (३. ३, १) में एक गुरु का नाम है ।

१. सु-नीथ शौचद्-रथ ('शुचद्रथ' का वंशज) ऋग्वेद (५. ७९, २) में एक व्यक्ति का नाम है । तु० की सत्यश्रवस् ।

२. सु-नीथ कापटव, वंश ब्राह्मण^१ में एक गुरु का नाम है ।

^१ इन्डिशे स्टूडियन, ४, १३७२ ।

१. सु-पर्णी (श्रेष्ठ पंखों वाला) ऋग्वेद^१ और वाद^२ में एक बड़े हिंसक पक्षी, 'श्येन' अथवा 'गृद्ध', का द्योतक है । उस स्थल पर जहाँ यह सडा हुआ मांस^३ खाने वाले के रूप में आता है, गृद्ध का ही भाशय होना चाहिए । जैमिनीय ब्राह्मण^४ एक ऐसे श्येन का उल्लेख करता है जो क्रुञ्च् की भाँति जल से दुग्ध को पृथक् कर देता था । ऋग्वेद^५ में सुपर्ण को श्येन का पुत्र बताया गया है और एक अन्य स्थल^६ पर इसका श्येन के साथ विभेद किया गया है : इस आधार पर ही तिसमर^७ ने यह मान लिया कि इससे सम्भवतः वाज्र पक्षी का तात्पर्य है ।^८ अथर्ववेद में इसकी वाणी का उल्लेख है,^९ और इसे पर्वतों पर रहनेवाला बताया गया है ।^{१०}

^१ १ २६४, २०; २. ४०, २; ४ २६, ४,

८ १००, ८; ९ ४८, ३, इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद १ २४, १, २ २७, २; ३०, ३, ४. ६, ३, इत्यादि, तैत्तिरीय संहिता ७ ५, ८, ५, इत्यादि ।

^३ मैत्रायणा संहिता ४ ९, १९, तैत्तिरीय आरण्यक ४ २९ ।

^४ २ ४३८ (ज० अ० ओ० सो०, १९, १०१) ।

^५ १० १४४, २ ।

^६ ० ४२, २ ।

^७ आखिलिन्डिशे लेवेन ८८ ।

^८ वैदिकोत्तर काल में सुपर्ण एक पीराणिक पक्षी हो गया है और इसे विष्णु के वाहन, गरुड, के साथ समीकृत किया गया है, फिर भी गरुड को सुपर्णों का राजा भी कहा गया है ।

^९ २ ३०, ३ ।

^{१०} ५. ४, २ ।

२. सुपर्णी का, यजुर्वेद संहिताओं^१ में, एक ऋषि के रूप में मूर्तीकरण किया गया है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ४. ३, ३, २; काठक संहिता ३९ ७ ।

सु-पित्र्य, जो कि ऋग्वेद^१ में एक बार आने वाला शब्द है, सम्भवतः एक विशेषण (अपनी पैतृकता को सुरक्षित रखे हुये) है । फिर भी, लुडविग^२ इसे बिना किसी विशेष सम्भावना के ही, एक व्यक्तिवाचक नाम मानते हैं ।

^१ १० ११५, ६ ।

| ^२ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६९ ।

सु-प्रतीत औलुण्ड्य, वंश ब्राह्मण^१ में वृहस्पतिगुप्त के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

^१ इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७२ ।

सुप्लन् सार्ज्य—यह सृष्टियों के उस राजा का नाम है जिसे प्रतीदर्श ने दाक्षायण-यज्ञ की शिक्षा दी थी, और जिसने अपनी विजय के चिह्न-स्वरूप अपना नाम सहदेव रख लिया था ।^१

^१ शतपथ ब्राह्मण २ ४, ४, ४, १२ ८, २, ३ । तु० की० लेवी . ल डॉक्ट्रिन डु

सैक्रीफाइस १३९, हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथोलोजी, १, १०५, १०६ ।

सु-वन्धु को ऋग्वेद^१ के सूक्तों में सायण ने एक व्यक्तिवाचक नाम माना है; किन्तु यह निश्चित नहीं, और रौथ^२ ने इन स्थलों पर इसे केवल एक सज्ञा के रूप में ही देखा है जिसका 'एक श्रेष्ठ मित्र' अर्थ है । घाट की परम्परा^३ यह व्याख्या प्रस्तुत करती है कि गौपायन कहे जाने वाले 'सुवन्धु' तथा इसके भ्राता, असमाति के पुरोहित थे जिन्हें अलग करके असमाति ने किरात और आकुलि को पुरोहित बना लिया था । इन दोनों के द्वारा सुवन्धु का कपोत मूर्च्छित कर दिया गया था, जिसे उसके तीन भ्राताओं ने कुछ सूक्तों^४ के उच्चारण द्वारा पुनः चेतन कर दिया था ।

^१ १० ५९, ८, ६०, ७. १० ।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० १ ।

^३ वृहद्देवता ७ ८३ और वाद, मैकडौनेल की टिप्पणी सहित । देखिये असमाति, नोट १, भी ।

^४ ऋग्वेद १०. ५७-६० ।

तु० की० मैक्स मूलर ज० ए० सो० २, ४२०-४५५, औल्डेनबर्ग : त्सी० गे०, ३९, ९० ।

सु ब्रह्मण्य, ब्राह्मणों^१ में उस पुरोहित का द्योतक है जो उद्गातृ (देखिये

^१ पश्चविंश ब्राह्मण २५ ४, ६, १८, ४, शतपथ ब्राह्मण ३ ३, ४, ९ । तु०

की० वेवर . इन्डिशे स्टूडियन, १०, ३६२, ३७४ ।

ऋत्विज्) के तीन सहायकों में से एक के रूप में कार्य करता है। इसके पद का नाम सुब्रह्मण्या है।^२

^२ ऐतरेय ब्राह्मण ६ ३, १-७. ११. १२, कौषीतकि ब्राह्मण २७ ६, इत्यादि। स्वयं पुरोहित को भी यही नाम दिया

गया है, ऐतरेय ब्राह्मण ७. १, २; 'पञ्चविंश ब्राह्मण १८. ९, १९, इत्यादि।

सु-भगा, सम्बोधक 'सुभगे' के रूप में ऋग्वेद तथा उसके बाद से स्त्रियों के शिष्ट सम्बोधन का सामान्य रूप है।^३

^३ ऋग्वेद १०. १०, १०. १२, १०८, ५, अथर्ववेद ५ ५, ६; ६ ३०, ३, इत्यादि।

सु-भद्रिका यजुर्वेद^४ के अश्वमेध-खण्ड में आता है जहाँ यह किसी प्रकार इसी सस्कार से सम्बद्ध है। वेधर^५ का विचार है कि यह काम्पील की पत्नी का व्यक्तिवाचक नाम है; किन्तु महीधर^६ ने इसकी अनेक प्रेमियोंवाली स्त्री या नर्तकी के रूप में व्याख्या की है, और रौथ^७ ने भी इसी दृष्टिकोण को स्वीकार किया है। यतः तैत्तिरीय^८ और काठक^९ संहिताओं में 'सुभद्रिका' नहीं वरन् सम्बोधक 'सुभगे' (देखिये सुभगा) है, अतः इसका आशय संदिग्ध ही रह जाता है।

^४ वाजसनेयि संहिता २३ १८ (तु० की० शतपथ ब्राह्मण १३ ०, ८, ३); मैत्रायणी संहिता ३ १०, २०।

^५ इन्डिशे स्टूडियन १, १८३, १८४, इन्डियन लिटरेचर ११४, ११५। तु० की० ग्रिफिथ - वाजसनेयि संहिता का अनुवाद २१२, नोट।

^६ वाजसनेयि संहिता, ७० स्था० पर।

^७ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० 'सुभद्रक' २ (ख), वीटलिक : डिक्शनरी, व० स्था०, २ (क)।

^८ ७. ४, १९, १; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ९, ६।

^९ अश्वमेध ४ ८।

तु० की० तिसर . आर्किडिन्डिशे लेवेन, ३६, ३७; एग्लिङ्ग . से० यु० ई० ४४, ३२१, ३२२।

सुमति-त्सरु—देखिये त्सरु।

सु-मन्त्र वाध्र्य ('वध्रु' का वंशज) गौतम (गौतम का वंशज) वंश ब्राह्मण^१ में शुष वाहेय भारद्वाज के शिष्य, एक गुरु का नाम है।

^१ इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७३।

सु-मित्र वाध्र्यश्च (वध्र्यश्च का वंशज) ऋग्वेद^२ में एक ऋषि का नाम है, जहाँ ही इसके परिवार के लोगों, सुमित्रों, का भी^३ उल्लेख है।

^२ १० ६९, ३ ५।

^३ १० ६९, १ ७ ८। तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १३३।

सु-मीळ, ऋग्वेद^१ में एक प्रतिपालक का नाम है ।

^१ ६ ६३, ९ । तु० की० लुडविग · ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५८ ।

सु-मेघ, ऋग्वेद^१ के एक अस्पष्ट सूक्त में या तो एक विशेषण (श्रेष्ठ मेघवाला), अथवा एक व्यक्तिवाचक नाम के रूप में आता है जिस दशा में इसे नृमेघ अथवा उसके भ्राता के साथ समीकृत किया जा सकता है ।

^१ १० १३२, ७ । तु० की० लुडविग : | त्रिफिय : ऋग्वेद के सूक्त २. ५७९, ऋग्वेद का अनुवाद ३, १३३, | नोट ।

सुमन-यु का शाङ्खायन आरण्यक (१५. १) के अन्त के वंश में उद्दालक के शिष्य के रूप में उल्लेख है ।

सु-यज्ञ शाण्डिल्य, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. १७, १) में कंस वारक्य के एक शिष्य का नाम है । एक अन्य सुयज्ञ एक शाङ्खायन, तथा गृह्य-सूत्र का रचयिता है ।

सु-यवस, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'श्रेष्ठ चरागाह' का द्योतक है ।

^१ १, ४२, ८, ६ २८, ७, ७ १८, ४ | ^२ तैत्तिरीय संहिता १ ७, ५, २, इत्यादि । इत्यादि ।

सुरा एक 'माटक पेय' का नाम है जिसका वैदिक साहित्य में अक्सर ही उल्लेख मिलता है । कुछ स्थलों^१ पर इसका मान्यता के साथ, किन्तु अन्य^२ स्थलों पर अमान्यता के साथ उल्लेख है । इसे अथर्ववेद^३ में मांस-भक्षण और घृतक्रीड़ा के साथ-साथ, और अक्सर केवल घृतक्रीड़ा^४ के साथ ही, एक दुष्कर्म कहा गया है । सोम के विपरीत यह अनिवार्यतः साधारण जनता का पेय था ।^५ यह समा^६ के लोगों का पेय था और इससे कलह^७ उत्पन्न होते थे ।

^१ ऋग्वेद १. ११६, ७, १० १३१, ४
५ । तु० की० अथर्ववेद ४. ३४, ६;
१० ६, ५; तैत्तिरीय संहिता १ ३,
३, २, शतपथ ब्राह्मण १२ ७, ३, ८ ।

^२ ऋग्वेद ७ ८६, ६, ८ २, १०, २१,
१४, मैत्रायणी संहिता १ ११, ६, २
४, २, ४ २. १, इत्यादि ।

^३ ६ ७०, १ । तु० की० ब्लूमफील्ड :
अथर्ववेद के सूक्त, ४९३ ।

^४ ऋग्वेद ७ ८६, ६, अथर्ववेद १४ १,
३५ ३६, १५ ९, १ २ ।

^५ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ३, ३, २ ।

^६ देखिये नोट ४ ।

^७ ऋग्वेद ८ २, १०, २१, १४ । तु० की०
काठक संहिता १४ ६, शतपथ ब्राह्मण
१ ६, ३, ४, मैत्रायणी संहिता २ ४,
२, इत्यादि ।

इसकी ठीक-ठीक प्रकृति निश्चित नहीं। जैसा कि एंग्लिडर्ग का विचार है, यह अन्न और पौधों से बना मादक आसव हो सकता है, अथवा जैसा कि व्हिटने^१ का मत है, एक प्रकार की हल्की मदिरा। गेल्डनर^२ ने इसका 'ब्राण्डी' अनुवाद किया है। इसका कभी-कभी मधु^३ के सम्बन्ध में भी उल्लेख है। इसे चर्म-पात्रों में रक्खा जाता था।^४

^१ से० वु० ई० ४४, २२३, नोट २, कैलेण्ड : आल्टिन्डिशे त्सावररिचुअल, २१, नोट १; त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, २८०, २८१। तु० की० कात्यायन श्रौतसूत्र, १९, १, २०-२७, वाजसनेयि संहिता १९ १ पर महीधर।

^२ अथर्ववेद का अनुवाद, २०७। तु० की० श्रोडर . प्रिहिस्टोरिक ऐन्टीक्विटीज, ३२६।

^३ ऋग्वेद, ग्लॉसर, १९८।

^४ अथर्ववेद ६. ६९, १, ९. १, १८ १९,

वाजसनेयि संहिता १९. ९५। देखिये हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथोलोजी, १, २५२, जो यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि एक समय 'सुरा' और 'सोम' दोनों ही दो ऐसे प्रतिद्वन्दी पुरोहितों के पेय थे, जिनका अलग-अलग वर्ग के लोग व्यवहार करते थे।

^५ पञ्चविंश ब्राह्मण १४. ११, २६। तु० की० ऋग्वेद १ १९१, १०।

तु० की० हॉपकिन्स . ज० अ० ओ० सो०, १३, १२१।

सुरा-कार (सुरा का निर्माता) को यजुर्वेद^१ में पुरुषमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में सम्मिलित किया गया है।

^१ वाजसनेयि संहिता ३० ११, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, ७, १। तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, २८१,

जो ऋग्वेद १. १९१, १०, की तुलना करते हैं, जहाँ इस प्रकार के एक व्यक्ति का सन्दर्भ हो सकता है।

सुराघस, ऋग्वेद (१. १००, १७) में एक व्यक्ति का नाम है, जहाँ इसका अम्बरीष तथा अन्य के साथ उल्लेख है।

सुराम से ऋग्वेद^१ में अत्यधिक सुरा-पान के कारण उत्पन्न व्याधि का तात्पर्य है। नमुचि की कथा में इन्द्र को इससे ग्रस्त बताया गया है।^२ बाद में 'सुराम'^३ को सोम की एक उपाधि माना जाने लगा जिसका अर्थ 'आह्लादपूर्ण' है।

^१ १० १३१, ५।

^२ ब्लूमफील्ड : ज० अ० ओ० सो० १५, १४८ और वाद।

^३ अथवा 'सुरामन्'। तु० की० वाजसनेयि संहिता २१ ४२, मैत्रायणी संहिता

३ ११ ४, ४ १२, ५। हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथोलोजी, १, २४५ और वाद, इसका 'सुरा-मिश्रित' अनुवाद करते हैं जो सन्दिग्ध है।

सु-वर्ण (श्रेष्ठ रंगवाला) पहले तो हिरण्य (स्वर्ण) का एक विशेषण है,^१ और फिर एक विशेष्य के रूप में स्वयं स्वर्ण का ही द्योतक बन जाता है ।^२

^१ तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ४, ७, ४, ८, ९, १, इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद १५. १, २, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. १२, ६, ६, शतपथ ब्राह्मण ११

४, १, ८, इत्यादि, छान्दोग्य उपनिषद् १. ६, ६, ३. १९, १; ४ १७, ७, इत्यादि ।

सु-वासन, ऋग्वेद में एक 'श्रेष्ठ परिधान'^१ का द्योतक है, जिसका विशेषणात्मक रूप में (श्रेष्ठ परिधान धारण करना) भी प्रयोग हुआ है ।^२ 'सु वासस्' (श्रेष्ठ परिधानवाला) एक सामान्य विशेषण है ।^३ देखिये वासस् ।

^१ ६ ५१, ४ ।

^२ ९ ९७, ५० ।

^३ ऋग्वेद १ १०४, ७, ३ ८, ४, १०

७१, ४, इत्यादि ।

तु० की० तिस्रर : आस्टिन्डिशे लेवेन, २६० ।

सु-वास्तु, ऋग्वेद^१ में एक नदी का नाम है । यह स्पष्टतः अरियन^२ की 'सोस्टोस' और उस कुभा की 'स्वात्' नामक सहायक नदी है, जो स्वयं भी सिन्धु नदी में मिल जाती है ।

^१ ८ १९, ३७, निरुक्त ४ १५ ।

^२ इन्डिका, ४ ११ ।

तु० की० रौथ ए० नि० ४३, तिस्रर . आस्टिन्डिशे लेवेन १८,

लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३. २००, इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इन्डिया, २३, १८७ ।

सु-शारद शालङ्कायन, वंश ब्राह्मण^१ में ऊर्जयन्त औपमन्यव के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

^१ इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७० ।

१. सु-श्रवस्, पञ्चविंश ब्राह्मण (१४, ६, ८) में उपगु सौश्रवश के पिता का नाम है ।

२. सु-श्रवस्, ऋग्वेद (१. ५३, ९) में सायण के अनुसार एक मनुष्य का नाम है ।

३. सु-श्रवस् कौष्य, शतपथ ब्राह्मण (१०. ५, ५, १ और वाद) में कुश्रि वाजश्रवस के समकालीन एक गुरु का नाम है ।

४. सु-श्रवस् वर्ष-गण्य ('वृषगण' का वंशज) वंश ब्राह्मण^१ में प्रातरह कौहल के शिष्य, एक गुरु का नाम है ।

^१ इन्डिशो स्टूडियन, ४, ३७२ ।

सु-षामन् ऋग्वेद के एक मंत्र^१ में एक मनुष्य का नाम है । सम्भवतः अन्य स्थलों^२ पर यह कुछ विचित्र-से 'वरो सुषामन' नाम का भी एक अंश है । तु० की० वरु ।

^१ ८ २५, २२, सम्भवतः ६०, १८ ।

^२ ८. २३, २८; २४, २८, २६, २ ।

तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६२ ।

सु-षोमा, ऋग्वेद^१ में निश्चित रूप से नदी-स्तुति में एक नदी के नाम के रूप में आता है । दो अन्य स्थलों पर यह एक व्यक्तिवाचक नाम प्रतीत होता है, जहाँ एक बार पुलिङ्ग,^२ सम्भवतः जाति के नाम के रूप में आता है, और एक बार स्त्री लिङ्ग^३ है; यद्यपि रौथ^४ ने, इस शब्द में एक सोमपात्र का आशय देखा है । इसका निर्धारण अत्यन्त कठिन है यद्यपि इसे मेगास्थनीज^५ का 'सोपनोस' (Σοανος), आधुनिक 'सुवन्' माना गया है ।

^१ १० ७५, ५; निरुक्त ९ २६, जहाँ इसे अनुपयुक्त रूप से सिन्धु के साथ समीकृत किया गया है ।

^२ ८ ७, २९ ।

^३ ८ ६४, ११ ।

^४ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०, २ ।

^५ देखिये अरियन : इन्डिका ४ १२; खानवेक : मेगास्थनीज, ३१, जहाँ

'Σοαμος' के रूप में एक विभेदात्मक पाठ है ।

तु० की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथोलोजी, १, १२६, और वाद, मैक्समूलर : से० बु० ई० ३२, ३९८, ३९९, तिसमर : आस्टिन्डिशे लेवेन, १२-१४ ।

सु-सर्तु, ऋग्वेद^१ की नदीस्तुति में एक नदी का नाम है । इसका सिन्धु का सहायक होना तो निश्चित है, किन्तु कौन सी सहायक यह अज्ञात है ।

^१ १० ७५, ६ । तु० की० तिसमर : आस्टिन्डिशे लेवेन, लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, २०० ।

सु-हविस् आङ्गिरस (आङ्गिरस् का वंशज) पञ्चविंश ब्राह्मण (१४. ३, २५) में सामनों के एक द्रष्टा का नाम है ।

सूकर (जंगली सूअर) में एक ध्वन्यानुकरणामक शब्द होने का गुण प्रतीत होता है ('सू' की ध्वनि उत्पन्न करनेवाला) । अधिक सम्भवतः यह एक अत्यन्त प्राचीन भारोपीय काल का शब्द है जो उस लैटिन 'su culus' (छोटा सूअर) का सजातीय है जिसके आशय में लोक-व्युत्पत्ति^१ द्वारा परिवर्तन आ गया है । यह ऋग्वेद^२ तथा वाद^३ में आता है । 'मृग'^४ के साथ संयुक्त होकर यह एक बार अथर्ववेद में भी आता है जहाँ वराह के विपरीत इस यौगिक शब्द का अर्थ प्रत्यक्षतः 'जंगली सूअर' है ।

^१ 'सू'-, लैटिन 'सू-स्', यूनानी 'σ-ς', और प्राचीन उच्च जर्मन के 'सू' के समान है । तु० की० ब्रुगमैन गुन्डिस, २^२, ४८३ ।

^२ ७ ५५, ४ ।

^३ अथर्ववेद २ २७, २, ५ १४, १, नेत्रायणी सहिता ३ १४, २१, वाजसनेयि सहिता २४ ४०, छान्दोग्य उपनिषद् ५ १०, २, इत्यादि । इनमें से किसी भी स्थल पर माम खाने का सन्दर्भ नहीं है बुद्ध की मृत्यु 'मूकर-महव' खाने से हुई थी, जिससे 'मूकर के नरम भागों के पके मांस' का तात्पर्य हो सकता

है (देखिये फ्लीट : ज० ए० मो० १९०६, ८८१, नोट), यद्यपि राज-निषण्ड ७ ८५ में 'सूकर' का अर्थ Batatas edulis दिया गया है ।

^४ १२ १, ४८ । यहाँ 'मृग' का प्रयोग यह व्यक्त नहीं करता कि 'मूकर' एक नवीन नाम है, क्योंकि अन्यत्र यह वाद का शब्द सदैव ही ऋग्वेद तथा वाद में अकेले भी आता है (नोट ३) । तु० की० मृग, नोट २ ।

तु० की० रिसमर . आस्ट्रिडिशे लेवेन ८२, पिशल : वेदिशे स्टूडियन, १, १०० ।

सूक्त (सु उच्चरित) वाद की संहिताओं^१ और ब्राह्मणों^२ में शास्त्र के एक अंग के रूप में सूक्तों का नियमित नाम है । इसमें ऋग्वेद^३ के अनेक स्थलों पर भी सूक्त का ही आशय देखा जा सकता है ।

^१ तैत्तिरीय सहिता ५ ४, ५, ५, ७ १, ५, ४, इत्यादि ।

^२ ऐतरेय ब्राह्मण २ ३३, ३ ११, ९ १२-१५, ४ २१, ५, ६ ८, १०; कौषीतकि ब्राह्मण १४ १, १५ ३,

शतपथ ब्राह्मण १३ ५, १, १८, निरुक्त ४ ६; ११ १६ ।

^३ १ ४२, २०, १७१, १; २ ६, २; ७. २९, ३, इत्यादि ।

सूची (सूई) ऋग्वेद^१ और वाद^२ में मिलता है ।

^१ २ ३२, ४ ।

^२ अथर्ववेद ११ १०, ३, वाजसनेयि सहिता २३. ३३, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ९, ६, ४, ऐतरेय ब्राह्मण ३ १८, ६, शतपथ ब्राह्मण १३ २, १०, २

३, जैमिनीय ब्राह्मण २ १०, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण १. १०, ३ (ऑट्टेल : ज० अ० ओ० सो०, १६, २२८) ।

सूचीक, ऋग्वेद^१ में एक डक मारनेवाले कीटाणु का नाम है ।

^१ १. १९१, ७। तु० की० रिसमर : आस्टिन्डिशे लेवेन, ९८।

सूत एक राज-कर्मचारी का नाम है जिसका अक्सर ग्रामणी के साथ उल्लेख किया गया है। यह पञ्चविंश ब्राह्मण^२ के आठ वीरों में से एक, तथा अन्य ग्रन्थों^३ के ग्यारह रत्नियों में से एक है। यह राजा बनाने वालों (राजकृत्) के रूप में अथर्ववेद^४ और यजुर्वेद के शतरुद्रिय^५ में भी आता है। भाष्यकार इसमें राजा के सारथी अथवा अश्वपालक का आशय देखने में सहमत हैं, और रौथ,^६ ह्विटने,^६ तथा व्लूमफील्ड^७ भी इसी आशय को स्वीकार करते हैं। किन्तु यह तथ्य कि अनेक स्थलों पर सूत के साथ-साथ धाने वाला संग्रहीतृ ही सारथी का द्योतक है, इस मान्यता को अमम्भाव्य बना देता है। एग्लिङ्क^८ का विचार है कि, कम से कम, यह एक चारण और राज-कवि था, जब कि वेवर^९ यह मानते हैं कि इसका नाम इसे एक ऐसे 'प्रतिष्ठित व्यक्ति' का द्योतक बना देता है जो नित्य ही राजा के साथ साक्षात्कार कर सकता था। महाकाव्य में सूत एक राजकीय अग्रदूत और चारण के रूप में आता है :^{१०} ऐसा हो सकता है कि शतरुद्रिय में इसके लिये व्यवहृत कौतूहलवर्धक शब्द 'अहन्ति',^{११} 'अहन्त्य',^{१२} अथवा 'अहन्त्व',^{१३}

^१ १, ४ जहाँ यह तालिका में महिपी के बाद और ग्रामणी के पहले आता है।

^२ काठक संहिता १५ ४, मैत्रायणी संहिता २ ६, ५, ४ ३, ८; तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ७, ३, १; तैत्तिरीय संहिता १ ८, ९, १, शतपथ ब्राह्मण ५ ३, १, ५।

^३ ३ ५, ७।

^४ तैत्तिरीय ब्राह्मण ४. ५, २, १, काठक संहिता १७. २, मैत्रायणी संहिता २. ९, ३, वाजसनेयि संहिता १६ १८। इसी प्रकार पुरुषमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में : वाजसनेयि संहिता ३० ६, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, २, १। सूत के अन्य संदर्भों के लिये देखिये तैत्तिरीय ब्राह्मण २ ७, १८, ४, शतपथ ब्राह्मण ५. ४, ४, ७; १३ ४, २, ५, ७, १, ४३, काठक

संहिता २८. ३, बृहदारण्यक उपनिषद् ४ ३, ३७ ३८।

^५ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०।

^६ अथर्ववेद का अनुवाद, ६२।

^७ अथर्ववेद के सूक्त, १४४।

^८ से० बु० ई०, ४१, ६२, नोट १।

^९ इन्डिशे स्टूडियन, १७, २००।

^{१०} हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो०, १३, २५४, २५५।

^{११} वाजसनेयि संहिता १६ १८। वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, १७, २०० के अनुसार इस शब्द का अर्थ 'सुद्ध न करनेवाला' है।

^{१२} तैत्तिरीय संहिता ४ ५, २, १।

^{१३} काठक संहिता १७ २; मैत्रायणी संहिता २ ९, ३।

एक साथ ही चारण अथवा अग्रदूत के रूप में इसकी पवित्र प्रकृति के द्योतक हों—यहाँ इसके कर्त्तव्यों का यह समन्वय अन्यत्र अज्ञात है।^{१४}

^{१४} 'अहन्य' और 'अहन्त्व' रूप आशय में 'अहन्य' के ही समान प्रतीत होते हैं।

सूत-वशा यजुर्वेद^१ में, एक बल्लुवा जनने के बाद, वाँश हो गई गाय का द्योतक है।

^१ तैत्तिरीय संहिता २ १, ५, ४, ६ १, ३, ६, काठक संहिता ३७ ५ ;
नैत्तिरीय ब्राह्मण ७ ७, ४, १, इत्यादि

सूत्र से अथर्ववेद^१ और वाद^२ में 'धागे' का आशय है। बृहदारण्यक उपनिषद्^३ में यह शब्द यज्ञ-कर्त्ताओं इत्यादि का निर्देशन करने के लिये निर्मित 'सूत्र-ग्रन्थ' के आशय में आता है।

^१ ३ ९, ३, १८ ८, ३७।

^२ शतपथ ब्राह्मण ३ २, ४, १४, ७, ३,
२, १३, १२ ३, ४, २, ७, २, १०,
छान्दोग्य उपनिषद् ६ ८, २, निरुक्त
४ ६।

^३ २. ४, १०; ४ १, ६ (माध्यन्दिन=४.
१, २ काण्व); ५, ११।

तु० की० वेवर • इन्दिशे स्टूडियन,
५, २४, २५, सीग : सा० ऋ० २१।

सूद का सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश के अनुसार 'कूप'^१ और 'सूखे हुए तालाव का कीचद्,^२ अर्थ है। फिर भी, पिशल^३ स्पष्ट रूप से यह दिखाते हैं कि सूद उस पदार्थ; विशेषतः गरम दूध, का द्योतक है जिसे प्रयोग के योग्य बनाने के लिये सोम में मिलाया जाता था, और यही आशय समस्त स्थलों के अनुकूल है। एग्लिङ्ग^४ ने इसका 'कूप', और ग्रासमैन ने 'भीठा पेय', अनुवाद किया है।

^१ ऋग्वेद ७ ३६, ३, ९ ९७, ४।

^२ ऋग्वेद १० ६१, २, काठक संहिता
१६ १३; तैत्तिरीय ब्राह्मण १ १,
३, ५, २, १, ३, शतपथ ब्राह्मण ८.
७, ३, २१।

^३ वेदिशे स्टूडियन, १, ७२, ७३।

^४ से० बु० ई०, ४३, १४४। तु० की०
हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथोलोजी,
१, २११।

सूद-दोहस् ऋग्वेद^१ में 'सूद दोहन', अर्थात् पिशल^२ के अनुसार उस

^१ ८ ६९, ३।

^२ वेदिशे स्टूडियन, १, ७२। ऋग्वेद १०
६४, ९ में 'सूदयित्' को, काठक
संहिता २७ २, में 'सूदिन्' को,

तैत्तिरीय संहिता ७. ४, १३, १, और
वाजसनेयि संहिता २२ २५, इत्यादि
में 'सूध' को इसी अर्थ में ग्रहण किया
जा सकता है।

वस्तु का द्योतक है जिसकी सोम में मिश्रित करने के लिये आवश्यकता पडती थी । रौथ^३ के अनुसार इसका अर्थ 'कृप की भाँति दूध प्रदान करनेवाला' है ।

^३ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० ।

सूना का ऋग्वेद^१ और अथर्ववेद^२ में प्रत्यक्षतः मछली फँसाने के लिये प्रयुक्त 'विनी हुई टोकरी' ('सीव्' से) अर्थ है ।

^१ १ १६१, १०; १६२, १३; १०. ८६, १८ ।

^२ अथर्ववेद ५ १७, १४ । शाङ्खायन श्रौत सूत्र १७. ३, २ ३, में पलाश की

लकडों की पट्टियों का उल्लेख है । तु० की० तिसर : आस्टिन्डिशे लेवेन, २७१ ।

सूनु, ऋग्वेद^१ और उसके बाद से 'पुत्र' के लिये साधारण शब्द है । इसका व्युत्पत्तिजन्य आशय 'वह जो वहन किया जाय' और एतदर्थ 'जनित' है ।^२ किन्तु ऋग्वेद^३ में 'सूनु' का प्रमुखतः पिता के ही सन्दर्भ में प्रयोग हुआ है । माता के वाचक शब्दों के साथ केवल दुर्लभ रूप से ही इसका सम्बन्ध है ।^४ इस प्रकार, पिता को अपने पुत्र (सूनु) के लिये सुलभ (सुपायन) कहा गया है ।^५ किन्तु एक अन्य स्थल^६ पर, जहाँ माता के रूप में यही शब्द पृथिवी में लिये व्यवहृत हुआ है, पुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है । निःसन्देह, व्युत्पत्ति से मातृसत्ता-प्रधान परिवार के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । पिता-पुत्र के सम्बन्ध के लिये, देखिये पितृ ।

^१ ऋग्वेद १. २६, ३; २ ३८, ५, ६ ५२, ९, इत्यादि; अथर्ववेद ६ १, २; ७ २, २, १२ ३, २३, इत्यादि ।

^२ डेलब्रुक : डी० व०, ४५३ ।

^३ सामान्यतया लाक्षणिक आशय में—

उदाहरणार्थ 'सहस्रः', 'अद्रेः' 'सूनुः' ।

^४ ५. ४२, २ ।

^५ ऋग्वेद १. १, ९ ।

^६ ऋग्वेद १०. १८, ११ ।

सूरि ऋग्वेद^१ में यज्ञकर्त्ता—बाद के यजमान—का नियमित नाम है । इससे उस व्यक्ति का तात्पर्य है जो यज्ञ-संस्कारादि करने के लिये पुरोहित को पारिश्रमिक देता है और संस्कार-जन्य लाभों का भागी होता है । 'सूरियों'

^१ १ ३१, ७ १२, ४८, २४; ५४, ११, ७३, ५ ८ ९, ३. ३१, १४, ५ ४२, ४, ७९, ६, ६ ४, ८, २३, १०, ७

३२, १५; ८ ७०, १५, १०. ६१, २२; ११५, ५. ७ ८ ।

को अक्सर उन मधवनों^१ के साथ सयुक्त किया गया है जिनका योद्धाओं के रूप में वर्णन^२ किया गया है, और अपने संरक्षकत्व^३ द्वारा अथवा संखा^४ के रूप में पुरोहितों के साथ सम्बद्ध बताया गया है ।

^१ १. ६९, ३, ७३, ९, ११९, ३, १२२, १२, १८०, ९, ७ ३२, १५ ।
^२ १ ९७, ३ ४, ५ १०, ६, ६ ८, ७, २५, ७, ७ ३, ८, ४४, ३१८; ८ ६०, ६, १०. ६६, २ ।

^४ ५. ६४, ५, ७ ३२, २५, ८ ४१, ३६, ९. ९६, ४, १०. ११५, ७ ।
तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, २३६ ।

सूर्मि, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में, सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश के अनुसार, लालटेन के रूप में प्रयुक्त एक प्रकार की 'नली' का द्योतक है । ऋग्वेद^३ के एक स्थल पर इससे जल ले जाने के लिये प्रयुक्त 'पाइप' (नालिका) का अर्थ है । तु० की० श्रवत ।

^१ ७ १, ३ ।

^२ तैत्तिरीय संहिता १ ५, ७, ६, ५. ४, ७, ३, काठक संहिता २१. ९, जहाँ इसका 'कर्णकावती' के रूप में वर्णन किया गया है जिसका रीथ ने 'मुठिया

से युक्त' अनुवाद किया है ।

^३ ८. ६९, १२ । तैत्तिरीय संहिता ४. ५, ९, २ में सूर्म्य का 'पाइप या नालिका में' अर्थ हो सकता है ।

सूर्य, वैदिक धर्म और पुराकथा में अत्यन्त महत्व रखता है, जो कि इस प्रायद्वीप के भौतिक जीवन में सूर्य के महत्व के तथ्य के अनुकूल है ।^१ ऋग्वेद^२ में सूर्य को सामान्यतया एक उपकारी शक्ति माना गया है, जो ऐसी जाति के लोगों के लिये अस्वाभाविक दृष्टिकोण नहीं है जो प्रत्यक्षतः हिमालय पर्वत के शीतल क्षेत्रों से आये होंगे । फिर भी, सूर्य की ऊष्णता का ऋग्वेद^३ के कुछ स्थलों पर, तथा साथ ही साथ, अथर्ववेद और ब्राह्मण-साहित्य में सन्दर्भ मिलता है ।^४

एक पुराकथा में यह कथन है कि इन्द्र ने सूर्य को पराभूत करके उनकी मृक पहिया चुरा लिया था :^५ " इससे सम्भवतः झझावात द्वारा सूर्य के

^१ देवियो मैकडोनेल : वैदिक माइथोलोजी
पृ० ३० और वाद ।

^२ उदाहरणार्थ, १ ५०, ६, ११५, १ ३; १६४, ११. १३; १९१, ८ ९, ७ ६३, १; १० ३७, ४; ८५, ९, ८८

११; १३९, ३, इत्यादि ।

^३ ऋग्वेद ७. ३४, १९, ९ १०७, २० ।

^४ एहो : यम, १३४; मैकडोनेल : उ० पु० पृ० ३१ ।

^५ १ १७५, ४; ४ ३०, ४; १०. ४३, ५ ।

आच्छादित हो जाने का सन्दर्भ है ।^९ ऐतरेय ब्राह्मण^{१०} में सूर्य के भ्रमण-पथ का एक सरल-सा वर्णन किया गया है जिसके अनुसार सूर्य के केवल एक भाग को ही प्रकाशित मानते हुए ऐसा कथन है कि पश्चिम से पुनः पूर्व-दिशा को लौटते समय भी सूर्य उसी पथ का अनुसरण तो करता है किन्तु इस बार वह अपने दूसरे (अप्रकाशित) भाग को पृथ्वी की ओर रखता है जिससे रात्रि में वह आकाश के तारों को प्रकाशित करता है ।^{११} ऋग्वेद^{१२} में इस बात पर आश्चर्य प्रगट किया गया है कि सूर्य गिरता क्यों नहीं ।

ऋग्वेद में ग्रहण के अनेक सन्दर्भ मिलते हैं । एक स्थल^{१०} पर यह कहा गया है कि स्वर्भानु नामक दानव सूर्य को अन्धकार-ग्रस्त कर देता है, जब कि अत्रि उसे पुनः प्रकाशित करते हैं; अन्यत्र अत्रि परिवार के लोगों को भी इसी पराक्रम से युक्त बताया गया है ।^{११} सूर्य के सम्बन्ध में सर्वप्रथम राहु का सन्दर्भ अथर्ववेद^{१२} में मिलता है । इन्द्र द्वारा सूर्य^९ की पराजय की ग्रहण के भाशय में व्याख्या की जा सकती है; कम से कम दो अन्य स्थलों^{१३} पर ऐसी व्याख्या सम्भाव्य प्रतीत होती है । लुडविग^{१४} न केवल यही तर्क उपस्थित करते हैं कि ऋग्वेद चन्द्र-प्राच्छादन द्वारा सूर्य-ग्रहण के सिद्धान्त से परिचित है और यह मानता है कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है,^{१५} वरन् ऋग्वेद में उल्लिखित एक सूर्य-ग्रहण को १०२९ ईसा

^९ मैकडौनेल : उ० स्था ।

^७ ३. ४४, ४ ।

^८ मैकडौनेल, पृ० १०, जो ऋग्वेद १. ११५, ५, १०. ३७, ३ की तुलना करते हैं । देखिए स्पेयर . ज० ए० सो०, १९०६, ७२३, थिबो : ऐस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉलोजी, उन्ट मैथमेटिक, ६ ।

^९ ऋग्वेद ४ १३, ५ ।

^{१०} ऋग्वेद ५ ४०, ५-९ । तु० को० मैकडौनेल-पृ० १६०, पञ्चविंश ब्राह्मण ४ ५, २, ६. १४; कौषीतकि ब्राह्मण २४ ३, तिलक ओरायन, १५९ ।

^{११} अथर्ववेद १३ २, ४. १२. ३६, शतपथ ब्राह्मण ४ ३, ४, २१ ।

^{१२} अथर्ववेद १९ ९, १०, तिसरः आस्टिन्डिशे लेवेन, ३५१ ।

^{१३} ऋग्वेद ४. ०८, २. ३, ५ ३३, ४ । १०. २७. २० में, रीथ . सेन्ट पीटर्स-बर्ग कोश व० स्था०, और तिसरः उ० स्था० के अनुसार 'सुरो मर्कः' का अर्थ ग्रहण का 'दानव' है, किन्तु इसका अर्थ सूर्य को 'परिष्कृत करना' भी हो सकता है । अथर्ववेद २ १०, ८ में ग्रहण का स्पष्ट सन्दर्भ है । देखिए लैनमैन : फे० रौ०, १८७-१९० ।

^{१४} प्रोसीडिंग्स ऑफ बोहेमियन एकेडमी ऑफ साइन्सेज, मई १८८५, ऋग्वेद अनुवाद, ६, x ।

^{१५} देखिए ऋग्वेद ४. २८, २३, ५ ३३, ४, १० ३७, ३; १३८, ४ ।

पूर्व के एक ग्रहण के साथ समीकृत भी करते हैं। गिहट्टने^{१६} ने इन दृष्टिकोणों का सर्वथा प्रतिवाद किया है।

काल-नियन्ता^{१७} के रूप में सूर्य ३६० दिनों के उम वर्ष का निर्धारण करता है जो नागरिक तथा वैदिक-साहित्य का सामान्य वर्ष (संवत्सर) है। यह सौर-वर्ष दो अर्द्धकों में विभाजित है—उत्तरायण^{१८}, जय कि सूर्य उत्तर की ओर जाता है; और दक्षिणायन^{१९}, जय कि सूर्य दक्षिण की ओर जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि यह दोनों क्रमशः उन समयों के द्योतक हैं जब सूर्य मकर-संक्रान्ति से उत्तर की ओर और फर्क-संक्रान्ति से दक्षिण की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि कौपीतिक ब्राह्मण^{२०} में इसे स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया गया है। एक वैकल्पिक सिद्धान्त के अन्तर्गत इन अवधियों को क्रमशः वह समय माना गया है जब सूर्य उत्तर में, अर्थात् विपुवत रेखा के उत्तर में, अथवा दक्षिण में होता है, यहाँ इन दोनों विन्दुओं को संक्रान्तिक नहीं वरन् सम्पातिक विन्दु माना गया है; किन्तु इस दृष्टिकोण की वैदिक साहित्य द्वारा पुष्टि नहीं होती, और यह इस तथ्य के भी विपरीत है कि

^{१६} प्रो० सौ०, अक्तूबर १८८५, xvii
(ज० अ० ओ० सो०, १३, lxi-lxvi),
ज० अ० ओ० सो०, १६, lxxxlii,
lxxxliii, एगिल्डः से० बु० ई०, ४१,
६५, ६६, थियो : ऐस्ट्रॉनमी ऐस्ट्रॉ
लोजी, उन्ट मैथमेटिक, ६।

^{१७} ऋग्वेद ५. ८१, १।

^{१८} उत्तरायण' रूप वाद का है (मनु ६
१०, इत्यादि)। बृहदारण्यक उप-
निषद् ६ ३, १, कौशिक सूत्र lxvii,
४, लाट्यायन श्रौत सूत्र ८ १, १,
गोभिल गृह्य सूत्र १ १, ३, आश्वलायन
गृह्य सूत्र १ ४, इत्यादि में 'उदगयन'
आता है। वेवर . नक्षत्र २, २०१,
२१२, ज्योतिष, १०७ और वाद;
यास्क . निरुक्त १४ १०।

^{१९} यह रूप वाद का है (मनु १. ६७,
इत्यादि)। शनपथ ब्राह्मण २. १, ३ में
दोनों अवधियों में से प्रत्येक को तीन-तीन
ऋतुओं के साथ समीकृत किया गया
है—उत्तरायण को वसन्त, ग्रीष्म, और
वर्षा के साथ, दक्षिणायन को शरद,
हेमन्त और शिशिर के साथ।
किन्तु यह एक अनिवार्य अशुद्धि है
क्योंकि किसी भी वास्तविक ऋतु
का आरम्भ मकर संक्रान्ति से
नहीं होता।

^{२०} १९ ३। तु० की० तैत्तिरीय संहिता
६ ५, ३, बृहदारण्यक उपनिषद् ६-
१, १८ (माध्यन्दिन = ६ २, १८
काण्व), वेवर . नक्षत्र, २, ३४५
और वाद।

वैदिक ज्योतिष के सिद्धान्तों^{२१} में सम्पातों का कोई महत्व नहीं है। ऋग्वेद में संक्रान्तियों के केवल संदिग्ध से सन्दर्भ मिलते हैं।^{२२}

ब्राह्मण^{२३}, और सम्भवतः ऋग्वेद^{२४} भी, अमात्रस्या के दिन सूर्य में चन्द्रमा के प्रवेश का सिद्धान्त मानते हैं। हिलेब्रान्ट^{२५} के अनुसार ऋग्वेद^{२६} इस बात को मानता है कि चन्द्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, किन्तु यह अत्यन्त संदिग्ध प्रतीत होता है। देखिये अर्यः पन्था,^{२७} नक्षत्र और सप्त सूर्याः, भी।

^{२१} थियो . इन्डियन ऐन्टीकरी, २४, ९६; ऐस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉलोजी, उन्ट मैथमेटिक, १०, औल्डेनवर्ग : त्सी० गो०, ४८, ६३१ और वाद; ४९, ४७३ और वाद, न० गो०, १९०९, ५६४, नोट १; कोथ : ज० ए० सो०, १९०९, ११०३। दूसरी ओर देखिये, तिलक . ओरायन, २२-३१।

^{२२} देखिये हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथोलोजी, ३, २७९-२८३, जो ऋग्वेद १. ६१, १५, ५ २९. ५, १० १७१, ४, १७९, २, को उद्धृत करते हैं। किन्तु इनमें से कोई भी स्थल निर्णायक नहीं है। तु० की० थियो : उ० पु०, ६।

^{२३} शतपथ ब्राह्मण १, ६, ४, १८, ४. ६, ७, १२, १० ६, २, ३; ११ १, ६, १९, बृहदारण्यक उपनिषद् १. २, १३; ऐतरेय ब्राह्मण ८ २८, ८।

^{२४} ५ ४७, ३, ९. २५, ६, ७१, २, १० ५५, ५, १३८, ४। तु० की० हिलेब्रान्ट : उ० पु०, १, ४६३-४६६।

^{२५} वही ३, ४६७, ४६८।

^{२६} ९ ७१, -९; ७६, ४; ८६, ३२; कदाचित् १. १९०, ३, सामवेद २. ९, २, १२, १, थियो . उ० पु०, ६, यह विचार व्यक्त करते हैं कि इन स्थलों का अर्थ केवल इतना ही है कि शुक्लपक्ष में चन्द्रमा सूर्य से निकलने

वाले प्रकाश से परिपूर्ण रहता है।

^{२७} लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १८८, ने ऋग्वेद १. ११०, २ में क्रान्ति वृत्त के विपुवत रेखा की ओर झुकाव का, तथा १० ८६, ४ में पृथ्वी की धुरी का सन्दर्भ देखा है। तु० की० तिलक : ओरायन, १५८, और वाद, औल्डेनवर्ग : ऋग्वेद-नोट्स १, १०२, १०५। यह सभी मत स्पष्टतः सर्वथा झुटिपूर्ण हैं। ब्राह्मणों में उपलब्ध सूर्य सम्बन्धी समस्त धारणार्थे अत्यन्त सरल हैं : पृथ्वी से सूर्य और स्वर्ग की ऊँचाई को 'एक के पीठ पर एक खड़ी एक सहस्र गायों' के बराबर (पञ्चविंश ब्राह्मण १६ ८, ६) अथवा 'अश्व द्वारा ४४ दिनों की यात्रा की दूरी' के बराबर (वही २५. १०, १६), अथवा 'अश्व द्वारा एक सहस्र दिनों की यात्रा की दूरी', के बराबर (ऐतरेय ब्राह्मण २ १७, ८) अथवा सौ लीग के बराबर (कौषीतकि ब्राह्मण ८ ३) बताया गया है। इनमें ऐसे तथ्यों का भी वर्णन है, जैसे, सूर्य का जलों से उदय तथा जलों में ही अस्त होता है (ऐतरेय ब्राह्मण ४ २०, १३, तु० की० निरुक्त ६. १७, कौषीतकि ब्राह्मण २४. ४. ५; २६. १)। शतपथ ब्राह्मण

सूर्य को घृत्ताकार (७ ४, १, १७),
और चतुष्कोणीय (चतु. शक्ति .
१४. ३, १, १७) इत्यादि कहता है ।

देसिये वेवर • इन्डिशे स्टूडियन ९,
३५८ और वाद ।

सूर्य-नक्षत्र शतपथ ब्राह्मण^१ के एक स्थल पर मिलता है जहाँ सायण इसे ऐसे नक्षत्र का द्योतक मानते हैं जिससे सूर्य के समान ही प्रकाश-किरणें निकलती हैं । किन्तु इसका वास्तविक आशय (जैसा की काण्व शाखा की सहायता से व्यक्त होता है) यह है कि यज्ञकर्त्ता सूर्य को ही अपने नक्षत्र के रूप में ग्रहण कर सकता है—अर्थात् वह अन्य नक्षत्रों की उपेक्षा करके केवल सूर्य पर ही निर्भर रह सकता है ।

^१ २ १, २, १९ । तु० की० एग्लिङ्ग : से० दु० ई०, १२, २८८ ।

सूर्य-चन्द्रमसा अथवा सूर्य-चन्द्रमसौ ऋग्वेद^१ और वाद^२ में प्रकाश-पिण्डों के युग्म के रूप में 'सूर्य और चन्द्रमा' का द्योतक है ।

^१ १. १०२, २, ५ ५१, १५, १० १९०, ३ ।

^२ बृहदारण्यक उपनिषद् ३. ८, ९,
छान्दोग्य उपनिषद् ७ १०, १ ।

तु० की० वेवर : नक्षत्र २.
२९३, ज्योतिष २८, ५०, इन्डिशे
स्टूडियन ९, ११२ ।

ऋग्वेद^१ के दो स्थलों पर इन्द्र के एक आयुध, सम्भवतः 'तोमर' का द्योतक है ।

^१ १ ३२, १२, १० १८०, २ । तु० की० 'सुकायिन्', 'सुका-हस्त', शतरुद्रिय,
वाजसनेयि संहिता १६ २१ ६१,

सृगाल, शतपथ ब्राह्मण (१२. ५, २, ५) के पहले तो नहीं मिलता किन्तु महाकाव्य में एक साधारण शब्द है ।

सृजय, यजुर्वेद^१ में अश्वमेध के बलि-प्राणियों में से एक का नाम है । यह क्या था इस सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नहीं : वाजसनेयि के सम्बद्ध स्थल पर अपने भाष्य में महीधर ने इसे एक प्रकार का पत्नी कहा है । तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य करते हुये सायण ने 'काली मक्खी' (जहाँ 'सृजया' पढ़ना चाहिये), 'श्वेत सर्प' और 'काले भैंसे' का विकल्प प्रस्तुत किया है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ५ ५, १४, १, मंत्रा-
यणी संहिता ३ १४, १४, वाजसनेयि

संहिता २४ २३ । तु० की० तिस्रः =
आल्टिन्डिशे लेवेन, ९९ ।

सृञ्जय एक जाति के लोगों का नाम है जिनका ऋग्वेद तक के समय से उल्लेख मिलता है। सृञ्जय (अर्थात् इस जाति के राजा) दैववात की तुर्वशों और वृचीवन्तों पर विजय की प्रशस्ति,^१ और इसकी यज्ञाम्नि का उल्लेख है।^२ दैववात के सन्दर्भ में ही साहदेव्य सोमक^३ का भी उल्लेख है, जो निःसन्देह एक दूसरा राजा था, क्योंकि पेत्रेय ब्राह्मण^४ में हम सोमक सहादेव्य और उसके पिता सहदेव (मूलतः सुप्लन्) सार्ज्य का ऐसे राजाओं के रूप में उल्लेख पाते हैं जिनका पर्वत और नारद ने अभिषेक किया था। ऋग्वेद^५ में भी प्रस्तोक^६ नामक एक सृञ्जय की दान-स्तुति है जहाँ इसकी दिवोदास के साथ प्रशस्ति है। इसके अतिरिक्त वीतहव्य^७ भी एक सृञ्जय प्रतीत होता है, यद्यपि रिसमर^८ इससे व्युत्पन्न वैतहव्य शब्द को एक पैतृक नाम नहीं वरन् विशेषण के रूप में ग्रहण करना अधिक उपयुक्त समझते हैं।

सृञ्जयों और वृत्सुओं का घनिष्ठ रूप से सम्बन्ध होना सम्भव प्रतीत होता है; दिवोदास और सृञ्जय की एक साथ प्रशस्ति है;^९ और तुर्वशों को इन दोनों का शत्रु बताया गया है।^{१०} उस शतपथ ब्राह्मण^{११} से भी यही दृष्टिकोण व्यक्त होता है जो देवभाग श्रौतर्ष को कुरुओं और सृञ्जयों के पुरोहित के रूप में मान्यता प्रदान करता है।

दूसरी ओर यह निश्चित है कि सृञ्जयों, अथवा कम से कम वैतहव्यों पर, किसी प्रकार की विपत्ति आ पड़ी थी क्योंकि अथर्ववेद^{१२} में ऐसा कथन है कि इन लोगों ने भृगुओं को रुष्ट किया था जिसके परिणाम-स्वरूप इनकी कष्टपूर्ण समाप्ति हो गई थी। यह सत्य है कि इस उल्लेख की कोई ठीक-ठीक

^१ ऋग्वेद ६ २७, ७।

^२ ऋग्वेद ४. १५, ४।

^३ ऋग्वेद ४ १५, ७।

^४ ७ ३४, ९।

^५ ऋग्वेद, ६ ४७, २२ २५।

^६ तु० की० शाङ्खायन श्रौत सूत्र १६ ११, ११।

^७ औल्डेनबर्ग त्सी० गे०, ४२, २१०, हिल्लेब्रान्ट : वेदिशे माइथोलोजी, १, १०५।

^८ आस्टिन्डिशे लेवेन, १३२ ('वैतहव्य' पर)।

^९ तु० की० भरद्वाजों और दिवोदास का

सम्बन्ध (ऋग्वेद ६. १६, ५; ३१, ४, हिल्लेब्रान्ट : उ० पु०, १, १०४) और सृञ्जयों के साथ इनका सम्बन्ध भी (ऋग्वेद ६ १५, २. ३ में 'वीतहव्य' और देखिये ६ २७, ७, जो दोनों ही स्थल भरद्वाज-परिवार से से सम्बन्धित माने जा सकते हैं।

^{१०} देखिये एक ओर ऋग्वेद ७ १८ (तुर्वश और वृत्सु) और दूसरी ओर ६ २७, ७।

^{११} २ ४, ४, ५।

^{१२} ५. १९, १। तु० की० ५ १८, १०. ११।

पुष्टि नहीं मिलती । फिर भी, यद्यपि काठक संहिता^{१३} और तैत्तिरीय संहिता^{१४} दोनों के ही स्वतंत्र स्थलों पर यह कथन है कि सृञ्जयों की कोई गम्भीर चति हुई थी, तथापि इन दोनों ही दशाओं में इस घटना का उल्लेख उसी प्रकार एक सांस्कारिक त्रुटि से युक्त है जिस प्रकार ओल्ड टेस्टामेन्ट में भी राजाओं का भाग्य 'जाह्ने' के प्रति भक्ति अथवा भवज्ञा पर निर्भर है । इस कथा में किसी न किसी प्रकार की विपत्ति का चिह्न देखना उपयुक्त प्रतीत होता है । सृञ्जयों की भौगोलिक स्थिति अनिश्चित है । हिलेब्रान्ट^{१५} के विचार से प्राचीन समय में इन्हें दिवोदास के साथ साथ सिन्धु के पश्चिम में स्थित मानना चाहिये । यद्यपि निश्चित रूप से ग्रहण न करते हुये भी आप वुनहॉफर के इस मत का उल्लेख करते हैं कि सृञ्जयों की यूनानी 'सेरांगै' (Σαραγγαι)^{१६} के साथ तुलना और इन्हें इन्जियाना में स्थित करना चाहिये । स्मिथ^{१७} इन्हें सिन्धु घाटी के ऊपरी भाग में स्थित करना चाहते हैं, किन्तु इनके किसी भी स्थान के सम्बन्ध में निश्चित निर्णय कठिन है । यह लोग सिन्धु के भी और पूर्व में स्थित रहे हो सकते हैं, क्योंकि इनके मित्र, तुसु-गण, मध्यदेश में स्थित और निश्चित रूप से कुरुओं में विलीन हो गये थे ।

इस जाति के इतिहास के सम्बन्ध में हमें एक उल्लेख मिलता है ।^{१८} इन लोगों ने अपने एक राजा, दुष्टरीतु पौसायन को, दस पीढ़ियों से चली आ रही वंशानुगत राजसत्ता से बहिष्कृत कर दिया था और सम्भवतः उसके रेवोत्तरस् पाटव चाक्र स्थपति नामक उस मंत्री को भी निकाल दिया था जो अन्ततोगत्वा कुरु राजा बलिहक प्रातीप्य के विरोध के विपरीत भी अपने राजा को पुनः प्रतिष्ठित कराने में सफल हो गया । सम्भवतः यही कुरु राजा उस आन्दोलन की पृष्ठभूमि में भी रहा होगा जिसने उक्त राजा और उसके

^{१३} १२ ३ ।

^{१४} ६, ६, २, २ ३ ।

^{१५} ७० पु०, १, १०६ ।

^{१६} हिरोडोटस ने Σαραγγαι और Σαραγγεις, तथा स्ट्राबो और अरियन ने Δραγγαι रूप माना है । अवेस्ता 'Zrayanh' और प्राचीन फारसी में 'दरय' है । यदि यह शब्द समानान्तर हैं तो भारतीय 'स' कुछ कौतूहलवर्धक ही है (फिर भी, देखिये

ब्लूमफील्ड : अ० फा० २५, ११ ;

औरडेनवर्ग : ज० ए० सो० १९०९, १०९८ ।

^{१७} आल्टिन्डिशे लेवेन, १३२, १३३, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, १, २३२ । यह ऋग्वेद १, १०० पर आधारित एक अनुमान है जहाँ 'सहदेव' भी आता और सिन्धु का भी उल्लेख है ।

^{१८} शतपथब्राह्मण, १२ ९, ३, १ और बाद ।

मंत्री को निष्कासित कराया था। किन्तु राजा के पुनर्प्रतिष्ठापन से, वल्स-फील्ड के मतानुसार,^{१९} सृणियों की पराजय का आशय कदाचित ही माना जा सकता है।

^{१९} अथर्ववेद के सूक्त, ५३३। इसी प्रकार
तिसमर : ८० पु०, १३२ भी।
तु० की० वेवर : इन्डिशे
स्टूडियन, १, २०८; ३, ४७२; १८,

२३७; ए० रि०, ३१; लुडविगः ऋग्वेद
का अनुवाद ३, १५३; औलडेनवर्ग :
बुद्ध, ४०५।

सृणी, निश्चित रूप से ऋग्वेद के एक^१, तथा सम्भवतः दो अन्य^२ स्थलों पर मिलता है। इससे 'हँसिये' का आशय प्रतीत होता है। एक अन्य स्थल पर 'सृण्य' को 'जेता' के साथ संयुक्त किया गया है :^३ यहाँ आशय संदिग्ध है, जिसके सम्बन्ध में रौथ^४ ने 'चेता' का अनुमान किया है और औलडेनवर्ग^५ ने ऐमा संकेत किया है कि 'छेत्ता' भी सम्भव है। हॉपकिन्स^६ का विचार है कि यहाँ किसी 'अँकुसी' का तात्पर्य है।

^१ १. ५८, ४, जहाँ गल्डनर . वेदिशे
स्टूडियन, १, ११६, नोट १, और
पिशल वही २, १११, के अनुसार
'सृण्या' वास्तव में 'सृण्याभि.' के लिये
प्रयुक्त हुआ है, और एक विशेषण के
रूप में 'जुहूभि.' के दृष्टान्त के
अनुसार इसका 'हँसिया के आकार का
यज्ञीय पात्र' अर्थ है।

६ (वही १३. ५)। शतपथ ब्राह्मण
७ २, २, ५ में यह निश्चित है।

^३ ४. २०, ५।

^४ त्सी० गे० ४८, १११।

^५ ऋग्वेद-नोटेन, १, २८४।

^६ ज० अ० ओ० सी०, १७, ८६, नोट।

तु० की० तिसमर : आल्डिन्डिशे
लेवेन, २३८; औलडेनवर्ग : ८० पु०,
१, ५८।

^२ १०. १०१, ३ (निरुक्त ५. २८), १०६;

सृण्य—देखिये सृणी।

सृविन्द, ऋग्वेद^१ में इन्द्र^२ के एक शत्रु का नाम है। यह शब्द किसी चास्तविक शत्रु का द्योतक हो सकता है, क्योंकि इसमें किसी आर्य-व्युत्पत्ति का प्रत्यक्ष चिह्न नहीं है।

^१ ८ ३२, २।

^२ तु० की० मैकडौनेल : वैदिक माशयौलोजी, पृ० १६२।

सृमर, यजुर्वेद संहिताओं^१ में अभ्यमेघ के किसी अज्ञात पशु का नाम है।

^१ तैत्तिरीय संहिता ५. ५, १६, १ (सायण
के अनुसार = 'चमर'); मैत्रायणी
संहिता ३. १४, २०; नाजसनेधि

संहिता २४. ३९ (जहाँ महीधर ने
इसे गवय के साथ समीकृत किया है।

सेतु, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में जलप्लावित भूमि को^३ पार करने के लिये उसके तट पर बने उस प्रकार के ऊँचे पथों का द्योतक है जो सामान्य रूप से संसार भर में मिलते हैं। यह आशय इसके वाद के अर्थ, 'सीमा', की सर्व-श्रेष्ठ व्याख्या कर देता है। वैदिक साहित्य में यह शब्द सम्भवतः सदैव लाक्षणिक है।

^१ ९ ४१, २।

^२ तैत्तिरीय संहिता ३. २, २, १, ६. १, ४, ९, ५, ३, ३, ७ ५, ८, ५; काठक संहिता २८ ४; ऐतरेय ब्राह्मण ३. ३५, तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ४, २, ६, शतपथ ब्राह्मण १३ २. १०, १; बृहदारण्यक उपनिषद् ४ ४, २४;

छान्दोग्य उपनिषद् ८ ४, १ २, इत्यादि।

^३ मैक्स मूलर से० बु० ई० १, १३०, नोट २।

तु० की० रिसमर . आस्टिन्डिशे लेबेन, २५७।

सेना प्रथमतः 'क्षेप्यास्त्र' का द्योतक है जो आशय, ऋग्वेद^१ और अथर्व-वेद^२ में मिलता है, और उसके वाद 'आक्रामक' अथवा 'सेना का, जो इसका सामान्य अर्थ^३ है। देखिये संग्राम।

^१ ऋग्वेद १ ६६, ७, ११६, १ ('सोम-जू', अर्थात् 'वाण के समान तीव्र-गामी'), १४३, ५, १८६, ९; २. ३३, ११, ५. ३०, ९; ७ ३, ४; ८ ७५, ७, १० २३, १।

^२ ८ ८, ७, ११ १०, ४।

^३ ऋग्वेद १. ३३, ६, ७ २५, १; ९ ९६, १, १०. १०३, १ ४ ७, १४२, ४, १५६, २, अथर्ववेद ३. १, १,

१९ ६, ४. १९, २, ५. २१, ९, इत्यादि।

तु० की० फान ब्राड्के . रूसी० गे० ४६, ४५६, ब्लूमफील्ड वही, ४८, ५४९, ५५०, पिश्ल : वेदिशे स्टूडियन १, २३१, नोट २, इस बात को स्वीकार नहीं करते कि सेना का कर्मी भी 'क्षेप्यास्त्र' अर्थ था, और exercitus effusus, agmen effusum की तुलना करते हैं।

सेना-नी (सेनानायक), राजकीय 'सेनानायक' की उपाधि है। इसका ऋग्वेद^१ में उल्लेख है और वहीं यह शब्द लाक्षणिक आशय में भी^२ प्रयुक्त हुआ है। इसका शतरुद्रिय,^३ तथा यजुर्वेद संहिताओं में अन्यत्र, और ब्राह्मणों^४

^१ ७ २०, ५, ९. ९६, १; १० ८४, २।

^२ १० ३४, १२ (अक्ष-सूक्त)।

^३ वाजसनेयि संहिता १६ १७; काठक संहिता १७ ११; मैत्रायणी संहिता २. ९, ४, तैत्तिरीय संहिता ४. ५,

२, १।

^४ वाजसनेयि संहिता १५ १५; काठक संहिता १७ ९; मैत्रायणी संहिता २. ८, १०; शतपथ ब्राह्मण ८. ६. १, २१।

में भी उल्लेख है । यह राजा के रत्नियों में से एक है ।^५ सम्भवतः युद्ध-काल में, जब राजा का महत्त्व इतना बढ़ जाता था कि वह छोटे-मोटे युद्धों का व्यक्तिगत संचालन नहीं कर सकता था, तब वह युद्ध-संचालन के लिये सेनानी की नियुक्ति कर देता था । इसकी नियुक्ति सामान्य व्यक्तियों द्वारा नहीं होती थी । ऐतरेय ब्राह्मण^६ में इसे 'सेना-पति' कहा गया है ।

^५ तैत्तिरीय संहिता १. ८, ९, १; तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ७, ३, ४; मैत्रायणी संहिता २. ६, ५; ४. ३, ८; काठक संहिता १५ ४, शतपथ ब्राह्मण ५ ३, २, १ ।
^६ ८ २३, १० ।

सेलग, ब्राह्मणों^७ में 'डाफू' का द्योतक प्रतीत होता है । देखिये सैलग ।

^७ ऐतरेय ब्राह्मण ७ १, ५; ८. ११, ८, शतपथ ब्राह्मण १३ ४, ३, १० ।

सेहु, अथर्ववेद^८ की तुलना में आता है जहाँ इसे एक अत्यन्त 'अरस' पदार्थ का द्योतक होना चाहिये ।

^८ ७ ७६, १ । तु० की० तिस्रः आरिः तिस्रः लेवेन, ५४; विद्वन्ने : अथर्ववेद का अनुवाद, ४४१ ।

सैतव ('सेतु' का वंशज) बृहदारण्यक उपनिषद्^९ के प्रथम दो वंशों में एक गुरु का नाम है । इसे पाराशर्य अथवा पाराशर्यायण का शिष्य कहा गया है ।^{१०}

^९ ५, २१, ४ ५, २७ माध्यन्दिन; २ ४ ६, २ काण्व ।
 ६, २ काण्व ।

सैन्धव (सिन्धु से आने वाला) एक ऐसा शब्द है जो तैत्तिरीय संहिता^{११} में जल के लिये, अथर्ववेद^{१२} में गुग्गुलु के लिये, शतपथ ब्राह्मण^{१३} में अश्व के लिये, और बृहदारण्यक उपनिषद्^{१४} में नमक के लिये व्यवहृत हुआ है ।

^{११} ७ ४, १३, १ ।
^{१२} १९ ३८, २ ।
^{१३} ११ ५, ५, १२; बृहदारण्यक उपनिषद् ६ २, १३ (माध्यन्दिन = ६. १, १३ काण्व) ।
^{१४} बृहदारण्यक उपनिषद् ७ ४, १२ (खिल्य), ४ ५, १३ (घन) ।

सैर्य, ऋग्वेद^{१५} में कीटाणुओं से भरी एक प्रकार की घास का द्योतक है ।

^{१५} १ १९१, ३ । तु० की० तिस्रः आरिः तिस्रः लेवेन, ७२ ।

सैलग, वाजसनेयि संहिता^१ और तैत्तिरीय ब्राह्मण^२ में पुरुषमेध के वलि-प्राणियों में से एक के नाम के रूप में मिलता है। सैलग की भाँति इस शब्द से भी ढाकू का आशय है।

^१ ३० १८।

^२ ३. ४, १६, १; शाह्वायन आरण्यक १२ २३ (सैलग के रूप में भी)।

तु० की० एग्लिङ्ग : से० यु० ६०, ४४, ३६७, नोट ४।

सोभरि एक ऋषि का नाम है जिसका ऋग्वेद^१ में अक्सर उल्लेख है। इसके परिवार,^२ और 'सोभरी'^३ नामक एक पिता का भी उल्लेख है।

^१ ८ ५ २६, १९, २, २०, १९, २२, २।

^२ ऋग्वेद ८. १९, ३२, २०, ८।

^३ ऋग्वेद ८. २२, १५। तु० की० ८ २०३, १४, अथर्ववेद १८ ३, १५।

तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १०५; औल्डेनवर्ग . रसी० गे० ४२, २१७।

सोम उस प्रसिद्ध पौधे का नाम है जिसका वैदिक यज्ञों के समय समर्पित सोम-हवि का निर्माण करने के लिये प्रयोग होता था। बहुत अंशों तक इसका महत्व इस तथ्य द्वारा व्यक्त होता है कि ऋग्वेद का समस्त नवम् मण्डल और अन्य मण्डलों के छः सूक्त इसकी प्रशस्ति में समर्पित हैं।

फिर भी, वास्तव में इस पौधे के सम्बन्ध में बहुत कम ज्ञात है। इसकी टहनियों को 'वभ्रु'^१ (भूरा), 'अरुण'^२ (लाल), अथवा 'हरि'^३ (हरा) कहा गया है। यदि नैचाशाख^४ उपाधि का इस पौधे से सम्बन्ध है, जैसा कि हिलेब्रान्ट^५ का विचार है, तो सम्भवतः इसकी टहनियाँ नीचे की ओर

^१ यह शब्द वास्तव में स्वयं पौधे के लिये व्यवहृत नहीं मिलता, किन्तु पञ्चविंश ब्राह्मण ९. ५, ३ में पूतीक न प्राप्त होने की दशा में सोम के स्थानापन्न के रूप में 'अर्जुनानि' को मान्यता दी गई है।

^२ ऋग्वेद ७ ९८, १, १०, ९४, ३, १४४, ५। तु० की० शतपथ ब्राह्मण ४ ५, १०, १ और बाद।

^३ ऋग्वेद ९ ९२, १। सोम-गाय को, जिससे सोम का क्रय किया जाता था, 'वभ्रु' अथवा 'अरुणा' कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण ३ ३, १, १५; मैत्रायणी संहिता ३ ७, ५, इत्यादि।

^४ ऋग्वेद ३. ५३, १४। तु० की० नैचाशाख।

^५ वैदिशे मांशबौलोजी, १, १४-२८, २, २४१-२४५।

लटकती रही होंगी । इसके अंकुर को अंशु,^६ जब कि समस्त पौधे को 'अन्धस्'^७ कहा गया है जो कि इसके रस का भी द्योतक है ।^८ 'पर्वन्'^९ इसका तना है । इसके अंकुर की उपाधि के रूप में 'क्षिप्'^{१०} (उँगली) का प्रयोग किया गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अंकुर का आकार उँगली जैसा ही रहा होगा । 'वक्षणा'^{११} और 'वाण'^{१२} से भी अंकुर का ही आशय प्रतीत होता है । इस बात का थोड़ा प्रमाण उपलब्ध है कि इसका तना गोल नहीं वरन् कौणवत् होता था ।^{१३} यह पौधा पर्वतों पर उगता था,^{१४} और मूजवन्त् के पौधों की विशेष ख्याति थी ।

उक्त वर्णन इस पौधे की प्रकृति के निर्धारण के लिये अपर्याप्त हैं । इसे *Sarcostemma viminalis* अथवा *Asclepias acida* (= *Sarcostemma brevistigma*) माना^{१५} गया है । रौथ^{१६} के विचार से *Sarcostemma acidum* इसकी प्रकृति के अधिक निकट है । वाट^{१७} ने अफगान अंगूर को ही वास्तविक सोम माना है; और राइस^{१८} के विचार से गन्ने का तात्पर्य हो सकता है, जब कि मैक्स मूलर और राजेन्द्रलाल मित्रा ने यह मत व्यक्त किया है कि इसका रस एक प्रकार की 'यवसुरा' के एक तत्व के रूप में

^६ ऋग्वेद १, १६८, ३, ३ ४८, २, इत्यादि ।

^७ ऋग्वेद १. २८, ७, ३ ४८, १; ४. १६, १, इत्यादि ।

^८ २ १४, १; १९, १, ३५, १, इत्यादि ।

^९ ऋग्वेद १. ९, १ । तु० की० 'परुस्', तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ७, १३; वैतान मूत्र २४ ।

^{१०} ऋग्वेद ९ ७९, ४ । तु० की०, फिर भी, पिशल : वेदिशे स्टूडियन, १, ७० ।

^{११} ऋग्वेद ८ १, १७ ।

^{१२} ऋग्वेद ४. २४, ९; ९ ५०, १ ।

किन्तु यह दोनों स्थल अत्यन्त सदिग्ध हैं । तु० की० वाण । दवाने के वाद वचे हुये पदार्थ को 'अन्धस्' (९ ८६, ४४), 'वत्रि' (९ ६९, ९), 'क्व' (९ ८६, ४४, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ७, १३, १), 'शरीर' (वही, २,)

'शर्य' (९ ६८, २), 'तान्व' (९. ७८, १), कहा गया है ।

^{१३} तु० की० ऋग्वेद ४ २०, ४ में 'पृच्छ्य'; हिलेब्रान्ट १, ५४, ५५ ।

^{१४} ऋग्वेद १. ९३, ६, ३ ४८, २; ५. ३६, २; ४३, ४, ८५, २; ९. १८, १; ४६, १, ७१, ४; ८२, ३; अथर्ववेद ३. २१, १० । इसी प्रकार अवेस्ता, यज्ञ १०. ४, इत्यादि ।

^{१५} लासन : इ० आ० १^२, ९३१; मूलर : संस्कृत टेक्स्ट्स, ५, २६१ और बाद । तु० की० हॉग : ऐतरेय ब्राह्मण २, ४८९; मैक्समूलर : त्सी० मे०, ९, liv ।

^{१६} त्सी० मे० ३५, ६८० और वाद । तु० की० ३८, १३४ और वाद भी ।

^{१७} देखिये हिलेब्रान्ट, १, ७ और वाद ।

^{१८} वही, १० ।

प्रयुक्त होता था—अर्थात् सोम-पौधा 'होप' (*Humulus lupulus*) का ही एक प्रकार होता था । हिलेब्रान्ट^{१९} का विचार है कि 'होप' अथवा अंगूर में से कोई भी सोम-सम्बन्धी सन्दर्भों की व्याख्या नहीं कर सकता । बहुत सम्भव यह है कि इस पौधे की अब पहचान ही नहीं की जा सकती ।^{२०}

यजुर्वेद^{२१} के अनुसार दवाने के पूर्व इस पौधे को क्रय किया जाता था । हिलेब्रान्ट^{२२} का विचार है कि इसके विक्रय के तथ्य को ऋग्वेद में भी देखा जा सकता है । यह पर्वतों पर उगता और साधारण व्यक्तियों के लिये सुलभ नहीं था : सम्भवतः, कीकटों^{२३} की भाँति ही किसी जाति अथवा राजा का इस पर आधिपत्य था । स्थिति जैसी है उसके अनुसार सांस्कारिक कृत्य के अन्तर्गत गन्धर्वों (शूद्र जिसका प्रतिनिधित्व करता था) से सोम का अर्जन किया जाता था : यह उस कृत्य का सांस्कारिक अनुकरण है जो नाटक के स्रोतों में से एक रहा होगा । अत्यन्त दूरस्थ प्रदेश से वास्तविक पौधों की प्राप्ति में कठिनता के कारण, ब्राह्मण काल में इसके अनेक स्थानापनों की स्वीकृति दी गई है ।^{२४}

इस पौधे को व्यवहारार्थ पहले पत्थरों से अथवा उल्लखल में रखकर कूटा जाता था । प्रथम पद्धति ही समान्य विधि थी जिसका ऋग्वेद में उल्लेख है ।

^{१९} वही, १२ । इस पौधे की प्रकृति से सम्बन्धित मैक्स मूलर, रीथ, वेकर, थिसिल्टन डायर, चार्ल्स लेलेण्ड, और हूटम शिन्डलर, के बीच विवाद को मैक्स मूलर : वायोग्राफीज ऑफ वर्ड्स, २०२ और वाद, में पुनर्मुद्रित किया गया है जिसकी हिलेब्रान्ट ने समालोचना भी की है । देखिये एग्लिङ्ग से० बु० ई०, २६, xxxiv और वाद भी, जिनका विचार है कि परम्परागत निर्धारण बहुत त्रुटिपूर्ण नहीं है । कैलेण्ड : आस्टिन्डिसे त्सावरगिचुअल, १८८, इसे *Sarcostemma acidum* मानते हैं ।

^{२०} मूल सोम-पौधा निश्चित रूप से अवेस्ता

के 'हओम' के समान था । उस पौधे के लिये, जिससे केरमान और वेद के पारसी 'हूम'-रस निकालते थे और जिसे वह अवेस्ता के 'हओम' के साथ समीकृत करते हैं, देखिये एग्लिङ्ग : से० बु० ई०, २६, xxxiv और वाद ।

^{२१} शतपथ ब्राह्मण ३ ३, १, १ और वाद; हिलेब्रान्ट, १, ८९ और वाद ।

^{२२} वही, ७० ।

^{२३} ऋग्वेद ३ ५३, १४ ।

^{२४} देखिये शतपथ ब्राह्मण ४. ५, १०, १-६, और तु० की० एग्लिङ्ग । से० बु० ई० २६, xxvii, पञ्चविंश ब्राह्मण ९ ५, ३ ।

पत्थरों को 'ग्रावन'^{२५} अथवा 'अद्रि'^{२६} कहा जाता था।^{२७} पौधे को ऐसे पटरों पर रक्खा जाता था जो एक के बगल में दूसरे रक्खे होते थे (अधिषवन) और, कम से कम वाद के संस्कार^{२८} के अनुसार, उनके नीचे एक गड्ढा खोद दिया जाता था जिससे पत्थरों से पौधों को कूटने के परिणाम-स्वरूप तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती थी, जिसे निःसन्देह, राजसी प्रभावों का निवारक माना जाता था।

पौधे को एक चर्म और वेदि^{२९} पर रक्खा जाता था—कुछ स्थलों पर घिषणा वेदि का द्योतक है।^{३०} वाद के समय के संस्कारों में ऐसा नहीं किया जाता था।

कभी-कभी पत्थरों के स्थान पर मूसल और उल्लखल का व्यवहार होता था।^{३१} यह पद्धति यद्यपि ईरानियन थी, तथापि प्रत्यक्षतः वैदिक काल में बहुत प्रचलित नहीं थी।

देवों को समर्पित करने के लिये प्रयुक्त पात्र का चमू,^{३२} और पुरोहितों द्वारा सोम-पान के लिये प्रयुक्त पात्रों का कलस और चमस नाम था। कभी-कभी^{३३} चमू, मूसल और उल्लखल का द्योतक है : सम्भवतः उल्लखल के आकार का होने के कारण ही इसे ऐसा कहा गया है।

जिस चर्म पर टहनियों को रक्खा जाता था उसे त्वच्^{३४}, अथवा दो चार

^{२५} १ ८३, ६, १३५, ७, इत्यादि।

^{२६} १. १३०, २, १३५, ५; १३७, १, इत्यादि। अधिक वैयक्तिक धारणा से युक्त और इसलिये 'वद्' के साथ आनेवाले 'ग्रावन' की अपेक्षा 'सु' क्रिया के साथ 'अद्रि' का अधिक प्रयोग मिलता है, हिलेब्रान्ट १, १५३, नोट १।

^{२७} ऋग्वेद ५ ४५, ७, ९ ११, ५, १०. ७६, २, इत्यादि।

^{२८} कात्यायन श्रौतसूत्र ४ ४, २८, ऋग्वेद १० ९४, ५ में 'आखर' का इसका वाचक होना अनिश्चित है।

^{२९} ऋग्वेद ५ ३१, १२।

^{३०} ऋग्वेद १. १०९, ३; ३. २, १, ६. ११, ३, इत्यादि।

^{३१} ऋग्वेद १. २८। मूसल 'मन्था' है और उल्लखल 'उल्लखल'; १०. १०१, ११, में 'वनस्पति' और 'वन' का क्रमशः यही आशय हो सकता है।

^{३२} दवाने के पटरे नहीं, जो ऋग्वेद में अद्यात हैं। तु० की० ऋग्वेद ९. ९९, ८, १० ९१, १५, इत्यादि।

^{३३} ऋग्वेद १. २८, ९, ४. १८, ३, ६ ५७, २, इत्यादि; हिलेब्रान्ट १, १७०, १७३।

^{३४} ९. ६५, २५, ६६, २९, ७०, ७; ७९, ४, इत्यादि।

‘गो’ (गो-चर्म)^{३५} कहा गया है । कोश,^{३३} सधस्थ,^{३७} द्रु,^{३८} वन,^{३९} द्रोण,^{४०} यह सभी सोम-पात्रों में विभिन्न नाम हैं, जब कि सुव^{४१} सुवा का छोटक है ।

प्रत्यक्षतः अधिक रस प्राप्त करने के लिये पौधे को कभी-कभी जल में भिगा दिया जाता था ।^{४२}

ऋग्वेद में सोम-पौधे को दवाने के लिये व्यवहृत विधि के विवरण का ठीक-ठीक वर्णन सम्भव नहीं । परिष्कार करने के लिये इसे निश्चित रूप से चलनी^{४३} पर रख कर दवाया जाता था (पवित्र) । इसके पश्चात् इन्द्र और वायु के लिये अमिश्रित (‘शुक्र’,^{४४} ‘शुचि’^{४५}) सोम प्रयुक्त होता था, किन्तु

३५ ऋग्वेद १०. ९४, ९; ११६, ४ ।

३६ ऋग्वेद ७. १०१, ४; ८. २०, ८, इत्यादि । यह उस बड़े पात्र का छोटक है जिसमें से सोम को कलशों में उँडोला जाता था ।

३७ ऋग्वेद ३ ६२, १५, ९ १. २, १७, ८, इत्यादि ।

३८ ऋग्वेद ९ १, २; ६५, ६; ९८, २, १० १०१, १०, में ‘द्रु’=मूसल ।

३९ ऋग्वेद २. १४, ९; ९. ६६, ९, इत्यादि । इस शब्द से उन दोनों पात्रों का तात्पर्य हो सकता है जिनमें बनाने के पश्चात् सोम उँडोला और जिनसे ही उसे देवों को समर्पित किया जाता था ।

४० ऋग्वेद ९. १५, ७, ३३, २, इत्यादि । बिना किसी निश्चित आशयवाला यह शब्द किसी भी पात्र का छोटक हो सकता है । दूसरी ओर ‘चमू’ देवों का प्याला था और ‘कलश’ पुरोहितों का (वाद में जब पुरोहितों के प्याले के रूप में ‘चमस’ ने ‘कलश’ का स्थान ले लिया तो इसका = ‘कोश’

के रूप में भी व्यवहार होने लगा; हिलेब्रान्ट १, १८७) ।

४१ ऋग्वेद १. ११६, २४ । तु० की० अमत्र और स्वारी भी ।

४२ इस पद्धति का पारिभाषिक नाम ‘आप्यायन’ है । तु० की० ऋग्वेद ९. ७४, ९; मंत्रायणा सहिता ४ ५, ५ । इस पद्धति की ठीक-ठीक प्रकृति अथवा सीमा सर्वथा अनिश्चित है; हिलेब्रान्ट १, १९३-१९५, एनिल्ल. से० तु० ई० २६, xxvi ।

४३ अकुरों को हाथ में लेकर परिष्कृत करने की वाद की पद्धति ऋग्वेद को भी शात थी या नहीं यह अनिश्चित है, क्योंकि २. १४, ८; ९ ७१, ३, सर्वथा अनिर्णायक है । चलनी को व्यक्त करने वाले विभिन्न शब्दों के लिये देखिये पवित्र ।

४४ ऋग्वेद १. १३७, १; ३ ३२, २, ८-२, १०, इत्यादि ।

४५ ऋग्वेद १. ५, ५, ३०, २, ८. २, ९, इत्यादि ।

ऐसा प्रतीत होता है कि कण्वों ने इस प्रचलन को छोड़ दिया था।^{४९} इसके रस को वज्रु,^{५०} हरि^{५०}, अथवा अरुण,^{५१} और कम से कम नियमित^{५०} रूप से सुगन्धित^{५१} कहा गया है।

सोम को दूध के साथ (गवाशिर्),^{५२} दधि के साथ (दध्याशिर्)^{५३} अथवा अन्न के साथ (यवाशिर्)^{५४} मिश्रित किया जाता था। इन मिश्रणों को विभिन्न लाक्षणिक नामों से व्यक्त किया गया है, जैसे अत्क,^{५५} वस्त्र^{५६} अथवा वासस्,^{५७} अभिश्री,^{५८} रूप,^{५९} श्री,^{६०} रस,^{६१} प्रयस्,^{६२} और सम्भवतः नभस्^{६३}। इस प्रकार मिश्रित होने पर सोम के तीव्र आस्वाद को 'तीव्र'^{६४}

^{४९} तु० अ० ऋग्वेद ८. २, ५. ९ १०
२८, इत्यादि। मैत्रायणी संहिता ४.
७. ४ अमिश्रित सोम को अमान्य
करता है। सम्भवतः हिलेब्रान्ट १,
२०७, २०८, यह मानते हुये ठीक
हो सकते हैं कि कण्वों को मिश्रणों
पर इसलिये विशेष जोर देना पटना
था कि वह एक ऐसे पौधों का प्रयोग
करते थे जो वास्तविक सोम की प्रकृति
में क्षीण था।

^{५०} ऋग्वेद ९ ३३, २, ६३, ४ ६।

^{४८} ऋग्वेद ९ ३, ९, ७, ६; ६५, ८ १०
२५, इत्यादि।

^{४९} ऋग्वेद ९ ४०, २, ४५, ३, 'अरुण'
९ ६१, २१; 'श्रीण', ९ ९७, १३।

^{५०} शनपथ ब्राह्मण ४. १, ३, ६। एक
चिकित्सा-ग्रन्थ के बाद के इस वर्णन
की पुष्टि के लिये कि यह पौधा दुर्गन्ध-
पूर्ण होता था, एग्लिङ्ग उ० पु०, २६,
xxv, इसी स्थल पर आधारित हैं।
किन्तु यह पौधा वैदिक-काल के पौधे
से भिन्न रहा हो सकता है। दुर्गन्ध

का कारण या तो किसी स्थानापन्न
पौधे का प्रयोग हो सकता है, अथवा
दूर से आने के कारण वास्तविक पौधे
का ही पुराना होना या सड़ जाना।

^{५१} ९ ९७, १९, १०७, २।

^{५२} हिलेब्रान्ट, १, २१९-२००।

^{५३} वही २२१।

^{५४} वही २२२ और वाद।

^{५५} ऋग्वेद ९ ६९, ४।

^{५६} ९ ८, ६।

^{५७} ९. ६९, ५।

^{५८} ९ ७९, ५, ८६, २७।

^{५९} अथर्ववेद ९ २५, ४।

^{६०} ऋग्वेद ४ ४१, ८, ९ १६, ६।

^{६१} ऋग्वेद ३ ४८, १, ६ ४७, १, ९.
९७, १४। सूद भी देखिये।

^{६२} ऋग्वेद ३ ३०, १, ३. ८६, ३, ६६,
२३।

^{६३} ऋग्वेद ९. ८३, ५, ९७, २१, इत्यादि।

^{६४} ऋग्वेद १ २३, १, २ ४१, १४, ५.
३७, ४, ६ ४७, १, इत्यादि।

विशेषण द्वारा व्यक्त किया गया है। रस निकाल लेने पर सोम की टहनियों को 'ऋजोप'^{६५} कहा गया है।

ऐसा सम्भव प्रतीत होता है कि कुछ दशाधों में सोम के साथ मधु भी मिश्रित किया जाता था : सम्भवतः मिश्रण के लिये 'कोश मधु-श्रुत्' का प्रयोग किया जाता था।^{६६} सुरा का भी इस प्रकार मिश्रित किया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है।^{६७}

अवेस्ता के दो वार की अपेक्षा यहाँ सोम को एक दिन में तीन वार दबाया जाता था :^{६८} संध्याकालीन दवाने के कृत्य को विशेषतः ऋभुओं के साथ, मध्याह्न के कृत्य को इन्द्र के साथ, और प्रातःकाल के कृत्य को अग्नि के साथ सम्बद्ध किया गया है, किन्तु सस्कारों द्वारा ऐसा प्रकट होता है कि इनमें अनेक देवों का भाग भी होता था।^{६९} संहिताओं में सोमपान करने तथा न करने वालों के बीच तीव्र विभेद किया गया है।^{७०} जिन स्थानों पर सोम की

^{६५} मैत्रायणी संहिता ४ ८, ५, अथर्ववेद ९ ६, १६, इत्यादि, वाजसनेयि संहिता १९ ७०, निरुक्त ५ १०, इत्यादि में उद्धरण। विशेषण के रूप में ऋजोप ऋग्वेद १ ३०, ६ में आता है और हिलेब्रान्ट, १, २३६, २३७, के अनुसार ऋग्वेद में ऋजोपिन् का अर्थ 'वह जिसके आधिपत्य में सोम के अकुर हों', है। 'सोम तिरोगह्य' से 'परसों दबाये गये सोम' का तात्पर्य है।

^{६६} ऋग्वेद ९ १०३, ३। तु० की० ९ १७, ८, ९ ८६, ४८, ९७, ११, १०९, २०।

^{६७} देखिये सुराम। तु० का० मैत्रायणा संहिता ४. १०, ५, वाजसनेयि संहिता २१ ४०, और 'सुग सोमा', वही २१, ६०।

^{६८} यत्न, १०. २।

^{६९} हिलेब्रान्ट, १, २५७ और बाद।

^{७०} ऋग्वेद १ ११०, ७, २ ३०, ७, ५ ३४, ३ ५, ४ १७, १७, २५, ६

७, ५ ३७, ३, ६ ४१, ४, ७. २६, १, इत्यादि। अन्य सोम यज्ञों के साथ भी प्रतिद्वन्द्विता थी, ऋग्वेद २ १८, ३, ८ ३३, १४; ६३, १०, और विशेषतः ७ ३३, २, जहाँ वनिष्ठ-गण इन्द्र को पाशद्युम्न वायत के सोम-यज्ञ से सुदास के पास ले जाते हैं। अनेक प्रसिद्ध सोम-न्यमपित करनेवालों का उल्लेख है। अग्नि ५ ५१, ८, ७२, १; ८ ४०, ५, शार्यात्, १ ५१, १२, ३ ५१, ७, वाजसनेयि संहिता ७ ३५; 'शीष्टस्', ८ ५३, ४, इत्यादि, तुर्वश यदु, ८ ४५, २७, संवर्त कृश, ८ ५४, २; नीपात्तिथि, मेध्यात्तिथि, पुष्टिगु, श्रुष्टिगु, ८ ५१, १, इत्यादि। सस्कारों में किसी परिवार में सोम-पान के क्रम के चलते रहने पर जोर दिया गया है : तैत्तिरीय संहिता २. १, ५, ५, और बाद; मैत्रायणी संहिता २ ५, ५, इत्यादि।

खपत होती थी उनके नाम ये है : आर्जीक, पस्त्यावन्त, शर्याणावन्त, सुषोमा, पञ्चजनाः का क्षेत्र, इत्यादि।^{७१} सोमपान करनेवालों पर सोम के आह्लादकारी और उत्तेजक प्रभाव का अक्सर उल्लेख है।^{७२}

इस बात का निर्णय करना कि याजकीय पेय के विपरीत सोम कभी प्रचलित पेय भी था, अत्यन्त कठिन है। इसकी वास्तविक लोकप्रियता के सम्बन्ध में प्रमाण अत्यन्त कम^{७३} और अनिर्णायक हैं।

^{७१} देखिये व० स्था० । हिलेब्रान्ट, १, १०५-१४३। सोम का मूलक्षेत्र कुछ भी रहा हो किन्तु मध्यदेश के उत्तरी पर्वतों पर इसका उगना सम्भव है, जिसके लिये तु० की० रौधः त्सो० ने० ३८, १३४ और वाद।

^{७२} देखिये ऋग्वेद ८. ४८। अवेस्ता-काल में भी इसका इनना ही महत्व था। फिर भी, पुरोहितों को आनन्द प्रदान करनेवाले के रूप में इसका केवल कहीं-कहीं ही उल्लेख है : ऋग्वेद १ ९१, १३, ८ २, १० १६७, ३। इसके द्वारा उत्पन्न रुग्णता के भी अनेक सन्दर्भ हैं (मैत्रायणी संहिता २ २, १३, इत्यादि)। 'सौत्रामणी' सस्कार का प्रयोजन सोम-वमन करने से उत्पन्न पाप का प्रायश्चित्त कराना होता था (इन्द्र ने भी सोम-वमन किया था) : तैत्तिरीय संहिता २. ३, २, ५ ६; शतपथ ब्राह्मण ५ ५, ४, ९, १० ७, १, ११। इस संस्कार का नाम अथर्ववेद ७ ३, २ तक में मिलता है और इसमें सन्देह नहीं कि यह

अपेक्षाकृत और प्राचीन है (देखिये विपूचिका भी)। यह तथ्य इस पौधे की प्रकृति के सम्बन्ध में परम्परागत निर्धारण की पुष्टि करता है क्योंकि मैक्स मूलर द्वारा उद्धृत चिकित्सा-ग्रन्थों के विभिन्न स्थलों पर इसे वमनकारी कहा गया है। देखिये तिसमर। आस्ट्रिन्डिशे लेवेन, २७५; ऋग्वेद १ ९१, १३; ११८, ३, ८ २, १२; १७, ६, ४८, १२। सम्भवतः १. ११०, १५ में वज्र ने इसी कारण यह नाम पाया था।

^{७३} ८ ६९, ८-१०। तु० की० ८ ३१, ५, १ २८, ५; हिलेब्रान्ट, १, १४३-१४७। प्रमाण निर्णायक नहीं हैं; साधारण सोम-यज्ञ स्पष्टतः सम्पन्न दाताओं का यज्ञ होता था।

तु० की० तिसमर : आस्ट्रिन्डिशे लेवेन, २७२-२८०, हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथोलोजी, १, १-२६६; २, २०९ और वाद, मैकडौनेल : वेदिक माइथोलोजी, पृ० १०४ और वाद।

२. सोम प्राति-वेश्य ('प्रतिवेश्य' का वंशज) शाङ्खायन आरण्यक (१५. १) के अन्त के एक वंश में 'प्रतिवेश्य' के शिष्य, एक गुरु का नाम है।

सोमक साह-देव्य ('सहदेव' का वंशज) ऋग्वेद^१ में सृष्टियों के एक

राजा का नाम है। ऐतरेय ब्राह्मण^२ में ऐसा उल्लेख है कि पर्वत और नारद इसके पुरोहित थे।

^२ ७ ३४, ९।

तु० की० लुडविग ऋग्वेद का

अनुवाद ३, १५४, हिलेब्रान्ट : वेदिशे
माथ्योलोजी, १, १०५।

सोम-दक्ष कौश्रेय (कुश्रि का वंशज) काठक^१ और मैत्रायणी^२ मंहिताओं में एक गुरु का नाम है।

^१ २० ८, २१ ९, जहाँ चेम्बर पाण्डुलिपि
के २० ८ में 'सोमरक्ष कौश्रेय' और
२१ ९ में 'कौश्रेय' पाठ है।

^२ ३. २, ७।

तु० की० वेवर : इन्डिशे
स्टूडियन। ३, ४७२, ४७३।

सोमपि-त्सरु—देखिये त्सरु।

सोम-शुष्म सात्य-यज्ञि (सत्ययज्ञ का वंशज), शतपथ ब्राह्मण (११. ६, २, १. ३) में उस भ्रमणकारी ब्राह्मण का नाम है जो विदेह के जनक से मिला था। यह इसी नाम तथा प्राचीनयोग्य ('प्राचीनयोग' का वंशज) पैतृक नाम धारण करने वाले उस व्यक्ति के समान हो सकता है जिसका जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ४०, २) में सत्ययज्ञ के रूप में उल्लेख है।

सोम-शुष्मन् वाज-रत्नायन ('वाजरत्न' का वंशज) ऐतरेय ब्राह्मण (८. २१, ५) में उस पुरोहित का नाम है जिसने शतानीक का अभिषेक किया था।

सौकरायण, बृहदारण्यक उपनिषद् के दूसरे वंश में काषायण^१ अथवा त्रैवणिक^२ के शिष्य, एक गुरु का नाम है।

^१ ४ ६, २ (काण्व)।

| ^२ ४ ५, २७ (मध्यन्दिन)।

सौ-जात आराढि, ऐतरेय ब्राह्मण (७. २२, १) में एक गुरु का नाम है।
सैत्रामणी—देखिये सोम।

सौ-दन्ति ('सुदन्त' का वंशज) पञ्चविंश ब्राह्मण (१४. ३, १३) में बहुवचन में प्रत्यक्षतः उन पुरोहितों के नाम के रूप में आता है जो विश्वामित्र के सम-सामयिक थे।

सौदास, बहुवचन में 'सुदास् के उन वंशजों' का द्योतक है जिनका जैमिनीय ब्राह्मण^१ में वसिष्ठ के पुत्र शक्ति को अग्नि में फेंक देनेवालों के रूप

^१ २ ३९० (ज० अ० ओ० सो०, १८, ४७)। यह कथा शाठ्यायनक में भी

अवश्य आई होगी। तु० की० गेल्डनर् :
वेदिशे स्टूडियन, २, १५९, नोट ३।

में उल्लेख है। अन्य ग्रन्थों^२ में ऐसी कथा है कि पुत्र का वध हो जाने पर वसिष्ठ ने सौदासों से प्रतिशोध लेने की इच्छा की और उन्हें इसमें सफलता भी मिली। गेल्डनर^३ ने ऋग्वेद^४ में भी इस कथा का सन्दर्भ देखने का प्रयास किया है, किन्तु अकारण ही।

^२ तैत्तिरीय महिता ७. ४. ७, १, कौषीतकि | २०, भी।
ब्राह्मण ४. ८, पञ्चविंश ब्राह्मण ४. ७, | ^३ उ० स्था०।
३। देखिये क्लेलेण्ड : ऊ० वी० | ^४ ३. ५३, २२।

सौ-द्युम्नि ('सुद्युन्न' का वंशज) शतपथ ब्राह्मण (१३. ५, ४, १२) में राजा भरत दौषन्ति का पैतृक नाम है।

सौ-वल ('सुवल' का वंशज) ऐतरेय ब्राह्मण (६. २४, १६) में सर्पि वात्सि के एक शिष्य का नाम है।

सौभर ('सोभरि' का वंशज) बृहदारण्यक उपनिषद्^१ में पथिन् का पैतृक नाम है।

^१ २. ५, २० (माध्यन्दिन = २. ६, ३ काण्व), ४. ५, २८ (माध्यन्दिन = ४. ६, ३ काण्व)।

सौमाप ('सोमाप' का वंशज) शतपथ ब्राह्मण^१ में दो मानुतन्तव्यों का पैतृक नाम है।

^१ १३. ५, ३, २, जहाँ एगिल्डन : से० बु० ई० ४४, ३९२, ने 'सौमप' माना है।

सौमापि ('सोमाप' का वंशज) शाङ्खायन भारण्यक (१५. १) में प्रियव्रत नामक एक गुरु का पैतृक नाम है।

सौमायन ('सोम' का वंशज), पञ्चविंश ब्राह्मण (२४. १८, ६) में द्युध का पैतृक नाम है।

सौम्य, उपनिषद्^१ में एक स्नेहसूचक सम्बोधन है।

^१ बृहदारण्यक उपनिषद् ३. १, ३, २, १३ ('सौम्य' पाठभेद), छान्दोग्य उपनिषद् ४. ४, ४ और वाद।

सौ-यवसि ('सुयवस' का वंशज), अजीगर्त^१ का पैतृक नाम है।

^१ ऐतरेय ब्राह्मण ७. १५, ६, शाङ्खायन श्रौतसूत्र १५. १९, २९।

सौरी को स्मिन्^१ ने तैत्तिरीय संहिता^२ में अश्वमेध के समय के एक अज्ञात पशु का नाम माना है। किन्तु यह एक त्रुटि है : 'सौरी' का अर्थ 'सूर्य का भक्त' है।

^१ आल्टिन्टिशे लेवेन, ९९।

३३ = मैशायणी संहिता ३. १४, १४।

^२ ५, ५, १६, १ = वाजमनेयि संहिता २४

सौ-वर्चनस, तैत्तिरीय संहिता (१. ७, २, १) में संश्रवस् का पैतृक नाम है।

सौ-श्रवस (सुश्रवस् का वंशज) पञ्चविंश ब्राह्मण^१ में उपगु का पैतृक नाम है, और काठक संहिता^२ में कण्व सौश्रवसों का उल्लेख है।

^१ १४ ६, =।

| ^२ १३ १० (रुडिडं स्टूटियन, ३, ४७४)।

सौ-श्रोमतेय ('सुश्रोमता' का वंशज) शतपथ ब्राह्मण^१ में आपाडि का मातृनामोद्भूत नाम है। तु० की० आपाडि।

^१ ६ २, १, ३७। तु० की० णग्लिङ्ग . से० तु० ई० ४१, १७१, नोट १।

सौ-षड्मन ('सुषड्मन' का वंशज) ऐतरेय ब्राह्मण (७. २७, १; ३४, ७) में विश्वन्तर का पैतृक नाम है।

स्कन्ध्या (स्त्री० बहु०) का अथर्ववेद^१ में 'स्कन्धों की एक व्याधि', सम्भवतः एक प्रकार के शोथ, के लिये प्रयोग किया गया है।

^१ ६ २५, ३। तु० की० ब्लूमफील्ड अथर्ववेद के सूक्त ४७२, ४७३।

स्तनयित्तु (एक० और बहु०) ऋग्वेद^१ तथा उसके बाद^२ से 'मेघ-गर्जन' का द्योतक है।

^१ ५ ८३, ६।

^२ अथर्ववेद १ १३, १, ४ १५, ११, ७ ११, १, इत्यादि।

स्तम्ब, अथर्ववेद^१ और बाद^२ में 'घास के गट्टे', अथवा सामान्य रूप से 'गुच्छे', या 'क्षाड़ी' का द्योतक है।

^१ ८ ६, १४।

^२ तैत्तिरीय संहिता ५ ६, ४, १ (दर्भ का), तैत्तिरीय ब्राह्मण २ ७, १७, ३, ३ २,

२, ४, ३, ३, ४, ऐतरेय ब्राह्मण ५.

२३, ९, इत्यादि।

स्तम्भ, काठक संहिता,^१ तथा अक्सर सूत्रों में मिलता है। इनके पहले भी 'स्कम्भ'^२ का प्रयोग हुआ है किन्तु केवल लाक्षणिक रूप से ही।

^१ ३० ९, ३१. १।

| ^२ ऋग्वेद ? ३४, २, ४ १३, ५, इत्यादि।

स्तरी, ऋग्वेद (१. १०१, ३; ११६, २२; ११७, २०, इत्यादि) में एक 'अद्गुग्धा गाय' का द्योतक है।

स्ति—देखिये उपस्ति।

स्ति-पा—देखिये उपस्ति।

स्तुका, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'वाल अथवा ऊन के 'गुच्छे' का द्योतक है।

^१ ९ ९७, १७।

| ७४, २, शतपथ ब्राह्मण ३ २, १,

^२ काठक संहिता २५. ६, अथर्ववेद ७

| १३, इत्यादि।

स्तुति, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'प्रशस्ति गीतों' का द्योतक है।

^१ १ ८४, २; ६ ३४, १, १०. ३१, ५। | ^२ शतपथ ब्राह्मण ७ ५, २, ३९।

स्तूप, वाजसनेयि संहिता (२. २; २५. २) और शतपथ ब्राह्मण (१. ३, ३, ५; ३. ५, ३, ४) में 'वालों के गुच्छे' का द्योतक है। देखिये स्तुका।

स्तूप, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में सर के शीर्ष भाग को व्यक्त करते हुये केश की 'चोटी' का द्योतक है।

^१ ७ २, १। तु० की० १ २४, ७।

^२ तैत्तिरीय संहिता ३ ३, ६, ५, पञ्चविंश ब्राह्मण १३. ४, ४।

स्तृ (केवल तृतीया बहुवचन में ही प्रयुक्त) आकाश के 'तारों' का द्योतक है।^१

^१ १ ६८, ५, १६६, २१, २ २, ५, ३४, २, ४ ७, ३; ६ ४९, ३ १०। १ ८७, १, में यह गाय या बैल के माथे पर बने एक तारे के समान स्थान'

का द्योतक प्रतीत होता है, किन्तु यह अनिश्चित है। तु० की० ग्रासमैन : वर्टरबुख, व० स्था०।

स्तेग, यजुर्वेद-संहिताओं^१ में 'कीट' के एक प्रकार का द्योतक प्रतीत होता है। यह शब्द ऋग्वेद^२ में भी आता है जहाँ इसका आशय अज्ञात, किन्तु सम्भवतः 'कृपक' या 'फाल' हो सकता है।^३

^१ तैत्तिरीय संहिता ५. ७, ११, १, वाजसनेयि संहिता २५ १।
^२ १० ३१, ९ = अथर्ववेद १८ १, ३९।
तु० की० तिसर : आल्टिन्डिशे

लेवेन ९८।
^३ वेवर : प्रो० अ० १८९५, ८३३। तु० की० व्हिट्टने : अथर्ववेद का अनुवाद, ८०४।

स्तेन, ऋग्वेद^१ तथा उसके वाद^२ में 'चोट' के लिये एक सामान्य शब्द है। देखिये तस्कर।

^१ २. २३, १६, २८, १०, ४२, ३, इत्यादि।

इत्यादि।

^२ अथर्ववेद ४ ३, ४ ५, ३६, ७, १९
४७, ६, ऐतरेय ब्राह्मण ५ ३०, ११,

तु० की० तिसगर . आरिटिन्टिगे
लेवेन, १७८ और बाद।

स्तेय, अथर्ववेद^१ और वाद^२ में 'चोरी' का द्योतक है। तु० की० धर्म।

^१ ११ ८, २०, १४. १, ५७।

१। तु० की० 'स्तेय-कृत्' (चोर),

^२ निरुक्त ६ २७, कौपीतिकि उपनिषद् ३।

ऋग्वेद ७ १०४, १०, में।

स्तोत्र, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'प्रशस्ति करने वाले' या 'स्तुति करनेवाले' का द्योतक है। यह शब्द भवसर^३ दाताओं, मघवन् अथवा सूरि, के सन्दर्भ में भी आता है।

^१ १. ११, ३, ३८, ४, ३. १८, ५, ६
३४, ३, इत्यादि।

^२ ऋग्वेद १. १०४, १०, २. १, १६, ५
६४, १, ७ ७, ७, निरुक्त ७ २।

^३ अथर्ववेद ६ २, १, १९ ४८, ४।

स्तोत्र उसी प्रकार उद्गातृ तथा उसके सहायक पुरोहितों के 'गायन्' का द्योतक है (देखिये ऋत्विज्) जैसे शस्त्र, होतृ तथा उसके सहायकों के मन्त्रोच्चारण का। वाद की संहिताओं और ब्राह्मणों में इस शब्द का यह पारिभाषिक आशय प्रायः भवसर ही मिलता है।^१

^१ तैत्तिरीय संहिता ३ १, २, ४, काठक
संहिता २९ २, ऐतरेय ब्राह्मण २
३७, ४, ३ ४६, ८; ४ १२, ६,
कौपीतिकि ब्राह्मण १७ ७, शतपथ
ब्राह्मण ४ १, १, ७, ८ १, ३, ४,

इत्यादि। तु० की० वेवर : इन्डिशे
स्टूडियन, १०, ३५३, और कैलेण्ड
और हेनरी : 'ल' अग्निष्टोम, जहाँ इस
यज्ञ के 'स्तोत्रों' का विस्तार से
बखलेख हैं।

स्तोम, ऋग्वेद^१ में 'स्तुति' का द्योतक है। वाद^२ में इस शब्द से उस विशेष पद्धति का पारिभाषिक आशय है जिसके अनुसार स्तोत्रों का गायन होता था।

^१ १ ११४, ९, ३ ५, २, ५८, १, इत्यादि।

तु० की० वेवर . इन्डिशे
स्टूडियन, ९, २२९, २७६, १०,
३५५, हिलेब्रान्ट : रिन्नुअललिटरैचर,
१०१।

^२ तैत्तिरीय संहिता ३ १, २, ४,
वाजसनेयि संहिता ९ ३३, १० १०,
इत्यादि।

स्त्री, पद्य और गद्य दोनों में ही पत्नी, अथवा कन्या के किसी विशेष सन्दर्भ के बिना ही 'नारी' के लिये साधारण शब्द है। नारी से भी यही आशय है किन्तु यह वाद के गद्य में नहीं मिलता, जब कि ग्ना से केवल देवों की स्त्रियों का सन्दर्भ है, और अपने अन्य सजातीय शब्दों सहित योषित् विवाह-योग्य स्त्री का द्योतक है।^१ ऋग्वेद^२ में स्त्री शब्द का पुमांस् (मनुष्य) और एक वार 'वृषन्' (पुरुष), के विपरीत प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद^३ के पहले तक इसका पति के विपरीत 'पत्नी' अर्थ नहीं मिलता और सूत्रों तक में जाया के साथ द्वयका स्पष्ट विभेद किया गया है।

वैदिक भारत में स्त्री के जीवन का अधिक अंश उसके विवाह और वैवाहिक सम्बन्धों में ही व्यतीत होता था (देखिये 'पति' और मातृ)। ऋग्वेद में स्त्रियों के जीवन के पृथक्करण का ऐसा कोई भी चिह्न नहीं मिलता जो आरम्भिक महाकाव्य-काल तक प्रत्यक्षतः पूर्ण रूप से विकसित हो गया था।^४ यह माना जा सकता है कि कन्या अपने पिता के घर में विकसित होती थी जहाँ उसे गाँव के युवकों के साथ मुक्त संसर्ग की स्वतन्त्रता थी; साथ ही उमे घर के कामों में भी हाथ बटाना पड़ता था। स्त्रियों के लिये शिक्षा^५ वर्जित नहीं थी। कम से कम कुछ दशाओं में तो ऐसा अवश्य था, क्योंकि उपनिषदों द्वारा हमें ऐसी स्त्रियों के दृष्टान्त मिलते हैं जो दार्शनिक शास्त्रार्थों में कुछ कम महत्वपूर्ण भाग नहीं लेतीं : इसके अतिरिक्त स्त्रियों को नर्तन और गायन भी सिखाया जाता था, क्योंकि इन विद्याओं को पुरुषोपम गुण नहीं समझा जाता था।^६

पुत्रियों की ठीक-ठीक वैधानिक स्थिति के सम्बन्ध में बहुत कम विवरण

^१ तु० की० टेल्लुकु : डी० व०, ४१७।

^२ ऋग्वेद १ १६४, १६, ५ ६१, ८, इत्यादि। इसी प्रकार अक्सर वाद में, उदाहरणार्थ मैत्रायणी संहिता ४ ७, ४, तैत्तिरीय संहिता ६ ५, ८, २।

^३ १२ २, ३९। तु० की० ऐतरेय ब्राह्मण ३ २२, १।

^४ हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो०, १३, ३४९, ३५०।

^५ तु० की० हॉपकिन्स . उ० पु०, ३५१, ३५२। देखिये आश्वलायन गृह्यसूत्र ३. ४, ४ में वर्णित गार्गी वाचकवी तथा अन्य; वेवर . इन्डिशे स्टूडियन, १०, ११८, ११९।

^६ तैत्तिरीय संहिता ६ १, ६, ५, मैत्रायणी संहिता ३ ७, ३, शतपथ ब्राह्मण ३. २, ४, ३-६।

मिलता है । फिर भी, ऋग्वेद^७ से ऐसा प्रगट होता है कि पिता के न रहने पर उसे सहायता के लिये अपने भ्राता का सुखापेक्षी रहना पड़ता था । भ्राता-विहीन कन्याओं के लिये अष्ट हो जाने की सम्भावना बनी रहती थी, यद्यपि उनकी इस असहाय अवस्था से लाभ उठाने वाले व्यक्तियों के लिये धार्मिक भय विद्यमान थे ।^८ इसके अतिरिक्त स्त्री उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकती थी,^९ और चाहे वह विवाहित हो अथवा नहीं, उसे कानून की दृष्टि में स्वतंत्र व्यक्ति नहीं समझा जाता था । सम्भवतः विवाह के पूर्व वह अपने माता-पिता अथवा भ्राता के साथ, और विवाहोपरान्त अपने पति के साथ रहती थी । उसे विधवा छोड़कर पति की मृत्यु हो जाने पर उसके सम्बन्धी-जन इस उत्तरदायित्व के साथ उसकी सम्पत्ति के अधिकारी हो जाते थे कि वह विधवा का आजीवन भरण-पोषण करते रहेंगे ।^{१०} जैसा कि नर्तकियों की दशा में भी होता था, यदि कोई अविवाहित स्त्री कुछ धनोपार्जन करती थी तो उसके निकटतम सम्बन्धी, सामान्यतया उसके पिता अथवा भ्राता ही, उसका उपभोग करते थे ।

^७ १. १२४, ७ । तु० की० अथर्ववेद १ १४, २, १७, १; तिस्रर • आट्टिन्डिशे लेवेन, ३२८; हॉपकिन्स • उ० पु०, ३४१, और देखिये स्थाल, पुत्रिका ।
^८ ऋग्वेद ४ ५, ५ ।

^९ तैत्तिरीय संहिता ६ ५, ८, २, मैत्रायणी संहिता - ४ ६, ४, शतपथ ब्राह्मण ४ ४, २, १३; निरुक्त ३ ४ ।
^{१०} तु० की० ऐटिक 'επικληρος', कीथ : ज० ए० सो०, १९१२, ४२७ ।

स्थ-पति, उस राजकीय पदाधिकारी का नाम है, जिसका अथर्ववेद^१ और अक्सर बाद^२ में उल्लेख है । सृज्यों के एक निर्वासित राजा, दुष्टरीतु पौसायन, का स्थपित वह रेवोत्तरस् चाक था जो राजा का पुनर्गतिष्ठापन करा सकने में सफल हो गया था ।^३ इम शब्द का ठीक-ठीक आशय निश्चिन नहीं है :

^१ २ ३०, ४, ५ २३, ११ (दोनों ही दशाओं में कीटाणुओं का प्रधान) ।
^२ तैत्तिरीय संहिता ४ ५, २, २, काठक संहिता १७ १०; मैत्रायणी संहिता २. ९, ३, वाजसनेयि संहिता १६ १९, पञ्चविंश ब्राह्मण १७ ११, ६

७, २४ १८, २, शतपथ ब्राह्मण ५. ४, ४, १७, इत्यादि ।
^३ शतपथ ब्राह्मण १० ८, १, १७, ९, ३, १, और बाद । यहाँ स्थपति मानों एक मनुष्य के नाम का एक अङ्ग है ।

‘राज्यपाल’^४ सम्भव है, किन्तु कदाचित् ‘मुख्य न्यायाधीश’^५ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है; जैसा कि आरम्भिक इङ्ग्लैण्ड के न्यायाधीशों की दशा में भी था, इसका कर्त्तव्य नैय्यायिक और प्रशासनात्मक दोनों ही रहा होगा। राजा के भ्राता की अपेक्षा इसकी स्थिति हीन थी।^६

^४ कात्यायन श्रौतसूत्र १. १, १०, आपस्तम्ब श्रौतसूत्र १. १४, १०, में ‘निषाद-स्थपति’, जिससे सम्भवतः निषादों के राज्यपाल का आशय है। किन्तु इसका अर्थ (तु० की० वेवर • इन्डिशे स्टूडियन, १, २०७, नोट) ‘स्थपति के रूप में निषाद’ भी हो सकता है; इस प्रकार इस स्थल विशेष से बहुत अधिक निष्कर्ष सम्भव नहीं। पण्डित • से० बु० ई०, ४१, १११, इसका ‘राज्यपाल’ अनुवाद करते हैं।

देखिये। सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश व० स्था० और औपोदिति, भी।

^५ वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, १०, १३, नोट ३, १३, २०३, १७, २००, १८, २६०, ऊवर डेन राजसूय, १५, नोट ६, ऊवर डेन वाजपेय, ०, १०। तु० की० कात्यायन श्रौतसूत्र २२. ५, २८; ११, ११, लाट्यायन श्रौतसूत्र ८. ७, ११, आपस्तम्ब श्रौतसूत्र २२. ७, ६।

^६ शतपथ ब्राह्मण ५. ४, ४, १७।

स्थविर (शब्दार्थ ‘वरिष्ठ’) एक प्रकार की उपाधि के रूप में अनेक व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त हुआ है : स्थविर शाकल्य ऐतरेय आरण्यक^१ और शाङ्खायन आरण्यक^२ में, और स्थविर जातूकर्ण्य कौपीतिक ब्राह्मण^३ में आता है। तु० की ह्रस्व और दीर्घ, नामों को।

^१ ३. २, १. ६। | ^२ ७. १६; ८. १, ११। | ^३ २६. ५।

स्थागर तैत्तिरीय ब्राह्मण^१ में एक अलंकार के लिये प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ ‘स्थागर नामक सुगन्धित पदार्थ से बना’ है। यह अन्यत्र^२ ‘स्थकर’ के रूप में आता है।

^१ ३. १०, २, आपस्तम्ब श्रौतसूत्र १४. १५, २।

१९८, ब्लूमफील्ड अथर्ववेद के सूक्त, ३११, नोट २, मूडर : सस्कृत टेक्स्ट्स, ५, २६५।

^२ देखिये वेवर • इन्डिशे स्टूडियन, १३,

स्थाणु, ऋग्वेद^१ और चाद^२ में लकड़ी के ‘खूँटे’ या ‘खम्भे’ का द्योतक है।

^१ १०. ४०, १३।

^२ अथर्ववेद १०. ४, १, १४. २, ४८, १९. ४९, १०, इत्यादि।

स्थातृ, ऋग्वेद^१ में घोड़ों अथवा गाड़ी के चालक का द्योतक है।

^१ १. ३३, ५; १८१, ३; ३. ४५, २, इत्यादि।

स्था-पत्य, पञ्चविंश ब्राह्मण (१७. ११, ६, ७) में 'स्थपति' के पद का द्योतक है ।

स्थाली, अथर्ववेद^१ और वाद^२ में एक 'पकाने के पात्र', सामान्यतया मिट्टी के बने पात्र का द्योतक है ।

^१ ८, ६, १७ ।

^२ तैत्तिरीय संहिता ६ ५, १०, ५;
वाजसनेयि संहिता १९ २७ ८६,
ऐतरेय ब्राह्मण १. ११, ८, इत्यादि ।
'स्थाली-पाक' (दूध में उवाला हुआ

चावल या जौ) का बृहदारण्यक उपनिषद् ६. ४, १८, ऐतरेय आरण्यक ३ २, ४, शाङ्खायक आरण्यक ११ ६, इत्यादि में उल्लेख है ।

स्थिरक गार्ग्य (गर्ग का वंशज) वंश ब्राह्मण^३ में एक गुरु का नाम है :

^३ शन्तिशे स्टूडियन, ४, ३७३ ।

स्थिवि (बहुवचन में प्रयुक्त) ऋग्वेद^१ में एक बार ही, सम्भवतः 'बुझल' (अन्नादि का एक सूखा नाप जो लगभग आठ गैलेन के बराबर होता है) के अर्थ में आता है । यह शब्द एक बार 'स्थिविमन्त्'^२ विशेषण के रूप में भी मिलता है ।

^१ १० ६८, ३ ।

^२ ऋग्वेद १० २७, १५ । तु० की० तिसर . आस्टिन्डिशे लेवेन, २३८ ।

स्थूणा, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में गृहके 'स्तम्भ' अथवा 'खम्भों' का द्योतक है ।

^१ १ ५९, १, ५ ४५, २, ६२, ७, ८.
१७, १४, १० १८, १३ (कत्र का) ।

^२ अथर्ववेद ३ १०, ६ (स्तम्भ पर वंश
अथवा 'धरन' का रक्खा जाना),
१४ १, ६३, शतपथ ब्राह्मण १४ १,

३, ७, ३, १, २२, इत्यादि, 'स्थूणा-
राज' (प्रमुख स्तम्भ), ३ १, १,
११, ५, १, १ ।

तु० की० तिसर : आस्टिन्डिशे
लेवेन, १५३ ।

स्थूरि से ऋग्वेद^१ तथा वाद^२ में सामान्य रूप से प्रयुक्त दो (देखिये रथ) के स्थान पर 'एक पशु द्वारा खींचे जानेवाले' का तात्पर्य है, और दृश्यमें सदैव एक प्रकार का हीनत्व का भाव संयुक्त है ।

^१ १० २३१, ३ ।

^२ तैत्तिरीय ब्राह्मण ८ ८, २, ४, ३ ८,
२१, ३, पञ्चविंश ब्राह्मण १६ १३,

१०, १८ ९, ७, ऐतरेय ब्राह्मण ५
३०, ६; शतपथ ब्राह्मण १३ ३, ३,
९, इत्यादि ।

स्थैरकायण (स्थिरक का वंशज) वंश ब्राह्मण^१ में मित्रवर्चस् का पैतृक नाम है ।

^१ इन्डिशो स्टूडियन ४, ३७२ (जहाँ इम शब्द के अक्षर-विन्यास में 'न्' है) ।

स्थौलाष्टीवि ('स्थूलाष्टीव' का वंशज) निरुक्त (७. १४, १०. १) में एक वैयाकरण का पैतृक नाम है ।

स्नातक, जो कि विद्यार्थी की उपाधि और किसी धर्म-गुरु के नीचे उसके शिष्यत्व की समाप्ति का द्योतक है, शतपथ ब्राह्मण (१२. १, १, १०) तथा सूत्रों में बहुधा आता है । तु० की० ब्रह्मचारिन् ।

१. स्नावन्य, बहुवचन रूप में तैत्तिरीय संहिता (५. ७, २३, १) में अश्व के शरीर के विशेष अंगों का द्योतक है ।

२. स्नावन्य, वौधायन श्रौत सूत्र^१ में एक जाति के लोगों का नाम प्रतीत होता है ।

^१ २. ५ (एक मन्त्र में) । तु० की० कैलेण्ड : ऊ० वी० ३५ ।

स्तुषा, प्रमुखतः श्वसुर, किन्तु साथ ही साथ 'सास' के सदन्भ में भी 'पुत्र-वधू' का द्योतक है । इस वाद के आशय में यह शब्द ऋग्वेद^१ की 'सु-स्तुषा' उपाधि में आता है जहाँ यह 'वृषाकपायी' के लिये प्रयुक्त हुआ है । प्रथम आशय में यह अनेक स्थलों पर आता है, जहाँ श्वसुर के प्रति पुत्र-वधू के उस आदरभाव का उल्लेख^२ है जिसका केवल मादकावस्था ही उल्लङ्घन करा सकती थी ।^३ देखिये श्वशुर और पति ।

^१ १० ८६, १३ ।

^२ अथर्ववेद ८ ६, २४, ऐतरेय ब्राह्मण ३

२०, ७, तैत्तिरीय ब्राह्मण २ ४, ६, १२ ।

^३ मैत्रायणी संहिता २. ४, २, काठक

संहिता १० १२ (इन्डिशो स्टूडियन, ५, २६०) ।

तु० की० डेलब्रुक : डी० व०,

४१४, ४१५ ।

स्पन्दन, ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर एक प्रकार के वृक्ष का द्योतक है । फिर भी, रौथ^२ ने इसे 'स्यन्दन' (रथ) पढ़ा है ।

^१ ३ ५३, १९ ।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० तु० की०

ऑफरेखत • ऋग्वेद २, ६; त्सिमर : आस्ट्रिन्डिशो लेवेन, ६३ ।

स्पर्श, वौधायन श्रौत सूत्र (२१. १३) में प्रत्यक्षतः एक पाश्चात्य जाति का नाम है ।

स्पश—देखिये राजन् ।

स्पूजक एक वृक्ष (*Diospyros embryopteris*) का द्योतक है ।
इसका शतपथ ब्राह्मण (१३ ८, १, १६) में उल्लेख है ।

स्मद्-इम एक वार ऋग्वेद^१ में मिलता है, जहाँ रौथ^२ ने इस शब्द को
सम्भवतः कुत्स के एक शत्रु के नाम के रूप में ग्रहण किया है । तु० की० इम ।

^१ १० ४९, ४ ।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था ।

तु० की० औल्डेनवर्ग ऋग्वेद ।

नोट, १ ३८०, हिलेब्रान्ट : वेदिशे
माथ्यौलोजी, ३, २९१, नोट ५ ।

स्यन्दन (रथ) यदि मिलता भी है, तो केवल आरम्भिक साहित्य, अर्थात्
ऋग्वेद^३ के स्थल पर ही, जहाँ इसका मान्य पाठ स्यन्दन है ।

^३ ३ ५३, ११, रौथ के अनुसार । कौशिक
मूत्र ८ १५, में एक प्रकार की

लकड़ी को 'स्यन्दन' कहा गया प्रतीत
होता है ।

स्याल, जो ऋग्वेद^१ के केवल एक स्थल पर आता है, किसी व्यक्ति की
पत्नी के एक ऐसे आता का द्योतक है जिसे उसका (अपनी बहन का) रक्षक
होने के लिये सहमत और इसीलिये उसका विवाह करने का भी उत्तरदायित्व
बहन करनेवाले के रूप में उल्लेख है ।^२

^१ १ १०९, २ ।

^२ ऋग्वेद उ० स्था० पर सायण ऐमा ही
मानते हैं । तु० की० डेलब्रुक . टी०

व० ५१७, पिशल : वेदिशे स्टूडियन,
२, ७९ ।

स्यूम-गमस्ति—देखिये गमस्ति ।

स्यूम-गृम्, जिसका ऋग्वेद (६. ३६, २) में घोड़े के लिये प्रयोग हुआ है,
सम्भवतः "दाँतों के बीच 'खर्लान' को पकड़े हुये" का द्योतक है, जो कि नियन्त्रण
से मुक्त हो जाने के लिये व्यग्र घोड़े के व्यवहार को व्यक्त करता है ।

स्यूमन् ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर रौथ^२ के अनुसार घर के द्वारों को बाँधने
वाले फीते (होमर के *μῆας, δεσμός*) का द्योतक है ।

^१ ३ ६१, ४ ।

| ^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० :

स्यूम-रश्मि, ऋग्वेद^३ में अश्विनों के एक भाषित का नाम है ।

^३ १ ११२, १६, ८ ५२, २ । तु० की० लुडविग . ऋग्वेद का अनुवाद, ३,
१५०, १६३ ।

शक्ति ऋग्वेद^१ में दाशराज्ञ के वर्णन में मिलता है, जहाँ हॉपकिन्स^२ 'भालों' का आशय अनिवार्य मानते हैं ।

^१ ७ १८, १७ ।

| ^२ ज० अ० ओ० सो० १५, २६४, नोट ।

स्रज् (हार) का ऋग्वेद^१ और वाद^२ में मनुष्यों द्वारा अकमर उस समय, जैसे विवाहादि के अवसर पर, धारण किये जाने के रूप में उल्लेख है जब वह अपने को सुन्दर बनाना चाहते थे । अश्विनों को 'पुष्कर-स्रज्'^३ कहा गया है ।

^१ ४. ३८, ६, ५ ५३, ४; ८ ४७, १५, ५६, ३ ।

^२ अथर्ववेद, १. १४, १ (जहाँ इसका किसी वृक्ष से तोड़ा हुआ 'फूल का गुच्छा' अर्थ है), पञ्चविंश ब्राह्मण

१६ ४, १; १८. ३, २, ७, ६, शतपथ ब्राह्मण १३ ५, ४, २, इत्यादि ।

^३ ऋग्वेद १० १८४, ३ । तु० की० त्सिमर : आस्टिन्डिशे लेवेन, २६५ ।

स्राक्त्य, अथर्ववेद^१ में एक यंत्र (मणि) का वाचक विशेषण है । वेवर^२ के अनुसार यह एक 'सितमणि' (शब्दार्थ 'अनेक रंगों वाला') का द्योतक है । फिर भी, भाष्यकार^३ इस शब्द की 'स्राक्त्य', अर्थात् 'तिलक-वृक्ष (Clerodendrum phlomoides) से व्युत्पन्न' के रूप में व्याख्या करने पर सहमत हैं ।

^१ ८ ५, ४ ७ ८ । तु० की० २. ११ ।

^२ इन्डिशे स्टुडियन १३, १६४ ।

^३ देखिये ब्लूमफील्ड : अ० फा० ७, ४७७, अथर्ववेद के सूक्त, ५७७ ।

स्रुच्, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में अग्नि में घृत की आहुति देने के लिये प्रयुक्त लकड़ी के बड़े चमचे का द्योतक है । यह एक हाथ के बराबर लम्बा, और इसका मुख-पात्र हथेली बराबर होता था जिसमें चोंच की तरह टोंटी भी चनी होती थी ।

^१ १ ८४, १८, ११०, ६; १४४, १, इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद ५ २७, ५, ६ ११४, ३, ९, ६, १७, इत्यादि ।

तु० की० इसके आकार-प्रकार, इत्यादि के लिये, मैक्स मूलर • त्सी० गे० ९, xli, lxxx, एग्लिङ्ग : से० बु० ई० १०, ६७, २६, २०, २३ ।

स्रुव, कर्म-काण्ड-साहित्य^१ में स्रुच् के विपरीत उस छोटे चमच या पात्र

^१ आश्वलायन श्रौतसूत्र, १ १८, १०, इत्यादि ।

का द्योतक है जिसका स्थाली (पकाने का पात्र) से हवि (आज्या) को वदे चमस (जुहू) तक ले जाने के लिये प्रयोग होता था । फिर भी, ऋग्वेद^२ में स्पष्टतः इसे वास्तविक सोम-हवि के लिये प्रयुक्त किया गया है ।

^१ १ ११६, २४, १२१, ६, इत्यादि ।

तु० की० मैक्स मूलर त्सी० गे०
९, VIII, कैलेण्ड और हेनरी 'ल'

अग्निष्टोम xlv, प्लेट I, न० ९, प्लेट II, न० ११, एंग्लिङ्ग : से० तु० ३०, १२, ६८, २६, २० ।

स्त्रोक-पर्ण का ब्राह्मणों^३ में 'शितिकुम्भ के पत्ते के समान' अर्थ प्रतीत होता है ।

^३ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ६, ६, ३, ऐतरेय ब्राह्मण २ ६, १५ ।

स्वज, अथर्ववेद^४ और वाद^२ में 'सर्प' का द्योतक है । भाष्यकारों ने इस शब्द की 'स्त्र-ज' (स्वयं उत्पन्न) के रूप में व्याख्या की है, किन्तु रौथ,^३ वेवर,^५ और त्सिमर^६ इसे 'स्वज्' धातु से व्युत्पन्न मानना अधिक उपयुक्त समझते हैं । मैत्रायणी संहिता^७ में ऐसा कथन है कि हरिणा सर्प को मार डालता था ।

^३ ३ २७, ४, ५ १४, १०; ६. ५६, २,
१० ४, १० १५ १७, १२ ३, ५८ ।

विकल्प के रूप में 'विविपर' दिया गया है ।

^२ तैत्तिरीय संहिता ५ ५, १०, २, १४,
१, ऐतरेय ब्राह्मण ३ २६, ३ ।

^४ तैत्तिरीय संहिता २, ८९, नोट ।

^५ आल्टिन्डिशे लेवेन, ९५ ।

^७ सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० में एक

^६ ३ ९, ३ ।

१. स्वधिति, ऋग्वेद^१ में बलि किये गये अश्व को काटने के लिये प्रयुक्त 'कुठार' या 'चाकू' का द्योतक है । इस संहिता^२ के सभी अन्य स्थलों पर इससे लकड़ी काटने के लिये प्रयुक्त कुठार का आशय पर्याप्त है । एक स्थल^३ पर सान के पत्थर (क्षणोत्र) पर 'कुठार' के तीक्ष्ण करने का सन्दर्भ मिलता है । अथर्ववेद^४ में यह शब्द एक बार पशुओं के कान पर चिह्न बनाने के लिये प्रयुक्त ताँवे (लोहित)^५ के चाकू का द्योतक प्रतीत होता है । इसी

^१ १ १६२, ९ १८ २० ।

^२ ३ ३९, ७, ३ २, १०, ८, ६ ११, ५
७, ८, ७ ३, ९; ८ १००, १९, १०
८९, ७ । तु० की० नोट ८ ।

^३ २. ३९, ७ ।

^४ ६ १४१, २ । तु० की० मन्त्र ब्राह्मण

१ ८, ७, हिट्ने अथर्ववेद ३८६,
३८७, गेल्डनर वेदिशे स्टूडियन, २,
१५९, जो ऋग्वेद ३ ५३, २२ में
परशु के साथ तुलना करते हैं ।

^५ गेल्डनर . उ० स्था० इस शब्द को 'लाल-
गर्म' के अर्थ में ग्रहण करते हैं ।

ग्रन्थ^६ में बड़ई के चाकू या कुठार का भी दो बार उल्लेख है। बाद में इस शब्द का सामान्य रूप से 'कुठार' अर्थ है।^७ आयुध के रूप में यह कभी भी नहीं आता।^८

^६ १. ४, ६ (सम्भवतः इसी अर्थ में ग्रहण करना चाहिये), १२. ३, ३३, १८. २, ३५ में आशय सर्वथा भिन्न है। देखिये हिटने : ७० पु० ८४५।

^७ तैत्तिरीय संहिता ६. ३, ३, २;

वाजसनेयि संहिता २. १५ (वध करने वाली छुरी), ५ ४३ (वृक्ष काटने के लिये प्रयुक्त कुठार), इत्यादि।

^८ ऋग्वेद १०. ९२, १५ में, 'स्वधिति' से इन्द्र के वज्र का तात्पर्य हो सकता है।

२. स्वधिति, ऋग्वेद^१ के कुछ स्थलों पर सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश के अनुसार कड़ी लकड़ी वाले एक वृक्ष का द्योतक है। यह व्याख्या सम्भाव्य प्रतीत होती है।

^१ ५ ३२, १०; ९ ९६, ६। तु० की० १. ८८, २।

स्वनय-रथ को, लुडविग^२ ने ऋग्वेद^३ में आसङ्ग के व्यक्तिवाचक नाम के रूप में ग्रहण किया है। किन्तु बहुत सम्भवतः यह शब्द केवल एक उपाधि मात्र ही है।

^२ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५९।

| ^३ ८ १, ३०।

स्वनय-भाव्य, ऋग्वेद (१. १२६, १. ३) के अनुसार सिन्धु के उस राजा का नाम है जिसने कद्दीविन्तु को उपहार प्रदान किये थे। शाङ्खायन श्रौत सूत्र (१६. ११, ५) में इसे 'स्वनय भाव्यव्य' कहा गया है।

स्वप्न का ऋग्वेद^४ और बाद^५ में उल्लेख है। दुःस्वप्नों^६ का अक्सर उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के आरण्यकों^७ में अर्थ-सहित स्वप्नों, तथा साथ ही साथ, 'प्रत्यक्ष-दर्शनानि' (आपनी आंखों से देखे गये दृश्यों) की तालिकायें मिलती हैं।

^१ २ २८, १०, १०. १६०, ६।

^२ अथर्ववेद ७ १०१, १, १०. ३, ६, वाजसनेयि संहिता २०. १६, शतपथ ब्राह्मण ३. २, २, २३, इत्यादि।

^३ ऋग्वेद २. २८, १०, अथर्ववेद

१० ३, ६।

^४ ऐतरेय आरण्यक ३ २, ४; शाङ्खायन आरण्यक ११. ३। तु० की० कौशिक सूत्र xlvii ९ और बाद, अथर्ववेद परिशिष्ट lxviii।

स्वर, ऋग्वेद^८ और बाद^९ में 'सूर्य'^{१०} और 'प्रकाश के स्वर्ग' का द्योतक है।

^८ १. ७१, २, १०५, ३, १४८, १ इत्यादि; निरुक्त २ १४।

^९ ऋग्वेद ३. २, ७, ५ ८३, ४, १०. ६६,

४. ९, इत्यादि, अथर्ववेद ४ ११, ६; १४, २, इत्यादि।

स्वर, उपनिषदों^१ में स्वर-वर्णों की ध्वनि का द्योतक है : इन्हें 'घोषवन्त' और 'बलवन्त' कहा गया है ।^२ ऐतरेय^३ और शाङ्खायन^४ आरण्यकों में 'क' से 'म' पर्यन्त वर्णों को स्पर्श^५ कहा गया है, जब कि ऊष्मन् 'श, प, स, ह' का, और स्वर 'अच्' का द्योतक है । यहीं अर्द्धस्वरों को अन्त-स्था^६ अथवा अक्षर^७ कहा गया है । ऐतरेय आरण्यक^८ में घोष, ऊष्मन्, और व्यञ्जन के रूप में एक अन्य विभाजन मिलता है जिनके द्वारा प्रत्यक्षतः स्वर, ऊष्मन् और व्यञ्जनों का तात्पर्य है । इसी आरण्यक^९ में अन्यत्र 'घोष' से 'ध्वनि' का सामान्य आशय व्यक्त होता है । तैत्तिरीय उपनिषद्^{१०} में 'मात्रा'^{११}, 'बल' और उस 'वर्ण' का सन्दर्भ है जिसे अन्यत्र^{१२} भोम् की व्याख्या के अन्तर्गत अ + उ + म के रूप में व्यक्त किया गया है ।

ऐतरेय आरण्यक^{१२} और शाङ्खायन आरण्यक^{१३} ऋग्वेद के पाठ के तीन रूप—प्रतृण्ण, निर्भुज और उभयम्-अन्तरेण—स्वीकार किये गये हैं जो क्रमशः ऋग्वेद के संहिता, पद, और क्रम पाठों के द्योतक हैं ।^{१४} यही आचार्य^{१५} मूर्धन्य और दन्त्य 'न्' और 'स्' के विभेद के महत्व को स्वीकार करते हुये, माण्डूकेयों की उच्चारण-पद्धति का उल्लेख^{१६} करते हैं । यह लोग अक्षरों की 'सन्धि' के सम्बन्ध में भी विमर्श प्रस्तुत करते हैं ।^{१७}

^१ छान्दोग्य उपनिषद् २. २२, ५, तैत्तिरीय उपनिषद् १. २, १ ।

^२ छान्दोग्य उपनिषद् उ० स्था० ।

^३ ३ २, १, इत्यादि ।

^४ ८ १, इत्यादि ।

^५ ऐतरेय आरण्यक ३. २, १ ।

^६ शाङ्खायन आरण्यक ८ १ ।

^७ २. २, ४ ।

^८ २ २, २ । तु० की० कीथ का संस्करण पृ० २१३ ।

^९ उ० स्था० ।

^{१०} ऐतरेय आरण्यक ३ १, ५, शाङ्खायन आरण्यक ७ १३, भी ।

^{११} ऐतरेय ब्राह्मण ५ ३२, २, कौषीतकि ब्राह्मण २६ ५, आश्वलायन श्रौत

सूत्र १०. ४, वेवर • इण्डिशे स्टूडियन ५ ३२ ।

^{१२} ३. १, ३. ५ ।

^{१३} ७ १०, १२ ।

^{१४} मैक्स मूलर • ऋग्वेद प्रातिशाख्य २ और वाद; नास्तरेज, २, औल्डेनबर्ग • प्रोलिगोमेना, ३८० और वाद, से० बु० ई०, ३०, १४६ और वाद, मैक-डौनेल : संस्कृत लिटरेचर, ५१ ।

^{१५} ऐतरेय ३ २, ६, शाङ्खायन ८ ११ ।

^{१६} ऐतरेय ३ १, १, २, ६, शाङ्खायन ७ २, ८ ११ ।

^{१७} ऐतरेय ३ १, २ ३. ५; २, २, शाङ्खायन ७, १३; ८ १ २ ।

अनेक संहिताओं के प्रातिशाख्यों में व्याकरण सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दा-
त्रली का विस्तार से विकास किया गया है, और यास्क के निरुक्त^{१०} में
व्याकरण का विषयवस्तु प्रचुर मात्रा में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण^{११} लिङ्गों
का विभेद करता है और पञ्चविंश ब्राह्मण^{२०} में साम-गायन के शब्दों के
विभाजन दिये गये हैं।

^{१०} देखिये यास्क द्वारा उद्धृत आचार्यों,
मुख्यतः कौत्स और शाकटायन,
आदि की तालिका के लिये रौथ का
संस्करण (१८५०) पृ० २०० ।

^{११} १० ५, १, २, ३ ।

^{२०} १० ९, १, २ ।

तु० की० फॉने थ्रौडर : इन्डियन
लिटरेचरउन्ट कल्चर, ७०१, और वाद।

स्व-राज (राजा) ऋग्वेद^१ और वाद^२ में भक्सर मिलता है। ऐतरेय
ब्राह्मण^३ के अनुसार यह पाश्चात्य राजाओं के लिये प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है।

^१ १. ३६, ७, ५१, १५, ६१, ९, इत्यादि
(देवों के) ।

^२ अथर्ववेद १७ १, २२, तैत्तिरीय संहिता
२ ३, ६, २, ४. ४, ८, १, ५ ५,
४, १, इत्यादि ।

^३ ८ १४। तु० की० सम्भवतः सरकार की
वह गणतन्त्रीय-पद्धति जिसका रिज
डेविड्स. बुद्धिस्ट इन्डिया, १९, ने
बौद्ध साहित्य में चिह्न देखे हैं।

स्वरु, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'खम्भे' अथवा अधिक शुद्ध आशय में
सांस्कारिक कृत्यों में प्रयुक्त 'यूप'^३ के एक खण्ड का द्योतक है।

^१ १ ९०, ५; १६०, ९, ३ ८, ६, इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद ४ २४, ४, १२ १, १३,
इत्यादि ।

^३ ऐतरेय ब्राह्मण २ ३, ८, तैत्तिरीय

संहिता ५ ५, ७, १, ६ ३, ४, ९,
इत्यादि, शतपथ ब्राह्मण ३ ७, १, २२,
८, १, ५, इत्यादि ।

स्वर-जित् नाग्न-जित् (नग्न-जित् का वंशज) शतपथ ब्राह्मण^१ में एक
गन्धार राजा का द्योतक है जिसके संस्कार सम्बन्धी दृष्टिकोणों का उपेक्षात्मक
रूप से उल्लेख किया गया है।

^१ ८ १, ४, १० । तु० की० मूडर : संस्कृत टेक्स्ट्स, १^२, ५१५ ।

स्वर-णर, ऋग्वेद^१ के दो मन्त्रों में किसी यज्ञकर्ता का व्यक्तिवाचक

^१ ८ ३, १२; १२, २ । तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६०;

हॉप किन्स : ज० अ० ओ० सो०, १७, ८९ ।

नाम प्रतीत होता है। गेल्डनर^२ के अनुसार इससे सर्वत्र^३ एक ऐसी विशेष रूप से पवित्र क्षील का तात्पर्य है जिसके चारों ओर सोम-उत्पादन करने वाला क्षेत्र स्थित था।

^१ ऋग्वेद, ग्लॉसर, २०९।

^२ ऋग्वेद ४ २१, ३, ५ १८, ४, १४, १,
८ ६, ३९, ६५, ७, १०३, १४, ९

७०, ६; १० ६५, ४। सम्भवतः ८.
१७, २ में इसका 'स्वर्गर से आने
वाला' अर्थ है।

स्वर्-भानु असुर, ऋग्वेद^३ और वाद^४ में उस दानव का नाम है जिसे सूर्य को ग्रसित करनेवाला माना गया है। देखिये सूर्य।

^१ ५ ४०, ५. ६ ८ ९१,

^२ तैत्तिरीय महिता ७ १, ७, ७, पञ्चविंश
ब्राह्मण ४ ५, ७; ६, १३, ६ ६, ८,

शतपथ ब्राह्मण ५ ३, ७, ७, कौषीतकि
ब्राह्मण २४ ३।

स्व-सर, सेन्ट पीटर्सबर्ग 'कोप के अनुसार 'पशुओं के गोष्ठ'^१, और अपेक्षाकृत अधिक सामान्यरूप से 'आवास-स्थान' अथवा 'गृह'^२, तथा इसके वाद 'पक्षियों के घोंसले'^३ का द्योतक है। फिर भी गेल्डनर^४ यह दिखाते हैं कि इसका वास्तविक आशय पशुओं का 'स्वेच्छ्रया भ्रमण' है जिससे अपेक्षाकृत अधिक ठीक-ठीक उनके 'प्रातःकाल के चरने'^५, और पक्षियों की दशा में उनके 'प्रातःकाल घोंसलों से उड़ने'^६ का तात्पर्य है; जब कि लाक्षणिक रूप से यह प्रातःकाल के सोमसवन, और तदुपरान्त, दिन के तीनों समय के सोम-सवनों के लिये व्यवहृत हुआ है।^७

^१ ऋग्वेद १ ३, ८, २ २, ७, ३४, ८, ५
६२, ७, ८ ८८, १, सामवेद १. ५,
७, ३, ७।

^२ ऋग्वेद १ ३४, ७, ३ ६०, ६, ६१,
४, ६ ६८, १०, ८ ९९, १, शतपथ
ब्राह्मण ४ ३, ५, २०।

^३ ऋग्वेद २ १०, ७, ३४, ५।

^४ वेदिशे स्टूडियन, ७, ११०-११५।

^५ ऋग्वेद १ ३, ८, २ ७, २, ३४, ८, ५.
६७, २, ८ ८८, १।

^६ ऋग्वेद २ १९, ७, ३४, ५।

^७ ऋग्वेद १ ३४, ७, ३ ६०, ६, ६ ६८,
१०, ८ ९९, १। शतपथ ब्राह्मण, ७०
स्था०, यह 'हवि' का समानार्थी है।

स्वस्त, ऋग्वेद और उसके वाद^१ से 'वहन' के लिये नियमित शब्द है। आर्तु शब्द की ही भाँति, 'वहन' शब्द ऐसों के लिये भी व्यवहृत हो सकता

^१ ऋग्वेद ७ ३७, ६, ६ ५५, ४ ५, ८ १०१, १५, १० १०८, ९, इत्यादि।

है जो इस प्रकार से सम्बद्ध नहीं भी है : उदाहरण के लिये ऋग्वेद में उँगलियाँ और ऋतुयें 'बहने' हैं, और रात्रि उस उपा की बहन है जिससे ज्येष्ठ होने के कारण वह उसे प्रकट होने का अवसर प्रदान करती है।^२ परिणाम लोका 'सरमा' को अपनी बहन बनाने के लिये प्रस्तुत हैं;^३ किन्तु यह प्रयोग—भ्रातृ से कितनी दशा में अधिक बार नहीं—सामान्य मनुष्यों के लिये नहीं किया गया है।

बहन का अपने भ्राता के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता था : यदि पिता मृत अथवा अशक्त होता था, तो, जैसा कि ऋग्वेद^४ और ऐतरेय ब्राह्मण^५ से प्रकट होता है, बहन अपने भाई तथा भाभी पर ही निर्भर रहती थी : इसके अतिरिक्त भ्राता-विहीन कन्याओं को अपना विवाह करने में कठिनाई होती थी, जिसके परिणाम-स्वरूप वह भ्रष्ट जीवन व्यतीत करने के लिये विवश हो जाती थीं।^६ किन्तु यह निश्चित नहीं कि जैसा कि तिस्र^७ का विचार है, अनाथ बालिकाओं के विवाह के लिये उनके भ्राताओं का प्रयास आवश्यक होने के कारण ऐसा होता था, अथवा इसलिये कि पुत्र-विहीन पिता द्वारा अपनी पुत्रियों को पुत्रिका बना लेने की सम्भावना के कारण, क्योंकि इस द्वितीय दशा में पुत्रिका-पुत्री का पुत्र अपने पिता का नहीं वरन् नाना का उत्तराधिकारी माना जाता था।^८ देखिये जामि ।

^२ ऋग्वेद १. १२४, ८ । देखिये डेलब्रुक :
डी० व०, ४६३, ऋग्वेद १. ६२, १०;
६४, ७, ७१, १, इत्यादि ।

^३ ऋग्वेद १० १०८, ९ ।

^४ १०. ८५, ४६ । तु० की० ९. ९६, २२ ।

^५ ३. ३७, ५ ।

^६ अथर्ववेद १ १७, १, ऋग्वेद १ १२४,
७, ४ ५, ५, निरुक्त ३ ५ ।

^७ आल्तिन्डिशे लेवेन, ३२८ ।

^८ तु० की० गेल्डनर : ऋग्वेद, कमेंटरी
२२, ४८, ४९ (ऋग्वेद ३. ३१, १,
और बाद) ।

स्त्रीय यजुर्वेद की संहिताओं^९ में विश्वरूप की पैतृकता के वर्णन में 'बहन के पुत्र' के आशय में आता है ।

^९ तैत्तिरीय संहिता २. ५, १, १, मैत्रायणी संहिता २. ४, १ । तु० की० डेलब्रुक :
डी० व०, ४८५ ।

स्वाती—देखिये नक्षत्र ।

स्वाध्याय ब्राह्मणों^१ में वैदिक संहिताओं के अध्ययन का द्योतक है। सूत्रों में इसके सम्बन्ध में विस्तृत नियम मिलते हैं। तु० की० ब्राह्मण ।

^२ शतपथ ब्राह्मण ३ ४, ३, ६, ४ ६, ९, | उपनिषद् १. १२, १, ८, १५, कौपीतिक
६, ११ ५, ६, ३, ७, १ ४ ७, छान्दोग्य | उपनिषद् १ १ ।

स्वायव ('स्वायु' का वंशज) पञ्चविंश ब्राह्मण (८. ६, ८) में कूशाम्ब लातव्य का पैतृक नाम है ।

स्वा-राज्य—देखिये राज्य ।

स्वेद-ज ('पसीने से उत्पन्न', अर्थात् 'ऊष्ण नमी से उत्पन्न') ऐतरेय उपनिषद्^३ में जीवों के एक ऐसे वर्ग का द्योतक है जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार के कीटाणु आ जाते हैं । मानव धर्मशास्त्र^४ में इसकी 'मक्खियों, मच्छरों, खटमलों, इत्यादि, के रूप में व्याख्या की गई है ।

^१ ३ ३, ३ ।

^२ १ ४५ । तु० की० कीथ : ऐतरेय आरण्यक, २३५ ।

स्वेदायन ('स्वेद' का वंशज) ब्राह्मणों^१ में शौनक का पैतृक नाम है ।

^१ शतपथ ब्राह्मण ११ ४, १, २ ३; गोपथ ब्राह्मण १ ३, ६ ।

स्वोपश—देखिये ओपश ।

ह

हंस, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में इसी नाम के एक जल-पक्षी का द्योतक है । इन पक्षियों के पृष्ठभाग को श्यामवर्ण (नीलपृष्ठ)^३ कहा गया है । यह टोलियों में उड़ते हैं,^४ जल में तैरते हैं (उद-प्रुत्),^५ तीव्र ध्वनि करते हैं,^६ और रात में जागते रहते हैं ।^७ यजुर्वेद^८ में हंस को जल से सोम को पृथक् (वाद में

^१ १ ६५, ५, १६३, १०, २ ३४, ५, ३
८, ९, इत्यादि ।

^२ अथर्ववेद ६ १०, १, इत्यादि ।

^३ ऋग्वेद ७ ५९, ७ ।

^४ ऋग्वेद ३ ८, ९ (

^५ ऋग्वेद १ ६५, ५, ३ ४५ ४ ।

^६ ऋग्वेद ६ ५३, १० ।

^७ अथर्ववेद ६. १२, १ ।

^८ काठक संहिता ३८. १, मैत्रायणी संहिता
३ ११, ६, वाजसनेयि संहिता १९.

७४, तैत्तिरीय ब्राह्मण २ ६, २, १ ।

जल से दूध को पृथक्) करने की क्षमता से युक्त बताया गया है । इसका अश्वमेध के एक बलि-प्राणी के रूप में भी उल्लेख है ।^१

^१ तैत्तिरीय संहिता ५. ५, २१, १; मैत्रायणी संहिता ३. १४, ३, वाजसनेयि संहिता २४. २२. ३५ ।
तु० की० तिस्रः : आष्टिन्डिशे

लेबेन, ८९, ९०, लेनमेन : ज० अ० ओ० सो०, १९, १५१, मैकडौनेल : सस्कृत लिटरेचर, १५० ।

हंस-साचि, तैत्तिरीय संहिता^१ में एक अज्ञात पक्षी का नाम है, जिसका अश्वमेध के एक बलि-प्राणी के रूप में उल्लेख है ।

^१ ५. ५, २०, १ । तु० की० तिस्रः : आष्टिन्डिशे लेबेन, ९३ ।

हय, ऋग्वेद^१ और वाद^३ में घोड़े का द्योतक है ।

^१ ५. ४६, १; ७. ७४, ४; ९. १०७, २५ ।
^२ वाजसनेयि संहिता ७. ४७, २२. १९,

इत्यादि । तु० की० तिस्रः : आष्टिन्डिशे लेबेन, २३१ ।

हर-याण, ऋग्वेद^१ में स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति का नाम है, जिसका उद्धरणायन और सुषामन् के साथ-साथ उल्लेख है ।

^१ ८. २८, २२; निरुक्त ५. १५ । तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६२ ।

हरिण, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'मृग' का द्योतक है । यह गति^३ और भय^४ दोनों का प्रतीक है । इसकी सींगों का यंत्रों के रूप में प्रयोग होता था ।^५ इसे भोजन के लिये जौ (यव)^६ अधिक प्रिय था । मैत्रायणी संहिता^७ में ऐसा कथन है कि यह विषधर (स्वज) को मार डालता था । तु० की० कुलङ्ग, न्यङ्कु । हरिणी^८ इसका स्त्रीलिङ्ग रूप है ।

^१ १. १६३, १, ५. ७८, २ ।

^२ अथर्ववेद ६. ६७, ३, इत्यादि ।

^३ अथर्ववेद ३. ७, १ ।

^४ अथर्ववेद ६. ६७, ३ ।

^५ अथर्ववेद ३. ७, १ ।

^६ तैत्तिरीय संहिता ७. ४, १९, २ (हरिणी), वाजसनेयि संहिता २३. २०, मैत्रायणी संहिता ३. १३, १; काठक संहिता,

अश्वमेध, ४. ८ ('हरिणी', भी); तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ९, ७, २ (हरिणी) ।

^७ ३. ९, ३ ।

^८ तैत्तिरीय संहिता ७. ४, १९, २, और देखिये नोट ६. ११

तु० की० तिस्रः : आष्टिन्डिशे लेबेन, ८३, ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त, ३३६, ३३७ ।

१. हरित से 'संहिताधो' के कुछ स्थलों पर 'स्वर्ण' का आशय प्रतीत होता है ।

^१ अथर्ववेद ५ २८, ५ ९; ११ ३, ८; काठक संहिता ८. ५ ।

२. हरित कश्यप का, बृहदारण्यक उपनिषद्^१ के अंतिम वश में शिष्य कश्यप के शिष्य, एक गुरु के रूप में उल्लेख है ।

^१ ६ ४, ३३ (माध्यन्दि = ६. ५, ३ काण्व) ।

हरि-द्रु, शतपथ ब्राह्मण (१३. ८, १, १६) में एक वृक्ष का नाम है ।

हरिमन्, ऋग्वेद^१ और अथर्ववेद^२ में एक व्याधि के रूप में 'पीलेपन' का द्योतक है ।

^१ १ ५०, ११ और बाद .

^२ १ २२, १, ९ ८, ९, १९ ४४, २ ।

तु० की० रिसमर . आस्टिन्डिशे लेवेन,
३७८, ३८८ ।

हरि-यूपीया का ऋग्वेद^१ के एक सूक्त में उस स्थान के रूप में उल्लेख है जहाँ अभ्यावर्तिन चायमन ने वृचीवन्तो को पराजित किया था । यह या तो किसी स्थान, अथवा किसी नदी का द्योतक हो सकता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक युद्ध नदियों के तट पर लड़े गये थे । लुडविग^२ ने इसे यव्यावती के तट पर बसे उस नगर के नाम के रूप में ग्रहण किया है जिसके साथ सायण ने इस स्थल के अपने भाष्य में इसे समीकृत किया है । हिलेब्रान्त^३ का विचार है कि यह क्रुम की सहायक 'हर्याव' (हलियाव) नदी है, किन्तु ऐसा कदापि सम्भव नहीं ।

^१ ६ २७, ५ ।

^२ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५८ ।

^३ वेदिके माइथोलोजी, ३, २६८, नोट १ ।

तु० की० रिसमर . आस्टिन्डिशे
लेवेन, १८, १९; कोपी : ऋग्वेद, नोट
३२८ ।

हरि-वर्ण अज्जिरस (अज्जिरस् का वंशज) पञ्चविंश ब्राह्मण^१ में सामनों के एक द्रष्टा नाम है ।

^१ ८ ९, ४ ५ । तु० की० हॉपकिन्स . द्रा० सा०, १५, ६३ ।

हरि-श्वन्द्र वैधस् ('वैधस्' का वंशज) ऐच्चाक (इच्चाकु का वंशज), ऐतरेय ब्राह्मण (७. १४, २) और शाङ्खायन श्रौत सूत्र (१५. १७) में सम्भवतः उस पौराणिक राजा का नाम है जिसका, घरुण को अपना रोहित

नामक पुत्र समर्पित कर देने का, शीघ्रतापूर्वक किया गया प्रण शुनःशेष की कथा का स्रोत है ।

हर्म्य, वैदिक काल के उस सम्मिलित 'गृह' का द्योतक है जिसके अन्तर्गत गोष्ठादि भी आ जाते थे,^१ और जो एक प्रकार के परकोटे अथवा दीवार से घिरा होता था ।^२ इसका ऋग्वेद^३ और घाद^४ में अनेक धार उल्लेख है । तु० की० गृह ।

^१ ऋग्वेद ७. ५६, १६ । तु० की० १०. १०६, ५ ।

^२ ऋग्वेद ७. ५५, ६ । गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन, २, २७८, नोट २ ने 'हर्म्येष्ठा.' (ऋग्वेद ७. ५६, १६) को महल की छत पर खड़े एक राजा के आश्रय में ग्रहण किया है ।

^३ १. १०१, १ (घर के लोग, 'विश'), १६६, ४, ९. ७१, ४, ७८, ३, १०.

^४ ४३. ३, ७३, १०, इत्यादि । अथर्ववेद १८. ४, ५५ (यम का एक प्रासाद), तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ७, ६, ३, इत्यादि । तु० की० तिसरः आष्टिन्दिशे लेवेन, १४९ ।

हलिच्छण^१ अथवा हलीच्छण^२ का यजुर्वेद की संहिताओं में अश्वमेध के बलि-प्राणियों में से एक के रूप में उल्लेख है । भाष्यकार महीधर^३ का विचार है कि यह एक प्रकार का सिंह था और सायण^४ के अनुसार इससे एक 'चटक पक्षी' अथवा सिंह (तृण-सिंह)^५ का तात्पर्य है । अथर्ववेद^६ में 'हलीच्छण' किसी आँत-विशेष का द्योतक है, किन्तु वेवर^७ के विचार से इसका अर्थ 'पित्त' है ।

^१ मंत्रायणी संहिता ३. १४, १२; वाजसनेयि संहिता २४. ३५ ।

^२ तैत्तिरीय संहिता ५. ५, १२, १, ७, २३, १ ।

^३ वाजसनेयि संहिता, ७० स्था० पर ।

^४ तैत्तिरीय संहिता, ७० स्था०, पर ।

^५ 'तृण-सिंह' बहुत अधिक बोधगम्य नहीं है ।

^६ २. ३३, ३ ।

^७ इन्दिशे स्टूडियन १३, २०६ । तु० की० तिसरः आष्टिन्दिशे लेवेन, ७९ ।

हविर्-धान, प्रमुखतः तो उस गाड़ी का द्योतक है जिस पर रख कर सोम-पौधे को दवाने के लिये ले जाया जाता था,^१ और इसके घाद उस स्थान का जहाँ यह सोम की गाड़ियाँ रक्खी जाती थीं ।^२

^१ तैत्तिरीय संहिता ३. १, ३, १; ६. २, ९, १. ४, इत्यादि ।

^२ तैत्तिरीय संहिता ६. २, ११, १. ४,

इत्यादि । देखिये गृह; तिसरः आष्टिन्दिशे लेवेन, १५४ ।

हविष्-कृत आङ्गिरस (आङ्गिरस् का वंशज), पञ्चविंश ब्राह्मण^१ और तैत्तिरीय संहिता^२ के अनुसार सामनों के एक द्रष्टा का नाम है । निम्न शब्द भी देखिये ।

^१ ११ १०, ९ १०, २० ११, ३ ।

^२ ७ १, ४, १ ।

तु० की० हिलेब्रान्ट • वेदिशे

माश्वीलोजी; २, १६०, हॉपकिन्स :
द्रा० सा० १५, ६२ ।

हविष्मन्त आङ्गिरस का, तैत्तिरीय संहिता^१ और पञ्चविंश ब्राह्मण^२ में हविष्कृत के साथ-साथ सामनों के एक द्रष्टा के रूप में उल्लेख है ।

^१ ७ १, ४, १ ।

| ^२ ११. १०, ९ १०, २० ११, ३ ।

हविस्, देवों को समर्पित करने की हवि का सामान्य नाम है, चाहे यह हवि अन्न की हो, अथवा सोम, दुग्ध, या घृत की । यह शब्द ऋग्वेद^१ तथा उसके बाद^२ से सामान्य रूप से मिलता है ।

^१ १. २४, ११, २६, ६; १७०, ५, इत्यादि । | ^२ अथर्ववेद ३. १०, ५, ६. ५, ३, इत्यादि ।

हस्त—देखिये नक्षत्र ।

हस्त-म्, ऋग्वेद^१ में हस्तस्त्राण अथवा ऐसे कवच का घोटक है जिसे धनुष की प्रत्यङ्गा के क्षटके से बचाने के लिये हाथ और भुजा पर धारण किया जाता था । इस शब्द का रूप उल्लेखनीय तो है किन्तु इसकी व्याख्या नहीं की जा सकी है ।^२ इसके समानार्थी के रूप में लाट्यायन^३ में 'हस्त-त्र', और महाकाव्य में 'हस्तावाप'^४ है ।

^१ ६ ७५, १४, निरुक्त ९. १४ । संहिताओं के समानान्तर पाठों से इसका ऐसा पाठ निश्चित है • तैत्तिरीय संहिता ४ ६, ६, ५, मैत्रायणी संहिता ३. १६, ३, वाजसनेयि संहिता २९ ५२ ।

^२ पिश्ल : वेदिशे स्टूडियन १, २९६;

औलडेनवर्ग ऋग्वेद-नोटेशन, १, ४१६ ।

^३ श्रौतसूत्र ३ १०, ७ ।

^४ हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो०, १३, ३०८ ।

हस्तादान—देखिये पशु ।

हस्तिन् (हस्तयुक्त) ऋग्वेद^१ और अथर्ववेद^२ में मृग (पशु) के साथ

^१ १ ६४, ७, ४ १६, १४ ।

^२ १० १, २५ । अन्यत्र केवल 'हस्तिन्'

का ही प्रयोग है : ३. २०, ३, ४.

३६, ९; ६ ३८, २, ७०, २, १९. १, ३२ ।

‘हाथी’ का द्योतक है। बाद में अकेले ही इस विशेषण का अर्थ ‘हाथी’ है।^३ यह पशु अपनी शक्ति^४ तथा पुरुषत्व^५ के लिये प्रख्यात है। मुख से पकड़नेवाले (मुखादान) पशुओं के विपरीत इसका मनुष्य तथा वन्दरों के साथ-साथ एक ऐसे पशु के रूप में उल्लेख है जो हाथ से पकड़ता है (हस्तादान)।^६ जैसा कि हस्तिप (हाथी का रखवाला) शब्द से प्रकट होता है, यह पाला जाता था, और अन्य हाथियों को पकड़ने के लिये इन पालतू हाथियों का ही प्रयोग होता था (देखिये वारण)। किन्तु युद्ध में इसके प्रयोग का कोई चिह्न नहीं है, यद्यपि अपने-अपने समयों के लिये क्लैसियस और मेगास्थनीज़ दोनों ने ही इस प्रकार के प्रयोग का उल्लेख किया है।^७ अथर्ववेद^८ में हाथियों के शरीर पर मच्छरों के लगे होने का सन्दर्भ है।

^३ तैत्तिरीय संहिता ५. ५, ११, १; मैत्रायणी संहिता ३. १४, ८, वाजसनेयि संहिता २४. २९; पञ्चविंश ब्राह्मण ६. ८, ८, २३. १३, २; ऐतरेय ब्राह्मण ४. १, १४, ५. ३१, २, ६ २७, २; शतपथ ब्राह्मण ३. १, ३, ४, इत्यादि; छान्दोग्य उपनिषद् ७. २४, २ (स्वर्ण के साथ सयुक्त), इत्यादि, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण ३. २२, १।

१. ३।

^५ अथर्ववेद ३. २२, ६, ६ ७०, २।

^६ तैत्तिरीय संहिता ६. ४, ५, ७, मैत्रायणी संहिता ४. ५, ७।

^७ फॉन श्रोडर : इन्डियन लिटरेचर उन्ट-कल्चर, ४३४।

^८ अथर्ववेद ४. ३६, ९।

तु० की० तिसमर . आल्टिन्डिशे

लेवेन, ८०।

^४ ऋग्वेद ७० स्था०; अथर्ववेद २. २२,

हस्ति-प (हाथी का रखवाला) का यजुर्वेद^९ में पुरुषमेध के एक वलि-प्राणी के रूप में उल्लेख है।

^९ वाजसनेयि संहिता ३०. ११; तैत्तिरीय संहिता ३. ४, ९, १।

हस्ता, ऋग्वेद^१ में पिशल^२ के अनुशार ‘नर्तकी’ का द्योतक है।

^१ १. १२४, ७।

| ^२ वेदिशे स्टूडियन, १, १९६, ३०८।

हायन, सामान्यतया यौगिक रूप से ‘वर्ष’ का द्योतक है।^१ काठक संहिता^२ और शतपथ ब्राह्मण^३ में यह शब्द लाल चावल के वाचक के रूप में

^१ अथर्ववेद ८. २, २१; ‘शत-हायन’, ८. २, ८, ७, २२, ‘हायनी’, १२. १, ३६ (सम्भवतः अष्ट)।

^३ ५. ३, ३, ६, (तैत्तिरीय संहिता १. ८, १०, १. में इसके स्थल पर ‘महान्-व्रीहि’ है)।

^२ १५ ५।

आता है। 'वर्ष पर्यन्त' अथवा 'प्रति वर्ष होनेवाला' आशय में यह विशेषण के रूप में अथर्ववेद^४ में 'ज्वर' के लिये व्यवहृत हुआ है।

^४ १९, ३९, १०।

तु० की० श्रेडर . प्रिहिस्टोरिक ऐन्टीकित्सीज, ३०१।

हारिकर्णी-पुत्र ('हरिकर्ण' के एक स्त्री-वंशज का पुत्र) माध्यंदिन शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद् (६. ४, ३०) के अन्तिम वंश में भारद्वाजी-पुत्र के शिष्य, एक गुरु का नाम है।

हारिद्रव, ऋग्वेद^१ में एक पीत-वर्ण पत्नी, सम्भवतः जलीय 'गोपीतनक'^२ का नाम है। गेरडनर^३ ने यूनानी 'खाराड्रिओस' (Χαραδριος) की तुलना की है।

^१ १ ५०, १२, ८ ३५, ७।

^२ ऋग्वेद १ ५०, १२, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ७, ६, २, पर सायण इसे एक पीथे का नाम मानते हैं (तु० का० रिसमर आस्ट्रिन्डिशे लेवेन, ६०)। किन्तु अथर्ववेद १ २०, ४, पर वह इसे

'गोपीतनक' के रूप में ग्रहण करते हैं।
^३ ऋग्वेद, ग्लॉसर २१३।

तु० की० ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त, २६४, नोट १, २६६, विहट्टने : अथर्ववेद का अनुवाद, २३।

हारिद्रविक, निरुक्त^१ में उल्लिखित हारिद्रविन् की एक कृति का नाम है।

^१ ९ ५। देखिये रौथ : निरुक्त xxiii, फॉन श्रोडर : मैत्रायणी संहिता १, xiii।

हारि-द्रुमत ('हरिद्रुमन्त्' का वंशज) छान्दोग्य उपनिषद् (४. ४, ३) में गौतम का पौत्र का नाम है।

हालिङ्गव ('हलिङ्गु' का वंशज) शतपथ ब्राह्मण (१०. ४, ५, १) में एक आचार्य का नाम है।

हिता, ब्राह्मणों^१ में कुछ 'धमनियों' का नाम है। तु० की० हिरा।

^१ बृहदारण्यक उपनिषद् २ १, २१, ४ २, ४, ३, २०, कौपीतिक उपनिषद् ४. १९।

हिम, जो कि 'शीत', 'शीतऋतु' का द्योतक है, ऋग्वेद^१ में तो सामान्य रूप से, किन्तु वाद^२ में कभी-कभी ही मिलता है। 'हिम' (वर्षा) के अर्थ

^१ १. ११६, ८, ११९, ६; ८. ३२, २६, इत्यादि।

^२ अथर्ववेद ७ १८, २, १३ १, ४६, १९।

४९, ५ (शीतलता की माता के रूप में रात्रि) इत्यादि।

में यह तैत्तिरीय ब्राह्मण^३ में पुच्छिङ्ग में, और वाद में अक्सर छीव^४ में आता है। तु० की० हेमन्त ।

^३ ३. १२, ७, २ ।

^४ षड्विंश ब्राह्मण ६ ९, इत्यादि ।

तु० की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे
माइथौलोजी, ३, १९२-१९५ ।

हिमवन्त्, अथर्ववेद^१ में पर्वतों की उपाधि के रूप में आता है। इस ग्रन्थ^२ तथा ऋग्वेद,^३ और वाद^४ में भी, यह इसी अर्थ में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस तथ्य को अस्वीकृत करने के लिये कोई आधार प्रतीत नहीं होता कि इस शब्द से प्रायः सभी स्थलों पर उसी पर्वत-माला का तात्पर्य है जिसे आज हिमालय कहते हैं, यद्यपि यह सम्भव है कि इस नाम के अन्तर्गत ऐसे पर्वत, जैसे सुलेमान की पहाड़ादिया,^५ भी सम्मिलित रही हों जो हिमालय पर्वत-माला के अन्तर्गत नहीं आतीं। देखिये मूजवन्त् और त्रिककुम् भी ।

^१ १० १, ११ ।

^२ ६ ९५, ३। देखिये ४ ९, ९, ५ ४, ७ ८, ७५, ७, ६ ७४, १, (जहाँ हिमालय की नदियों का सन्दर्भ है); १९ ३९, १, भी ।

^३ १० १२१, ४ ।

^४ तैत्तिरीय संहिता ५ ५, ११, १, वाजसनेयि संहिता २४. ३०, २५ १०, ऐतरेय ब्राह्मण ८ १४, ३ (उत्तर

कुरु और उत्तर मद्र लोग इसके उस पार, सम्भवतः काश्मीर में, रहते थे), इत्यादि ।

^५ लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १९८ ।

तु० की० तिसमर । आस्टिन्डिशे लेबेन, २९, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १८, १२, जो इसमें कावेगस पर्वत की मृत्ति देखना चाहते हैं ।

हिमा, ऋग्वेद^१ और अन्यत्र^२, 'शत-शीत' ऋतुओं को व्यक्त करनेवाले यौगिक शब्द में 'शीत-ऋतु' का द्योतक है ।

^१ १ ६४, १४, २. ३३, २, ५. ५४, १५, १ ६ ४८, ८ ।

तैत्तिरीय संहिता १. ६, ६, ३; वाजसनेयि संहिता २. २७ ।

^२ अथर्ववेद २. २८, ४, १२ २, २८; |

हिरणिन् (स्वर्ण से सम्पन्न) ऋग्वेद^१ के एक मन्त्र में प्रत्यक्षतः त्रसदस्यु की उपाधि है, जहाँ राजा के स्वर्ण-परिधानों, अथवा स्वर्ण-सम्पत्तियों का सन्दर्भ है। फिर भी, लुडविग^२ के विचार से, यह शब्द सम्भवतः त्रसदस्यु का व्यक्तिवाचक नाम है ।

^१ ५ ५३, ८ ।

| ^२ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५५ ।

हिरणिन, ऋग्वेद^१ के एक स्थान पर मिलता है, जहाँ लुडविग^२ ने इसे शाण्ड के नाम के रूप में ग्रहण किया है। किन्तु यह 'हिरणिन्' का एक विशेषणात्मक रूप प्रतीत होता है।

^१ ६ ६३ ९।

| ^२ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५८।

हिरण्य ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'स्वर्ण' का द्योतक है। वैदिक भारतीयों द्वारा स्वर्ण को प्रदान किये गये महत्त्व के तथ्य को अतिरंजित करना कदाचित ही सम्भव है। यह स्पष्ट है कि यह धातु नदियों की घाटियों से निकाली जाती थी। इसीलिये सिन्धु को 'स्वर्णमय'^३ और 'स्वर्ण-धारा'^४ कहा गया है। प्रगल्भत भूमि के गर्भ से स्वर्ण निकालना ज्ञात था,^५ और स्वर्ण की धुलाई का भी उल्लेख है।^६

स्वर्ण वैदिक-गायकों की आकांक्षा का विषय था,^७ और उदार दाताओं^८ द्वारा गायों तथा अश्वों के साथ-साथ स्वर्णादि (हिरण्यानि) के भी दान का उल्लेख है। गले और वक्ष के आभूषणों (निष्क), कान की वालियों (कर्ण-शोभन), तथा यहाँ तक कि प्यालों के लिये भी, स्वर्ण का प्रयोग होता था।^९ स्वर्ण को सदैव देवों के साथ सम्बद्ध किया गया है।^{१०}

बहुवचन में 'हिरण्य' शब्द 'स्वर्ण के आभूषणों' का द्योतक है।^{११}

स्वर्ण-मुद्रा के ज्ञान का भी आरम्भ हो चला था, जैसा कि स्वर्ण की निश्चित तौलों के उल्लेखों से पता चलता है : इस प्रकार एक तौल, 'अष्टा-

^१ १ ४३, ५, ३ ३८, ९, ४ १०, ६, १७, ११, इत्यादि।

^२ अथर्ववेद १ ९, २; २ ३६, ७, ५ २८, ६, ६ ३८, २, इत्यादि।

^३ ऋग्वेद १० ७५, ८।

^४ ऋग्वेद ६ ६१, ७, ८ २६, १८।

^५ ऋग्वेद १ ११७, ५, अथर्ववेद १२, १, ६. २६ ४४।

^६ तैत्तिरीय संहिता ६ १, ७, १, शतपथ ब्राह्मण २. १, १, ५।

^७ ऋग्वेद ६ ८७, २३, ८ ७८, ९, पिशल और गेल्डनर . वेदिशे स्टूडियन, १, xxiv।

^८ तु० की० एक व्यक्तिवाचक नाम के रूप

में हिरण्यस्तूप।

^९ तैत्तिरीय संहिता ५ ७, १, ३, तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ३, ३, ७, शतपथ ब्राह्मण ५ १, २, १९: ५, २८।

^{१०} जो कुछ भी इनमें सम्बद्ध है वह स्वर्ण का ही बना हुआ है, सूर्य के अश्व 'हिरण्य-त्वचस्' (अथर्ववेद १३ २, ८) है, इत्यादि।

^{११} ऋग्वेद १ १२०, २, १६२, १६, २. ३३, ९, ५ ६०, ४, अथर्ववेद ४. १०, ६, वाजसनेयि संहिता १५ ५०, २० ३७, एक वचन में भी, अथर्ववेद १ ३५, १; १३ ४, ५६।

मूड', संहिताओं^{१२} में आता है, और स्वर्ण 'शतमान' (एक सौ कृष्णालों की तौल के बराबर) भी इन्हीं ग्रन्थों^{१३} में मिलता है। इसके अतिरिक्त, अनेक स्थलों^{१४} पर 'हिरण्य' अथवा 'हिरण्यानि' से 'स्वर्ण के टुकड़ों' का तात्पर्य हो सकता है।

स्वर्ण को कभी 'हरित'^{१५}, और कभी-कभी जब 'चाँदी' उद्दिष्ट है तो 'रजत'^{१६} कहा गया है। इसे धमन द्वारा बच्ची धालु से प्राप्त किया जाता था।^{१७} मेगास्थनीज़^{१८} ने अपने समय में भारत में स्वर्ण की प्रचुरता का उल्लेख किया है।

^{१२} तैत्तिरीय संहिता ३ ४, १, ४, काठक संहिता ११. १, १३ १०, फॉन श्रोडर. स्ती० ने०, ४९, १६४।

^{१३} शतपथ ब्राह्मण ५ ५, ५, १६; १२. ७, २, १३, ९, १, ४। तु० की० १३. १, १, ४, २, ३, २, ४, १, १३, २. ७, १३, १४ ३, १, ३०; तैत्तिरीय संहिता २ ३, ११, ५; काठक संहिता ८. ५, २२ ८, वेवर : इन्डिशे स्ट्रॉफेन, १, १०१। गेरडनर . वेदिशे स्ट्रुडियन, १, २६८ यह विचार रखते हैं कि ऋग्वेद में अस्पष्ट रूप से प्रयुक्त 'सहस्र', आदि शब्दों से स्वर्ण के तौल की एक इकाई का ही सन्दर्भ है। देखिये ८. १, १३, ६५, १२, १०. ९५, ३, इत्यादि।

^{१४} तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ४, - ७, ४, ३. ८, २, २; शतपथ ब्राह्मण १२. ७, १, ७,

१३. ४, १, ६, इत्यादि।

^{१५} काठक संहिता १० ४, शतपथ ब्राह्मण १२. ४, ४, ६, षड्विंश ब्राह्मण २ ९।

^{१६} तैत्तिरीय संहिता १. ५, १, २; शतपथ ब्राह्मण १२. ४, ४, ७, १३ ४, २, १०, इत्यादि।

^{१७} शतपथ ब्राह्मण ६ १, ३, ५। तु० की० २. २, ३, २८; १० ४, ३, १, षड्विंश ब्राह्मण १७ ६, ४ (निष्-टप्), जैमिनीय ब्राह्मण १ १० (ज० अ० ओ० सो०, १६, २३४, ccxliii), लाट्यायन श्रौतसूत्र ३ १, ९, इत्यादि, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण ३. ३४, ६।

^{१८} देखिये डियोडोरस सिक्कूलस, २, ३६, स्ट्रावो, पृ० ७०३, ७११।

तु० की० तिसर : आल्टिन्डिशे लेवेन, ४९-५१, मैकडौनेल : सस्कृत लिटरेचर, १५१।

हिरण्य-कशिपु, ब्राह्मणों^१ में एक 'स्वर्णिम भासन' का द्योतक है जो स्वर्ण-जड़ित वस्त्र से ढका होता था।

^१ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ९, २०, १, ऐतरेय ब्राह्मण ७ १८, १२। तु० की० 'एक स्वर्णिम वस्त्र से युक्त', के आशय में

एक विशेषण के रूप में यह शब्द . अथर्ववेद ५ ७, १०।

हिरण्य-कार का यजुर्वेद^१ में पुस्तपमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में उल्लेख है ।

^१ वाजसनेयि संहिता ३०. १७, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, १४, १ ।

हिरण्य-दन्त वैद ('वेद' का वंशज) ऐतरेय ब्राह्मण (३. ६, ३) और ऐतरेय आरण्यक (२. १, ५) में एक आचार्य का नाम है । यह नाम सम्भवतः दाँतों के खोखलों में स्वर्ण भरने की प्रथा का भी संकेत करता है; देखिये दन्त ।

हिरण्य-नाभ उस कौसल्य अथवा कोसल राजा का नाम है जिसके अश्वमेध का शाङ्खायन श्रौतसूत्र (१६. ९, १३) में उल्लेख प्रतीत होता है । प्रश्न उपनिषद् (६. १) में भी इसका उल्लेख है और यह पर आट्णार से सम्बद्ध रहा हो सकता है । तु० की० हिरण्य-नाभ ।

हिरण्य-स्तूप, ऋग्वेद^१ और शतपथ ब्राह्मण^२ में एक मनुष्य का नाम है । ऐतरेय ब्राह्मण^३ में इसे एक आङ्गिरस कहा गया है और यहीं इसे ऋग्वेद के एक सूक्त^४ के प्रणयन का श्रेय दिया गया है । अनुक्रमणी में इसको अनेक अन्य सूक्तों^५ का द्रष्टा बताया गया है ।

^१ १० १४९, ५ ।

^२ १ ६, ४, २ ।

^३ ३ २४, ११ ।

^४ १ ३२ ।

^५ २ ३१-३५, ९ ४ ६९ । तु० की०

लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३,

१०४, १४१ ।

हिरण्य-हस्त, ऋग्वेद^१ में अश्विनों द्वारा वश्रिमती (जो, जैसा कि इसके नाम से व्यक्त होता है, एक नपुंसक की पत्नी थी) को प्रदत्त एक पुत्र का नाम है ।

^१ १. ११६, १३, ११७, २४, ६ ६२, ७,

१० ३९, ७ । १०. ६५, १२ में इसे

श्याच कहा गया प्रतीत होता है ।

तु० की० मैकडौनेल वैदिक

माइथोलोजी, पृ० ५२ ।

हिरा, अथर्ववेद^१ में, हिता की ही भाँति, 'धमनी' का द्योतक है ।

^१ १ ७, १, ७ ३५, २; वाजसनेयि संहिता २५ ८ । तु० की० वेवर :

ओभिना उन्ट पोर्टेन्टा, ३४६ ।

हृत्स्व-आशय आह्नकेय का, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३. ४०, २) के एक वंश में, सोमशुष्म सात्ययज्ञि प्राचीनयोग्य के शिष्य के रूप में उल्लेख है ।

हृदयामय (हृदय की व्याधि) का अथर्ववेद में यक्ष्म^१ के सन्दर्भ में और बलास^२ के साथ उल्लेख है । तिसर^३, जो कि बलास को यक्ष्मा मानते हैं, इस नाम को आयुर्वेद-संहिताओं^४ के इस दृष्टिकोण के साथ सम्बद्ध करते हैं कि प्रेम इस व्याधि के कारणों में से एक है । किन्तु इससे हृदय को ग्रसित करने वाली व्याधि का तात्पर्य मानना अधिक स्वाभाविक होगा ।

^१ ५ ३०, ९ ।

^२ ६ १४, १; १२७, ३ ।

^३ आस्टिन्डिशे लेवेन, ३८७ ।

^४ वाइज : हिन्दू सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ३२१, ३२२ ।

हृद्-द्योत^१ (हृद्-द्योत के लिये) और हृद्-रोग^२ का क्रमशः अथर्ववेद और ऋग्वेद में उल्लेख है । तिसर^३ अथर्ववेद में इस व्याधि को हृदयामय (प्रेम द्वारा उत्पन्न यक्ष्मा) के साथ समीकृत करते हैं । ऋग्वेद में ऐसा कदापि सम्भव नहीं : वाद में आयुर्वेद संहिताओं में यह शब्द सम्भवतः angina pectoris का^४ द्योतक है ।

^१ अथर्ववेद १. २२, १ । तु० की० ६.

२४, १ ।

^२ ऋग्वेद १. ५०, ११ ।

^३ आस्टिन्डिशे लेवेन, ३८८ ।

^४ वाइज : हिन्दू सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ३२१ ।

हेमन् (केवल एक वचन सप्तमी में प्रयुक्त) वाद की संहिताओं और ब्राह्मणों में 'शीत-ऋतु' का द्योतक है ।^१

^१ तैत्तिरीय संहिता ७. ६, १, १; काठक संहिता ३६. ६, तैत्तिरीय ब्राह्मण १.

४, १०, १०, शतपथ ब्राह्मण १ ५, ४, ५, ११. २, ७, ३२ ।

हेमन्त, ऋग्वेद^१ में तो केवल एक वार किन्तु वाद के ग्रन्थों^२ में अक्सर आता है । तिसर^३ ऋग्वेद में ऋतुओं के विभेद का चिह्न देखना चाहते हैं : आपका विचार है कि कुछ सूक्त^४, जो हेमन्त की उपेक्षा करते हुये वर्षा पर जोर देते हैं, उन सूक्तों की अपेक्षा उत्पत्ति की दृष्टि से एक भिन्न स्थान और समय का संकेत करते हैं, जिनमें हिमाच्छादित पर्वतों^५ का सन्दर्भ है । फिर

^१ १० १६१, ४ ।

^२ अथर्ववेद ६ ५५, २, ८ २, २२, १०

१, ३६, तैत्तिरीय संहिता ५ ७, २,

४, वाजसनेयि संहिता १३ ५८,

पञ्चविंश ब्राह्मण २१ १५, २, तैत्तिरीय

ब्राह्मण १ ४, १०, १०, शतपथ ब्राह्मण

३६ वै० ३० द्वि०

१० ४, ५, २, इत्यादि ।

^३ आस्टिन्डिशे लेवेन, ४० ।

^४ ऋग्वेद ७. १०३, १० ९० ।

^५ ऋग्वेद १० ६८, १०, १२१, ४ (यह द्रोनों ही प्राय सूक्त नहीं हैं) ।

भी, ऋग्वेद के विभिन्न अंशों को हम प्रकार पृथक् करना सर्वथा अमम्भव है। ऐसा सम्भव है कि यह संहिता प्रमुखतः वाद में मध्यदेश के नाम से प्रचलित स्थान के व्यक्तियों की कृति हो; और इस प्रकार शीत और हिम के सन्दर्भ कालात्मक की अपेक्षा स्थानीय अंतर के ही चिह्न रहे होंगे। यह तीन ऋतुओं के, वाद के चार के रूप में उस विभाजन के विपरीत है, जो स्पष्टतः भारतीयों की आरम्भिक प्रगति को व्यक्त करता है (देखिये ऋतु)।

शतपथ ब्राह्मण^६ में हेमन्त का उस समय के रूप में वर्णन है जय पीधे ग्लान होने लगते हैं, वृत्तों से पत्तियाँ गिरने लगती हैं, पक्षी नीचे उड़ते और अपेक्षाकृत अधिकाधिक मात्रा में गरम प्रदेशों को चले जाते हैं।

^६ १ ५, ४, ५।

हैत-नामन ('हितनामन्' का वंशज) उस आचार्य का पैतृक नाम है जिसे मैत्रायणी संहिता^१ में प्रत्यक्षतः 'आहत' कहा गया है, यद्यपि यह मन्त्र कुछ विचित्र ही है।

^१ ३ ४, ६। पाणिनि ६ ४, १७०, पर वार्तिक, और फॉन थोडर 'मैत्रायणी संहिता २, 1२।

हैरण्य-नाम (हिरण्यनाम का वंशज) शतपथ ब्राह्मण (१३. ५, ४, ४) में आने वाली एक गाथा में कोशल के राजा पर आट्णार का पैतृक नाम है।

होतृ वैदिक संस्कारों के ऋत्विजों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्राचीनतम ऋत्विज का नाम है, जो कि अवेस्ता-पैरोहित्य के 'जाओटर' का प्रतिरूप है।^१ इस शब्द को 'हु' (यज्ञ) से व्युत्पन्न मानना चाहिये, जैसा कि आर्णवाम का भी मत था,^२ यह उस समय की ओर संकेत करता है जय होतृ एक साथ ही यज्ञकर्ता (वाद का 'अध्वर्यु') और गायक दोनों ही होता था। किन्तु इसके कर्त्तव्यों का ऋग्वेद तक में स्पष्ट विभाजन मिलता है, जहाँ होतृ का प्रमुख कार्य शस्त्रों का गायन बताया गया है। अपेक्षाकृत प्राचीन समय में यह राजा का पुरोहित भी था, जिस पद पर वाद में ब्रह्मन् प्रतिष्ठित हो गया।

^१ ऋग्वेद १ १, १, १४, ११, १३९, १०, इत्यादि।
 इत्यादि, होत्र (होतृ का पद),
 ऋग्वेद २ १, २, ३६, १, ३७, १, |
^२ निरुक्त ४ २६। तु० की० औल्डेनवर्गः
 रिलीजन देस वेद, ३८० और वाद।

होत्र, ऐतरेय ब्राह्मण^१ में होत् के सहायक पुरोहित का द्योतक है ।

^१ ३६, ५, ६, ६, २ । सूत्रों में इसका विभिन्न प्रयोग मिलता है—कभी इस आशय में, कभी अधिक विस्तृत—जिससे चार प्रमुख पुरोहितों के

अतिरिक्त अन्य सब इसके अन्तर्गत आ जाते हैं (तु० की० आश्वलायन श्रौतसूत्र ५. ६, १७) ॥

ह्यस्, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'विगत कल' का द्योतक है ।

^१ ८ ६६, ७, ९९, १, १० ५५, ५ । | ^२ पञ्चविंश ब्राह्मण ११. ९, ३ ।

हृद ऋग्वेद^१ और घाद^२ में 'क्षील' अथवा 'तालाघ' का द्योतक है ।

^१ १ ५०, ७, ३ ३६, ८, ४५, ३; १०. ४३, ७; ७१, ७, १०२, ४, १४२, ८, इत्यादि ।
^२ अथर्ववेद ४ १५, ४, ६. ३७, २,

पञ्चविंश ब्राह्मण २५ १०, १८, शतपथ ब्राह्मण ४. १, ५, १२, ४, ५, १०; ११ ५, ५, ८ ईश्यादि ।

हृदे-चक्षुस, ऋग्वेद^१ के एक स्थल पर जैक्सन^२ के विचार से 'दम्भी की इच्छा' का द्योतक है ।

^१ १० ९५, ६ । | ^२ प्रो० सो०, मई १८९०, iv ।

हस्त्र माण्डूकेय ('मण्डूक' का वंशज) ऐतरेय आरण्यक^१ में एक आचार्य का नाम है ।

^१ ३ १, ५, ०, १ ६ । तु० की० वेवर इन्डिओ स्टूडियन १, ३९१ । व्यक्तिगत विशिष्टताओं को व्यक्त करनेवाले के

रूप में स्थविर के प्रयोग के ही समान इस शब्द को व्यक्तिवाचक नाम मानना चाहिये ।

हाडुनि, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में 'वज्रपात' का द्योतक है ।

^१ १ ३२, १३, ५, ५४, ३ ।
^२ तैत्तिरीय संहिता ७ ४, १३, १, वाज

सनेयि संहिता २२. २६, २६ ९, इत्यादि ।

हूड एक अज्ञात आशय वाला शब्द है जो अथर्ववेद^१ में तवमन् के लिये व्यवहृत हुआ है । पाण्डुलिपियों में इसका 'हुड', 'हूड', 'रूड', इत्यादि के रूप विभिन्न प्रकार का अक्षर-विन्यास मिलता है; पैपलाद शाखा में 'हुड' (मेप) पाठ है । हेनरी^२ ने यह अनुमान किया है कि यह शब्द प्रोटो-

^१ १ २५, २ ३ ।

^२ जर्नल एशियाटिके, नवीं सिरीज़, १०, ५१३ ।

सेमिटिक 'हरुडु' ('स्वर्ण', असीरियन 'हरशु' और हिब्रू 'हरुशु') के समतुल्य है, जब कि हलेवी^३ का विचार है कि यह यूनानी 'Χλωρος' ('खलोरोस') हो सकता है; यह दोनों ही अनुमान अत्यन्त असम्भाव्य हैं।^४ वेवर^५ के विचार से इसका अर्थ 'संकुचित' है।

^३ वहाँ ११, ३० और वाट।

^४ मैकटौनेल : ज० ए० सो० १९०७,
११०६।

^५ इन्टिशे स्टूडियन्, ४, ४२०।

तु० की० बिह्टने : अथर्ववेद का
अनुवाद, २६, पर लैनमैन,
ब्लूमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त, २७३।

हरस् ऋग्वेद^१ के तीन स्थलों पर रीथ^२ के अनुसार सोम-छनने के एक भाग, सम्भवतः उसका द्योतक है जिससे छन कर सोम रस बहता था। किन्तु गेदडनर^३ का विचार है कि इन सभी स्थलों पर इससे केवल 'अवरोध' का ही आशय है।

^१ ९. ३, ७, ६३, ४, १०६, १३।

^२ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था० १,
त्सिमर . आल्टिन्टिशे लेवेन, २७८,

नोट, हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी,
१, २०३।

^३ वेदिशे माइथौलोजी, २, २०।



परिशिष्ट

अङ्गुलि का शतपथ ब्राह्मण^१ में 'सबसे लघु नाप' के रूप में उल्लेख है ।

^१ १० २, १, २ । देखिये फ्लोड : ज० प० सो०, १९१०, २३१ ।

अनस्—सूत्रों^१ में गाघी (अनस्) के एक भाग को 'गाघा' कहा गया है, जिमका गाघे^२ के मतानुसार 'छत' अर्थ है ।

^१ वीधायन श्रौतसूत्र १३ ३८, आपस्तम्ब श्रौतसूत्र, १९ २६, ४ । तु० की०

'त्रि-गघ', वही, १९ २६, २ ।

^२ आपस्तम्ब का सस्करण, ३, ३५६ ।

अरणी, ऋग्वेद^१ और वाद^२ में लकड़ी के उन दो टुकड़ों का नाम है जिनके परस्पर मन्थन द्वारा यज्ञाग्नि उत्पन्न की जाती थी । ऊपरी (उत्तरा) और निचली (अधरा) लकड़ियों का विभेद किया गया है ।^३ बर्मे के आकार की ऊपरी लकड़ी अश्वत्थ^४ की कड़ी लकड़ी से, और पटरे के रूप में निचली शमी^५ की नरम लकड़ी की बनी होती थी । ऊपरी लकड़ी को शक्तिपूर्वक (सहसा)^६ हाथों द्वारा (बाहु-भ्याम्)^७ रस्सियों (रसनाभिः)^८ के माध्यम से आगे-पीछे मथा जाता था । इसमें सन्देह नहीं कि यह क्रिया वैसी ही थी जैसी कि आज भी भारत में दूध से मक्खन पृथक करने के लिये व्यवहृत

^१ १ १०७, ४, १२९, ५, ३ २९, २; ५

९, ३, ७. १, १, १० १८४, ३ ।

^२ अथर्ववेद १० ८, २०, शतपथ ब्राह्मण

३ १, १, ११, ४ ६, ८, ३, १० ४,

३, ३ १०; काठक उपनिषद् ४ ७,

श्वेताश्वतर उपनिषद् १. १४ १५,

आश्वलायन गृह्यसूत्र ४ ६ ।

^३ शतपथ ब्राह्मण ३ ४, १, २२, ११ ५,

१, १५, कात्यायन श्रौतसूत्र, ५. १,

३०, इत्यादि ।

^४ अथर्ववेद ६; ११, ३; शतपथ ब्राह्मण

११. ५, १, १३, कात्यायन श्रौतसूत्र

४. ७, २० ।

^५ अथर्ववेद ६. ११, १, ३०, २. ३;

तैत्तिरीय ब्राह्मण १ १, ३, ११ और

वाद ।

^६ ऋग्वेद ६ ४८, ५ ।

^७ ऐतरेय ब्राह्मण ३ ४, ७ । तु० की०

ऋग्वेद १० ७, ५ ।

^८ तु० की० ऋग्वेद १०. ४, ६ । देखिये

मैकडौनेल : वैदिक माइथोलॉजी,

पृ० ९१ ।

होती है, और इन दोनों ही पद्धतियों के लिये एक ही क्रिया, 'मथ्' का व्यवहार किया गया है। यज्ञाग्नि उत्पन्न करने की यह क्रिया भारत में आज भी प्रचलित है। आधुनिक उपकरण के नमूने इण्डियन इन्स्टीट्यूट और पिट-रिवर्स म्यूज़ियम, आक्सफोर्ड, में देखे जा सकते हैं।

^१ अग्नि : ऋग्वेद ६. १५, १७, ४८, ५, १०, २, शतपथ ब्राह्मण ५. ३, २, ६, इत्यादि। मक्खन : 'दुग्ध मथितम् कात्यायन श्रौतसूत्र, ५ ८, १८।
आज्य भवति', तैत्तिरीय संहिता २. २,

अरत्नि—वैधायन^१ के शुक्लसूत्र के अनुसार यह नाप २४ अंगुलियों के बराबर होता था। शतपथ ब्राह्मण^२ में भी नाप के रूप में २४ अंगुलियों का उल्लेख तो है, किन्तु 'अरत्नि'^३ के सन्दर्भ के बिना ही।

^१ फ्लोट ज० ए० सो० १९१०, २३१, ३०० की० एनिल्लः से० दु० ई०, ४३, नोट २।
^२ १० २, १, ३।
^३ ३००, नोट ३।

अर्क (*Calotropis gigantea*) का शतपथ ब्राह्मण (९. १, १, ४. १; पत्ते : 'अर्क पर्ण', ४२, 'अर्क-पलास', १. २, ३, १२. १३) में अक्सर उल्लेख है।

आधान, यजुर्वेद संहिताओं^१ में 'वल्गा', और विशेषतः वल्गा के उस भाग का द्योतक है जो घोड़े के मुख में लगाया जाता है।

^१ तैत्तिरीय संहिता ६ ५, ९, २ ३, काठक ७, ४, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ६, ३, १०।
संहिता २८ ९; मैत्रायणी संहिता ४

इतिहास—वैदिक इतिहास की प्रकृति की समस्या पर कीथ : ज० ए० सो०, १९११, ९७९-९९५, १९१२, ४२९-४३८; तथा औल्डेनवर्ग : न० गो०, १९११, ४४१-४६८, ने और अधिक विचार प्रस्तुत किये हैं।

ऐद्वक्—'वाग्नि' के स्थान पर 'वाग्ण' पढ़ें।
कक्ष, १, १३६, को १, १४५ के कक्ष के पहले और कंस ('धातु के वर्तन' या 'पात्र') के बाद, २. कंस होना चाहिये, और उस कंस को अब ? कंस मानना चाहिये।

कम्बोज—इन ईरानी सम्बन्धों के लिये देखिये, कुन : अ० सं०, २१३ और चाद, ग्रियर्सन : ज० ए० सो० १९११, ८६१, ८०२; १९१२, २५५;

जी० के० नारीमैन; वही, २५५-२५७; मूहर : संस्कृत टेक्स्ट्स, २२२, ३५५, ३५६ ।

काण्डा-विश, १, १६४, को कान्दा-विष होना चाहिये ।

काण्वी-पुत्र, १, १६३, को काण्वायन के वाद आना चाहिये ।

कुमार-हारित, १, १९१, को कुम्र, १, १८० के वाद आना चाहिये ।

कुमल-बर्हिसू, १, १९१, को कुल्मल-बर्हिसू होना चाहिये ।

कुषुम्मक; ऋग्वेद के दोनों ही स्थलों पर एगर्टन (ज० अ० ओ० सो०, ३१, १३४) के अनुसार 'विष के थैले' का द्योतक है ।

कोश—नोट १ में 'लगभग दो मील' के स्थान पर '१½ मील' पढ़ें ।
देखिये फ्लीट : ज० ए० सो० १९१२, २३७ ।

ग्राम—'ग्रामिन्' (ग्राम का स्वामी) तैत्तिरीय संहिता (२. १, ३, २; ६, ७; २, ८, १; ११, १; ३, ३, ५; ९, २) में ग्राम अर्जित करने के लिये प्रयुक्त विभिन्न संस्कारों के सम्बन्ध में अक्सर आता है । यतः इन दशाधों में सजातों और 'समानों' पर प्रभुता प्राप्त करने का बहुधा उल्लेख है, अतः इस मान्यता के लिये भी अवसर देना चाहिये कि महात्वाकांक्षी व्यक्ति अपने अन्य ग्रामिनों पर भी, बिना राजा के हस्तक्षेप के ही, महान जमीन्दार का पद प्रदान करके प्रभुता प्राप्त कर सकते थे ।

चण्डातक, शतपथ ब्राह्मण (५. २, १, ८) और कात्यायन श्रौत सूत्र (१४. ५, ३) में स्त्रियों द्वारा धारण किये जानेवाले किसी भीतरी वस्त्र का द्योतक है ।

चमू—औत्तरेणवर्ग^१ का विचार है कि द्विवचन तक में यह शब्द उन दो पात्रों का द्योतक है जिनमें छनने से परिष्कृत करने तथा कोश में दुग्ध के साथ मिश्रित किये जाने के वाद सोम को उडेंला जाता था । आप का यह भी यह विचार है कि बहुवचन में इस तथा अन्य ऐसे पात्रों का सन्दर्भ है जिनमें तैयार करने के क्रम के विभिन्न स्तरों में सोम को रक्खा जाता था । इसी प्रकार कलश भी एक (एक वचन) अथवा अनेक (बहुवचन) पात्रों का द्योतक है; इसका द्विवचन रूप प्रयुक्त नहीं हुआ है क्योंकि दो पात्रों के लिये द्विवाचक चमू का ही प्रयोग सुरक्षित था । वाद के संस्कार में 'चमुओं' का स्थान 'द्रोण-कलश' और 'पूतभृत्' ने ले लिया, जो वाद में रूप और वस्तु (लकड़ी के नहीं वरन् मिट्टी के बने होते थे) की दृष्टि से कोश के वाद के नाम 'आधावनीय' के रूप में समन्वित हो गये । इस सिद्धान्त की प्रमुख

^१ स्त्री० नै० ६२, ४५९-४७० ।

कठिनाई यह है कि इसके द्वारा इस बात की व्याख्या नहीं होती कि 'कलश' कभी भी द्विवचन में क्यों नहीं आता। गेरडनर^२ इस प्रचीन मत को ही ग्रहण करते हैं कि 'चमू' से सोम दवाने के लिये प्रयुक्त दो पटरों का तात्पर्य है।

^२ ऋग्वेद, ग्लॉसर, ६०।

चाण्डाल, १, २८३, को चाक्षुष के वाद आना चाहिये।

जावाल—'जवाल के वंशज', के स्थान पर 'जवाला का वंशज' पढ़ें।

तलव, १, ३३६ को तर्त्य, १, १३६ के वाद आना चाहिये।

दृषद्वती—'वंशज' के साथ इस तदी का समीकरण (मैकडौनेल : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिथरेचर, १४२) गलत प्रतीत होता है। यह प्रायः निश्चित रूप से आधुनिक 'चितङ्ग' (रेवर्टी : ज० ए० सो० ६१, ४२२, के अनुसार इसका यही ठीक अक्षर-विन्यास है), अथवा 'चिनुङ्ग' (ओल्डम : ज० ए० सो० २५, ५८, तु० की० पृष्ठ ४९ के सामने का मानचित्र) है। देखिये सरस्वती, नोट ४।

देवभाग का भी तैत्तिरीय संहिता (६. ६, २, २) में यज्ञ की त्रुटि द्वारा सृज्यों को विनष्ट करनेवाले तथा वासिष्ठ सातहव्य के समकालीन के रूप में उल्लेख है।

निषाद—महाभारत (३. १०, ५३८) के अनुसार निषाद-गण, सरस्वती के विलीन होने के स्थान, विनशन, के भी उस पार वसे थे।

नुमेघ—सुमेघस् के स्थान पर सुमेघ पढ़ें।

पृष्ठवाह, वाद के साहित्य में कभी-कभी 'पृष्ठवाह' के रूप में आता है : यदि व्लूमफील्ड^१ का यह विचार ठीक है कि प्रष्टि 'प्र' और 'अस्' से व्युत्पन्न है, तो यह अपेक्षाकृत पहले का रूप हो सकता है। फिर भी, हमें नित्य मिलनेवाली पहले की परम्परा^२ को इसके विपरीत रखना होगा। मैकडौनेल^३ ने इस शब्द को 'पृष्ठवाह' के साथ सम्बद्ध किया है।

^१ ज० अ० ओ० सो०, २९, ७८ और वाड। | २३५।

^२ वाकरनाँगल आस्टिन्डिशे ग्रामेटिक, १, | ^३ वैदिक ग्रामर, पृ० ४८।

प्रतिष्ठा—वनावटी अपराधी की सहायता के साथ तैत्तिरीय संहिता (६. ५, ६, ३, ८, ४. ५) के इस वाक्य की तुलना की जा सकती है : 'मनुष्य शरण में आये एक भी वध्य व्यक्ति को समर्पित नहीं करते'। तु० की० परिदा।

प्रवर्त—आपस्तम्ब श्रौत सूत्र (१९. २३, ११; २४, १०) में 'कान

के अलंकरण' का आशय उचित प्रतीत होता है । तु० की० वौधायन श्रौत सूत्र, १३. ३१ ।

प्रष्टि से ब्लूमफील्ड^१ ने पथ प्रदर्शन करने के लिये अन्य अश्वों के आगे सन्नद्ध अश्व का सन्दर्भ माना है । कुछ स्थलों पर स्पष्टतः ऐसा ही आशय है, और यह 'प्र' तथा 'अस्' से, उपस्ति की भाँति, व्युत्पन्न हुआ है । इस शब्द को सामान्यतया^२ 'पर्शु' के साथ सम्बद्ध माना गया है ।

^१ ज० अ० ओ० सो० २९, ७८ और वाद । | २३०, २३५, मैकडौनेल . वैदिक
^२ वाकरनाँगल . आलिटिन्टिसे ग्रामेटिक १, | ग्रामर, पृ० ४३ ।

वाहीक—वाद की परम्परा के लिये देखिये मूहर : संस्कृत टेक्स्ट्स, २,^२ ४८२ और वाद; ग्रियर्सन : स्त्री० गे०, ६६, ६८, ७३ ।

ब्रह्मचर्य—इससे सम्बद्ध वाद के नियमों का ग्लेसर (स्त्री० गे०, ६६, १, और वाद) ने विस्तृत उल्लेख किया है ।

भङ्ग-श्रवस्, काठक संहिता (३८. १२) में मिलनेवाले एक मनुष्य के नाम का रूप है । तैत्तिरीय संहिता (६. ५, २) के समानान्तर स्थल पर भङ्गयश्रवस् है ।

मत्य, संहिताओं^१ के ब्राह्मण-स्थलों पर मिलता है । सायण^२ ने इसे 'खाद' के अर्थ में ग्रहण किया है ।

^१ तैत्तिरीय संहिता ६ ६, ७, ४, काठक | ९, २ । तु० की० 'सुमतिस्स' ।
संहिता २९ ४, पञ्चविंश ब्राह्मण २. | ^२ तैत्तिरीय संहिता, उ० स्था० पर ।

युग—तिलक^१ ने इस शब्द को अपने इस सिद्धान्त की पुष्टि के लिये प्रयुक्त किया है कि वेदों में आर्यों के ध्रुव-प्रदेशीय स्मृति के चिह्न हैं । इन्होंने इसमें 'मास' का आशय देखा है, और दीर्घतमस् (= सूर्य) की कथा का इस रूप में विवेचन किया है कि उसमें दस महीने के उस ध्रुव-प्रदेशीय ग्रीष्म का सन्दर्भ है जिसके बाद दो मास की रात्रि होती थी; आपने ऋतुओं के वर्णनों में भी इसके चिह्न का अस्तित्व माना है । फिर भी, यह सिद्धान्त उतना ही असम्भाव्य है जितना उनका यह विवेचन^२ कि इस सिद्धान्त के सन्दर्भ द्वारा ऐतरेय ब्राह्मण^३ आर्यों के जीवन के विभिन्न स्तरों का चित्रण करता है ।

^१ आर्कटिक होम इन वेदाज, १७२-१८७ । | ^२ उ० पु० ४५५ ।
^३ तु० की० ब्लूमफील्ड : ज० अ० ओ० | ^३ ७. १५ ।
सो० ३०, ६० ।

योजन—ऋग्वेद^१ में उषा को तीस योजन बताया गया होने के तथ्य के आधार पर तिलक^२ ने यह तर्क उपस्थित किया है कि इससे हिम-युग की ध्रुवप्रदेशीय उषा का तात्पर्य है। किन्तु यहाँ वैदिक मास के तीस दिनों की तीस उषाओं का ही सन्दर्भ है। देखिये मास

^१ १ १२३, ८। तु० की० ६ ५९, ६, की तीस उषायें।

और तैत्तिरीय संहिता ४ ३, ११, १ ^२ अर्कटिक होम इन वेदाज १०३-१७।

रक्षस् से आरम्भिक वैदिक काल में दानवों का तात्पर्य है, और इसे मानव-शत्रुओं के लिये केवल लाक्षणिक^१ रूप से ही व्यवहृत किया गया है। इससे किसी निश्चित जाति का तात्पर्य नहीं है।^२

^१ ऋग्वेद ३ ३०, १५-१७, ७ १०४,
१ २, मूत्रः सस्कृत टेक्स्ट्स, २^२,
३८९ और बाद।

६८। इसी प्रकार पिशाच भी वाद में
चाहे जो कुछ भी हों वैदिक साहित्य
में कोई जाति नहीं है।

^२ तु० की० ग्रियर्सन • त्सी० गे० ६६,

१. वर्षा-हू (मेढक), वाजसनेयि संहिता (२४. ३८) में अश्वमेध के बलि-प्राणियों में से एक है।

२. वर्षा-हू (जलों में उत्पन्न) तैत्तिरीय संहिता (३. ४, १०, ३) में एक पौधे (*Boerhavia procumbens*) का नाम^१ है।

^१ शब्द का रूप यह व्यक्त करता प्रतीत होता है कि 'म्' के स्थान पर 'हू' हो गया है, जैसा कि वाकरनांगलः आस्ट्रिन्डिशे ग्रामेटिक, १, २१७ (ख),

द्वारा प्रस्तुत अन्य दशाओं में भी था, वास्तव में वैदिकोत्तर सस्कृत में इसी आशय में 'वर्षा-भू' आता है।

पशा अक्सर 'अनुवन्ध्या'^१ के विशेष्य के रूप में आता है, सम्भवतः वन्ध्या गाय के वध के आर्थिक-पक्ष ने ही इस शब्द में 'वन्ध्या' के आशय को सम्मिलित कर दिया है।

^१ उदाहरण के लिये, तैत्तिरीय संहिता २ २, ९, ७, काठक संहिता १० १।

वाच्—पैशाची-वाणी की व्याख्या^१ के सन्दर्भ में ग्रियर्सन ने यह मत व्यक्त किया है कि शतपथ ब्राह्मण में उद्धृत असुरों की भाषा ('हे ऽलवो' = 'हे ऽरयः')^२ वाले स्थल को जितना मागधी के रूप में ग्रहण किया जा सकता

^१ त्सी० गे० ६६, ६६, नोट १।

| ^२ उ० पु० ६४, १०४ और बाद।

है उतना ही 'पैशाची' के रूप में भी, क्योंकि 'र्' का 'ल्' में अथवा 'य्' का 'व्' में होनेवाला परिवर्तन पैशाची में भी मिलता है। फिर भी स्टेन कोनो^२ का विचार है कि पैशाची भाषा विन्ध्य-क्षेत्र में व्यवहृत होती थी। वास्तव में 'हे ऽलवो' वाक्पद पर जोर देना अबुद्धिमत्ता होगी, क्योंकि पाठ अथवा आशय में से कुछ भी सर्वथा निश्चित^३ नहीं है। किन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि शतपथ ब्राह्मण^४ में अन्यत्र पूर्विय लोगों तथा असुरों को सम्बद्ध किया गया है : यह ग्रियर्सन के मत के विरुद्ध है।

^३ यह ध्यान रखना चाहिये कि जिस रूप में है उसमें यह वाक्पद वास्तविक प्राकृत भी नहीं हो सकता, क्योंकि इम दशा में हेऽलवो हेऽलव नहीं होगा।

^४ १३ ८, १, ५। सम्भवतः शतपथ ब्राह्मण (३ २, २३) के पूर्वस्थल का मत

भी यहाँ होगा, क्योंकि इसका प्रख्यात प्रणेता, याज्ञवल्क्य, परम्परा की दृष्टि से पूर्व से ही सम्बद्ध है। यदि शाण्डिल्य अशों में इसका सन्दर्भ होना तो डा० ग्रियर्सन का तर्क और प्रबल हो गया होता।

वासस्—तैत्तिरीय संहिता (२. २, ११, ४) में 'वासस्' की उपाधि के रूप में 'उपाध्यायपूर्वय', आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (१९. २०, २) के अनुसार 'चित्रान्त' का द्योतक प्रतीत होता है।

वेहत, काठक संहिता (३८. १०), मैत्रायणी संहिता (३. ११, ११), वाजसनेयि संहिता (२१. २१) और तैत्तिरीय ब्राह्मण (२. ६, १८, ४) में वशा के साथ संयुक्त रूप से आता है।

शम्या, ब्राह्मणों^१ में अक्सर उस लकड़ी के आधार का द्योतक है जिस पर चक्री के दो पत्थरों (दृपद्) में से निचला पत्थर रक्खा जाता था।

^१ तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ६, १, १, शतपथ ब्राह्मण १ १, १, २२, २, १, १६, ५ २, ३, २, बौधायन श्रौतसूत्र १ ७,

आपस्तम्ब श्रौतसूत्र १८. ८, १०, इत्यादि।

श्रुष्टि (अधिक शुद्धतः श्रुष्टि) आङ्गिरस को श्रुष्टिगु के पहले, और सुकुरीर को सुकेशिन् के पहले आना चाहिये।

संवत्सर—तिलक^१ यह तर्क उपस्थित करते हैं कि—ऋग्वेद^२ और

^१ आर्कटिक होम इन वेदाज २८०-२८८। | ^२ ० १०, १ (चत्वारिंश्या शरदि)।

अथर्ववेद^३ में गानु और विन के अनुसार निधियों को निषारण के विद्व विद्वाने हैं, किन्तु उनके द्वारा उद्धृत स्थलों में से किसी को भी सम्भवतः दृष्ट आशय में नहीं ग्रहण किया जा सकता ।

^३ १३ व, २४ ('पटवो शक्युः, बहुवचन, विभक्त के अनुसार, 'पटिवर' शीतक है) ।

